

इस भाशा दा अनुवाद एआई अनुवाद उपकरण दा उपयोग करदे होई कीता गेआ हा;
जेकर होई सकै तां कृपया मूल अंग्रेजी संस्करण दा संदर्भ लैओ।

प्रकाशितवाक्य दी व्याख्या
राहेंलोगोतेरेमा

लोगोस द्वारा प्रकाशितवाक्य दी व्याख्या ते क्लेयर एचसी गीत द्वारा रीमा

कॉपीराइट © 2023 क्लेयर एचसी गीत

21 अक्टूबर, 2023 दी

सारे पवित्रशास्त्र दे अंश ब्लू लेटर बाइबल, मुफ्त ऑनलाइन बाइबल अध्ययन संसाधनें थमां लैते गेदे ना

लेखक दी लिखत पूर्व सहमति दे बगैर इस कताब दी सामग्री दा कोई भी हिस्सा पूरी चाल्ली जां किश हिस्से च बदलाव नेईं कीता जाई सकदा, जां कुसै भी रूप च जां कुसै भी चाल्लीं कन्ने पुनर्प्रकाशित नेईं कीता जाई सकदा।

इस प्रकाशन दा मकसद ऐ के जितना हो सके उतना आत्माओं तक पहुंचना तां कि ओ सुसमाचार कूं समझण ते पवित्र आत्मा नाल मुहर लगन कि जिवें मुक्ति दा दिन नजदीक आ वेंदे, ते तुस्सां ए किताब कूं निम्नलिखित वेबसाइट उते मुफ्त एच पढ़ सग्दे वे: www.therhemaofthelord.com

[1] ऐ।सामग्री दी तालिका	ii
[2] प्रकाशितवाक्य दी भविष्यवाणी दी टाइमलाइन	xiii
[3] डैनियल दे 70 हफ्ते	xxi
[4] पढ़ना किवें	xxii
[5] "प्रभु दी रीमा दी वेबसाइट थमां वीडियो प्रस्तुतियां दी सूची	xxiii
.....	xxiv
सीहएर 1	1
(प्रकासित 1:1 ऐ-2) यीशु मसीह दा प्रगटीकरण	1
- ऐपरमातमा दे लोगो	1
[चित्र 1-क] परमात्मा दे लोगोस दा सुसमाचार	3
[चित्र 1-ख] शब्द (लोगोस & rhēma) दा	4
(प्रकासित 1:3 ऐ) भविष्यवाणी दे लोगो दे पाठक आशीर्वादित हन (समय नेड़े आ गया है)	5
(प्रकासित 1:4 ऐ) 7 कलीसियाएं & 7 आत्माएं	5
(प्रकासित 1:5 ऐ) यीशु मसीह: राजाएं दा शासक ते जमीन दे शासक	5
(प्रकासित 1:6 ऐ) यीशु मसीह: असेंगी परमेसरे ते उंदे पिता दे राजा ते याजक बनाया	6
(प्रकासित 1:7 ऐ) ओह बादल कत्रे औंदा ऐ	6
- ऐमनुख दा पुत्र&परमातमा दा पुत्र	7
(प्रकासित 1:8 ऐ) प्रभु, सर्वशक्तिमान	8
(प्रकासित 1:9 ऐ) परमेसरे दा लोगो, यीशु मसीह दा गवाह	8
[चित्र 1-ग] (प्रेरित) शक्ति ते अधिकार कत्रे चले	10
(प्रकाशितवाक्य १:१०-११) प्रभु दे दिन (एक तुरही, आत्मा च)	11
- ऐपैहला&आखरी	11
[चित्र 1-घ] आत्मा दा फल	12
(प्रकासित 1:12-13 ऐ) सात मोमबत्ती	13
(प्रकाशितवाक्य 1:14-15 ऐ) उंदे सिर, अक्खीं, पैर, & आवाज़ दे सफेद बाल	13
(प्रकासित 1:16 ऐ) सात तारे & इक तेज दोधारी तलवार	14
(प्रकाशितवाक्य १:१७-१८) पैहला ते आखरी (नरक ते मौत दी चाबी)	15
(प्रकाशितवाक्य 1:19-20) 7 सितारें (7 कलीसियाएं दे स्वर्गदूत) & 7 सोने दे मोमबत्ती (7 कलीसियाएं) दा रहस्य)	15
.....	15
अध्याय 2 दा	16
(प्रकासित 2:1-7 ऐ) (१) इफिसुस दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी	16
- इफिसुस दी कलीसिया: अपने पैहलें प्रेम गी छड्डी ओड़या	16
- पैह्ला कम्म करदा ऐ	18
[चित्र 2-क] कम्मूनियन दा	20
- जीवन दा पेड़: परमात्मा दे जन्नत दे बिच्च जीतने आलें लेई	21
(प्रकाशितवाक्य २:८-११) (२) स्मर्ना दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी	22
- तुसेंगी 10 दिनें तकर संकट होग- इब्रानी, इस्राएल, & यहूदियां	24
[चित्र 2-ख] आदम तों लेइयै यीशु तकर दी पीढ़ियां	26
[चित्र 2-ग] इस्राएल & इस्राएल दे पुत्र	28
[चित्र 2-घ] प्रभु (तुंदा) परमात्मा बनदा ऐ	29
तुहाडे कोल 10 दिन तक कष्ट होवेगा (जीवन दा मुकुट)	30
[चित्र 2-ई] प्रभु दा फसह (चले बनाम प्रेरित)	32
[चित्र 2-च] परमात्मा गी इक नासरी (सिर दे बाल)	33
- दूजी मौत	34
(प्रकाशितवाक्य २:१२-१७) (३) पर्गमोस दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी	34
- तेज 2 धार वाली तलवार	34
[चित्र 2-जी] म्यान, तलवार, & दो धार वाली तलवार	36
- छिपे दा मन्ना	37

[चित्र 2-ज] छिपे दा मन्ना	37
[चित्र 2-ि] नमें नियम दी पवित्रशास्त्र दी व्याख्या	38
(प्रकाशितवाक्य 2:18-29 ऐ) (4) थियातीरा च कलीसिया दे सुर्गदूत गी	39
- तुंदे कम्मं, प्यार, सेवा, विश्वास, धैर्य, & आखरी गी पैहे कोला बी मता होने आस्ते	40
[चित्र 2-ज] पश्चाताप, बपतिस्मा, & पवित्र आत्मा	41
[चित्र 2-क] पवित्र आत्मा दा वरदान	42
[चित्र 2-ि] आस्था	44
- जो लोग बिना पश्चाताप दे ईजेबेल गी दुखी कित्ता: महान संकट च सुट्टी दिता गेआ	45
- जेके इजबेल दे सिद्धांत दे बगैर: उदे आने तकर मजबूती कन्ने पकड़ना चाइदा	45
- जीतने आले: गैर-यहूदी राष्ट्रें उप्पर अधिकार दिता गेदा	45
.....	46
अध्याय 3 दा	47
(प्रकाशितवाक्य ३:१-६) (५) सरदीस दी कलीसिया दे सुर्गदूत (जीवन दी किताब विच नाम)	47
- परमेसरे दे सामने कम्मं गी पूरा नेई होंदा	47
[चित्र 3-क] 1. फसह दा दिन 2. बिना खमीर दी रोटी	49
[चित्र 3-ख] यीशु मसीह दी पीढ़ी (आदम तों परमात्मा तक यीशु दी वंशावली)	49
[चित्र 3-ग] इक कठोर कहावत (The logos) & परमात्मा दे कम्मं (2/2)	50
- प्रभू चोर दे रूप च औग, पर तुसें गी उंदे औने दी घड़ी नेई पता लगगी जाग	51
- सरदीस च किश लोकें दे कपड़े अशुद्ध नेई न, सफेद & योग्य च	51
- जीतने आलें गी सफेद कपड़े पाना होग & उंदे नां जीवन दी किताब च होंगन	51
(प्रकाशितवाक्य 3:7-13 ऐ) (६) फिलाडेल्फिया दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी	52
- जिन्हां ने लोगो रखे हन ते उहदे नां दा इन्कार नहीं कीता	53
[चित्र 3-घ] प्रभु दा फसह (नया नियम)	56
- शैतान दा आराधनालय	57
- लोगो जो रखे थे, उन्हें प्रलोभन की घड़ी से बचाया जाएगा	57
- अपने मुकुट गी मजबूती कन्ने पकड़ो	57
- विजयी: परमात्मा दे मंदिर च इक खंभा बनाया	58
- ऐमंदिर दा पर्दा	60
[चित्र 3-ई] यीशु दे सूली च चढ़ाने दा संभावित समें दा क्रम	62
(प्रकाशितवाक्य 3:14-22 ऐ) (7) लौदीकिया दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी	64
- की व्याख्या करनाइं:१ ऐ	67
- ना ठंड ते ना गरम	67
[चित्र 3-च] 3. पैहे-फल	69
- लुकवार्म	70
[चित्र 3-छ] दृष्टांत: स्वर्ग दा राज्य & परमात्मा दा राज्य	72
- पश्चाताप करो, जदूं ओह तुसेंगी सज़ा दिंदा ऐ	74
- प्रभु दरवाजे ते खटखटांदा ऐ	75
- विजयी मेमने दे कन्ने उंदे सिंहासन उप्पर बैठी जांगन	75
.....	75
अध्याय 4 दा	76
(प्रकाशित 4:1-4 ऐ) स्वर्ग च इक दरवाजा खुल्ली गेआ: मेमना & 24 बुजुर्ग	76
- स्वर्ग च सिंहासन गी दिक्खना आत्मा च	76
- परमात्मा दे सिंहासन दा वर्णन	76
- 24 बुजुर्ग अपने 24 गद्दी पर बैठे	76
(प्रकाशित 4:5 ऐ) 7 अंग दे दीये & परमात्मा दी 7 आत्माएं	77
(प्रकाशित 4:6-7 ऐ) चार (4) जीव	77
(प्रकाशित 4:8 ऐ) प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान (जो हा, ते ऐ, ते आने आला ऐ)	78
- ऐप्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान	78
- कीयीशु मसीहऐनाथसाढ़ाईश्वरसारे चीजे दे बहाली दे समें तकर ?	81
- ऐकु'न ऐमल्कीसेदेक ने दी	82

- ऐमसीह अब्राहम दे पैहलैं गै हा.....	84
- ऐप्रभु दा मसीह.....	87
- ऐटीओह सर्वशक्तिमान प्रभु(प्रकासित 1:8 ऐ) तेप्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान(प्रकासित 4:8 ऐ).....	91
(प्रकासित 4:9-11 ऐ) स्वर्ग ते धरती दे रचने आले परमात्मा दी पूजा सुर्ग च कीती जंदा ऐ.....	91
.....	92
अध्याय 5 दा	93
(प्रकाशितवाक्य 5:1-6) 7 मुहरें कन्नै सील कीती गेदी इक किताब.....	93
- कोई बी सीलबंद किताब खोलने दे काबिल नेई ऐ.....	93
- यहूदा दे गोत्र दा शेर, दाऊद दी जड़ किताब दे 7 गी खोलने आस्तैमोहरएस.....	93
- मारे गेदे मेमने दे 7 सींग & 7 अक्खां (The 7 Spirits of God).....	94
(प्रकाशितवाक्य 5:7-14 ऐ) पवित्र संत (जो मसीह विच यीशु दे नाल सोंदे हन) कूं परमेश्वर दे राजा ते याजक बणा डित्ता वेंदे.....	96
- 4 जीव & 24 बुजुर्गा विच पवित्र संतां दी प्रार्थना (एक वीणा & धूप नाल भरे सोने दे कटोरे).....	96
- पवित्र संत (जो मसीह विच यीशु दे नाल सोंदे हन) कूं परमेश्वर दे राजा ते याजक बणा डित्ता वेंदे.....	96
- सिंहासन दे बारे च स्वर्गदूतें दी गिनतरी.....	98
- लायक है मेमना जो मारा गया.....	99
- परमात्मा ते मेमने दा सिंहासन (स्वर्ग ते धरती दे सारे प्राणी परमात्मा & मेमने दी पूजा करदे न).....	99
.....	99
अध्याय 6 दा	100
(प्रकाशितवाक्य 6:1-2) 1st सील दा खुलना (एक सफेद घोड़ा, इक धनुष & इक मुकुट).....	100
- इक सफेद घोड़ा & इक धनुष (मुकुट दित्ता गेदा).....	100
[चित्र 6-क] ऐ। वाचा, बाहर दा खतना, अंदर दा खतना.....	103
(प्रकाशितवाक्य 6:3-4 ऐ) 2 सील दा खुलना (एक लाल घोड़ा, जमीन तों शांति लेओ).....	104
(प्रकाशितवाक्य 6:5-6 ऐ) 3 सील दा खुलना (काला घोड़ा, नापने आस्ते जुआ दी जोड़ी).....	105
- इक डेनारी च गेहूं दा इक सूखा नाप, इक डेनारी च जौ दा 3 नाप (The oil & the wine are not offended).....	106
- ऐधरती दा दसवां हिस्सा(पहले फल दा पैहला, ते पैहला फल).....	108
एच इक पाप दी बलिदान.....	109
आई लगातार मांस दी प्रसाद.....	109
जम्मू लगातार मांस ते पेय चढ़ावा (दो मेमनेएच 3532 ऐ: इक सवेरे + इक शाम गी).....	109
एल लगातार होमबलि.....	110
[चित्र 6-ख] “फसह दी पर्व” कोला दिन पैहे.....	115
[चित्र 6-ग] “फसह दी पर्व” कोला छह दिन पैहे.....	115
- ऐकनक.....	116
- मतलब “इक डेनारिओन”.....	117
- ऐगेहूं दा, ऐजौ दा,तेतेल दा, ऐशराब दा.....	119
(प्रकाशितवाक्य 6:7-8 ऐ) 4वीं मुहर (एक हरे घोड़ा: मौत & नरक दा खुलना).....	120
- ऐफिरौन दे पैहले फल.....	121
- ऐजेंदगी च जी उठनाबनाम न्याय दे लिए जी उठना.....	121
[चित्र 6-घ] (मांस, आत्मा, ते आत्मा) भजन संहिता 23.....	126
(प्रकाशितवाक्य 6:9-11 ऐ) 5वीं मुहर दा उद्घाटन (The slain souls).....	128
प्रभु (despotēs) कब न्याय करग & खून दा बदला लैग.....	128
(प्रकाशितवाक्य 6:12-17 ऐ) 6वीं मुहर दा खुलना (मेमने दे गुस्से दा बड़ा दिन आ गया).....	129
- ऐसूरज, चंद्रमा, ते तारे.....	131
[चित्र 6-1] सूरज, चंद्रमा, ते तारे दा आध्यात्मिक महत्व.....	132
[चित्र 6-2] बक्ख-बक्ख किस्म दे शरीरें दा आध्यात्मिक महत्व.....	135
[चित्र 4-क] आदम दी पीढ़ियां ते अब्राहम + जनानी.....	136
[चित्र 6-ई] पैहा आदम & आखरी आदम.....	137
[चित्र 6-च] खून दा खेत (एक कब्जा).....	137
.....	137
अध्याय 7 दा	138
(प्रकासित 7:1 ऐ) जमीन दे 4 कोने पर 4 स्वर्गदूत.....	138

(प्रकाशितवाक्य 7:2-3 ऐ) परमात्मा दे सेवक (मथे ते मुहर लगी).....	138
(प्रकाशित 7:4-8 ऐ) 144,000 (पृथ्वी उप्पर परमात्मा दी इक कौम, इस्राएल, ज्ञानी कुंवारी) सील कर दिता.....	139
- नंबर दा महत्व12, ऐ1,000 दी, ऐ &10 हजार दीबाइबल च लिखे दा ऐ.....	139
- ऐ144,000 दी(मसीह दे पैहले फल)	141
- ऐमसीह च जी उठने दा क्रम.....	141
[चित्र 7-क] 3. पैहे-फल (द 144,000)	143
(प्रकाशित 7:9-12 ऐ) इक बड्डी अनगिनत भीड़ (सब राष्ट्र, कबीले, लोक, ते भाशाएं च).....	144
- ऐबड्डी असंख्य भीड़	144
(प्रकाशितवाक्य 7:13-15 ऐ) जो महासंकट तौ बाहर निकलदे हन ओह सफेद वस्त्रां विच सजदे हन.....	144
(प्रकाशितवाक्य 7:16-17 ऐ) मेमने दा (टीhe shepherd) उनेंगी खिलाना & पानी दे जिंदे फव्वारे च लेई जाहग.....	145
.....	145
अध्याय 8 दा	146
(प्रकाशित 8:1-5.) 7वीं मुहर दा खुलना.....	146
- पवित्र संत दी प्रार्थना परमात्मा दे सामने चढ़ी गई	146
[चित्र ८-१] प्रभू दे सात त्यौहार.....	148
(प्रकाशितवाक्य 8:6) 7 तुरही कन्ने 7 सुर्गदूत बजाने दी तैयारी करदे न	149
(प्रकाशित 8:7 ऐ) 1st एंजेल ने तुरही बजाई (1/3 पेड़ & सारी हरी घास जली गई)	149
(प्रकाशितवाक्य 8:8-9) 2nd स्वर्गदूत ने तुरही बजाई (1/3 समुद्र, जीव, & जहाज नष्ट हो गए)	149
(प्रकाशितवाक्य 8:10-11) 3वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई (वर्मवुड नदियों दे 1/3 हिस्से पर गिर गया).....	149
(प्रकाशितवाक्य 8:12-13) 4वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई (1/3 सूरज, चंद्रमा, & तारे न्हरे हो गए)	150
.....	150
अध्याय 9 दा	151
(प्रकाशितवाक्य ९:१-५) 5वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाया (The 1st owe)	151
(प्रकाशितवाक्य ९:६) मौत मनुखें कोला फरार होंदी ऐ	151
(प्रकाशितवाक्य ९:७-१०) टिड्डियां दी उपमा (5 महीने तक मनुखें गी चोट पजाना).....	152
(प्रकाशितवाक्य ९:११) अथाह गड्डे दे दूत दा राजा (अपोलियोन).....	152
- ऐतबाहीबनाम।मुक्ति.....	153
(प्रकाशितवाक्य ९:१२) 1 वी हाय दा अंत.....	154
(प्रकाशितवाक्य ९:१३-१६) 6वें सुर्गदूत ने तुरही बजाई (2 दा कर्जा: महान नदी यूफ्रेटिस दे 4 सुर्गदूत ढीले हो गए)	154
- ऐनंबर 1,000, 10,000,&10 हजार दी	155
- ऐइक डबल हिस्सा.....	155
(प्रकाशितवाक्य ९:१७-१९) 1/3 आदमी अग्ग, धुंए, & गंधक कन्ने मारे जंदे न.....	156
(प्रकाशितवाक्य ९:२०-२१) बाकी मनुखें ने अपने हत्ये दे कम्में दा पछतावा नेई कीता	156
.....	157
अध्याय 10 दा	158
(प्रकाशितवाक्य १०:१-२) इक छोटी जेही किताब (समुद्र उप्पर ताकतवर परी दा दाहिना पैर & जमीन उप्पर बाएं पैर)	158
(प्रकाशित 10:3-4 ऐ) 7 गरजों द्वारा बोली गई बातों पर मुहर लगा दी.....	158
(प्रकाशित 10:5-6 ऐ) सुर्गदूत ने परमात्मा (आकाश, धरती, ते समुंदर दा सृष्टिकर्ता) दी कसम खादी.....	158
(प्रकाशित 10:7 ऐ) परमात्मा दा रहस्य उसलै पूरा होई गेआ जिसलै 7 th तुरही बजने आली ऐ.....	159
(प्रकाशित 10:8-11 ऐ) छोटी किताब (Receive & devour to prophesy again)	160
>> [चित्र 10-1] इस संसार दे अंत च दिनें दे निशान (यीशु & उंदे चले)	162
- इस संसार दे अंत च मनुख दे पुत्र & प्रभु दे औने दे निशान.....	162
(१) ऐ.दिन दा आना: जदुं यहूदी ग् लांदे हन, “धन्य ऐ जेका प्रभु दे नां कन् ने औंदा ऐ”	162
(२) ऐ.मनुख दे पुत्र दा आना(दिन & घंटे दा पता नहीं).....	163
(३) ऐ.प्रभू दा आना(घंटे दा पता नहीं).....	164
उ. इस संसार दे अंत दा निशान की होवेगा (2 निशान)?.....	164
- ऐ टीउसने पहले संकेत दे(इस दुनिया दे अंत दा)	164
कष्ट दा अंत(टीटिका जिंदा चले दुए निशान दे सामने सामना करंगन,प्रकाशितवाक्य 13:15 ऐ)	164
- चले गी डिलीवर कीता जंदा ऐकष्ट दा	166
- कई नाराज हो जाओ	166

से संक्रमणकष्ट दागीबड़ी मुसीबत	168
- ऐदूजी निशानी(दुनिया दे अंत दा).....	168
बी.जदुं एह गल लां (मनुख दे पुत्र दा आना) होने आली ऐ, तां केह निशानी होग?	169
- ऐटीओह मनुख दे पुत्र दे ओने दे संकेत दिंदा ऐ (पृथ्वी उप पर नजारा)	169
ग. एह केह संकेत होग जे एह सारी गल्लां (दानियेल दा 70वां हफ्ता) खत्म होई जांगन?.....	170
- कदूं भागना (संकट दे तुरंत बाद & महान संकट दी शुरुआत).....	170
<बड़ी मुसीबत>.....	170
D. एह गल्लां (प्रभु दा आना) कदूं होंगन?	171
- ऐउजाड़ दी घणित	171
- ऐबदला लेने दे दिन.....	171
- ऐचुने हुए के लिए दिन छोटे होंगे.....	173
ई. एह गल्लां (मनुख दे पुत्र दा आना) कदूं होंगन?.....	173
1 144,000 (The coming of...) दे वास्ते 1 वीं रैप्चरमनुख दा पुत्र).....	173
- मनुख दे पुत्र दे आने आस्ते दिन & घड़ी अनजान न	173
- ऐलोगो & रेमा दे खिलाफ निंदा.....	175
[चित्र 10-ख] यीशु दे बगल च सुली च चढ़े गेदे दो चोर	176
2महान संकट संतों के लिए 2nd रैप्चर(प्रभु दा आना)	178
- ऐघैटाके आने के लरए अनजान शैप्रभू.....	178
- ऐदिन ते घड़ी.....	179
[चित्र 10-2] दी 3 फसल & दी 4 घड़ियां.....	181
[चित्र 10-ग] प्रभु यीशु मसीह दा जी उठना	185
- ऐलोगो गी तुंदे कानें च थल्ले डूबने देओ	186
च।तेरे आने दा की निशानी होग(प्रभु दा आना)?	190
- ऐमसीह विरोधी, ऐझूठे मसीह, ऐ & झूठा नबीएस	191
जी।एह गल्लां (प्रभु दा आना) कदूं होंगन?	191
- परमेसरे दे लोकें दे शरीरें दा केह होंदा ऐ ?	192
[चित्र 10-3] मरे दे जिंदा होना.....	195
.....	195
अध्याय 11 दा	196
(प्रकाशितवाक्य ११:१-२) परमात्मा दे मंदिर नाप.....	196
(प्रकाशित 11:3-4 ऐ) दो (2) गवाह.....	197
- दो (2) गवाह कौन हैं ?.....	197
- इक जंगली जैतून दा पेड़ & इक अच्छा जैतून दा पेड़	198
(प्रकाशितवाक्य 11:5-6) दो गवाहें दा अधिकार	202
- ऐप्रभु दे महान & भयानक दिन तों पहलां.....	203
(प्रकाशित 11:7 ऐ) जानवर अथाह गड्डे कोला बाहर निकलदा ऐ (2 गवाहें गी मारदा ऐ).....	204
(प्रकाशित 11:8 ऐ) दो गवाहों की लाश.....	204
[चित्र 11-क] 1. फसह दा दिन.....	208
(प्रकाशित 11:9 ऐ) दो गवाहें दी लाशें गी सारें गी 3 1/2 दिनें तगर दिक्खना पौंदा ऐ	209
(प्रकाशितवाक्य ११:१०-१३) 2 नबी दा जी उठना	209
(प्रकाशित 11:14 ऐ) 2 वी हाय दा अंत (परमात्मा दा रहस्य उस वेले पूरा होंदा है जिस वेले 7वीं तुरही बजने आली है)	210
>>पवित्र संतों दा 2nd रैप्चर(परमात्मा दा रहस्य उस वेले पूरा हो जांदा है, जदों 7वीं तुरही बजण वाली है).....	210
(प्रकाशित 11:15-16 ऐ) 7वें सुर्गदूत ने तुरही बजाई (साडा प्रभु ते ओस दा मसीह इस दुनिया दे राज्यें गी बहाल करदे न).....	211
- ऐसाडा परमात्मा सदा राज करदा ऐ	211
- ऐजी उठने दे पुत्र मौत दा अनुभव नेई करंगन कीजे ओह कदें बी नेई मरंगन	212
- ऐअंत आ जांदा ऐ.....	212
- ऐमरे दे जी उठना	213
- ऐप्रभु जी (क्योरिओस)साद्दाईश्वर(थियोस) दा) = इकनाथ(क्योरिओस).....	213
- सदुकी (कोई जी उठने पर विश्वास नेई करदे).....	214
- ऐयीशु दी सुर्ग च अपने पिता गी प्रार्थना (प्रभु परमेसरे दा नां).....	215

- नाम दा प्रयोग "प्रभु परमात्मा"	219
[चित्र 11-ख] रेमा परमेसरे दे चुने गेदे गवाहें आस्तै ऐ	221
(प्रकाशित 11:17 ऐ) प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान राज करदा ऐ	222
(प्रकाशित 11:18 ऐ) प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान (परमात्मा) दा गुस्सा & इनाम	222
- ऐपरमात्मा दा गुस्सा(प्रभु दा बड़ा ते भयानक दिन).....	223
- 3 किस्म देइनाम दे	223
(प्रकाशित 11:19 ऐ) परमेसरे दा मंदर खुलदा ऐ (मेम्ने दा ब्याह शुरू होंदा ऐ)	228
.....	228
अध्याय 12 दा	229
(प्रकाशितवाक्य 12:1-2) स्वर्ग च इक बड्डा निशान: जनानी	229
(प्रकाशितवाक्य 12:3) स्वर्ग च इक होर निशान प्रकट होंदा ऐ (इक महान लाल अजगर जिसदे 7 सिर, 10 सींग, & 7 मुकुट होंदे न)	229
- ऐ10 मुकुट बनाम 7 मुकुट	231
(प्रकाशितवाक्य 12:4-5) इक जनानी (स्वर्गीय यरूशलेम) ने इक पुरुष पुत्र पैदा कित्ता (The 144,000)	233
[चित्र 12-क] धरती & जमीन	236
(प्रकाशितवाक्य 12:6) जनानी 1260 दिन तक पोशण वास्ते जंगल विच भाग गई	237
(प्रकाशितवाक्य 12:7-9) स्वर्ग च युद्ध (महान अजगर & ओदे सुरगदूतें गी स्वर्ग थमां जमीन उप्पर सुट्टी दित्ता गेआ)	237
- महान अजगर, पुराना नाग, शैतान & शैतान	237
(प्रकाशितवाक्य 12:10-11 ऐ) उद्धार, शक्ति, साढ़े परमेसरे दा राज, & परमेसरे दे मसीह दा अधिकार आया ऐ	239
(प्रकाशितवाक्य 12:12-13 ऐ) अजगर, जिसदे कोल थोड़ा समां होंदा ऐ, ओह जनानी गी सतांदा ऐ (शैतान दा गुस्सा)	239
(प्रकाशित 12:14 ऐ) जनानी गी "इक साल, साल ते आधे साल तकर पोशित कीता जंदा ऐ"	240
[चित्र 12-ख] ऐ।इक जमानातेबारतेआधा वक्त(वक्त दा बंटवारा, जांआधा)	240
- नए बाबुल दे राजा दा सपना & दर्शन.....	244
- ऐउजाड़ दी घृणित गल्ल (दानियल दे 70 हफ्ते,दान ९:२४-२७ ऐ)	245
- ऐ१,२९० दी&१,३३५ दिन दा	246
- ऐ2300 शामतेसवैरे सवैरे(पवित्र संत 2300 दिन तक धर्मी कित्ता जांगन)	247
[चित्र 12-ग] 2,300 शाम ते सवैरे	249
(प्रकाशितवाक्य 12:15-16 ऐ) अजगर दे मुंह तों बाहर कड्डी गेदी बाढ़ गी जमीन ने निगल लेया	249
(प्रकाशितवाक्य 12:17-18 ऐ) गुस्से च अजगर उस जनानी दे बीज दे बचे दे बचे दे कन्ने युद्ध करने चली गेआ	249
.....	249
अध्याय 13 दा	250
(प्रकाशित 13:1 ऐ) समुंदर तों बाहर 1st जानवर (7 सिर, 10 सींग, & 10 मुकुट निंदा करने आला नाम कन्ने)	250
(प्रकाशितवाक्य 13:2) समुंदर दे बाहर 1st जानवर (एक तेंदुआ, इक भालू, & इक शेर)	250
(प्रकाशित 13:3 ऐ) 7 सिरें च इक (रोमन राज्य) गी मारी दित्ता गेआ पर ठीक होई गेआ (नमां रोमन राज्य)	252
(प्रकाशित 13:4 ऐ-7) अजगर ते 1st जानवर दी पूजा जमीन उप्पर रौह्ने आह्ने सारें करदे न	253
- ऐ42 महीने दा	253
- ऐइक समें ते समें ते समें दा बंड(7 बारजां7 साल दा, ऐदान 4:23-25 ऐ)	254
- ऐ12 महीने दा मतलब	255
(प्रकाशितवाक्य 13:8-9) 1st जानवर दी पूजा जमीन उप्पर रौह्ने आह्ने सारें करदे न	257
(प्रकाशित 13:10 ऐ) पवित्र संतां दा धीरज ते विश्वास (कैद च लैता & मारी दित्ता जा)	259
(प्रकाशित 13:11 ऐ) 2nd जानवर जमीन तों बाहर (मेमने दी तरह 2 सींग होंदे ने)	259
- जानवर कुन हन ?	259
(प्रकाशितवाक्य 13:12-13 ऐ) 2nd जानवर जमीन दे निवासियें गी 1st जानवर दी पूजा करने लेई मजबूर करदा ऐ	261
(प्रकाशित 13:14 ऐ) 2nd जानवर निशान दे जरिए जमीनी निवासियें गी धोखा दिदा ऐ	262
(प्रकाशितवाक्य 13:15 ऐ) आत्मा गी बोलने आस्तै जानवर दी मूर्ति गी दित्ता जंदा ऐ	262
(प्रकाशित 13:16 ऐ) 2nd जानवर जमीनी बसनीकें गी उंदे सज्जे हत्य जां मत्ये पर निशान पाने लेई मजबूर करदा ऐ	263
(प्रकाशित 13:17 ऐ) कोई बी निशान, जानवर दा नां, & उंदे नां दी नंबर दे बिना खरीदने या बेचने आला नेई	263
(प्रकाशित 13:18 ऐ) ६६६ (पशु दी गिनती गिन, जो किसे मनुख दी गिनती है)	264
- ऐ6.(इक आदमी दी नंबर)	265
[चित्र 13-क] सृष्टि दे कदम	267
- ऐबिबबनाम।उपमा	268

[चित्र 13-ख] आदमी दी पसली & इक मांस	270
[चित्र 13-ग] हाबिल दा कैन कोला बी मता उत्तम चढ़ावा	271
[चित्र 13-घ] आदम दी पीढ़ियें दी किताब	272
- ऐ6. (6वें दिन दा आदमी)	272
- ऐ660 ऐ(जानवर दा नंबर)	272
- ऐ666 ऐ(इक माहनू दी गिनतरी जेहड़ा जानवर दा ऐ)	273
- ऐ666 ऐ(अदोनिकम)	273
- ऐ666 ऐ(सुलेमान ने दी)	273
[चित्र १३-०] धरती उप्पर पुराना तम्बू (हथें कत्रै बने दा पुराना यरूशलेम)	277
[चित्र 13-1] 7 राज्य (दानियल दा सपना ते दर्शन)	277
[चित्र 13-2] स्वर्ग दी 4 आत्माएं (दानियल 7-8)	279
- ऐअनन्त वादे आस्ते खतना दा वादा	283
- ऐदिनों का प्राचीन	284
- ऐअनन्त राज दा	284
[चित्र 13-3] दानियेल & प्रकाशितवाक्य च जानवर	285
[चित्र १३-४] बाबुल दा बड्डा शहर	289
.....	289
अध्याय 14 दा	290
(प्रकाशितवाक्य 14:1-5 ऐ) इक मेमना & 144,000 (बुद्धिमान कुंवारी) सिथ्योन पहाड़ उप्पर खड़ोते दे (1st rapture harvest)	290
>>1 वां रैचर दा(बुद्धिमान कुंवारीआं वास्ते पहला रैचर): मनुख दे पुत्तर दा आना	290
- ऐ3 किस्म देविइर्गिन करदा ऐ(ज्ञानी, ऐमूर्ख लोग, तेदूजा)	291
- ऐटीओह आखरी च पैह्ला होऐ, ऐपैहला आखरी	293
- ऐअंजीर दे पेड़ दा इक दृष्टांत(अंजीर दा पेड़&सारे पेड़)	294
[चित्र १४] इस्राएल दे पुत्तरें आस्ते प्रभु दे सत्त पर्व	295
(प्रकाशितवाक्य 14:6-7 ऐ) स्वर्ग दे बिच्च 1 सुर्गदूत (अनन्त सुसमाचार)	296
(प्रकासित 14:8 ऐ) स्वर्ग दे बिच्च 2 सुर्गदूत (बाबुल दा पतन महान शहर)	296
(प्रकासित 14:9-11 ऐ) स्वर्ग दे बिच्च 3 वां स्वर्गदूत (परमातमा दा गुस्सा)	296
(प्रकासित 14:12-13 ऐ) धन्य हन ओह मरे दे जो अज्ज तों प्रभू विच मरदे हन	297
<प्रभु यीशु दा दिन>	297
(प्रकाशितवाक्य 14:14-16 ऐ) द हार्वेस्ट (3 वी घड़ी दा 2nd रैचर)	298
>>2 वी रैचर दा(मूर्ख कुड़ियां दी 3मीं पहरा): प्रभु यीशु मसीह दा आना	298
(प्रकाशितवाक्य 14:17-20) जमीन दी बेल दे गुच्छे दी फसल (परमातमा दा गुस्सा)	298
- खून दा बूहटे (1,600 फरलांग) च निकली आया	300
- ऐ1,000 दी	300
- ऐ600 दा	300
- आने दामनुख दा पुत्तरते नूह दे दिन	302
- ऐलोगोस & रेमा द्वारा भगवान दा फैसला(नूह दे दिनां दे समान)	302
.....	303
अध्याय 15 दा	303
(प्रकासित 15:1 ऐ) परमात्मा दा गुस्सा (7 आखरी विपत्तियां)	303
(प्रकाशितवाक्य 15:2) अग्न कत्रै घुलदे शीशे दे समुंदरे उप्पर खड़ोते दे ओवरकमर	303
(प्रकासित 15:3-4 ऐ) मूसा दा गीत & मेमने दा गीत (व्यवस्था दे बगैर परमात्मा दी धार्मिकता प्रगट होंदी ऐ)	304
(प्रकासित 15:5 ऐ) सुर्ग च गवाही दे तम्बू दा मंदर दा उद्घाटन	305
(प्रकासित 15:6 ऐ) 7 प्लेग दा	305
(प्रकासित 15:7 ऐ) 7 सोने दी शीशी (परमातमा दे गुस्से नाल भरी)	305
(प्रकासित 15:8 ऐ) कोई मंदिर च दाखल नेई होई सकदा (जदू तकर 7 सुर्गदूतें दी 7 विपत्तियां खत्म नेई होई जदियां)	305
.....	306
अध्याय 16 दा	307
(प्रकाशितवाक्य 16:1) परमात्मा दे गुस्से दी 7 शीशी (3 वां बकाया)	307
(प्रकाशितवाक्य 16:2) 1 शीशी (जमीन पर): इक बुरा ते गंभीर घाव	307

(प्रकाशित 16:3 ऐ) 2 वी शीशी (समुद्र पर): हर जिंदा आत्मा मर गई.....	307
(प्रकाशितवाक्य 16:4-7 ऐ) 3 वी शीशी (नदी ते पानी दे फव्वारे उप्पर): खून बनी गई.....	307
(प्रकाशितवाक्य 16:8-9) 4वीं शीशी (सूरज पर): आग च झुलसे दे आदमी.....	308
(प्रकाशितवाक्य 16:10-11 ऐ) 5वीं शीशी (पशु दे सिंहासन ते): राज्य (इक दुनिया दा) न्हरे नाल भरा हो गया.....	308
(प्रकाशितवाक्य 16:12-14 ऐ) 6वीं शीशी (महान नदी यूफ्रेटिस पर): पानी सूखदा ऐ & 3 अशुद्ध आत्माएं.....	308
३कोड़े दे समान अशुद्ध आत्माएं.....	309
(प्रकाशित 16:15 ऐ) प्रभु ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह चोर दे रूप च औग.....	310
<प्रभु दा दिन>.....	310
- ऐशदिन प्रभु दे नाल=ए 1000 साल दा(१,००० दाबरे= 1 दिन दा).....	310
<(3 वॉच दा 2nd रैप्पर)प्रभु यीशु मसीह दा आना>.....	310
<साडे प्रभु यीशु मसीह दा दिन>.....	311
(प्रकाशितवाक्य 16:16 ऐ) आरमागेडोन दी शुरुआत (सर्वशक्तिमान परमात्मा दे महान दिन दी लड़ाई).....	311
(प्रकाशितवाक्य 16:17-18 ऐ) 7वीं शीशी (हवा च): एह कीता जंदा ऐ (जमीन पर इक शक्तिशाली & महान भूकंप).....	312
(प्रकाशितवाक्य 16:19-21 ऐ) बाबुल दा बड्डा शैहर 3 हिस्सें च बंडु दे ऐ (परमेसर दे गुस्से दी उग्रता दा शराब दा प्याला).....	312
- [चित्र 16-क] ऐ 7 मुहरें दी.....	314
- [चित्र 16-ख] ऐ ७तुरही.....	314
- [चित्र 16-ग] ऐ ७शीशीआण.....	314
<परमात्मा दा क्रोध & प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान दे क्रोध दा दिन>.....	314
.....	316
अध्याय 17 दा	317
(प्रकाशितवाक्य 17:1-2) महान वेश्या दा न्याय.....	317
(प्रकाशित 17:3 ऐ-4) इक लाल रंग दा जानवर (औरत).....	317
(प्रकाशित 17:5 ऐ-6) रहस्य, बेबिलोन महान, वेश्याएं ते जमीन दी घृणित चीजें दी मां.....	318
- ऐरहस्य, बेबिलोन महान, ऐवेश्याएं ते जमीन दी घृणित चीजें दी मां(प्रकाशित 17:5 ऐ).....	319
(प्रकाशित 17:7 ऐ) जनानी दा रहस्य (2nd जानवर महान वेश्या गी लेई जंदा ऐ, 7 सिर ते 10 सींग).....	319
- 2nd जानवर महान वेश्या (7 सिर ते 10 सींग) गी लेई जंदा ऐ.....	319
- (प्रकाशितवाक्य 17:8) 2nd जानवर (जो था, नहीं है, और आने वाला है).....	319
(प्रकाशित 17:9 ऐ) 7 सिर (7 राज्य) = 7 पहाड़.....	320
- 7 सिर & 7 पहाड़ जिंदे उप्पर जनानी बैठी दी ऐ.....	320
(प्रकाशित 17:10 ऐ) 7 विचों 5 राजा गिर गए, 6वां राजा राज करदा है, ते 7वां राजा थोड़ी जगह राज करदा है.....	320
- ऐ७राज्यां दा.....	321
- ऐ५राजागिर गए हैं.....	321
- ऐ६वें राजा(रोमन राज्य दा) राज करदा ऐ.....	321
- ऐ७वां राजा(वर्तमान बाबुल राज्य दा) अजे तक नहीं आया (प्रकाशितवाक्य 17:8).....	321
(प्रकाशित 17:11 ऐ) 2nd जानवर, जो 8वां राजा है, 7 राजाओं दा है, & विनाश विच चली जांदा है.....	322
(प्रकाशितवाक्य 17:12-13 ऐ) 10 राजाएं गी अजें तगर कोई राज नेई मिलेआ, पर 1 घैंटे तगर राजा दे तौर उप्पर अधिकार हासल कीता ..	323
- 10 राजाओं ने अपनी शक्ति और अधिकार 1 जानवर को दे दिया.....	323
(प्रकाशितवाक्य 17:14 ऐ) 10 राजा 1 जानवर दे कन्ने मेमने (प्रभुएं दा प्रभु, ते राजाएं दा राजा) कन्ने लड़ाई करंगन).....	324
(प्रकाशित 17:15 ऐ) वेश्या बैठे दे पानी (लोग, भीड़, राष्ट्र, & भाषा).....	324
(प्रकाशितवाक्य 17:16 ऐ) (1st) जानवर पर 10 सींगें वेश्या गी जला दिता.....	324
(प्रकाशितवाक्य 17:17 ऐ) (1) जानवर लोकें, भीड़, राष्ट्र, ते भाषाएं दा राज्य लेई जंदा ऐ.....	324
(प्रकाशितवाक्य 17:18 ऐ) नारी (बड़ी वेश्या) = महान शहर.....	325
.....	325
अध्याय 18 दा	326
(प्रकाशितवाक्य १८:१-२) बाबुल दा पतन महान.....	326
(प्रकाशित 18:3 ऐ) सारे जाति, राजा ते जमीन दे बपारी उदी व्यभिचार दे गुस्से दी शराब पी चुके न.....	326
(प्रकाशित 18:4 ऐ) बाबुल तों बाहर निकल आओ महान.....	327
(प्रकाशितवाक्य १८:५-८) बाबुल दे पापें दा न्याय प्रभु परमात्मा करदा ऐ.....	327
(प्रकाशित 18:9 ऐ) धरती दे राजाएं बाबुल कन्ने व्यभिचार किता.....	329
(प्रकाशितवाक्य १८:१०-२०) 1 घंटे च महान शहर बाबुल पर न्याय.....	329

- मतलब "इक(1)घैंटा"	331
[चित्र १८-क] प्रभु दा बड्डा ते उल्लेखनीय दिन	333
(प्रकासित 18:21-24 ऐ) महान शहर बाबुल (अब न मिलदा).....	333
.....	334
अध्याय 19 दा	335
(प्रकासित 19:1-२) 1 अलेलुया (स्तुति: स्वर्ग च इक बड्डी भीड़).....	335
(प्रकाशितवाक्य 19:3) 2 अलेलुया (स्तुति: स्वर्ग च इक बड्डी भीड़) स्वर्ग च	335
(प्रकासित 19:4 ऐ-5) 3rd Alleluia (प्रशंसा: 24 बुजुर्ग & 4 जीव)	336
(प्रकाशितवाक्य 19:6) चौथा अलेलुया (सब स्वर्ग च: प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान राज करदा ऐ)	336
(प्रकासित 19:7 ऐ) मेमने दा ब्याह आ गया	337
(प्रकासित 19:8 ऐ) मेमने दी जनानी = पवित्र संत दा धर्म	338
(प्रकासित 19:9 ऐ) परमात्मा दा सच्चे लोगो (मेमने दा ब्याह दा भोज).....	338
(प्रकाशितवाक्य 19:10) यीशु दी गवाही = भविष्यवाणी दी भावना.....	338
- ऐयीशु मसीह दा प्रगटीकरण.....	338
[चित्र 19-क] (आत्मा-अगुवाई) परमात्मा दे पुत्र.....	340
(प्रकाशितवाक्य 19:11 ऐ) स्वर्ग खुला (गोरे घोड़े ते बैठे दा)	341
(प्रकाशितवाक्य 19:12-14 ऐ) आरमागेडोन (परमेसर दा लोगोस & स्वर्ग च सेनाएं)	341
(प्रकासित 19:15 ऐ) ऐटीओह सर्वशक्तिमान परमात्मा दी उग्रता ते गुस्से दी दाख दा चूसदा ऐ	341
(प्रकाशितवाक्य 19:16 ऐ) आरमागेडोन (राजां दा राजा, ते प्रभुएं दा प्रभु)	342
- आरमागेडोन (जिंदे च गोग & मागोग & प्रभु यीशु मसीह दा आना बी शामिल ऐभजन संहिता 83)	342
- ऐदूजी बारी परमेसरे दे लोकें दे बचे दे लोकें गी, इस्राएल गी बरामद करने आस् ते	343
- ऐटीओह कनान दी धरती(इस्राएल दी धरती).....	344
[चित्र 19-1] दो गोग ते मगोग युद्ध & आरमागेडोन	344
[चित्र 19-2] इजराइली पश्चिमी तट दी बाधा	346
- वर्तमान युद्ध & शांति ते सुरक्षा.....	347
- अचानक विनाश चोर दे रूप च औग न्हरे समें च	347
- ऐसदोम ते अमोराप्रभू दे दिन तों पहलां (परमातमा दा संदेश इक सेवक नू)	349
- ऐआरमागेडोन दी लड़ाई	353
- आरमागेडोन दी लड़ाई (जकरयाह 14:1-5).....	353
- आरमागेडोन दी लड़ाई (भजन संहिता 83:11-18)	354
- आरमागेडोन दी लड़ाई (इज 38:19-20 ऐ)	355
- आरमागेडोन दी लड़ाई (जकरयाह 12:10).....	355
- आरमागेडोन दा अंत (इज 39:1-5 ऐ).....	355
- 7 साल तक हथियारों को आग लगा दे (इज 39:9-10 ऐ)	356
- गोग (मसीह विरोधी) & उंदी भीड़ करगबीई हमोंग दी घाटी च दफनाया (इज 39:11-16 ऐ)	357
- सारे राष्ट्र प्रभु परमात्मा गी उंदे न्याय दे बाद जानन	357
(प्रकाशितवाक्य 19:17-18 ऐ) महान परमातमा दा भोज.....	358
(प्रकासित 19:19 ऐ) जानवर, जमीन दे राजा, & उंदी फौज परमात्मा कन्ने लड़ाई लड़दी ऐ	358
(प्रकाशितवाक्य 19:20) 1st beast & झूठे नबी गी जिंदा अगग दी झील च सुट्टी दिता जंदा ऐ	359
(प्रकाशितवाक्य 19:21 ऐ) प्रभु यीशु मसीह दी तलवार (रेमा) बचे दे लोकें गी मारदी ऐ	359
.....	360
अध्याय 20 दा	361
(प्रकासित 20:1 ऐ) अथाह गड्डे दी कुंजी & इक महान श्रृंखला	361
(प्रकासित 20:2-3 ऐ) अजगर (पुराने नाग, शैतान, शैतान): 1000 सालें तकर अथाह गड्डे च सीलबंद	361
- ऐ1000 साल दे दौरान धरती दे परिवारें दी उम्र.....	361
- ऐटीउसने इक 1,000 साल दी शुरुआत (अदन दा बाग).....	361
(प्रकासित 20:4 ऐ) 144,000 ते महान संकट संत मसीह दे नाल 1,000 साल तक राज करन	363
<मसीह दा दिन>	364
- ऐजीतने आलें गी मसीह दे कन् ने 1000 सालें तकर जीना ते राज करना	365
(प्रकाशितवाक्य 20:5-6) पैहला जी उठना (4वीं घड़ी दी 3 फसल).....	367

>>3 वी फसल दाके 4 वीं वॉच के लिएबाकी कुआरियां	367
(प्रकाशित 20:7-8 ऐ) 1000 साल खत्म होए (गोग ते मगोग).....	367
(प्रकाशितवाक्य 20:9-10) शैतान गी अगग & गंधक दी झील च सुट्टी दिता गेआ	368
(प्रकाशित 20:11 ऐ) इक बड्डा सफेद सिंहासन	368
(प्रकाशित 20:12 ऐ) परमात्मा दे सामने दो किताबां खोलियां: (1) किताबां, (2) जीवन दी किताब	368
(प्रकाशित 20:13 ऐ) समुंदर ते मौत & नरक ने अपने फैसले आस्ते मरे दे लोकें गी त्याग दिता	369
(प्रकाशित 20:14 ऐ) दूजी मौत = मौत ते नरक	370
(प्रकाशित 20:15 ऐ) जिंदे नां जीवन दी किताब विच नहीं लिखे = अगग दी झील	370
- ऐफैसले दा क्रम	370
.....	371
अध्याय 21 दा	372
(प्रकाशित 21:1 ऐ) इक नमां स्वर्ग ते इक नमीं जमीन	372
(प्रकाशितवाक्य 21:2-3) नमां यरूशलेम (परमेसर दे तम्बू दे मंदर दा पबित्तर नगर)	372
(प्रकाशित 21:4 ऐ) पैहला आदम (पैहले तुस, गुजरी जांगन)	374
(प्रकाशितवाक्य 21:5-6) सारी चीजां नईयां होंदियां ने (टीrue & faithful logos: एह कीता गेदा ऐ)	374
(प्रकाशित 21:7 ऐ) विजयी (परमातमा दे पुत्तर).....	375
[चित्र 21-क] (एक बड़ा रहस्य) मसीह & कलीसिया 1/2	377
[चित्र 21-ख] (एक बड़ा रहस्य) मसीह & कलीसिया 2/2	378
[चित्र 21-ग] सारी चीजां परमात्मा दीयां न	379
(प्रकाशित 21:8 ऐ) दूजी मौत	380
(प्रकाशित 21:9 ऐ)1मेमने दी पत्नी	380
(प्रकाशितवाक्य 21:10-14 ऐ) पवित्र यरूशलेम (परमेसर दे तम्बू च पबित्तर दा पवित्र).....	380
- पवित्र यरूशलेम दा	381
(प्रकाशितवाक्य 21:15-16 ऐ) पवित्र यरूशलेम दा नाप (परमात्मा दे तम्बू दा पवित्रतम).....	381
(प्रकाशित 21:17 ऐ) पवित्र यरूशलेम दी दीवार दा नाप	382
(प्रकाशितवाक्य 21:18-20 ऐ) शहर दी दीवार दे कीमती पत्थर	383
(प्रकाशित 21:21 ऐ) 12 गेट & शुद्ध सोने दा शहर पर 12 मोती	384
(प्रकाशितवाक्य 21:22 ऐ) प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान ते मेमना	384
(प्रकाशित 21:23 ऐ) परमातमा दी महिमा(परमातमा दे मंदर विच)	384
[चित्र 21-घ] लोगो स्टोर च रखे जंदे न, अगग आस्ते आरक्षित	386
[चित्र 21-ई] प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान & मेमना = मंदिर	387
(प्रकाशितवाक्य 21:24 ऐ)2 धरती दे राजा&3उद्धारित राष्ट्रें	388
(प्रकाशितवाक्य 21:25-26 ऐ)3उद्धारित राष्ट्रें	388
(प्रकाशितवाक्य 21:27 ऐ) मेमने दी जिंदगी दी किताब च लिखे दे नां	388
[चित्र २१-१] परमेसरे दे लोक परमेसरे दे तम्बू च किय् यां दाखल होउन	389
- ऐनिम्र जागीर दे शरीर तों लई गौरवशाली शरीर तक	389
- ऐपरमेसरे दे लोक परमेसरे दे तम्बू च दाखल होउन, ते बख-बख महिमा लेई औउन	390
[चित्र 21-2] स्वर्ग च नमां तम्बू & परमात्मा दा मंदिर	391
[चित्र 21-च] परमात्मा दा तम्बू	392
.....	392
अध्याय 22 दा	393
(प्रकाशितवाक्य 22:1) परमात्मा दा ते मेमने दा सिंहासन (जीवन दे पानी दी इक शुद्ध नदी)	393
(प्रकाशितवाक्य 22:2) जीवन दा पेड़ (जीवन दे पानी दी शुद्ध नदी तों उगया)	393
(प्रकाशितवाक्य 22:3-4 ऐ) परमातमा दे सेवक परमातमा दा मुह (परमातमा दा दिन).....	393
<परमातमा दा दिन>	393
(प्रकाशितवाक्य 22:5 ऐ) परमातमा दे सेवक सदा राज करनगे	394
(प्रकाशितवाक्य 22:6) लोगो (वफादार ते सच्चा)	394
- ऐलोगो दा&परमातमा दा रेमा	395
(प्रकाशितवाक्य 22:7 ऐ) इस किताब दी भविष्यवाणी दे लोगो रखो (मैं जल्दी आ रेहा हां)	395
(प्रकाशितवाक्य 22:8-9) सुर्गदूत यूहन्ना दे साथी दास, भ्रा ते भविष्यवक्ता हे	395

(प्रकाशित 22:10 ऐ) इस किताब दी भविष्यवाणी दे लोगो दा मुहर खोलना	396
(प्रकाशित 22:11 ऐ) धर्मी (पवित्र) बनाम अधर्म (अपवित्र)	396
(प्रकाशितवाक्य 22:12-13 ऐ) प्रभु यीशु मसीह दा आना & उदा इनाम.....	397
(प्रकाशितवाक्य 22:14 ऐ) परमात्मा दे तम्बू दे घर दे फाटक	397
(प्रकाशित 22:15 ऐ) जो पवित्र शहर दे बाहर हन.....	399
(प्रकाशित 22:16 ऐ) द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार (प्रभु यीशु मसीह)	399
(प्रकाशितवाक्य 22:17 ऐ) आओ जिन्दगी दा पानी मुफ्त च लेई जाओ	400
(प्रकाशितवाक्य 22:18 ऐ) इस कताब दी भविष्यवाणी दे लोगो च नेई जोड़ो	400
(प्रकाशितवाक्य 22:19 ऐ) इस कताब दी भविष्यवाणी दे लोगो तों ना हटाओ	400
(प्रकाशितवाक्य 22:20) प्रभु यीशु जल्दी आने आला ऐ	401
(प्रकाशितवाक्य 22:21 ऐ) साढ़े प्रभु यीशु मसीह दी कृपा.....	402
चरवाहे (मेम्ब्रे) गी इक भेड़ें दी (तुंदी) प्रार्थना).....	402
[चित्र 22-क] मुक्ति दा सफर.....	404
.....	404
[अंतिम संदेश] मसीह दा रहस्य (गैर-यहूदी, सारे राष्ट्र)	405
- ऐपौलुस दा यहूदियों गी लिखे दा पत्र & टीओह पवित्र संत(१/१०) ऐ।	406
- यहूदियों & खतना (2/10).....	406
- पौलुस ते पतरस दी प्रेरितता (3/10)	407
- ऐयहूदी, यूनानी, & गैर-यहूदी(४/१०) दा	408
- ऐपरमात्मा दी इक राष्ट्र बनाम गैर-यहूदी राष्ट्र(५/१०) ऐ।	409
- ऐचयहूदियों को गैर-यहूदी जातिओं तक (6/10).....	410
- प्रभु, प्रभु यीशु, & प्रभु यीशु मसीह (7/10).....	411
- परमात्मा दा उद्धार सारें गी (8/10)	412
- रहस्य & गैर-यहूदी राष्ट्रें (9/10)	413
- प्रभु दा वफादार ते ज्ञानी भंडारी बनो (१०/१०)	414
*अधर्म दे सारे दासैं गी (प्रभु दा वफादार ते ज्ञानी भंडारी बनो)	414
*अगर तुस पैहले रैचर गी छड्डी ओड़दे ओ तां एह करो	414
.....	415
बीग्रंथसूची	416

The 1st half of Daniel's 70th week		The 2nd half of Daniel's 70th week	
Gentiles's time		The Winter Feasts of the LORD	
The Spring Feasts of the LORD Tribulation (3.5 years)		The Fall Feasts of the LORD	
* AOD		* WOG: The wrath of the Lamb (Rev 6:17), of the Lord God Almighty (Rev 8:1-11:18), of God (Rev 15-16)	
* Abomination of Desolation		* Wrath of God	
→1st rapture harvest (Rev.7:4-8)		→2nd rapture harvest (Rev.7:9; 11:14; 14:14; 16:15)	
→3rd rapture harvest (Rev.20:5-6)		→ The Wrath of God (The great and dreadful day of the LORD, Mal.4:5; Rev.6:17)	
Tribulation		1,000 years (The remnants are in the garden of Eden in the paradise of God)	
AOD		Heavenly Jerusalem	
The Great Tribulation		The New Jerusalem	
The hour of temptation		The Holy Jerusalem	
1 Hour		1 Hour	
(Rev 1:1-2)	The Revelation of Jesus Christ		
(Rev 1:3)	The readers of the logos of prophecy are blessed (The time is at hand)		
(Rev 1:4)	The 7 churches & The 7 Spirits		
(Rev 1:5)	Jesus Christ: The ruler of the kings and the rulers of the ground		
(Rev 1:7)	He comes with clouds		(Rev 1:6) Jesus Christ (made us kings and priests to God and His Father)
(Rev 1:8)	The Lord, the Almighty		
(Rev 1:9)	The logos of God, The witness of Jesus Christ		
(Rev 1:10-11)	On the Lord's day (A trumpet, in the Spirit)		
(Rev 1:12-13)	The seven candlesticks		
(Rev 1:14-15)	White hairs of His head, eyes, feet, & voice		
(Rev 1:16)	The seven stars & A sharp two-edged sword		
(Rev 1:17-18)	The first and the last (The keys of hell and of death)		
(Rev 1:19-20)	The revelation of the mystery of the 7 stars (the angels of the 7 churches) & the 7 golden candlesticks (the 7 churches)		
			(Rev 2:1-7) (1) Unto the angel of the church of Ephesus (The tree of life)
			(Rev 2:8-11) (2) Unto the angel of the church of Smyrna (10 days of Tribulation)
			(Rev 2:12-17) (3) Unto the angel of the church of Pergamos (The hidden manna)
			(Rev 2:18-29) (4) Unto the angel of the church in Thyatira (the Great Tribulation)
			(Rev 3:1-6) (5) Unto the angel of the church in Sardis (Name in the Book of Life)
			(Rev 3:7-13) (6) Unto the angel of the church in Philadelphia (A pillar)
			(Rev 3:14-22) (7) Unto the angel of the church of the Laodiceans (Neither cold nor hot)
			(Rev 4:1-4) A door opened in heaven: The Lamb & the 24 elders
			(Rev 4:5) 7 lamps of fire & the 7 Spirits of God
			(Rev 4:6-7) The four (4) living creatures
			(Rev 4:8) The Lord God Almighty (who was, and is, and is to come)
			(Rev 4:9-11) God is worshipped in heaven


The 1st half of Daniel's 70th week		The 2nd half of Daniel's 70th week	
Gentiles' time		The Winter Feasts of the LORD	
The Spring Feasts of the LORD		The Fall Feasts of the LORD	
Tribulation (3.5 years)		Great Tribulation (3.5 years)	
* AOD		* WOG: The wrath of the Lamb (Rev 6:17), of the Lord God Almighty (Rev 8:1-11:18), of God (Rev 15-16)	
* Abomination of Desolation		* Wrath of God	
	→1st rapture harvest (Rev 7:4-8)	→2nd rapture harvest (Rev 7:9; 11:14; 14:14; 16:15)	→3rd harvest (Rev 20:5-6)
	→The Wrath of God (The great and dreadful day of the LORD, Mal 4:5; Rev 6:17)		
Tribulation	AOD	The Great Tribulation	WOG
	1,000 years (The remnants are in the garden of Eden in the paradise of God)	Armageddon	The New Jerusalem
	The hour of temptation	1 Hour	The Holy Jerusalem
Trumpets			
1st (T)		(Rev 8:6) The 7 angels with the 7 trumpets prepare to sound	(Rev 8:7) The 1st angel sounded the trumpet (1/3 of the trees & all green grass burned up)
2nd (T)		(Rev 8:8-9) The 2nd angel's trumpet sounded (1/3 of the seas, living creatures, & ships destroyed)	(Rev 8:10-11) The 3rd angel sounded the trumpet (Wormwood fell on a 1/3 of the rivers)
3rd (T)		(Rev 8:12-13) The 4th angel sounded the trumpet (1/3 of the sun, moon, & stars darkened)	(Rev 9:1-5) The 5th angel sounded the trumpet (The 1st owe)
4th (T)		(Rev 9:6) Death flees from men	(Rev 9:7-10) The likeness of the locusts (hurt men for 5 months)
5th (T)		(Rev 9:11) The king of the angel of the bottomless pit (Apollyon)	(Rev 9:12) The end of the 1st woe
6th (T)		(Rev 9:13-16) The 6th angel's trumpet sound (The 2nd owe: 4 angels at the great river Euphrates)	(Rev 9:17-19) 1/3 of men are killed by the fire, the smoke, & the brimstone
		(Rev 9:20-21) The rest of the men did not repent of the works of their hands	(Rev 10:1-2) A little book (Mighty angel's right foot on the sea & the left foot on the ground)
		(Rev 10:3-4) Sealed up the things spoken by the 7 thunders	(Rev 10:5-6) The angel swore to God (The creator of heaven, the ground, and the sea)
		(Rev 10:7) The mystery of God fulfilled when the 7th trumpet is about to sound	(Rev 10:8-11) The little book (Receive & devour to prophesy again)
	(Rev 11:1-2) Measure the temple of God		
	(Rev 11:3-4) The Two witnesses		
	(Rev 11:5-6) Two witnesses' authority		
	(Rev 11:7) The beast ascends out of the bottomless pit (kills the 2 witnesses)		
	(Rev 11:8) The dead bodies of the two witnesses		
	(Rev 11:9) The dead bodies of the two witnesses are seen by all for 3 1/2 days		
	(Rev 11:10-13) The resurrection of the 2 witnesses		
	(Rev 11:14) The 2nd woe ends (The mystery of God fulfills when the 7th trumpet is about to sound)		
7th (T)		(Rev 11:15-16) The 7th trumpet sounded (Our Lord & His Christ restore the kingdoms of this world)	(Rev 11:17) The Lord God Almighty reigns
		(Rev 11:18) The wrath of the Lord God Almighty (God) & the reward	(Rev 11:19) The temple of God opens (The marriage of the Lamb begins)

The 1st half of Daniel's 70th week		The 2nd half of Daniel's 70th week	
Gentiles's time		The Winter Feasts of the LORD	
The Spring Feasts of the LORD Tribulation (3.5 years)		The Fall Feasts of the LORD	
Summer Feasts Tribulation		* AOD Great Tribulation (3.5 years) * Abomination of Desolation	
* AOD		* Wrath of God	
			→ 2nd rapture harvest (Rev 7:9; 11:14; 14:14; 16:15) → The Wrath of God (The great and dreadful day of the LORD, Mal.4:5, Rev.6:17) → 3rd harvest (Rev.20:5-6)
			1,000 years (The remnants are in the garden of Eden in the paradise of God) Heavenly Jerusalem The New Jerusalem
Tribulation	AOD	The Great Tribulation	WOG
	1 Hour	The hour of temptation	1 Hour
		(Rev 17:3-4) A scarlet beast & the woman	(Rev 17:1-2) The judgment of the great harlot
		(Rev 17:5-6) MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS & ABOMINATIONS OF THE GROUND	
		(Rev 17:7) The mystery of the woman (The 2nd beast carries the great harlot. The 7 heads and 10 horns)	
		(Rev 17:8) The 2nd beast (who was, is not, and is to come)	
		(Rev 17:9) 7 heads (kingdoms) = 7 mountains	
		(Rev 17:10) 5 out of 7 kings fell, the 6th king reigns, and the 7th king reigns a short space	
		(Rev 17:11) The 2nd beast, who is the 8th king, is of the 7 kings, & goes into the perdition	
		(Rev 17:12-13) The 10 kings with no kingdom received authority as kings for 1 hour with the 1st beast	
		(Rev 17:14) The 10 kings with the 1st beast will make war with the Lamb (Lord of lords, and King of kings)	
		(Rev 17:15) The waters which the harlot sits (peoples, multitudes, nations, & tongues)	
		(Rev 17:16) The 10 horns on the (1st) beast burned the harlot	
		(Rev 17:17) The (1st) beast takes the kingdom of peoples, multitudes, nations, and tongues	
		(Rev 17:18) The woman (The great harlot) = The great city	
		(Rev 18:1-2) The fall of Babylon the great	
		(Rev 18:3) All nations, the kings & ground merchants drank the wine of the wrath of fornication	
		(Rev 18:4) Come out of Babylon the great	
		(Rev 18:5-8) The sins of Babylon are judged by the Lord God	
		(Rev 18:9) The 10 kings of the ground committed fornication with Babylon	
		(Rev 18:10-20) The judgment on the great city Babylon in 1 hour	
		(Rev 18:21-24) The great city Babylon (no longer be found)	

[3] डैनियल द 70 हफ्ते

The Start of Daniel's 70 weeks		The 1st watch		The 2nd watch		The 3rd watch		The End of Daniel's 70 weeks		The 4th watch									
∞	The Garden of Eden	4,000 years		2,000 years						1,000 years	∞								
1 AM	God was THAT in Christ (2Co 5:19) (Exo 3:14)	A city made with hands (Acts 7:48)	Tribulation Daniel's 1st half of 70th week	Great Tribulation Daniel's 2nd half of 70th week	Armageddon	Mount Zion (Heb 12:22)	God's paradise (Rev 2:7)	New Jerusalem	Holy of Holies	On the ground	In Heaven								
Beginning	From Gen 1:1	7 weeks	69 weeks	62 weeks	434 years	49 years	45 days	1,000 years	Holy city	Holy place	Holy of Holies								
			Command to restore & build Jerusalem (Dan 9:25)	Cut-off of the Messiah (Dan 9:26)	The start of the Tribulation from the days of John the Baptist until now (Mat 11:12)	Jesus prophesied that the temple of Jerusalem will be destroyed by Romans, then it was fulfilled in A.D. 70 (Luk 21:20).	The believers who have received the Holy Spirit, have the doctrine that is God's not theirs (Act 2:13)	The Jews & the remnants come in the name of the Lord (Mat 21:9; Rev 12:17)	42 months	The holy city to be treaded (Rev 11:2; 13:5)	1,260 days	The woman fled into the wilderness (Rev 12:6)	The two witnesses (Death & Resurrection) Prophecy for 1,260 days (Rev 11:3)	The fulness of the Gentiles come in (Rom 11:25)	There are 1,290 days from the time that the daily sacrifice taken away (Dan 12:11)	Blessed is he that waits, and comes to the 1,335 days (Dan 12:12)	45 days past from the end of Daniel's 1,000-year on the ground (Zec 14:17)	The 144,000 & the Holy saints to live and reign with Christ for a 1,000 years (Dan 12:12; Rev 20:4)	The temple of God (Rev 21:3)
			1,260 days	The continual sacrifice (Dan 8:13)	Jesus fulfilled His ministry on earth that lasted about 3.5 years.	The destruction of the temple of Jerusalem in A.D. 70 (Zec 14:2 half of the city shall go forth into captivity, but the remnant of the people shall not be cut off from the city).	The transgression of desolation (Dan 8:13)	(The 1st RapTURE) The 144,000 who are marked at the opening of the 1st seal, will be captured at the coming of the Son of man (Rev 6:1-2).	The Son of man will come at an hour you do not expect (Luk 12:40).	Abomination (AOD)	The day of the Lord (Rev 14:12-13)	The Lord and Saviour Jesus Christ's coming	Christ's 2nd coming	Christ's coming	Wrath of God (WOG)	The day of the Lord	Day of Christ	The Garden of Eden	Day of God
			220 days	30 days	790 days	220 days	30 Days	45 days											
			The opening of the 1st to 5th seal	The 6th seal opens (The wrath of the Lamb)	The opening of the 7th seal (the 7 trumpets) shortened, no flesh would be saved; but for the elder's sake those days will be shortened. (Mat 24:22)	1/3 of men killed (the hour/day/month/year)	(The marriage of the Lamb & the supper of the great God) Begins at the 2nd capture after the 2nd owe (Rev 11:17; 19:17)	The 7th trumpet (3rd owe) (The 7 vials: The wrath of God) — The pouring of the 1st - 5th vial	The 7th trumpet is about to sound, and our Lord and His Christ will restore the kingdom of this world (Rev 11:14-16)	The 7th trumpet is about to sound, and our Lord and His Christ will restore the kingdom of this world (Rev 11:14-16)	The 7th trumpet is about to sound, and our Lord and His Christ will restore the kingdom of this world (Rev 11:14-16)	The 7th trumpet is about to sound, and our Lord and His Christ will restore the kingdom of this world (Rev 11:14-16)	The 7th trumpet is about to sound, and our Lord and His Christ will restore the kingdom of this world (Rev 11:14-16)	The 7th trumpet is about to sound, and our Lord and His Christ will restore the kingdom of this world (Rev 11:14-16)	The 7th trumpet is about to sound, and our Lord and His Christ will restore the kingdom of this world (Rev 11:14-16)	The 7th trumpet is about to sound, and our Lord and His Christ will restore the kingdom of this world (Rev 11:14-16)	The 7th trumpet is about to sound, and our Lord and His Christ will restore the kingdom of this world (Rev 11:14-16)	The 7th trumpet is about to sound, and our Lord and His Christ will restore the kingdom of this world (Rev 11:14-16)	The 7th trumpet is about to sound, and our Lord and His Christ will restore the kingdom of this world (Rev 11:14-16)
			Final Gog & Magog (Eze 38)	10 days of Tribulation for Symma church (Rev 2:8-11)	The 3rd harvest (Rev 20:5-6)	White throne Judgment	Eternal Life or Eternal Fire												

* All dates are based on Hebrew calendar



[5] “प्रभु दी रीमा दी वेबसाइट थमां वीडियो प्रस्तुतियां दी सूची¹

- [01] दे सात दिन दापरमातमा दी सृष्टि
- [02] अदन दा बाग
- [03] एक आदमी की पसली क्मा थी?
- [04] जमीन दा फल बनाम धर्म दे फल
- [05] आदम दा इक ज्ञानी कुंवारी च बदलाव
- [06] आदम तों लेइयै यीशु तकर दी पीढ़ियें दी कताब (इसाएल ते इसाएल दे पुत्र)
- [07] आदम तों लेइयै अब्राहम + जनानी (छवि ते उपमा) दी पीढ़ियां
- [08] इसाएल दे पुत्रें आस्तै (यीशु गी पुरुष बच्चे थमां प्रभु तकर) परमेसरे दे सत्त पर्व
- [09] [प्रभु दी पर्व] 1. फसह
- [10] “फसह दी पर्व” तों कुछ दिन पहले
- [11] (यीशु दा वस्त्र) “फसह दी पर्व” तों पहलां
- [12] [प्रभु दी पर्व] (1) फसह & (2) अखमीरी रोटी (यीशु मसीह दी पीढ़ी)
- [13] शब्द (लोगोस & rhēma) दा
- [14] पश्चाताप, बपतिस्मा ते पवित्र आत्मा
- [15] परमेसरे दे लोगोस दा सुसमाचार (नसरत दे यीशु ते यीशु मसीह)
- [16] गैर-यहूदी (मसीह दा रहस्य)
- [17] [प्रभु दे परब] (3) पैहे फल (प्रभु परमात्मा दा घर)
- [18] [प्रभु दे परब] (3) पैहे फल (144,000)
- [19] धरती & जमीन
- [20] (एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवार
- [21] वाचा, बाहर दा खतना, अंदर दा खतना
- [22] नवे नियम दी पवित्रशास्त्र दी व्याख्या
- [23] रोटी, मन्ना, & छिपे दा मन्ना
- [24] परमात्मा दा घर (तुस पवित्र यरूशलेम ओ)
- [25] इक कड़ी गल्ल (The logos) & परमात्मा दे कर्म
- [26] प्रभु दा फसह (नया नियम)
- [27] मांस, आत्मा, ते आत्मा भजन संहिता 23
- [28] आत्मा दा फल
- [29] (प्रभु दा फसह) चले बनाम प्रेरित – घड़ी आई गई ऐ
- [30] कम्प्यूनियन दा
- [31] इक नासरी परमात्मा (सिर दे बाल)
- [32] (एक बड़्ढा रहस्य) मसीह & कलीसिया – सारी चीजां परमात्मा दी न
- [33] अपने आप गी इस रथ च जोड़ो
- [34] आत्मा दे अनुसार & अनुग्रह दे तहत (The rhema: परमात्मा दे चुने गवाहें आस्तै)
- [35] (प्रेरित) शक्ति ते अधिकार कन्ने चले
- [36] दृष्टांत स्वर्ग दा राज & परमात्मा दा राज्य
- [37] खून दा खेत (एक कब्जा) & तुसीं इक कीमत (एक इज्जत) नाल खरीदे जांदे हो
- [38] यीशु दा सूली च चढ़ाना & यीशु दे बगल च सूली च चढ़े गेदे दो चोर
- [39] सूली च चढ़ाने दा संभावित समें दा क्रम, पैहा ते आखरी आदम, & मरे दे लोकें दा जी उठना
- [40] [प्रभु दी पर्व] 4. पेंटेकोस्ट
- [41] परमात्मा दे स्वीकार्य होने आस्तै प्रभु च बधो
- [42] [प्रभु दी पर्व] 5. तुरही
- [43] (आत्मा-अगुवाई) परमात्मा दे पुत्र
- [44] आखरी दिनें च लोगोस & रेमा (2 पतरस 3) & पवित्रशास्त्र दी भविष्यवाणी (2 पतरस 1 & 3)
- [45] [प्रभु दी पर्व] 6. प्रायश्चित्त
- [46] जीवन दा जी उठना

¹49 वीडियो से www.theRhemaOfTheLord.com पर ऐ.

[47] [प्रभु दे परब] 7. तम्बू

[48] [प्रभु दी पर्वी] 8. हनुक्का

[49] मुक्ति दा सफर (वीडियो सारांश #1 ते #48)

सीह्तर 1

प्रकाशित 1:1 ऐ-2 चीश मसीह दा प्रगटीकरण

प्रकाशित 1:1 ऐ² प्रकाशितवाक्य (एपोकैलिप्सिस) दा^{#602} चीश मसीह दा, जो परमात्मा ने उसी दित्ता;

अपने दासों गी दस्सन आस्तै (**बहुवचन**)^{#1401} ऐसी गल्लां जेहिड्यां थोह् डी चिरेँ च गै होनियां न;
ते उने अपने सेवक यूहन्ना गी अपने सुर्गदूत दे जरिए भेजी दित्ता।

प्रकाशितवाक्य १:२ जिसने नंगे रिकार्ड (नंगे गवाह)^{#3141} शब्द (लोगोस) दा^{#3056} परमातमा दा, ते गवाही दे
(गुआह)^{#3141} चीश मसीह दा, ते उनेँ सारेँ चीजेँ दा जेके उनेंगी दिक् खेया हा।

☞ प्रकाशित 1:1 ऐ³ चीश मसीह दा प्रगटीकरण (Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ) ऐ, जित ईश्वर उसे दे दिया, दिखाने के लिये

उदे दासों गी ओह गल् लां देना ऐ, जेका जल्द गै होना ऐ।

ते उसी अपने सेवक यूहन्ना गी अपने सुर्गदूत दे जरिए भेजी दित्ता।

☞ प्रकाशितवाक्य १:२ जिसने गवाही दी **लोगो दा आहला ईश्वर**, ते दा **ओह् गुआह् आहला चीश मसीह**, ते उनेँ सारेँ चीजेँ दा जेके उनेंगी दिक् खेया हा।

- ऐपरमातमा दे लोगो

• **ईश्वरदित्ता चीश मसीह दा प्रगटीकरण** → जॉन गी → ते अपने सुर्गदूत गी उदे कोल भेजियै इसदा संकेत दित्ता
नौकर जॉन ने दी.

→ **ईश्वरदित्ता चीश मसीह दा प्रगटीकरण** यूहन्ना गी ते उसी अपने सेवक कोल भेजियै उसी दस्से **आजॉन ने दी**

जो गवाही देते हैं **लोगो दा आहला ईश्वर (जां चीश मसीह)**, उदे सेवकें गी दस्सन आस्तै (यातुं जो दे मुताबिक जींदे ने
नमें नियम गी) उनेँ गल्लें गी जेहिड्यां थोह् डी चिरेँ च गै होनियां चाहिदियां ना⁴

• **यूहन्ना 1:1-8** रिकार्ड करदा ऐ **किलोगोस भगवान थाशुरू** विच (पहले दा) ते “सब चीजां” द्वारा बनाई गईयां
ईश्वर, ते इक गवाह दा नां यूहन्ना कोला भेजेआ गे **आईश्वर** की गवाही देना **ओहलो**^{#5457} तां जे सारे मनुख
उसी दे जरिए विश्वास कर सकदा ऐ (**लोगो दा**).

इं१:१ ऐ शुरू विच (पहले)^{#746} था वचन (**लोगो दा**), ऐ^{#3056}

ते वचन (**लोगो दा**) दे नाल था **ईश्वर**, ते वचन (**लोगो दा**) हा **ईश्वर**.

इं१:२ ऐ उसी (**लोगो दा**)^{#3778} के साथ शुरू में था **ईश्वर**.

इं१:३ दा **सारी चीजां हेबनाया (होना)**^{#1096} उसदे द्वारा;

ते उदे बगैर कोई बी चीज बनी दी नई ही।

→ “शुरूआत च” दा मतलब ऐ “**पहला**,” जिसदा जिक्र **ऐपरमातमा दे लोगो**.

प्रकाशितवाक्य दी किताबद्वारा लिखा था **रब दानौकर यूहन्ना**, जो गवाह था **चीश मसीह**

(**जम्मसुस ने दी मसीहकु'न ऐपरमातमा दे लोगो**).⁵

• **गुआह**^{#3141}

१जोह ५:१ जेकर असेंगी गवाही मिलदी ऐ^{#3141} मनुखें दा, गवाह दा^{#3141} आहला **ईश्वर** बडा है: **1।**

की वे ए गवाही ऐ^{#3141} आहला **ईश्वर** जिसदी गवाही दित्ती ऐ (गवाही देओ)^{#3140} अपने पुत्र

दा.....

१जोह ५:१० जेडः **विश्वास करदा ऐपरमातमा दा पुत्र** गवाही दे कोल है^{#3141} अपने आप में: **1।**

जेडा परमात्मा उप्पर विश्वास नई करदा, उसी झूठा बनाई लेदा ऐ; कीजे ओह इस गल् ला उप् पर विश्वास नई करदा ऐ
परमात्मा ने अपने पुत्र दा दित्ता.

१जोह ५:११ ते एह रिकार्ड (गवाह) ऐ, ^{#3141} ओह **ईश्वर** दे दी है सानु **अनन्त जीवन**, ऐ

ते एह **जीवन** अपने पुत्र च ऐ।

²जदुं तकर एह नई गु लाया गेदा ऐ, तां तकर बाइबल दे सारे अंश जिंदा संदर्भ दित्ता गेदा ऐ, किंग जेम्स वर्जन च ऐ।

³लेखक ने प्रकाशितवाक्य दी कताब दे सारे श्लोकें दा दुबारा अनुवाद स्ट्रॉंग दी कोश दा इस्तेमाल करदे होई कीता ऐ www.bluetterbible.org पर ऐ.

⁴ **प्रकाशितवाक्य 22:6**, “[चित्र 1-क]” जां वीडियो 15. “परमेसर दे लोगो दा सुसमाचार” दिक्खो www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/15/ऐ.

⁵“पहला & आखरी” दे होर विस्तार लेई, “(प्रकाशितवाक्य १:१०-११) प्रभु दे दिन (एक तुरही, आत्मा च).”

- गवाह जी: “ईश्वर दे दिया है सान् (मुसलमानें गी) अनन्त जीवन, ते एजीवनमें हैउसी दा पुत्तर.”
- गवाह जी आहलाईश्वर अपने पुत्तर दी गवाही दिंदा ऐ, इस चाल्ली जेहड़ा ऐपरमातमा दा पुत्तर ऐओह गुआह(जीवन) अपने आप च.

१जोह ५:१३में तुसें गी लिखे दा ऐ जेडे उंदे नां उप्पर विश्वास करदे नपरमातमा दा पुत्तर;
तां जे तुस करी सकदे ओजानोकि तुंदे कोल ऐअनन्त जीवन, ते तां जे तुस करी सकदे ओमन्नोके नाम पर परमातमा दा पुत्तर.


१जोह ४:१५जो कोई उस गल्ल गी कबूल करगयीशुऐपरमातमा दा पुत्तर, ऐईश्वरउस च बसदा ऐ, ते ओह चईश्वर.

- यूहन्ना ने गल् लां इस आस् ते लिखी हन के तुस होई सकदे ओ
 - (१) दे नाम ते विश्वासपरमातमा दा पुत्तर(ओह्नीशुऐमसीह गी, ऐपरमातमा दा पुत्तर, ऐ जह 20:31 ऐ), ते
 - (२) कि विश्वास करके, तुहाडे कोल होवेगाजीवनअपने नाम दे जरिए (जह 20:31 ऐ), ते जान लओ कि तुसी होनाअनन्त जीवन.
- उसी यूहन्ना, जेका परमेसरे थवां भेजू जेया गेदा मानू हा, उनेंगी बी यूहन् ना दा सुसमाचार लिखेया (जहन्ना 1:6 ऐ, ऐ१यूहन्ना, ऐ२यूहन्ना, ते३यूहन्ना).

† किस चाल्ली दःे बारे च जानने लेई वीडियो 13 दिक्खोयीशु ऐमसीह गी, ऐप्रभु, ते किस चाल्लीलोगो दाबन जाता हैरमा दा.⁶

⁶“[चित्र 1-ख]” जां वीडियो 13. “शब्द (लोगोस & रेमा) दा संदर्भ लैओ।”

www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा-दा-चरदान/.





(प्रकासित 1:3 ऐ) भविष्यवाणी दे लोगो दे पाठक आशीर्वादित हन (समय नेड़े आ गया है)

प्रकासित 1:3 ऐधन्य ऐ जेड़ा पढ़दा ऐ, ते जेड़ा वचन सुनदा ऐ (लोगोस) ^{जै3056 ऐ} इस भविष्यवाणी दा, ^{जै4394 ऐ}
ते जेड़ी गल्लां ओस च लिखी दियां न, उसी रखो, कीजे समां नेड़े ऐ।

☞ प्रकासित 1:3 ऐ धन्यपढ़ने आला ते सुनने आला ऐलोगो दा इस दा भविष्यवाणी दी, ऐ
ते जेड़ी गल्लां ओस च लिखी दियां न, उसी रखो; वक्त नेड़े आ गया.

- भविष्यवाणी दे लोगो दे पाठके गी आशीर्वाद की मिलना चाहिदा?
- वे धन्य हैं कर्मोके वे रोटी खाते होंगे के राज भेईश्वर. मतलब, वे कर देंगे
बेल दे फल गी होर नेई पीओ (लोगो दा), उस दिन तकर कि ओह इसगी नमें (रमा दा)
के राज मेंईश्वर.

→ मोहर ^{जै4972 ऐ} ना शबद (लोगो दा) ^{जै3056 ऐ} इस किताब दी भविष्यवाणी दा: कीजे समां नेड़े गै ऐ
(प्रकासित 22:10 ऐ).

(प्रकासित 1:4 ऐ) 7 कलीसियाएं & 7 आत्माएं

प्रकासित 1:4 ऐयूहन्ना आसिया दे सत्त कलीसियाएं गी आखदा ऐ: तुं दे उप्पर कृपा ते शांति होऐ ^{जै1515 ऐ}
जेड़ा ऐ, जेड़ा हा, ते जेड़ा आने आला ऐ, उदे कोलां;
ते उदे सिंहासन दे सामने जेड़े सत्त आत्माएं न;

☞ प्रकासित 1:4 ऐजॉन कोसत्त कलीसियाएं गीजो एशिया च न: कृपा ते शांति हो।
उसदे कोला जोऐ, ते जोहा, ते जोआना है; ते सेसात्त आत्माएं गीजो हैं
अपने सिंहासन दे सामने;

→ डब्ल्यूहो ओह ऐ जेहड़ा ऐ, हा, ते औने आह्ला ऐ? सर्वशक्तिमान प्रभु जी.⁹

→ डब्ल्यूहो अपने सिंहासन दे सामने सत्त आत्माएं गी रखदे न? प्रभु यीशु मसीहसात्त आत्माएं गी रखदा ऐ
(देखो प्रकासित 5:6 ऐ).

(प्रकासित 1:5 ऐ) यीशु मसीह: राजाएं दा शासक ते जमीन दे शासक

प्रकासित 1:5 ऐते यीशु मसीह कोलां, जेड़ा वफादार गवाह ऐ ^{जै3144 ऐ} ते मुर्दे दा पैहला पुत्तर;
ते राजकुमार (शासक) ^{जै758 ऐ} राजाओं दा ^{जै935 ऐ} धरती दा (जमीन दा). ^{जै1093 ऐ}
जेस ने साहडे कन्ने प्यार किता, ते अपने खून कन्ने साहडे पापें कोलां धोया।

☞ प्रकासित 1:5 ऐऔर सेयीशु मसीह, जो वफादार गवाह ऐ ते मरे दा पैहला पुत्तर ऐ।
ते धरती दे राजाएं दा शासक।
उदे कोल जेड़ा सादे कन्ने प्यार करदा हा, ते अपने पापें च सादे पापें कोलां धोदा हालह.

- जमीं की है?
- चलुका 8:27 ऐ, जमीन (स्ट्रॉनग दा जी1093)¹⁰ ज्यादातर “पृथ्वी” दे रूप च अनुवाद किता गेदा ऐ। दे मुताबिक निष्कर्ष ३:५ ऐ
तेप्रेरितों दे काम 7:33, धरती (स्ट्रॉनग दा जी1093) सेमती 6:10 ऐ, “तेरा राज आओ। तेरी मर्जी हो
धरती ते कीता, ^{जै1093 ऐ} जिय्यां सुर्ग च ऐ,” दा अनुवाद “जमीन” दे रूप च बी कीता जाना चाहिदा:

⁹रथ प्रभु दा प्रतिनिधित्व हे, जो हे, ते जो हा, ते जो आने आला हे, “सर्वशक्तिमान (मुक्तिदाता यीशु

मसीह) जो साडे वास्ते फिर आवेगा (२पतरस ३:१०, ऐयशायाह 66:15 च, ऐ& संदर्भ देना प्रकासित 4:6-11 ऐ).

वीडियो 33. “इस रथ च अपने आप गी जोड़ा” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-अपने आप गी इस रथ च जोड़ो/.

¹⁰जतू तकर एह नेई दस्सेआ गेदा, इब्रानी ते ग्रीक शब्दकोश कन्ने सारी परिभाषाएं थमां गै न <https://www.bluetterbible.org/kjv> पर ऐ.

“तेरा राज आओ तेरी मर्जी (पर) हो जा।¹¹ (मदान),¹⁰⁹³ जिय्यां सुर्ग च ऐ।”¹¹

- **उब्ल्यू** हो ज़मीन दे राजाओं दा शासक है?
- ऐ **जम्मु** **esus** मसीह दा (प्रकासित 1:5 ऐ)
- **उब्ल्यू** हो धरती दे राजा ते शासक हन?
- राजाओं ने ⁹³⁵ प्रभु ते मसीह दे खिलाफ खड़ोते दे ज़मीन च हेरोदेस ते पोंतियुस पिलातुस ना
- ऐ **टीओह** शासक करदा ऐ ⁷⁵⁸ ज़मीन हन प्रधान याजक हन ⁷⁴⁹ ते बुजुर्गों ⁴²⁴⁵ र

प्रेरितों दे काम ४:२३ ते छड़ के ओह अपनी संगत च चली गो

ते प्रधान याजकें दी सारी जानकारी दिती ⁷⁴⁹ ते बुजुर्गों ⁴²⁴⁵ र उन्शें कशा था

प्रेरितों दे काम ४:२६ राजाओं ने ⁹³⁵ धरती (जमीन) दा ¹⁰⁹³ खड़े हो गए, ते शासक ⁷⁵⁸ हे

खिलाफ इकट्टे होए **प्रभु**, ते उं दे खिलाफ **मसीह**.

प्रेरितों दे काम ४:२७ की वे तेरे खिलाफ इक सच्चाई दा **पवित्र बच्चा यीशु**, जिसे तू अभिषेक किता ऐ;

दोए **हेरोदेस ने दी**, ते **पोंटियस पिलातुस ने दी**, कन्ने **गैर-यहूदी लोकें गी**, ऐ ¹⁴⁸⁴ ते **लोकें गी** ²⁹⁹² **इसाएल दा**, हे इकट्टे होए,

- जिसने सूली पर चढ़ाया **यीशु**, ऐ **प्रभु ते मसीह**?
- इस्राएल दे सारे घर: राजा ते शासक, गैर-यहूदी, & इस्राएल दे लोक (प्रेरितों दे काम २:३६).¹²

+ **जम्मु** **esus** मसीह दा धरती दे राजाएं दा शासक ऐ, लेकन उसी सारे इस्राएल दे घरे दे लोकें सूली उप्पर चढ़ाया गेआ

(प्रकासित 1:6 ऐ) यीशु मसीह: असेंगी परमेसरे ते उं दे पिता दे राजा ते याजक बनाया

प्रकासित 1:6 ऐ ते असेंगी राजा बनाया ऐ ⁹³⁵ ते **पुजारी** ²⁴⁰⁹ र परमात्मा ते उं दे पिता गी; उदी महिमा ते प्रभु युगों-युगों तक होवे। आमीना

- ☞ प्रकासित 1:6 ऐ ते असेंगी राजा ते याजक बनाई लेदा ऐ **ईश्वर** ते **उंदी बापु**, उदी महिमा ते प्रभु सदा होवे ते कदे वी। आमीना
- **महासंकट संत** बनाई जाएगी **राजा ऐ ते पुजारी जीगी ईश्वर**, ते ओह 1000 साल जमीन उप्पर राज करंगना¹³

(प्रकासित 1:7 ऐ) ओह बादल कन्ने औंदा ऐ

प्रकासित 1:7 ऐ दिखो, ओह अपने कन्ने आवै करदा ऐ ³³²⁶ र बादल; ³⁵⁰⁷ र

ते हर अकहीं उसी दिखग ते जेड़े उसी छेददे हे।

ते सारे जाति (कबीले) ⁵⁴⁴³ र धरती (जमीन) दा ¹⁰⁹³ र उं दे कारण विलाप करा। फिर भी, आमीना

- ☞ प्रकासित 1:7 ऐ देखो, ओह (**प्रभु यीशु मसीह गी**¹⁴) दे नाल आ जांदा है **बादल**; ते हर अकहीं उसी दिखगा ते उन बी जेड़े उसी छेददे हे (**यीशु**, **दोए नाथ ते मसीह**, ऐ प्रेरितों दे काम २:३६):
ते जमीन दे सारे कबीले उं दे कारण विलाप करंगना फिर भी, आमीना

- **कुन** बादल के साथ आ जाएगा?

¹¹वीडियो 19. “पृथ्वी & जमीन” www.therhemaofthelord.com/course1/पृथ्वी-जमीन/.

¹²वीडियो 15. “परमेसर दे लोगो दा सुसमाचार” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/15/ ऐ.

¹³“(प्रकाशितवाक्य 5:7-14 ऐ) पवित्र संत साडे परमात्मा दे राजा ते याजक बणाए जादे ने.”

¹⁴भर करने के लिए “(प्रकाशितवाक्य 14:14-16 ऐ) दे हार्वेस्ट, द रेचर (3 वी घड़ी दा 2nd रेचर).”

- बादल पर बैठे दा, परमात्मा दा पुत्र (प्रभु यीशु मसीह) बादल दे नाल आ जावेगा¹⁵
- ऐ सीमुख^{#3507} १: सीजों कन्ने "बादल" दा मतलब ऐ^{#3509} गवाहों की^{#3144} यीशु दा¹⁶ जो साथ आओगे प्रभु यीशु मसीह गी.
- ऐ यीशु उदे कोल चढ़ी गे बापू ते ईश्वर, इसले ई ईश्वर बनी गे आपिता जी ते ईश्वर मरियम मगदलीनी दे वास्ते (यूहन्ना 20:17 च).
→ उं'अं गै, ईश्वर भी हो गया पिता जी ते ईश्वर दुष्ट दा, जो विश्वास दे जरिए "मान लिया" ओह्यीशु उहदे कोल चढ़ जावेगा बापू, ओहदा ईश्वर उसी शापित जमीन थमां मुक्त करने आस्तै¹⁷
- ऐ मनुख दा पुत्र & परमात्मा दा पुत्र

रोम 1:3 ऐ अपने पुत्र दे बारे च यीशु मसीह सादानाथ, जेका दाऊद दे वंशज कन्ने बनी दी ही

दे मुताबिक^{#2596} मांस गी;

रोम 1:4 ऐ ते घोषित (नियुक्त) कीता^{#3724} होने आहला परमात्मा दा पुत्र कन्ने (च)^{#1722} ताकत, ऐ^{#1411}

दे मुताबिक^{#2596} पवित्रता दी भावना, मरे दे बीचा जी उठने दे द्वारा;

- मनुख दा पुत्र (मांस दा): रब दा बेटा यीशु मसीह सादानाथ दे मुताबिक मांस गी.
- परमात्मा दा पुत्र (आत्मा) दा: मनुख दा पुत्र होने दा नियुक्ति कीता गेदा ऐ परमात्मा दा पुत्र सत्ता में, ऐ¹⁸
दे मुताबिक पवित्रता दी भावना, ऐ^{#42}
बीचा मरे दे बीचा जी उठना.¹⁹

लूका 1:35 ऐ ते सुरगदूत ने उसी (मरियम) गी आख्या पवित्र आत्मा दा तेरे उपर आ जावेगा, ऐ

ते सत्ता दी^{#1411} उच्चतम दा^{#5310} तेरे उपर छां पाई लैगा

इस आस् ते ओह पबित्त चीड बी ऐ^{#40} जेड़ा तेरे कोला पैदा होग बुलाया जावेगा परमात्मा दा पुत्र.

- कदू पवित्र आत्मा गी आ जांदा है परमात्मा दे लोगो कि मनुख दे पुत्र ने तुं दे च बोया
उच्चतम दी शक्ति तुं दे उपर छाया पागा अदूर परमात्मा दा पुत्र आओगे, ते तुझे दे देंगे
इक समझदारी, तां जे तुस उसी जानगे (ईश्वर) कु'न ऐसच्च, ते तुस उदे च ओ (ईश्वर)
अर्थात् सच्च, उदे पुत्र च बी यीशु मसीह. एह ऐसच्चा परमात्मा, ते अनन्त जीवन (१ जोह ५:२०).

• टीओह परमात्मा दा पुत्र

- ऐ यीशु मसीह सादानाथ (रोम 1:3 ऐशरीर दे मताबक) ऐ मसीह गी, ऐ परमात्मा दा पुत्र (जॉन 11:27 ऐ, ऐ प्रेरितों दे काम 8:37), ऐ इझाएल दा राजा (जह 1:49 ऐ).
- ऐ एह्यीशु मसीह, जेड़ा सादे कोल भेजेया गेदा हा, ओह असेंगी जिंदा करग मसीह (इफिसियों 2:5 ऐ) ते असेंगी सुर्गीय च जिंदा करो में सारे आध्यात्मिक आशीर्वाद वाले जगहें मसीह यीशु (इफिसियों 1:3 ऐ, ऐ इफिसियों 2:6 ऐ), कीजे ओह सादा ऐनाथ (फिलिपिन्स 3:8 ऐ), ऐ ते ओह सादे नीच (नीच जागीर) शरीर गी बदली देग गौरवशाली तन आहला मुक्त तिदाता,
प्रभु यीशु मसीह गी (पीएचएल ३:२०-२१, ऐरोम 8:30 ऐ), ऐ²⁰ कु'न ऐमेमने दा, ऐ मसीह गी, दी छवि ईश्वर.²¹

¹⁵से कैद की गई प्रकासित 1:12 ऐ-13 ऐ. मनुख दा पुत्र सत्त मोमबत्ती (या कलीसियाएं) दे बिच्च ऐ, पर ध्यान देओ के शब्द

"पसंद^{#3664} मनुख दे पुत्र कन्ने मिलदा-जुलदा जां मिलदा-जुलदा दिक्खने आस्तै उस जीव दा वर्णन करने आस्तै इस्तेमाल कीता जंदा ऐ प्रकासित 1:16 ऐ उसदा वर्णन करदा ऐ जेहड़ा दिक्खदा ऐ मनुख दे पुत्र दे समान जेके "दो धारें आली तेज तलवार" गी पकड़े दा ऐ जेकी उदे च इक ज्वालामुखी तलवार (रमा) ऐ

मूँ. क्योंकि रेमा सादे प्रभु यीशु मसीह दे प्रेरितों दे सामने बोली गई सी (जदे 1:17 ऐ), मनुख दा पुत्र घें लिखा गया प्रकासित 1:13 ऐ प्रभु यीशु मसीह, परमात्मा दा पुत्र ऐ जेड़ा मनुख दे पुत्र कन्ने मिलदा ऐ

¹⁶(इब्रानियों 12:1 ऐ), "इस आस् ते दिक् खीए अस बी इतने बड्डे बादल कन् ने धिरे दे आ^{#3509} गवाहों की, ऐ^{#3144}."

¹⁷वीडियो 38. "यीशु दे बगल च सुली च चढ़े गेदे दो चोरा" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-यीशु दे सुली च चढ़ाने दे दो चोरों गी यीशु दे बगल च सुली च चढ़ाया गेआ/.

¹⁸"[चित्र 2-क] कम्यूनियन" दा संदर्भ लैओ।

¹⁹मरे दे लोकें च जिंदा होने दे बारे च, अध्याय 7 थमां "144,000 (मसीह दे पैहू ले फल)" दा संदर्भ लैओ।

²⁰वीडियो 39. "मरे दे जी उठना" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-संभावित-समय-अनुक्रम-सुली पर चढ़ाने-पहले-और-अंतिम-आदम-मृतक-के-पुनरुत्थान/.

²¹होर मती जानकारी आस्तै "मल्कीसेदेक ने रोटी ते शराब पैदा कीती (यीशु मसीह दा संदर्भ दिंदा ऐ)" गी दिक्खो।

प्रकासित 1:8 ऐ) प्रभु, सर्वशक्तिमान

प्रकासित 1:8 ऐमें अल्फा ते ओमेगा हां, शुरू ते अंत, प्रभु आखदा ऐ^{¶2962 ऐ}
जेड़ा ऐ, ते जेड़ा हा, ते जेड़ा आने आला ऐ, सर्वशक्तिमान ऐ^{¶3841 ऐ}

☞ प्रकासित 1:8 ऐमें अल्फा ते ओमेगा हां, शुरू ते अंत, आखदा ऐ^{प्रभु}, ऐ
कौन है ते कौन सी ते कौन आना है, सर्वशक्तिमान दा.

• सर्वशक्तिमान प्रभु जी²²

- ऐ^{प्रभु जी}: अल्फा ते ओमेगा, शुरुआत ते अंता
- ऐ^{सर्वशक्तिमान जी}: जो है, था, और आने वाला है²³

→ समझे आ सर्वशक्तिमान प्रभु थमां "प्रकासित 4:8 ऐ) प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान (जो था, ते है, ते है आओ)"

→ "साडे" दे संदर्भ गी समझे नाथ, ते दाउदा मसीह" च प्रकासित 11:15 ऐ, जो आना है²⁴

प्रकासित 1:9 ऐ) परमेश्वरे दा लोगो, यीशु मसीह दा गवाह

प्रकासित 1:9 ऐमें यूहन्ना, जेड़ा तुंदा भ्रा (भ्राएं) बी ऐ^{¶80}ने साथी (भागीदार)^{¶4791 ऐ} मसीबत विच, ऐ^{¶2347 ऐ}
ते यीशु मसीह दे राज ते धीरज च पातमोस द्वीप च हा।
शब्द (लोगोस) दे वास्ते^{¶3056 ऐ} परमात्मा दा, ते गवाही दे वास्ते (गवाह)^{¶3141 ऐ} यीशु मसीह दा.

☞ प्रकासित 1:9 ऐआऊ यूहन्ना, जेड़ा तेरे भैन हां, ते उस च हिस्सा लैदा हां मसीबत दा सामना करना, ऐ
ते राज ते धीरज च यीशु मसीह, उस द्वीप च हा जिसगी पतमोस आखदे न,
लेई परमात्मा दे लोगो, ते लेई गवाह दा आहला यीशु मसीह.

• लोगो दा प्रचार करदे होऐ रेमा दा

(प्रवचन देना परलोगो दा)

- भगवान ने भेजा लोगो दा इस्राएल दे पुत्रों गी एह सिखाया यीशु मसीह ऐ प्रभु सब दा.

(पर प्रचार करदे होऐ रेमा दा)

- परमेश्वरे नासरत दे यीशु गी पबित्तर आत् मा ते शक् ति कन् ने अभिषेक कित्ता, ते उसी त्रीए दिन जिंदा कित्ता।
ते खुलेआम उसी (नासरत दे यीशु मसीह) गी सादे गी, सारे लोकें गी नेई, पर "अस" गी, द...
परमेश्वरे दे सामने चुने गेदे गवाह, जेके मनुख दे पुत्र दे मरे दे लोकें चा जिंदा होने दे बा'द उंदे कन् ने खांदे-पींदे हे.

→ जेकर कोई लोगोस पांदा ऐ, तां पापें दी माफी मिलग, ते पवित्र आत्मा उंदे उप्पर पोग जेड़े
इस रेमा (प्रेरितों दे काम १०:३६-४४).

• तेरे भ्रा यूहन्ना कून ऐ?

- भाइयो (नबी, प्रकाशितवाक्य 22:9) ओह हन जिन्हां दा पिता सुर्ग विच है (मत्ती 23:9 ऐ), ते जिन्हां ने वेखया
गुरु दा निवास, ते उस दिन उंदे कन्ने रौहना, ते पाई लेया मसीहा गी, ऐ मसीह गी (जॉन १:३९-४१ ऐ).²⁵

- यूहन्ना, जेका यूहन्ना दा सुसमाचार लिखे दा ऐ, ओह तुंदे भ्राऽ ऐ, जेहड़ा संकट च हिस्सा लैदा ऐ²⁶ राज विच ते
धीरज दा यीशु मसीह, के गवाह था यीशु मसीह, ऐ लोगो दा आहलाईधर.

²²वीडियो 33. "इस रथ च अपने आप गी जोड़ो" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-अपने-आप-गी-इस-रथ-च-जोड़ो/.

²³"सर्वशक्तिमान प्रभु" दा संदर्भ प्रकासित 1:8 ऐ & "प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान" प्रकासित 4:8 ऐ.

²⁴"(प्रकासित 11:15-16 ऐ) 7वें सुर्गदूत ने तुरही बजाई (साडा प्रभु ते ओस दा मसीह इस दे राज्यें गी बहाल करदे न
दुनिया)."

²⁵वीडियो 17. "3. पैह्ले-फूला" www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-पहले-फल-प्रभु-देव-दे-घर-.

²⁶"[3] दानियेल दे 70 हफ्ते" दा संदर्भ लैओ।

• **आरअप्चर करना**(पकड़ गया, **हरपाजो**)

- ध्यान रक्खो जे व्यवस्था ते नबी यूहन्ना तकर ही, ते...**कष्ट दा** यूहन्ना दे दिनें थमां शुरू होई ही बपतिस्मा देने आला.²⁷

मत्ती 11:12 ऐते यूहन्ना बपतिस्मा देने आले दे दिनें थमां लेइयै अज्ज तकर सुर्ग दा राज दुखी ऐ हिंसा (बल प्रयोग), ऐ^{जी971}ते हिंसक (हिंसक बल)^{जी973}ले (पकड़ गया, **हरपाजो**)^{जी 726} ऐ इस (उस)^{जी 846}राहेंजोर (**हरपाजो**),^{जी 726} ऐ

→ यूहन्ना बपतिस्मा देने आले दे दिनें थमां लेइयै अज्ज तकरा **स्वर्ग दा राज** जबरदस्ती लेता है, ते लोक फस जांदे ने (**हरपाजो**) हिंसक बल दे द्वारा स्वर्ग तका।

लुका 16:16 ऐव्यवस्था ते भविष्यवक्ता यूहन्ना तकर ही प्रचार किता, ते हर मनुख (सब)^{जी3956} दबाना (बल दा इस्तेमाल करना)^{जी971} इस च


→ व्यवस्था ते भविष्यवक्ता यूहन्ना तकर ही, उसदे बाद थमां गै **परमातमा दा राज** प्रचार कीता जंदा ऐ, ते हर कोई इस च अपना रस्ता दबा करदा ऐ।

- व्यवस्था ते भविष्यवक्ता यूहन्ना तकर ही, ते...**परमातमा दा राज** उसदे बाद प्रचार कीता जंदा ऐ।
ते यूहन्ना बपतिस्मा देने आले दे दिनें थमां लेइयै अज्ज तकर, ते हर इक जेके अंदर अपना रस्ता दबांदे न **परमातमा दा राज**, फसदा है (**हरपाजो**) च **स्वर्ग दा राज** हिंसक बल द्वारा।
→ इह किवें है **मुसीबत गी** शुरू करना, ते इसी कारण यूहन्ना तुंदे भ्रा ऐ **मुसीबत दा सामना करना** राज विच ते **धीरज दायीशु मसीह**.²⁸

²⁷“[चित्र 1-ग] (प्रेरित) शक्ति ते अधिकार दे चले” दा संदर्भ लैओ।

²⁸“[3] दानिय्येल दे 70 हफ्ते” दा संदर्भ लैओ।

(Apostles) Disciples with Power and Authority



Mat 10:5 These twelve Jesus sent forth,

- The twelve are given power and authority over all devils and to cure diseases as Jesus's disciples (Luk 9:1), and equipped to preach the kingdom of God and to heal the sick, (Luk 9:2).
- Meaning, they have the Light^{G5457} of God (1Jo 1:5), and God (who commanded the light^{G5457} to shine out of darkness) has shined in their hearts, thus they were lightened^{G5462} of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ (2Co 4:6).
- A village^{G2968} is the place where the gospel is preached, where healing takes place, and where meat for the people is (Mat 14:15). Having the glory of God, which is the light^{G5458} of God, clear as crystal (Rev 21:11), the apostles become the the Light^{G5457} of the world (= the field, Mat 13:38), and each of them is a city that is laid^{G2749} in a village of a mountain^{G3735} that cannot be hidden because of God's light that they bring (Mat 5:14).

The kingdom of God
(Luk 9:2)

Jesus called his twelve disciples together, and
 → gave them power and authority over all devils, and
 → to cure diseases (Luk 9:1)

And he sent them
 → to preach the kingdom of God, and to heal the sick. (Luk 9:2)

When you enter into whosoever house,
 → Abide, and thence go (Luk 9:4)

They departed, and went through the towns(villages)^{G2968},
 (a village^{G2968} = from lie, be laid, set^{G2749})
 → preaching the gospel, and healing every where (Luk 9:6)

Behold,
 the kingdom of God is within you
 (Luk 17:21).

Whosoever will not receive you, (Luk 9:5)

- when ye go out of that city,
- shake off, and the dust of your feet

Ye are the Light^{G5457} of the world(the field, Mat 13:38)
 → A city^{G4172} that is set (laid on a village)^{G2749} on an hill(of a mountain)^{G3735} cannot be hid (Mat 5:14).
 Go not into the way of the Gentiles, and into any city^{G4172} of the Samaritans enter ye not (Mat 10:5)

<p>The kingdom of heaven Is at hand (Mat 10:7)</p> <p>The house of Israel (Mat 10:6)</p> <p>City (Mat 13:38)</p> <p>Lost sheep (Mat 10:6)</p> <p style="text-align: center;">You = The Light of the world</p> <p>* Where the gospel is preached * Healing takes place * Place where meat is Villages</p>	<p>House = Worthy (Mat 10:13)</p> <p style="text-align: center;">logos</p> <p style="text-align: center; background-color: red; color: white; padding: 2px;">Received</p>
--	--

Ye (disciples) go, preach, saying,
 → The kingdom of heaven is at hand (Mat 10:7)

When you enter,
 • City or Town(Village)^{G2968}
 → Seek who in it is worthy (Mat 10:11)
 → Abide till ye go thence (Mat 10:11)

When you enter into an house,
 → Salute it (Mat 10:12)

- Heal the sick, cleanse the lepers,
- raise the dead, cast out devils:

freely ye have received, freely give. (Mat 10:8)

They departed to teach & to preach in his city (Mat 11:1)

Whosoever not receive you, neither hear your logos,^{G3056}

- when ye go out of that house or city,
- shake off the dust of your feet. (Mat 10:14)

²⁹वीडियो 35. “(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार दे चेले”

(प्रकाशितवाक्य १:१०-११) प्रभु दे दिन (एक तुरही, आत्मा च)

प्रकाशित 1:10 ऐमैं प्रभु दे दिन आत्मा च हा, ते अपने पिच्छे इक तुरही दी आवाज़ आली बड़ी आवाज़ सुनी।

प्रकाशित 1:11 ऐआखदः, मैं अल्फा ते ओमेगा हां, पैहला ते आखरी, ते जे किश तू दिक्खा करदा ऐ, उसी किताब च लिखो।

ते एशिया च सत्त कलीसियाएं च भेजी ओड़ो; इफिसुस ते स्मर्ना ते पर्गमोस तक।

ते थियातीरा ते सरदीस ते फिलाडेल्फिया ते लौदीकिया तक।

☞ प्रकाशित 1:10 ऐ मैं पर आत्मा च हा प्रभु दादिन, ते मेरे पिच्छे इक बड़्डी आवाज़ सुनी, जिन्ना इक तुरही, ऐ

☞ प्रकाशित 1:11 ऐकहते हुए, मैं हां अल्फा ते ओमेगा, ऐपैहला^{जी4413} ते आखरी: 1।^{जी2078} भेते, जे किश तू दिखदे ओ,^{जी991} ते भेते

लिखोइक किताब च पाईए एशिया च सत्त (7) कलीसियाएं च भेजी ओड़ो; इफिसुस तक, ते

स्मर्ना ते पर्गमोस ते थियातीरा ते सरदीस ते फिलाडेल्फिया ते

लौदीकिया गी।

- प्रभु दा दिन, तुरही दी तर्ज पर इक बड़्डी आवाज़ आत्मा च बजग, ते जेकर कान ऐ, ओह सुनी लैग जे आत्मा सत्त कलीसियाएं गी केह गू लादी ऐ, जिनेंगी प्रेरितें तुसंगी (तुस जेके उदी महिमा दे चरमदी गवाह ओ साडे दी ताकत ते आना प्रभु यीशु मसीह, ऐ २पतरस १:१६).³⁰

- ऐपैहला & आखरी³¹

- टीउसने पहले: मनुख दा पुत्र जेड़ा अच्छा बीज बोंदा ऐ, जेड़ा ऐ परमातमा दे लोगो (मत्ती 13:37 ऐ).³²

- टीओह आखरी: 1। परमातमा दे लोगो दा रेमा.³³

(अंतिम दिन जी उठो)

जह 6:40 ऐते एह उंदी मर्जी ऐ (ईश्वर) जिसने मिगी भेजेया (पुत्र गी), ऐ

कि हर इक जो सीथ^{जी2334} ते पुत्र गी, ते विश्वास करदा ऐ उस पर, हो सकदा ऐ अनन्त जीवन: 1।

ते मैं करगा बधाओउसे ऊपर आखरी दिन पर.

जह 6:54 ऐजो मेरा खांदा ऐ गेष्ट, ते मेरा पींदा ऐ लह, हथ अनन्त जीवन;

ते मैं करगा बधाओउसे ऊपर आखरी दिन पर.

→ तुहाडे कोल कोई नहीं जीवनतुं दे च जदू तक तुस दा मांस नेई खांदा मनुख दा पुत्र, ते उसी पीओलह

(जह 6:53 ऐ). पर हर कोई जेड़ा दिखदा ऐ परमातमा दा पुत्र, ऐ ते मानता है उस पर, होगा

अनन्त जीवन ते ओह गै होडन बधाया गेदा ऊपर आखरी दिन पर.³⁴

³⁰वीडियो 44. “शाख दी भविष्यवाणी 2 पतरस 1) 2/2” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शाख-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

³¹“[चित्र 1-घ],” जां वीडियो 28. “आत्मा दा फला”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्मा-दा-फल/

³²वीडियो 37. “खून दा खेत (एक कब्जा)” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-खून-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हैं/

ते “[चित्र 1-ख] शब्द (लोगोस & rhema)”

³³“[चित्र 10-2] 3 फसल & 4 घड़ियां” दा संदर्भ लैओ।

- जदों अविनाशी बीज (परमातमा दा लोगो, १पतरस १:२३) यीशु मसीह (अनन्त राजा) दा, दा फल पैदा करदा ऐ

धर्मी (परमातमा दे लोगो दा रेमा) तेरे विच (1ति 1:16 ऐ), यीशु मसीह तुंदा अनन्त राजा बनी जंदा ऐ ते तुस पहिनगे अमरताते सदा जीओ (1ति 1:17 ऐ).

³⁴जी उठने दे क्रम दे बारे च, “144,000 (मसीह दे गैह्ले फल)” दा संदर्भ लैओ प्रकाशित 7:4-8 ऐ.

(प्रकासित 1:12-13 ऐ) सात मोमबत्ती

प्रकासित 1:12 ऐते में उस आवाज़ गी दिखने आस् ते मुड़या जेकी मेरे कन् ने गल् ल करदी ही। ते मुड़दे गै में सत्त सोने दे दीये दिखे; ³⁰⁸⁷

प्रकासित 1:13 ऐते सत्त दीया दे बिच्च ³⁰⁸⁷ इक जेहा (समान, मिलदा-जुलदा) ³⁶⁶⁴ मनुख दे पुत्तर गी।

कपड़े दा कपड़ा पहिनना (कपड़े नाल) ¹⁷⁴⁶ पैर तक नीचे,

ते गिरत ⁴⁰²⁴ जैप्स (छाती) दे बारे च ³¹⁴⁹ सोने दी कमरबंद कन्ने ²²²³

☞ प्रकासित 1:12 ऐ ते में (यूहन्ना) उस आवाज़ गी दिखने आस्ते मुड़या जेड़ी मेरे कन्ने गल्ल करदी ही।

ते मुड़दे गै में सत्त सोने दे दीये दिखे;

प्रकासित 1:13 ऐते सत्त (7) दीपियां दे बिच्च इक पसंद करदा ऐमनुख दा पुत्तर, ऐ

कपड़े पा के (वस्त्र दे नाल) पैरें तकर थल्ले, ते छाती दे चारों पास्से सोने दी पट्टी कन्ने पट्टी बन्नी दी।

• डब्ल्यूटोपी सात (7) मोमबत्ती ऐ?

- सात (7) कलीसियाएं (प्रकासित 1:20 ऐ).

• मनुख दे पुत्तर दे समान इक 7 मोमबत्ती (या 7 कलीसियाएं) दे बिच्च ऐ, पर ध्यान देओ के "जैसे" शब्द दा इस्तेमाल उस जीव दे वर्णन आस्ते कीता गेदा ऐ जेड़ा मनुख दे पुत्तर कन्ने मिलदा ऐ। प्रकासित 1:16 ऐमनुख दे पुत्तर कन् ने मिलने आले गी वर्णन करदा ऐ जेका "दो धारें आली तेज तलवार" गी पकड़े दा ऐ जेकी ऐइक ज्वालामुखी तलवार (रिमा दा) उंदे मुंह चा की जेरिमा दासाढ़े प्रेरितें दे सामने बोली गई ही प्रभु यीशु मसीह (जदे 1:17 ऐ), ऐमनुख दा पुत्तर घमें लिखा गया प्रकासित 1:13 ऐ ऐ प्रभु यीशु मसीह गी, ऐ परमातमा दा पुत्तर कु'न ऐमनुख दा पुत्तर.³⁶

• जो सत्त दीया दे बिच्च है?

- ऐ परमातमा दा पुत्तर जो मनुख दे पुत्तर नाल मिलदा है (प्रभु यीशु मसीह गी, ऐ प्रकासित 1:13 ऐ).

(प्रकाशितवाक्य 1:14-15 ऐ) उंदे सिर, अक्खीं, पैर, & आवाज़ दे सफेद बाल

प्रकासित 1:14 ऐउंदा सिर ते उंदे बाल ²³⁵⁹ ऊन दे समान सफेद, बर्फ दे समान सफेद हे; ते उंदी अक्खीं अग दी लौ दे समान ही;

प्रकासित 1:15 ऐते ओस दे पैर महीन पीतल दे समान हे, जिवें भट्टी च जलदे न; ते उंदी आवाज़ मते सारे पानी दी आवाज़ दे समान ऐ।

☞ प्रकासित 1:14 ऐउंदा सिर ते बाल ऊन दे समान सफेद हे, जि'यां चिह्न बर्फ दे रूप च;

ते उंदी अक्खीं जि'यां ही अग दी लौ;

• सिर दे गोरे बालें दा केह महत्व ऐ?

- सिर दे बालें दा रंग मसीह च परिपक्वतां दा प्रतीक ऐ। इस चाल्ली मनुख दे पुत्तर दे बालें दा रंग ऊन दी तर्ज पर बर्फ दे समान सफेद होने कन्ने मनुख दे पुत्तर गी पूरी चाल्ली परिपक्व ते पापहीन प्राणी दे रूप च दर्शादा ऐ।³⁷

• ऊन इक प्राकृतिक बालें दा फाइबर ऐ जेहड़ा साल भर बकख-बकख जानवरें थमां पैदा होंदा ऐ, जिंदे च भेड़ें (बाह्य रूप आस्तै) बी शामिल ना में एनईस संदर्भ च, "ऊन" भेड़ें दे प्राकृतिक बालें गी दस्सेआ जंदा ऐ।

☞ प्रकासित 1:15 ऐते उंदे पैरें दे समान महीन पीतल दा, जिवें भट्टी विच जलदे हन;

ते उंदी आवाज़ मते सारें दी आवाज़ दे समान पानी।

• पानी दा आतमक अर्थ क्या है?

- पानी दा लोगो, ते यीशु मसीह मनुख दा पुत्तर ऐ, जेड़ा पानी (लोगोस) ते खून च आया हा

दुनिया गी जिंदगी दा रोशनी होनी।

- आकाश दे हेठ दा पानी ओह लोगो ऐ, जेका यीशु ने तुंदे कन् ने ग् लाया हा, जदुं ओह जर्मी उप् पर हा (जहन्ना 15:3 ऐ)।

³⁶वीडियो 20. "(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवार।"

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

³⁷वीडियो 31. "परमातमा दे कोल इक नासरी (सिर दे बाल)।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-एक-नजरी-देव-दे-सिर-के-बाल/.

- आकाश दे उपर दा पानी ओह रेमा ऐ, जेका यीशु ने गलील च गै साढ़े कन् ने ग् लाया हा, जेका...
 यीशु ने साकुं आख्या कि मसीह दे मरे हुवे एचों जी उठण दे बाद याद रखो ते अपणेह पिता दे कोल, ते हुदे परमेश्वर दे कोल चढन दे बाद
 (जह 20:17 ऐ).³⁸

प्रकासित 1:16 ऐ सात तारे & इक तेज दोधारी तलवार

प्रकासित 1:16 ऐ उदे सज्जे हत्थ च सत तारे हे।

ते उदे मुंह च इक तेज निकली गया ^{¶3691} दोधारी ^{¶1366} तलवार (ῥομφαία, रोम्फिया). ^{¶4501}
 ते उदा मुंह उदी ताकत च सूरज दे समान हा।

☞ **प्रकासित 1:16 ऐ** ते उदे सज्जे हत्थ च सत (7) तारे हे।
 ते उदे मुंह च इक तेज दोधारी तलवार निकली।
 ते उदा मुंह उदी ताकत च सूरज दे समान हा।

- **सत (7) तारे कीह होंदे ने?**
 - ऐटीओह सत (7) कलीसियाएं दे सुर्गदूत (**प्रकासित 1:20 ऐ**).
- **डब्ल्यूटोपी मुंह है?**
 - मुंह ही है जिल्ये शब्द (दानार, रेमा दा) ^{¶1697} प्रभु द्ारा रखे जांदे ने
 (यिर्मयाह 1:9 ते परमेश्वर ने मिंगी ग् लाया, " दिक् खो, मैं अपनी गल् लें गी ग् लाया ऐ" ^{¶1697} तेरे मुंह विच.) ऐ।
- **डब्ल्यूhy च "शब्द" ऐयिर्मयाह 1:9 रेमा दा?**
देऊ30:14 ऐ पर शब्द (dābār जी) ^{¶1697} तेरे मुंह च ते तेरे दिलै च बड़ा नेड़े ऐ।
 तां जे तू करी सको।
रोम 10:8 ऐ पर एह केह आखदा ऐ? शब्द (रेमा दा) ^{जी4487} तेरे कोल ऐ,
 तेरे मुंह ते तेरे दिल च।
 यानी शब्द (रेमा दा) ^{जी4487} ऐ विश्वास दा, जिसदा अस प्रचार करदे आं;
 → शब्द (मजबूत दा जी4487 ऐ) आस्था दा च रोम 10:8 ऐ रेमा दा, इस तर्हा शब्द (मजबूत दा ^{¶1697} ऐ) च
देऊ30:14 ऐ उसी संदर्भ होना चाहिदा ऐ, "रेमा दा."³⁹
- **डब्ल्यूटोपी इक तेज दोधारी तलवार ऐ ^{¶4501} ?**
 - शब्द (लोगो दा) ^{¶3506} परमात्मा दा तेज, ते शक्तिशाली, ते कुसै कोला बी तेज ऐ दोधारी तलवार।
 - आत्मा दी तलवार इक तेज दोधारी तलवार ऐ, या शब्द (रेमा दा) ^{¶4487} आहला ईश्वर कि आंदी ऐ
 परमात्मा दे पुत्र दे मुंह च (**प्रकासित 1:13 ऐ**, ऐड्फिसियों 6:17 ऐ).⁴⁰

- † **इक उदे मुंह दी तेज दोधारी तलवार इक ज्वालामुखी तलवार ऐ जेहड़ी जीवन दे बूहटे दा रस्ता बनाई रखने आस्तै हर रस्ते मुड़दी ही, जेहड़ी छिपे दे मन्ना दा फल दिंदी ऐ जां... प्रभु दा रेमा (उत्पत्ति 3:24 ऐ, ऐ १ पतरस १:२५).**⁴¹
- † **प्रभु परमात्मा करुबें गी रखेया ते इक ज्वालामुखी तलवार ^{¶2719} अदन दे बाग दे पूरब च, जदुं उनेंगी उस मानू गी कड्डी ओड़ेया। ज्वालामुखी तलवार ^{¶2719} जेज्दगी दे पेड़ दा रस्ता रखन वास्ते हर तरफ मुड़ गया (उत्पत्ति 3:24 ऐ).** इस करिए दोधारी तलवार ^{¶2719} सुसमाचार दी ज्वालामुखी तलवार ऐ जेड़ी परमात्मा दी उच्चि स्तुति कन्ने पवित्र संत दे हत्थ च रखी गेदी ऐ (ऐल) ^{¶410} उदे मुंह च

³⁸वीडियो 25. "एक कड़ी कहावत (द लोगो) 1/2!"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-एक-कठिन-कहने-दे-लोगो-स-देव-दे-कम्म/.

³⁹वीडियो 6. "प्रभु तुंदा परमात्मा बनी जंदा ऐ।"

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशु-इजराइल-दे-पुत्र-पीदियों-दी-पुस्तक/.

⁴⁰वही।

⁴¹वीडियो 23. "रोटी, मन्ना, & छिपे द्ारा मन्ना।"

www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-द-ब्रेड-द-मन्ना-द-हिडन-मन्ना/.

(पीसा १४९:६ ऐपरमातमा दी उच्चि स्तुति (ऐल) एच 410 उंदे (पवित्र संत) दे मुंह च हो,
डंड इक दोधारी तलवार^{सूच 2719} उंदे हल्य च;).

(प्रकाशितवाक्य १:१७-१८) पैहला ते आखरी (नरक ते मौत दी चाबी)

प्रकाशित 1:17 ऐजदुं मैं उसी दिक् खेया, ते उंदे पैरें च मरे दे समान पेई गया। ते उन मेरे उपपर अपना सज्जा हल्य रखेया, ते मिगी आखया।

मत डरो; मैं पैहला ते आखरी हां:

प्रकाशित 1:18 ऐमैं ओह जींदा हां, ते मरी गेदा हा; ते दिखो, मैं हमेशा लेई जिंदा ऐं, आमीन;
ते नरक ते मौत दी चाबी होना।

☞ प्रकाशित 1:17 ऐजदुं मैं उसी दिक् खेया, ते उंदे पैरें च मरे दे समान पेई गया। ते उन मेरे उपपर अपना सज्जा हल्य रखेया, ते मिगी आखया।

मत डरो; मैं पैहला ते आखरी: 1।

☞ प्रकाशितवाक्य 1:18 मैं ओह जींदा हां, ते मरी गेदा हा; ते दिखो, मैं हमेशा लेई जिंदा ऐं, आमीन;
ते नरक ते मौत दी चाबी होना।

• डबल्यू हो पहला ते आखरी है?

- जॉन गवाही देंदा ऐपरमातमा दे लोगो, ऐयीशु मसीह दा प्रगटीकरण, सात कलीसियाएं गी खुलासा कर दे कि प्रभु यीशु मसीह गी, दाऊद दी जड़ ते संतान, दाऊद दे वंश च बने दे शरीर दे मताबक।

→ इस प्रभु यीशु मसीह गी अल्फा ते ओमेगा ऐ, शुरू ते अंत, पैह्ला ते आखरी, ते ओह जल्दी आईये हर इक माहू गी उंदे कर्मों दे मताबक इनाम देगा⁴²

(प्रकाशितवाक्य 1:19-20) 7 सितारें (7 कलीसियाएं दे स्वर्गदूत) & 7 सोने दे मोमबत्ती (7 कलीसियाएं) दा रहस्य

प्रकाशित 1:19 ऐजेके तू दिखेया ऐ, ते जेडे न, ते जेके बाद च होंगन, उसी लिखो;

प्रकाशित 1:20 ऐमेरे सज्जे हल्य च जेडे सत्त तारे दिक्खे हे, ते सोने दे सत्त दीया दा रहस्य।

सत्त तारे सत्त कलीसिया दे सुर्गदूत न: 1।

ते जेडे सत्त दीमकियां तू दिखियां, ओह सत्त कलीसियां ना।

☞ प्रकाशित 1:19 ऐजेडी चीजां तू दिखियां न, ते जेडीयां न, उनेंगी लिखो।

ते जेडी गल्लां बाद च होंगन;

प्रकाशित 1:20 ऐसत्त (7) तारे दा रहस्य जेडे तुसें मेरे सज्जे हल्य च दिक्खे हे;

ते सत्त (7) सोने दे मोमबत्ती।

† प्रकाशितवाक्य दी किताबकेह दिक् खेया गेदा ऐ, जेका ऐ, ते केह होग, उंदे गूढ गल् ल गी प्रगट करदा ऐ, जेका कान रखने आलें गी सुनेया जा के आत् मा 7 कलीसियाएं गी केह ग् लांदी ऐ, जेकी यूहन् ना ने 7 कलीसियाएं गी लिखेया ऐ, जेकी उंदे सज्जे हल्य च न प्रभु यीशु मसीह गी. उनको जो काबू पाना, ओह उनेंगी खाने आस्तै देग जिंदगी दा पेड़ च अदन दा बाग, जो दे बिच्च है परमातमा दा जन्त.⁴³

⁴²“[चित्र 1-घ],” जां वीडियो 28. “आत्मा दा फल।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्मा-दा-फल/.

⁴³“प्रकाशित 2:7 ऐ.”

अध्याय 2 दा

(प्रकासित 2:1-7 ऐ) (१) इफिसुस दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी

प्रकाशितवाक्य २: इफिसुस दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो;

जेड़ा सत तारे अपने सज्जे हल्थ च रखदा ऐ, ओह ए गल्ल आखदा ऐ।
जेड़ा सोने दे सत्त दीया दे बिच्च चलदा ऐ;

☞ **प्रकाशितवाक्य २:** इफिसुस दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो;

जेड़ा सत्त (7) तारे अपने सज्जे हल्थ च रखदा ऐ, ओह ए गल्ल आखदा ऐ।
जेड़ा सत्त (7) सोने दे दीये दे बिच्च चलदा ऐ;

- **डब्ल्यू**हो अपने सज्जे हल्थ च 7 तारे (7 कलीसियाएं दे सुर्गदूत) गी पकड़ी लैदा ऐ ते सत्त (7) सोने दे मोमबत्ती (7 कलीसियाएं) दे बिच्च चलदा ऐ)?
- ऐपरमातमा दा पुत्र ऐयीशु मसीह, सादानाथ.⁴⁴

- इफिसुस दी कलीसिया: अपने पैहलें प्रेम गी छड्डी ओड़ेया

प्रकाशितवाक्य 2:2 में तेरे कर्मों ते तेरी मेहनत ते तेरी धीरज गी जानना ऐ।⁵²⁸¹

ते बुरे लोकें गी किय यां सहन नेई करी सकदा।

ते तू उनें लोकें गी परखया, जेके प्रेरित न, ते नेई हन, ते उनेंगी झूठे पाया।

प्रकासित 2:3 ऐते सहन ते धीरज रखेया।⁵²⁸¹ ते मेरे नां आस्ते मेहनत कित्ता, ते बेहोश नेई होई।

प्रकासित 2:4 ऐफिरी बी मेरा तेरे कन्ने किश ऐ, की के तू अपने पैले प्रेम गी छड्डी ओड़ेया ऐ।

☞ **प्रकाशितवाक्य 2:2** में तेरे कर्मों ते तेरी मेहनत ते तेरी धीरज गी जानना ऐ।

ते बुरे लोकें गी किय यां सहन नेई करी सकदा।

ते तू उनें गी परखया ऐ जेड़े आखदे न **प्रेरितें गी**, ते नेई होंदे, ते उनेंगी झूठे पाया ऐ।

☞ **प्रकासित 2:3** ऐते धीरज रखेया ते धीरज रखेया, ते मेरे नां दे कारण मेहनत कित्ता, ते बेहोश नेई होया।

☞ **प्रकासित 2:4** ऐफिरी बी मेरा तेरे कन्ने किश ऐ, की के तू अपने गी छड्डी ओड़ेया ऐ **पहला प्यार**।

- **डब्ल्यू**हो हैं **प्रेरितें गी**?

- चेले दा मतलब ऐ इक सिखने आला, ते उनेंगी दिक् खेया के “यीशु सारे शैहरें ते ग्राएं च चली गया, ते उदे च पढ़ा करदा हा उंदे आराधनालयें च, ते राज दे सुसमाचार दा प्रचार करदे हे, ते हर इक बीमारी ते हर इक गी ठीक करदे हे लोकें च बीमारी” (मत्ती 9:35 ऐ)।

- यीशु (जिसी मसीह आखदे हन) दे मेरे दे विचों जी उठन दे बाद ते चेले ने प्रभु आखदे हन, ओ उनेंगी प्रगट होईये उनेंगी पबित्तर आत् मा दित्ता।

- चलें दे यीशु थवां "सिखने" दे बा'द, उनेंगी अशुद्ध आत् माएं गी कड्डने, ठीक करने दा अधिकार दित्ता बीमारी ते बीमारी, ते एह 12 चेले जिनेंगी एह करने दी शक्ति ते अधिकार दित्ता गेआ हा चीजें गी “प्रेरित” दे रूप च संदर्भित कीता जंदा ऐ।

- प्रेरित (अपोस्टोलोस) दा⁶⁵² मतलब हुकम दे नाल भेजे दा ते स्ट्रॉंग दा जड़ शब्द **जी 649** (अपोस्टेलो⁶⁴⁹), मतलब “ भेजना।”

- भेजे⁶⁴⁹ (**ἀποστέλλω** **ēpōstellō**): स्वर्गीय पिता ने (apostello) यीशु गी भेजेआ ऐ तां जे चेले दुनिया च बी भेजेआ जाई सकदा ऐ (पेम्पो) (ध्यान देओ जे यहूदा इस्करियोती उनें 12 प्रेरितें च शामिल हा जिनेंगी ऐ प्रभु कोला पवित्र आत्मा हासल कीता, मतलब जिनेंगी शक्ति ते अधिकार दित्ता गेदा हा ते...

⁴⁴ प्रकासित 1:13 ऐ, ऐ१ जोह ४:१५, ऐ२ कुरिन्थियों १:१९, ऐ३ जॉन 11:27 ऐ.

प्रेरित बनी गे यीशु गी बी घोखा देई सकदे न)।⁴⁵

- ऐजदुं घड़ी आई तांयीशुउसी दुखें शा पैहलें फसह खाने आस् ते 12 प्रेरितें कन् ने बैठी गया। अदुं यीशुप्याला लेईये प्रेरितें गी अपने आप च बंडने आस्ते दिता ते आखदा ऐ के ओह नेई पीग बेल दा फल, जदू तकर परमात्मा दा राज नेई औंदा।
- प्रेरितें गी, यीशु ने ग् लाया के रोटी उदा टूटे दा शरीर ऐ, जेका "तुसैं" आस् ते दिता गेदा ऐ, ते उनेंगी अंदर करना ऐ याद करनाउसी दा।
- प्रेरितें गी यीशु ने ग् लाया के प्याला उदे खून च नमां नियम ऐ, जेका तुंदे आस् ते बहाया गेदा ऐ।
→ जेदा प्याला प्रेरितें बंडडे हे, ओह नमें नियम दा खून ऐ, जेका मते सारे लोकें आस् ते बहजाया जंदा ऐ पापें दी माफी। तुस (प्रेरित दे लाडले बच्चे दे रूप च) सुसमाचार दे जरिए पैदा होए ओ प्रेरितें ते उंदा लाडला संतान बनी गो। इस चाल्ली, उनेंगी लाने आस्ते तुसैंगी उदे पिच्छे चलने दी लोड ऐ तुसैं प्रेरित पीलुस दे रस्ते गी याद करने चमसीह.⁴⁶
- कोई बी पानी दे बपतिस्मा (लोगोस) गी मना नेई करी सकदा कीजे गैर-खतना गैर-यहूदी जेडे हे बपतिस्मा लेंदे होई बी प्रेरितें दे तौर उपपर पवित्र आत्मा गी हासल कीता। इस चाल्ली पतरस ने उनें लोकें गी आज्ञा दिती जेह्दे हे शरीर च खतना किता गेदा ऐ तां जे उंदा नां उपपर बपतिस्मा लैता जाप्रभु (प्रेरितों दे काम 10:48).⁴⁷
- जदू असीं नाल सीप्रभु यीशु मसीह गीपवित्र पहाड़ सिव्योन च सुर्ग थवां इक आवाज आई उत्तम महिमा थमां, "ए मेरा लाडला पुत्र ऐ, जिसदे उपपर मैं खुश ऐं" ते अस बी आं महामहिम दे चरमदीद गवाहा। प्रेरितें तुसैंगी सादी शक्ति ते औने दी जानकारी दिती ऐ प्रभु यीशु मसीह.⁴⁸
- टीइफिसुस दी कलीसिया ने कीमती विश्वास, परमेसरे दी महिमा करने आस् ते ज्ञान हासल करने आस् ते कम् म ते मेहनत किती ते सदाचार, संयम, ते धैर्य, पर सादे ज्ञान च फलदायी होने च असफल रेह प्रभु यीशु मसीह (२पतरस १:८).⁴⁹
- **केह ऐपहला प्यार?**
 - क्मोंकक तेरा दिल उथे है जित्ये तेरा खजाना है (लुका 12:34 ऐ, ऐमती 6:21 ऐ), पैहली हुकम दी लोड ऐ सानु करने के लिएप्रभु साडा परमात्मासादे सारे दिलें कन्ने, आत्माएं कन्ने, मनें कन्ने, ते ताकत कन्ने (12:30 मार्च गी). अगर दी परमात्मा दे बच्चे परमात्मा कन्ने प्यार करदे न, उदे हुकमें गी मनदे न (१जोह ५:२) ते उंदा प्रेम च गै रौहना। पर द...
 - इफिसुस दी कलीसिया उदे पैहलें आज्ञा गी मनने च असफल रेई गेई, जिसदे कन् ने दुऐ आज्ञा गी मनने च असफल रेह हुकम ऐ, जेका अपने आप गी अपने आप गी अपने आप गी प्यार करना ऐ।⁵⁰
- **खजाना क्या है?**⁵¹
 - ऐईथरऐलोते उने उजाला (परमेसर) गी न्हरे च चमकने दा हुकम दिता ते सादे च चमकी गेदा ऐ दिलें गी यीशु मसीह (खजाने) दे चेहरे च परमात्मा दी महिमा दे ज्ञान दा रोशनी देने आस्ते। इस चाल्ली असेंगी इनें खजाने (जेह् डे परमात्मा दी महिमा दे ज्ञान दा उजाला न) गी इकट्टा करना ऐ स्वर्ग (जमीन उपपर नेई) तां जे परमात्मा दी शक्ति दी श्रेष्ठता सादे अंदर, सादे च प्रगट होई जा दिल, परमात्मा दा राज, जित्ये तेरा खजाना जमा कीता गेदा ऐ।

⁴⁵वीडियो 40. "4. पेंटेकोस्ट" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-प्रभु-दे-त्यौहार-4-पेंटेकोस्ट/.

⁴⁶वीडियो 34. "आत्मा दे अनुसार & अनुग्रह दे तहता"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-अनुग्रह-दे-तहता-आत्मा-दे-अनुसार-देवताएं-चयनित-गवाहें-लेई-रेमा/.

⁴⁷वही।

⁴⁸वीडियो 44. "शास्त्र दी भविष्यवाणी (2 पतरस 1) 2/2" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

⁴⁹वीडियो 30. "कम्यूनियन दा" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ ऐ।

⁵⁰वीडियो 13. "शब्द (लोगोस & रेमा)" www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा-दा-वरदान/.

⁵¹वीडियो 43. "(आत्मा दे नेतृत्व च) परमात्मा दे पुत्र" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-आत्मा-भगवान-दे-पुत्र-अगुवाई-दे/.

- इफिसुस दी कलीसिया गी, ईश्वर उनेंगी इस खजाने गी जमा करने आस्तै इक होर दिल देना चांह्दा ऐ।
मिट्टी दे बर्तनें च एह खजाना होने कन्ने उंदे दिलें गी दिलासा मिलग, प्रेम च बुनना परमात्मा दे रहस्य गी स्वीकार करने आस्तै समझ दी पूरी आश्वासन दी सारी धन गी पिता ते मसीह दा, जिदे च ज्ञान ते ज्ञान दे सारे खजाने छिपे दे न (कुसलियों २:२-३)।

- पैह्ला कम्म करदा ऐ

प्रकाशित 2:5 ऐइसे आस्ते याद करो कि तू कित्थे डिगेया हो, ते पछतावा करो ते पैले कम्मों गी करो;

ना तां मैं जल्दी तेरे कोल आऊंगा, ते तेरी दीमबत्ती गी उदी जगह थमा कड़्डी देगा, जद तक तू पछतावा नेई करो।

प्रकाशितवाक्य २:६लेकन ए तेरे कोल ऐ के तू कर्म (कम्म) कन्ने नफरत करदा ऐ ^{#2041}निकोलाईटं दा, जिस थमां मैं बी नफरत करदा हां।

प्रकाशित 2:5 ऐइसे आस्ते याद रखो तू कित्थे आया हो गिर गया, ते पछतावा करो, ते करो **पैह्ला कम्म करदा ऐ**;

ना ते मैं तेरे कोल जल्दी आऊंगा, ते तेरी दीमक गी उदी जगह थमा कड़्डी लैना।

सिवाय **तू पश्चाताप करो**.

प्रकाशितवाक्य २:६लेकन ए तेरे कोल ऐ के तू कर्म (कम्म) कन्ने नफरत करदा ऐ ^{#2041}निकोलाईटन दा, ऐ जिस से मैं भी नफरत करदा हां।

• **डब्ल्यूटोपी है पैह्ला कम्म करदा ऐ?**

- अस मनुख दे पुत्र उप्पर विश्वास करियै ते परमेसरे दे पुत्र च रौहने कन् ने परमेसरे दे कम्मों गी करदे आं, जिसी परमेसरे भेज् जेया ऐ, सुअर्गे दी सच्ची रोटी गी खाइयै जेकी पिता परमेसरे असेंगी दिक्ती ऐ।⁵²

• **तुस किस चाल्ली जानदे ओ के तुंदे कोल कित्थे ऐ गिर गया?**

- ऐ प्रभु यीशु मसीह बीज (शुक्रा) दा बणाया जांदा है ^{#4690}शरीर दे मताबक, तां जदुं तकर तुंदे च लोगो यीशु मसीह दे कन् ने मरे ते जिंदे होई गेया, ते बीज (शुक्रा) नेई होई गेया। ^{#4690}या प्रभु यीशु मसीह दे रेमा, तुस अन्धे ओ ते दूर नेई दिक्खी सकदे कीजे तुस भुल्ली गेदे ओ के तुस अपने पुराने पापें थमां शुद्ध होई गेदे ओ। जेकर तुस भ्राऽ ओ तां तुसें गी एह कम्म करना गै पौग (**२पे १:३- ऐ२पतरस १:७**) तां जे तुस कर्दे बी असफल नेई होओ।⁵³

• **क्या मतलब ऐ पश्चाताप करो?**

टीनली जेड़े यूहन्ना दा बपतिस्मा लैंदे हे, ओ पछतावे दे बपतिस्मा कन्ने बपतिस्मा लैंदे न, मतलब, उनेंगी पबित्तर आत् मा दे बारे च नेई सुनेया। इस चाल्ली, यीशु मसीह दे नां कन् ने पछतावा ते बपतिस् मा देने दा मतलब ऐ के तुंदे पापें गी माफ करी ओड़ेया ऐ, ए जानना (नहीं भुल्लना)। इस चाल्ली तुसें गी पबित्तर आत् मा दा वरदान मिलगा।⁵⁴

तां पछतावे दा मतलब हे कि तुस्सां यीशु मसीह एच कौन हो, ए जानणा ते प्रभु दी मेज ते पबित्तर आत्मा एच रहणा ए जानदे हुवे कि अस्सां सारे हेक रोटी दे हिस्से दे रूप एच हेक शरीर दे रूप एच हेसे **मसीह**।⁵⁵

✦ इस चाल्ली, प्रभु दी भलाई ते दया साढ़े जीवन दे सारे दिन सुर्ग दे राज च साढ़े पीछा करग, ते अस दिनें तकर प्रभु दे घरे च रौहणे, उस प्याले गी पींदे रौहणे जेहड़ा रेमा कन्ने दौड़दा ऐ, इस चाल्ली कि अस आखरी दिन परमात्मा दे राज च प्रवेश करने आस्ते जिंदा होई जागे।⁵⁶

✦ जिय्यां कलीसिया (जिनेंगी परमेसरे दे रेमा ते लोगो दा गर्भ धारण किता हा) मसीह दे अधीन ऐ। तुंदी मोमबत्ती (या तुस, सत्त कलीसियाएं च शामिल होने दे नाते) मनुख दे पुत्र दे सज्जे हल्थ थमां हटाई ओइगे **मे** च तुस पछतावा करने थमां इन्कार करदे ओ (जां जेकर तुस पबित्तर आत् मा कन् ने भरोचे दे होने च असफल ओ ते इस चाल्ली निष्फल बनी जंदे ओ)।

⁵²वीडियो 25. "एक कठिन कहावत The logos) & परमात्मा दे कम्मों 2/2।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-एक-कठिन-कहने-दे-लोगोस-देव-दे-कम्म/.

⁵³ "[चित्र 2-क], "जां वीडियो 30. "कम्यून" दा संदर्भ लैओ। www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ ऐ।

⁵⁴ वीडियो 12. "1 . फसह दा दिन | 2 . बेखमीरी रोटी।" www.therhemaofthelord.com/अनश्रेणीबद्ध/12/ ऐ।

⁵⁵ "[चित्र 2-क], "जां वीडियो 30. "कम्यून" दा संदर्भ लैओ। www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ ऐ।

⁵⁶ वीडियो 27. "(मांस , आत्मा , & आत्मा) भजन संहिता 23।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-खुन-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हो/.

→ परपरमात्मा दा पुत्र इफिसुस दी कलीसिया दी तारीफ करदा ऐ के ओह निकोलिये दे कम् में कन् ने नफरत करदे ना।

- जीवन दा पेड़: परमात्मा दे जन्त दे बिच्च जीतने आलें लेई

प्रकाशित 2:7 एजेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ;
जेड़ा जीत हासिल करदा ऐ, उसी में जीवन दे बूटे दा फल खाने आस्ते देगा, जेड़ा परमात्मा दे जन्त दे बिच्च ऐ।

- ☞ **प्रकाशित 2:7** एजेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ;
जो जीत हासिल करदा ऐ, उसी में खाने देगा **जिंदगी दा पेड़**, ऐ
जो के बीच है **परमात्मा दा जन्त**.

परास्त करने आलें गी खाने दा केह मतलब **ऐजिंदगी दा पेड़** कि के बीच में है **परमात्मा दा जन्त**?

- जिस घटना च...**यीशु (प्रभु)** पतरस दे पैर धो के उदे कपड़े लेई लेते (**इं१३:१२ ऐ**) दा तात्पर्य ऐ कि **यीशु** सुसज्जित **रब दालोक** बुराई पर काबू पाना (**१योह २:१४, ऐमती 16:18 ऐ**) पतरस (उस दे चले) गी साफ सफेद कपड़े च (उस दे होने कन्ने) कपड़े पाई **परमात्मा दे लोगो (जहन्ना 13:12 ऐ)**. **यीशु** पतरस गी आखेआ जे ओह दुए दे पैर धोन (परमेसर दे लोगो फैलाओ) तां जे सुसमाचार च मजदूरें दे नां (इसाएल) च होन **जिंदगी दी किताब (पीएचएल४:३ टी)**, ते ओह पैहलें पबित्तर धरती उप पर खड़ोई जाडन **ईश्वर**.⁵⁸

- यीशु दे बगल च सुली च चढ़े गेदे दो चोरें च इक ने उसी आखेआ (इस थमां दुबारा व्याख्या कीती गई ऐ **लूका 23:42 ऐ**)⁵⁹, ऐ **“नाथ, मेरा मानना है कि तूसी होयीशु मसीह, ऐपरमात्मा दा पुत्र, ऐ**
ते के तूस अपने कोल चढ़गे बापू ते मेरा बापू, ते तेरे कोल ईश्वर ते मेरा ईश्वर.
इस करिए, जदूं तूस अंदर औदे ओ तां मेरे विश्वास गी याद करो तेरा राज.”

→ यीशु ने जवाब दित्ता, **“में तुगी सच आखना ऐं अज्जतू मेरे कन्ने जन्त च रौगा.”**

- कद्बुरे बीज दे फल तेरे कोला कट्टी गेदे न, तू अपनी जान जिती लेता ऐते सिख्योन दे पहाड़ ते जिंदे परमात्मा दे नगर च आओ **सुर्गीय यरूशलेम गी**.⁶⁰ तूसी तां फिर करगे तक पहुंच होनी चाहिदी **जिंदगी दा पेड़** च **अदन दा बाग** कि के बीच में है **परमात्मा दा जन्त**, ऐजित्थे पैहला मनुख आदम, जेड़ा बनाया गेदा हाइक जिंदा आत्मारहें **प्रभु परमात्मा**, शुरू च रखे दा हा (**उत्पत्ति २:८, ऐ १ कुरिन्थियों १५:४५**).⁶¹
(नोट: **अदन दा बाग (उत्पत्ति 3:24 ऐ) ऐजिंदगी दा पेड़**, जो दे बिच्च है **परमात्मा दा जन्त**.) ऐ।

- **एनोव** पढ़े प्रकाशित वाक्य **22:1-2**, ऐ⁶²
“उसने मिगी इक शुद्ध नदी दस्सी जिंदगी का पानी, क्रिस्टल दे रूप च साफ, दे सिंहासन कोला बाहर निकल दे ईश्वर ते
आहला मेमने दा. इसदे (पवित्र नगर) दी गली दे बिच्च, ते नदियें दे दोनों पासे, हा ओह
जिंदगी दा पेड़, जिसदे 12 फल होंदे हे, हर बूटे हर म्हीने अपने फल दिंदे हे। पेड़ दे पत्ते थे
राष्ट्रां दे घर दी सेवा करन लई.”

→ **जिंदगी दा पेड़** कि के बीच में है **बाग दाके जन्त दा ईश्वर**, दे दोनों पासे है
नदी के बीच गली के **पवित्र नगर दा, कताहड़क शुद्ध नदिया आहला जिंदगी का पानी** आगे बढ़ता है बाहर
की गद्दी की **ईश्वर ते दी मेमने दा**.⁶³

- † जेकर तूस पबित्तर आत् मा दी अगुवाई च ओ, तां तूस सुनी सकगे के आत् मा इफिसुस दी कलीसिया गी केह ग् लांदा ऐ (**प्रकाशित वाक्य २:१-7**) कीजे पिता दा आत्मा जां पवित्र आत्मा तुंदे च बोलदा ऐ (**मती 10:20 ऐ, ऐमार्च 13:11 ऐ**).

⁵⁸वीडियो 11. “(यीशु दा कपड़ा) “फसह दी पर्व” तौं पहलां।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-फसह-त्योहार-दे-पहिले-यीशु-वस्त्र/.

⁵⁹वीडियो 38, “यीशु दे बगल च सुली च चढ़े गेदे दो चोरां।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-यीशु दे बगल च चढ़ाने दे दो चोरें गी यीशु दे बगल च सुली च चढ़ाया गेआ/.

⁶⁰वीडियो 20. “(एक तेज) म्यान, तलवार, & बोधारी तलवारा”

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

⁶¹“[3] दानियेल दे 70 हफ्ते” दः संदर्भ लैओ।

⁶²से फिर से व्याख्या की गई प्रकाशित वाक्य **22:1-2**.

⁶³ **उत्पत्ति २:९, & संदर्भ देना “(प्रकाशित वाक्य 22:14 ऐ) जिंदगी दा पेड़.”**

(प्रकाशितवाक्य २:८-११) (२) स्मर्ना दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी

प्रकाशित 2:8 एते स्मर्ना दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो; ए गल्ल पैले ते आखरी, जेड़ा मरी गेदा हा, ते जिंदा ऐ, आखदा ऐ;

☞ **प्रकाशित 2:8** एते स्मर्ना दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो;
ए गल्ल पैले ते आखरी, जेड़ा मरी गेदा हा, ते जिंदा ऐ, आखदा ऐ;

- **डब्ल्यू**हो पैह्ला ते आखरी ऐ, मरी गेदा हा ते जिंदा ऐ?
- **ऐप्रभु यीशु मसीह**(परमातमा दा पुत्र).⁶⁴

प्रकाशित 2:9 ऐमें तेरे कम्मं गी जानना ऐ, ^{जी2041}ते कष्ट, ^{जी2347}ते गरीबी, ^{जी4432} (पर तू अमीर हो) ते
में जानना जेड़े यहूदी आखदे न, ते शैतान दे आराधनालय ना ^{जी4567} ऐ

☞ **प्रकाशित 2:9** ऐ मैं अपने कम्मं गी जानना, ते मुसीबतें गी, ते **गरीबी**, (**लेकन तू अमीर ओ**) ते
मैं उं लोकें दी निन्दा गी जानना जेके अपने यहूदियें गी ग् लांदे हन, ते नेई हन।
पर हैं **शैतान दे आराधनालय**.

- **क'न ऐशैतान?**
- ऐशैतान शैतान, पुराना नाग, महान अजगर (देखो **प्रकाशित 12:9** ऐ होर मती जानकारी आस्तै)।

- **डब्ल्यू**टोपी यहूदियों दी निंदा ही, जो असल च **ऐशैतान दे आराधनालय?**

- यहूदियें ते यूनानियें दी बड़ी भीड़ उस बेले विश् वास किती, जदुं दऊं प्रेरितें (पौल ते बरनबास) यहूदियें दे आराधनालय च उंदे कन् ने गल् ल किती, मतलब के ओह गै हेखतना कर दिता आहला आत्मा में दिल, ते ओह सारे बनी **गेडक आध्यात्मिक यहूदी**. पर अविश्वासी यहूदियें गैर-यहूदी लोकें गी भलाया ते उंदे मनें गी भ्राए दे खलाफ बुरा असर पाई दिता (भ्रा ओह गै हन, जेके इक साझा कुदरती पुरखें गी सांझा करदे न, इस आस् ते इस संदर्भ च भ्राए गैर-यहूदी यूनानी लोकें वा जिक् करदे हन, जेके विश् वास करने आले यूनानीए दा विरोध करदे हे)। पर प्रेरितें प्रभु च हिम्मत कन् ने गल् ल किता के ओह उंदे हत् थें कन् ने किस्ते गेदे चिन् नें ते चमत् कारें दे जरिये लोगो दी गवाही देई सकना उस बेले शैहर दी भीड़ यहूदियें दे पक्ष च रौहने आलें ते प्रेरितें दे पक्ष च बंड्डी गई ही। फिरी गैर-यहूदी ते यहूदियें अपने शासकें कन् ने दऊं प्रेरितें गी पत्थर मारने आस् ते हमला किता।⁶⁵

गैर-यहूदी लोकें गी जेके परमेसरे दे लोगो उप् पर विश् वास किता ऐ, उंनेगी परमेसरे दे रेमा गी होई गया **प्रेरितों दे काम 13:42**.⁶⁶ जदुं यहूदियें दिक् खेया के सारा नगर पौलुस गी परमेसरे दे लोगो गी बोलने आस् ते आया ऐ, तां उंनेगी ईर्था कन् ने भरोई गया ते इस चाल्ती उंदे खलाफ गल् लां ते निंदा किती। हर सब्ब दे दिन पौलुस आराधनालय च यहूदियें ते यूनानी लोकें गी मनांदा हा। लेकन जदुं यीशु ने यहूदियें गी गवाही दिती के यीशु मसीह ऐ, तां उंनेगी विरोध किता ते निंदा किती, इस आस् ते पौलुस ने अपने कपड़े गी हिलाया ^{जी2440} ते आखया, "तुंदा खून तुंदे सिरे उप्पर गै होऐ; अऊं साफ ऐं, अऊं हुन गै गैर-यहूदी जातिएं च जांहगा।"⁶⁷

कीजे यहूदियें परमेसरे दे लोगो दे खलाफ गल् ल करदे हे ते निंदा करदे हे, इस आस् ते पौलुस ते बरनबास ने दिक् खेया के यहूदियें अपने आप गी अनंत जीवन दे काबिल नेई समझया ऐ ते उंनेगी ग् लाया, "एह जरूरी हा के पैहलें परमेसरे दे लोगो गी तुंदे कन् ने ग् लाया जा।" इस कन् ने उंनेगी गैर-यहूदी जातियें दे कश मुडने दा पर्याप्त कारण मिलदा ऐ जेका मूसा दी भविष्यवाणी गी पूरा करदा ऐ, "मैं तुसेंगी उंनें लोकें कन् ने ईर्था करने आस् ते उकसाना ऐ, ते इक मूर्ख जाति दे जरिये मैं तुसेंगी गुस्सा करगा (**रोम 10:19** ऐ)." **परमातमा दे लोगो** पैहलें यहूदियें कन् ने गल् ल कीती गई ही, पर गैर-यहूदी जातिएं गै प्रभु दे लोगो दी महिमा ते विश् वास करदे हन ते यहूदियें गी ईर्था करदे हे। यहूदियों ने न्याय दी कुर्सी दे सामने पौलुस दे खिलाफ इक मन नाल विद्रोह किता, ए दावा किता कि ओ मनुखों कू व्यवस्था दे विपरीत परमेश्वर दी आराधना करण किस्ते मनांदा हे। पर, अचाई (गैलियो) दे डिप्टी ने उंनेगी फैसले दी सीट थमां कड्डी दिता कीजे उंदे सवाल लोगो, नां ते उंदे कानून दे हे। फिरी सारे यूनानी (गैर-यहूदी कौम) आराधनालय दे प्रधान शासक (सोस्तीनी, पौलुस दे साथी) गी न्याय आसन दे सामने मारी ओड़ेया। आराधनालय च पौलुस परमेसरे दे राज दी गल् लें उप् पर विवाद करदा हा ते समझदा हा, पर ओह चेलें कन् नः गै चली गया, जदुं अविश् वासी लोकें लोकें दे सामने इस गल् ला दी बुरी गल् लां ग् लांदे हे, ते ओह रोजाना तिरनुस दे किश स्कूल च विवाद करदा हा। दो साल

⁶⁴संदर्भ देना **रोम 1:3** ऐ, **ऐप्रकाशित 1:13 ऐ-18 ऐ**, & **वीडियो 16**, "गैर-यहूदी (मसीह दा रहस्य)।"

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

⁶⁵वही।

⁶⁶पौलुस दे रेमा-प्रचार दे बारे च **प्रेरितों दे काम 13:42**, **वीडियो 15**, "परमेसर दे लोगो दा सुसमाचार" दिक्खो।

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/15/ ऐ.

⁶⁷"[अंतिम संदेश] मसीह दे रहस्य (गैर-यहूदी, सारे राष्ट्र)" या...

video 16. "गैर-यहूदी, सारे जाति 6/10।" www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

बाद एशिया दे यहूदिये ते यूनानी लोकें प्रभु यीशु दे लोगो सुनेया, ते परमेश्वर पौलुस दे हत्थे कन् ने उनेंगी चंगा करने आस् ते खास शक्ति दा कम्म किता, ते बमारिये ते बुरी आत् माएं उनेंगी चली गया।

बुरी आत् मा पौलुस दे आस् ते प्रभु यीशु दे नां दी शक् ति गी जानदी ही, पर उस वेले उसी नेई जानदा हा, जदुं आवारा यहूदिये कन् ने शपथ दिती ही, जेके भूत भगाने आले हे ते ये यहूदी मुख् य याजक दे सत्त पुत्र, इस आस् ते बुरी आत् मा आला मानू उछली पेया उंदे उप्पर राज किता ते उंदे उप्पर हावी होई गे ते उंदे उप्पर नंगे ते घायल होईये घै थमां फरार होई गो। इफिसुस दे सारे यहूदी ते यूनानी जदुं उनेंगी पता लगी गया, तां डर लगी गया, ते प्रभु यीशु दा नां बड़ा बड्ड़ा होई गया, ते परमेश्वर दा लोगो बड़ा गै बधदा गया ते प्रबल होई गया।

पौलुस कलीसिया दे प्राचीनें गी बुलाया ते उनेंगी दस् सेया के ओह प्रभु दी सेवा किती ही, जदुं के यहूदिये उदे खलाफ साजिश रचदे हे, ते उनेंगी सार्वजनिक तौर उपर पर यहूदिये ते यूनानिये गी गवाही दिंदे होई, परमेश्वर दे आस् ते पछतावा ते विश् वास करने आस् ते परमेश्वर दे सामने विश् वास करने आस् ते सार्वजनिक तौर उपर पर सिखाया हा सादे प्रभु यीशु मसीहा हालांकि पवित्र आत्मा ने पौलुस गी गवाही दिती के यरूशलेम च बंधन ते दुखे दा इंतजार ऐ, पर उनेंगी अपनी आत्मा गी अपने आपै च प्यारा नेई समझे आ तां जे ओह अपने रस्ते ते सेवा गी पूरा करी सकै, जेहड़ी उसी प्रभु यीशु कोला मिली ही तां जे ओह सुसमाचार दी गवाही देई सकै परमेश्वर दी कृपा ते परमेश्वर दे राज दा प्रचार।⁶⁸

उल्लूखी होन दा मतलब है गरीब पर अमीर?

- प्रभु यीशु मसीह तुंदे कम्म, संकटे, ते गरीबी गी जानदे न, पर तुस असल च अमीर ओ कीजे उस रहस्य दा प्रकटीकरण जेड़ा संसार दे शुरू थमां गै छिपे दा ऐ, हुन परमेश्वर दे पबित्र संतिये गी उंदे मताबक विश् वास दी आज्ञा मनने दे जरिये प्रगत होंदा ऐ यीशु मसीह दे प्रगटीकरण दा प्रचार (रोम 16:26 ऐ). ते गैर-यहूदी जातिये च गुप्त दी महिमा दी छिपी दी दौलत (शरीर च खतना ते खतना नेई) ऐ "मसीहतुहाडे विच, महिमा दी आशा" (कलुस 1:27 ऐ).⁶⁹

मनुख दे पुत्र ने अच्छा बीज बोया (राज्य दे पुत्र, मत्ती 13:38 ऐ) अपने खेत (दुनिया) चा उसी तरह सुर्ग दे राज च राज दे पुत्र न, जिंदे कोल संसार च परमात्मा दा लोगो ऐ। पर जदुं ओह (राज्य दे पुत्र) सोंदे हे (या जागे नेई, तां श्रुस ५:१०), दुनिया च दुश्मन आया, ते कणक (परमात्मा दे लोगो) दे बीच खरपतवार बोया⁷⁰ - बोने आला: मनुख दा पुत्र (अच्छे बीज बोने आला मनुख दा पुत्र ऐ; मत्ती 13:37 ऐ)।

मनुख दा पुत्र राज्य दे पुत्रे आस्ते बीज (परमात्मा दे लोगो) (शापित) जमीन च सुट्टी दिंदा ऐ। ते जदुं राज दे पुत्र रात-दिन सोंदे ते उठदे हे (मतलब ओह पार्थिव शरीरें थवां सुओं दे शरीरें च नमें सिरेआ पैदा होई गेदे हे), तां परमेश्वर दे लोगो बी उठे ते बड्ड़े-बड्ड़े होई गो। जमीन अपने आप गी (जेहड़ा भलाई दा ऐ) फल पैदा करदी ऐ तां जे लोगो गी रेमा च बदलई सकै: ब्लेड → कान दा → कान में भरा गेहूं। फिर मनुख दा पुत्र हंसली च पांदा ऐ कीजे फसल (सुर्ग दे राज दे पुत्र) आई गेई ऐ (तां जे सुर्ग दे पुत्र जिंदे कोल रेमा ऐ, परमात्मा दे राज च दाखल होई सकना)⁷¹

स्वर्ग दा राजखेत च (या दुनिया च छिपे दे खजाने दे समान ऐ (मत्ती 13:44 ऐ), जो कि अच्छे बीज (रेमा) दा फल है जो मूल रूप नाल मनुख दे पुत्र ने खेत विच (परमात्मा दा लोगो) बोया सी (मत्ती 13:24 ऐ). केवल आज्ञाकारी विश्वासी ही सुर्ग दे राज्य (रेमा) दा अनमोल खजाना डेखदे ते दूढे हेन, जो कि परमेश्वर दे लोगो दा फल हे जो हुंदे खेत एच उगया (भरे ते जी उठे या फिर पैदा थी गे)। जदुं कोई बपारी (आज्ञाकारी विश्वासी कीजे इस कीमती खजाने (या अच्छे मोती) गी दूढदा ऐ जेहड़ा रेमा ऐ) गी बड़ा कीमत दा मोती (रेमा) मिलदा ऐ तां ओह खुशी कन्ने जाइये अपने कोल जेहड़ा बी ऐ (जिसदा लोगो ऐ) उसी बेचदा ऐ परमात्मा सुर्ग दे राज च) ते उसी खेत (जेहड़ा रेमा ऐ) खरीददा ऐ मत्ती 13:44 ऐ परमात्मा दे राज च), ते गरीबे गी (परमात्मा दे सारे लोगो) दिंदा ऐ।

फिर आज्ञाकारी विश्वासी यीशु दे कोल आ के उदे पिच्छे चलदा है (मत्ती 19:21 ऐ) अपने खजाने गी जमा करने लेई²³⁴⁴ (रेमा) स्वर्ग विच। ऐसा करने कन्ने नौजवान सिद्ध होई जंदा ऐ। इस करिए जेकर तुस बनना चांहदे ओ **पूरण**, जाओ ते खुशी आस्ते बड़ी कीमत दे अच्छे मोती दूढो ते तुंदे कोल जेड़े लोगो ऐ ओ बेचो, ते गरीबे गी देओ, ते यीशु दे पिच्छे चलिए परमात्मा दे राज्य च दाखल होने आस्ते सुर्ग च रेमा गी संग्रहीत करो।

- **इक सिद्ध मनुख बनी जाओ**
इफिसियों 4:12 ऐ लेई **परफेक्टिंग दासंतों दा**, ऐ⁴⁰ **लेई काम करना मंत्रालय दा**, ऐ
के संस्कारित करने के लिये **मसीह दा शरीर: 1।**

⁶⁸वीडियो 16. गैर-यहूदी, सारे जाति (प्रभु, प्रभु यीशु, & प्रभु यीशु मसीह) 7/10।"

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

⁶⁹वही।

⁷⁰वीडियो 26. "प्रभु दा फसहा" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-द-लॉर्ड्स-पास-ओवर-द-नए-वसीयत/.

⁷¹वीडियो 13. "शब्द (लोगोस & rhēma)" www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा-दा-वरदान/.

[इफिसियों 4:13](#) ऐजदू तकर अस सारे विश्वास दी इकता च नेई ओगे, ते ज्ञान दे [परमातमा दा पुत्र](#), ऐ

कोइक सिद्ध आदमी, ऐ

दी पूर्णता दे कद दे नाप तक [मसीह](#): 1।

[इफिसियों 4:14](#) ऐकि अस्सां हुन इधर-उधर उछालदे बच्चे न होचे।

ते उपदेश दी हर हवा कन्ने चलदे रेह।

मनुखें दी चालबाजी ते धूर्त चालाकी कन्ने, जिस कन्ने ओह धोखा देने च पेदे न;

[इफिसियों 4:15](#) ऐपर प्यार च सच्चाई बोलना, मई बड़ा हो जाओउस च सारे चीजां च, ऐ

जो सिर है, यहां तक कि [मसीह](#): 1।

→ [प्यार में सच बोलना](#), ते सारे अच्छे ज्ञान च बड़ा हो जाओ [परमातमा दा पुत्र](#), नाप तक

दी पूर्णता दे कद दामसीह, ते बन जाओ [इक सिद्ध आदमी](#).

- तुसंगी 10 दिनें तकर संकट होग- इब्रानी, इस्राएल, & यहूदियां

अब्राम इब्रानी ([उत्पत्ति 14:13](#) ऐ) ते परमातमा (['एलोहिम](#)) ने अब्राम कन् ने इक वादा किता के ओह गै होग कई जाति दा पिता ते उदा नां अब्राहम रखेया।

[मत्ती 22:32](#) ऐमें अब्राहम दा परमात्मा, इसहाक दा परमात्मा, ते याकूब दा परमात्मा आं ?

परमात्मा मरे दे परमात्मा नेई; पर जिदे दा परमात्मा ऐ।

- ऐ [ईश्वर](#)ने अपने वादे गी सिर्फ इसहाक च अब्राहम दे वंश दे जरिये गै पूरा किता, जेका इस्राएल दा ऐ।

[रोम 9:6](#) ऐसे नहीं कि शब्द (लोगोस) [#3056](#) आहलाईश्वरकोई असर नहीं पाया।

कीहके ओह सारे इस्राएल नेई न, जेके इस्राएल दे न;

[रोम 9:7](#) ऐते ना गै ओह अब्राहम दे वंशज होने दे कारण सारे संतान ना [#5043](#) ऐ

लेकन "इसहाक च तेरा वंशज आखया जागा"

- ऐ इसहाक दे पुत्र याकूब दे 12 पुत्र हे जेडे इस्राएल दे 12 गोत्र ना हालांकि मूसा ते यीशु ने...

दोनों इस्राएल दे 12 गोत्रों दे वंशज हन ते ओ इक ही पुरख (अब्राहम, इसहाक,

ते याकूब) ओह बकख-बकख गोत्रें दे न: मूसा लेवी दे गोत्र दे इक इब्रानी थमां, ते... [यीशु](#)

यहूदा दे गोत्र चा⁷²

- ऐ [यीशु](#), जिस नू बुलाया जांदा है [मसीह](#) ([मत्ती 1:16](#) ऐ), ऐ [प्रभू](#) (प्रेरितों दे काम २:३६) यहूदियों थे जो उगने से निकले यहूदा, लेकन उसी सारे इस्राएल दे घरे ([प्रेरितों दे काम २:३६](#)).

[इब्रानियों 7:14](#) ऐकी वे साफ ऐ के साडा प्रभु यहूदा च निकले दा ऐ;

जिस गोत्र दे बारे च मूसा ने याजक दे बारे च किश नेई बोलया।

[मरच 15:2](#) ऐपिलातुस ने उसी (यीशु) पुछया, क्या तू यहूदियों दा राजा ऐ ?

ते उन उसी आखया, " तू ए गल्ल आखदा ऐ।"

- ऐ यहूदी (अंदर बनाम बाहर): यहूदी स्वभाव कन् ने गैर-यहूदी जाति दे पापी नेई हन, जिन् यां उंदे आस् ते

इस्राएल दे पुत्र न, जेडे शरीर च खतना किन्ते गेदे हे। पर इक, जिसदा दिल अंदरूनी तौर उप्पर ऐ

आत्मा च खतना किता गेदा ऐ, ओह यहूदी ऐ जिसदा राजा ऐ [प्रभू](#) ([जहन्ना 12:15](#) ऐ) आकाश ते धरती दा

(मदान, [प्रेरितों दे काम 17:24](#)).⁷³

[रोम 2:28](#) ऐकी वे ओह यहूदी नेई ऐ, जेका बाहरे च इक ऐ; ना ही खतना ऐ।

जेडा शरीर च बाहली ऐ;

[रोम 2:29](#) ऐ लेकन ओह इक यहूदी ऐ, जेडा अंदरूनी तौर उप्पर इक ऐ; ते खतना दिल दा ऐ।

⁷²"[चित्र 2-ख] आदम थमां लेइयै यीशु तकर दी पीढ़ियां," "[चित्र 2-ग] इस्राएल & इस्राएल दे पुत्र," ते...

"[चित्र 2-घ] ऐ। प्रभू (तहाडा) परमातमा."

⁷³"(प्रकासित 11:3-4 ऐ) वो (2) गवाह."

भावना च, ते चिड्डी च नेई; जिसदी स्तुति मनुखें दी नेई; लेकिन परमात्मा दी ऐ।)

- ऐपर इस आस् ते के यहूदियें परमेसरे दे लोगो गी नकारने आस् ते अपने आप गी अनंत जीवन दे काबिल नेई समझेया (प्रेरितों दे काम 13:46), उद्धार दा उजाला गैर-यहूदियें गी, ते इस चाल्ली जमीन दे सिरे तकर मुडदा हा (प्रेरितों दे काम 13:46-47).

इसाएल दे किश हिस्से च अंधकार (अंधता दा मतलब ऐ यहूदियें गी जेके परमेसरे दे लोगो गी नकारदे हे) जदुं तकर गैर-यहूदियें दी पूर्णता नेई औग, जेकी साढ़े प्रभु यीशु दे दिन गै होग
मसीह (१ कारिन्थियों १:८).⁷⁴

रोम 11:25 ऐकीहके मैं नेई चाहन्दा, हे भ्राओं, तुम इस रहस्य कोलां अनजान होओ।
कहीं तुम अपने घमंड च ज्ञानी नेई होओ;
कि इसाएल दे किश हद तकर अंधता होई गई ऐ, जदूं तकर जे गैर-यहूदी लोकें दी पूर्णता नेई आई जंदी।

रोम 11:26 ऐइस चाल्ली सारे इसाएल उद्धार होग, जिय्यां लिखे दा ऐ।
उद्धारकर्ता सियोन कोलां निकली जाह्य, ते याकूब कोला अभक्ति गी मोड्य।

⁷⁴[3] दानिय्येल दे 70 हफ्ते, ते “(प्रकाशितवाक्य 19:15-16 ऐ) आरमागोडोन (सर्वशक्तिमान परमात्मा दा क्रोध)”

[चित्र 2-ख] आदम तों लेइयै यीशु तकर दी पीढ़ियां⁷⁵

⁷⁵वीडियो 6. “आदम थमां लेइयै यीशु तकर दी पीढ़ियेः दी कताबा”

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशु-इजराइल-दे-पुत्र-पीढ़ियों-दी-पुस्तक/.

The book of the generations from Adam to Jesus

- ✓ The first line of the Bible (the book of Genesis) records **God** (אֱלֹהִים, *Élohim*)^{H430} as **the creator** (בָּרָא, *bara*)^{H1254} of the heaven and the earth (Gen.1.1).
- ✓ **The LORD God** is then mentioned in the second chapter of Genesis as **the maker** (עָשָׂה, *asa*)^{H6213} of the earth and the heavens (Gen.2.4).

• The generations from Adam to Abraham (Genesis 5)

Adam → Seth → **Enos** → Cainan → Mahalaleel → Jared → Enoch → Methuselah → Lamech → Noah → Shem → Arphaxad → Salah → Eber → Peleg → Reu → Serug → Nahor → Terah → **Abraham**

- As per Genesis' narrative, Jewish identity is passed down through biological descent as Jews are those descended from Abraham, Isaac, and Jacob.
- Then, beginning with Enos (which means man),^{H688} Gen 4:26 records that men began to call on the name of **the LORD** (יהוה, *Yahweh*)^{H3068}.


• The generations of Adam to Moses (Genesis 5)

Adam → Seth → **Enos** → Cainan → Mahalaleel → Jared → Enoch → Methuselah → Lamech → Noah → Shem → Arphaxad → Salah → Eber → Peleg → Reu → Serug → Nahor → Terah → **Abraham** → **Isaac** → **Jacob** → **Levi** → **Moses**

• But the absence of genealogies from the time of Moses indicates that the men of Yahweh are identified according to the seed of **Isaac**, who are "the children"^{H5943} of **promise** "who are of 'Israel'" and who are counted as "the children"^{H5945} of **God**" (Rom.9.7-9), by **the word/logos** (λόγος) ^{H3046} of **promise** (Rom.9.9).

• One nation of Israel - The 12 sons of Jacob / The 12 Tribes of Israel

Reuben → Simeon → **Levi** → **Judah** → Dan → Naphtali → Gad → Asher → Issachar → Zebulun → **Joseph** → Benjamin.




• The generation of **Jesus Christ** (The son of Abraham, Matthew 1)

Abraham → **Isaac** → **Jacob** → **Judas** → Phares → Esrom → Aram → Aminadab → Naason → Salmon → Boaz → Obed → Jesse → **David**

David → Solomon → Roboam → Abia → Asa → Josaphat → Joram → Ozias → Joatham → Achaz → Manasses → Amon → Josias → **Jechonias**

Jechonias → Salathiel → Zorobabel → Abiud → Eliakim → Azor → Sadoc → Achim → Eliud → Eleazar → Matthan → Jacob → **Joseph** → **Jesus**

- (14 generations) From Abraham to David
- (14 generations) From David until the carrying away into Babylon
- (14 generations) From the carrying away into Babylon unto Jesus



तुहाडे कोल 10 दिन तक कष्ट होवेगा (जीवन दा मुकुट)

प्रकासित 2:10 ऐजिन्दे कन्ने तू दुखी होगे, उंदे चा कुसे गी बी नेई डरो;

देखो शैतान^{#1228} तूदे च किश गी जेल च पाई देग, तां जे तूदे उप्पर परख होई जा

ते तुसें गी कष्ट होगे^{#2347} दस दिन दा:

तू मौत तक वफादार हो, ते में तुगी मुकुट देगा^{#4735} जिंदगी दा.

प्रकासित 2:10 ऐजिन्दे कन्ने तू दुखी होगे, उंदे चा कुसे गी बी नेई डरो;

दिखो, शैतान तूदे च किश गी जेल च पाई देगा

तां जे तुस परख च जाओ; ते तूदे कोल होगे **मुसीबत दा सामना करना**^{#2347} दस (10) दिन: 1।

तू मौत तक वफादार हो, ते में तुगी देगा **इक मुकुट**^{#4735} जिंदगी दा.

• 10 दिन की कष्ट

- स्मर्ना दी कलीसिया दे जीतने आलें गी 2 मौत दा कोई नुकसान नेई होगे (**प्रकासित 2:11** ऐ), मतलब कि ओह ओह गै हन, जेके मसीहा दे 1000 सालें दे राज दे दौरान जमीन उप् पर छडी गेदे हन।

- गोग 1000 सालें दे अंत च अंतिम गोग ते मगोग युद्ध दी योजना बनाग, इस चाल्ली 10 दिनें दे संकट कि स्मर्ना दी कलीसिया दा सामना करगहो सकदा ऐ के ओह उस आखरी जंग कन् ने जुड़े दा ऐ, जिसी कलीसिया दी लोड पौनी ऐ स्मर्ना दे विश्वास दा मौत तक.⁷⁸

• असी किवें पादे हांजिंदगी दा मुकुट⁷⁹

- जदुं इस्राएल दे पुत्र अपने आप गी परमेसरे आस् ते कम् म करने आस् ते पबित्तर होने आस् ते बखरे हन, तां ओह प्रभु आस् ते पबित्तर हन, कीजे उंदे परमेसरे दा पबित्तर मुकुट उंदे सिर उप् पर ऐ। शब्द (रहेमा^{#4487})^{पव1697}, सारे शरीर दे परमात्मा प्रभु दे द्वारा अचम्भकारी कम्म करदा ऐ। **जीवन दा सच्चा परमात्मा**^{पव2416} ऐ (**जेर10:10** ऐ)। उने धरती बनाई ऐ^{पव 776} अपनी ताकत दे द्वारा^{पव 3581} (**जेर10:12** ऐ), ते जवानें दी महिमा ऐ उंदी ताकत, ते बुजुर्गें दा इज्जत धुंधला सिर ऐ, जेहड़ा **महिमा दा मुकुट ऐ**, ऐ धर्म दे रास्ते च पाया।

याकूब 1:12 ऐधन्य ऐ ओह मनुख जेड़ा परीक्षा झेलदा ऐ;

मुकुट दा (στέφανος ऐ, स्टेफनोस) ने दी^{#4735} जिंदगी दा, ऐ

जित प्रभु उंदे कन्ने प्रेम करने आलें कन्ने वादा किता ऐ।

- ऐशाऊल, जेका पौलुस बी आखदे न (**प्रेरितों दे काम 13:9**), प्रचार किता कि **मसीह ऐ परमात्मा दा पुत्र कर्दु इक रोशनी** (परमात्मा दा)

स्वर्ग तों उंदे चारों पासे चमकी (**प्रेरितों दे काम ९:२०**)। उन् ने ए जानदे होई सुसमाचार दा प्रचार किता के इनाम ऐ

जेड़े अपनी मर्जी कन्ने करदे न उंदे आस्ते, ते सुसमाचार प्रचार करने दा इनाम **ऐके सुसमाचार बनाओ**

मसीह बिना कुसे आरोप दे, तां जे **सुसमाचार दे अधिकार दा दुरुपयोग नेई कीता जंदा**। ते अस सुसमाचार प्रचार करदे आं;

यरुशलेम दे सिस्थोन पहाड़ थमां साढ़े कोल लेई आया गेदा ऐ ते तुसें गी तूदे कम्में दा इनाम मिलग

नाथ (**'ādōnay**)^{पव136} ईश्वर (**v^hōvā**)^{पव 3069} सुसमाचार दे प्रचार दे जरिए होर मते लोकें गी हासल करने आस्ते;

असें गी सारें दे सेवक बनना चाईदा, जिंदे च यहूदी, कानून दे अधीन, कानून दे बगैर (जिंदे कन् ने...

तुस कानून दे अधीन होने दे नाते **मसीह**), ते सुसमाचार आस्ते कमजोर लोकें गी, बनने आस्ते

उंदे कन्ने हिस्सा लेंदे ना। असी अपनी दौड़ ए जानदे होए दौड़ना चाइदा कि इनाम सिर्फ इक धावक गी गै मिलग, ते...

दौड़ जीतने दी कोशिश करने आलें गी हर चीजें च आत्मसंयम करना पौंदा ऐ तां जे इक...

अविनाशी मुकुट^{#4735} ऐसा करने आस्ते असें गी अपने शरीर गी नियंत्रण च रखना चाहिदा ते उसी अपने अधीन करना चाहिदा, नेई तें,

दूए गी प्रचार करिये, अस अपने आपै गी नुट्टी गेदे आं।⁸⁰

⁷⁸“(**प्रकासित 19:19** ऐ) जानवर, जमीन दे राजा, & उंदी फौज महान परमात्मा कन्ने लड़ाई करने आस्ते इकट्टी होई जंटी ऐ.”

⁷⁹“[चित्र 2-च],” या वीडियो 31. “परमेसर (सिर दे बाल) दे वास्ते इक नासरी”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-एक-नजरी-देव-दे-सिर-के-बाल/.

⁸⁰वीडियो 24. “तुस पवित्र यरुशलेम ओ) यरुशलेम दे सिस्थोन पहाड़ थमां साढ़े कोल लेई आए गेदे ओ (1/3)”

www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-देव-दे-घर-तुस-पवित्र-यरुशलेम/.

✦ सुर्ग थवां परमेसरे दी रोशनी दमिशक च पौलुस दी जमीन उप् पर पौने शा वैहलै पौलुस ने यीशु गी सताया ते प्रधान याजके पौलुस गी मते सारे कम्म करने दा अधिकार दिता जेके नासरत दे यीशु दे नां दे उल्ट हे, जिय् यां पबित्तरे गी जेल च पाना, सताना, सजा देना ते मारना ते उनेंगी निंदा करने आस् ते मजबूर करना।⁸¹
 यहूदा इस्करियोती उनें 12 प्रेरितें च शामिल हा, जिनेंगी प्रभु थवां पबित्तरे आत् मा हासल ऐ। मतलब, जेके चले गी शक्ति ते अधिकार दिता गेदा हा ते प्रेरित बनी गेदे हे, ओह यीशु गी बी धोखा करी सकदे न, ते यीशु गी धोखा देने आला दुश्मन (दुष्ट पुत्र) दा हत् थ उदे कन् ने मेज उप् पर हा। पर तुस ओह प्रेरित ओ, जेका यीशु कन् ने उदी परीक्षाएं च गै रोहना हा; इस आस् ते यीशु तुसेंगी इक राज नियुक्त करग, जिय् यां उदे पिता ने उदे आस् ते इक राज नियुक्त किता हा। इय् यां गै प्रेरितें च प्रधान ओह गै ऐ जेका सेवा करदा ऐ, जिय् यां के यीशु उदे च सेवा करने आला ऐ (लूका 22:24-30 ऐ)।

→ “[चित्र 2-क]” चले ते प्रेरितें दे बीच भेद गी दस्सदा ऐ।⁸²

• मौत तक वफादार

- तुहाडे विश्वास दी परीक्षा अग ना ल साबित होवेगी तां कि तुसीं उहदी वारिस दी महिमा ना ल अमीर हो जाओ संत जदों तुहाडी समझ दी अक्खां रोशन हो जादे होन, जिस विच तुसीं मिल सकदे ओ यीशु मसीह दे प्रकट होने पर स्तुति ते आदर ते महिमा करो ते अपनी आत्मा दा उद्धार पाओ अपने विश्वास दे अंत चा एह् तुदी सेवा उन गै करदे न जिनेंगी सुसमाचार प्रचार किता ऐ तुस सुर्ग थवां उतरे दे पबित्तरे आत् मा दे कन् ने।⁸³

• जिंदगी दा मुकूट⁸⁴

- ऐ प्रभु, ऐसच्चा जिंदगी के परमात्मा अपनी ताकत कन्ने धरती बनाई ऐ, अपनी ताकत कन्ने दुनिया गी स्थापित कीता ऐ बुद्धि, ते अपनी समझ कन्ने आकाश गी फैलाया। प्रभु, ऐ सारे शरीर दा परमात्मा, करदा ऐ धरती (शुष्क धरती, मनुख दे मांस दी नीह) उप्पर अद्भुत कर्में दे माध्यम कन्ने लोगो दा आहलाईश्वर इसे में बदलकर रेमा दा, इस शर्त दे तहत कि इस्त्राएल दे पुत्र (यानी आदमी या औरत) करंगन अपने आप गी अलग कराना सरी दी कसम खा के अपने आप गी पवित्र करना ⁵¹³⁹ प्रभु गी उदे आस्ते कमाल दा कम्म करो (गणना 6:2 ऐ)।

- जेकर तुस उंदी आज्ञा मनदे ओ तां तुसेंगी इक पुत्र (मनुख दा पुत्र) होग, जेहड़ा ऐ वादे दे लोगो, सानु मार्गदर्शन करदे होई मोक्ष दे (रोम 9:9 ऐ)। जवानों दी महिमा उंदी ताकत ऐ, ते बुजुर्गों दा इज्जत ऐ होरी सिरा और होरी सिर है महिमा दा मुकूट, जो धर्म दे रास्ते विच मिलदा है।

- जदुं इस्त्राएल दे पुत्र अपने आप गी परमेसरे आस् ते कम् म करने आस् ते पबित्तरे होने आस् ते बखरे हन, तां ओह पवित्र होंदे न प्रभु गी सारा दिन एसकीजे पवित्र कीते गेदे ताज उनके ईश्वर उंदे सिर उप्पर ऐ।

→ सच्चाई दे लोगो, तुंदे उद्धार दे सुसमाचार गी सुनने दे बाद तुंदे उप्पर भरोसा कीता जंदा ऐ। मानने दे बाद तुसीं वादे दी पवित्र आत्मा कन्ने मुहर जाए गेदे न (इफिसियों 1:13 ऐ)।

याकूब 1:12 ऐ धन्य है मनुख ⁴³⁵ जेड़ा प्रलोभन गी सहन करदा ऐ, ³⁹⁸⁶

कीजे जदुं उसी परख (मंजूर) कीता जंदा ऐ, ता ¹³⁸⁴ उसी मिलग मुकूट दा ⁴⁷³⁵ जिंदगी दा, ऐ जित प्रभु उंदे कन्ने प्रेम करने आलें कन्ने वादा किता ऐ।

⁸¹वीडियो 16. “गैर-यहूदी, सारे जाति (प्रेरित पौलुस) 1/10)।” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ।

⁸²“[चित्र 2-ई],” या वीडियो 29. “प्रभु दा फसह (चले बनाम प्रेरित) दा संदर्भ लैओ।” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-प्रभु-फसह-शिष्य-बनाम-प्रेरित-घटे-आंदे न/।

⁸³वीडियो 43. “(आत्मा दी अगुवाई च) परमात्मा दे पुत्र।” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-आत्मा-भगवान-दे-पुत्र-अगुवाई-दे/।

⁸⁴“[चित्र 2-च],” या वीडियो 31. “परमेसर (सिर दे बाल) दे वास्ते इक नासरी।” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-एक-नजरी-देव-दे-सिर-के-बाल/।

The Lord's Passover (The disciples vs The apostles)

The Lord's Passover (to the 12 apostles⁶³⁻⁶⁷ vs. the disciples)

The 12 apostles

Luk 22:14 And when the hour was come, he sat down, and **gave thanks**, and **blessed** them, and **gave them the cup**, and said, **Drink ye all of it**:
 Luk 22:16 For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God. Luk 22:17 And he took the cup, and gave thanks, and said, **Take, eat: this is my body**.
 Luk 22:18 For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
 → When the hour came, Jesus sat down with the 12 apostles to eat the Passover before He suffer. Then, Jesus took the cup and gave the apostles to divide it among themselves and says that He will not drink the fruit of the vine until the kingdom of God shall come.
 → Note that Jesus took the cup of the fruit of the vine and said that He will not drink of it until the kingdom of God shall come.
 → Refer to "4. Pentecost" for details

The disciples

The bread to the disciples
 Mat 26:26 And as they were eating, Jesus took bread, and **blessed it**, and **broke it**, and **gave it to them**, and said, **Take, eat: this is my body**.
 Mar 14:22 And as they were eating, Jesus took bread, and **blessed it**, and **broke it**, and **gave it to them**, and said, **Take, eat: this is my body**.
 → Note that the apostles the cup to divide among themselves, but Jesus gave the disciples the bread (which is His body broken for them, 1Co 11:24).
The cup to the disciples
 Mar 26:27 And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, **Drink ye all of it**:
 Mar 14:23 And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them: and they all drank of it.
 Mar 14:24 And he said unto them, **This is my blood of the new testament, which is shed for many**.
 Mar 26:28 For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.
 Mar 14:24 And he said unto them, **This is my blood of the new testament, which is shed for many**.
 → The cup that the apostles divided is the blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.
 Mar 26:28 But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.
 Mar 14:25 Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom of God.
 → He will no more drink the fruit of the vine, for He will drink new with you in His Father's kingdom, in God's kingdom.
 Mar 26:30 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.
 Mar 14:26 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.
 → Following the Passover, the disciples sang an hymn and went out into the mount of Olives.

The Lord Jesus

1Co 11:23 For I have received of the Lord that which also I delivered unto you. That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread:
 1Co 11:24 And when he had given thanks, he brake it, and said, **Take, eat: this is my body, which is broken for you**. This do in remembrance of me.
 1Co 11:25 After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, **This cup is the new testament in my blood**.
 → This do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.
 1Co 11:26 For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew (preach) the Lord's death till he come.
 1Co 11:27 Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord.
 1Co 11:28 But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.
 1Co 11:29 For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
 1Co 11:30 For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.
 1Co 11:31 For if we would judge ourselves, we should not be judged.
 1Co 11:32 But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world.
 1Co 11:33 Wherefore, my brethren, when we come together to eat, care one for another.
 1Co 11:34 And if any man hunger, let him eat at home; that ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come.
 → It was the Lord Jesus who was betrayed and took bread at the Lord's Passover.

The Lord's prayer

Mat 6:13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil:


The apostles

The bread to the apostles
 Luk 22:19 And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, **This is my body, which is given for you; this do in remembrance of me**.
 → To the apostles, Jesus says that the bread is His broken body given for you, and they are to do in remembrance of Him.
The cup to the apostles
 Luk 22:20 Likewise also the cup after supper, saying, **This cup is the new testament in my blood, which is shed for you**.
 → To the apostles, Jesus says that the cup is the new testament in His blood, which is shed for you.
 Luk 22:21 But behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
 Luk 22:22 And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
 Luk 22:23 And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
 Luk 22:24 And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors.
 Luk 22:25 But ye shall not be so; but he that is greatest among you, let him be as the younger (new); and he that is chief, as he that doth serve.
 Luk 22:27 For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? Is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
 Luk 22:28 Ye are they which have continued with me in my temptations.
 Luk 22:29 And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me.
 Luk 22:30 That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
 → The hand of the enemy that betrays Jesus is with Him on the table.
 → The apostles continued with Jesus in His temptations, therefore, Jesus appoints a kingdom to the apostles, just as His Father appointed a kingdom to Him.
 → Likewise, the chief among the apostles is the one who serves, just as Jesus is among them to serve.
Jesus is called to be the Lord following the Passover.
 Luk 22:31 And the Lord said, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat.
 Luk 22:32 But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, turn. Strengthen thy brethren.
 Luk 22:33 And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
 Luk 22:34 And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
 → Following the Passover, Jesus is called to be the Lord and He prayed for Peter's faith knowing that Peter will deny Him three times.

The Lord Jesus

This do in remembrance of me
 This is my body, which is broken for you; this do in remembrance of me (1Co 11:24).
 → This is the body of the Lord Jesus
 This cup is the new testament in my blood.
 this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me (1Co 11:25)
 → This is the new testament in my blood of the Lord Jesus
 This is the same passage from the gospel of Luke ("This cup is the new testament in my blood." Luk 22:20)
 → Therefore, the author of the first epistle to the Corinthians (from 1Co 11:23 to 1Co 11:34) is also the apostle, or Paul who was a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, (Luk 22:28, Rom 1:1).
 Act 8:16 (For as yet he (the Holy Ghost) was fallen upon none of them: only they were baptized in the name of the Lord Jesus)
 1Jn 7:38 for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified.)
 → For the Lord Jesus will not eat and drink until God's kingdom come, the Holy Spirit has not yet been given in His name.

⁸⁵वीडियो 29. "प्रभु दा फसह (चेले बनाम प्रेरित)"



⁸⁶वीdeo 31. "परमात्मा दे कोल इक नासरी (सिर दे बाल)"

प्रकाशित 2:11 ऐजेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ;
जेड़ा जीत हासिल करदा ऐ, उसी दूई मौत कन्ने कोई नुकसान नेई होगा।

☞ प्रकाशित 2:11 ऐजेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ;
जो जीत हासिल करदा ऐ, उसी कोई चोट नेई लगनी ओहदूआ (2 वी) मौत.

• **2 वी मौत दा**

- स्मर्ना दी कलीसिया दे जीतने आले बाकी मरे दे हॉगन जेड़े जमीन उप्पर छड़े गेदे हे पर 1000 सालें दे बाद जिंदा होई गेदे हे, जेड़ा पैहला जी उठना ऐ, ते इस चाल्ली इनें जीतने आलें गी 2मीं मौत दा कोई नुकसान नेई होगा⁸⁷

† जेकर तुस पबित्र आत् मा दी अगुवाई च ओ, तां तुस सुनी सकगे जे आत् मा स्मर्ना दी कलीसिया गी केह ग् लांदा ऐ (प्रकाशित 2:8 ऐ- ऐ11) क्योंकि पिता दी आत्मा या पवित्र आत्मा, तुंदे च बोलदी ऐ (मत्ती 10:20 ऐ, ऐमार्च 13:11 ऐ).

(प्रकाशितवाक्य २:१२-१७) (३) पर्गमोस दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी

प्रकाशित 2:12 ऐते पर्गमोस च कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो;
जेड़ा तेज तलवार रखदा ऐ, ओह ए गल्ल आखदा ऐ ऐ^{#4501} दो किनारे कन्ने;

☞ प्रकाशित 2:12 ऐते पर्गमोस च कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो;
ए गल्ल ओह आखदा ऐ जिसदे कोल ऐतीक्षण दा तलवार कन्ने दो किनारा;

- डब्ल्यूटोपी है तेज दोधारी तलवार^{#4501} ऐ?
- ऐप्रभु दा रेमा (देखो प्रकाशित 1:16 ऐ, “ ऐ .डब्ल्यूटोपी इक तेज दोधारी तलवार ऐ ऐ^{#4501} ऐ?”)
- डब्ल्यूहो है तेज दोधारी तलवार^{#4501} ऐ?
- इक तेज दोधारी तलवार ऐ^{#4501} ऐ के मुंह तों निकलदा है ऐप्रभु यीशु मसीह गी, ऐपरमातमा दा पुत्र (प्रकाशित 1:13 ऐ).

- तेज 2 धार वाली तलवार

प्रकाशित 2:13 ऐमें तेरे कम्मों गी जानना ऐ, ते तू कुत्थें रौंदा ऐ, ते शैतान दा आसन (सिंहासन) कुत्थें ऐ ऐ^{#2362} ऐ: 1

ते तू मेरे नां गी मजबूती कन्ने पकड़े दा ऐ, ते उनें दिनें च बी मेरे विश्वास गी नकारा नेई किता
जिस च एंटीपास मेरा वफादार शहीद हा, जेड़ा तुंदे च मारी दिता गेदा हा, जित्थें शैतान रौंदा ऐ।

प्रकाशित 2:14 ऐलेकन मेरे कोल थोड़ी गल्लां तेरे खिलाफ ऐ।

क्योंकि तेरे कोल ओह बिलाम दे शिक्षा गी मनने आले न, जिन्ने बालाक गी सिखाया हा ऐ^{#904}
बच्चों (पुत्रों) दे सामने ठोकर पाना ऐ^{#5207} ऐ इस्त्राएल दा, मूर्तियां दे बलिदान च दिती गेदी चीजें गी खाने आसतै;
ते व्यभिचार करना।

प्रकाशित 2:15 ऐड्यू यां गै तेरे बी ऐसे जेके निकोलियें दे उपदेश गी मनदे न, जिसी अऊं नफरत करदा ऐ।

प्रकाशित 2:16 ऐपश्चाताप करो ऐ^{#3340} ऐ ना ते तेरे कोल जल्दी आई जाहंगा।

ते तलवार कन्ने उंदे कन्ने लड़ग ऐ^{#4501} ऐ मेरे मुंह दा.

- ☞ प्रकाशित 2:13 ऐमें तुंदे कम्मों गी जानना ऐ, ते तुस कुत्थें रौंदा ओ, ते शैतान दा सिंहासन कुत्थें ऐ।
ते तुस मेरे नां गी मजबूती कन्ने रखदे ओ, ते उनें दिनें च बी मेरे विश्वास गी नकारदे ओ
एंटीपास ने दी मेरा वफादार शहीद था, जेड़ा तुंदे बीच मारी दिता गेदा हा, जित्थे शैतान रौंदा ऐ।
- ☞ प्रकाशित 2:14 ऐ लेकन मेरे कोल थोड़ी गल्लां तेरे खिलाफ न,
कीजे तुंदे कोल उत्थें ऐसे लोक बी न जेहड़े इस सिद्धांत गी मनदे न बिलाम, ऐ

⁸⁷“(प्रकाशितवाक्य 20:5-6) पैहला जी उठना (4वीं घड़ी).”

जिसने बालाक गी इस्राएल दे पुत्रों दे सामने ठोकर खाने दी सिखाया।

मूर्तियों दे बलिदान च दिती गेदी चीजें गी खाने ते व्यभिचार करने।

☞ प्रकासित 2:15 ऐ इय यां गै तेरे बी ऐसे जेके निकोलियों दे उपदेश गी मनदे न, जिसी अऊं नफरत करदा ऐ।

☞ प्रकासित 2:16 ऐ पश्चाताप करो, नेई ते में तुंदे कोल जल्दी आई जां ते उंदी तलवार कन्नै उंदे कन्नै लड़ना **मुंह**.

• क्या करदा ऐ **बिलाम** कमीना?

- बालक (मजबूत दा **जी904**)^{#904} मतलब “विनाशक या बिगाड़ने आला, मोआब दा राजा”⁸⁸

- बिलाम (मजबूत दा **जी903**) दा मतलब है “शायद”⁸⁹ जिसदा जड़ अर्थ स्ट्रॉंग दे कोला ऐ **एच1109 ऐ**, “नहीं दा लोकें गी”⁹⁰

- बिलाम दे रस्ते पर चलने दा मतलब ऐ अधर्म दे इनाम (जैसे बलिदान दे खाने) कन्ने प्यार करना मूर्तियों गी चीजें ते व्यभिचार च कम्म करना), जेहड़ा यीशु मसीह दे सच्चे रस्ते दे उल्ट ऐ, जेहड़ा... धर्मी (**१योह २:१**).

२पीतर २:१५ जेड़े सच्चे रस्ता गी छड़डी गेदे न, ते भटक गेदे न।

बिलाम दे रस्ते पर चलदे होई^{#903} बोसोर दा पुत्र,

जो मजदूरी (इनाम) से प्यार करदा सी^{#3408} अधर्म दा,^{#93}

† सारा अधर्म पाप ऐ ते मौत दा पाप नेई ऐ (**१जोह ५:१७**). आदम थमां लेइयै मूसा तकर मौत दा राज हा, पर... **मसीह यीशु** पापीं गी बचाने आस्ते दुनिया च आया तेईश्वरने सानु मिल के पालया है **मसीह**ते असेंगी सुर्गीय थारें च इकट्टे बैठाई दिता **मसीह यीशु**. कीजे आदम च जित्यां सारे मरदे न, लेकिन उंदे **चमसीह**, सारे जिंदा हो जांगन (**१करीन्थियों १५:२२**, ऐ **रोम 5:14 ऐ**, ऐ **इफिसियों 2:6 ऐ**).⁹¹

† असी जानदे हां कि जिस दा जन्म होवेईश्वरपाप नेई करदा; लेकिन जेड़ा पैदा होया ऐईश्वरअपने आप गी रखदा ऐ, ते दुष्ट उसी नेई छुंदा (**१जोह ५:१८**). ते अस बी जानने आं **अस परमात्मा दे आं**, ते सारा संसार बुराई च पेदा ऐ (**१जोह ५:१९**).

• **मुंह दा है जित्थे शब्द**¹⁶⁹⁷ **प्रभु** **दारखे जांदे ने**(**जेर१:९ ऐ**)ते तलवार^{#4501} ऐ **प्रभु दा रेमा** (**प्रकासित 1:16 ऐ**). मनुख दा पुत्र तलवार कन्ने लड़ग^{#4501} उंदे **मुंह** दा जां **प्रभु** दे रेमा दाउनें अधर्मियों दे खलाफ जेके बिलाम (जिसने बालाक गी सिखाया हा) ते निकोलायियों दे सिद्धांत गी मनदे न, जेके इस्राएल दे पुत्रों दे सामने ठोकर खाई दिंदे हे, ते उनें गी मूर्तियों दे बलिदान दिती गेदी चीजें गी खाने ते व्यभिचार करने आस् ते मजबूर करदे हे⁹²

⁸⁸जी904 - बालक - स्ट्रॉंग दा ग्रीक कोश (kjv)।" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 2 मार्च, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g904/kjv/tr/0-1/ ऐ>.

⁸⁹जी903 - बालाम - स्ट्रॉंग दा ग्रीक कोश (kjv)।" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 2 मार्च, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g903/kjv/tr/0-1/ ऐ>.

⁹⁰H1109 - bil'am - मजबूत दा हिब्रू शब्दकोश (kjv)।" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 2 मार्च, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h1109/kjv/wlc/0-1/ ऐ>.

⁹¹वीडियो 12. "यीशु मसीह दी पीढ़ी (आदम तों परमात्मा तक यीशु दी वंशावली)।"

www.therhemaofthelord.com/अनश्रेणीबद्ध/12/ ऐ.

⁹²"[चित्र 2-जी], [चित्र 2-ज], & [चित्र 2-ि], या वीडियो 20. "(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवार) दा संदर्भ लैओ।"

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

- छिपे दा मन्ना

प्रकासित 2:17 ऐजेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ;
 जेड़ा जीतदा ऐ, उसी में छिपे दा मन्ना खाने देगा।
 ते उसी इक सफेद पत्थर देग, ते उस पत्थर च इक नमां नां लिखे दा ऐ।
 जेस गी ग्रहण करने आले गी छोड़िये कोई नेई जानदा।

☞ **प्रकासित 2:17** ऐ जेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ
 जो जीत हासिल करदा ऐ उसी में कुछ देगा **छिपे हुए मन्ना** खाने दा।
 ते में उसी इक सफेद पत्थर देगा।
 ते पत्थर उप्पर इक नमां नां लिखे दा ऐ जेड़ा उसी ग्रहण करने आहू दे सिवा होर कोई नेई जानदा।

• **टीउसने मन्ना छुपाया**⁹⁴


- ऐतलवार दे नाल^{#4501} उदे मुंह दा, परमेसरे दा पुत्र उमें लोकें कन् ने लडग, जेके इम्राएल दे पुत्रें दे सामने ठोकर खाने आस् ते, मूर्तियें गी बलिदान दिती गेदी चीजें गी खाने, व्यभिचार करने, ते निकोलियें दे सिद्धांत गी मनने आलें कोला बचाने आस् ते बिलाम दे सिद्धांत गी मनदे ना।

इक तेजदोधारी तलवार^{#4501} मनुख दे पुत्र दे मुंह तौज्वालामुखी तलवार हे²⁷¹⁹ जेड़ा जीवन दे बूटे दा रस्ता रखने आस्ते हर रस्ते मुड़दा हा, जेड़ा प्रभु दे छिपे दे मन्ना या रेमा दा फल ऐ⁹⁵ जेड़ा जीतने आलें गी खाने आस्ते दिता जाग, ते इक सफेद पत्थर जिस च इक नमां नां लिखे दा होगा।

लोगो दाआहलाई^{इश्रतेज}, ते शक्तिशाली, ते कुसै कोला बी तेज ऐदोधारी तलवार^{#3162} (इब्रानियों 4:12 ऐ). इक तेज दो धारें आली तलवार (ῥομφαία, rhomphaia)^{#4501} उदे मुंह दाऐइक ज्वालामुखी तलवार²⁷¹⁹ कि हर तरफ मुड़ गया कि राह बनाई रखनाजिंदगी दा पेड़, जो प्रभू दे छिपे होए मन्ना या रेमा दा फल है (उत्पत्ति 3:24 ऐ, ऐशतरस १:२५)।”

† जेकर तुस पबित्र आत् मा दी अगुवाई च ओ, तां तुस सुनी सकगेओ जे आत् मा पर्गमोस दी कलीसिया गी केह ग् लांदा ऐ (प्रकासित 2:12 ऐ-17 ऐ) क्योंकि पिता दी आत्मा या पवित्र आत्मा, तुंदे च बोलदी ऐ (मती 10:20 ऐ, ऐमार्च 13:11 ऐ).

[चित्र 2-ज] छिपे दा मन्ना⁹⁶



⁹⁴ [चित्र 2-ई] या वीडियो 23. "रोटी, मन्ना, & छिपे दा मन्ना"

www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-द-ब्रेड-द-मन्ना-द-हिडन-मन्ना/, वीडियो 24. "परमेसर दा घरा"

www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-देव-दे-घर-तुस-पवित्र-यरुशलेम/, ऐ

video 28. "आत्मा दा फल" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्मा-दा-फल/.

⁹⁵ संदर्भ देना प्रकासित 1:16 ऐ.

⁹⁶ वीडियो 23. "रोटी, मन्ना, & छिपे दा मन्ना"

www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-द-ब्रेड-द-मन्ना-द-हिडन-मन्ना/.

[चित्र 2-1] नमं नियम दी पवित्रशास्त्र दी व्याख्या⁹⁷

- मसीह दी पत्र या रेमा जेड़ी साडे प्रभु यीशु मसीह दे प्रेरितें आखदी ही, उं दे कन्ने नेई लिखी गेदी ऐ स्याही पर जिं दे परमात्मा दी आत्मा कन्ने (२कुरिन्थियों ३:३).
- परमेसरे सारे पबित्तर शास्त्र तर गी सिद्धांतें, डॉटें, सुधारें ते धार्मिकता च शिक्षा देने आस्ते ते फायदेमंद होने आस्ते ते दिता ऐ (२तीम ३:१६ ऐ).

की व्याख्या करना **माहनुते जनानी** जिं दे परमात्मा दी आत्मा दे द्वारा → “रेमा” द्वारा

1 मती 4:4 ऐलिखे दा ऐ, मनुख सिर्फ रोटी कन्ने नेई जींदा

लेकन परमात्मा दे मुंह च निकलने आले हर इक वचन दे कन्ने

→ इक आदमी ^{मत्ती 120} दास दा सिर्फ रोटी कन्ने गै जींदा ऐ ^{मत्ती 740} अकेला, पर मुक्त जनानी दा इक आदमी जिंदा रौहदा ऐ हर इक वचन जेड़ा परमात्मा दे मुंह च निकलदा ऐ। (उत्पत्ति 2:18 ऐ, ऐमती 4:4 ऐ)

2 इफिसियों 5:25 ऐपति, ^{मत्ती 435} अपनी पत्नियां कन्ने प्यार करो, ^{मत्ती 1135}

→ पति (एक धर्मी मनुख), ^{मत्ती 435} मसीह दे समान अपनी घरेआली कन्ने प्रेम करो (इफिसियों 5:25 ऐ, ऐयूसुफ उदें पति, इक न्यायी आदमी होने दे नाते (मती 1:19 ऐ).

→ तुस धर्मी मनुख, परमात्मा दी कृपा दे हेठ, मसीह दे शरीर दे अंग कन्ने प्यार करो जेड़ा उं दे हेठ ऐ व्यवस्था, तुं दे च बीज (परमात्मा दे वचन) दे प्रभु दे वादे गी पूरा करने आस्ते। (इफिसियों 5:25 ऐ-26, 10। उत्पत्ति 2:18, 20। उत्पत्ति 17:19 ऐ, ऐल्का 8:11 च)

3 १कुरिन्थियों १४:३४ अपनी जनानियां दे ^{मत्ती 1135} कलीसियाएं च चुप रौओ, कीजे उं गेगी बोलने दी इजाजत नेई ऐ; लेकन उं गेगी आज्ञा मनने ते व्यवस्था दे अधीन रौहने दा हुक्म दिता गेदा ऐ।

- जेकर १कुरिन्थियों १४:३४ अक्षर दे द्वारा व्याख्या कीती जंदी ऐ → “कलीसियाएं च जनानियें गी बोलने दी इजाजत नेई ऐ।”
- जेकर १कुरिन्थियों १४:३४ जिं दे परमात्मा दी आत्मा दी व्याख्या कीती जंदी ऐ।
→ “**गुलामी च बैठे दे परमात्मा दे वचन गी सिखाने आलें गी व्यवस्था च चुप्पी रक्खना चाहिदा कलीसियाएं गी, कीजे चिट्ठी मारदा ऐ**” (२कुरिन्थियों ३:६).

4 १कुरिन्थियों १४:३५ जेकर ओह कोई गल्ल सिक्खी लैन, तां घरे च अपने पति कोलां पुच्छन, कीजे ए शर्म दी गल्ल ऐ जनानियां गी कलीसिया च बोलने आस्ते।

- जेकर गुलामी च बैठे दे लोक कुसे गी सिखदे न, तां ओह मुक्त जनानी दे मनुख कोला मंगन, जेड़ा परमात्मा दे मुंह थमां निकलने आला वचन सिखां दे न, कीजे आत्मा जीवन दिंदी ऐ। (२कुरिन्थियों ३:६).
- साडे प्रभु दे द्वारा आखदे नवे नियम दे शब्द “रेमा” हेन, जो कि लपटें दे नाल आं दे हेन ^{मत्ती 3851} आग दा ^{मत्ती 784} ते तलवार ^{मत्ती 2719} प्रभु दा सारे शरीर (यशायाह 66:15 च-16) ऐ।
- प्रभु उं लोके गी मारी देग जिं दे कर्म ते विचारें गी भलाई-बुरे दे ज्ञान दे बूट्टे कन्ने पवित्र ते शुद्ध कीता गेदा ऐ (यशायाह 66:15-17 च).
- सारे जाति ते भाशाएं च परमेसरे दे पबित्तर फ्हाइ यरूशलेम च परमेसरे दे भ्राएँ गी बलिदान दे रूप च लेई औन (यशायाह ६६:१८-२४ च).

But the word (*rhema*)^{G4487} of the Lord endureth for ever.

And this is the word (*rhema*)^{G4487} which by the gospel is preached unto you (1Pe 1:25).

Through **faith** we understand that the worlds were framed by the word (*rhema*)^{G4487} of God, so that **things which are seen** were **not made of things which do appear** (Heb 11:3).

The LORD to cut off the flesh of the wicked from the righteous (Eze 21:3-5)



⁹⁷वीडियो 22. “नवे नियम दी पवित्रशास्त्र दी व्याख्या”

(प्रकाशितवाक्य 2:18-29 ऐ) (4) थियातीरा च कलीसिया दे सुर्गदूत गी

प्रकाशित 2:18 ऐते थियातीरा च कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो;

परमात्मा दा पुत्र ए गल्ल आखदा ऐ

जिसदी अक्खी लौ दे समान नः^{५३९५} आग्ग दा,^{५४४२} ते उदे पैर महीन पीतल दे समान नः^{५४७४}

☞ प्रकाशित 2:18 ऐ ते थियातीरा कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो।

एह गल्लां परमात्मा दा पुत्र आखदा ऐ, जिसदी अक्खी जनेही नः **अग्ग दी लौ**, ते उदे पैर महीन पीतल दे समान।

- जो अग्ग दी लौ दी अक्खां ते महीन पीतल दे पैर आला ऐ?

- ऐप्रभु यीशु मसीह(टीओह परमात्मा दा पुत्र)⁹⁸

- केह ऐइक आग्ग?

- न सिर्फ यीशुतलवार भेजने के लरए जभीन नय आमा^{३१६२} (मती 10:34 ऐ), पर भेजने भी आया अग्ग, ऐ

कि मुड़दा हैलोगो दाशब्द च (रमा)^{४४८७} आहलाईश्वर.⁹⁹

- जो जॉन के फाद आमा था, लश थामसीह यीशुतेपवित्र आत्मा गीजो हैं उन पर आ जांदा है

के नाम पर बपतिस्मा लेया प्रभु यीशु गी; उसदे बाद उनेंगी आत् मक बरदान मिलाग जेहू डे उनेंगी इस च समर्थ बनाडन

भाशाएं च बोलना ते भविष्यवाणी करना (एकट 19 ऐ: 1४-६ दा, ऐ १ कुरिन्थियों १२:१).

† संसार (आकाश ते धरती) जी 3056 ऐ जेड़ा अस हून अपनी कुदरती अक्खी कन्ने दिक्खने आं, एह ऐलोगो दा जेड़ी चीजें कन्ने जिय्यां दिक्खदी ऐ, उय्यां गै नेई बनी दी ऐ, लेकन भंडार च गै रखी गेदी ऐ अग्ग (खुलास करना रेमा दा आहलाईश्वर) अभक्त मनुखें दे न्याय ते नाश दे दिन दे खिलाफ (इब्रानियों 11:3 ऐ, ऐ २ पतरस ३:७).¹⁰⁰

- क्या करदा ऐ अग्ग दी लौ कमीना?

- ऐप्रभुसारे मांस कन्ने गुहार लाग अग्ग ते उदी तलवार कन्ने^{२७१९}, ते जिन्दे कम्मं गी मारी ओड़ग ते विचारें गी भलाई-बुरे दे ज्ञान दे बूहटे कन्ने पवित्र ते शुद्ध कीता गेदा ऐ।¹⁰¹

- नवे नियम दे शब्दसाडे द्वारा बोली गई नाथ ऐ "रेमा दा", जो दे नाल आंदी है लौएस आहला अग्ग ते तलवार दी प्रभूसारे मांस गी (यशायाह 66:15-16 च).¹⁰²

- की जेईश्वरकिसान ऐ ते उदा पुत्र सच्ची बेल ऐ, असंगी, शाखाएं दे रूप च, उस च रौहना चाहिदा

परमात्मा दा पुत्र, जो नवां पींदा (रमा) च परमात्मा दा राज. उदे च टिकने आले

राज्य दे मते सारे फल पैदा करदे न ते इस चाल्ली आशीर्वादित होंदे ना जेकर तुस उंदे च नेई रौंदे ओरेमा, तुसीं करगे

शाखा दे रूप च ते अंदर सुट्टी दिता जा अग्ग दी ते जली जाओ, पर तुसंगी डरने दी लोड़ नेई ऐप्रभु गी

जमीन को बड़े-बड़े काम कर देगा।¹⁰³

† पछतावे दे बपतिस्मा दे बाद तुस्सां मसीह यीशु उते विश्वास करो (जो तुवाकुं पवित्र आत्मा नाल, ते अग्ग नाल बपतिस्मा उंदे) ते प्रभु यीशु दे नां नाल बपतिस्मा घिन्नो। फिरी पवित्र आत्मा उन लोकें उपर ओग जिंदे कोल लोगो ऐ जेड़ा रेमा च बदली जाग, जेड़ा पवित्र भविष्यवक्ताएं पैहें आखेआ हा, ते प्रभु ते उद्धारकर्ता दे प्रेरितें दे हुकम दे बारे च (२ पतरस ३:२). प्रभु यीशु स्वर्ग तों प्रगट होवेगामतलब कि सच्चाई दे लोगो (तुंदे उद्धार दा सुसमाचार) में जला देगा ज्वालामुखी आग्ग साडे सुसमाचार दे जरिए रेमा गी प्रगट करना प्रभु यीशु मसीह. तुसैं विश्वास करने ते ग्रहण करने दे बाद मसीह, तुसीं नाल सील हो गए सी पवित्र आत्मा गीवादे दा. तुस परमेसरे दे सारे लोकें च इक कौम ओ, यानी 144,000 (मसीह दे

⁹⁸संदर्भ देना प्रकाशित 1:12 ऐ.

⁹⁹वही।

¹⁰⁰वीडियो 44. "शास्त्र दी भविष्यवाणी (2 पतरस 3) 1/2।" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

¹⁰¹वीडियो 22. "नवे नियम दी पवित्रशास्त्र दी व्याख्या।" www.therhemaofthelord.com/interpretation/22-नए-नियम-दे-शास्त्र-दी-व्याख्या/.

¹⁰²वही।

¹⁰³वीडियो 28. "आत्मा दा फला।" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्मा-दा-फला/.

पैहले फल), जेहड़े सियोन पहाड़ उप्पर इक मेमने कन्नै खड़ोते दे न जिंदे मल्लें उप्पर उंदे पिता दा नां लिखे दा ऐ¹⁰⁴यीशु मसीह दा सुसमाचार परमेसरे दे पुत्र दे बारे च ऐ ते परमेसरे च कलीसिया दा सुसमाचार अंदर आयालोगो दा, चताकत, ते मेंपवित्र आत्मा गी, जो हैरमा दा.¹⁰⁵

- † यीशुसाडे नाल जमीन ते चलदा रेहा(लुका8:27 ऐ), पर उंदे पैर शापित जमीन कोला उप्पर हे¹⁰⁴जदुं उसी बूटे उप् पर लटकाया गया ते सूली उप् पर चढ़ाया गया। इय यां गै फिलपस ते नपुंसक दोनं दे पैर जदुं तक रथ च इकठे बैठे दे पानी च नेई आई गे (प्रेरितों दे काम 8:31). प्रभु ने उंदे पैरें गी पबितर धरती उप्पर खड़ोने आस् ते बपतिस् मा लेई पानी च जाने दे रस्ते च साफ रखेया।¹⁰⁶

- तुंदे कम्में, प्यार, सेवा, विश्वास, धैर्य, & आखरी गी पैह्ले कोला बी मता होने आस्तै

प्रकासित 2:19 ऐमें तेरे कम्में गी जानना ऐ, ^{जो2041 ऐ}

ते दान (प्रेम), ^{जो26 ऐ}ते सेवा(सेवा), ^{जो1248 ऐ}ते विश्वास, ^{जो4102 ऐ}ते तेरी धीरज, ^{जो5281 ऐ}ते तेरे कम्में गी; ^{जो2041 ऐ}
ते आखरी गी पैह्ले कोला बी मता होना।

☞ प्रकासित 2:19 ऐमें तेरे कम्में गी जानना ऐ, प्यार, सेवा गी, तबार, ते तुंदा धैर्य;
ते तुंदे कम्में दी तां आखरी कम्म पैह्ले कोला बी मते ना

- चऐथ

- राज दाईश्वरसिर्फ लोगो च नेई, पर च ऐ rhēma परमातमा दा, ते आस्था दा सुन के आ जांदा है परमातमा दा रेमा, जो में है सत्ता दी और में पवित्र आत्मा गी.¹⁰⁷

- ऐबाद च तबार आंदी ऐ, अस हून कुसै स्कूली मास्टर दे हेठ नेई रेह पर दे पुत्रों दे हेठ रेह आंईश्वर हेंतबार च मसीह यीशु.¹⁰⁸

- ऐइन्नानियों 11:3 ऐरिकार्ड करदा ऐ, “माध्यम कन्नै तबार असी समझदे हां कि दूनियां दा (आकाश ते धरती) द्वारा परफेक्ट बना दिया गया रेमा दा आहला ईश्वर” ते किस चाल्ली दे बारे च त्रै भेद नईश्वर आकाश ते धरती गी “फ्रेम” कीता।

→ परमातमा दा रेमा त्रै बकख-बकख चरणें च फ्रेम कीता गेदा ऐ:

- ऐसी चीजें जो “बनाए गए, ^{एव1254 ऐ} बनाया (करया), ^{एव6213 ऐ} ते सामने लाया ^{एव3318 ऐ & एव8317 ऐ}”¹⁰⁹

¹⁰⁴वीडियो 18. “पहले फल (144,000)” www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-पहले-फल-द-144000/.

¹⁰⁵बपतिस्मा दी प्रक्रिया गी समझने आस्तै वीडियो #14 ते #35 दिक्वो।

“[चित्र 2-जी] & [चित्र 2-ज],” या वीडियो 14. “पश्चाताप, बपतिस्मा ते पवित्र आत्मा, & पवित्र आत्मा दा वरदाना”
www.therhemaofthelord.com/पश्चाताप-बपतिस्मा/14-पश्चाताप-बपतिस्मा-पवित्र-आत्मा/.

वीडियो 35. “(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार दे चेला”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शिष्य-शक्ति-अधिकार-के-साथ-.

¹⁰⁶वीडियो 33. “इस रथ च अपने आप गी जोड़ो” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-अपने-आप-गी-इस-रथ-च-जोड़ो/.

¹⁰⁷“[चित्र 2-j] & [चित्र 2-k],” या वीडियो 14. “पश्चाताप, बपतिस्मा ते पवित्र आत्मा दा संदर्भ लैओ”

www.therhemaofthelord.com/पश्चाताप-बपतिस्मा/14-पश्चाताप-बपतिस्मा-पवित्र-आत्मा/.

¹⁰⁸विश्वास दे बारे च, “[चित्र 2-j], [चित्र 2-k], & “[चित्र 2-l],” जां वीडियो 42, “5. तुरही”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-द-भोज-दे-लॉर्ड-5-तुरही/.

¹⁰⁹वीडियो 1. “परमेसर दी सृष्टि दे सत्त दिना” www.therhemaofthelord.com/कोर्स1/पाठ1/ऐ.

[चित्र 2-ज] पश्चाताप, बपतिस्मा, & पवित्र आत्मा¹¹⁰

¹¹⁰वीडियो 14. “पश्चाताप, बपतिस्मा ते पवित्र आत्मा, ते पवित्र आत्मा दा करदाना”

www.therhemaofthelord.com/पश्चाताप-बपतिस्मा/14-पश्चाताप-बपतिस्मा-पवित्र-आत्मा/.

What are Repentance and Baptism?

The **gospel of Jesus Christ** (Mar.1:1)
 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judeaea. (Mar. 3:1)
 → And saying, "Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand." (Mar.3:2)
 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying,
 The voice of one crying in the wilderness.
 → Prepare ye the way of the Lord; make his paths straight (Mar.3:3)



But he that cometh after me is mightier than I,
 → he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire (Mar.3:11)

Have ye received the Holy Ghost since ye believed? (Act.19:2)

"We have not so much as heard
 whether there be any Holy Ghost." (Act.19:2, Act.19:3)

"They should believe on him which should come after him,
 that is, on Christ Jesus" (Act.19:4)

When they heard this,

→ they were baptized in the name of the Lord Jesus (Act.19:5)



What does "in" Power & "in" the Holy Ghost (Spirit) mean?

"For our gospel came not unto you in word(logos) (Col.3:9) only,
 → but also in power,
 → and in the Holy Ghost (1Th.1:5)

The Holy Spirit logos (Col.3:9)

Power rhēma (Eph.5:26)

witnesses in
 • In Jerusalem
 • In all Judea & Samaria
 • Until the last of the earth

But ye shall receive power (Eph.5:26) after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me → both in Jerusalem, and in all Judeaea, and in Samaria, and unto (until) (2Th.1:11) the uttermost (last) part of the earth (ground) (Act.1:8)

Baptism

- to cleanse by dipping or submerging,
 - to wash, to make clean with water,
 - to wash one's self, bathe

Baptism is to sanctify and cleanse (Eph.5:26) with water
 "in Water → in the Word (rhēma) (Eph.5:26)"

The LORD God said,
 It is not good that the man (man) should be alone;
 I will make him an help meet for him (Gen.2:18)

"Man (man) shall not live by bread alone,
 but by every word (rhēma) (Mat.4:4) that proceedeth out of the mouth of God." (Mat.4:4)

For the kingdom of God is not in word (logos), (Col.4:20) → but in power (1Th.1:5)

For our gospel came not unto you in word (logos) only,
 but also in power, and in the Holy Ghost (1Th.1:5)



The Word (rhēma) (Rom.10:17) of God


The Kingdom of God -

Not in Word(Logos) (Col.3:9) only, but in the Word (rhēma) (Eph.5:26) of God, which is in the power & in the Holy Ghost (1Th.1:5)
 Jhn. 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
 Jhn. 14:17 Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
 Jhn. 14:26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.

We are to Preach this Gospel (1Co.1:17)

[चित्र 2-क] पवित्र आत्मा दा वरदान¹¹¹

¹¹¹वीडियो 14. "पश्चाताप, बपतिस्मा ते पवित्र आत्मा, ते पवित्र आत्मा दा वरदान"



- जो लोग बिना पश्चाताप दे ईजेबेल गी दुखी किता: महान संकट च सुट्टी दिता गेआ

प्रकाशितवाक्य 2:20 लेकन मेरे कोल थोड़ी गल्लां तेरे खिलाफ ऐ।

की वे तू उस जनानी ईजेबेल गी दान देंदे ओ जेड़ी अपने आप गी भविष्यवक्ता आखदी ऐ।

मेरे सेवकें गी सिखाने ते बहकाने आस्ते ^{#1401} व्यभिचार करना, ते मूर्तियां दे बलिदान च दिती गेदी चीजें गी खाने आस्ते।

प्रकाशित 2:21 ऐते मैं उसी अपनी व्यभिचार दे बारे च पछतावा करने दी जगह दिती; ते ओह पछतावा नेई किती।

प्रकाशित 2:22 ऐदिखो, मैं उसी बिस्तर उप्पर सुट्टी देगा, ते उदे कन्ने व्यभिचार करने आलें गी बड़ा बड़ड़ा करी देगा ^{#3173} मुसीबत दा सामना करना, ऐ ^{#2347}

सिवाय इसदे के ओह अपने कम्म (कम्म) दा पश्चाताप करदे ना ^{#2041}

प्रकाशित 2:23 ऐते मैं उदे बच्चें गी मारी देगा ^{#5043} मौत दे नाल;

ते सारी कलीसियाएं गी ^{#1577} जानना ऐ के मैं ओह ऐं जेड़ा लगाम दी जांच करदा ऐ ^{#3510} ते दिलें गी: 1।

ते मैं तुंदे हर इक गी तुंदे कम्म दे मताबक देगा ^{#2041}

☞ **प्रकाशितवाक्य 2:20** फिरी बी मेरे उप्पर थोड़ी-बहुत गल्लां ऐं, कीजे तुस उस जनानी गी ईजेबेल गी अनुमति देई ओइदे ओ।

जेड़ी अपने आप गी नबी आखदी ऐ, ते मेरे दासं गी व्यभिचार करने आस्ते सिखाने ते बहकाने आस्ते

ते मूर्तियां दे बलिदान दी चीजां खाओ।

☞ **प्रकाशित 2:21** ऐ ते मैं उसी अपने व्यभिचार दे बारे च पछतावा करने दा समां दिता, ते ओह पश्चाताप नेई किता।

☞ **प्रकाशित 2:22** ऐ दिखो, मैं उसी बिस्तर उप्पर सुट्टी देगा, ते उदे कन्ने व्यभिचार करने आलें गी बी सुट्टी देगा **महानमुसीबत दा सामना करना**, ऐ

☞ **प्रकाशित 2:23** ऐ मैं उदे बच्चें गी मौत कन्ने मारी देगा,

ते सारी कलीसियाएं गी पता लगना ऐ के मैं ओह ऐं जेड़ा बागडोर ते दिलें दी जांच करदा ऐ।

ते मैं तुंदे हर इक गी तुंदे कम्म दे मताबक देगा।

- **परमातमा दा पुत्र** थ्यातीरा च कलीसिया दे खिलाफ किश गल्लां ऐ कीजे ओह इक जनानी ईजेबेल गी जेकी अपने आप गी भविष्यवक्ता आखदी ऐ, उसी अपने दासं गी व्यभिचार करने आस्ते ते सिखाने ते फसाने ते मूर्तियां गी बलिदान दिती गेदी चीजें गी खाने दी इजाजत दिदे ना

उन् ने उसी पछताने आस्ते ते समां दिता, पर ओह अपने व्यभिचार उप् पर पछतावा नेई किती। इस आस्ते ते ओह उसी बिछौने उप् पर सुट्टी देगा, ते उदे कन्ने व्यभिचार करने आलें गी बी बिस्तर उप् पर सुट्टी देगा **बड़ी कष्ट** जदुं तक ओह अपने कम्मं दा पछतावा नेई करन। ओह उदे बच्चें गी मौत कन्ने मारी ओइगा ते सारी कलीसियाएं गी पता लगना ऐ के ओह गै ऐ, जेका तुंदे कम्म में दे मताबक तुंदे च हर इक गी देने आला बागडोर ते दिलें गी तलाशदा ऐ।

→ जदुं तक ओह अपने कम्म में आस्ते पछतावा नेई करन, तां तू यातिरा च कलीसिया च बी सुट्टी दिता जाग **बड़ी कष्ट**।

- जेके इजेबेल दे सिद्धांत दे बगैर: उदे आने तक मजबूती कन्ने पकड़ना चाइदा

प्रकाशित 2:24 ऐलेकन मैं तुसं गी ते थियातीरा दे बाकी लोकें गी आखना ऐं, जिनेंगी ए शिक्षा नेई ऐ।

ते जेड़े शैतान दी गहराई गी नेई जानदे, जिय्यां ओ बोलदे न; मैं तुंदे उप्पर कोई होर बोझ नेई लाना।

प्रकाशित 2:25 ऐलेकन जेका तोहे पैहले तों ही मैं आने तक पकड़ी रखो।

☞ **प्रकाशित 2:24** ऐ मैं तुसं गी ते थियातीरा दे बाकी लोकें गी आखना ऐं, जिनेंगी ए शिक्षा नेई ऐ।

जेड़े शैतान दी गहराई गी नेई जानदे, जिय्यां के बोलदे न, "मैं तुंदे उप्पर कोई होर बोझ नेई लाना।"

☞ **प्रकाशित 2:25** ऐ पर जे किश तुंदे कोल ऐ, उसी पकड़ो, जदुं तक अऊं नेई औना।

- **टीओह थ्यातीरा च विश्राम करदा ऐ**, जेके ईजेबेल दे सिद्धांत गी नेई मनदे

- कीजे ओह शैतान दी गहराई गी नेई जानदे, इस आस्ते परमेसरे दा पुत्र उंदे उप् पर बोझ नेई होग ते उनेंगी बड्डे-बड्डे कष्ट च नेई सुट्टी दिता जागा पर उनेंगी, उदे सेवक दे रूप च, उदे उप् पर धू यान देना पौना ऐ, जेका उनेंगी पैहलें गै दस् सेया ऐ।

- जीतने आले: गैर-यहूदी राष्ट्र उप्पर अधिकार दिता गेदा

प्रकाशित 2:26 ऐते जेड़ा जीतदा ऐ, ^{#3528} ते मेरे कम्मं गी रखदा ऐ ^{#2041} अंत तक, ऐ ^{#5056}

उसी मैं शक्ति (अधिकार) देगा ^{#1849} राष्ट्रों उप्पर; ^{#1484}

प्रकाशित 2:27 ऐते ओह राज करग (खिलाना) ^{#4165} उनेंगी छड़ी कन्ने ^{#4464} लोहे दा; ^{#4603}

जिय्यां कुम्हार दे बर्तन गी तोड़िये सिहरन (टुट्टी-टुकड़े) होई जांगन: ^{#4937}

जिय्यां मिगी अपने पिता कोला मिलेया।

प्रकाशित 2:28 ऐते मैं उसी सक्ते दे देगा ^{#4407} तारा. ^{#792}

प्रकाशितवाक्य 2:29 ऐजेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ।

- ☞ प्रकाशित 2:26 ऐ ते जेड़ा जीत लेंदा ऐ ते मेरे कम्मं गी अन्त तक रखदा ऐ, उसी में राष्ट्रें उप्पर अधिकार देगा।
- ☞ प्रकाशित 2:27 ऐ उहनां नूं खिलावेगा लोहे दी इक छड़ी;
ओह कुम्हार दे बर्तनं दे समान टुकड़े-टुकड़े होई जांगन;
- ☞ प्रकाशित 2:28 ऐते में उसी देगा सुबह दा तारा.
- ☞ प्रकाशितवाक्य 2:29 ऐजेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ।

→ थ्यातिरा च कलीसिया ओह ऐ, जिनेंगी इक जनानी ईजबेल (जेकी अपने आप गी भविष्यवानी आखदी ऐ।

अपने दासं गी व्यभिचार करने आस्तै सिखाने ते बहकाने आस्तै, ते मूर्तियें आस्तै बलिदान दिती गेदी चीजें गी खाने आस्तै), ऐ

पर जेके पछतादे न, ओह बी महान संकट दे पैहलें उच्च चाई लेंदे हन, जिय् यां थ्यातिरा च बाकी लोकें गी

इजेबेल दा सिद्धांत नहीं सी (प्रकाशितवाक्य 2:20-23 ऐ).

- लोहे दी इक छड़ी

- दे कम्मं गी रखने आह्ले परास्त करने आह्ले परमातमा दा पुत्र अंत तक पर अधिकार दिता जाग

राष्ट्रें (दूए कुआरियें दे जेहड़े 1000 सालें दे दौरान जमीने उप्पर छड़ी जांगन) उन्हें खिलाने के लिये

लोहे दी छड़ी जि'यां कुम्हार दे बर्तनं दे समान टुकड़े-टुकड़े होई गेदे न, जि'यां उसी अपने पिता कोला मिले दा ऐ।

- सुबह दा तारा

प्रकाशित 22:16 ऐमें यीशु मेरे सुर्गदूत गी भेजेया ऐ तां जे तुस कलीसियाएं च इन्हें गल्लें दी गवाही देन.

में आंदाऊद दी जड़ ते संतान, ते उज्ज्वलते सुबह दा तारा.

→ दे बारे च विस्तार कन्ने जानने लेई उज्ज्वलते सुबह दा तारा, संदर्भ देना

“(प्रकाशित 22:16 ऐ) द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार (प्रभु यीशु मसीह).”

- ✦ जेकर तुस पबित्तर आत् मा दी अगुवाई च ओ, तां तुस सुनी सकगे जे आत् मा थ्यातिरा च कलीसिया गी केह ग् लांदी ऐ, कीजे पिता दा आत् मा जां पबित्तर आत् मा, तुं दे च गल् ल करदा ऐ (मत्ती 10:20 ऐ, ऐमाचं 13:11 ऐ).

(प्रकाशितवाक्य ३:१-६) (५) सरदीस दी कलीसिया दे सुर्गदूत (जीवन दी किताब विच नाम)

प्रकाशित 3:1 ऐते सरदीस च कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो;

जेड़ा परमात्मा दे सत्त आत्माएं ते सत तारे रखदे न, ओह ए गल्ल आखदा ऐ।
मैं तेरे कम्मों गी जानना ऐं के तेरा इक नां ऐ के तू जिंदा ऐ ते मरी गेदा ऐ।

☞ **प्रकाशित 3:1** ऐ ते सरदीस दे कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो।

'इह गल्लां आखदा है जिस दे कोल है।' **सत्त दा (7) परमात्मा दी आत्माएं ते सत्त दा (7) तारे: 1।**
"मैं तुं दे कम्मों गी जानना आं, के तुंदा इक नां ऐ के तुस जिंदा ओ, पर तुस मरी गेदे ओ।

• **डबल्यू** हो ओह ऐ जिसदे कोल परमात्मा दे सत्त आत्माएं ते सत्त तारे न?

- ए स्लेड **मेमना** (अर्नियन दा) ^{नं० 721} ऐ **परमात्मा दा पुत्र** जिसने है **परमात्मा दे सत्त आत्माएं गी** (प्रकाशित 5:6 ऐ) ते सत्त तारे,
जां प्रभु यीशु मसीह गी (प्रकाशित 1:13 ऐ, ऐ प्रकाशित 1:16 ऐ)।

→ प्रभु यीशु मसीह सरदीस दी कलीसिया कन्ने गल्ल करदा ऐ के "तुंदा इक नां ऐ के तुस जिंदा ओ,
लेकन तूस मरी गेदे ओ."

† इक मनुख गी परमात्मा दा हुक्म ^{नं० 120} मनुख दे पुत्र (परमात्मा दे लोगो) दा मांस खाना ऐ जेड़ा बीज कन्ने उगया गेदा **हामसीह** ¹¹³ धरती उप्पर तां जे तुस उंदे जीवन दे बूटे थमां फल लेई सकदे ओ, ते मनुख दी आत्मा दा जीवन उस च रुकी सकै **यीशु मसीह**. जुदुं छह घड़े (बुद्धि, समझ, सलाह, पराक्रम, ज्ञान ते प्रभु दा डर) पानी कन् ने भरोचे दे हन, तां प्रभु दी आत्मा तुं दे उप् पर टिकी जाग, ते तुसोंगी फलें कन् ने पूरा करी ओड़ग तुहाडा धर्म जिवें तुहाडे विच लोगोस (पानी) रेमा (शराब) नाल हो जांदा है **परमात्मा दे सत्त आत्माएं गी** (यशायाह ११:२) पवित्र आत्मा दे द्वारा।

सारे भलाई ते धर्म ते सच्चाई च आत्मा दा फल पाना (**इफिसियों 5:9 ऐ**), तुसीं गवाह बन जांदे हो **मसीह दे जी उठना**, ऐ ¹¹⁴ ते जमीन उप्पर परमात्मा दे लोगो च चलने आली सारी चीजें गी, सुर्ग दे खुल्ले आकाश च धरती दे उप्पर उड़ने आली आत्मा दे जीवन गी, ते धरती उप्पर जीवन गी अपना वश च करो। ¹¹⁵

† दे शरीर दा **यीशु** (या मनुख दे पुत्र दा शरीर, जेड़ा परमात्मा दी रोटी ऐ) जेड़ा साफ लिनन कपड़े (वस्त्र) च डुबोया गेदा ऐ **लहू**, वचन है (लोगो दा) **आहलाईश्वर.परमात्मा दा पुत्र** आदमी नहीं है ^{नं० 444} जो अकेले रोटी कन्ने जींदे न, पर ओह अपने आप गै परमेसरे दा शरीर ऐ, जेका साढ़े कश अंदर आया **हालोगो दा** **आहलाईश्वर च ताकत** और **मैं पवित्र आत्मा गी**, जो है **रेमा दा**.

मांस किईश्वर मनुख दे पुत्र च मुहर लाया ऐ तां जे असेंगी अनन्त जीवन देई सके, ऐ **किताब दा रेमा**, जिस पर अन्त दे समें तकर मुहर लगी दी ऐ (**दान 12:4 ऐ**). **परमात्मा दे लोगो**, अंत समें गी सील कीता गेदा संदर्भ दिदा ऐ **यीशु मसीह**. ¹¹⁶

- परमेसरे दे सामने कम्मों गी पूरा नेई होंदा

प्रकाशितवाक्य ३:२ जागरूक रवो, ते जेड़े बचे दे न, जेड़े मरने आस्ते तैयार न, उनें गी मजबूत करो। ^{नं० 599}

कीजे मैं तेरे कम्मों गी सिद्ध नेई पाया (पूरा) ^{नं० 4137} परमात्मा दे सामने।

☞ **प्रकाशितवाक्य ३:२** जागरूक रहो, ते जेड़े बचे दे न, जेड़े मरने आस्ते तैयार न, उनें गी मजबूत करो।
कीहके मैं परमात्मा दे सामने तुं दे कम्मों गी पूरा नेई पाया।

• बाकी चीजां कीह हन जिन्हां नू मजबूत करना चाहिदा है, जो मरन लई तैयार है?

¹¹³ "[चित्र 3-क], जां वीडियो 12. "1. फसह दा दिन | 2. बेखमीरी रोटी।"

www.therhemaofthelord.com/अनश्रेणीबद्ध/12/ ऐ.

¹¹⁴ "[चित्र 3-ख], जां वीडियो 12. "यीशु मसीह दी पीढ़ी" दा संदर्भ लैओ www.therhemaofthelord.com/अनश्रेणीबद्ध/12/ ऐ

¹¹⁵ वीडियो 27. "(मांस, आत्मा, ते आत्मा) भजन संहिता 23।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-खुन-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हो/.

¹¹⁶ वीडियो 41. "परमेसर गी स्वीकार करने आस् ते प्रभु च बधी जाओ।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-भगवान-दे-भगवान-चल-बढ़ना/.

आत्मा च जीवन च जिंदा होने आस्तै, जेहड़ा लोगो अपनी जमीन (मांस) च हासल कीता गेआ हा, उसी बपतिस्मा दे जरिए मरना गै पौग^{यीशु मसीह}. इस गल्ल गी मनने आलें गी दान मिलग^{पवित्र आत्मा गी} ते मते सारे फल देरेमा दा.

→“परमात्मा दे सामने पूरा नेई होना” दा मतलब ऐपरमातमा दे लोगोलगाया उंदे अपने शरीर च अजें बी मरी गेदा नेई ऐ, ते इस चाल्ली शरीर अजें बी जिंदा होने दी स्थिति च नेई ऐ.


☞ डबल्युपरमात्मा दे सामने उंदे कम्में गी पूरा नेई कीता जंदा ऐ?

- असी कम्मं दा कम्म करदे हांई^{श्वर}मनुख दे पुत्तर उप्पर विश्वास करने ते परमात्मा दे पुत्तर च रौहना, जिसी परमात्मा ने भेजे दा ऐ, ते आखरी दिन जिंदा होई जाओ।¹¹⁷पर^{सरदीस दी कलीसिया}इस गल् ला उप् पर विश्वास नेई करदा, जिसदे आस् ते उनेंगी पछतावा करना पौना ऐ।

¹¹⁷“[चित्र 3-ग],” या वीडियो 25. “एक कठोर कहावत (लोगोस) & परमेसरे दे कम्में 2/2।”


www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-एक-कठिन-कहने-दे-लोगोस-देव-दे-कम्म/.

[The 7 feasts of the LORD]				1. Passover 2. Unleavened Bread		Spring	
The generations of Adam to Moses							
Adam → Seth → Enos → Cainan → Mahalaieel → Jared → Enoch → Methuseiah → Lamech → Noah → Shem → Arphaxad → Salah → Eber → Peleg → Reu → Serug → Nahor → Terah → Abraham → Isaac → Jacob → Levi → Moses							
Adam ^{Hi21} is the one who fell into a deep sleep (Gen 2:21), and listened to his wife and ate from the forbidden tree (Gen 3:17)							
Adam	Adam	Came	To	Result	Charged against	Death Reigned	
1 st Adam	Sin entered into the world (Rom 5:12)	Death by sin	All men	All have sinned	The law	Until Moses (Rom 5:14)	Those who had not sinned
2 nd Adam	The figure of the first Adam to come, Christ (1Co 15:22)						



¹¹⁸वीडियो 12. "1. फसह वा दिन | 2. बेखमीरी रोटी" www.therhemaofthelord.com/अनश्रेणीबद्ध/12/रे

¹¹⁹वीडियो 12. "यीशु मसीह दी पीढ़ी" www.therhemaofthelord.com/अनश्रेणीबद्ध/12/रे



Eat my flesh & drink my blood (Jhn 6:54)
 Jhn 6:47 Verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life.
 Jhn 6:48 I am that bread of life.
 Jhn 6:49 Your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead.
 Jhn 6:50 This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die.
 Jhn 6:51 I am the living bread, which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever.
 Jhn 6:52 The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?
 Jhn 6:53 Then Jesus said unto them, Verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you.
 Jhn 6:54 Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, shall abide in me, and I will raise him up at the last day.
 Jhn 6:55 For my flesh is meat, and my blood is drink.
 Jhn 6:56 He that eateth my flesh, and drinketh my blood, shall abide in me, and I in him.
 Jhn 6:57 As the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me.
 Jhn 6:58 This is the bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.
 Jhn 6:59 These things said he in the synagogue, as he taught in Capernaum.
 Jhn 6:60 Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying, who can hear it?
 Jhn 6:61 When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Doth this offend you?
 Jhn 6:62 What and I shall see the Son of man ascend up where he was before?
 Jhn 6:63 It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words (rhema) that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

How can we work the works of God?
 Jhn 6:28 They said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?
 Jhn 6:29 Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom the Father hath sent.
 Jhn 6:30 They said therefore unto him, What sign shewest thou then, that we may see, and believe thee? what dost thou work?
 Jhn 6:31 Our fathers did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat.
 Jhn 6:32 Then Jesus said unto them, Verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven.
 Jhn 6:33 For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.
 Jhn 6:34 Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread.
 Jhn 6:35 And Jesus said unto them, I am the bread of life.
 Jhn 6:36 But I said unto you, That ye also have seen me, and believe not.
 Jhn 6:37 All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out.
 Jhn 6:38 For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.
 Jhn 6:39 And this is the Father's will, which hath sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.
 Jhn 6:40 And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day.

A hard sayings (The logos) & The works of God 2/2

- प्रभु चोर दे रूप च और, पर तूसें गी उंदे औने दी घड़ी नेई पता लग्गी जाग

प्रकासित 3:3 ऐइस आस् ते याद रखो के तू किस चाल्ली ग्रहण कित्ता ते किस चाल्ली सुनेया ऐ, ते मजबूती कन्ने पकड़ो ते पछतावा करो।
इस आस् ते जेकर तू जागत नेई रौहगो।
मैं तेरे उप्पर चोर दे समान आऊंगा, ते तू नेई जानना के मैं किस घड़ी तेरे उप्पर औना ऐ।

☞ **प्रकासित 3:3** ऐइस आस् ते याद रखो के तूसें गी किय यां मिलदा ऐ (**लोगो दा आहलाईश्वर, ऐश्वर १:५ ऐ**)
ते सुनेया (**रमा दा आहलाईश्वर, ऐरोम 10:17 ऐ**); मजबूती कन्ने पकड़ो ते पश्चाताप करो।
इस आस् ते जेकर तू नेई जागे, तां मैं तुंदे उप् पर चोर दे रूप च आई जांह्या।
ते तू नेई जानगे के केहँटामैं तेरे उप्पर आऊंगा।

→ प्रभु दे आने दा घड़ी अनजान (**मत्ती 24:42 ऐ**), इस चाल्ली सरदीस च कलीसिया महान ऐ
क्लेश संत जिंदा नाम जीवन दी किताब ना मिटाया जागा

- क्योंकि उन्हां एच लोगो अज वी उन्हां दी जमीन (नश्वर मांस) एच हे जो आध्यात्मिक फल डे सगदे, हुंदे कू पछतावा करण दी जरूरत हे। जेकर नेई तां प्रभु चोर दे रूप च और कीजे उमेंगी पता नेई होग के ओह उंदे उप् पर कुस घड़ी और (ध्यान देओ के “दिन ते घड़ी” आने आस् ते अनजान नमूख दा पुत्र जबकि दे आने आस्ते सिर्फ “घंटे” गै अनजान ऐप्रभु (**मत्ती 24:43 ऐ**)).
- टीइस आस् ते एह साफ ऐ के सरदीस च कलीसिया दे श्रोता यहूदी ते... **बड़ी कष्टसंत लोगजो के आने का इतजाय कयना शैप्रभु**.

- सरदीस च किश लोके दे कपड़े अशुद्ध नेई न, सफेद & योग्य च

प्रकासित 3:4 ऐसरदीस च बी तेरे किश नां न जिनेंगी उंदे कपड़े गी अशुद्ध नेई कित्ता;¹²¹
ते मेरे कन्ने सफेद कपड़े च चलन, की के ओह योग्य ना।

☞ **प्रकासित 3:4** ऐसरदीस च बी तुंदे कोल किश नां न जिनेंगी अपने कपड़े गी अशुद्ध नेई कित्ता;
ते मेरे कन्ने सफेद कपड़े च चलन, कीजे ओह योग्य ना।

- लिनन दा कपड़ाएस कन्न च बिछाए गेदे हे जिल्थें **यीशु** बिछाया गेआ, ते उंदे च इक कपड़ा डुबोया गेआ **लहू** आखदे न, **परमातमा दे लोगो**, जिन्हां गी सुर्ग च सेनाएं गी कपड़े पहिनदे न; **चिह्नतेसाफ**.¹²¹

+ सफेद वस्त्र

कदू **यीशु (प्रभु)** पतरस दे पैर धो के उंदे कपड़े लेई लेया, उने (**प्रभु**) बुराई (**१योह २:१४, ऐमत्ती 16:18 ऐ**), पतरस गी साफ सफेद कपड़े च कपड़े पाने कन्ने (उस दे होने कन्ने **परमातमा दे लोगो**). यीशु ने पतरस कू आखया कि ओ दुजे दे पैर धोवण (या लोगो फैलावण) तां कि ओ हुंदे नाल सफेद कपड़े एच चलन ते पहले पवित्र धरती उते (इसाएल दी) खड़े वनण दे काबिल होनईश्वर, ते सुसमाचार च मजदूर दे नां (इसाएल) च होंगन **जिंदगी दी किताब (फिलिप्पी 4:3 ऐ)**.¹²²

- जीतने आलें गी सफेद कपड़े पाना होग & उंदे नां जीवन दी किताब च होंगन

प्रकासित 3:5 ऐजेड़ा जीत हासिल करदा ऐ, ओह सफेद कपड़े (वस्त्र) च पाई लैग;¹²⁴
ते मैं उदा नां जीवन दी कताब च नेई मिटाना।
पर मैं करगा मेरे पिता ते उंदे सुर्गदूते दे सामने उंदा नां कबूल करो।

☞ **प्रकासित 3:5** ऐजेड़ा जीत हासिल करदा ऐ, ओह कपड़े पाई लैग **सफेद कपड़े**, ऐ
ते मैं उदा नां नेई मिटाना **जीवन दी किताब**;
पर मैं अपने सामने उंदा नां कबूल करगा **बापू** ते उंदे सुर्गदूते दे सामने.

121-वीडियो 43. “(आत्मा दे नेतृत्व च) परमात्मा दे पुत्र” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-आत्मा-भगवान-दे-पुत्र-अगुवाई-दे/.

122-से कैद की गई **प्रकासित 2:7 ऐ**, **ऐजांबीडियो 11**. “(यीशु दा कपड़ा) “फसह दी पर्व” तों पहलां।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-फसह-त्योहार-दे-पहिले-यीशु-वस्त्र/.

- जेड़े लोकें गी अग च सोना अजमाया ऐ, ओह आत् मक रूप च अमीर न; कपड़े लाए दे [नसफेद वस्त्र](#) (जो हैमसीह, [ऐगलाती 3:27 ऐ](#)), ते कोई नंगापन नेई दिक्खो।¹²³पर सरदीस दी कलीसिया च किश नां गै उंदे कपड़े गी अशुद्ध नेई कित्ता।
- पैहे बच्चें दी आम सभा ते कलीसिया (मरे दे लोकें च पैहे पैदा होए जेहड़ा [ऐमसीह](#), [ऐकलुस्स 1:18 ऐ](#)) दे कलीसियाएं [नमसीह](#), जो लिखे ([मेंजिंदगी दी किताब](#) [आहलामेयने दा](#)) स्वर्ग विच, [किथेईश्वर](#) सरें दा न्यायी ऐ ते जिनेंगी धर्मी बनाया गेदा हा, उंदी आत्मा बी [ऐसिद्ध कर दिता](#) खून ते विश्वास कन्ने।¹²⁴

प्रकासित 3:6 ऐजेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ।

☞ **प्रकासित 3:6 ऐ** जेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ।

- + जिन्हां दी गवाही मिली है [मसीह](#), ने अपनी मुहर लाया ऐ के परमेसरे सच् च ऐ, ते परमेसरे उनेंगी परमेसरे दी रेमा बोलने आस् ते आत् मा दिंदा ऐ।¹²⁵
- + जेकर तुस पबित्तर आत् मा दी अगुवाई च ओ, तां तुस सुनी सकगे जे आत् मा सरदीस च कलीसिया गी केह गू लांदा ऐ, कीजे पिता दा आत् मा जां पबित्तर आत् मा, तुंदे च गल् ल करदा ऐ ([मत्ती 10:20 ऐ](#), [ऐमार्च 13:11 ऐ](#))।

प्रकाशितवाक्य 3:7-13 ऐ (६) फिलाडेल्फिया दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी

प्रकासित 3:7 ऐ ते फिलाडेल्फिया दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो;

पबित्तर ते सच्चा ए गल्ल आखदा ऐ। [#228](#) ते [#2807](#) ते [#2808](#) ते [#455](#) ते [#455](#) ते कोई बंद नेई करदा; [#2808](#) ते बंद करदा ऐ, [#2808](#) ते कोई बी नेई खोलदा; [#455](#) ते

☞ **प्रकासित 3:7 ऐ** ते फिलाडेल्फिया दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो।

'इह गल्लां आखदा है जो पवित्र है, जो सच्चा है, "जिस दे कोल है [दाऊद दी चाबी](#), ऐ जेड़ा खुलदा ऐ ते कोई बंद नेई करदा, ते बंद करदा ऐ ते कोई नेई खुलदा

- सच्चा कौन ऐ जिसदे कोल दाऊद दी चाबी ऐ?

- कुंजी (स्ट्रॉंग दा एच [4668](#)): हिब्रू च, "कुंजी" आस्ते व्युत्पत्ति [#4668](#) है "करना [खुल्ला](#)" [#6605](#) (स्ट्रॉंग दा एच [6605](#), [nṯṣ](#), पॉह)।

→ खुल्ला [#6605](#) (पुराने नियम विच) सुर्ग दे "दरवाजे" गी संदर्भित करदा ऐ जेहड़ा... [ईश्वर](#) खुला था।

([भजन संहिता 78:23](#) हालांकि उने (परमात्मा) बादलें गी उप्पर धमां हुक्म दिता हा, ते खुल्ली गेआ हा [#6605](#) ऐ ओह [दरवाजेस्वर्ग](#) दा, ऐ

- चाबी (स्ट्रॉंग दा जी [2807](#)): ग्रीक च "कुंजी" दी व्युत्पत्ति [#2807](#) है "करना [बंद करना](#)" [#2808](#) (मजबूत दा जी [2808](#), [κλειώ](#), [kleiō](#))।

→ "बंद करना" (नमें नियम च) ब्याह दे बाद बंद होने दे "दरवाजे" गी दस्सेआ जंदा ऐ

दुल्हन (मनुख दा पुत्तर) आया।

([मत्ती 25:10 ऐ](#) ते जदु ओह (मूर्ख कुंवारी) खरीदने चली गे, तां दुल्हन (मनुख दा पुत्तर)

आया; ते जेके तैयार हे (बुद्धिमान कुंवारी) उदे कन्ने ब्याह च चली गे

ते दरवाजा बंद होई गेआ [#2808](#))

→ "बंद करना" सुर्ग दे दरवाजे गी दस्सेआ जंदा ऐ, जेहड़ा पाखंडियें आस्ते बंद ऐ ([मत्ती 23:13 ऐ](#), शास्त्री ते फरीसी)।

- ऐटीजेड़ा सुर्ग दा दरवाजा खोलदा ऐ, ओह ऐ [ईश्वर](#), ते बंद करदा स्वर्ग ऐ [प्रभु गी](#).
- ऐटीजेड़ा सुर्ग दे दरवाजे गी "खोलने" दा हुक्म दिंदा ऐ, ओह ऐ [ईश्वर](#) ([भजन संहिता 78:23](#)).
- ऐटीओह जेका सुअर्गे गी "चुप" रोहने आस् ते आज्ञा देई सकदा ऐ, ओह ऐ [प्रभु गी](#) ([nln](#), खोवा) [#3068](#) ऐ।

¹²³वीडियो 20. "(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवार।"

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

¹²⁴वीडियो 24. "तुस पवित्र यरूशलेम ओ (3/3)।"

www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-देव-दे-घर-तुस-पवित्र-यरूशलेम/.

¹²⁵वीडियो 43. "(आत्मा दे नेतृत्व च) परमात्मा दे पुत्तर" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-आत्मा-भगवान-दे-पुत्र-अगुवाई-दे/.

[2Ch 7:13](#) ऐजेकर में (प्रभु) सुर्ग गी बंद करी ओड़ना तां जे बरखा नेई होऐ, जां टिड्डियें गी खाने दा हुकम देना
जमीन (धरती)), ऐ^{व 776} जां जेकर में अपने लोकें च महामारी भेजना ऐ;

• **टीओह प्रभु परमात्मा**

- ऐईश्वर, ऐप्रभु गी, अब्राहम, इसहाक ते याकूब गी 'एल' दे नां कन्ने प्रकट होए^{व 410} [5aदय^{व 7706}](#), पर ओह नेई हा उन्हे नाम दे द्वारा जाना जाता है, **प्रभु गी** (यहवा). [व 3068](#) ते परमेसरे इस्राएल दे पुत्रें गी कड्डी लैग मिस्री लोकें दे बोझ ते उंदी गुलामी दे हेठ, तां जे ओह उंदी प्रजा होन ते ओह उंदी होन **ईश्वर**, ते उनें गी एह पता गै लग्गी जाग **प्रभु गी** (यहवा) दा [व 3068](#) ऐ **ईश्वर** दे बंधन तों बाहर कड्डेया मिस्री (निष्कर्ष [6:7](#) ऐ).

↓

• **प्रभु परमात्मा = सीथ्रिस्ट = जिंदा परमातमा दा पुत्र**

- ऐप्रभुथुआदाईश्वर ([देऊ30:20](#) दे) तेरी जिंदागी है^{व 2416} जिस कन्ने तुसें गी चिपकना पौग, ते एह **मसीह** साडी जिंदागी है^{व 2222} ते **मसीह** (कलुस्स [3:4](#) ऐ), इस करिए ओह (प्रभु गीथुआदाईश्वर) ऐ **मसीह गी**, ऐ जिंदा परमातमा दा पुत्र ([मती 16:16](#) ऐ).¹²⁶

↓

• **टीओह परमातमा दा पुत्र = यीशु मसीह = सच्चा "ईश्वर"**

- ऐते अस जानने आं के परमात्मा दा पुत्र आया ऐ, ते असें गी समझ दिती ऐ, तां जे अस उसी जान सकचे ऐ **सच्च**, ऐ^{व 228} ते अस उस च गै हां **सच्च**, ऐ^{व 228} ते उदे पुत्र च बी **यीशु मसीह**. एह गल्ल सच्च ऐ^{व 228} ते **ईश्वर**, ते अनन्त जीवन ([१जोह ५:२०](#)).

↓

• **टीओह प्रभु यीशु मसीह**

- इस्राएल दे सारे धराना गी पक्का पता लग्गी जा, के **ईश्वर** उसी गै बनाई दिता ऐ **यीशु**, जिसी तुसें क्रूस उप्पर चढ़ाया ऐ दो **एनाथते मसीह**, मतलब, **यीशु** दोनों ही है **नाथते मसीह** (प्रितों दे काम [२:३६](#)) जां **यीशु मसीह**, क'न ऐ **प्रभु** सब दा ([१जोह ५:२०](#), ऐप्रितों दे काम [10:36](#)).
→ इस चाल्ली जीतने आहें गी अपना मुकुट रखना पौंदा ऐ^{व 4735} उसदी वापसी तक (प्रभु यीशु मसीह गी).¹²⁷

• **टीओह विजयी होंदा ऐ**

- ऐके दरवाजे से परास्त करने वाले प्रवेश कर देंगे **प्रभु** (भेड़ें दा चरवाहा, **भजन संहिता २३:१** ऐ, ऐ [१०:2](#) ऐ) ते फिरी चारागाह तों बाहर नहीं निकलेगा ते उदे उप्पर लिखे दा अपना नमां नां कन्ने उध्दार नेई होग ([१०:9](#) ऐ).¹²⁸

→ **रब दा पुत्र, प्रभु यीशु मसीह गी** (देखो [प्रकासित 3:14](#) ऐ) शरीर दे मताबक दाऊद दे वंश च बने दा ऐ ([रोम 1:3](#) ऐ), इस करिए उसी ऐ **दाऊद दी चाबी**. मतलब, जिसदे कोल दाऊद दी चाबी ऐ, ओह ऐ **प्रभु यीशु मसीह**, परमातमा दा पुत्र, जो फिलाडेल्फिया दी कलीसिया कन्ने गल्ल करदा ऐ।

• **सच्चा कौन ऐ जिसदे कोल दाऊद दी चाबी ऐ?**

- ऐपरमातमा दा पुत्र (प्रभु यीशु मसीह)

- जिन्हां ने लोगो रखे हन ते उहदे नां दा इन्कार नहीं कीता

¹²⁶वीडियो 23. "रोटी, मन्ना, & छिपे दा मन्ना।"

www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-द-ब्रेड-द-मन्ना-द-हिडन-मन्ना/.

¹²⁷वीडियो 24. "तुस पवित्र यरूशलेम ओ (3/3)।"

www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-देव-दे-घर-तुस-पवित्र-यरूशलेम/.

¹²⁸वीडियो 27. "(मांस, आत्मा, ते आत्मा) भजन संहिता 23,"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-खून-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हो/.

परमेसरे दे मंदर च दाखल होने आस् ते किस चाल्ली जीत हासल कीती जा, इसदे बारे च विस्तार कन्ने जानने आस् ते वीडियो 47 दिक्खो। "7. तम्बू"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-प्रभु-दे-भोज-7-तम्बू/.

& video 11. "(एक वस्त्र) फसह दे परब तों पहलां।"

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-फसह-त्योहार-दे-पहिले-यीशु-वस्त्र/.

प्रकासित 3:8 ऐमें तेरे कर्मों गी जानना ऐ^{#2041} दिखो, मैं तेरे सामने इक खुल्ला रखेया ऐ^{#455} दरवाजा, ते कोई बी बंद नेई करी सकदा^{#2808} एह: 1।

कीजे तेरे कोल थोड़ी ताकत (शक्ति) ऐ^{#1411} ते मेरा वचन (लोगोस) दा पालन किता,^{#3056}
ते मेरे नां दा इन्कार नेई किता।

☞ प्रकासित 3:8 ऐमें तेरी रचनाएं गी जानना दिखो, मैं तुंदे सामने इक खुल्ला दरवाजा रखेया ऐ, ते कोई बी उसी बंद नेई करी सकदा;
कीहके तुंदे कोल थोड़ी शक्ति ऐ, रखेया ऐ मेरा लोगो दा, ते इन्कार नेई कीता ऐ मेरा नाम.

• शब्द (लोगो दा)^{#3056} ऐ

- (पर प्रचार करदे हो लोगो दा ईश्वर भेजेआ गेदा लोगो दा इम्राएल दे पुत्रों गी एह सिखाया यीशु मसीह ऐ
प्रभुसब दा.

- (पर प्रचार करदे हो ऐरेमा दा) ईश्वर अभिषिक्त नासरत दा यीशु कन्नेपवित्र आत्मा गीते नालताकत, ऐ
त्रीए दिन उसी जिंदा करी दिता, ते खुल के उस नू दिखाया (नासरत दा यीशु मसीह)
साडे कोल.¹²⁹ पर सारे लोकें गी नेई, पर साडे आस् ते, "परमेसर दे सामने चुने गेदे गवाहें गी
जेस मनुख दे पुत्र दे कन्ने मरे दे बीचा जीने दे बाद खाया ते पींदा हा."

• किसी भी जिसने प्राप्त हुआ लोगो दा, पापों दी माफी पाग, ते पवित्र आत्मा गीउन विश्वासियों पर गिर जाएगा ताकि लोगो दा एस उनमें बदलता है करने ओहरेमा (प्रितों दे काम 10:36-44 ऐ).¹³⁰

→ दा राज ईश्वर लोगो च नेई पर च ऐताकत पर लोगो रखने आलें गी दी शक्ति दी लोड़ ऐ
जी उठने दे रेमा दे कई फल देना। पर उनेंगी अपनी थोड़ी शक्ति कन् ने उदे लोगो गी रखेया,
तो इक प्रवेश द्वार¹³¹ तुंदी बड़ी मती सेवा कीती जाग सनातन राज दा आहला
सादानाथ ते मूक तिदाता यीशु मसीह (२पतरस १:११).¹³²

• परमातमा तेरा बोए दा बीज गुणा करदा है, तेतेरे धरम दे फल च वृद्धि करदा ऐ¹³³

- ऐबीड^{#4703} ऐ (बीजाणुओं दा, ऐपुल्लिंग संज्ञा)^{#4703} ऐ = बीज (पुल्लिंग संज्ञा = लोगो दा परमातमा दा), ऐ
(हुन दृष्टांत ए ऐ: बीज^{#4703} ऐ शब्द ऐ (लोगोस)^{#3056} ऐ परमातमा दा, ऐ लुका 8:11 ऐ)^{#4703} ऐ: 1।

- ऐबीड^{#4690} ऐ (शुक्राणु, ऐनपुंसक संज्ञा)^{#4690} ऐ (नएच 2233) ऐ! = शब्द (रेमा, नपुंसक संज्ञा)^{#4487} ऐ: 1।
बीज दा^{#4690} ऐ संदर्भित करदा ऐरेमा दा उसी नपुंसक संज्ञा दा, जेहड़ा इसहाक च बीज दे समान ऐ
(इसहाक विच तेरा वंशज होवेगा^{#4690} ऐ बुलाया जा, रोम 9:7 ऐ)

- ऐबोने आला^{#4687} ऐ: मनुख दा पुत्र (जो बोदा ऐ^{#4687} ऐ अच्छे दाबीड^{#4690} ऐ मनुख दा पुत्र, ऐमती 13:37 ऐ)

• बीज दा^{#4690} ऐ वादे दा = मसीह

- ऐमनुख दा पुत्र संसार दे जीवन वास्ते अपना मांस देंदा है (इंज 6:51 ऐ) ते बोदा ऐ बच्चें गी^{#5043} ऐ वादे दा च
स्वर्ग दा राज (मती 13:24 ऐ)

- ऐईश्वर मंत्री जी मसीह दा वंशज (जारेमा दा)^{#4690} ऐ मनुख दा पुत्र बोना बच्चें गी^{#5043} ऐ वादे दा
स्वर्ग दे राज च

¹²⁹वीडियो 15. "परमेसर दे लोगोस दा सुसमाचार (नासरत दे यीशु & यीशु मसीह)"

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/15/ऐ.

¹³⁰वीडियो 16. "गैर-यहूदी, सारे जाति (यहूदियों तो ले के गैर-यहूदी जाति) 6/10"

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ऐ.

¹³¹"[3] दानियेल दे 70 हफ्ते" दा संदर्भ लैओ।

¹³²वीडियो 13. "शब्द (लोगोस & रेमा)" www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा-दा-वरदान/.

¹³³"[चित्र 3-घ], "जां वीडियो 26. "प्रभु दा फसह (नमां नियम)" दा संदर्भ लैओ।

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-द-लॉर्ड्स-पास-ओवर-द-नए-वसीयत/.

→ ईश्वरतुं दे मांस आस्ते पोशण आली रोटी (लोगोस) बी सेवा करदा ऐ, जेड़ी मनुख दे पुत्र दा मांस ऐ

([इंजं:५५ दी](#)), ते गुणा करो [परमातमा दे लोगोतेरे](#) में बोया गया, ते [बधीतेरे धरम दे फल](#).

- † तुस (प्रेरित, मसीह दा दूत, [२कुरिन्थियों ५:२०](#)) मसीह दे कन्ने क्रूस च चढाया गेदा ऐ, इस आस् ते मसीह तुं दे च रौंदा ऐ। तुस (अपने नश्वर) शरीर दे कन्ने परमेसरे दे पुत्र दे विश् वास कन् ने जींदि ओ, जिनेगी तुं दे कन् ने प्रेम किता, ते तुं दे आस् ते अपने आप गी सौंपी दिता ([गलाती २:२० ऐ](#))। इस आस् ते तुस मसीह दे आस् ते कमजोरियें च, निंदा च, जरूरतें च, सताएं च, विपत्तियें च खुश रौंदि ओ, कीजे जदुं तुस कमजोर ओ, तां तुस मजबूत ओ ([२कुरिन्थियों १२:१०](#))।
- † बीकीजे तुस मनुख दे पुत्र दा नां कबूल कीता ऐ ([परमातमा दे लोगो](#)) मनुखें दे सामने, ओह तुसंगी परमेसरे दे सुअर्गदूतें ते सुअर्गो च अपने पिता दे सामने बी कबूल करग ([मत्ती १०:३२ ऐ](#), [ऐलुका १२:८ ऐ](#))।

The Lord's Passover (The New Testament)


God multiplies your seed sown, and increases the fruits of your righteousness

- 2Co.9:10 Now he (God) that ministereth seed sows to the sower both minister bread for your food (meat) and multiply your seed and increase the fruits of your righteousness.
 - Seed (sporos; masculine noun) = **The seed** (masculine noun = **logos** of God. (Now the parable is this: The seed is the word/the logos)
 - Seed (rhema; sperma; neuter noun) = **The word** (rhema, neuter noun) = **the rhema** of the same neuter noun, which is the same as the seed in Isaac. (In Isaac shall thy seed be called, Rom.9:7)
 - The sower = **The Son of man** (He that soweth seed, is the Son of man, Mat.13:37)
- The seed of God = Jesus** → **Bread** → **Flesh** → **Seed** → **Logos** → **Rhema**
- Jhn.6:51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever and the bread that will give us my flesh
 - Jhn.1:14 And the Word gave life to the world
 - Jhn.1:16 And the Word became flesh and dwelt among us
 - Jhn.6:53 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you
 - The bread is the flesh of the Son of man, who was the logos, and is the seed.
 - To have life, you need to eat His flesh (the spiritual meat, 1Co.10:3) and drink His blood (the spiritual drink, 1Co.10:4).
- The seed of promise = Christ** → **Seed** → **Rhema**
- Gal.3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to many, but as of one. And to thy seed, which is Christ.
 - Rom.9:7 Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children of God; but in Isaac shall thy seed be called.
 - Mat.4:4 Man shall not live by bread (logos) alone, but by every word (rhema) that proceedeth out of the mouth of God.
 - Mat.4:4 is reinterpreted as follows: "Man shall not live by logos alone, but by every rhema that proceedeth out of the mouth of God."

- The children of promise**
- Mat.13:38 The field is the world, the good seed are the children (the sons) of the kingdom, but the tares are the children (the sons) of the wicked one.
 - Gal.3:28 Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise, these are not the children of the law; but in Isaac shall thy seed be called.
 - Rom.9:8 That is, They which are the children of the flesh, these are not the children of promise; but the children of the promise are counted for the seed.
 - The Son of man gives His flesh for the life of the world (Jhn.6:51) and sows the children of promise in the kingdom of heaven (Mat.13:24)
- 2Co.9:10 Now he (God) that ministereth seed to the sower (the Son of man) soweth both minister bread for your food (meat) and multiply the fruits of your righteousness.




The kingdom of heaven



The Lord's Passover of the new testament

- Jhn.2:6 And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews containing two or three tikins apiece.
- Jhn.2:7 Jesus saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it.
- Jhn.2:8 When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was: → Whence the hour was come, the water was made wine.
- Luk.22:14 And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
- When the hour came to sit down at the table of the Lord's Passover, the status of the disciples of Jesus are changed to apostles in the gospel of John (refer to "4. Pentecost" for details).
- Luk.22:15 And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer.
- Luk.22:16 For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
- Luk.22:17 And the book, the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves (1Co.4:20) For the kingdom of God is not in word (logos), but in power.
- Jesus meant that: He will no more eat the Passover of the bread or the logos of God) with us (the old testament), because after He suffers, the water (the logos) will be made into the wine (the rhema) that is in the kingdom of God (the new testament), which will be done in power.
- Luk.22:19 And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you, this do in remembrance of me.
- Luk.22:20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
- Luk.22:21 But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
- Luk.22:22 And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
- Luk.22:23 And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing. (Co.11:29) For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
- The bread that Jesus broke is His body, and the cup is the new testament in His blood.
- We must discern the Lord's body when eating the Lord's Passover at His table.



- शैतान दा आराधनालय

प्रकासित 3:9 ऐदिखो, मैं उमेंगी शैतान दे आराधनालय च बनाई देगा, जेके यहूदी आखदे न, लेकिन नेई, लेकिन झूठ बोलदे ना दिखो, मैं उन्हें गी तरे पैरे दे सामने आकर आराधना करने ते ए जानने देगा कि मैं तरे कन्ने प्यार किता ऐ।

☞ **प्रकासित 3:9** ऐदिखो, मैं शैतान दे आराधनालय दे लोके गी बनाई देगा, जेडे यहूदी आखदे न, लेकिन झूठ बोलदे न; दिखो, मैं उमेंगी तुदे पैरे दे सामने आके भजन करने आस् ते एह जानने आस् ते देगा के अऊं तुदे कन् ने प्रेम किता ऐ।

- शैतान दा आराधनालय: संदर्भ देना **प्रकासित 2:9** ऐ.
- शैतान दे आराधनालय दे यहूदी: ओह उमेंगी फिलाडेल्फिया च कलीसिया दे पैरे दे सामने आस् ते आराधना करने आस् ते करागा

- लोगो जो रखे थे, उन्हें प्रलोभन की घड़ी से बचाया जाएगा

प्रकासित 3:10 ऐक्योकि तुसीं शब्द (लोगो) गी रखेया ऐ ^{¶3056} मेरे धीरज दा, ऐ मैं बी तुगी परीक्षा दी घड़ी कोला बचाना ऐ ^{¶3986} जेड़ा सारे संसार उपपर औग ^{¶3625} ऐ कोशिश करना (प्रलोभन करना, साबित करना) ^{¶3985} धरती (जमीन) उपपर रोहने आले ^{¶1093} ऐ

☞ **प्रकासित 3:10** ऐक्योकि तुसीं मेरे धीरज दे लोगो रखे ने, मैं भी तुहानूं तों बचा के रखना **प्रलोभन दी घड़ी**, ऐ जेड़ा सारे संसार उपपर औग, ते जमीन उपपर रोहने आलें गी परखने आस्ते।

- **दुनियाँ** (आकाश ते धरती) जेहड़ा अस हून अपनी कुदरती अक्खीं कन्ने दिक्खने आं ओह लोगो ऐ जेहड़ा चीजें कन्ने नेई बने दा ऐ जि'यां दिक्खने गी मिलदा ऐ, पर एह भंडार च रखेआ गेदा ऐ. अग आस्ते आरक्षित ऐ (प्रगट करने आस्ते **परमातमा दा रेमा**) अभक्त मनुखें दे न्याय ते नाश दे दिन दे खिलाफ (**इब्रानियों 11:3** ऐ). इस कारिए कदूं **प्रभु दा दिन** रातीं च चोर दे रूप च औंदा ऐ, आकाश बड़ा शोर-शराबे कन्ने गुजरी जाग, ते तत्व, ते कन्ने गै जमीन बी बड़ी गर्मी कन्ने पिघली जाग, ते उंदे च कम्म जली जांगना.¹³⁵
- **टीओह प्रलोभन दी घड़ी** महासंकट दे पैहे दा घड़ी ऐ, ते कन्ने गै "मेने दा गुस्सा (**प्रकासित 6:16** ऐ), परमातमा दा (**प्रकाशितवाक्य 14:15-20**), ते सर्वशक्तिमान प्रभु परमातमा दा (**प्रकाशितवाक्य 8:1- ऐ प्रकासित 11:19** ऐ).¹³⁶
→ पर तुहानूं तों बचाया जावेगा **प्रलोभन दी घड़ी** जो उन नय आमंगा जो नय यशते शैं सारी संसार दी जमीन तां जे उन्दे विश् वास गी मुसीबत दे समें च परीक्षा च पाई सकन कीजे तुस गै हगे **पकड़ा या रैप्चर कर दित्ता जिवें 144,000 दी**.¹³⁷

- अपने मुकुट गी मजबूती कन्ने पकड़ो

प्रकासित 3:11 ऐदिखो, मैं जल्दी आना ऐं, जेड़ा तरे कोल ऐ, उसी मजबूती कन्ने पकड़ो, तां जे कोई तेरा मुकुट नेई लेई जा ^{¶4735} ऐ

☞ **प्रकासित 3:11** ऐदिखो, मैं **जल्दी आ रेहा हां!** जे किश तुंदे कोल ऐ उसी मजबूती कन्ने पकड़ो, तां जे कोई तुंदा नेई लेई **जाताज**.

→ मनुख दा पुत्र फिलाडेल्फिया दी कलीसिया आस्ते जल्दी औग, जेड़ी ज्ञानी कुड़ियां ना उनके बाद प्रलोभन सहे, उन्हें मिल जाएगा **धर्म दा मुकुट** ओह प्रभुने वादा कीता ऐ.¹³⁸

- **ताज** ^{¶4735} ऐ:
- **ऐबी** एहोल्ड, मैं (**प्रभु यीशु मसीह गी**, ऐ **प्रकासित 3:1** ऐ) जल्दी आ जाह्या: अपने गी मजबूती कन्ने पकड़ो **मुकुट दा** जित **प्रभु** उदे कन्ने प्रेम करने आलें कन्ने वादा किता ऐ, इस आस्ते कोई तुंदा मुकुट नेई लेई लै।

¹³⁵संदर्भ देना **प्रकासित 2:18** ऐ.

¹³⁶"(**प्रकाशितवाक्य १८:१०-२०**) 1 घंटे च महान शहर बाबुल पर न्याय."

¹³⁷"(**प्रकासित 7:4-8** ऐ) 144,000 (पृथ्वी उपपर परमात्मा दी इक कौम, इस्राएल, ज्ञानी क्वारी¹³⁷) सील कर दित्ता."

¹³⁸"(**प्रकाशितवाक्य 6:1-2**) 1 सील (एक सफेद घोड़ा) दा खुलना."

- विजयी: परमात्मा दे मंदिर च इक खंभा बनाया

प्रकासित 3:12 ऐजेड़ा जीत हासिल करग, मैं मंदर च इक खंभा बनाना ऐ³⁴⁸⁵ मेरे परमात्मा दा, ते ओह फी बाहर नेई जाया।
ते मैं उदे उप्पर अपने परमात्मा दा नां ते अपने परमात्मा दे नगर दा नां लिखगा।
जेड़ा नमां यरूशलेम ऐ, जेड़ा मेरे परमात्मा कोलां सुर्ग थमा उतरदा ऐ।
ते मैं उदे उप्पर मेरा लिखना ऐ³⁴⁵⁰ नया नाम।

☞ **प्रकासित 3:12** ऐ जो जीत हासिल करदा है, मैं उस नू खंभा बना देगा **मंदिर दाके मेरेईश्वर**, ऐ
ते ओह फी बाहर नेई निकलगा।
मैं उदे उप्पर लिखना **नाम दाके मेरेईश्वर तेनाम दा आहलाशहर दाके मेरेईश्वर, ऐनवे यरूशलेम दा**, ऐ
जो मेरे कोला सुर्ग थमां उतरदा ऐ **ईश्वर**, ते मेरा नवां नाम।

→ **नई यरूशलेम**, ऐ पवित्र नगर, जिसदा वर्णन प्रकाशितवाक्य 21 च कीता गेदा ऐ, “**पवित्र गीलोक**” जां “**पवित्र गी संत लोग**” जेका परमात्मा थवां सुर्ग थवां उतरी औग, ते अपने पति आस्ते सजदी दुल्हन दे समान तैयार होई जाग (**प्रकाशितवाक्य 21:2**).

- मेरा नया नाम: के नए नाभ को ककसी को नशीी नता था **ओह मेमना** (अर्नियन, ⁷²¹ **प्रकासित 5:6** ऐ), पर उसी अपने आप गौ (**प्रकासित 19:12** ऐ उंदी अकखीं अग दी लौ दे समान ही, ते उंदे सिर उप्पर मते सारे मुकुट हे; ते उदे च इक नां लिखे दा हा, जेका कोई नेई जानदा हा, सिवाय उसी गौ।)
- मेरे परमात्मा दा नाम (The name of God of... **ओह मेमना**) ते मेरे परमात्मा दे शहर दा नां (**ओह मेमना** (अर्नियन, ⁷²¹ **प्रकासित 5:6** ऐ):
→ **परमात्मा दा नगर** तम्बू दा पवित्र स्थान ऐ (**भजन संहिता 46:4**), जो किनवे यरूशलेम दा.
भजन संहिता 46:4 इक नदिया ऐ, जिसदी धारें खुश करंगन **परमात्मा दा नगर**, ऐ
पवित्र थाहरतम्बू दा आहला सब तों उच्चा.
- तुस जिंदे परमात्मा दा मंदर ओ जेड़ा पवित्र ऐ
१ कुरिन्थियों ३:१७ जेकर कोई परमात्मा दे मंदर गी अशुद्ध करदा ऐ, तां परमात्मा उसी नष्ट करी देग;
की वे परमात्मा दा मन्दिर पवित्र ऐ, ते तुस ओह मंदर ओ।
१ कुरिन्थियों ६:१९ केह? तुस नेई जानदे के तुंदा शरीर पवित्र आत्मा दा मंदिर ऐ जेड़ा तुंदे च ऐ।
जेड़ा तुंदे कोल ऐ **ईश्वर**, ते तुस अपने गै नेई ओ ?
२ कुरिन्थियों ६:१६ ते परमेसरे दे मंदर च मूर्तियें कन् ने केह समझौता ऐ ? की वे तुस जिंदे परमात्मा दा मंदिर ओ;
जियां **ईश्वर** आख्या ऐ, “ मैं उंदे च रौह्या ते उंदे च चलना ऐ;
ते मैं उंदे परमात्मा बनना, ते ओह मेरे लोक होंगन.
- तुस **परमात्मा दा मंदिर** जो पवित्र है, ते तुंदा शरीर तुंदे च पवित्र आत्मा दा मंदिर ऐ, जेड़ा परमात्मा दा ऐ, ते इस चाल्ली तुंदा शरीर तुंदा अपना नेई ऐ। कीजे परमात्मा दा राज तुंदे अंदर ऐ (**लुका 17:21** ऐ), ऐ तुस जिंदे परमात्मा दा मंदर ओजेड़ा तुंदे च रौहग ते चलग, ते ओह तुंदा होग **ईश्वर**, ते तुस **होगा उंदे लोक**.
- सारी इमारतें गी प्रभु च इक पवित्र मंदिर च बधी जाना चाहिदा
इफिसियों 2:19 ऐ इस आस् ते तुस हुन परदेसी ते परदेसी नेई, लेकन पबित्तरे दे साथी ओ।
ते घर दे **ईश्वर**;
इफिसियों 2:20 ते प्रेरितें ते भविष्यवक्ताएं दी नीह उप्पर बने दे ना
यीशु मसीह अपने आप गी मुख कोने दा पत्थर होने दे नाते;
इफिसियों 2:21 ऐ उदे च सारी इमारतें गी इकड़ा करिये प्रभु च इक पवित्र मंदर बनी जंदा ऐ।

→तुस इक आत् मक घर दे रूप च बनाए जा करदे ओ जेका परमेसरे दे जरिये स्वीकार्य ऐयीशु मसीह. मतलब तुस प्रेरितें ते भविष्यवक्ताएं दी नीहू उप्पर बने दे ओयीशु मसीहखुद ही मुख्य आधारशिला होने दे नाते; इस आस् ते सारी इमारतें गी इक पबितर मंदर च उगना गै पौना ऐप्रभु, जिस च तुस अपने आप गी इकट्टा करियै इक आवास आस्तै बनाए जा करदे ओईधरचआत्मा गी(इफिसियों 2:21-22 ऐ).¹³⁹

• **यीशु दे शरीर दा मंदिर(घूघट = उसदा मांस)**

लूका 23:45 ऐते सूरज न्हरे होई गेआ ते परदा बी²⁶⁶⁵ मंदिर दा³⁴⁸⁵ बीच किराए पर लेया गया।

मार्च 15:38 दीते परदा²⁶⁶⁵ मंदिर दा³⁴⁸⁵ दो (दो) में किराए पर लेया गया¹⁴¹⁷ ऐ

ऊपर तों नीचे तक.

मैट27:51 ऐ ते दिखो, पर्दा²⁶⁶⁵ मंदिर दा³⁴⁸⁵ दो (दो) में किराए पर लेया गया¹⁴¹⁷ ऐ

ऊपर तों नीचे तक; ते धरती कंपकंपी गई, ते चट्टानें च फट्टी गई;

(१) पैहले तम्बू दा पर्दा: पृथ्वी दा अभयारण्य

इब्रानियों ९:१ फिरी पैहलें वादे च बी नियम (धरमी) हो¹³⁴⁵ ईश्वरीय सेवा दा, ऐ

ते इक संसारी (पृथ्वी)²⁸⁸⁶ अभयारण्य (पवित्रअभयारण्य).³⁹

इब्रानियों ९:२ कीजे उल्लेख इक तम्बू बनी गेदा हा; पैहला, जिस च मोमबत्ती ते मेज ही।

ते दिखाने दी रोटी; जिसगी पवित्र स्थान (पवित्रअभयारण्य).³⁹

→1 (पुराने) तम्बू दे रूप च सेवा करदा ऐइक पवित्रअभयारण्य, जो सिर्फ मांस-पेय च खड़ोते दा हा, ते गोताखोर धोने, ते शारीरिक धर्म, सुधार दे समें तक उंदे उप्पर लाया गेदा हा (इब्रानियों ९:१०).

इब्रानियों 10:19 ऐइस आस् ते ऐ प्राओ, पवित्र स्थान च प्रवेश करने दी हिम्मत ऐ (पवित्र पवित्र स्थान)³⁹ के खून सेयीशु, ऐ

इब्रानियों 10:20 ऐइक नमें ते जिंदा रस्ता कन्ने, जेडा उने साढे आस्ते परदे कन्ने पवित्र किता ऐ²⁶⁶⁵ ऐ मतलब उदा शरीर;

→1 पर्दा व्यवस्था दे द्वारा पाप दे बलिदान ते बलिदान आस्ते ऐ, पर खून दा...यीशुऐ (1st) परदे, या दे मांस दे जरिए सानु पवित्र कीतायीशु. इस आस् ते भ्राएँ गी होना गै पौना ऐ बोल्ट च दाखल होने दापवित्रsanctuar^{वाइ}³⁹स्वर्ग चा।

(२) 2 (नवे) तम्बू दा परदा: पवित्र पवित्र स्थान

इब्रानियों ९:१ परमसीहआने आली भली चीजें दा महायाजक होने दे नाते, इक बड़डे ते

होर सिद्ध तम्बू, हलथें कन्ने नेई बने दा, मतलब इस इमारत दा नेई;

इब्रानियों ९:२ ना बकरी ते बछड़े दे खून कन्ने, लेकन अपने खून कन्ने इक बारी अंदर दाखल होई गेआ पवित्र स्थान (पवित्र अभयारण्य), ऐ³⁹प्राप्त कर लेते हुएअनन्त छुटकारासाडे वास्ते।

→(अधिक सिद्ध तम्बू) क्योंकि पाप दा ज्ञान व्यवस्था दे जरिए होंदा ऐ, इस आस्ते व्यवस्था दे कम्म कन्ने कोई बी शरीर धर्मी नेई बनग (रोम 3:20 ऐ). पर अपने आप दे द्वारालहू, ऐमसीहएक बार अंदर दाखल हो गयापवित्रअभयारण्य, ऐ³⁹जेडा होर बी सिद्ध तम्बू ऐ जेहडा हलथें कन्ने नेई बनाया गेदा (पवित्रालय दा निर्माण), ते ना गै बकरियें ते बछड़ें दे खून कन्ने हासल कीता गेदा ऐसनातनीखलासी साडे वास्ते।

- 2nd घूघट दा: 1।ईधरपहले (तम्बू दे परदे गी व्यवस्था दे द्वारा पाप आस्ते बलिदान ते बलिदान दी लोड ही, इस चाल्ली होर सिद्ध तम्बू या दुए तम्बू दी लोड ही) गी लेई लेया तां जे साढे शरीर दे माध्यम कन्ने पवित्र कीता जाई सकेयीशु मसीहइक बारी फी (इब्रानियों १०:८-१० ऐ).

(३) दूजे (नवे) तम्बू दे "बाद" दा घूघट: सब तों पवित्र पवित्र स्थान

इब्रानियों ९:३ते दूए परदे दे बा'द तम्बू जेडा आखदे न

¹³⁹वीडियो 41. "परमेसर गी स्वीकार करने आस् ते प्रभु च बधी जाओ।"

पवित्रतम(अभयारण्य)सब दा;^{39:39}

→2 (नवे) तम्बू दे “बाद” दे परदे गी आखदे नपवित्रतम दा पवित्र(अभयारण्य) आहला
सब्भे^{39:39} (इब्रानियों ९:३). इह ओह जगह है जित्थे प्रभु गी(यहोवा, मसीह गी)³⁰⁶⁸ मिलेंगे और
इसाएल दे पुत्रों कन्ने गल्ल करो (निष्कर्ष 25:2-22 ऐ).

- **ऐमदिर दा पर्दा**¹⁴⁰

- मंदिर दा घूंघट: बीच च किराया (मंदिर दा पर्दा ऊपर तों तक किराया होण तों पहलां
तला)

- ① ते सूरज न्हेंरे हो गया (लुका 23:45 ऐ)
- ② ते मंदर दा पर्दा पैहलें बीच च फट्टी गया³³¹⁹ (लुका 23:45 ऐ)

- **ऐटीओह मंदिर दा पर्दा: दो च फाड़ना**

- ③ मन्दिर दा पर्दा दिखो दो में किराए पर लिया गयाऊपर तों नीचे तक (मत्ती 27:51 ऐ)
- ④ ते धरती कंपकंपी गई, ते चट्टानें च फट्टी गई (मत्ती 27:51 ऐ);
- ⑤ ते कन्न गी³⁴¹⁹ खोले गए; (मत्ती 27:52 ऐ)
- ⑥ ते पवित्र संत दे कई शरीर⁴⁰ जो सोया उठी(मत्ती 27:52 ऐ), ऐ
- ⑦ ते कन्न च बाहर निकली गया³⁴¹⁹ उदे जी उठने दे बाद, ऐ
- ⑧ ते पवित्र नगर च चली गया।
- ⑨ ते मते सारों गी प्रगट होई गेआ (मत्ती 27:53 ऐ).

• **मरे दे जी उठन तों पहलां**¹⁴¹

- मौत दाआदम थमां लेइयै मूसा तकर राज कीता हा, इस करी जेड़े लार्शें दे शासन दौरान सुत्ते गेदे हे
मौतबंद कन्न च होंदे न³⁴¹⁹ (मत्ती 27:52 ऐ, ऐरोम 5:14 ऐ).

• **मरे दे जी उठने दे बाद**

- राज दे पुत्रों दी लाश कबर च निकली आए³⁴¹⁹ ते पवित्र नगर च चली गया
(6- ऐ8).

- ऐमत्ती 27:51-53 ऐए घटना हे जो यीशु दे क्रूस उते अपणी आत्मा कू सौपण दे बाद थीं दी हई, लेकिन ध्यान डेवो कि ए
उदे जी उठने दे बाद दे दृश्य दा वर्णन करदा ऐ.

→ यीशु मसीहउंदी मौत दे बाद दफनाया गेआ ते शास्त्रें दे मताबक त्रीए दिन जिंदा होई गेआ

(१कुरिन्थियों १५:४), इसलेईमत्ती 27:52 ऐ“उस दे जी उठने दे बाद” होने आली घटना दा वर्णन ऐडब्ल्यूइत्थे लार्शें
कई संत दे जो सो गए थे, उठनगे।

• **पवित्र शहर च लोक = इक बड्डा शहर = पवित्र यरूशलेम**

- ऐमेमने दी पत्नियांइक बड्डा शहर बनांदा ऐ, पवित्र यरूशलेम जेड़ा सुर्ग थमां उतरदा ऐईश्वर
(प्रकाशित 21:10 ऐ) जितप्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमानतेमेमने दानमंदिर दा (प्रकाशितवाक्य 21:22 ऐ) प्राप्त करदे होई
दी रोशनीईश्वर(प्रकाशित 21:3 ऐ). ना कोई गारी होवेगी ना रात होवेगी, ते ना ही उन्हां नू मोमबत्ती दी लोड़ होवेगी ना ही...

¹⁴⁰“[चित्र 3-ई]” दा संदर्भ लैओ जां

वीडियो 39. “यीशु दे सूली उप्पर चढ़ाने दा संभावित समें दा क्रमा” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-संभावित-समय-अनुक्रम-सली-पर-चढ़ाने-पहले-और-अंतिम-आदम-मृतक-के-पुनरुत्थान/.

¹⁴¹चही।

सूरज दी रोशनी क्योंकि परमात्मा दी महिमा इसे हल्के कर देगा।¹⁴²

→ तुसीं (दुल्हन, मेमने दी जनानी) हो जाओगे मेमने दी पत्नी च पवित्र यरूशलेम जित परमात्मा कोला स्वर्ग च उतरदा ऐ (प्रकासित 21:10 ऐ)।¹⁴³

- पवित्र यरूशलेम (प्रकासित 3:12 ऐद्वारा अनुवाद कीता गोआ)

→ जो जीत (मेमने दी पत्नी), में (मेमने दा) में इक खंभा बना देगा मेरे परमात्मा दा मंदिर (जो बिच है पवित्र यरूशलेम गीनमें यरूशलेम च), ऐ¹⁴⁴ ते ओह फी बाहर नेई जाह्य; उदे उप्पर मेरा नां ईश्वर, ते मेरे परमात्मा दे नगर दा नां (जेहड़ा नमां यरूशलेम ऐ स्वर्गीय यरूशलेम, इब्रानियों 12:22 ऐ), ऐ¹⁴⁵ जो सुर्ग तों उतरदा है मेरे परमात्मा (के मेमने दा ईश्वर): ते मैं उदे उप्पर अपना नमां नां लिखना ऐ।

→ पवित्र यरूशलेम, इक बड्डा शहर जित्थें “दुल्हनें गी, जामेमने दी पत्नियां” न, बनाना इक बड्डा शहर (प्रकाशितवाक्य 21:9-10)।

प्रकासित 3:13 ऐजेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ।

- संदर्भ देना प्रकासित 21:10 ऐहोर मती जानकारी लेई।

† जेकर तुस पबित्त आत् मा दी अगुवाई च ओ, तां तुस सुनी सकगे के आत् मा फिलाडेल्फिया च कलीसिया गी केह ग् लांदी ऐ, कीजे पिता दी आत् मा जां पबित्त आत् मा, तुदे च गल् ल करदा ऐ (मत्ती 10:20 ऐ, ऐमार्च 13:11 ऐ)।

¹⁴²वीडियो 24. “तुस पवित्र यरूशलेम ओ (3/3)”

www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-देव-दे-घर-तुस-पवित्र-यरूशलेम/, ते

वीडियो 36. “दृष्टांत: स्वर्ग दा राज & परमात्मा दा राज्य” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-द-दृष्टान्त-स्वर्ग-दा-राज्य-देव-दे-राज्य/.) ऐ।

¹⁴³वीडियो 48. “8 दा हनुक्का” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-दे-भोज-8-हनुक्का/।

¹⁴⁴“[चित्र 2.1] स्वर्ग च नमां तम्बू & परमात्मा दा मंदिर”

¹⁴⁵वीडियो 24. “परमेसर दा घर (उत्पत्ति 28)”

www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-देव-दे-घर-तुस-पवित्र-यरूशलेम/।

[चित्र 3-ई] यीशु दे सूली च चढ़ाने दा संभावित समें दा क्रम¹⁴⁶

¹⁴⁶वीडियो 39. “यीशु दे सूली उपर चढ़ाने दा संभावित समें दा क्रम।” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-संभावित-समय-अनुक्रम-सली-पर-चढ़ाने-पहले-और-अंतिम-आदम-मृतक-के-पुनरुत्थान/.

Possible time sequence of the crucifixion of Jesus

The crucifixion of Jesus is described in all four gospels (Matthew, Mark, Luke, & John)

Matthew	Mark	John	Luke
<p>Mat 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land ground ^{9:1392} unto the ninth hour.</p> <p>Mat 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me? <p>Mat 27:47 Some of them that stood there, when they heard that, said,</p> <ul style="list-style-type: none"> • This man calleth for Elias. <p>Mat 27:48 And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.</p> <p>Mat 27:49 The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him.</p> <p>Mat 27:50 Jesus, when he had cried again with a loud voice, yields (for gave) ^{9:1402} up the ghost.</p> <p>Mat 27:51 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent,</p> <p>Mat 27:52 And the graves (the sepulchres) ^{9:1403} were opened, and many bodies of the saints (the holy) ^{9:1404} which slept arose, and went into the holy ^{9:1405} city, and appeared unto many.</p> <p>Mat 27:54 Now when the centurion saw and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying,</p> <p>Truly this was the Son of God!</p>	<p>Mar 15:33 And when the sixth hour was come, there was darkness over all the whole land ground ^{9:1392} until the ninth hour.</p> <p>Mar 15:34 And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eli, Eli, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me? <p>Mar 15:35 And some of them that stood by, when they heard it, said,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behold, he calleth Elias. <p>Mar 15:36 And one ran and filled a sponge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying,</p> <p>Let alone, let us see whether Elias will come to take him down.</p> <p>Mar 15:37 And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost. (breathed His last) ^{9:1398}</p> <p>Mar 15:38 And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.</p> <p>Mar 15:39 And when he had cried again, which stood over against him, and gave up the ghost (breathed His last) ^{9:1399}, he said,</p> <p>Truly this man was the Son of God!</p> <p>Mar 15:40 There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joseph, and Salome; and many other women which came up with him unto Jerusalem.</p> <p>Mar 15:41 (Who also, when he was in Galilee, followed him, and ministered unto him.) and many other women which came up with him unto Jerusalem.</p>	<p>Jhn 19:28 After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, and that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst.</p> <p>Jhn 19:29 Now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth, and he bowed (laid) ^{9:1407} his head, and gave up (delivered) ^{9:1408} the ghost.</p> <p>Jhn 19:30 When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished. and he bowed (laid) ^{9:1409} his head, and gave up (delivered) ^{9:1410} the ghost.</p> <p>Jhn 19:31 And, because it was the preparation, they buried his body there, forasmuch as the sabbath was near, (for the Jews were not to touch the sabbath, but that they might bury their dead before the sabbath,) and went into the holy ^{9:1411} sepulchre, which was hewn in the rock, and laid the body therein, and rolled the stone away from the sepulchre, and sat upon it, watching Jesus. and those things that were done, they feared greatly, saying,</p> <p>Truly this was the Son of God!</p>	<p>Luk 23:44 And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth ground ^{9:1392} until the ninth hour.</p> <p>Luk 23:45 And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst (the middle) ^{9:1319} and the rocks rent,</p> <p>Luk 23:46 And when Jesus had cried (called) ^{9:1402} with a loud voice, Father, into thy hands I commend my spirit. and having said thus, he gave up the ghost. (breathed His last) ^{9:1403} and he bowed (laid) ^{9:1404} his head, and gave up (delivered) ^{9:1405} the ghost.</p> <p>Luk 23:47 Now when the centurion ^{9:1406} saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous ^{9:1407} man. beholding the things which were done, and returned, and stood afar off, beholding these things.</p>

When arranging the time sequence of each gospel...

Possible time sequence of the crucifixion of Jesus (from Matthew, Mark, Luke, & John)

<p>Mat 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land ground ^{9:1392} unto the ninth hour.</p> <p>Mat 15:33 And when the sixth hour was come, there was darkness over all the whole land ground ^{9:1392} until the ninth hour.</p> <p>Luk 23:44 And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth ground ^{9:1392} until the ninth hour.</p> <p>→ From the sixth hour until the ninth hour, darkness was on all the ground, and Jesus cried out to God for forsaking Him</p> <p>Jesus cries to God (Eli, Eli, lama sabachthani?)</p> <p>Mat 27:46 And about the ninth hour Jesus cried ^{9:1391} with a loud voice, saying,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me? <p>Mar 15:34 And at the ninth hour Jesus cried ^{9:1391} with a loud voice, saying,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eli, Eli, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me? <p>Mat 27:47 Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias.</p> <p>Mar 15:35 And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.</p> <p>Jesus is thirsty</p> <p>Jhn 19:28 After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst.</p> <p>Jhn 19:29 Now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth, and he bowed (laid) ^{9:1407} his head, and gave up (delivered) ^{9:1408} the ghost.</p> <p>Mar 15:36 And one ran and filled a sponge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying,</p> <p>Let alone, let us see whether Elias will come to take him down.</p> <p>Mat 27:49 The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him.</p> <p>The veil of the temple = rent in twain</p> <p>Luk 23:45 And the sun was darkened, and the veil ^{9:1319} of the temple was rent in the midst (the middle) ^{9:1319} and the rocks rent,</p> <p>Jesus calls the Father & commits His Spirit to His Father</p> <p>Luk 23:46 And when Jesus had cried (called) ^{9:1402} with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit.</p> <p>Jesus forgave the Spirit</p> <p>Mar 27:50 Jesus, when he had cried ^{9:1399} again with a loud voice, yielded up (for gave) ^{9:1402} the ghost. ^{9:1411}</p> <p>Mar 15:37 And Jesus cried ^{9:1398} with a loud voice,</p> <p>Jesus breathed His last</p> <p>Mar 23:46 and having said thus, he gave up the ghost (breathed His last) ^{9:1403} and he bowed (laid) ^{9:1404} his head, and gave up (delivered) ^{9:1405} the ghost.</p> <p>Jesus was the Son of God – Confession by the centurion</p> <p>Mar 15:39 And when the centurion (centurion, the centurion in Latin word) ^{9:1406} saw that he so cried out ^{9:1398} and gave up the ghost (breathed His last) ^{9:1403}, he said, Truly this man was the Son of God.</p> <p>Jesus delivers the Spirit</p> <p>Jhn 19:30 When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished, and he bowed (laid) ^{9:1409} his head, and gave up (delivered) ^{9:1410} the ghost.</p> <p>The veil of the temple = rent in twain from the top to the bottom</p> <p>Mar 27:51 And, behold, the veil of the temple was rent in twain (two) ^{9:1417} from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent.</p> <p>Mar 15:38 And the veil of the temple was rent in twain (two) ^{9:1417} from the top to the bottom.</p> <p>The sepulchre opens</p> <p>Mat 27:52 And the graves (the sepulchres) ^{9:1403} were opened, and many bodies of the saints (the holy) ^{9:1404} which slept arose, and went into the holy ^{9:1405} sepulchre, which was hewn in the rock, and laid the body therein, and rolled the stone away from the sepulchre, and sat upon it, watching Jesus. and those things that were done, they feared greatly, saying,</p> <p>Jesus was the Son of God – Confession by those that were with the centurion</p> <p>Mar 27:54 Now when the centurion ^{9:1406} saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous ^{9:1407} man. beholding the things which were done, and returned, and stood afar off, beholding these things.</p> <p>Jesus was a righteous man – Confession by the centurion</p> <p>Mar 15:40 There were also women looking on afar off among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joseph, and Salome; and many other women which came up with him unto Jerusalem.</p> <p>Mar 15:41 (Who also, when he was in Galilee, followed him, and ministered unto him.) and many other women which came up with him unto Jerusalem.</p> <p>Luk 23:47 Now when the centurion ^{9:1406} saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous ^{9:1407} man. beholding the things which were done, and returned, and stood afar off, beholding these things.</p> <p>Luk 23:49 And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.</p>
--

(प्रकाशितवाक्य 3:14-22 ऐ) (7) लौदीकिया दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी

प्रकाशित 3:14 ऐते लौदीकिया दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी^{जी2994 ने वी}लिखो;
ए गल्लां आमन (सच्ची च) आखदी ऐ^{जी281}वफादार ते सच्चे^{जी228 ने वी}गुआह,^{जी3144 ऐ}
परमात्मा दी सृष्टि दी शुरुआत;

☞ प्रकाशित 3:14 ऐते लौदीकिया दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी लिखो;
इह गल्लां आखदी है कि आमीन, वफादार ते सच्चे गवाह, दी सृष्टि दी शुरुआत^{ईश्वर}: 1।

➤ जो परमात्मा दी सृष्टि दी शुरुआत दा वफादार ते सच्चा गवाह ऐ?

• परमात्मा दी सृष्टि दी शुरुआत

उत्पत्ति २:४ एह पीढ़ियां न^{एव 8435 ऐ}आकाश दा^{एव 8064 ऐ}ते धरत :ी दा^{एव 776 ऐ}
जदुं ओह रचे गेदे हे,^{एव 1254 ऐ}
दिन में^{एव 3117 ऐ}ओह^{प्रभु गी (यहवा) दा^{एव 3068 ऐ}ईश्वर^{एव 430 ऐ}}
बनाए दा^{एव 6213 ऐ}धरती गी^{एव 776 ऐ}ते आकाश गी^{एव 8064 ऐ}.

→ चउत्पत्ति 1, ऐ^{ईश्वर} ('एलोहिमा')^{एव 430 ऐ}आकाश ते धरती ते उंदी सारी सेना पैदा कीती। अदुं
थमांउत्पत्ति २:४, ऐ^{प्रभु गी (यहवा) दा^{एव 3068 ऐ}ईश्वर} हाकिस पर चीजें बनाने च शामिल^{ईश्वर}बनाया।¹⁴⁷

→ जेकर ऐ तां एह कुन ऐनाथ (यहवा)?

• इक सच्चा ते वफादार गवाह

यिर्मयाह 42:5फिरी उने यिर्मयाह गी आखया^{प्रभु^{एव 3068 ऐ}होनाइकसच्च^{एव 571 ऐ}तेवफादार (मनो)^{एव 539 ऐ}}
गुआहसादे बरकार, जेकर अस सारें चीजें दे मताबक बी नेई करदे (रहेमा^{एव 1697 ऐ})¹⁴⁸
जिसदे वास्ते^{प्रभु गी (यहवा) दा^{एव 3068 ऐ}तेराईश्वर (ĕlōhîm) दा^{एव 430 ऐ}तुगी सादे कोल भेजी देगा।}

→ प्रभु(यहवा) दा^{एव 3068 ऐ}सच्चा ते वफादार गवाह ऐ, ते^{प्रभु परमात्मा(यहवा ĕlōhîm) ऐ}
तुसैं सारें गी भेजदा ऐ^{ऐमा दा}.

‡जोह ५:२० ते अस बी जानने आ^{परमात्मा दा पुत्र}आया ऐ, ते साहडे गी समझ दिती ऐ।
तां जे अस उसी जान सकचे (ईश्वर) अर्थात्^{सच्च^{जी228 ने वी}}, ते अस उस च गै हां, जेडा ऐ^{सच्च}, ऐ^{जी228 ने वी}
उदे पुत्र च बी^{यीशु मसीह}. एह गल्ल सच्च ऐ^{जी228 ने वी}ईश्वर, ते शाश्वत^{जीवन}.

प्रेरितों दे काम 10:36शब्द (लोगोस) दा^{जी3056 ऐ}जिसी परमात्मा ने बच्चें (पुत्रों) गी भेजेया^{जी5207 ऐ}इसाएल दा, ऐ
द्वारा शांति दा प्रचार करदे^{यीशु मसीह}: (ओह ऐनाथसारे दा:)

→ सच्चा इक ऐ^{ईश्वर}, ते सच्चे^{ईश्वर ऐ (यहोवा)^{एव 3068 ऐ}कु'न ऐ मसीह}, ते अस इस च गै हां
^{सच्चा परमात्माचरब दाबेटायीशु मसीह}, कु'न ऐनाथ^{जी2962 ऐ}सब दा (प्रेरितों दे काम 10:36)को भेजे जाने वाले लोगो
इसाएल दे पुत्र;^{यीशु मसीह ऐनाथसब दा}).

प्रेरितों दे काम ४:२४ते जदुं उनेंगी (प्रेरितें) ए गल् ल सुनी, तां उनेंगी अपनी आवाज चली पेई^{ईश्वर}इक मन कन्ने आखया।
नाथ (निरपेक्षा दा), ऐ^{जी1203 ऐ}तू ही होईश्वर (ΘΕΟΣ, थियोस दा), ऐ^{जी2316 ऐ}जिसने बना दी है^{जी4160 ऐ}सुर्ग,^{जी3772 ऐ}
ते धरती (जमीन),^{जी1093 ऐ}ते समुंदर,^{जी2281 ऐ}ते सारे^{जी3956 ऐ}कि में^{जी1722 ऐ}उन्हें है: 1।

→ नाथ (निरपेक्ष) दा^{जी1203 ऐ}थुआदाईश्वर=^{प्रभु(यहवा) दा^{एव 3068 ऐ}थुआदाईश्वर^{एव 430 ऐ}}

¹⁴⁷वीडियो 1. “सृष्टि दे शुरु च & कदम चा” www.therhemaofthelord.com/कोर्स1/पाठ1/ऐ.

¹⁴⁸वीडियो 11. “परमात्मा दे कोल इक नासरी (सिर दे बाल)”

<https://therhemaofthelord.com/uncategorized/31-एक-नजरी-देव-दे-सिर-के-बाल-दे/>

- **ऐप्रभु परमात्मा:** रसूलें दे मताबकनाथ (निरपेक्ष) दा¹²⁰³ थुआदाईश्वरजिसने बनाया आकाश ते धरती (जमीन, समुंदर ते उंदी सारी सेना, प्रेरितों दे काम ४:२४), उसी तरह दा ऐ **प्रभु गी(यहवा)** दा³⁰⁶⁸ थुआदाईश्वर⁴³⁰ चउत्पत्ति २:४.
- ऐइसलेई, **नाथ** (निरपेक्षता दा) दा संदर्भ दिंदा ऐ **प्रभु गी(यहवा)** चउत्पत्ति २:४.
- + उंदी महिमा दे चश्मदीद गवाह होने दे नाते प्रेरितें तुसेंगी साढ़ी शक्ति ते औने दा पता लाया ऐ **प्रभु यीशु मसीह**.¹⁴⁹
- + नौकर हेठ हैं **प्रभु** (निरपेक्षता दा), जो वफादार (१तिमूथियुस ६:२), पवित्र, ते सच्चा (प्रकासित 6:10 ऐ), ते **प्रभु गी** (यहोवा) इक सच्चा ते वफादार गवाह ऐ, ते **ईश्वर** है जो सच्चा है, ते उदी सच्चाई उदे पुत्र च ऐ, **यीशु मसीह**, क'न ऐ **नाथ** सब दा.

सो, प्रकासित 3:14 ऐइस चाल्ली दुबारा लिखेआ जाई सकदा ऐ:

→ प्रकासित 3:14 ऐएह गल्लां आखदी ऐ जे आमीना **नाथसादाईश्वर (यहोवासाडा परमात्मा)**

वफादार लोग तेसच्च गुआह, ऐशुआत दीआहलापरमातमा दी सृष्टि;

- जे प्रभु (निरंकशता दा)¹²⁰³ प्रभु दा संदर्भ दिंदा ऐ (यहोवा)³⁰⁶⁸ चउत्पत्ति २:४, फिर कौन है प्रभु (निरंकशता दा)¹²⁰³ ?
प्रकासित 6:10 ऐते ओह जों-जों कन् ने पुकारे लगी पेया, “ किन्नी देर तकर, ओनाथ (निरंकशता दा), ऐ¹²⁰³ पवित्रतेसच्च, ऐ क्या तू धरती (जमीन) उप्पर रौहने आलें उप्पर साढ़े खून दा बदला नेई लैना¹⁰⁹³ ?

(प्रभु (मजबूत दा **जी1203 ऐ, δεσπότης**, निरंकश) बनाम प्रभु (मजबूत दा **जी2962 ऐ, κύριος**, किरियोस)) ऐ

- **नाथ**(मजबूत दा **जी1203 ऐ, δεσπότης**, निरंकश)
लूका 2:29 ऐ **नाथ** (निरपेक्षता दा), ऐ¹²⁰³ हुन तू अपने दास गी दे¹⁴⁰¹ त्तरे वचन दे अनुसार शांति कन्ने चली जाओ (**रेमा**):⁴⁴⁸⁷ ऐ
→ रेमा दे दी है **ओहनाथ (निरंकशता दा)**.¹²⁰³ ऐ

१तिमूथियुस ६:१ जिन्ना नौकर जुआ दे हेठ होन उन्ना अपने मालिक गिनन (**नाथ, ऐ निरंकशता दा**)¹²⁰³ ऐ

सारे इज्जत दे काबिल, कि नाम दः **ईश्वर (Θεός, थियोस दा)**²³¹⁶ ऐ

ते उदे उपदेश दी निन्दा नेई कीती जा।⁹⁸⁷

१तिमूथियुस ६:२ ते जेके विश्वास करदे न (**वफादार**)⁴¹⁰³ मास्टर्स (**नाथ, निरंकशता दा**), ऐ¹²⁰³ ऐ

उन्हें गी तुच्छ नेई करन दे।

कीजे ओह भ्राड न;⁸⁰ लेकन उंदी सेवा करो, कीजे ओह

वफादार होंदे ने⁴¹⁰³ ते प्यारे, ²⁷ फायदे दे हिस्सेदार। ए गल्लां सिखांदे ते उपदेश दिंदियां ना।

१तिमूथियुस ६:३ जेकर कोई होर किश सिखांदा ऐ, ते स्वस्थ (**अवाज**)⁵¹⁹⁸ शब्द (**लोगो दा**), ऐ³⁰⁵⁶ ऐ

इत्थू तगर जे साढ़े शब्द बी **नाथयीशु मसीह**, ते परमसरे दे मताबक उपदेश गी;

1ती 6:4 ऐओह घमंड करदा ऐ, कुसै गी बी नेई जानदा, पर सवालें ते शब्दें दे झगड़े कन्ने डोग करदा ऐ

(**लोगोस**), ऐ³⁰⁵⁶ जेसदे च ईर्ष्या, झगड़ा, रेलिंग, बुरी धारणा पैदा होंदी ऐ।

१तिमूथियुस ६:५ भ्रष्ट मन दे, ते सच्चाई कोला वंचित लोकें दः विकृत विवाद;²²⁵

एह मनदे होई जे फायदा भक्ति ऐ, इस चाल्ली दे कोला अपने आप गी हटी जा।)

→ नौकर हेठ हैं **नाथ** (निरपेक्षता दा) दे नाम दा सम्मान करदे होए **ईश्वरतां** जे उदा सिद्धांत नेई ऐ निंदा कीती।

→ **नाथ** (निरपेक्षता दा) वफादार ऐ⁴¹⁰³ ऐ.

→ के साउंड लोगो **प्रभु** (निरपेक्षता दा) दा है **प्रभु यीशु मसीह गी**.

२ती 2:21 ऐजेकर कोई आदमी (कोई)⁵¹⁰⁰ इस आस् ते अपने आप गी इन्हें शा शुद्ध करो, ते आदर दा बर्तन बनगा।

पवित्र कीता, ते मालिक दे इस्तेमाल आस्ते मिलदा ऐ **नाथ** (निरपेक्षता दा), ऐ¹²⁰³ ऐ

ते हर इक नेक कम्मे आस्ते तैयार रेंदे हे।

→ **नाथ** (निरपेक्षता दा) तुसेंगी हर “अच्छे कम्भ” आस् ते तैयार करदा ऐ।

२पतर २:१ लेकिन लोकें च झूठे भविष्यवक्ता बी हे।

जियां तुंदे च झूठे गुरु होंगना।

जो गुप्त रूप च निंदनीय पाखण्डें गी लेईं औग, ते इन्कार बी करग प्रभू (निरपेक्षता दा), ऐ ¹²⁰³ ऐ

कि खरीदी (रिडीम) ⁵⁹ उनें, ते अपने उपपर तेज विनाश लाओ।

→ ओह नाथ (निरपेक्षता दा) खरीदी (मुक्त) तुहानू दे अनमोल खून नाल मसीह।

- नाथ (निरपेक्ष) दा ¹²⁰³ ऐ ईश्वर=प्रभू जी (क्योरिओस) ²⁹⁶² ऐ यीशु मसीह

जदे 1:4 ऐकी वे किश मनुख अनजाने च डुब्बी गेदे हे, जेडे पैहलें गै इस निंदा लेईं नियुक्त हे।

अभक्त मनुख, साढ़ी कृपा गी मोड़दे ईश्वर ²³¹⁶ ऐ कामुकता च,

ते इकलौते दा इन्कार करना नाथ (निरपेक्ष) दा ¹²⁰³ ऐ ईश्वर, ऐ ²³¹⁶ ऐ (इत्थं तक कि) ²⁵³² ऐ साढ़ा प्रभू यीशु मसीह।

→ छड़नाथ (निरपेक्ष) दा ¹²⁰³ ऐ ईश्वर=प्रभू (क्योरिओस) ²⁹⁶² ऐ यीशु मसीह।

प्रकासित 6:10 ऐते उने जों-जोर कन्ने चिल्लाया।

कितीने देर तक ओ नाथ (निरपेक्ष) दा, ऐ ¹²⁰³ ऐ पवित्र ⁴⁰ ते सच्चे, ²²⁸ ऐ

क्या तू धरती (जमीन) उपपर रोहने आलें उपपर साढ़े खून दा बदला नेईं लैना ¹⁰⁹³ ऐ?

→ नाथ (निरपेक्ष) दा, ऐ ¹²⁰³ ऐ सच है ²²⁸ ऐ।

- † प्रभू जी (निरपेक्षता दा) = दा खून मसीह (यीशु जियां बलिदान दे मेमने गी ²⁸⁶ ऐ बिना दाग & बिना दाग, जो बन गया मसीह (राज करने आला मेमना ⁷²¹ ऐ) साड़ा फसह)।

→ प्रभू जी (despotēs) हर अच्छे कम्मे वास्ते तुहानूं तैयार करवा है (२ती 2:21 ऐ)।

तुसीं खरीदे (खरीदे) हो के अनमोल खून नाल मसीह (खून दामसीह (यीशु जियां इक मेमना ²⁸⁶ ऐ बिना दाग & बिना दाग जो बन गया मसीह (मेमने दा ⁷²¹ ऐ) साड़ा फसह, ऐ १पतरस १:१९), ते ओह नाथ (निरपेक्षता दा) ही है जिसने तुहानू खरीदया (२पतर २:१)।

- उंदे साउंड लोगो दे नांड दा सम्मान करदे न ईश्वर ते उदा सिद्धांत, जेड़ा ऐ प्रभू यीशु मसीह गी, ऐ ते अपने दासें गी अपने रेमा (लुका 2:29 ऐ)।

→ इस करिए सिर्फ नाथ (निरपेक्ष) दा ईश्वर=प्रभू (क्योरिओस) यीशु मसीह (जदे 1:4 ऐ)।

प्रभू जी (निरंक्रश) = प्रभू (यहवा) दा

- साथ ही, प्रेरितों से भी प्रेरितों दे काम ४:२४, साफ ऐ के नाथ (निरपेक्ष, प्रेरितों दे काम ४:२४) ईश्वर संदर्भित करदा ऐ प्रभू गी (यहवा) दा ईश्वर च उत्पत्ति २:४. च २सा ७:२४ ते, ऐ प्रभू गी (यहवा) ³⁰⁶⁸ ऐ अपने लोकें गी इस्त्राएल गी तैयार करदा ऐ उंदे कन्ने हमेशा लेईं इक लोक बनने आस्ते, ते... प्रभू गी (यहवा) दा ³⁰⁶⁸ ऐ बनी गे आ ओह ईश्वर ⁴³⁰ ऐ दे लोकें लेईं इस्त्राएल हमेशा लेईं ¹⁵⁰

नाथ (यहवा) दा ³⁰⁶⁸ ऐ ईश्वर ⁴³⁰ ऐ = नाथ (निरपेक्ष) दा ¹²⁰³ ऐ थुआड़ा ईश्वर

- एह नाथ (यहवा) दा ³⁰⁶⁸ ऐ ईश्वर ⁴³⁰ ऐ आकाश ते धरती दे कन्ने-कन्ने उंदी सारी सेना गी किस उपपर बनाई दिता ईश्वर शुरू विच पैदा कीता, ते तुहानू सारे रेमा (यिर्मयाह 42:5). एह नाथ (यहवा) दा ईश्वर (उत्पत्ति २:४) उसी तरह दा ऐ नाथ (निरंक्रश) तेरा ईश्वर, जिने अंबर ते धरती (जमीन, समुंदर ते उंदी सारी सेना) "बनाया" प्रेरितों दे काम ४:२४)।

→ दूजे शबदां च, मसीह (प्रेरितों दे काम २:३६, ऐकलुस्स 3:4 ऐ), जिंदे दा पुतर ईश्वर, कुंन ऐ प्रभू गी (यहवा) दा थुआड़ा ईश्वर (निष्कर्ष 6:7 ऐ, ऐदेऊ 30:20 हे), तुंदी "जीवन" ऐ यीशु जीवन दी रोटी ऐ, ते जिंदगी दा उस रोटी दाए मसीह, जिंदे कन्ने अस महिमा च प्रकट होगे (कुलुस्स 3:4 ऐ)।

यीशु है कि मसीह, परमात्मा दा पुतर (द्वारा विश्वास करदे, तुहाडे कोल है जीवन उदे नां ते, ऐजह 20:31 ऐ), ते एह यीशु मसीह ऐ प्रभू (क्योरिओस) ²⁹⁶² ऐ सब दा (प्रभू यीशु मसीह गी, ऐ प्रेरितों दे काम २:३६, ऐकलुस्स 3:4 ऐ) ¹⁵¹

¹⁵⁰वीडियो 6. "प्रभू (तुंदा) परमात्मा बनी जंदा ऐ।"

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशु-इज्राइल-दे-पुत्र-पीढ़ियों-दी-पुस्तक/

¹⁵¹वीडियो 23. "रोटी, मन्ना, & छिपे दा मन्ना।"

*दोहर करन लई, **प्रभु (despotēs)** दा मतलब है **प्रभु गी (यहवा)**, ते **ओहनाथ (यहवा)** दा जो तेरा हो गया **ईश्वर (सब शरीर दा परमात्मा)** है **प्रभु यीशु मसीह गी**.¹⁵²

जो 2:1 ऐतुस सिव्योन च तुरही बजाओ, ते मेरे पवित्र पहाड़े च अलार्म बजाओ;
धरती दे वासी (धरती गी) ^{एच 776} काँपना: प्रभु दे दिन (**यहोवा**)
आवे करदा ऐ, की वे नेड़े ऐ;

जो 3:17 ऐ इस चाल्ली तुस जानगे के में प्रभु आं (**यहोवा**) थुआदा **ईश्वर सिव्योन** च रौहने आला, ऐ मेरा पवित्र पहाड़, तां यरूशलेम पवित्र होग, ते कोई परदेसी नेई गुजरे उसी दे जरिए होर बी।

† **यीशु ऐमेमने दा (अम्मोस)** ^{अ०286} **परमातमा दा**, जो दुनिया दा पाप दूर करदा है (**जहन्ना 1:29** ऐ), ते तुसीं होबिना **खमीर** दाजियां **मसीह सादा फसह दा दिन** साडे वास्ते कुर्बानी दिती गई (**१ कुरिन्थियों ५:७**). इस चाल्ली, सादे कोल इक मोमबत्ती दे बारे च भविष्यवाणी दा इक होर स्थिर लोगो ऐ ^{अ०3088} **ऐमेमने दा** जो न्हरे दी जगह च चमकदा ऐ, जदू तक दिन भोर रात दे न्हरे च तोड़ी नेई जंदा ते... **परमातमा दी रोशनी** तेरे दिलों में प्रकाश देण लई उठदा है (**२ पतरस १:१९**).¹⁵³

- शुरू च लोगो हा, ते लोगो परमात्मा दे कन्ने हा, ते लोगो परमात्मा हा (**झं१:१** ऐ).
पर जदुं परमेसरे दा उजाला उठदा ऐ ते तुदे दिलें च मेम्ने दे मोमबत्ती गी रोशन करदा ऐ, तां उजाला बन जाता है **परमातमा दा रेमा**.

- की व्याख्या करना **झं१:१** ऐ

→ शुरू में था **लोगो दा**, ते **लोगो दा (मेमने दा)**, जो न्हरे की जगह चमकती है) साथ था **ईश्वर**, ऐ ते **लोगो दा हा ईश्वर** (जद तक दिन दा भोर रात दे न्हरे विच ना टूट जावे). **मेमने दा ऐ ओह नाथ** जो बन गया **ईश्वर सारे मांस दा**, तो जदों दिन भोर हो जावे रात दे न्हरे विच (**लोगो दा हा ईश्वर**), ऐ **परमातमा दा उजाला** तेरे दिलों में उठ जाणा, ते तुसों गी याद और **रेमा** दाजित पवित्र भविष्यवाक्ताएं ते हुकमें दे द्वारा बोले गेदे हे **प्रभु (क्योरिओस)** ^{अ०2962} **ते मुक्तिदाता** (**२ पतरस ३:२**) प्रेरितों द्वारा बोली गई।

† **परमातमा दा पुत्र**, ऐ **प्रभु यीशु मसीह गी**, लौदीकिया दी कलीसिया कन्ने गल्ल करदा ऐ।

- ना ठंड ते ना गरम

प्रकासित 3:15 ऐमें तेरे कर्मों गी जानना ऐं के तू ना ठंड ऐ ^{अ०5593} ना ही गर्म: ^{अ०2200} में चाहन्नां तू ठंडे जां गर्म हो।

☞ **प्रकासित 3:15** ऐमें तेरे कर्मों गी जानना आं, जे तुस ना ठंडे ओ ते ना गे गर्म ओ। काश, तुस ठंडे होंदे जां गर्म होंदे।

- "ठंड" शब्द, जिय्यां यीशु ने 1000 च इस्तेमाल कीता ऐ **मत्ती 10:40 ऐ-42** दा, इनमें दा संदर्भ दिदा ऐ, पर **मत्ती 10:24** ऐसमझने से पहले समझना चाइदा **मत्ती 10:40** ऐ.
- **चेले, गुरु, सेवक ते प्रभु कोला उप्पर कुन ऐ?**
मत्ती 10:24 ऐचेला ^{अ०3101} अपने मालिक (रब्बानी) तों उपर नहीं है ^{अ०4462}, **प्रभु (क्योरिओस)** ^{अ०2962}, ऐ ^{अ०1320}
ना ही नौकर ^{अ०1401} अपने मालिक (क्योरिओस) दे उपरा ^{अ०2962}

www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-द-ब्रेड-द-मन्ना-द-हिडन-मन्ना/.

¹⁵²वीडियो 31. "परमातमा दे कोल इक नासरी (सिर दे बाल)।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-एक-नजरी-देव-दे-सिर-के-बाल/.

¹⁵³वीडियो 44. "शास्र दी भविष्यवाणी (2 पतरस 3) 1/2।" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

→मास्टर¹³²⁰गी “रब्बी” आखदे हे⁴⁴⁶¹पैहलें^{यीशु दासूली}उप्पर चढ़ाया जाना (या मनुख दे पुत्तर), पर रब्बोनी आखदे न⁴⁴⁶²उंदे सूली च चढ़ाने दे बाद (मसीह). जदुं चेलें गी “रब्बी” मिलदा ऐ⁴⁴⁶¹विश्वास दे द्वारा, “रब्बी⁴⁴⁶¹ बन जाता है उनकी रब्बोनी⁴⁴⁶²या उनके^{नाथ}(क्योरिओस)²⁹⁶²(या परमेसरे दा पुत्तर) ते पबित्तर आत् मा उनेंगी दिता जंदा ऐ। दूजे शबदां च, रब्बोनी पाने आले चले रब्बी कोला उपर नेई न कीजे...^{यीशुऐमसीह}, ते कि^{यीशु मसीहऐप्रभु}(क्योरिओस)¹⁵⁴.

→नौकरें गी,¹⁴⁰¹जो नाम दा इज्जत करदे ने^{ईश्वरतां}जे उंदे सिद्धांत दी निंदा नेई कीती जा, हेठ गै न^{प्रभु}(निरपेक्षता दा) (देखो^{प्रकासित 3:14} ऐ). मतलब, नौकरें दे हेठ^{प्रभु}(निरपेक्षता दा) उपपर नेई होंदे^{प्रभु}(क्योरिओस)की जे^{प्रभु}(निरपेक्षता दा) ऐ^{प्रभु गी}(यहवा) जो तेरा हो गया^{ईश्वर}.

- पाने दा केह मतलब ऐ?

मत्ती 10:40 ऐइस चाल्ली दुबारा व्याख्या कीती जंदा ऐ: 1।

→“जेका तुहानू (चले) ग्रहण करदा है, ओह मेरा (रब्बी) ग्रहण करदा है⁴⁴⁶¹ ऐ, ऐमत्ती 10:24 ऐ), ते ओह कि मिगी ग्रहण करदा ऐ (रब्बोनी⁴⁴⁶² ऐ, ऐमत्ती 10:24 ऐ) मिगी भेजने आले गी ग्रहण करदा ऐ (सुर्ग च पिता, मत्ती 10:32 ऐ)।”

→की व्याख्या करना^{मत्ती 10:40} ऐ

→जेड़ा चेलें गी ग्रहण करदा ऐ, ओह ग्रहण करदा ऐ^{मनुख दा पुत्तर}, ते जेड़ा ग्रहण करदा ऐ^{परमात्मा दा पुत्तर}, सुर्ग च पिता गी ग्रहण करदा ऐ, जिने अपने पुत्तर गी तुंदे दिलें च भेजेआ, तां जे तुस अब्बा, पिता परमात्मा दे पुत्तरें दे रूप च पुकारदे ओ (गलाती 4:6).

¹⁵⁴“[चित्र 3-च],” जां वीडियो 17. “3. पैहे-फूल”www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-पहले-फल-प्रभु-देव-दे-घर-.

Jesus - Not ascended to His Father yet - 40 days on earth to preach the things pertaining to the kingdom of God

Woman (Wife)

① Jesus calls Mary Magdalene → "Woman"
 Woman^{G1135}
 Made of a rib taken from man (husband)^{H376} (Gen.2:23)
 → Woman is current man's wife
 → The woman is joined to her man's (husband's) bones & flesh and they two become the life of the soul (Gen.2:23)

② Woman^{G1135} (calls Jesus, Rabboni)^{G4462} (=Master)^{G1320} (Jhn. 20:16)
 Rabboni^{G4462}
 The one who can make you to receive your sight^{G398} (to see him) and be baptized with the Holy Ghost by your faith (Mar. 16:51; Act. 9:17; Luk. 16:42)

At this stage, the spirit of Mary Magdalene is married to risen Jesus (or Rabboni)^{G4462} who is referred as "The Son of God & The King of Israel" (Jhn. 1:49)

Jesus tells her, "Touch me not for I am not yet ascended to my Father" (Jhn. 20:17)

I depart

I will send the Comforter unto you (Jhn. 16:7)

The Comforter^{G3975}
 • The Comforter (= The Holy Spirit)
 • The Father will send in my name
 • Shall teach you all things
 • Bring all things to your remembrance (Jhn. 14:26)

(Jhn. 15:26)
 • I will send you the Comforter from the Father
 • The Spirit of truth^{G225} (proceedeth from the Father)
 • Shall testify (bear witness) of me

If not

The Comforter will not come unto you (Jhn. 16:7)

But go to my brethren, (disciples)^{G3101}, and say unto them, (Jhn. 20:17)

Jesus has not yet Ascended to His Father



"I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God" (Jhn. 20:17)

Mary Magdalene told the disciples that she had seen the Lord^{G3922} (Jhn. 20:18)

The Son of God = Jesus^{G1135} (Jhn. 4:15; Jhn. 1:38)
 After the two disciples heard John, they called Jesus = Rabbi^{G3445}, & followed him.
 → Rabbi^{G3445} = Master^{G220} (Jhn. 1:38) (master before His crucifixion)

The Son of God & The King of Israel (Jhn. 1:49)

*Master^{G2519} = The Christ (Mat. 23:8) = The Messias (Jhn. 1:41) Brethren (whose Father is in heaven, Mat. 23:9) who saw Master's abode, and abode with Him that day, finds the Messias, the Christ (Jhn. 1:39-41). Andrew, (Simon Peter's brother) saw his abode (Jhn. 1:39-40), and he first findeth his own brother Simon, and saith unto him (Jhn. 1:41).
 → We have found the Messias, The Christ (Jhn. 1:41)

The Son of God = The Christ (Mat. 16:16)
 Mat. 16:15 He (Jesus) saith unto them, But whom say ye that I am?
 Mat. 16:16 And Simon Peter answered and said,
 → Thou art the Christ, the Son of the living God
 Mat. 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father, which is in heaven.

The Son of God = Jesus is the Christ (Jhn. 20:31)
 But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing, ye might have life through his name.

The Son of God = Jesus Christ (Act. 8:37)
 When Mary first saw risen Jesus, Mary Magdalene called Jesus (Jhn. 20:16)
 → Rabboni^{G4462} = Master^{G220} (master after crucifixion, to give the Holy Spirit)
 After believing His ascension
 - To His Father and His God (her Father and her God)
 - She sees^{G398} Jesus is Christ → refers Jesus Christ = The Lord

The first of the firstfruits of thy ground thou shalt bring into the house of the LORD thy God
 Thou shalt not see a kid in his mother's milk. (Exo. 23:19)

"Now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept."
 (1Co. 15:20)

(God of the living keeps His covenant from Abraham (Gen. 17:4-5; Mat. 23:32), and His promise made with David (Act. 13:23))

"Of David's seed hath God according to his promise raised unto Israel a Saviour, Jesus."
 (Act. 13:23)

Phi. 2:8 And being found in fashion as a man,^{G444} he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.
 Phi. 2:9 Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:
 Phi. 2:10 That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth:
 Phi. 2:11 And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

प्रकासित 3:16 ऐइस आस् ते की के तू गुनगुना ऐ ते ना ठंड ऐ ते ना गै गर्म ऐ, इस आस् ते मैं तुगी अपने मुंह थवां उगलना ऐ।
प्रकासित 3:17 ऐक्योंकि तू आखदा ऐ, “मैं अमीर हां, ते माल-मवेशी च बधी गोदा हां।”^{¶4147} ते कुसे बी चीज दी लोड़ नेई ऐ; ते नेई जानदे के तू दरिद्र, ते दयनीय, ते गरीब ते अन्धा ओ।^{¶5185} ते नंगे:जी1131 ऐ
प्रकासित 3:18 ऐमैं तुगी सलाह दिनां कः अग च अजमाए दा सोना मेरे कोला खरीदी लै, तां जे तू अमीर बनो;^{¶4147} ते सफेद कपड़े (वस्त्र),^{¶2440} तां जे तू कपड़े पाओ।
ते तेरी नंगेपन दी शर्म नेई प्रगट;
ते अपनी अकखीं उप्पर अकखीं गी मलियें कन्ने अभिषेक करो, तां जे तू दिखो।

- ☞ **प्रकासित 3:16** ऐतो फिर, क्योंकि तुसीं हो **गुनगुना**, ते ना ठंड ते ना गर्म, मैं तुगी अपने मुंह च उल्टी करां।
- ☞ **प्रकासित 3:17** ऐक्योंकि तू भुभ कशते शो, भैं शो **अमीर**, ते **कन्ने गै बधी गोदे नसमान**, ऐ^{¶4147} ते कुसे बी चीज दी लोड़ नेई ऐ, ते नेई जानना के तुस दरिद्र, दयनीय, गरीब ओ, **अन्ना**, ते नंगे।
- ☞ **प्रकासित 3:18** ऐमैं तुसीं गी सलाह दिनां के तुस मेरे कोला खरीदो **सुन्ना आग में परिष्कृत**, तां जे तुस हो **अमीर**; **तेसफेद कपड़े**, तां जे तुस कपड़े पाई लैओ, तां जे तुंवी शर्म **दीनंगीपन** हो सकदा ऐ जे नेई होऐ **फाश**; ते **अपनी अकखीं उप्पर अकखीं दा मुलायम लगाओ**, तां जे तुस करी सकदे ओ **दिकखो**।

• **एलउकेवार्म**

- जो ठंडे ते गरम हन ओह 'विनम्र' हन जिन्हां नूं अपने नेक कम्मां दे जरिए इनाम मिलदा है, इस चाल्ती ठंडे ते गर्म गी अच्छी चीजें कन्ने जोड़ेआ जंदा ऐ। दूई बकखी गुनगुने विश्वासी इस च अमीर न उंदे दिलें गी उंदे विचारें उप्पर पूरा गर्व कन्ने।

• **जीऊदचीज**¹⁵⁶

➤ **खुशखबरी (प्रचार करो)**^{¶2097}

→ खुशखबरी (“euangelizō”) दा^{¶2097} मतलब “अच्छी” चीजें दा प्रचार करना, जिसदा अनुवाद इस चाल्ती बी कीता गोदा ऐ पौलुस दे पत्रें च “प्रचार करना”। **चमती 19:17** ऐ, यीशु सिखांदा ऐ के सिर्फ **“ईश्वर” ऐ चंगा**; इस करिए, करने दा दे बारे च प्रचार करो **“चंगा”** दा मतलब ऐ **“ईश्वर”**।

➤ **सुसमाचार दी**^{¶2098} ने की

→ सुसमाचार दी व्युत्पत्ति (“euangelion”)^{¶2098} ने की प्रचार करदा ऐ (“euangelizō”)^{¶2097} ते पौलुस ने साढ़े उप् पर प्रचार किता **सुसमाचार गी**^{¶2098} ने की परमातमा दा, जेड़ी मनुख दे बाद नेई, लेकन यीशु मसीह दे प्रगट होने कन्ने सिखाई गई ही।

➤ **सुसमाचार दा प्रचार करो**^{¶2098} ने की

→ पौलुस ने ए जानदे होई सुसमाचार दा प्रचार किता के जेके अपनी मर्जी कन् ने एह करदे हन, उंदे आस् ते इक इनाम ऐ, ते...
सुसमाचार प्रचार करने दा इनाम मसीह दे सुसमाचार गी बिना कुसै शुल्क दे बनाना ऐ, तां जे अधिकार सुसमाचार दा दुरुपयोग नेई कीता जंदा।

- सुसमाचार दे प्रचार दे जरिए होर मते लोकें गी हासल करने आस्तै असंगी सारें दे सेवक बनना चाहिदा, जिंदे च...

यहूदी, व्यवस्था दे अधीन, व्यवस्था दे बगैर (तुस मसीह दे व्यवस्था दे अधीन ओ), ते...

सुसमाचार दे लेई कमजोर, तां जे उंदे कन्ने हिस्सा बनी सकना असी अपनी दौड़ चलानी चाइदी

ए जानदे होऐ के इनाम सिर्फ इक धावक गी गै मिलग, ते दौड़ जीतने दी कोशश करने आलें गी व्यायाम करना पौग

अविनाशी मुकुट हासल करने आस्तै सारें चीजें च आत्मसंयम।^{¶4735}

- अन्नने लथीय को वश भें यखना चादहमे औय उवके वश भें यखना चादहमे, क्मा नशीी, दसू ये को प्रबाव कयकय शभ नशीी फन जामे अपने आप गी castaways।

• **अमीर- ऐमाल दे नाल बधी**^{¶4147}

¹⁵⁶वीडियो 24. “तुस पवित्र यरूशलेम ओ) यरूशलेम दे सिथ्योन पहाड़ थमां साढ़े कोल लेई आए गेदे ओ (1/3)।”

www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-देव-दे-घर-तुस-पवित्र-यरूशलेम/

- बड़्डी-बड़्डी सम्पत्ति आह्ने नौजवान दा मतलब ऐ जे उसी कानून दा बड़ा ज्ञान हा। हालांकि, यीशु सिखांदा ऐ के इक अमीर मनुख (कानून दे ज्ञान दा) शायद ही सुर्ग दे राज्य च दाखल होई सकदा ऐ (किसे... चिठी मारदा ऐ, लेकन आत्मा जिंदा करदी ऐ; [२कुरिन्थियों ३:६](#)). इस करिए इक अमीर माहू आस्तै एह अनिवार्य रूप कन्ने असंभव ऐ जिसदे कन्ने... बड़्डी-बड़्डी संपत्ति पर कमी [परमात्मा दे लोगो](#) अनन्त राज च दाखल होने आस्तै मता फल पैदा करने आस्तै।¹⁵⁷

¹⁵⁷“[चित्र 3-जी],” या वीडियो 36. “दृष्टांतों स्वर्ग दा राज्य & परमात्मा दा राज्य”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-द-दृष्टान्त-स्वर्ग-दा-राज्य-देव-दे-राज्य/.

• **अनसोचने वाला धन-दौलत आहलामसीह**

- ऐमनुख दे पुत्र इझाएल दे पुत्रों जां यहूदियें दा मतलब ऐ जिनेंगी शरीर च हल्यें कन् ने खतना कित्ता गेदा ह्य।¹⁵⁹

परमसरे दी कृपा कन् ने पौलुस गी अनजान लोकें दा प्रचार करने आस् ते सेवक नियुक्त कित्ता गया **धन-दौलत आहलामसीह** गैर-यहूदी जाति ऐ गी जेड़े ना इझाएल दे पुत्र हे ते ना गै शरीर च खतना कित्ते गेदे हे।¹⁶⁰

कलुस 2:1 ऐकीहके में चाहन्नां के तुस जानदे हो के में तुंदे ते लौदीकिया च उंदे आस्ते केहड़ा बड़डा टकराव करा दा ऐ।

ते जिन्ना मेरे शरीर च मुंह नेई दिखेया; तां जे उंदे दिलें गी दिलासा मिले।

प्रेम च ते सारें कन्ने गूंधने **धन-दौलत समझ दा पूरा आश्वासन दा**, ऐ

परमात्मा दे ते पिता ते मसीह दे रहस्य गी स्वीकार करने आस्ते; (**कलुस 2:2 ऐ**)

चकुसी (मसीह) सारे खजाने छुपाई जांदे न^{#2344} बुद्धि ते ज्ञान दा. (**कलुस 2:3 ऐ**)

मसीह पवित्र ऐ, **एसओ** मिट्टी दे बर्तन (यानी धरती दे) च सादे कोल स्वर्गीय खजाने किस चाल्ली हो सकदे न (**२कुरिन्थियों ४:७**)?

→ एह इस करिए संभव ऐ की जे **मसीह यीशु** दुनिया में आ गया पापियों को बचाने के लिये (**1ति 1:15 ऐ**). उदे च अस जींदे आं, ते चलदे, ते साडा अस्तित्व (**प्रेरितों दे काम 17:28**). अस इय यां गै जानने आं के अस उदे च रौंदे आं, ते ओह सादे चा क्योंकि ओस ने सानु अपनी आत्मा दे द्वारा दिता ऐ (**१जोह ४:१३**). कीजे सादे कोल मिट्टी दे बर्तन च एह खजाना ऐ, जदुं तकर अस मसीह च नेई रोहगे, तां तकर सादे आस् ते सुअर्गीय खजाना होना असंभव ऐ, जेका इस गल् ला दा पता लांदा ऐ शक्ति दी श्रेष्ठता परमात्मा दी ऐ, ना के सादे कोला (**२कुरिन्थियों ४:७**).¹⁶¹

• **बीलिंड**

दिखना चांदे हो तो **यीशु नासरत दा**, यूसुफ दे पुत्र, पुराने नियम च उदे बारे च पढ़े ते उसी उल्यें पाओ जिय यां के मूसा ने व्यवस्था ते नबियें च लिखे दा ऐ।

जह 1:45 ऐफिलपस ने नतनेल गी पाई लेया, ते उदे कन्ने आख्या, “अस उसी पाया ऐ, जिसदे बारे चा”

व्यवस्था च मूसा, ते नबी ने लिखेया। **नासरत दा यीशु**, यूसुफ दा पुत्र।

- दिखना चांदे हो तां **यीशु मसीह नासरत दा**¹⁶²

1. **आखो ओह यीशु ऐ परमात्मा दा पुत्र**, ऐते इझाएल दा राजा (**झं१:४९ दा**), ते पवित्र **दाईश्वर** (**मार्च 1:24 ऐ; मरकुस 1:9 ऐ**).
2. **मन्नो ओह मसीह** दा ऊद दे वंशज च ते बेतलेहेम दे कस्बे च, जित् थे दाऊद हा, उल्यें गै निकलदा ऐ (**झं७:४२ ऐ**).
3. **पुकार देबड़े** गै आख्या, “हे दाऊद दे पुत्र, तू मसीह ओ जेड़ा दाऊद दे वंश च आया ऐ, मेरे उप्पर दया कर (**मार्च 10:48 ती**).
4. जदुं यीशु तुसेंगी ग् लांदा ऐ के तुस भले आराम देओ, तां उटो; (क्योंकि) उसने फोन कीता^{#5455} तू (**मार्च 10:49 ऐ**).
5. **चमती 10:41 ऐ**, यीशु तुसेंगी ग् लांदा ऐ, “तू के चाहना ऐ के अऊं तुंदे कन् ने करां?
→ फिर तुसी आखदे हो, **रब्बोनी**, ऐ **जी 4462 ऐ** तां जे में तुसेंगी दिखने आस्ते अपनी नजर पाई सकां (**मार्च 10:51 ती**).
6. अंधा बरतिमायस ने यीशु गी पुकारने ते उसी सहने दे द्वारा अपने विश्वास दे जरिए अपनी दृष्टि हासल कीती (**रब्बोनी जी 4462 ऐ**), जो बुलाने दुनिया च आया हा-तुस न्हेंरे च निकली जाओ ते उनें लोकें उप्पर दया करो जेके विश्वास कन्ने उंदा नां पुकारदे न।

¹⁵⁹ यहूदियें ते गैर-यहूदियें दःी परिभाषाएं आस् ते, वीडियो 16, “गैर-यहूदी, सारे जाति (प्रेरित पौलुस) 1/10 दिक्खो।

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

¹⁶⁰ वीडियो 16. “गैर-यहूदी, सारे राष्ट्र (रहस्य & गैर-यहूदी राष्ट्र) 9/10”।

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

¹⁶¹ वीडियो 19. “पृथ्वी & जमीन” www.therhemaofthelord.com/course1/पृथ्वी-जमीन/.

¹⁶² वीडियो 15. “नासरत दा यीशु & नासरत दा यीशु मसीह” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/15/ ऐ.

7. कदूयीशुआखदा ऐ, “जाओ, तेरे विश्वास ने तुसेंगी ठीक करी ओड़ेया ऐ, ते जानना ऐ के तुसेंगी तुरत नजर आई गई ऐ”टीमुर्गी यीशु दा पालन करो (मार्च 10:52 ऐ). ओह दुनिया च पुकारने आसै आया हा³¹²⁵⁶⁴ तुस न्हरे चों उदे अद्भुत रोशनी च जाओ, ते उनें लोकें उप्पर दया करो जेड़े विश्वास कन्ने उंदा नां पुकारदे न (१पतरस २:९).

• **अपनी अकखीं गी आंखें दे मलबे कन्ने अभिषेक करो**

इं९:६ ऐजदुं ओह (यीशु) इय यां गै ग् लाया हा (“मैं उजाला ऐ”³⁵⁴⁵⁷ दुनिया दा”इं९:५ ऐ), ऐ

उसने जमीन उप्पर थूक दित्ता,³⁵⁴⁷⁶ थें थूक दी मिट्टी बनाई,
ते उस अन्ने दी अकखीं उप्पर मिट्टी दा अभिषेक कित्ता।

इं९:७ ऐते उसी आखया, “जाओ, सिलोआम दे कुंड च धोओ⁶⁴⁹ **भेजेआ गोदा**”

इस आस् ते ओह अपने रस् ते चली गया, ते धो के आयादेख के.

• **एसडूई**

- जिवें धरती दी धुंध ते सारे धरती दे मुह नू पानी दित्ता (सृष्टि दे शुरू विच,उत्पत्ति २:६), इक धुंध जेहड़ी सुर्ग थमां उतरी ही, दा इक रूप ऐयीशु मसीह(२करिन्थियों ४:६) जो जभीन नय आमा। फिरी उने थूक दी मिट्टी बनाई ते अंधें दी अकखीं उप्पर मिट्टी दा अभिषेक कीता तां जे ओह देई सकनपरमातमा दा उजाला. जदुं अन् ने यीशु दी आज्ञा मनदे हे ते सिलोआम दे कुंड (मतलब, भेज् जेया) च जाइए धोई गे, तां अन् ने आएदेख के.

• **सुन्नामें कोशिश कीतीओह अग**

- जिन्हां ने अग विच सोना अजमाया है, ओह आध्यात्मिक रूप नाल अमीर हन; उनेंगी सफेद कपड़े (जेहड़ा अंदर ऐमसीह)¹⁶³ ते कोई नंगापन नेई दिखो। तुंदे विश्वास दी परीक्षा अग कन्ने परखया जाग तां जे तुस संत लोकें च उंदी विरासत दी महिमा कन्ने समुद्ध ओगे, जदुं तुंदी समझ दी अकखीं च रोशन होग, जिस च तुस यीशु दे प्रकट होने पर स्तुति ते आदर ते महिमा च पाई सकदे ओ मसीह ते अपने विश्वास दे अंत च अपनी आत्मा दा उद्धार पाओ। ए तुंदे आस् ते उन गै सेवा करदे न, जिनेंगी सुअर्गे थवां उतरे दे पबित्तर आत्मा कन् ने तुसेंगी सुसमाचार दा प्रचार कित्ता ऐ। इस करिए, जोरदार तरीके कन्नेहिरख इक दुए गी शुद्ध दिल कन्नेजेड़ा धर्मी दे फल ते आत्मा दे फल कन्ने भरोचे दा ऐ।¹⁶⁴

• **ना होनगे**

इस चाल्ली, सोना खरीदो, जेका अग च परीक्षण कीता गोदा ऐ, ते अमीर बनो ते सफेद कपड़े पाईए, तां जे तुस नेई होओनगे.¹⁶⁵

- तुसीं समुद्ध हो जांदे होयीशु मसीहहर गल्ल च, सारे बोलने च ते सारे ज्ञान च, जिंदी गवाही ऐमसीहतुहाडे विच पुष्टि कीती। इस आस् ते तुसेंगी प्रभु यीशु उप् पर विश्वास करना ते पबित्तर संतियें कन् ने प्रेम करना चाईदा, एह जानदे के के तुसेंगी अपने तम्बू गी बी, साढ़े आंगर गै छड्डना पौना ऐप्रभु यीशु मसीहसानू दिखाया है। इस चाल्ली तुस साढ़े औने दा इंतजार करदे होई कुसै बी दान च पिच्छें नेई औगेप्रभु यीशु मसीह, ते साडे दिन बेदाग हो जाओप्रभु यीशु मसीह.¹⁶⁶

- पश्चाताप करो, जदू ओह तुसेंगी सजा दिंदा ऐ

प्रकासित 3:19 ऐजिन्ना मैं प्यार करदा हां, मैं डांटना ते ताड़ना।³⁸¹¹ इस् आस् ते जोश च रौओ, ते पछतावा करो।

☞ प्रकासित 3:19 ऐजिन्ना मैं प्यार करदा हां, मैं डांटना हां तेताड़ना देना.³⁸¹¹ इस् करिए जोश ते...पश्चाताप करो.

• **बीईताड़ना दे दी & पश्चाताप करो**

- यीशु ने चेलें गी ग् लाया के इसराइल दे घरेआले गुआची गोदी भेड़ें दे कश जाओ (मत्ती 10:6 ऐ), पापी गी दूढना जिन्हें जरूरत ऐपश्चाताप करनाते सुर्ग दे राज दा प्रचार करो, इस आस् ते होने थमां नेई डरो ताड़ना दे दीयीशु दे द्वारा ते पछतावा करो।

लूका 15:७ ऐमें तुन्दे कन्ने आखना ऐ के पश्चाताप करने आला इक पापी उप्पर सुर्ग च बी खुशी होगा।

नब्बे ते नौ तौं वी वद्ध सिर्फ व्यक्ति, जिन्हां कू पछतावे दी जरूरत कैनी।

¹⁶³“प्रकासित 3:5 ऐ.”

¹⁶⁴वीडियो 20. “(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवारा”

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

¹⁶⁵वीडियो 11. “(यीशु दा कपड़ा) “फसह दी पर्व” तौं पहलां।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-फसह-त्योहार-दे-पहिले-यीशु-वस्त्र/

&वीडियो 47. “7 दा तम्बू”www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-प्रभु-दे-भोज-7-तम्बू/.

¹⁶⁶वीडियो 45. “6. प्रायश्चित्त करो”www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-प्रभु-दे-भोज-6-प्रायश्चित्त/.

इब्रानियों 12:8 ऐलेकन जे तोहे बाहर होसजा देना, ऐ³⁸⁰⁹जिस च सारे हिस्सेदार न, ते फिरी बी शामिल न हे हरामी, ना कि पुत्र⁵²⁰⁷ रे”

- प्रभु दरवाजे ते खटखटांदा ऐ

प्रकाशितवाक्य 3:20 ऐदिखो, मैं दरवाजे पर खड़ोइयै खटखटाना ऐं, जेकर कोई मेरी आवाज सुनियै दरवाजे खोलदा ऐ
मैंउदे कोल आई जा, ते ओस कन्ने खाना खाग, ते ओह मेरे कन्ने

☞ प्रकाशितवाक्य 3:20 ऐदिखो, मैं दरवाजे पर खड़ोते दा खटखटांदा हां.

जेकर कोई मेरी आवाज सुनी ते दरवाजा खोलदा ऐ;

मैं अंदर आऊंगाउसी ते उंदे कन्ने खाना खाओ, ते ओह मेरे कन्ने

• टीहे दरवाजे पर खड़ोते दा इक ऐ प्रभु (क्योरिओस)²⁹⁶² ऐ

- तुभ आदमी जैवे शोना चाशते शैं जो अननी नरटने का इतजाय कयते शैंनाथब्याह तों तां जे ओह

फौरन दरवाजा खोलो, जदू ओह आवै ते खटखटांदा ऐ जो कोई सुनेप्रभु दाआवाज करदे हैं

भिड्ड, ते भेडें दा दरवाजा ऐयीशु, ते दरवाजे च दाखल होने आली भेडें गी इस करिए बचाया जाग

ओह अंदर-बाह र जाइयै जित्यें उंदे कोल होग, उर्थें चारागाह दूढनजीवन (जांमसीहतेरा जिन्दगी कौन है, कुलुस्स 3:4 ऐ) भरपूर मात्रा में¹⁶⁷

इस करिए जेकर तुस आवाज सुनी लैंदे ओप्रभुते दरवाजा खोलो, मसीहअंदर दाखल होग ते तुंदे कन्ने खाना खाग, ते तुस उंदे कन्ने, मते सारे फल पैदा करदे ओप्रभु.¹⁶⁸

- विजयी मेमने दे कन्ने उंदे सिंहासन उप्पर बैठी जांगन

प्रकाशित 3:21 ऐजेडा जीतदा ऐ, उसी मैं अपने कन्ने अपने सिंहासन उप्पर बैठना देगा, जित्यां मैं जीती लेया
ते मेरे पिता दे कन्ने उंदे सिंहासन उप्पर बैठेया।

☞ प्रकाशित 3:21 ऐजो जीत हासिल करदा ऐ उसी मैं मंजूर करगामेरे कन्ने बैठोपरमेरा सिंहासन, ऐ
जित्यां मैं बी जीत हासिल कीती ते अपने पिता दे कन्ने उंदे सिंहासन उप्पर बैठी गेआ

• टीओह प्रभु “होया” कूस उप्पर चढ़ाया गेदा हा, पर ओह जिंदा ऐ, ते...प्रभु यीशु मसीह गी, जिसदे सामने सत्त आत्माएं नगद्दी पर बैठे, साडे वास्ते फिर आ जावेगा¹⁶⁹जित्यां ओहआरेigning मेमने दा.⁷²¹ ऐ 170

प्रकाशित 3:22 ऐजेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ

☞ प्रकाशित 3:22 ऐजेस दा कान ऐ, ओह सुनी लै कि आत्मा कलीसियाएं गी के आखदा ऐ

• प्रभु(यहवा) दा जो बन गयाथुआदाईश्वर, ऐप्रभु यीशु मसीह गी, ऐपरमातमा दा पुत्र, ऐ लौदीकिया दी कलीसिया कन्ने गल्ल करदा ऐ।

¹⁶⁷वीडियो 27. “मांस, आत्मा, ते आत्मा”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-खून-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हो/.

¹⁶⁸वीडियो 13. “शब्द (लोगोस & rhēma)”www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा-दा-वरदान/&

वीडियो 30, “कम्यून”www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ऐ.

¹⁶⁹संदर्भ देनाप्रकाशित 1:4 ऐ&प्रकाशित 4:10 ऐ-11।

¹⁷⁰संदर्भ देनाप्रकाशित 5:6 ऐ.

अध्याय 4 दा

(प्रकाशित 4:1-4 ऐ) स्वर्ग च इक दरवाजा खुल्ली गेआ: मेमना & 24 बुजुर्ग

प्रकाशित 4:1 ऐइसदे बाद मैं दिखया ते सुर्ग च इक दरवाजा खुल्ली गेदा हा।

ते पैहली आवाज़ ^{#5456}जेड़ा मैं सुनेया हा, जेड़ा तुरही दे समान हा ^{#4536}मेरे कन्ने गल्लां करदे;
जिसने आख्या, “इत्थे (इत्थे) ऊपर आओ, ऐ ^{#5602}
ते मैं तुगी ओह गल्लां दस्सना जेड़ी (क्या) ^{#3739}(पूरा) होना चाहिदा ^{#1096}परलोक चा।

- ☞ **प्रकाशित 4:1** ऐइनें गल् लें दे बा'द मैं दिक् खेया ते सुअर्गे च इक दरवाजे खुल्ले दा खड़ोते दा ऐ।
ते पैहली आवाज़ जेड़ी मैं (यूहन्ना) सुनी ही, ओह तुरही दे समान ही, जेकी मेरे कन् ने गल् ल करदी ही
“**इत्थे ऊपर आओ**, ऐ तेमैं तसें गी ओह गल्लां दस्सना जेड़ी इसदे बाद पूरी होन[ी] चाहिदी.”
- स्वर्ग दा दरवाजा खुल्ली गेआ ते दरवाजे पर खड़ोते दा ऐ **प्रभू** (क्योरिओस) ^{#2962} (प्रकाशितवाक्य 3:20 ऐ).

- स्वर्ग च सिंहासन गी दिक्खना आत्मा च

प्रकाशितवाक्य 4:2 ते फौरन अऊं (यूहन्ना) आत् मा च आई गेया।

ते दिखो, इक सिंहासन ^{#2362}स्वर्ग च सेट कीता गेदा हा, ते इक सिंहासन उप्पर बैठे दा हा।

- ☞ **प्रकाशितवाक्य 4:2** तुरंत मैं आत्मा च हा; ते दिखो, सुर्ग च इक सिंहासन बैठे दा ऐ, ते इक सिंहासन उप्पर बैठे दा हा।
- **भावना में**— प्रकाशितवाक्य 4 च, यूहन्ना ने आत्मा च चीजें गी दिक् खेया, ते उन् ने सुअर्गे च इक सिंहासन ते उदे उप् पर बैठे दे गी दिक् खेया।
 - **ओने गद्दी पर बैठे:** 1। **ईश्वर** (देखो प्रकाशित 4:11 ऐ).

- परमात्मा दे सिंहासन दा वर्णन

प्रकाशित 4:3 ऐते जेड़ा बैठे दा हा, उसी (दृष्टि) दिखना हा। ^{#3706}जैस्पर दी तरह ^{#2393}ते इक सार्डिन दा पत्थर. ^{#3037}

ते इंद्रधनुष होया ^{#2463}बाही दे चारों ओर गोल, ^{#2362}नजर (दृष्टि) च ^{#3706}पन्ना दे समान। ^{#4664}

- ☞ **प्रकाशित 4:3** ऐ ते (सिंहासन ते) बैठे दा रूप ¹⁷¹
- जैस्पर ते सार्डिन दे समान हा ^{#4555}पत्थर, ऐ
ते सिंहासन दे चारों पासे इक इंद्रधनुष हा, जेड़ा पन्ना दे समान दिखदा हा।
- **टी**ओह इक जेड़ा सिंहासन उप्पर बैठे दा हा। **ईश्वर** (देखो प्रकाशित 4:11 ऐ & प्रकाशित 5:1 ऐ).
 - परमेसरे दा उजाला इक बड़ा गै कीमती पत्थर दे समान ऐ, यास्पर दे पत्थर दे समान ऐ, स्फटिक दे समान साफ ऐ (प्रकाशित 21:11 ऐ).
 - इक इंद्रधनुष ^{#2463} में “धनुष” शब्द दा संदर्भ लैओ प्रकाशितवाक्य 6:2.

- 24 बुजुर्ग अपने 24 गद्दी पर बैठे

प्रकाशित 4:4 ऐते गद्दी दे चारों पासे गोल ^{#2362}चार बीस (24) सीटें (सिंहासन) ही ^{#2362}: ते सीटें (सिंहासन) उप्पर ^{#2362}

चार बीस (24) बुजुर्ग दिक्खे ^{#4245}बैठे दा, सफेद कपड़े (वस्त्र) च; ^{#2440}
ते उंदे सिरें उप्पर मुकुट लाए दे हे ^{#4735}सोने दा. ^{#5552}

- ☞ **प्रकाशित 4:4** ऐते सिंहासन दे चारों पासे चौबीस (24) सिंहासन हे।
ते सिंहासनं उप्पर चौबीस (24) बुजुर्ग गी बैठे दे दिक्खेआ।
कपड़े में सफेद वस्त्र; ते उंदे कोल हा **सोने दे मुकुट उंदे सिर उप्पर**.

¹⁷¹संदर्भ देना प्रकाशित 5:1 ऐ गद्दी पर कौन बैठा, ए जानने के लिये।

- 24 बुजुर्ग 24 सिंहासनें उप्पर बैठे दे हे, ते उंदे सिरें उप्पर सोने दे मुकुट लाए दे सफेद कपड़े च बैठे दे हे।

- **सीलोथड इनसफेद वख**

- ऐजेडे सफेद कपड़े पांटे हेन, ओ सुसमाचार दे मजदूर (इस्त्राएल) हेन जो कित्ते काबिल हेन जीवन दी किताब च लिखे दे उंदे नां कन्ने परमात्मा दे सामने पवित्र जमीन उप्पर खड़ोते दे ना¹⁷²

- **सोने दा मुकुट उंदे सिर उप्पर**

- महिमा दा मुकुट धर्म दे रस्ते च मिलदा ऐ ते जीतने आला ओह गै होंदा ऐ जेहड़ा अपना रखदा ऐ ताज⁴⁷³⁵ जिसदे कोल दाऊद दी चाबी ऐ, उदे वापस नेई औने तकरा जदु इस्त्राएल दे पुत्तर बखरे अपने आप गी (पृथ्वी चीजें थमां) अपने आप गी पवित्र करने आस्ते तां जे प्रभु अद्भुत कम्म करी सकै कम्म करो, ओह सारे दिन प्रभु आस्ते पवित्र होंदे न, क्योंकि उंदे पवित्र मुकुट ईश्वर पर है उंदा सिरा¹⁷³

- जो प्रलोभन सहते थे औय अग्न भें जतन ककमा, औय आत्मक रूत से अमीर फन गमे मसीह मिल जाएगा के आने पर निर्दोष प्रभु यीशु मसीह गी (दिने दे प्रभु), ते उंमंगी सोना मिलाग ताज (प्रकासित 2:9 ऐ-23 ऐ).

(प्रकासित 4:5 ऐ) 7 अग दे दीये & परमात्मा दी 7 आत्माएं

प्रकासित 4:5 ऐते सिंहासन च बिजली ते गरज ते आवाजां निकलियां।

ते सत्त दीये हे²⁹⁸⁵ आग दा सिंहासन दे सामने जलदे, जेडे परमात्मा दे सत्त आत्माएं ना।

☞ प्रकासित 4:5 ऐ और से सिंहासन दा बिजली, गरज, और आवाजें आगे बढ़ी।

सात (7) अग दे दीये हे सिंहासन दे सामने जले, जो सात (7) परमात्मा दी आत्माएं.

- **सिंहासन आहला ईश्वर (प्रकाशित वाक्य 4:2).**

(प्रकासित 4:6-7 ऐ) चार (4) जीव

प्रकासित 4:6 ऐते सिंहासन दे सामने स्फटिक दे समान कांच दा समुंदर हा।

ते सिंहासन दे बिच्च ते सिंहासन दे चारों पासे;

चार जानवर थे (जीव-जंतु)²²²⁶ अगें-पिच्छें अक्खीं कन्ने भरोची दी.

प्रकासित 4:7 ऐते पैहला जानवर (रौहना प्राणी) ऐ²²²⁶ शेर दे समान था, ऐ³⁰²³

ते दूआ जानवर (रौहना प्राणी) ऐ²²²⁶ बछड़े दे समान, ऐ³⁴⁴⁸

ते तीसरा जानवर (रौहना प्राणी) ऐ²²²⁶ आदमी दे तौर उप्पर इक चेहरा हा, ऐ⁴⁴⁴

ते चौथा जानवर (रौहना प्राणी) ऐ²²²⁶ उड़दे चील दे समान था.¹⁰⁵

☞ प्रकासित 4:6 ऐ ते सिंहासन दे सामने कांच दा समुंदर हा, जेड़ा स्फटिक दे समान हा।

ते सिंहासन दे बिच्च, ते सिंहासन दे चारों पासे,

चार (x) जीव-जंतु अगें ते पिच्छें च अक्खीं कन्ने भरोची दी.

- **4 जानवर दा (τέτρωον, जोन)²²²⁶ अनुवाद करना चाहिदा ऐ "4 जिंदा क्रिएतुरस."**

☞ प्रकासित 4:7 ऐ ते पैहला (1st) जीव: शेर दे समान,

¹⁷²संदर्भ देना प्रकासित 3:4 ऐ.

¹⁷³संदर्भ देना प्रकासित 2:10 ऐ-11।

ते दूआ (2) जीवः बछड़े दे समान,
 ते तीसरा (3) जीवः मनुख दे समान चेहे, ^{श्री444} ऐ
 ते चौथा (4वां) जीवः उड़दे चील दे समान।

• **4 जीव कौन हैं?**

- इस गल्ल गी दिक्खदे होई जे...! ^{एव136} 'ädönay' ^{एव3069} 'y^hövâ' ऐ **इक परी** आहलायहोवापैहलें **प्रभु गी** (यहोवा), ऐ ^{एव3068} **तेरेमा दा** आहलाओह ^{एव136} 'ädönay' ^{एव3069} 'y^hövâ' ऐ **यहोवा** ^{एव3068} ऐ **'एलोहिम'**, ऐ ^{एव430} "4 जीव" होने दी बड़ी संभावना ऐ **4 स्वर्गदूत** ने आहलायहोवाप्रभु दे सामने. ¹⁷⁴

(प्रकासित 4:8 ऐ) प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान (जो हा, ते ऐ, ते आने आला ऐ)

प्रकासित 4:8 ऐते चार जानवर (**जीव-जंतु**) ^{श्री2226} उंदे चा हर इक दे चारों पासे छह पंख हे;
 ते ओह अंदर अक्खीं कन्ने भरोचे दे हे;
 पवित्र, पवित्र, पवित्र, प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान, ^{श्री3841} जेड़ा हा, ते ऐ, ते आने आला ऐ।

☞ **प्रकासित 4:8** ऐते चार (4) जीव, हर इक दे छह (6) पंख हे, चारों पासे ते अंदर अक्खीं कन्ने भरोचे दे हे।
 ते दिन ते रात नेई आराम करदे न, ते ऐ आखदे ना
 "पवित्र, ऐपवित्र, ऐपवित्र, ऐप्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान, जितहातेऐतेआना है."

- ऐप्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान

➤ **प्रभु जी**

• **मसीह=कृष्ण**

प्रभुमूसा ते हारून गी आज्ञा दिती के ओह मंडली गी चट्टान दे सामने इकट्टा करन ^{एव5553} ते उंदी अक्खीं दे सामने चट्टान कन्ने गल्ल करो तां जे ओह मंडली ते उंदे जानवरों गी चट्टान थमां निकलने आह्ला पानी देई सकै। इत् थें मंडली इस्राएल दे विद्रोही पुत्तों (गणना 20:12 ऐ) ते जानवरां गी ^{एव1165} उंदे मवेशी हन (गणना 20:4 ऐ). चट्टान (sela') कन्ने गल्ल करने दे बजाय, ^{एव5553} मूसा ने उसी दो बारी मारया ते इस्राएल दे पुत्तों ते उंदे जानवरों गी मता पानी दिता गोआ (पर पानी जानवरों गी बी कीं दिता गोआ?)।

जेका पानी इस्राएल दे पुत्तों ते उंदे मवेशी गी पीने आस् ते देना हा, ओह पबित्तर करने आस् ते हा **प्रभु गी (यहोवा)** इस्राएल दे पुत्तों च, तां प्रभुमूसा ते हारून गी आज्ञा दिती के ओह एह विश्वास करन के पानी चट्टान (sela') थवां निकलगा ^{एव5553} जदुं ओह उदे कन्ने "गल् ल" करदे हे, तां जे...प्रभु गी इस्राएल दे पुत्तों दी अक्खीं च पबित्तर होई जागा पर, अपने अविश्वास कन्ने मूसा ने चट्टान (sela') गी मारया ^{एव5553} जिस छड़ी कन्ने ओह चट्टान (शुर) गी मारदा हा ^{एव6697} ह्योरेब चते पानी गी उसी गै प्रगत करी दिता जेका "लोकें" गी पीने आस् ते बनाया गेदा हा।

मरीबा दा पानी ^{एव4809} इस्राएल दे पुत्तों पीता ही, जेड़े कन्ने झगडा करदे हे **प्रभु गी** ते पवित्र कीता **प्रभु गी** उनमें. इस करिए प्रलोभन देने आह्ले लोकें गी **प्रभु गी** मस्सा दा पानी पीया, जदुं इस्राएल दे पुत्तर पबित्तर किता ऐ **प्रभु गी** उंदे अंदर मरीबा दा पानी पीया जो आध्यात्मिक चट्टान (पेट्रा) दा आध्यात्मिक पेय ऐ, ^{श्री4073} **मसीह. मसीह** मरीबा दे पानी गी धोइयै कलीसिया गी पवित्र ते साफ करदा ऐ। ¹⁷⁵

¹⁷⁴से केद की गई **प्रकासित 4:8** ऐ. प्रभु ('ädönay) दा ^{एव136} भगवान (y^hövâ) ऐ ^{एव3069} प्रभु (यहोवा) दा इक दूत ऐ ^{एव3068} प्रभु (यहोवा) दे सामने ^{एव3068} ते ऐ यहोवा (यहोवा) ^{एव3068} सेनातन परमात्मा ('ël) ऐ ^{एव410} जो स्वर्ग दा हे, ते प्रभु ('ädönay) ^{एव136} हे प्रभु ('ädön) ऐ ^{एव1113} सारी धरती दा. ^{एव776} इस करिए, प्रभु (यहोवा) ^{एव3068} परमात्मा ('ëlohîm) "'ëlohîm दा 'ëlohîm ते 'ädôn दा 'ädôn," मतलब, "राजां दा राजा, ते प्रभुओं दा प्रभु" (प्रकाशितवाक्य 19:16 ऐ).

रेमा दा प्रभु दा ('ädönay) ^{एव136} भगवान (y^hövâ) ऐ ^{एव3069} यहोवा (यहवा) ^{एव3068} भगवान ('ëlohîm) दा ^{एव430} **रसा ७:२८ ऐ और अब हे प्रभु ('ädönay)** ^{एव136} भगवान (y^hövâ), ऐ ^{एव3069} **ओह परमात्मा ('ëlohîm) हे,** ^{एव430} ते तेरे वचन (रिमा दा जिक्र करदा है) ^{एव1697} सच्चा बनो, ते तू अपने दास कन्ने ऐ भलाई दा वादा किता ऐ।

→ हुण, "राजाओं दा राजा, ते प्रभुओं दा प्रभु (या प्रभु यीशु मसीह)" तुस्सां ओ हेक परमेश्वर ते तुवाड़े रेमा सच होवे।

¹⁷⁵वीडियो 27. "(मांस, आत्मा, ते आत्मा) भजन संहिता 23।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-खून-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हो/.

→ चट्टान (सेल) दा ^{एव 5553} = 'एल' ^{एव 410} (भजन संहिता 42:9) = कृपड (पेट्रा) दा ^{जो 4073} = मसीह
भजन संहिता 42:9 में परमात्मा गी आखना ('एल') ^{एव 410} मेरी चट्टान, ^{एव 5553} तू मिगी की भुल्ली गेदा ऐ?
दुश्मन दे अत्याचार दे कारण मैं शोक क्यों जांदा हां?

- ओटी ('एल' ^{एव 410} = चट्टान (सेला) दा ^{एव 5553}) = एन टी (चट्टान (पेट्रा) दा ^{जो 4073} = मसीह (मुक्ति)) ऐ
 - शरीर दायीशु (या परमात्मा दा लोगो, जेड़ा परमात्मा दी रोटी ऐ) गी साफ-सुथरे लिनन च लपेटे दा हा कपड़ा ते चट्टान च उकेरे दे इक नमी कन्न च बिछाया गेआ ^{जो 4073} जिस आदमी गी सिखाया गेदा हा राहें यीशु ते धर्मी बनाया गया.
 - ऐयूसफ ने यीशु दी लाश गी लेई लेता हा ते उसी साफ लिनन कपड़े च लपेटी लेता हा, ते उसी अपने च सुट्टी दिता हा नई कन्न, जिस विच उसने उखाड़ दिता सी मसीह (चट्टान दा ^{जो 4073}) ते उसने इक बड्डा पत्थर लुढकाया ^{जो 3037} गी कन्न दा दरवाजा, ते रवाना हो गए।
 - दूजे शबदां च, इक धर्मी मनुख गी यीशु दे शरीर (लोगोस) गी साफ लिनन कपड़े च लपेटना चाहिदा (मतलब आतू मक मांस खाओ तां जे वख धारण कीता जा, १ कुरिन्थियों १०:३ & प्रकासित 1:13 ऐ) ते अंदर बिछाओ मसीह (आध्यात्मिक पेय पीना, १ कुरिन्थियों १०:४), तां जे यीशु मसीह हो जाता है उसका नाथ. नतीजतन, लश शोगा उभारा अविनाशी (१ कुरिन्थियों १५:५२) ते बन जांदे ने अमर (१ कुरिन्थियों १५:५३-५४), ते उंदी नीच (नीच संपत्ति) शरीर दे गौरवशाली शरीर च फैशन कीता जाग उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह (पीएचएल ३:२०-२१, ऐ रोम 8:30 ऐ), ऐ ¹⁷⁶ कु'न ऐमेमने दा. ¹⁷⁷
- 'एल' ^{एव 410} ऐ चट्टान गी ^{एव 5553} (भजन संहिता 42:9), ते चट्टान गी (पेट्रा, πέτρα ऐ) ^{जो 4073} ऐ मसीह (१ कुरिन्थियों १०:४).

भजन संहिता 89:26 ओह मेरे कोल पुकारग, "तू मेरा पिता ऐ, मेरा परमात्मा" ('एल'), ऐ ^{एव 410} ते चट्टान ^{एव 6697} मेरे मोक्ष दे।

इब्रानियों १:२८ दाइसलेई मसीह इक बारी पेश कीता गेआ हामते सारें दे पापें गी सहन करना; ते जेके उसी दिखदे न, उन्हें गी ओह दूई बारी बिना पाप दे उद्धार आस्ते प्रगट होग. ^{जो 4991} ऐ

- मसीह=प्रभु जी (kyrios) ^{जो 2962} ऐ
 - ऐ सीहrist ने दीइक बारी मते सारें दे पापें गी सहन करने आस्ते चढ़ाया गेदा हा, ¹⁷⁸ पर ओह दूई बारी दिक् खेया जाग उदे आस् ते, बिना पाप दे उध्दार आस् तो। समझो कि 'एल' ^{एव 410} ना कोई मनुख है ^{एव 376} ना ही दा पुत्तर मानु, ऐ ^{एव 120} पर स्वर्ग दा, ते ओह दूआ आदमी ऐ प्रभु (kyrios) ^{जो 2962} स्वर्ग से।
इब्रानियों १:२८ दाइसलेई मसीह इक बारी मते सारें दे पापें गी सहन करने आस्ते चढ़ाया गेदा हा; ते जेके उसी दिखदे न, उन्हें गी ओह दूई बारी बिना पाप दे उद्धार आस्ते प्रगट होग.
गणना 23:19 ऐईश्वर ('एल') ^{एव 410} मनुख नहीं है, ^{एव 376} कि ओह झूठ बोलन; ना मनुख दा पुत्तर, ^{एव 120} ओह उसी पछतावा करना चाइदा, के उने आखया ऐ, ते के ओह नेई करग ?
जां उने बोलेया ऐ, ते के ओह उसी भला नेई करगे ?
भजन संहिता 136:26 ओ परमातमा दा शुक्रिया अदा करो ('एल' ^{एव 410}) स्वर्ग दा: कीजे उदी दया सदा टिकदी ऐ।
१ कुरिन्थियों १५:४७ ऐपेहला आदमी ^{जो 444} धरती (जमीन) दा है, ^{जो 1093} मिट्टी दे: 1।
दूजा आदमी ^{जो 444} ऐ प्रभु (kyrios) ^{जो 2962} स्वर्ग से.

- ओह कृपड (शु) ^{एव 6697} = प्रभु (यहोवा) ^{एव 3068} ऐ
इसाएल दे पुत्तरें परीक्षा दिती प्रभु कहने दे द्वारा, क्या प्रभु (यहोवा) ^{एव 3068} सादे च, जां नेई ? (निष्कर्ष 17:7 ऐ). सो, प्रभु ^{एव 3068} मूसा गी आज्ञा दिती जे ओह लोकें दे कोल जाइथै चट्टान (शु) गी मारी लौ ^{एव 6697} छड़ी कने तां जे लोक उदे च निकलने आले गी पीना जिस जगह दा नां जित्ये चट्टान तों पानी ^{एव 6697} होरेब च निकलेया गी मस्सा ते मरीबा आखदे न, ते ध्यान देयो के पानी "लोकें" आस् ते हा, जिनें गी परख च पेदा हा ओहनाथ. ^{एव 3068}

¹⁷⁶वीडियो 41. "परमेसर गी स्वीकार करने आस् ते प्रभु च बधी जाओ।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-भगवान-दे-भगवान-चल-बढ़ना/.

¹⁷⁷[चित्र 10-2] दी 3 फसल & द 4 घड़ियां दिक्खो।

¹⁷⁸संदर्भ देना प्रकासित 5:6 ऐ.

- प्रभु(यहोवा) एव 3068 रे = 'एल्' एव 410 'एलोहिम' (भजन संहिता 50:1) = राजा जीइसाएल दा (यशायाह ४४:६ च) = मसीह (मार्च 15:32 रे)
→ भगवान दाइसाएल दे उपर (२सा ७:२६ ते) → लोगो दा¹⁷⁹

दे मुताबिक भजन संहिता 50:1, यहोवा (यहोवा) एव 3068 रे 'एल्' एव 410 'एलोहिम' एव 430 रे
इसे आस्ते इसाएल दे पुत्तरे गी यहोवा एव 3068 रे हा 'एल्' एव 410 'एलोहिम', ऐ एव 430 रे ते इसाएल दा राजा।

भजन संहिता 50:1 पराक्रमी ('एल्' एव 410 ईश्वर ('एलोहिम), ऐ एव 430 रे यहोवा (यहोवा), ऐ एव 3068 रे बोलेया ऐ,
ते धरती गी बुलाया एव 776 रे सूरज दे उगने धमां लेइयै उदे अस्त होने तकर।
यशायाह ४४:६ चइयां आखदा ऐ एव 559 रे प्रभु (यहोवा) एव 3068 रे राजा दा एव 4428 रे इसाएल दा, ऐ एव 3478 रे
ते उदे मुक् तिदाता एव 1350 प्रभु (यहोवा) एव 3068 रे मेजबानों दा, एव 6635 रे
मैं पैहला हा, एव 7223 रे ते मैं आखरी हा, एव 314 रे ते बगल च एव 1107 रे मेरे कोल कोई परमातमा ('एलोहिम)।

२सा ७:२६ तेते तेरा नां सदा-सदा महिमा होवे।

सेनाएं दा प्रभु परमातमा दा एव 430 रे इसाएल दे उपर: 1।
ते तेरे सेवक दाऊद दा घर तेरे सामने टिकी जा।

→ प्रभु (यहोवा), इसाएल दा राजा ऐ मसीह¹⁸⁰ जो था परमातमा दा इसाएल दे उपर, ऐ
जो था लोगो दा।¹⁸¹

➤ ईश्वर

- ईश्वर (ĕlōhîm) एव 430 रे था चट्टान (शुर) एव 6697 रे: प्रभु (यहोवा) आहला मेजबान एव 6635 रे (मुक्ति देने आला) → "मेकर" तुस गी शादी कर दे।

भजन संहिता 78:35 ते उमेंगी याद आया एव 2142 रे कि परमातमा (ĕlōhîm) एव 430 रे उंदी चट्टान (शुर) ही, एव 6697 रे
ते उच्चे एव 5945 रे ईश्वर ('एल्' एव 410) उदे मुक्तिदाता। एव 1350
जेर 50:34 ऐ उदे मुक्तिदाता एव 1350 मजबूत ऐ; प्रभु (यहोवा) एव 3068 रे आहला मेजबान एव 6635 रे है उहदा
नां: 1 एव 8034 रे ओह उदे मुकदमे दा पूरा-पूरा गुहार लाग, तां जे देश गी आराम देई सकै
(धरत), ऐ एव 776 रे ते बाबुल दे निवासियें गी परेशान करो।
यशायाह 54:5 च तेरे बनाने आले दे वास्ते एव 6213 रे तेरा पति है, एव 1166 रे प्रभु (यहोवा) एव 3068 रे आहला मेजबान एव 6635 रे
उदा नां ऐ; ते तेरा मुक् तिदाता पवित्र वर दा इसाएल दा; भगवान (ĕlōhîm) एव 430 रे आहला
सारा धरत एव 776 रे उसी बुलाया जागा।
यशायाह 43:15 च मैं प्रभु हां (यहोवा), ऐ एव 3068 रे तेरा पवित्र, इसाएल दा सृजनहार, तेरा राजा।

→ ध्यान देयो किलोगो दा हा ईश्वर शुरू च, ते ĕlōhîm एव 430 रे था चट्टान (शुर) एव 6697 रे
इसाएल दे लोके ते उच्चे लोके गी एव 5945 रे 'एल्' एव 410 उदा मुक्तिदाता हा, एव 1350 पवित्र वर दा आहला
इजराइल, ऐ (अर्थात) प्रभु गी (यहोवा) एव 3068 रे आहला मेजबान, ऐ परमातमा दा (ĕlōhîm) एव 430 रे सारी धरती दा एव 776 रे
जो तुहाडा "बनाने आला" है जो तुसीं होनगे शादी कर दे (देखो मेमने दा, ऐ 721 रे प्रकासित 5:6 ऐ)।

→ टीओह उच्चा 'एल्' एव 410 = प्रभु (यहोवा) आहला मेजबान एव 6635 रे (आर ईडीमर, पवित्र वर दा इसाएल दा)
→ प्रभु (यहोवा) = परमातमा (ĕlōhîm) एव 430 रे सारी धरती दा एव 776 रे
(प्रभु यीशु मसीह एनटी च)।

प्रेरितों दे काम ३:१८ पर उन गल्लां, जिन्हां ईश्वर पैहलें अपने सारे नबियें दे मुंह कन् ने एह दस् सेया हा।
ओह मसीह दुखी होना चाइदा, उने इन्ना पूरा कीता ऐ।
(प्रेरितों दे काम 13:35 इस आस् ते ओह इक होर भजन च बी ग् लांदा ऐ।

¹⁷⁹ "प्रकासित 1:1 ऐ-2) यीशु मसीह दा प्रगटीकरण."

¹⁸⁰ वीडियो 38. "यीशु दे सूली उपर चढ़ाया जाना।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-यीशु दे सूली च चढ़ाने दे दो चोंरें गी यीशु दे बगल च सूली च चढ़ाया गेआ/.

¹⁸¹ झं:१:१ ऐ शुरू च वचन हा (लोगो दा), ऐ 3056 रे ते वचन (लोगो दा) दे नाल था ईश्वर, ते वचन (लोगो दा) हा ईश्वर।

तू अपने ना देना **पवित्र जीभ्रष्टाचार** देखना)

प्रेरितों दे काम ३:१९ इस आस् ते पछतावा करो ते अपने पाप मिटाए जाओ।

जदू ताजा होने दे समें दी मौजूदगी थमां और **प्रभु (kyrios)**, ^{जै2962 रे}

प्रेरितों दे काम ३:२० ते ओह भेजू जेया **यीशु मसीह**, जेड़ा पैहलें तुं दे उप् पर प्रचार किता गोदा हा।

प्रेरितों दे काम ३:२१ जिसे स्वर्ग प्राप्त करना होगा **जदू तगर क्षतिपूर्ति दे समें सारे चीजां दा**, ऐ

जित **ईश्वर** दुनिया दे शुरू होने दे बाद थमां गै अपने सारे पवित्र भविष्यवक्ताएं दे मुंह च बोलदा ऐ।

प्रेरितों दे काम ३:२२ की वे मूसा ने सच् चाई च बखियें गी ग् लाया हा;

डूक नबी करग प्रभु (kyrios) ^{जै2962 रे} थुआदा **ईश्वर** ^{जै2316 रे} ऊपर उठाओ

मेरे जेहड़े अपने भ्राएं दे बीचा;

जे किश ओह तुं दे कन् ने ग् लांदा ऐ, उसी तुस सारे गल् लें च सुनी लैगे।

- की **यीशु मसीह** ऐ **नाथसादाईश्वर** सारे चीजें दे बहाली दे समें तकर ?

(जं१:१ ऐपुनव्याख्या कीती गई)

→ शुरू में था **ओह लोगो दा**, ऐ ^{जै3056 रे} **ते लोगो दा** साथ था **ईश्वर**, ते **ओह लोगो दा** **हाईश्वर** (जं१:१ ऐ).

→ शुरू में था **लोगो दा** (प्रभु, यहोवा), ते **यहोवा** परमात्मा दे नाल सी, ते **यहोवा**

भगवान था (जं१:१ ऐ).

→ शुरू में था **मसीह**, ते **मसीह** परमात्मा दे नाल सी, ते **मसीह** भगवान था (**इफिसियों 3:2**) दे पूरे दा धरत (**यशायाह 54:5** च).

- **ईश्वर** भविष्यवाणी कीती ही **मसीह** दा उदे नबियें दे मुंह कन्ने दुखें गी पीता, ते ए पूरा होई गेआ। इस आस् ते तुसंगी अपने पापें गी मिटाने आस् ते पछतावा करना चाईदा, तांजे ताजा होने दा समां आई जा (प्रेरितों दे काम ३:१९) दे चेहरे तों **प्रभु (kyrios)**, ते **यीशु मसीह**, जेका पैहलें तुं दे उप् पर प्रचार किता गोदा हा, उसी तुं दे कश भेजू जेया जागा। सुर्ग गी उसी सारें चीजें दी बहाली दे समें तकर ग्रहण करना चाहिदा ऐ, जेहड़ा... **ईश्वर** दुनिया दे शुरू होने दे बाद थमां गै अपने सारे पवित्र भविष्यवक्ताएं दे मुंह कन्ने गल्ल कीती ऐ। **ईश्वर** दे पैरें हेठ सारी चीजां पाई दिती ऐ **मसीह** (**१ करिन्थियों १५:२७**) ते माध्यम कन्ने **मसीह** दा कतिया, ऐ **यीशु मसीह** सादे कोल भेजे दा ऐ, ते एह गल्ल आखी गई ही **रब** दा पवित्र नबी जदू थमां दुनिया शुरू होई ही।

→ दूजे शबदां विच, “**मसीह**” दे नां नाल दुनिया दी शुरूआत तों ही मौजूद है **‘एल’** ^{एव 410 रे} ते **यहोवा**. ^{एव 3068 रे} **प्रभु (यहोवा)** ^{एव 3068 रे} आहला **मेजबान**, ऐजो दा मुक्तिदाता सी **इसाएल दा पवित्र** ते **ēlōhīm** सारी धरती दा पुराने नियम च या प्रभु (**यहोवा**) ^{एव 3068 रे} के रूप में आया **यीशु मसीह** नबी ने दीनमें नियम च ते अपने लोकें **इसाएल** दे दौरे ते छुड़ाया जिय्यां **प्रभु (क्योरिओस)** ^{जै2962 रे} **ईश्वर** ^{जै2316 रे} **इसाएल** दानमें नियम चा।

एहनाथ, **इसाएल** दा राजा, **सेनाएं दा प्रभु**, अनन्त लोकें गी नियुक्त किता ते आने आली ते ओने आली चीजें गी दस्सी देगा।¹⁸² सबभमें चीजें दी बहाली दे समें तकर सुर्ग गी इस नबी गी ग्रहण करना पौना ऐ **यीशु मसीह** जियां **प्रभु** ^{जै2962 रे} **ईश्वर** ^{जै2316 रे}

उत्पत्ति 14:18 ऐ ते **मल्कीसेदेक** ने दीके राजा **सलेम** ^{एव 8004 रे} रोटी पैदा कर दी ^{एव 3899 रे} ते शराब: ^{एव 3196 रे}

ते ओह याजक हा ^{एव 3548 रे} सब तों उच्चे दा ^{एव 5945 रे} **ईश्वर** (**‘एल’**). ^{एव 410}

उत्पत्ति 14:19 ऐ ते उसी आशीष दिती ते आखया।

परमेसरे दे अब्राम दा धनत होवे ^{एव 5945 रे} **ईश्वर** (**‘एल’**), ऐ ^{एव 410}

कब्जा करने वाला ^{एव 7069 रे} आकाश ते धरती दा:

उत्पत्ति 14:20 ऐ ते परमात्मा दा धन्न होवे (**‘एल’**) ^{एव 410}

जिसने तेरे दुश्मनें गी तेरे हत्थ च सौंपी दिता ऐ।

ते उसी दसवां हिस्सा (दसवां) दिता ^{एव 4643 रे} सब दा।

उत्पत्ति 14:21 ऐ सदोम दे राजा ने अब्राम गी आखया, “मेरे गी बखरी दे।

ते माल अपने कोल लेई जाओ।

उत्पत्ति 14:22 ऐ अब्राम ने सदोम दे राजा गी आखया।

मैं अपना हत्थ उपपर चुक्की लेआ ऐ **प्रभु गी (यहोवा)**, सब तों उच्चा ^{एव 5945 रे} **ईश्वर** (**‘एल’**), ऐ ^{एव 410}

आकाश ते धरती दा मालिक, ^{एव 776 रे}

¹⁸²वीडियो 48. “8 दा हनुक्का” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-दे-भोज-8-हनुक्का/.

- ऐकु'न ऐमल्कीसेदेक ने दी

- मल्कीसेदेक: उच्चे दा याजक 'एल' (आकाश ते धरती दा मालिक)

- शुरू होने से उत्पत्ति २:४, "कोई (प्रभु परमात्मा)" बनाने च बी शामिल ऐ⁶²¹³ चीजां किस उपपर ईश्वर बनाया।¹⁸³ इक्क according to यशायाह 54:5 च, तुसीं होशदी कर देतेरा बनाने आला⁶²¹³ ते उदा नां ऐ प्रभु गी (यहोवा) आहला मेजवान.¹⁸⁴

(१) शुरू विच परमात्मा ने "सृष्टि किता¹²⁵⁴ ऐ" आकाश ते धरती (उत्पत्ति 1:1), इसलेई ईश्वर (ĕlōhîm) ऐ "सृष्टिकर्ता" दा।

(२) शुरू विच प्रभु (यहोवा)³⁰⁶⁸ ईश्वर (ĕlōhîm)⁴³⁰ बनाए दा⁶²¹³ धरती ते ओह आसमानें (उत्पत्ति 2:4), इसलेई यहोह ĕlōhîm प्रभु ऐ (यहोवा)³⁰⁶⁸ आहला मेजवान⁶⁶³⁵ (उत्पत्ति २:१) कु'न ऐ "निर्माता दा".

(3) बाद च ईश्वर बनाया ते बनाया आकाश ते धरती, उसने धरती गी हुक्म दित्त⁷⁷⁶ सामने लाना घा, ते पानी रेंगेने आली चीजें गी पैदा करने आस्ते, ते धरती ने जिंदा पैदा कीता ओह आत्मा.¹⁸⁵

→ अब्राहम दे 2 पुत्रें आस्ते ते 2 वादे (2 वादे) हन, जिंदा चा इक दा जन्म हा पार्थिव में यरुशलेम बाद च दास (इस्माइल) दा मांस ते दूआ वादे दे जरिए (इसहाक ने दी) स्वर्गीय यरुशलेम च इक मुक्त जनानी दा।

- मल्कीसेदेक, राजा दासलेम⁸⁰⁰⁴ (जिसदा हवाला देंदा है यीशु मसीह)
- की जे यीशु यहूदियों दा राजा ऐ (जहन्ना 19:19 ऐ) ते मसीह इस्त्राएल दा राजा ऐ, ऐ मल्कीसेदेक दा "उच्चा 'एल'" मिलदा ऐ यीशु मसीह नमें नियम च (मार्च 15:32 ऐ).¹⁸⁶

- मल्कीसेदेक ने दीरोटी ते शराब पैदा कीती (जिसदा संदर्भ ऐ यीशु मसीह) ब्रेड ते वाइन (यीशु मसीह): दे शरीर दा यीशु (जामनुख दा पुत्र, कु'न ऐरोटी गी आहला ईश्वर), साफ लिनन कपड़े च लपेटे दा हा ते यूसुफ दी चट्टान च उकेरी दी नमी कन्न च बिछाया गेदा हा जेहड़ा सिखाया हा यीशु ते धर्मी बनाया गया। दूजे शब्दां एच, हेक मनुख जो धर्मी बणाया गेदा हा, ने लोगो (प्रभु यीशु दे शरीर) कूं साफ-सुधरे तरीके नाल लपेटेया हा लिनन कपड़े ते बिछाया मसीह (आध्यात्मिक मांस ते पेय दे वास्ते, रेमा, १ कुरिन्थियों १०:४), तां जे एह्दीशु मसीह, जेका उदे कश भजेया गेदा हा, उसी जिंदा करी देग मसीह (इफिसियों 2:5 ऐ) ते उसी सर्गीय थाहें उपपर सारे आध्यात्मिक आशीर्वाद कन्ने जिंदा करो मसीह यीशु (इफिसियों 1:3 ऐ, इफिसियों 2:6 ऐ), ते ओस दा बण जाओ नाथ (फिलिपिन्स 3:8 ऐ), ते अपने नीच शरीर गी बदलदे न गौरवशाली तन आहला उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह (पीएचएल ३:२०-२१, ऐरोम 8:30 ऐ), ऐ¹⁸⁷ कु'न ऐ मेमने दा, ऐ मसीह गी, दी छवि ईश्वर.¹⁸⁸

- जानकर कि मांस दा मनुख दा पुत्र है लोगो (इं १४:२५ दा) या रोटी, ते खून दा मसीह ऐ शराब दा, ऐ¹⁸⁹ पत्थर उस कन्न तों दूर लुढ़क गया जित्थे लाश दा ओह प्रभु यीशु बिछाया गेदा हा, मतलब लोगोस (पानी) रेमा (शराब) च बदली गेदा हा, जिसलै पत्थर कन्न थमां दूर लुढ़कदा हा, ते विश्वास करने आह्ने ओ एन परमात्मा दा पुत्र अपने आप च गवाह होन (यहस 24:22 ऐ).¹⁹⁰

→ इस चाल्ली रोटी ते शराब दा जिक्र ऐ यीशु मसीह

¹⁸³वीडियो 1. "सृष्टि दे कदमा" www.therhemaofthelord.com/कोर्स1/पाठ1/ऐ.

¹⁸⁴मेमने दा संदर्भ लैओ⁷²¹ च प्रकासित 5:6 ऐ.

¹⁸⁵वीडियो 1. "सृष्टि दे कदमा" www.therhemaofthelord.com/कोर्स1/पाठ1/ऐ.

¹⁸⁶वीडियो 38. "यीशु दे सूली उपपर चढ़ाया जाना"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-यीशु दे सूली च चढ़ाने दे दो चोंरें गी यीशु दे बगल च सूली च चढ़ाया गेआ/.

¹⁸⁷वीडियो 39. "मेरे दे जी उठना" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-संभावित-समय-अनुक्रम-सूली पर चढ़ाने-पहले-और-अंतिम-आदम-मृतक-के-पुनरुत्थान/.

¹⁸⁸"सर्वशक्तिमान प्रभु, प्रकासित 1:8 ऐ & प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान, प्रकासित 4:8 ऐ".

¹⁸⁹वीडियो 13. "शब्द (लोगोस & rhēma)" www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा दा-वरदान/.

¹⁹⁰वीडियो 23. "रोटी, मन्ना, & छिपे दा मन्ना"

www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-द-ब्रेड-द-मन्ना-द-हिडन-मन्ना/.

“(१जोह ५:६ एह ओह गै ऐ जेहड़ा उंदे कोला आया हापानीतेलह, धोड़ीयीशुमसीह, सिर्फ पानी दे जरिए नई;
लेकन पानी ते खून दे जरिए ते आत्मा गै गवाही दिदा ऐ
कीजे आत्मा सच्चाई ऐ”।)

- **मल्कीसेदेक ने दी, उच्चे दा याजक एल (जिसदा हवाला देवा हैयीशु मसीह)**
आकाश ते धरती पैदा होने ते बने दे बाद, आत्मा दे जीवन दे फल गी सामने लाना “साडी जिम्मेदारी” बनी गेई ते **मल्कीसेदेक ने दीपजारी** थाउच्चे दाएल^{एल}
410जांपवित्र वर दा इसाएल दाजिसदे बारे च नमें नियम च जिक्र ऐयीशु मसीह. सादे कोल इक बड़डा महायाजक ऐ,यीशु परमातमा दा पुत्तर, जो स्वर्गा विच
चली गया है (इब्रानियों 4:14 ऐ, ते हो गयायीशु मसीह, ऐप्रभूसामादाईश्वर), ते “प्रभु (यहोवा)^{एल 3068} कसम खादी ऐ, ते पछतावा नई करग, “तुस याजक
ओ^{एल 3548} मल्कीसेदेक दे तरीके दे मताबक हमेशा लेई(भजन संहिता 110:4)।” प्रभु जी (क्योरिओस), ऐ^{जी2962} इक जिंदा पत्थर, चुने दाईश्वर(१पीतर
२:४). पर, “तुस बी जीवंत पत्थरें दे समान ओ, ते इक आत् मक घर, इक पवित्र याजक बनी गेदे ओ, ^{जी2406} आध्यात्मिक बलिदान अर्पित करना, स्वीकार्य करने
के लिएईश्वरहैंयीशु मसीह(१पीतर २:५).

- **उच्चा एल खरीदो^{एल 7069} आकाश ते धरती (जिसदा संदर्भ दिदा ऐयीशु मसीह)**

- **तीस चांदी दे टुकड़े दा मालिक¹⁹¹**

में कानून दे मुताबिकनिष्कर्ष 21:32 च, बैल (यहूदा) ने इक दास (यीशु) गी धकेले (धोखा) किता, इस चाल्ली बैल दा मालिक या यहूदा (मुख्य याजक,मत्ती
27:6 ऐ), तीस शेकेल चांदी गी उस दास (परमात्मा) दे मालिक गी देग ते बैल (यहूदा) गी पत्थर मारी दिता जाग।

पर, यहूदा ने अपने आप गी पछतावा करने दे बाद मासूम खून (के...यीशु), प्रधान याजक ते बुजुर्ग यहूदा दा मालिक नई रेई गेइकव्यवस्था दे मताबक उनेंगी एह
गू लाया, “सादे आस् ते केह ऐ? देख तू उस (मत्ती 27:4 ऐ). इस चाल्ली यहूदा गी कोई चारा नई हा जे ओह मंदरे च चांदी दे तीस टुकड़े सुट्टी दिता ते ओह
चली गेआ ते अपने आप गी फांसी देई दिता (मत्ती 27:5 ऐ). यहूदा ने चांदी दे टुकड़े मंदरे च सुट्टी दिते कीजे ओह व्यवस्था दे मताबक परमात्मा दे हे (निष्कर्ष
21:32 च).

इह शब्द है^{एल 1697} प्रभु दायहोवा परमात्मा (जकरयाह 11:1-4), जेमी नबी ने आख्या, ते एह 1000 च पूरा होई गेआमत्ती 27:9 ऐ. लोकें दी नजर च
चांदी दे सारे तीस टुकड़े मालिक दे होंगन (ईश्वर) दा नौकर (यीशु) कानून दे मताबक, इस आस् ते ओह सोचदे हन के एह ओह गै ऐ, जेका "अच्छ" ऐ,
(ईश्वरइकमात्र ऐ जिसगी बूलाया जंदा ऐ, “चंगा”^{जी18}, ऐमार्च 10:18 ऐ).

- **कुम्हार(मिट्टी बनने वाले)^{एल 3335} ऐप्रभु गी(यहोवा)^{एल 3068} ते उने नियुक्त किता के तीस चांदी दे टुकड़े (जिस दी कीमत चुकाई जंदा ऐ, उदे खून
दा...यीशु(इब्रानियों 10:19 ऐ), जिसी ओह पुत्तरे दे^{एल 1121} इसाएल दा मूल्य कीता,मत्ती 27:9 ऐ) कुम्हार गी ढलना (प्रभु गी)^{एल 3335} के घर मेंप्रभु गी.<sup>एल
3068</sup>**

- **कुम्हार दे खेतर दा मालिक¹⁹²**

→जिय्यां चांदी दे तीस टुकड़े यीशु दे खून दी इक अच्छी कीमत ऐ जिसदी कीमत दे पुत्तरे ने कीती ही
इजराइल, दा मालिककुम्हार दा (प्रभु दा)खेतरऐप्रभु गी (मत्ती 27:7 ऐ).

- **तेरा शरीर मसीह दे अनमोल खून कन्ने खरीदेया गेदा ऐ, जेड़ा मेमने ऐ**

→तुसों गी अपने पिता-पिता दे परंपरा कन्ने नाशवान चीजें कन्ने नई, लेकन उंदे कन्ने छुड़ाया गेदा हा
के पिछले खून दामसीह, ऐके रूप मेंइक मेमना^{जी286} बिना दागते बिना दाग दे, जो हो गयाओह
मेमना(१पतरस १:१८-१९).^{जी 721} इस आस् ते तुंदा शरीर तुंदे च पबित्तर आत् मा दा परमेसरे दा मंदर ऐ, जेका दा ऐ
ईश्वरते तुंदे कोला नई। कीजे तुंदा शरीर इक इज्जत दी कीमत कन्ने खरीदेआ गेदा ऐ, इस करी तुस महिमामंडन करने च समर्थ ओ
ईश्वरते शरीर ते तेरी आत्मा च, जेड़ी परमात्मा दी ऐ। सारे लोकें आस् ते परमेसरे दी मर्जी ऐ के ओह उसी दिक् खन
बेटाते अनन्त जीवन पाने आस्ते उदे उप्पर विश्वास करो; इस चाल्ली तुंदे शरीर च परमात्मा दे मंदर दी महिमा होग
तेरे पिरिट च, जेड़ा दे अनमोल खून कन्ने खरीदेया गेदा हामसीह, तां जे तुस पलले-बढ़े
आखरी दिन (देखो २पतर २:१).¹⁹³

→उच्चा एल^{एल 410} अब्राम दे दुश्मनें गी अपने हत्थ च सौंपी दिता ऐ, इस करी अब्राम ने दसमें दा हिस्सा दिता

¹⁹¹वीडियो 37. “तुस इक कीमत (इक इज्जत) कन्ने खरीदे गेदे ओ।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-खून-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हैं/.

¹⁹²वही।

¹⁹³वही।

सारे अपने याजक (मल्कीसेदेक (उत्पत्ति 14:20 ऐ) दी उच्चीऐल, ऐ^{एच 410}मुक्तिदाता, परमात्मा दा(ĕlōhīm)^{एच 430} ऐ सारी धरती दा.^{एच 776} ऐ

→इक मनुख ने ओह फल खाने दे बाद जेड़ा परमात्मा ने नेई खाने दा हुकम दिता हा, तां जमीन गी श्राप दिता गेआप्रभु परमात्मा, ऐ इस चाल्ली ओह हुन ओह फल नेई खाई सकदा हा – जेका धरती थवां निकले दा हा (उत्पत्ति १:११).

→पर मल्कीसेदेक ने अब्राम गी आशीष दिता ते अब्राम ने उसी दसवां हिस्सा दिता कीजे “सब दसमें दा...

धरत, चाहे धरती दे बीज दा होवे, या बूटे दे फल दा, हैप्रभु दा(यहोवा):

इयां गै ऐपवित्रकोप्रभु गी(यहोवा) ऐ(लेवी 27:30 ऐ). इस आस् ते अब्राम ने कोई बी माल लेई जाने थमां इन्कार करी दिता सदोम दे राजा ने चढ़ाया कि ओ ए नेई आखे कि उने अब्राम गी अमीर बनाई दिता ऐ (उत्पत्ति 14:23 ऐ).

→महायाजक ने;यीशुमहायाजक (मुख्य याजक) बनाया गया^{जी 749}मल्कीसेदेक दे हुकम दे बाद

(इब्रानियों 6:20 ऐजित्थें अग्रदूत साढ़े आस्तै ऐ दाखल होई गेआ, इत्थूं तगरयीशु, ऐ

इक हाई बनायापजारी (मुख्य पुजारी)^{जी 749}मल्कीसेदेक दे क्रम दे अनुसार हमेशा लेई।)

- ऐमसीह अब्राहम दे पैहलें गै हा

+ मल्कीसेदेक ने दी, उच्चे दा याजक'ऐल, इक बड़्ठे महायाजक दा आलंकारिक प्रतिनिधित्व ऐ^{जी 749}जेड़ा सुर्ग च चली गेदा ऐ;यीशु परमात्मा दा पुत्र(इब्रानियों 4:14 ऐ), कु'न ऐयीशु मसीह, ऐप्रभु^{जी 2962}साढ़ाईश्वर, ऐ^{जी 2316}जिसी सुर्ग गी सारें चीजें दे पुनर्स्थापन दे समें तकर ग्रहण करना पौग, जेड़ेईश्वरदुनिया दे शुरू होने दे बाद थमां गै अपने सारे पवित्र भविष्यवक्ताएं दे मंह च बोलदा ऐ(प्रेरितों दे काम ३:२१).

→ जॉन 8:58 दा यीशु'नेगी आखया, “ मैं तुसें गी सच्च आखना ऐं, “अब्राहम दे होने तों पहलां मैं हां.”

➤ सर्वशक्तिमान जी(šadav)^{एच 7706} ऐ

• सर्वशक्तिमान जी(šadav)^{एच 7706} ऐ: जड़ शब्द स्ट्रॉन्ग दा ऐएच 7703 ऐ(TIY ऐ, ऐडइकबापु), मतलब लूटना, हिंसक तरीके कन्ने निबड़ना, सबतू शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान (प्रकाशितवाक्य 19:6).

• सर्वशक्तिमान जी(šadav)^{एच 7706} ऐ→प्रभु (यहोवा)→ ईश्वर ('ऐल)^{एच 410} उत्पत्ति 17:1 ऐजदुं अब्राम नब्बे नौ साल दा होया।प्रभु गी (यहोवा) अब्राम गी प्रकट होया, ते उसी आखया, “ मैं सर्वशक्तिमान आं।”(šadav)^{एच 7706} ऐईश्वर ('ऐल)^{एच 410}; मेरे सामने चलना, ते तू सिद्ध (बिना दाग) बनो^{एच 8549} ऐ

- अब्राम दा नां इस्तेमाल कीता गेदा हा, पैह्लें 'ऐलोहिम'अपने नमें नां अब्राहम कन् ने अपना वादा किता।
- प्रभु(यहोवा) अब्राम गी 99 साल दी उम्र तकर दिक्खेआ गेआ, फिरी ओह उसी इस चाल्ली प्रगट होआ सर्वशक्तिमान दा(šadav)^{एच 7706} ऐईश्वर ('ऐल)^{एच 410} ते अब्राम गी आखया के उदे सामने बेदाग चलन.
→सर्वशक्तिमान दे सामने बेदाग सिद्ध हो जाओ (šadav)^{एच 7706} ऐईश्वर ('ऐल)^{एच 410}

ईश्वर ('ऐल)^{एच 410} ऐ=इक मेढ़क^{एच 352} ऐ

- 'ऐल'ऐ स्ट्रॉन्ग दे एच 352 (šar, ऐ'अथिल'), मतलब "राम^{एच 352} ऐ" (जो स्ट्रॉन्ग दे एच 193 (šar ऐ, 'उल')मतलब “शक्तिशाली”) →ओटी च,राम^{एच 352} ऐउसी अपने पुत्र इसहाक दी जगह अब्राहम ने होमबलि दे रूप च चढ़ाया हा (उत्पत्ति 22:13 ऐ).

- ऐउत्पत्ति 22:13 ऐअब्राहम ने अपनी अक्खीं उप्पर चुक्की लेता ते दिखया।

ते उदे पिच्छे दिखोइक मेढ़क^{एच 352} ऐझाड़ी च उदे सींगें कन्ने फसी गेदा।
ते अब्राहम जाइये मेढे गी लेई लेआ।
ते उसी अपने पुत्र दी जगह होमबलि च चढ़ाया।

- ओटी च:इक मेढ़क^{एच 352} ऐ → इक मेमना (फसह दा दिन)^{एच 7716} ऐ

- एनटी च: (यीशु) → इक मेमना(मसीह)^{जी 286} ऐ → इक मेमना^{जी 721} ऐ (नाथतेमुक्तिदाता, ऐयीशु मसीह (ईश्वर), ऐसर्वशक्तिमान जी)

- के अनमोल खून **मसीह**, के रूप में **इक मेमना** ^{चै286} बिना दाग ते बिना दाग, ऐ जो साडा फसह बनी **मेमना**, ऐ ^{चै286} (**मसीह**) (१पतरस १:१९, ऐनिष्कर्ष 12:27 ऐ, ऐ१करिन्थियों ५:७).¹⁹⁴

→ जे रब ('एल') ^{एव 410} संदर्भित करदा ऐ **मसीह**, फिर कौन है सर्वशक्तिमान (**ऱादय**)?

- सर्वशक्तिमान जी (ऱादय)** ^{एव 7706} → ईश्वर ('एल') ^{एव 410} (प्रभु, **यहोवा**) → **'एलोहिम**

उत्पत्ति 17:2 ते मैं अपना वादा करा ^{एव 1285} मेरे ते तेरे बीच, ते तुगी गुणा करग बेहद ही।

उत्पत्ति 17:3 ऐते अब्राम मुंह उप्पर पेई गया, ते परमात्मा (**'एलोहिम**) ^{एव 430} उसदे कन्ने गल्लां करदे होई आखेआ,

उत्पत्ति 17:4 ऐमेरे बारे च, दिखो, मेरा वाचा तेरे कन्ने ऐ, ते तू गै होंगे

कई राष्ट्रां दा पिता।

उत्पत्ति 17:5 ऐते ना तेरा नां फिरी अब्राम रखेगा।

लेकन तेरा नां अब्राहम होंगे; कीजे मैं तुगी मते सारे जातिएं दा पिता बनाया ऐ।

- ऐ **'एलोहिम** अब्राम कन् ने वादा कित्ता के ओह मते सारे जातियें दा पिता बनग ते उनेंगी अपना गै ग्लाना ऐ नाम, अब्राहम।
- ऐ **'एलोहिम** अब्राहम कन् ने अपनी वादा करने शा पैहलें अब्राम कन् ने गल् ल कित्ती।
- ऐ **वाचा** दाकी पुष्टि की पहले की **ईश्वर** ^{चै 2316} च ^{चै 1519} **मसीह**, ते कानून जेडा चार हा सौ तीस साल बाद, रद्द नेई करी सकदा, जे ओहु कुसै दा वादा नेई करै असर (गलाती 3:17 ऐ). ध्यान रखो जे बीच दी वाचा **ēlōhim** ते अब्राहम गी इस ने पुष्ट कीता **ईश्वर** "च" **मसीह**.

- ईश्वर ('एल') ^{एव 410} सर्वशक्तिमान (**ऱादय**) ^{एव 7706} = था (परमात्मा, **'एलोहिम**) ^{एव 430}

- इक मनुख ने दुनिया विच दाखल होए पाप तों ^{चै 444} (रोम 5:12 ऐ, ऐउत्पत्ति 3:24 ऐ) ते याकूब दे तक

नाम बदल के इस्राएल (उत्पत्ति ३५:१०), ईश्वर (**'एलोहिम**) ^{एव 430} परमात्मा दे रूप च प्रकट होया (**'एल')** ^{एव 410}

सर्वशक्तिमान जी (ऱादय) ^{एव 7706} अब्राहम, इसहाक ते याकूब गी जदुं ओह धरती उप् पर दिक् खेया गया हा।

(उत्पत्ति 48:3 ऐ याकूब ने यूसुफ गी आख्या, " परमात्मा (**'एल')** ^{एव 410} सर्वशक्तिमान (**ऱादय**) ^{एव 7706} लब्धे करदा (दिक्खना) ^{एव 7200} मेरे कोल देश (पृथ्वी) च लूज च ^{एव 776} कनान दा, ते मिगी आशीष दिती,)

- ईश्वर (**'एल')** ^{एव 410} सर्वशक्तिमान (**ऱादय**) ^{एव 7706} याकूब दे सामने कनान दी धरती उप्पर याकूब गी प्रगट होई गेआ इक नमां नां इस्राएल दिता गेआ। इस तर्हाँ परमात्मा (**'एल')** ^{एव 410} सर्वशक्तिमान (**ऱादय**) ^{एव 7706} था परमात्मा (**'एलोहिम**) जो धरती पर दिक्खेआ गेआ हा, जेहडा आलंकारिक प्रतिनिधित्व ऐ **मसीह यीशु**, जो अंदर आ गया दुनियां गी बचाने आस्ते पापी (1ति 1:15 ऐ) ते हो गया **मसीह यीशु सादानाथ** (फिलिपिन्स 3:8 ऐ).

(फिलिपिन्स 3:8 ऐहां निस्संदेह, ते मैं दी उत्तमता आस्ते नुकसान दे अलावा सारी चीजें गी गिनदा हां

ज्ञान दा आहला **मसीह यीशु मेरानाथ** (**kyrios**):

जिसदे लेई मैं सारे चीजें दा नुकसान चुक्की लेआ ऐ।

ते उनेंगी गोबर गै गिनना, तां जे मैं जीत सकां **मसीह**, ऐ।)

उत्पत्ति ३५:१० ते **ईश्वर** (**'एलोहिम**) ^{एव 430} उसी आख्या, " तेरा नां याकूब ऐ।

तेरा नां फिर याकूब नेई रखेगा।

लेकन इस्राएल ^{एव 3478} तेरा नां होंगे, ते उने अपना नां इस्राएल रखेया। ^{एव 3478}

उत्पत्ति ३५:११ ऐते **ईश्वर** (**'एलोहिम**) ^{एव 430} उसी आख्या (इस्राएल गी याकूब दा नमां नां उत्पत्ति ३५:१०), ऐ

मैं परमात्मा (**'एल')** ^{एव 410} सर्वशक्तिमान (**ऱादय**) ^{एव 7706} फलदा-फूल जाओ ते मते बन्नी जाओ;

इक कौम ^{एव 1471} (परमेसर दा इक कौम, इस्राएल) ते जातिएं दी इक संगत (गैर-यहूदी राष्ट्रें दा) ^{एव 1471}

तेरे कोलां होंगन, ते राजा तेरे कमर च निकलनगे;

- ऐ **'एलोहिम** याकूब गी बी इक नमां नां इस्राइल (उत्पत्ति ३५:१०).

- याकूब दा नां इस्त्राएल बदलने दे बाद, परमात्मा ('एल')^{एल 410} सर्वशक्तिमान (**ऽादय**)^{एल 7706} इस्त्राएल गी आशीर्वाद दिता फलदायी होन ते गुणा करन लईरब दाराष्ट्र इस्त्राएल, ते गैर-यहूदी जाति चा¹⁹⁵

उत्पत्ति १:२२ते **ईश्वर** ('एलोहिम')^{एल 430} आशीष दिती ते आखया, “फलदा जाओ ते बधो; ते समुंदरे दे पानी गी भरो, ते धरती उपपर चिड़ियां बधी जाओ।”^{एल 776}

उत्पत्ति २८:३ते परमात्मा ('एल')^{एल 410} सर्वशक्तिमान (**ऽादय**)^{एल 7706} आशीष दे तेरे, ते तुगी फलदायी बनाओ, ते तुगी गुणा करो। तां जे तू लोकें दी भीड़ बनी जाओ;

- **चरोम** उत्पत्ति ४६:२, **ऐईश्वर** ('एलोहिम')^{एल 430} में इस्त्राएल कन्ने गल्ल करदा **ऐदर्शनं गी** उत्पत्ति ४६:२ते परमात्मा ('एलोहिम')^{एल 430} इस्त्राएल कन्ने गल्ल कीती^{एल 3478} दर्शनं च^{एल 4759} रात दा, ऐ ते आखया, “याकूब, याकूब।” ते उन आखया।इत्थे में हां.

→ थमां उत्पत्ति ४६:२, ईश्वर ('एलोहिम')^{एल 430} दर्शनं च इस्त्राएल कन्ने गल्ल करदा ऐ।

- **'एल'**^{एल 410} = मददगार, & सर्वशक्तिमान (**ऽादय**)^{एल 7706} = ऊपर स्वर्ग से आशीर्वाद दे → **यीशु मसीह**

उत्पत्ति ४९:२५ भगवान दे द्वारा भी ('एल')^{एल 410} तेरे पिता दा, जो कर देगा **मदाद** तु:

ते सर्वशक्तिमान (**ऽादय**), ऐ^{एल 7706} जो करगे **शीरवाद देना** तेरे साथ ऊपर स्वर्ग दा आशीर्वाद, **गहरे दा आशीर्वाद** जो नीचे पड़ा है, स्तन दा आशीर्वाद,^{एल 7699} ते गर्भ (दया) दा।^{एल 7356}

→ **'एल'**^{एल 410} तेरे पिता (अब्राहम, इसहाक ते याकूब) दा ओह गै ऐ, जेका तुंदी “मदद” करदा ऐ (धरती विच)।

→ **'एल'**^{एल 410} हे “सहायक,” ते इस्त्राएल आस् ते मददगार ऐ **प्रभु गी (यहोवा)** (राजा १४:२५-२६) जां **प्रभु (kyrios)** (इब्रानियों 13:6 ऐ)¹⁹⁶.

→ **सर्वशक्तिमान जी (ऽादय)**^{एल 7706} उह है जो “**आशीर्वाद दे**” तुस धरती उपपरके आशीर्वाद दे नाल **सुरग** उपपर.

(प्रभु परमात्मा ने इक नबी गी जिंदा किता)

प्रेरितों दे काम ३:२२ की वे मूसा ने सच् चाई च बखियें गी ग् लाया हा;

इक नबी करग **प्रभु (क्योरिओस)**^{नो 2962} शुआदा **ईश्वर** अपने कोलां तुंदे उपपर उठो

भाइयो, मेरे जेया;

जे किश ओह तुंदे कन् ने ग् लांदा ऐ, उसी तुस सारे गल् लें च सुनी लैगे.

प्रेरितों दे काम ३:२३ ते हर इक प्राणी जेड़ा उस नबी दी गल्ल नेई सुनगा।

लोकें दे बीचा नष्ट होई जाग.

प्रेरितों दे काम ३:२४ हां, ते शमूएल ते उसदे बाद दे सारे भविष्यवक्ता।

जिन्ना बोलेया ऐ, उन्ना गै इन्ने दिनें दी भविष्यवाणी कीती ऐ।

प्रेरितों दे काम ३:२५ तुस बच्चे (पुतर) ओ^{नो 5207} नबियों दा

ते उस वाचा दा जेड़ा परमात्मा^{नो 2316} साडे पुरखें कन्ने बनाया, ए आखदे होई

अब्राहम ने दी, ते तेरे वंश च^{नो 4690} धरती दे सारे जाति करगे

(जमीन) दा^{नो 1093} आशीर्वादित हो.^{नो 1757}

प्रेरितों दे काम ३:२६ गैहे तुंदे कोल **ईश्वर**, ऐ^{नो 2316} अपने पुतर (सेवक) गी जिंदा करी दिता^{नो 3816} **यीशु**, ऐ^{नो 2424}

¹⁹⁵वीडियो 6. “प्रभु (तुंदा) परमात्मा बनी जंदा ऐ।”

[¹⁹⁶संदर्भ देना प्रकासित 3:14 ऐ.](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशु-इजराइल-दे-पुत्र-पीदियों-दी-पुस्तक/&video 16, “गैर-यहूदी, सारे जाति (5/10),” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ।</p>
</div>
<div data-bbox=)

भेजेआ गेदाउसे कोशीरवाद देनातुस, तुंदे च हर इक गी अपने अपराधें कोलां मुडने चा

(मत्ती 1:21 ऐते ओह इक पुत्र पैदा करग, ते तू उंदा नां रखगेयीशु: 1।
कीजे ओह गै करगबचाओउदे लोकें गी उंदे पापें थमां.) ऐ।

→ ईश्वरउठायायीशुपापें थवां पछताने च तुसैंगी “आशीष” देने आस् ते।

- **डबल्युहो ऐयीशुकसीईश्वरइसाएल आस् ते उड्डेया ऐ?**
प्रेरितों दे काम 13:23 इस मनुख (दाऊद) दे वंश दा
हथईश्वरउंदे वादे दे मताबकइसाएल दे लेई उभारी दिताइक उद्धारकर्ता, ऐ⁴⁹⁹⁰यीशु: 1।

→ **यीशु**, कसीईश्वरउठायायीशुआस् ते, ऐऐ “**इक उद्धारकर्ता**.”⁴⁹⁹⁰

- **सर्वशक्तिमान जी (सादय)**⁷⁷⁰⁶ जो तुझे आशीर्वाद दे=यीशु=इक उद्धारकर्ता⁴⁹⁹⁰
गणना 24:4 ऐउने आख्या, जिने वचन सुनेया⁵⁶¹ परमातमा दा (‘एल’), ऐ⁴¹⁰जिसने देखा
दर्शन दा⁴²³⁶ सर्वशक्तिमान दा (‘सादय’), ऐ⁷⁷⁰⁶
समाधि च पेई गेदा ऐ, लेकन उंदी अक्खीं खुल्ली गेदे ना।

→के शब्द सुनने पर‘एल’, ऐ⁴¹⁰सर्वशक्तिमान दा दर्शन (‘सादय’)⁷⁷⁰⁶खुलदा ऐ.

- ऐप्रभु दा मसीह

लुका 2:26 ऐऔय थीफाशउस गी द्वारापवित्र आत्मा गी, कि ओह (शिमोन) नेई करै

मौत देखो, इसदे पैह्ले गै उसी दिक्खेआ हाप्रभु दा मसीह.

लुका 2:27 ऐओह आत्मा दे जरिए मंदिर च आया।

ते जदू मां-बब्ब ने बच्चे गी अंदर लेई आयायीशु, ऐ

कानून दी रिवाज दे मताबक उदे आस् ते करना,

लुका २:२८ दाफिरी उसी अपनी बाह च लेई लेया, ते आशीर्वाद दिताईश्वर, ते आखया।

लुका २:२९ ऐनाथ (निरंकुशता दा), ऐ¹²⁰³हुण तू अपने दास गी शांति कन्ने चली जाने दे।

तेरे वचन दे अनुसार (रिमा दा)⁴⁴⁸⁷: 1।

लुका २:३० बजे कीजे मेरी अक्खीं ने दिक्खेआ ऐ¹⁴⁹²तेरामोक्ष दे, ऐ

लुका २:३१ ऐजिसी तू सारे लोकें दे सामने तैयार किता ऐ;

लुका २:३२ ऐइक रोशनी⁵⁴⁵⁷ गैर-यहूदियां गी हल्का करने आस्तै, ऐ¹⁴⁸⁴ते तेरे प्रजा इस्राएल दी महिमा।

→पवित्र आत्मा मनुखें उप्पर ऐ⁴⁴⁴यरूशलेम च जेका धर्मी ते भक्तिपूर्ण बनाया गेदा ऐ, इंतजार करदे
इसाएल दी दिलासा। शिमोन उस मनुख च इक हा ते उसी एह प्रगट किता गयाओह
पवित्र आत्मा के ओह दिक् खने शा पैहलें मौत नेई दिक् खीएप्रभु दा मसीह(लुका 2:25-26 ऐ).

→उस वक्त भी जब बच्चायीशुउदे आस् ते व्यवस्था दे रिवाज गी पूरा किता गया।पवित्र आत्मा गी
धर्मी ते भक्तिशील माहू गी बच्चे दे बारे च प्रगट करदा ऐयीशुकि ओह तैयार ऐ
मोक्ष देसारे लोकें दे चेहरे दे सामने,परमातमा दी रोशनीगैर-यहूदियां गी हल्का करने आस्तै, ते महिमा दी
उदे लोक इस्राएल.

→शब्द सुनने पर⁵⁶¹थमां ‘एल’(जानिरंकुशता दा, ऐलुका 2:26 ऐ), या प्रभु (यहोवा), ऐ
पवित्र आत्मा गीखुलासा करदा ऐरिमा दा(लुका 2:29 ऐ) ते दिखने आस्तै अपनी अक्खीं खोली लैदा ऐयीशुते उंदी
मोक्ष दे.¹⁹⁷

¹⁹⁷वीडियो 8. “(फसह दे पैहलें) यीशु गी नर बच्चे थवां प्रभु तकस” www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-द-सत्त-भोज-इजराइल-जीस-दे-पुरुष-बच्चे-से-तो-प्रभु/.

➤ ईश्वर ('एल')^{एव 410} सर्वशक्तिमान (**Ṣaday**)^{एव 7706} = नाथ (**kyrios**) ते मुक्तिदाता (कु'न ऐयीशु मसीह) च एनटी (२पतरस १:११)

→ **एल**^{एव 410} सर्वशक्तिमान (**Ṣaday**)^{एव 7706} = भगवान था ('एलोहिम'^{एव 430})

यहोस 24:27 ऐयहोशू ने सारे लोकें गी आखया, “ दिखो, ए पत्थर”^{एव 68} साढ़े आस् ते गवाह बनी जाग;
की वे उसने सारे वचन सुनी लेता ऐ **प्रभु दा (यहोवा)**^{एव 561} **प्रभु दा (यहोवा)**^{एव 3068} जिसदे कन्ने ओ बोलेया
सानु: इस आस्ते ए तुंदे आस्ते गवाह होग, कि तुस अपने कोला इन्कार नेई करो **ईश्वर (ēlōhīm)**.^{एव 430}

† कनान दी धरती गी जीतने दे बाद यहोशू इस्राएल दे गोत्रें दे सारे लोकें गी डरने आला आखदा ऐ **प्रभु गी (यहोवा)** ते परोसना **प्रभु गी** ईमानदारी ते सच्चाई च, ते लोकें आखेआ
(**यहूस 24:22-24** ऐ), ऐ
“अस गवाह आं जे उमेंगी चुने दा ऐ **प्रभु गी**, ऐ
ते प्रभु गी (यहोवा) साढ़ाईश्वर (ēlōhīm) असी सेवा करगे.”

फिरी यहोशू ने लोकें कन् ने इक वादा किता ते उमेंगी शेकेम च इक नियम ते नियम बनाई लेता, ते एह वचन (या...**रेमा दा**) “की व्यवस्था दी किताब **चईश्वर**”, ते

इक बड्ढा पत्थर लेईये उसी पवित्र स्थान दे कोल रखी लेया **प्रभु गी (यहोवा)**.¹⁹⁸

शब्द सुनने पर ^{एव 561} आहला **प्रभु गी (यहोवा)**, ऐ **यहोस 24:24** ऐ), इक बड्ढा पत्थर गवाह बनी जंदा ऐ जेहड़ा तुसं चुने आ ऐ **प्रभु गी (यहोवा)** ते परोसना **प्रभु गी (यहोवा) ईश्वर (ēlōhīm)**.

† जदों उटे **यीशु** चले दे कोल आए, उने दिखया **प्रभु** (क्योरिओस, **इं 20:20** दे), ऐ
औय नामा **प्रभु** 'एसदम, जो है **पवित्र आत्मा गी** (**इं 20:22** ऐ).

इं 20:22 ऐते जदूं ओह (**प्रभु जां kyrios**)^{जे 2962} इह आखया सी,
उसने सांस ली ^{जे 1720} उन पर, ते उन्दे कन्ने आखया, “तुस ग्रहण करो **पवित्र आत्मा गी.**”

अय्युब 33:4 च **आत्मा दी** आहला **ईश्वर ('एल')**^{एव 410} बनाई ऐ ^{एव 6213} में, ऐ
ते सांस वी ^{एव 5397} आहला **सर्वशक्तिमान दा** ^{एव 7706} दे दिया है **जीवन (रौहना)**^{एव 2421} ऐ

- **आत्मा दी** परमातमा दा (**'एल')**^{एव 410} बनाई ऐ ^{एव 6213} में = दी **आत्मा दी प्रभु (kyrios)**^{जे 2962} ऐ
- **सांस दी** ^{एव 5397} आहला **सर्वशक्तिमान दा (Ṣaday)**^{एव 7706} ने मुझे जिन्दगी (जीवित) दे दी है ^{एव 2421} ऐ
(जो देण लई सुर्ग तों उतर आया **जीवन तैरे कोल, हैयीशु मसीह**)

→ बीज दा ^{जे 4690} चा वादा है **मसीह** ते बीज दा ^{जे 4703} परमात्मा दा जेड़ा उतरी आया
स्वर्ग से देना जीवन दुनिया को हैयीशु **मसीह**, जिसदा मांस बीज दा ऐ
आहला परमातमा दे लोगो, जो (साडे मांस दी) जमीन विच गिर के मरना चाहिदा है
तेज होने दे चक्कर च **इकन्द** बहुत फल पैदा करदे (**इं 12:24** ऐ).¹⁹⁹

→ ईश्वर (**'एल')** सर्वशक्तिमान (**Ṣaday**) था परमात्मा (**'एलोहिम'**^{एव 430}) जो धरती उपर दिखेआ गेआ हा, ते
दी आत्मा दा 'एल (ओह नाथ, किरियोस) ने मिगी बनाई दिता ऐ, ते सांस दी
सर्वशक्तिमान दा (एक मुक् तिदाता यीशु मसीह) ने दे दी है **जीवन** दे राहें **पवित्र आत्मा गी**
(उत्पत्ति 2:7 ऐ).²⁰⁰

→ एह **नाथ** ते मुक् तिदाता ऐयीशु **मसीह** (२पतरस १:११), जो था **ईश्वर ('एलोहिम')**^{एव 430} ऐ.

¹⁹⁸वीडियो 23. “रोटी, मन्ना, & छिपे दा मन्ना”

www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-द-ब्रेड-द-मन्ना-द-हिडन-मन्ना/.

¹⁹⁹वीडियो 26. “प्रभु दा फसह (नमां नियम)”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-द-लॉईस-पास-ओवर-द-नए-वसीयत/.

²⁰⁰वीडियो 40. “4. पेटेकोस्ट” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-प्रभु-दे-त्वौहार-4-पेटेकोस्ट/.

१जोह ४:१४ ते अस दिखे ते गवाही दिंदे आं के पिता ने पुत्र गी भजेया

उद्धारकर्ता बनने के लिये 4990 दुनिया दा.

२तीम १:१० पर हून साढ़े प्रकट होने कन्ने प्रगट होंदा ऐ

उद्धारकर्ता यीशु मसीह, जिसने मौत गी खत्म करी दिता ऐ, ते करी दिता ऐ

खरीदो जीवन ते अमरता रोशनी करने के लिये सुसमाचार दे जरिए;

तीत 2:13 ऐउस धन्य आशा दी तलाश च, ते दी गौरवशाली प्रकट होने दी

महान ईश्वर 2316 ते साडे मुक्तिदाता यीशु मसीह;

२पतरस १:१ शमौन पतरस, यीशु मसीह दा सेवक ते प्रेरित।

जिन्हें साढ़े कन्ने कीमती विश्वास पाई लेदा ऐ

दी धार्मिकता दे जरिए ईश्वर

ते साडे उद्धारकर्ता यीशु मसीह: 1।

२पतरस १:११ कीहके इय यां गै तुंदे आस् ते इक दरवाजे दी बड़ी सेवा कीती जाग

साढ़े अनन्त राज च नाथ ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह.

२परेतर ३:१८ लेकन अनुग्रह च ते साढ़े ज्ञान च बधी जाओ नाथ ते मुक्तिदाता

यीशु मसीह. उदी महिमा हून ते हून ते हून बी ऐ। आमीना

➤ ईश्वर ('एल') 410 सर्वशक्तिमान (Ṣadav) 7706 ऐ

निष्कर्ष ६:२ ते ईश्वर ('एलोहिम) 430 मूसा कन्ने गल्ल कीती। 4872 ते उसी आखया।

में आं प्रभु गी (यहोवा): 1। 3068 ऐ

निष्कर्ष 6:3 ऐते में प्रकट होया (देखो) 7200 अब्राहम, इसहाक ते याकूब गी।

के-नाम-ये (जियां) ईश्वर ('एल') 410 सर्वशक्तिमान (Ṣadav) 7706 ऐ, ऐ

पर मेरे नां कन्ने 8034 यहोवा (प्रभु गी, यहोवा) 3068 ऐ था मैं उदे कोला नेई जानदा हा।

→ ईश्वर ('एलोहिम) 430 मूसा गी आखया (कानून, जह 1:17 ऐ, जिंदे कोल कानून ऐ), ऐ

• ईश्वर ('एलोहिम) 430 परमात्मा दे रूप च दिक्खेआ जंदा हा ('एल') 410 सर्वशक्तिमान (Ṣadav) 7706 अब्राहम, इसहाक ते याकूब गी।

→ बीउत नाम दा यहोवा (प्रभु गी, जांमसीह गी, ऐ इफिसियों 3:4 ऐ), उंंगी पता नेई हा।

→ नाम दा यहोवा, (प्रभु गी, ऐओह मसीह, ऐलुका 2:11 ऐ) तुहाडे पिताजी नू पता नहीं सी, पर

सर्वशक्तिमान दा जो तुहानू आशीर्वाद देंदा है यीशु, ते यीशु कुसी ईश्वर उठाया ऐ इक उद्धारकर्ता, ऐ 4990

या प्रभू (निरंकशता दा) जो देंदा ऐरेमा दा (लुका 2:29 ऐ).

• 'एलोहिम → यहोवा (यहोवा) → तेरे पुरखें गी जमीन उप्पर परमात्मा दे रूप च दिक्खेआ जंदा हा ('एल') 410 सर्वशक्तिमान (Ṣadav) जां प्रभू ते मुक् तिदाता यीशु मसीह जो परमात्मा था ('एलोहिम) 430 ऐनटी में।

→ ईश्वर ('एलोहिम), ऐ 430 ऐजिसी अब्राहम, इसहाक ते याकूब गी इय यां दिक् खेया

ईश्वर ('एल') 410 सर्वशक्तिमान (Ṣadav), ऐ 7706 ऐ प्रभू ते मुक्तिदाता (जां प्रभू (क्योरिओस) यीशु मसीह), ऐ

जो साडा बन गया ईश्वर.

➤ नाथ ('äðōnay) 136 ऐ ईश्वर (y^hōvâ) 3069 ऐ (दे परी दा प्रभु गी (यहोवा))

प्रभु (यहोवा) → (नाथ ('äðōnay) 136 ऐ ईश्वर (y^hōvâ) 3069 ऐ (दे परी दा प्रभु गी (यहोवा))), ऐ

जो परमात्मा है ('एलोहिम).

- इक परी प्रभु दा (यहोवा) 3068 ऐ → प्रभु ('äðōnay) 136 ऐ ईश्वर (y^hōvâ) 3069 ऐ

न्याय 6:22 ऐजदुं गिदोन गी एह पता लगी गया के ओह परमेसरे दा सुर्गदूत ऐ (यहोवा), ऐ 3068 ऐ

गिदोन ने आख्या, अफसोस, हे प्रभु ('äðōnay) 136 ऐ ईश्वर (y^hōvâ) ! 3069 ऐ

क्योंकि मैं प्रभु दे इक सुर्गदूत गी दिक्खेया ऐ (यहोवा) 3068 ऐ आमने सामने।

→ के दूत देख के प्रभु गी (यहोवा) 3068 ऐ देख रहा है प्रभु ('äðōnay) 136 ऐ ईश्वर (y^hōvâ) 3069 ऐ

- दाऊद प्रभु दे सामने बैठदा ऐ (यहोवा) 3068 ऐ मतलब ओह प्रभु दे दूत दे सामने बैठे दा हा (यहोवा) 3068 ऐ

रसा 7:18 ऐफिरी राजा दाऊद अंदर चली गया ते प्रभु दे सामने बैठी गया (**यहोवा**), ऐ^{रस 3068} ते उन आखया।

मैं कौन हां ऐ प्रभु (**'ädönay'**)^{रस 136} ईश्वर (**y^hōvâ**)^{रस 3069} ?

ते मेरा घर केह ऐ, जेका तू मिगी इत् थें तकर लेई आया ऐ?)

→ दाऊद पैहे बैठी गेदा हा**यहोवा** ते आखया, प्रभु (**'ädönay'**)^{रस 136} ईश्वर (**y^hōvâ**)

- इक परीप्रभु दा (**यहोवा**)^{रस 3068} → प्रभु (**'ädönay'**)^{रस 136} ईश्वर (**y^hōvâ**)^{रस 3069} → ईश्वर (**'एलोहिम'**)^{रस 430}

न्याय 16:28 ऐते शिमशोन ने प्रभु गी पुकारया (**यहोवा**), ऐ^{रस 3068} ते आखया।

ऐ प्रभु (**'ädönay'**)^{रस 136} ईश्वर (**y^hōvâ**)^{रस 3069}, ऐ

याद करो, मैं तेरे कोला, ते मिगी मजबूत करो, मैं तेरे कोला, सिर्फ एह इक बारी,

ऐ रब (**'एलोहिम'**), ऐ^{रस 430} तां जे मैं अपनी दो अकखीं दा बदला पलिस्तीए दा इक बारी फही बदला लैं।

→ शिमशोन ने पुकारया**यहोवा**, ते आखया।**'ädönây y^hōvâ'**(प्रभु दा इक दूत

पैहलें**यहोवा**), फिर उसने कहा, ईश्वर (**'एलोहिम'**)^{रस 430}

(प्रभु (**यहोवा**) → प्रभु (**'ädönay'**) ईश्वर (**y^hōvâ**) → ईश्वर (**'एलोहिम'**)).

➤ प्रभु (**यहोवा**) ईश्वर (**'एलोहिम'**) → **'एलोहिम** आहला **'एलोहिम** ते **'ädôn'** आहला **'ädôn'** → ईश्वर (**'एलोहिम'**) सारी धरती दा

(आकाश ते सारी धरती दा राजा)

व्यवस्था 10:17 ऐप्रभु दे वास्ते (**यहोवा**)^{रस 3068} तेरा परमात्मा (**'एलोहिम'**)^{रस 430} हे परमात्मा (**'एलोहिम'**)^{रस 430} देवताओं दा

(**'एलोहिम'**), ऐ^{रस 430} ते नाथ (**'ädôn'**)^{रस 113} प्रभुओं दा (**'ädôn'**), ऐ^{रस 113} इक महान **'एल'** ^{रस 1419} ईश्वर (**'एल'**), ऐ^{रस 410}

इक ताकतवर, ते इक भयानक (डरने आला), ऐ^{रस 3372} जेड़ा व्यक्तिएं दा परवाह नेई करदा ते ना गै इनाम लैंदा ऐ।

(यहोस 3:11 ऐदेखो, प्रभु दे वादे दा सन्दूक (**'ädôn'**)^{रस 113} सारी धरती दा^{रस 776}

तुं दे कोलां पैहलें यरदन च चली जंदा ऐ।)

- प्रभु (**यहोवा**), सनातन परमात्मा **'एल'** (उत्पत्ति 21:33 ऐ)^{रस 410}

→ प्रभु (**यहोवा**) तेरा परमात्मा (**'एलोहिम'**)^{रस 430}

- ईश्वर (**'एलोहिम'**) देवताओं दा (**'एलोहिम'**)^{रस 430} (→ इक महान **'एल'** (व्यवस्था 10:17 ऐ), आहला **सुरग**, ऐभजन संहिता 136:26)

- नाथ (**'ädôn'**)^{रस 113} प्रभुओं दा (**'ädôn'**)^{रस 113} (→ प्रभु (**'ädôn'**)^{रस 113} सब दा धरती गी, ऐ^{रस 776} यहोस 3:11 ऐ)

→ प्रभु (**'ädönay'**)^{रस 136} ईश्वर (**y^hōvâ**)^{रस 3069} प्रभु दा दूत ऐ (**यहोवा**)^{रस 3068} पैहलें

प्रभु गी (**यहोवा**)^{रस 3068} ऐ ए प्रभु (**यहोवा**)^{रस 3068} सनातन परमात्मा ऐ (**'एल'**)^{रस 410} आहला

सुरग, जो तेरा बन जाईश्वर.

इस प्रभु (**यहोवा**) तेरा परमात्मा (**'एलोहिम'**) इक बड़डा ऐ **'एल'**, कौन परमात्मा (**'एलोहिम'**) देवताओं दा (**'एलोहिम'**)

स्वर्ग दा, ऐते प्रभु (**'ädôn'**)^{रस 113} प्रभुओं दा (**'ädôn'**), ऐ^{रस 113} सारी धरती दा।

इस करिए प्रभु (**यहोवा**)^{रस 3068} ईश्वर (**'एलोहिम'**) होआ करदा "**'एलोहिम** आहला **'एलोहिम** ते

'ädôn' आहला **'ädôn'**," मतलब ओह "**राजाओं दा राजा, ऐ ते प्रभु दा प्रभु**" (प्रकाशितवाक्य 19:16 ऐ)

स्वर्ग ते सारी धरती दा.

→ "**राजाओं दा राजा, ते प्रभुओं दा प्रभु**(जां प्रभु यीशु मसीह)," तस ओह ओईश्वर ते

थुआदोरेमा सच्चा हो.²⁰¹

- दा परीप्रभु गी (**यहोवा**) लांदा ऐरेमा दा प्रभु दा (**'ädönay'**)^{रस 136} ईश्वर (**y^hōvâ**), ऐ^{रस 3069}

जो हैईश्वर (**'एलोहिम'**)^{रस 430} जो सच्चा है (रसा ७:२८ ऐ).

(रसा ७:२८ ऐते हुन हे रब (**'ädönay'**)^{रस 136} ईश्वर (**y^hōvâ**), ऐ^{रस 3069} तू ओह परमात्मा ओ

(**'एलोहिम'**), ऐ^{रस 430} ते तेरा शब्द^{रस 1697} सच्चा हो,

ते तू अपने सेवक कन्ने ए भलाई दा वादा कित्ता ऐ।)

²⁰¹वीडियो 6. "प्रभु तुंदा परमात्मा बनी जंदा ऐ।"

- ऐटीओह सर्वशक्तिमान प्रभु (प्रकासित 1:8 ऐ) ते प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान (प्रकासित 4:8 ऐ)

➤ टीओह सर्वशक्तिमान प्रभु (प्रकासित 1:8 ऐ)

- प्रभु जी (क्योरिओस) सर्वशक्तिमान जी ^{नं०3841 ऐ} (जो आना है) → मेमने दा (शासने आला अर्निओन) ^{नं०721 ऐ}

प्रकासित 1:8 ऐ मैं अल्फा ते ओमेगा हां, शुरू ते अंत, आखदा ऐ प्रभु, ऐ ^{नं०2962 ऐ}

जो है, ते जो हा, ते जो आने आला ऐ, सर्वशक्तिमान दा. ^{नं०3841 ऐ}

→ प्रभु जी (क्योरिओस): अल्फा ते ओमेगा, शुरूआत ते अंत

→ सर्वशक्तिमान जी (मुक्तिदाता यीशु मसीह):

➤ प्रभु जी (क्योरिओस) ईश्वर ^{नं०2316 ऐ} सर्वशक्तिमान जी ^{नं०3841 ऐ}

प्रकासित 4:8 ऐ ते चार जानवर (जीव) ^{नं०2226 ऐ} उंदे चा हर इक दे चारों पासे छह पंख हे;

ते ओह अंदर अक्खीं कन्ने भरोचे दे हे;

पवित्र, पवित्र, पवित्र, नाथ ^{नं०2962 ऐ} ईश्वर ^{नं०2316 ऐ} सर्वशक्तिमान जी, ऐ ^{नं०3841 ऐ} जेड़ा हा, ते ऐ, ते औने आला ऐ।

→ “प्रभु जी” जरिया “प्रभु (मुक्तिदाता), जो तेरा हो गया ईश्वर, मुक्तिदाता ऐयीशु मसीह.”

→ “प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान” मतलब “इकनाथ” जां ईश्वर ते मुक्त तिदाता यीशु मसीह: कुंन

- ऐऐ (ऐयीशु जो बुलाया जाता है मसीह (मती 1:16 ऐ), जां प्रभु गी (यहोवा, ऐ इफिसियों 3:2) ^{एव 3068 ऐ}

- ऐहा (ईश्वर, ऐडब्ल्यूहो में था मसीह, रकुरिन्थियों ५:१९), ते

- ऐ ऐआने के लिये (ईश्वर ²⁰² दे राहें प्रभु ते मुक्त तिदाता यीशु मसीह, ऐओह मेमना (अर्नियन दा ^{नं०721 ऐ}).

→ सो, नाथ ^{नं०2962 ऐ} ईश्वर ^{नं०2316 ऐ} सर्वशक्तिमान जी ^{नं०3841 ऐ} जरिया यीशु जो बुलाया जाता है मसीह जां प्रभु गी (यहोवा), ऐ ^{एव 3068 ऐ}

कुंन ऐ “प्रभु (मुक्तिदाता) यीशु मसीह, थुआड़ा ईश्वर, कुंन ऐ मेमने दा (अर्नियन दा), ऐ ^{नं०721 ऐ} ते ईश्वर, जो में था मसीह

(रकुरिन्थियों ५:१९), ऐडब्ल्यूहो साडे वास्ते फिर आ जावेगा माध्यम नाल प्रभु ते मुक्तिदाता यीशु मसीह, ऐओह मेमना. ²⁰³

→ (“प्रकाशितवाक्य 19:6) 4वीं अलेलुया (सब स्वर्ग च: प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान राज करता ऐ)” होर मती जानकारी आस्तै.) ऐ।

(प्रकासित 4:9-11 ऐ) स्वर्ग ते धरती दे रचने आले परमात्मा दी पूजा सुर्ग च कीती जंदी ऐ

प्रकासित 4:9 ऐ ते जदू ओह जानवर (जीव) ^{नं०2226 ऐ}

जेड़ा सिंहासन उप्पर बैठे दा ऐ, जेड़ा सदा-सदा जिंदा रौंदा ऐ, उसी महिमा ते आदर ते धन्यवाद देओ।

प्रकासित 4:10 ऐ चार बीस बुजुर्ग उस सिंहासन उप्पर बैठे दे सामने डिग्गी जंदे ना

ते जेड़ा युगों-युगों च जिंदा ऐ, उदी आराधना करो, ते उंदे मुकुटें गी सिंहासन दे सामने सुट्टी देओ।

प्रकासित 4:11 ऐ तू योग्य हो, हे प्रभु (kyrios), ^{नं०2962 ऐ} महिमा ते आदर ते शक्ति पाने आस्ते; ^{नं०1411 ऐ}

कीहके तू ही रचया ऐ ^{नं०2936 ऐ} सारी चीजां, ते तेरी खुशी आस्ते ओह रचे गेदे न ते पैदा कीते गेदे ना ^{नं०2936 ऐ}

☞ प्रकासित 4:9 ऐ ते जदुं बी जीव सिंहासन उप्पर बैठे दा महिमा ते आदर ते धन्यवाद करदे ना

जो सदा-सदा जींदा ऐ,

☞ प्रकासित 4:10 ऐ चौबीस (24) बुजुर्ग उस गद्दी पर बैठे दे सामने गिर जांदे ने

ते जेड़ा सदा-सदा जिंदा रौंदा ऐ, उदी पूजा करो, ते उंदे मुकुट सिंहासन दे सामने सुट्टी ओड़ो।

☞ प्रकासित 4:11 ऐ “तुसीं काबिल हो, ओनाथ, महिमा ते आदर ते शक्ति पाने आस्ते;

लेई तुसीं सारे चीजां पैदा कीतियां, ते तेरी मर्जी नाल ओह मौजूद हन ते पैदा होए हना”

²⁰²संदर्भ देना उत्पत्ति 17:8 च & जकरयाह 8:8.

²⁰³“एक प्रभु” दे विस्तार लेई “(प्रकासित 11:15-16 ऐ) 7वें स्वर्गदत्त ने तुरही बजाई.”

- सिंहासन पर बैठे वाला: 1।ईश्वर(देखो प्रकासित 7:10 ऐ).

† मोहरलोगो दाइस किताब दी भविष्यवाणी दा²⁰⁴

रोटी यीशु दा शरीर ऐ जेड़ा मनुख दे पुत्र दा शरीर ऐ जेड़ा संसार गी जीवन दिदा ऐ। यीशु दा शरीर (या मनुख दे पुत्र दा शरीर, जेड़ा परमात्मा दी रोटी ऐ), जेड़ा साफ लिनन कपड़े (वस्त्र) च लपेटे दा ऐ ते खून च डुबोया गोदा ऐ, वचन (लोगोस) ऐ।^{#3056} परमात्मा दा.

परमात्मा दा पुत्र आदमी नहीं है^{#444} जेहड़े सिर्फ रोटी कन्ने गै जीदे न (केवल लोगोस नेई), पर ओह अपने आपै गी परमात्मा दा शरीर (बीज) ऐ^{#4690} (१ कुरिन्थियों १५:३८ दा), जो साडे कोल वचन (लोगोस) विच आया सी।^{#3056} परमात्मा दाशक्ति च ते पवित्र आत्मा च, जेहड़ा रेमा ऐ²⁰⁵

जेड़ा मांस परमेसरे मनुख दे पुत्र च असेंगी अनंत जीवन देने आस् ते मुहर लाया ऐ, ओह शब्द दें दी कताब ऐ (या...

किताब दा रेमा, ऐ^{#4487} रोम 10:8 ऐ, ऐ^{#1697} जिस पर अन्त दे समें तकर मुहर लगी दी ऐ (दान 12:4 ऐ).

- पत्थर, जिसगी बिल्डराने ने खारिज कीता, जिसदा जिक्र ऐ यीशु मसीह, कुंन ऐ मनुख दा पुत्र जां परमात्मा दे लोगो, ऐ सील कर दिया अंत दे समें तकर। रोटी (यीशु मसीह) ओह ईश्वर ऐ सील कर दिया गी मनुख दा पुत्र पत्थर है, जो है परमात्मा दे लोगो, ते ओह जिं दे पत्थर च बदली गया (रेमा दा) जदूं एह लुढ़की गेआ तां कब्र। कीजे प्रभु यीशु दा शरीर अविनाशी बनाई दिता गोदा हा, इस आस् ते ओह हुन धरती उप् पर नेई रेया कब्र जित्थे मरे होए पड़े हना

- (प्रभु दा तन) परमात्मा दी रोटी या परमात्मा दे लोगो²⁰⁶ में धर्मी मनुख में है मसीह, ते

इस रोटी (मनुख दे पुत्र दा शरीर) तीसरे दिन उठदा ऐ इकन्द इक हो जांदा ऐ कन्ने प्रभु दा तन, ऐ जो अंदर उकेरा हुआ है मसीह साडे वास्ते आध्यात्मिक मांस.

- (प्रभु दा खून) जेकर तुस इस गल्ल गी मन दे ओ यीशु ऐ मसीह गी, ऐ परमात्मा दा पुत्र, तुहाडे कोल होवेगा जीवन दे जरिए उंदे नां. औय जफ तुभ से नीते शो प्रभु दालहूसे पीकर प्रभु दा कप, ऐ परमात्मा दे लोगो तुहाडे विच में बदल जाएगा परमात्मा दा रेमा.

→ इस लेई प्रभु (क्योरिओस) च प्रकासित 4:11 ऐसादे गी संदर्भित करदा ऐ बापू स्वर्ग विच जो साडा बण गिआ ईश्वर, ऐके सृष्टिकतां आकाश ते धरती, जिसने “सारी चीजां”.²⁰⁷

→ एह स्वर्गीय पिता जीहो जाता है साडा ईश्वर की कृपा से ईश्वर दे राहें प्रभु यीशु मसीह गी.

²⁰⁴वीडियो 41. “परमेसर गी स्वीकार करने आस् ते प्रभु च बधी जाओ”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-भगवान-दे-भगवान-चल-बढ़ना/.

²⁰⁵वीडियो 14. “पवित्र आत्मा दा वरदाना”

www.therhemaofthelord.com/पश्चाताप-बपतिस्मा/14-पश्चाताप-बपतिस्मा-पवित्र-आत्मा/.

²⁰⁶वीडियो 30. “कम्यूनियन”) www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ ऐ.

²⁰⁷“सब चीजें” दे बारे च विस्तार कन्ने जानने लेई दिक्खो “प्रकासित 21:7 ऐ) विजयी (परमात्मा दे पुत्र).”

अध्याय 5 दा

(प्रकाशितवाक्य 5:1-6) 7 मुहरें कन्ने सील कीती गेदी इक किताब

प्रकाशित 5:1 ऐते में उस सिंहासन उपपर बैठे दे सज्जे हत्थ च इक किताब दिखी
ते पिच्छले पासे सत्त मुहरें कन्ने मुहर लाया गेदा हा।

☞ **प्रकाशित 5:1** ऐ ते में (यूहन्ना) उदे सज्जे हत्थ च दिक्खेआ (मेमने दा^{¶721}) जो गदी पर बैठे (इंधर)
अंदर ते पिच्छे लिखी दी किताब, **सील कर दिया** सात मुहरें कन्ने।

- जेड़ा मेमने दे सज्जे हत्थ च बैठे दा हा; **इंधर** इक किताब ऐ, जिस उपपर उं दे सज्जे पाससे 7 मुहरें कन्ने मुहर ऐ।²⁰⁸

† इस्राएल दे सारे घरे गी सूली उपपर चढ़ाया गेआ **यीशु**, पर **इंधर** वही बनाई **यीशु** दोएनाथ **तेमसीह**, ऐ²⁰⁹ ते मनुख^{¶444} ऐ, **एमसीह** **यीशु** अपने आप गी सारें आस्तै फिरीती देई दिता, जिसे उसी समें उपपर गवाही दिती जा (**१तिमिथि २:५-६**). पौलुस गी दमिशक च दिक् खे गेदे गल् लें गी सिखाने आस् ते प्रचारक ते प्रेरित नियुक्त किता गया, जेकी सुअर्गं थवां परमेसरे दी रोशनी ऐ (**प्रेरितों दे काम २६:१६**), गैर-यहूदी जातिं ऐ (जिं दे च यहूदी बी शामिल न, जेके इस गल् ला गी नेई मनदे के परमेसरे मरे दे लोकें गी जिंदा करदा ऐ; **प्रेरितों दे काम २६:८**), ते उं गी सुसमाचार दे जरिए पैदा कीता **मसीह** **यीशु**.²¹⁰

- कोई बी सीलबंद किताब खोलने दे काबिल नेई ऐ

प्रकाशितवाक्य 5:2 ते में इक बलवान सुर्गदूत गी ज़ोरदार आवाज़ च प्रचार करदे दिक्खेआ, “कताब खोलने दे काबिल ऐ
ते उदी मुहरें गी ढीला करना ?

प्रकाशित 5:3 ऐते ना कोई सुर्ग च, ना धरती (जमीन) चा^{¶1093} ना ही धरती (जमीन) दे हेठ), ऐ^{¶1093} ऐ

किताब खोलने च कामयाब होई गेआ, ते ना गै उसी दिक्खी सकदा हा।

प्रकाशित 5:4 ऐते में मता रोया, कीजे कोई बी किताब खोलने ते पढ़ने दे काबिल नेई लब्भा।

ना ही देखना (देखना)^{¶991} ऐ उस पर।

☞ **प्रकाशितवाक्य 5:2** उस बेले में इक बलवान सुर्गदूत गी उच्ची आवाज़ च प्रचार करदे दिक्खेआ।

“कौन खोलने दे काबिल ऐ **किताब दाते** अपने गी ढीला करना **मुहरें दा?**”

☞ **प्रकाशित 5:3** ऐते सुर्ग च ते जमीन उपपर ते जमीन दे थल्ले कोई बी नेई खुल्ली सकदा हा **किताब दा**, या इसे देखना।

☞ **प्रकाशित 5:4** ऐस करिए में मता रोया, कीजे कोई बी खोलने ते पढ़ने दे काबिल नेई लब्भा **किताब दा** या इसे दे खने के लरए।

- जेड़ा किताब दी मुहरें गी खोलने ते ढीला करने दे काबिल ऐ: ना कोई सुर्ग च, ना जमीन उपपर, ते ना गै जमीन दे थल्ले।

- यहूदा दे गोत्र दा शेर, दाऊद दी जड़ किताब दे 7 गी खोलने आस्तै **मोहर** ऐस

प्रकाशित 5:5 ऐते इक बुजुर्ग मिगी आखया, “ मत रोओ;

शेर दा^{¶3023} यहूदा दे कबीले दा, दाऊद दी जड़,

हावी हो चुका है (हाई)^{¶3528} किताब खोलने के लिये, ते उं दे सत्त मुहरें गी ढीला करना।

☞ **प्रकाशित 5:5** ऐलेकन इक बुजुर्ग ने मिगी (यूहन्ना) आखया।

“न रोओ दिखो, **शेर दा** **आहलायहूदा दा गोत्र**, दाऊद दी जड़,

खोलने पर काबू पा लेया है **किताब दाते** अपने सात (**7**) **मुहरें दा**.”

➤ **शेर दा**^{¶3023} ऐ

- **इक जवान शेर** (मजबूत दा एच 738 ऐ) एच 738 ऐ एच 1482 ऐ: यहूदा गी “शेर दे जवान” दे रूप च वर्णन कीता गेदा ऐ।

(**उत्पत्ति 49:9** च यहूदा शेर दा ऐ) एच 738 ऐ **whelp**^{एच 1482} ऐ: शिकार कोलां, मरे पुतर, तू चली गेदा ऐ।

झुक गया, शेर दे समान सोफे पर बैठा, एच 738 ऐ

²⁰⁸संदर्भ देना प्रकाशित 7:10 ऐ.

²⁰⁹वीडियो 12. “यीशु मसीह दी पीढ़ी।” www.therhemaofthelord.com/अनश्रेणीबद्ध/12/ ऐ.

²¹⁰वीडियो 16. “गैर-यहूदी, सारे जाति (प्रेरित पौलुस) 1/10” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

ते बुजुर्ग शेर दे रूप च [738](#); कुन उसी जगाग ?)

→ की पीढ़ी से [यीशु मसीह](#), अब्राहम थमां लेइयै दाऊद तकर दी 14 पीढ़ियां न,
दाऊद कोला लेइयै बाबुल च लेई जाने तकर १४ पीढ़ियां, ते
14 पीढ़ियां बाबुल च लेई जाने थमां लेइयै [यीशु](#).²¹¹

→ दाऊद की जड़: [रब दाबेटा \[यीशु मसीह\]\(#\) सादानाथ](#), ऐशरीर दे मताबक दाऊद दे वंश च बने दा
([रोम 1:3](#) ऐ).

→ जो किताब दी मुहें गी खोलने ते ढीला करने दे काबिल ऐ: संदर्भ करो [प्रकासित 5:6 ऐ-8](#).

मूसा ते... [यीशु](#) इस्त्राएल दे बारां गोत्रें थमां निकले दा ऐ, पर मूसा इस्त्राएल दे इक इब्रानी दा ऐ
लेवी दा कबीला ते [यीशु](#) यहूदा दे कबीले दा ऐ²¹²

- कबीले दे मतभेद दे बावजूद बी उंदे च इक गै पूर्वज शामिल न: अब्राहम, इसहाक ते याकूब²¹³

• [शेरें दा](#) [744](#) ऐ [3023](#) ऐ

[शेरें दा](#) [744](#) ऐ (थमां [च 738](#) ऐ, इक बूढ़ा शेर) [738](#) ऐ: इस्त्राएल दे 12 गोत्र जिंदे च याकूब दे 12 पुत्र शामिल न, ऐ [रब दाइक कौम](#), इस्त्राएल ([रसा ७:२३](#)
[ऐ](#)).²¹⁴ क्योंकि इक राष्ट्र इस्त्राएल दे बारां गोत्रें च इक, यहूदा, इक जवान शेर ऐ, तां जेड़ा बुजुर्ग शेर राजा फरमान स्थापित करदा ऐ” “इक राष्ट्र इस्त्राएल दा राजा” दा
प्रतिनिधित्व करदा ऐ, जेड़ा ऐ [मसीह](#).²¹⁵

([दान 6:7](#) ऐ राज्य दे सारे अध्यक्ष,

राज्यपाल, ते राजे, सलाहकार ते कप्तान ने इक साथ सलाह-मशवरा किता ऐ
शाही (राजा) स्थापित करना [743](#) ऐ विधान (फरमान) दा, ऐ [7010](#) ऐ ते इक पक्के फरमान देना,
कि जेड़ा कोई किसे परमातमा कोला विनती मंग [426](#) ऐ या मनुख [606](#) ऐ तीस दिनें तकर,
तेरे गी छोड़िये, हे राजा, ओह शेरें दे मांद च सुट्टी दिता जागा [744](#) ऐ)

- ओहनाथ ([यहोवा](#)) दा संदर्भ दिंदा ऐ [मसीह](#) एनटी च, ते ओह शेर भेजदा ऐ [738](#) ऐ उमें गी जेड़े उंदे कोला डरदे नेई ([राजा १७:२५](#)). क्योंकि दानियेल प्रभु कोला
डरदा हा ([यहोवा](#)), परमातमा दा [426](#) ऐ दानियेल दा जेड़ा जिंदा परमात्मा ऐ, [426](#) ऐ दानियेल गी शेरें दी शक्ति थमां छुड़ाया ([दान 6:26 ऐ-7](#)).

([राजा १७:२५](#) ते उंदे उल्लेख रौहने दे शुरू च बी इयू यां गै हा।

कि ओह प्रभु कोलां डरदे नेई हे ([यहोवा](#)): [1](#) [3068](#) ऐ

इस करिए प्रभु ([यहोवा](#)) [3068](#) ऐ शेर भेजे [738](#) ऐ उंदे च, जिसने उंदे च किश गी मारी दिता।)

- मारे गेदे मेमने दे 7 सींग & 7 अक्खं (The 7 Spirits of God)

[प्रकासित 5:6](#) ऐ ते मैं दिखया, ते दिखया, सिंहासन ते चार जीव-जंतुएं दे बिच्चा [2226](#) ऐ

ते बुजुर्गें दे बीचा [4245](#) ऐ खड़ोना [इक मेमना](#) (अर्नियन दा) [721](#) ऐ जिय्यां उसी मारी दिता गेदा हा,

सात सींग ते सात अक्खीं आह्ने,

जेड़े परमात्मा दे सत्त आत्माएं न जिनेंगी सारी धरती (जमीन) च भेजे गेदे ना [1093](#) ऐ

☞ [प्रकासित 5:6](#) ऐ ते मैं दिखया, ते दिखया, सिंहासन ते चार (4) जीव-जंतुएं दे बिच्चा

ते बुजुर्गें दे बिच्च खड़ोते दे हे [इक मेमना](#) (अर्नियन) [721](#) ऐ मानो मारी दिता गेदा होए, ऐ

सात (7) सींग ते सात (7) अक्खीं होन वाले,

जेड़े परमात्मा दे सत्त (7) आत्माएं न, जेड़ी सारी धरती च भेजे गेदे ना

²¹¹वीडियो 16. “गैर-यहूदी (मसीह दा रहस्य)।” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

²¹²की पीढ़ी से [यीशु मसीह](#), अब्राहम थमां लेइयै दाऊद तकर 14 पीढ़ियां, दाऊद थमां लेइयै 14 पीढ़ियां न

बाबुल च लेई जाने ते बाबुल च लेई जाने थमां लेइयै 14 पीढ़ियें तकर [यीशु](#).

²¹³वीडियो 6. “आदम थमां लेइयै [यीशु](#) तकर दी पीढ़ियें दी कताबा”

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशु-इजराइल-दे-पुत्र-पीढ़ियों-दी-पुस्तक/.

²¹⁴वही वीडियो 6. “इस्त्राएल & इस्त्राएल दे पुत्रा”

²¹⁵वीडियो 38. “[यीशु](#) दे सूली उपर चढ़ाया जाना”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-यीशु-दे-सूली-च-चढ़ाने-दे-दो-चौरें-गी-यीशु-दे-बगल-च-सूली-च-चढ़ाया-गेआ/.

➤ **मेमने दा**(अम्नोस)^{कौ०286 रे} & **मेमने दा**(अर्नियन)^{कौ० 721 रे}

- तुस इस आस्ते बेखमीर ओ **मसीह**साडा फसह साडे किचे बलिदान किता वेंदे (**१कुरिन्थियों ५:७**), ते इस चाल्ली **आर**के कीमती खून कन्ने **edeemed मसीह**, जिवें किसे मेमने दे **कौ०286 रे** बिना दाग ते बिना दाग (**१पतरस १:१९**).

→ **यीशुहा मेमने दा**(**एच 7716 ऐ, शे**) आहला **ईश्वर**, ऐजिसगी होमबलि दे रूप च बलिदान दिता गेदा ऐ संसार दी शुरुआत (**उत्पत्ति 22:7 ऐ, ऐजहन्ना 1:29 ऐ**), फिर आया पाप दूर करन लई दुनिया ते मारी दिता जिवें **इक मेमना**(**जी286 ऐ, अम्नोस, जहन्ना 1:29 ऐ**) फिर राज करने आला दे रूप च आना **मेमना** (**जी 721 ऐ, अर्नियोन, प्रकासित 5:6 ऐ**).

ईश्वरउसी गै बनाई दिता **ऐयीशु**, जिसे तुसीं सूली उप्पर चढ़ाया ऐ, दोनों **नाथ ते मसीह**(**प्रेरितों दे काम २:३६**). मतलब, **मेमने दा**(अम्नोस)^{कौ०286 रे} **परमात्मा दा**(**यीशु, ऐजह 1:36 ऐ**), होमबलि दे रूप च चढ़ाया, बनी गेआ **प्रभु गी**(**यहोवा**) दा^{कौ० 3068 रे} **ईश्वर** सारे शरीर दा,²¹⁶ जो बन गया **इक मेमना**(अर्नियन)^{कौ० 721 रे} सिंहासन दे बिच्च ते बुजुर्गे दे बिच्च चार जानवरें दे बिच्च खड़ोते दे हे, जिंदे च सत्त सींग ते सत्त अकखीं न, जेडे सत्त आत्माएं **नईश्वर**सारे धरती च भेजेया।^{कौ०1093 रे} **प्रकासित 5:6 ऐ**).

(**प्रभु दी 7 आत्माएं**)

यशायाह ११:१ ऐते यिशै दे डंडे च इक छड़ी निकली जाग।
ते उंदी जड़ें च इक शाखा उगग।

यशायाह ११:२ते दी भावना **प्रभु गी**(**यहोवा**)^{कौ० 3068 रे} उदे उप्पर आराम करग, दी भावना **अकलमंदी**ते समझ, सलाह ते ताकत दी आत्मा,
ज्ञान दी भावनाते डर दा **प्रभु गी**(**यहोवा**),^{कौ० 3068 रे}

यशायाह ११:३ चते उसी जल्दी समझदार बनाई देग।^{कौ० 7306 रे}

के डर में **प्रभु गी**(**यहोवा**)^{कौ० 3068 रे}: ते ओह न्याय नेई करग
उदी अकखीं दे दिखने दे बा'द ते ना गै उदे कानें दे सुनने दे बाद डांटना।

- यिशै दा पुत्र दाऊद ऐ (**१सा १७:१२ ऐ**), ते दाऊद दी जड़ ऐ **रब दाबेटा, ऐयीशु मसीहसादानाथ**, जिसदे कोल 7 आत्माएं **नईश्वर**(बुद्धि, समझ, सलाह, पराक्रम, ज्ञान, ते प्रभु दा डर, ते परमेसरे दी आत् मा) उदे उप् पर टिकी गई, जिसे सारे धरती च भेजे गेदे परमेसरे दे भारे च खुशी ऐ। दानिय्येल, जेडा प्रभु कोला डरदा हा, उंदे च इक उत्तम आत्मा (प्रभु दी 7 आत्माएं) ही, इस चाल्ली उसी राष्ट्रपति ते राजकुमारें कोला बी मता तरजीह दिती गई ही, ते राजा ने उसी सारे राज्य उप्पर लाया (**दान 6:3 ऐ**) ते उसी शेरें दे मांद (**दान 6:27 ऐ**).
- उस पर ध्यान देते हुए **एमा दापबित्तर** नबी ते हुक्म दे जरिए पैहलें गै गू लाया गेदा हा **प्रभु ते मुक्तिदाता** प्रेरितों द्वारा बोली गई, **इं०१:१ ऐ** शुरुआत च लोगो हा, ते लोगो बी हा
परमात्मा दे कन्ने, ते लोगो परमात्मा हा” दी दुबारा व्याख्या इस चाल्ली कीती जंदा ऐ:

→ शुरु में **थालोगो दा, तेलोगो दा**(की चढ़ाना **मेमने दा**(अम्नोस),^{कौ०286 रे} जो न्हरे की जगह चमकती है) दे नाल था **ईश्वर**, **तेलोगो दा हा ईश्वर**, जदों दिन भोर रात दे न्हरे विचों टूट जांदा है (हत्या **देमेमने दा**(अर्नियन)^{कौ० 721 रे}), दी रोशनी **ईश्वर**तेरे दिलों में उठे और दीये को रोशनी **देमेमने दा**(अर्नियन दा) तुहाडे दिल विच ते महिमा विच **ईश्वर**हल्का करदा ऐ (**प्रकासित 21:23 ऐ**).

फिर, तुसीं गी याद और **एमा दा**जेड़ी पबित्तर भविष्यवक्ताएं ते हुक्मों दे आज्ञाएं आकखी ही **प्रभु**(**क्योरिओस**)^{कौ०2962 रे} **तेमुक्तिदाता**, प्रेरितों द्वारा बोली गई, (**२पतरस ३:२**).

इस चाल्ली असेंगी अनुग्रह च, ते अपने ज्ञान च बी बधना चाहिदानाथ **ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह**.

- उसदी महिमा हुन ते हमेशा लेई होवे। आमीन (**२पतरस ३:१८**).²¹⁷

²¹⁶वीडियो 6. “प्रभु (तुंदा) परमात्मा बनी जंदा ऐ।”

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशु-इजराइल-दे-पुत्र-पीढ़ियों-दी-पुस्तक/.

²¹⁷से कैद की गई प्रकासित 3:14 ऐ, जां वीडियो 44 दा संदर्भ लैओ। “शास्त्र दी भविष्यवाणी (2 पतरस 1) 2/2।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

→ **मेमने दा** (अर्नियन दा)^{¶721} **एनाथतेमुक्तिदाता यीशु मसीह (ईश्वर)**.²¹⁸

(प्रकाशितवाक्य 5:7-14 ए) पवित्र संत (जो मसीह विच यीशु दे नाल सोंदे हन) कू परमेश्वर दे राजा ते याजक बणा डित्ता वेंदे

प्रकासित 5:7 एते ओह आ के लेई लेया (प्राप्त)^{¶2983} किताब दासिंहासन उप्पर बैठे दे सज्जे हल्य थमां निकली आया।

☞ **प्रकासित 5:7** एफिर ओह (**मेमने दा**) आया
ते सिंहासन उप्पर बैठे दे सज्जे हल्य थमां किताब कड्डी लेता (**ईश्वर**).

- **मेमने दा** (अर्नियन)^{¶721} आयाओय नामा **किताब दादा** सज्जे हल्य तोंईश्वर जो सिंहासन पर बैठे.

- 4 जीव & 24 बुजुर्गा विच पवित्र संतां दी प्रार्थना (एक वीणा & धूप नाल भरे सोने दे कटोरे)

प्रकासित 5:8 एते जदुं उस ने लेई लेया (प्राप्त)^{¶2983} किताब दा, चार जानवर (जीव)^{¶2226}

ते चार बीस बुजुर्गा मेमने (अर्नियन) दे सामने डिग्गी गे।^{¶721}

हर इक गी वीणा ते सुगंध कन्ने भरोचे दे सोने दे कटोरे;^{¶2368}

जो संत (पवित्र संत) दी प्रार्थनाएं ना।^{¶40}

☞ **प्रकासित 5:8** एहेन जदुं उंनेगी लेई लेता हा **किताब दा**, 4 जीव-जंतु
ते 24 बुजुर्ग पैहें गै डिग्गी गे **मेमने दा**, ऐ
हर इक च वीणा, ते धूप कन्ने भरोचे दे सोने दे कटोरे, जेहड़े प्रार्थनाएं **नपवित्र संत गी**.

- कदू **मेमने दा** (अर्नियन दा)^{¶721} किताब मिली, 4 जीव ते 24 बुजुर्ग, हर इक दी प्रार्थनाएं ही **ओह पवित्र संत जी** (वीणा ते गंध कन्ने भरोची दी सोने दी शीशी) पैहें गै डिग्गी गेई ही **मेमने दा** (अर्नियन दा)^{¶721} जां **प्रभु**²¹⁹ **ईश्वर**²²⁰ (**प्रकासित 5:6** ए).

- पवित्र संत (जो मसीह विच यीशु दे नाल सोंदे हन) कू परमेश्वर दे राजा ते याजक बणा डित्ता वेंदे

प्रकासित 5:9 एते उने इक नमां गीत गाया ते आखया, “तू किताब लैने ते उसदी मुहर खोलने दे काबिल ओ।

की वे तू मारी ओड़ेया, ते अपने खून कन्ने सानु परमात्मा दे सामने छुड़ाया

हर रिस्तेदार (कबीले) विचों,^{¶5443} ते जीभ,^{¶1100} ते लोक,^{¶2992} ते राष्ट्र (गैर-यहूदी राष्ट्र, एकवचन)^{¶1484}

प्रकासित 5:10 एते असेंगी अपने परमात्मा आसै राजा बनाई दित्ता ऐ^{¶935} ते याजकें गी:^{¶2409} ते अस धरती (जमीन) उप्पर राज करगे।^{¶1093}

☞ **प्रकासित 5:9** एते उने (24 बुजुर्गें) इक नमां गीत गाया ते आखया।

“तू लेने दे काबिल हो **किताब दा**, और अपने खोलने के लिए **मुहें दा**;
कीजे तुस मारी गेदे ओ, ते असेंगी छुड़ाई दित्ता ऐ **ईश्वर** तेंरे खून से
हर कबीले विचों बाहर निकल केते जीभ ते लोक ते राष्ट्र (एकवचन रूप)।”

→ 4 जीव ते 24 बुजुर्गा ने दी दुआ दा नवां गीत गाया **पवित्र संत गी** (जो
जेड़े यीशु दे द्वारा मसीह च सुत्ते दे न, कहते हुए, **मेमने दा** को मार दिया गया **छड़काना** “**पवित्र संत गी**” परमात्मा गी
हर कबीले, भाशा, लोक ते कौम च उंदे खून दे द्वारा.)

- **ए मसीह** हो गया प्रथम फलमरे दे बीचा जिंदे होने दे बाद, जेड़े कोल सोए दे **नयीशु** (1थु 4:14 ए).²²¹

→ **पवित्र संत लोग** (जेके मसीह च यीशु दे द्वारा सोंदे न) परमेश्वर दे राजा ते याजक बनाई गेदे न और राज कर दे

²¹⁸संदर्भ देना **प्रकासित 3:12** ए.

²¹⁹जदू तकर एहू नेई दस्सेआ गेदा, लॉर्ड (kyrios, Strong's G2962) स्ट्रॉंग दी नंबर निर्दिष्ट कीते बगैर "प्रभु" दा संदर्भ दिदा ऐ.

²²⁰जदू तकर एहू नेई दस्सेआ गेदा, परमेश्वर (थियोस, स्ट्रॉंग दा जी2316) मजबूत दी नंबर निर्दिष्ट कीते बगैर "परमेश्वर" दा संदर्भ दिदा ऐ.

²²¹अध्याय 7 थमां “मसीह च जी उठने दा क्रम” दिक्खो।

प्रकासित 5:10 ऐ औय सानू फनामा शैराजाएं तेपुजारी जी को “साडेईधर”; ते अस जमीन उप्पर राज करोगे”

→ की दुआएं पवित्र संत सिंहासन उप्पर बैठे दे गी “सादाईधर.”

(तुस छुड़ाया)

१पतरस १:१८ की वे तोहे जानदे हो

तुस नेई हे छुड़ाया^{३०८४} प्रष्ट चीजें कन्ने, चांदी ते सोने दे समान,
तुदे पिता-पिता कोला परंपरा दे मताबक तुंदी व्यर्थ गल्लबात थमां;

१पतरस १:१९ पर दे अनमोल खून दे नाल मसीह, के रूप में इक मेमना (अम्नोस),^{२८६}

बिना दाग ते बिना दाग: 1।

१पतरस १:२० जेड़ा दुनिया दी सृष्टि कोला पैहलें गै निर्धारित किता गेदा हा।
लेकन इमें आखरी समें च तुदे आस् ते प्रगट हा।

१पतरस १:२१ ओह उदे द्वारा परमात्मा उप्पर विश्वास करदे न, जिने उसी मरे दे बीचा जिंदा किता।
ते उसी महिमा दिती; तां जे तुंदा विश्वास ते आशा परमात्मा च होऐ

१पतरस १:२२ ते तुस आत्मा दे जरिए सच्चाई दी आज्ञा मनने कन्ने अपनी आत्मा गी शुद्ध किता ऐ
भैं कन्ने बेढंगे प्रेम करने आस्ते, तुस इक दुए कन्ने शुद्ध दिल कन्ने प्यार करो।

१पतरस १:२३ नाश होने आले बीज कन्ने नेई, लेकन अविनाशी बीज कन्ने नमें सिरेआ जन्म लैना।

शब्द दे द्वारा (लोगो दा)^{३०५६} परमात्मा दा, जेड़ा जींदा ऐ ते हमेशा लेई रौंदा ऐ।

१पतरस १:२४ की वे सारे शरीर घास दे समान ऐ, ते मनुख दी सारी महिमा घास दे फुल्ल दे समान ऐ।
घास मुरझाई जंदा ऐ, ते ओस दा फुल्ल टुट्टी जंदा ऐ।

१पतरस १:२५ पर शब्द (रमा)^{४४७} प्रभू दा^{२९६} सदा टिकदा रेहंदा ऐ।

ते एह शब्द ऐ (रमा)^{४४७} जेड़ा सुसमाचार दे जरिए तुसें गी प्रचार किता जंदा ऐ।

- इक मेढ़क^{३५२} → इक मेमना (यीशु)^{२८६} → इक मेमना (अर्नियन)^{७२१} (जां मसीह)^{२२३} (नाथ ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह) → ईधर सर्वशक्तिमान जी

तुंते पिता-पिता कोला पैदा कीती गेदी नाशवान चीजें कन्ने नेई, लेकन दे पैहे खून कन्ने छुड़ाया गेदा हा मसीह, के रूप में इक मेमना (अम्नोस)^{२८६} बिना दाग ते धब्बे दे, जां लोगो, जेहड़ा शुरू च पेश कीता गेदा हा ते कन्ने गै हाईधर, ते थाईधर. एह मेमना (अम्नोस)^{२८६} पैहे गै निर्धारित कीता गेदा हा दुनिया दी नीह, ते बीच इक वाचा ईधर (एलोहिम) ते अब्राहम दी पुष्टि कीती गेई ईधर^{२३१६} च^{१५१९} मसीह.^{२२४}

एह मेमना (अम्नोस)^{२८६} तुंते आस् ते इमें अन् त समें च प्रगट होई गेदा हा, जिय् यां के मेमने दा (अर्नियन दा)^{७२१} जां प्रभू ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह, ईधर सर्वशक्तिमान जी. उदे जरिए तुस विश्वास करदे ओईधर, जिने उसी मरे दे बीचा जिंदा किता ते उदी महिमा दिती, तां जे तुंदा विश्वास ते उम्मीद ऐ ईधर.

- इस मारी मेमना (अर्नियन दा), ऐ^{७२१} कु'न सानु छुड़ाया कि ईधरहर कबीले, भाशा, लोक ते गैर-यहूदी जाति च उदे खून दे द्वारा, पाने दे काबिल ऐ किताब दा (थमां ईधर) ते उसी खोलना मुहरे दा, ते उनेंगी सादे आस्ते बनाया ऐ ईधर, राजा ते याजक उदे आस्ते जमीन उप्पर राज करने आस्ते.
- मल्कीसेदेक ने दी, उच्चे दा याजक एल्, इक महान महायाजक दा आलंकारिक प्रतिनिधित्व ऐ जेड़ा सुगे च चली जंदा ऐ, यीशु परमात्मा दा पुत्र (इब्रानियों 4:14 ऐ), ते एह यीशु, कु'न ऐ यीशु मसीह, ऐ प्रभू^{२९६२} सादा ईधर, गी प्रधान याजक बनाया गेआ^{७४९} मल्कीसेदेक दे क्रम दे अनुसार (इब्रानियों 6:20 ऐ). “तुस बी, जीवंत पत्थरें दे रूप च, इक आध्यात्मिक घर, इक पवित्र पुजारी (स्टोंग दी) बनाई गेदे ओ जी 2407 ऐ & जी 2409 ऐ), ऐ^{२४०६} आध्यात्मिक बलिदान चढ़ाने आस्ते, स्वीकार्य करने के लिये ईधर राहें यीशु मसीह” (१पीतर २:५).

इस आस् ते तुस इक चुनी दी पीढी ओ, राजी याजक ओ^{२४०६} इक पवित्र^{४०} राष्ट्र, खरीदी गई कब्जा; तां जे तुस उस दी स्तुति गी दस्सो, जिसने तुसें गी न्हरे थवां अपने अद्भुत कर्मों च सदेआ ऐलो^{५४५७} (१पतरस २:९).

²²²अध्याय 19 दे “[मसीह दे 1,000 साल दे राज दी शुरुआत] अदन दे बाग च” दा संदर्भ लैओ।

²²³शास्त्र १पतरस १:१९.

²²⁴संदर्भ देना प्रकासित 4:8 ऐ.

- तुस इक बारी दे लोक नेई हेईश्वर, पर हुन तुसीं दे लोक होईश्वर;
- तुसंगी दया नेई मिली ही, लेकन हुन तुसंगी मिली गई ऐरेहम.
- तुसंगी गी राजा ते याजक बनाया गेदा ऐ “अपनेईश्वर”, ते जमीन उप्पर राज करगा²²⁵

- सिंहासन दे बारे च स्वर्गदूतों दी गिनतरी

प्रकासित 5:11 ऐते में दिखया, ते में सिंहासन दे चारों पासे मते सारे सुर्गदूतों दी आवाज सुनी

ते जानवर (जीव)^{नं०2226} ते बुजुर्गों गी।
 ते उंदी गिनतरी बी ही **दसजहार**^{नं०3461} **चारदस जहार**, ऐ^{नं०3461}
 ते **हजारों दी**^{नं०5505} **आहलाहजारों दी**,^{नं०5505}

☞ **प्रकासित 5:11** ऐउस बेले में दिखया, ते में सिंहासन दे चारों पासे मते सारे सुर्गदूतों दी आवाज सुनी।

जीव-जंतु ते बुजुर्ग; ते उंदी गिनतरी 10,000, 10,000 ते 1,000, 1000 ही।

- **दसजहार** (१०,०००) दा^{नं०3461} **& जहार**^{नं०5505}
इब्रानियों 12:22 ऐलेकन तुस सियोन दे पहाड़ उप्पर आई गेदे ओ।
 ते जिंदे दे नगर **गीईश्वर**, सुर्गीय यरूशलेम,
 ते इक असंख्य कंपनी गी (**दस जहार**)^{नं०3461} **स्वर्गदूतों** दा, ऐ
जदे 1:14 ऐते हनोक बी, जेड़ा आदम दे सतमें ऐ^{नं०76} उन्दे बारे च भविष्यवानी किती।
 देखो, ऐप्रभू^{नं०2962} साथ आता है **दस हजारों दी**^{नं०3461} अपने संत (पवित्र) दा, ऐ^{नं०40}

- **सुर्गदूतों दी गिनतरी: 10,000 दे दशक**
 → जिंदे नगर दे सियोन पहाड़ उप्पर सुर्गदूतों दी गिनतरी **ईश्वर**, सुर्गीय यरूशलेम,
 ऐ **10 हजार दीएस**.
 (सुर्गदूतों, जीव-जंतुएं ते बुजुर्गों दी गिनतरी जेहडे दे गद्दी दे चारों पासे न
 मेमने ते परमात्मा गी 10,000 दी इकाइयें च दर्शाए गेदे न)²²⁶

भजन संहिता 68:16 हे ऊंची पहाड़ियां (पहाड़) क्यों कूददे हो^{नं०2022}? एह पहाड़ी (पहाड़) ऐ^{नं०2022}
 जिस परमात्मा (**एलोहिम**)^{नं०430} च रौहने दी इच्छा रखदा ऐ; हां, यहोवा (**यहोवा**)^{नं०3068}
 उस च हमेशा लेई रौहया।

भजन संहिता 68:17 रथों दापरमात्मा दा (**एलोहिम**)^{नं०430} बीस हजार (**दस जहार**), ऐ^{नं०7239}
 धोड़ी **हजारों दी**^{नं०505} **स्वर्गदूतों** दा: प्रभू (**‘ādōnay**)^{नं०136} उंदे च ऐ, जिय्यां सीने च,
 पवित्र में^{नं०6944} धाहर.

- **परमात्मा दे रथ: 10,000 दे**
 → ईश्वर (**एलोहिम**) सियोन पहाड़ उप्पर रौहने दी इच्छा रखदा ऐ जिल्थें प्रभू (**यहोवा**) सदा वास करदा ऐ।
रथों दा आहलाईश्वर (**एलोहिम**)^{नं०430} न **10 हजार दीएस**, ऐ^{नं०7239} ते सुर्गदूत वी हन **1,000 दीएस**^{नं०505} : 1।
प्रभू (**‘ādōnay**)^{नं०136} उंदे च शामिल ना।
 → प्रभू इस्राएल दे सारे पुत्रों कन्ने सियोन पहाड़ उप्पर रौंदा ऐ, जिनेंगी छुड़ाया गेदा ऐ
 जमीन (**1,000 दीस्वर्गदूतों** दा एस). प्रभू जीके रथों के साथ हैईश्वर (**10 हजार दीएस**)
 जो की गद्दी के आसपास गोल है **मेमने दातेईश्वर**.
 → सुर्गदूतों दी गिनतरी (10,000) ते परमात्मा दे रथ (10,000) गोल
 मेमने ते परमात्मा दे सिंहासन दे बारे च 10,000,
 जो है **100,000,000 दे दी** (10 हजार दीएस 10 हजार दी).

²²⁵“(प्रकासित 20:4 ऐ) 144,000 ते महान संकट संत मसीह दे नाल 1,000 साल तक राज करन.”

²²⁶(प्रकासित 7:4-8 ऐ).

- सिन्धुन पहाड़ उप्पर सुर्गदूतें दी गिनतरी, स्वर्गीय यरूशलम (दी इकाइयां च **10 हजार दीएस**), मेम्ने ते परमेसरे दे सिंहासन दे चारों पासे दे सुर्गदूतें दी गिनतरी ऐ (**10 हजार दीएस**) दे रथें कन्नेईश्वर (**10 हजार दीएस**). प्रभु सिन्धुन पहाड़ उप्पर बसदे नइम्हाएल दे सारे पुत्तों गी जमीन थमां छड़ाया गेआ (**1,000 दीएस**). कीजे परमेसरे अपने सारे लोकें कन् ने रौहना चांहदा ऐ, इस आस् ते ओह लइने आस् ते सुर्गदूतें गी ढीला करी ओइगरब दालोक;

→ “**मैं(ईश्वर)उंदे च रौहग ते उंदे च चलग;**
ते मैं उंदा परमात्मा बनगा। ते ओह मेरे लोक होंगन.”²²⁷

- लायक है मेमना जो मारा गया

प्रकासित 5:12 ऐजोर नाल (महा) कहदे^{¶3173} आवाज, योग्य ऐ मेमना (अर्नियन)^{¶721} कि मारा गया प्राप्त करना
 ताकत^{¶1411} ते धन-दौलत, ^{¶4149} ते बुद्धि, ^{¶4678} ते ताकत, ^{¶2479}
 ते इज्जत, ^{¶5092} ते महिमा, ^{¶1391} ते आशीर्वाद देना।^{¶2129}

☞ **प्रकासित 5:12** ऐबड़ी आवाज में कहते हुए, योग्य है **मेमने दा** जो मारा गया
 शक्ति ते धन, ते बुद्धि, ते ताकत, ते आदर, ते महिमा ते आशीष पाने आस्ते।

- “लायक है **मेमने दा**”^{¶721} जेड़ा शक्ति, धन, बुद्धि, ते ताकत, ते आदर, ते महिमा ते आशीष पाने आस्ते मारी दिता गेदा हा।”²²⁸

- परमात्मा ते मेमने दा सिंहासन (स्वर्ग ते धरती दे सारे प्राणी परमात्मा & मेमने दी पूजा करदे न)

प्रकासित 5:13 ऐते हर इक प्राणी जेड़ा सुर्ग च ते धरती उप्पर ऐ।^{¶1093}
 ते धरती (जमीन) दे हेठ,^{¶1093}
 ते जेड़े समुंदरे च न, ते उंदे च जेड़े सारे न, उनेंगी मैं ए आखना सुनेया।
 आशीर्वाद दे, ते आदर, ते महिमा, ते शक्ति (प्रभुत्व),^{¶2904}
 जेड़ा सिंहासन उप्पर बैठे दा ऐ, ते मेमने दे कन्ने हो^{¶721} सदा ते सदा वास्ते।

प्रकासित 5:14 ऐते चार जानवर (जीव)^{¶2226} आख्या, आमीना
 ते चार बीस बुजुर्ग^{¶4245} गिरी के उस दी पूजा किती जेड़ा सदा-सदा जींदा ऐ।

☞ **प्रकासित 5:13** ऐ ते हर इक प्राणी जेड़ा सुर्ग च ते जमीन उप्पर ते जमीन दे थल्ले ऐ।
 ते ऐसे जिवें विच हन^{¶1909} समुंदर दा, ते उन्दे च जेड़े बी न, उनेंगी मैं (यूहन्ना) आखदे सुनेया।
 आशीर्वाद दे, ते आदर, ते महिमा ते प्रभुत्व, ऐ
 जेड़ा सिंहासन उप्पर बैठे दा ऐ (**ईश्वर**), ते करने आस्ते **मेमने दा** सदा ते सदा वास्ते।

☞ **प्रकासित 5:14** ऐ फिर चार (4) जीवों ने कहा, “**आमीन!**”
 ते चौबीस (24) बुजुर्ग डिग्गी गे ते उदी भक्ति करदे रेह जेड़ा सदा-सदा जींदा ऐ।

→ हर प्राणी में **सुरग** ते होर **वीधरती गी (जमीन पर, ऐजमीन दे थल्ले, ते समुंदर में)** कहते हैं
 “सिंहासन उप्पर बैठे दे परमात्मा ते मेम्ने गी आशीष, आदर, महिमा ते प्रभुता।”

²²⁷ २कुरिन्थियों ६:१६, ऐया “(प्रकाशितवाक्य १:१३-२१) 6वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई (The 2nd owe).”

²²⁸ “शक्ति” दे बारे च विस्तार कन्ने जानने लेई, वीडियो 26, “प्रभु दा फसह (नमां नियम)”, वीडियो 27, “(मांस, आत्मा, ते आत्मा) भजन संहिता 23”, वीडियो 35, “(प्रेरित) शक्ति कन्ने चले ते... अशॉरिटी”, वीडियो 39, “पहला आदम & आखरी आदम”, वीडियो 40, “4. पेटेकोस्ट”, वीडियो 43, “(आत्मा दे नेतृत्व च) परमेसरे दे पुत्तर”, ते वीडियो 49, “मुक्ति दा सफर”)।

(प्रकाशितवाक्य 6:1-2) 1st सील दा खुलना (एक सफेद घोड़ा, इक धनुष & इक मुकुट)

प्रकाशित 6:1 ऐते में वेख्या कि जदों मेमने (अर्नियन) ^{¶721} इक महर खोली, ऐ ^{¶4973} ते में सुनेया।

जि'यां गरजने दा शोर,

चारों में से इकजानवर (जीवित जीव) ^{¶2226} आखदे होई, आओ ते दिखो।

☞ प्रकाशित 6:1 ऐ अब कब दे खा **मेमने दा इक महर खोली**;

ते में चार (4) जीव-जंतुएं च इक गी गरजने आली आवाज च आखदे सुनेया, “आओ, दिखो।”

➤ सील कौन खोलदा है?

- **मेमने दा** (अर्नियन दा) ^{¶721} सत मुहें गी खोलदा ऐ **यीशु**, जो होमबलि दे रूप च चढ़ाया जंदा **इक मेदक** ('अयिल, उत्पत्ति 22:13 ऐ), ऐ ^{¶352} इस दुनिया च आया जिंवे **इक मेमना** (अमनोस) ^{¶286} आहलाईश्वर (जहन्ना 1:29 ऐ) ते हो गया **इक मेमना** (अर्नियन) ^{¶721} (**जामसीह**, ऐ १पतरस १:१९) ते साढ़े आस्ते इनें अंत समें च प्रगट होई गेआ, जि'यां **प्रभु** ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह (**ईश्वर सर्वशक्तिमान जी** (१पतरस १:२०)).²²⁹

→ चार जीवां विचों इक कहंदा है, “आओ देखो।”

→ दाऊद दी जड़ ऐ **रब दाबेता यीशु मसीह साद्वानाथ** जेड़ा दाऊद दे वंशज दे मताबक बने दा ऐ

मांस (प्रकाशित 5:5 ऐ, ऐरोम 1:3 ऐ). जिसने खुलने पर काबू पाया है **किताब दा**, ते डीला करना एह ऐ

सात (7) **मुहें दा ऐ मेमने दा** (अर्नियन दा), ऐ ^{¶721} **कबीले दा शेर यहूदा दा**, दाऊद दी जड़, जो है

रब दाबेता यीशु मसीह साद्वानाथ (प्रकाशित 5:5 ऐ, ऐरोम 1:3 ऐ).

- इक सफेद घोड़ा & इक धनुष (मुकुट दिता गेदा)

प्रकाशितवाक्य 6:2 ते में इक गोरा दिखया ^{¶3022} घोड़ा: ते जेड़ा उदे उप्पर बैठे दा हा, उदे कोल धनुष हा;

ते इक मुकुट (στέφανος ऐ, स्टेफानोस ने दी) ^{¶4735} उसी दिता गेदा हा; ^{¶3528}

ते जीतने दा ^{¶3528}

☞ प्रकाशितवाक्य 6:2 ते में दिखया ते दिखया **इक गोरा घोड़ा**. जिसने इस पर बैठे हुए उसे था **इक धनुष**;

ते **इक मुकुट** दी गई उदे कोल, ते ओह जीत ते जीत हासल करने आस्ते निकली गेया।

➤ घोड़ा क्या है?

- **घोड़े दा युद्ध** दे दिन दे खिलाफ तैयार कीता गेदा ऐ, ते मुकु ति दा ऐ **प्रभु गी (यहोवा)**. ^{एव 3068 ऐ}
प्रो 21:31 ऐ घोड़े दा ^{एव 5483 ऐ} लड़ाई (युद्ध) दे दिन दे खिलाफ तैयार कीता गेदा ऐ. ^{एव 4421 ऐ}
पर सुरक्षा (मुक्ति) ^{एव 8668 ऐ} की है **प्रभु गी (यहोवा)**. ^{एव 3068 ऐ}

➤ जिससे दी गई **मुकुट दा** (στέφανος ऐ, स्टेफानोस) ने दी ^{¶4735} ते केहड़ा मुकुट हा?

- **मती 27:29 ऐ** ते जदुं उनें गी मुकुट चढ़ाया (στέφανος ऐ, स्टेफानोस) ने दी ^{¶4735} कांटे दा, उसे उदे (यीशु) सिर, ते उदे सज्जे हल्य च इक खढ़, ते उने उदे सामने घुटने झुका के उदा मजाक उड़ाया, ते आखया, "यहूदियों दे राजा, जय!
→ **यीशु**, यहूदियां दा राजा, पहनदा हा **मुकुट दा** (स्टेफानोस) कांटे दा.
→ **यीशु** यहूदियों दा राजा, परमात्मा दा पुत्र ऐ, ते **मसीह**, यहूदियों दा ए राजा, इस्राएल दा राजा ऐ.²³⁰
(जहन्ना 19:5 ऐ) फिर आया **यीशु** आगे, पहनना **मुकुट दा** (στέφανος ऐ, स्टेफानोस) ने दी ^{¶4735} कांटे दा, ते **बैंगनी रंग दा चोला**। पिलातुस ने उन्डे कन्ने आखया, "दिखो, ओह मनुख!" ^{¶444 ऐ}
→ **परास्त करने वाले न मुकुट दा खूश होने दा प्रेरितें** (प्रेसतें दे **प्रभु ते मुक्ति दा ता**), ऐ

²²⁹वीडियो 13. "शब्द (लोगोस & रेमा)" www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा दा-वरदान/.

"आओ ते दिक् खो" दे बारे च, वीडियो 15, "नासरत दा यीशु & नासरत दा यीशु मसीह" दिक्खो।

[www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/15/ ऐ](http://www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/15/).

²³⁰वीडियो 38. "यीशु दे सूली उप्पर चढ़ाया जाना।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-यीशु दे सूली च चढ़ाने दे दो चौरें गी यीशु दे बगल च सूली च चढ़ाया गेआ/.

रुपतरस ३:२), ऐ²³¹सादी मौजूदगी चप्रभु यीशु मसीह उंदे आने पर।

१थुन २:१९ ऐकीहके साडी आशा, जां खुशी, जां मुकुट कीह ऐ (στέφανος ऐ, स्टेफनोस) ने दी।⁴⁷³⁵ ऐखुश होने दा?

के तुस बी साडे सामने नेई ओप्रभु यीशु मसीहउंदे आने पर?

फिलिपिन्स 4:1 ऐइस आस् ते मेरे भ्राए प्यारे ते तड़पदे हे।

मेरी खुशी ते मुकुट (στέφανος ऐ, स्टेफनोस) ने दी, ऐ⁴⁷³⁵ तो तेजी से अंदर खड़े हो जाओप्रभु, मेरे प्यारे प्यारे।

१थुथु ३:१३ अन्त तक ओह (प्रभु) परमात्मा दे सामने पवित्रता च निर्दोष अपने दिलें गी स्थिर करी सकन,

साडे पिता बी, साडे आने परप्रभु यीशु मसीहअपने सारे संत दे कन्ने।

➤ जिस पर बैठाइक सफेद घोड़ा?

- जेड़ा सफेद घोड़े उप्पर बैठे दा हा: दा परीप्रभु।

- दा परीप्रभु गी(यहवा), ऐ³⁰⁶⁸ कु'न ऐप्रभु('ādōnay) दा¹³⁶ ईश्वर(y^{hōvâ})³⁰⁶⁹ (न्याय 6:22 ऐ), ऐ

प्रभु दे सामने (यहोवा)³⁰⁶⁸ ऐ (रसा 7:18 ऐ)।²³²

→ इस परी दाप्रभु गी(यहवा) लांदा ऐरेमा दाप्रभु दा ('ādōnay)¹³⁶ ईश्वर (y^{hōvâ}), ऐ³⁰⁶⁹ ऐ

जो हेईश्वर ('एलोहिम)⁴³⁰ ऐ जो सच्चा है (रसा ७:२८ ऐ)।

→ रेमा दाछिपे दा ऐ, जदं तकर तुस विश्वास नेई करो के मनुख दे पुत्र गी उंदे हत्ये च सौपी दिता गेदा ऐ

पुरुष।²³³ दूजे शबदां च, रेमा दाचाहना विश्वास करने आलें गी प्रकट होंदे नयीशुजियांपरमातमा दा पुत्र।

➤ केह ऐइक धनुष?

- उत्पत्ति ९:१३ में अपना धनुष जरूर सेट करदा हा⁷¹⁹⁸ बादल में, ऐ⁶⁰⁵¹ ते मेरे ते धरती दे बीच इक वाचा दा निशान होगा।

→ इक धनुष: परमात्मा ते धरती दे बीच इक वाचा दा निशान, ते धनुष दा इब्रानी शब्द (एच 7198 ऐ) जरिया

युद्ध च धनुष चलाना" ते इस चाल्ली "तीरंदाज" गी संदर्भित करदा ऐ जेहड़ा "निशान मारदा ऐ।"

"एक धनुष" दा प्रतीकात्मक अर्थ ऐ "परमातमा दी धार्मिकता," ते "निशान मारा" इस चाल्ली ऐ:

→ "आत्मा दी(तीरंदाज) गीमोहर(मारो)पवित्र संत गी(निशान दा)"।²³⁴

(भजन संहिता 76:3उथे (सिय्योन विच) उसने तीर तोड़ दिता⁷⁵⁶⁵ धनुष दा, ⁷¹⁹⁸ ढाल,

तेतलवार दा, ऐ²⁷¹⁹ ते लड़ाई।)

- "धनुष" दा प्रतीकात्मक निशान - "पाप" ते "सुली उप पर यीशु दी क्रूर मौत" दे बिच बाइबल दा संबंध।

उत्पत्ति ९:१३ में (ईश्वर) करो सेट मेराधनुष(ऐ) ⁷¹⁹⁸ बादल च,

ते मेरे बीच इक वाचा दा निशान होग (ईश्वर) तेधरती गी।

→ के लिए इब्रानी शब्दधनुष(मजबूत दाएच 7198 ऐ) दा मतलब ऐ "लड़ाई च धनुष चलाना" ते इस चाल्ली इसदा मतलब ऐ

तीरंदाज." "पाप" शब्द इब्रानी भाशा, "हता", मजबूत दी भाषा थमां आया ऐएच2398 ऐ," जिसदा मतलब ऐ

"निशान चूक जाओ, दी गल्ल करदे होईइक तीरंदाज."

- इसलेई, "पाप" गी परिभाषित कीता जाई सकदा ऐ "तीरंदाज जो अपनी निशानी चूकदा ऐ" जां "जिनेंगी मुहर नेई लाया जाई सकदा उंदे पापें दे कारण आत्मा गी."

- ऐउत्पत्ति 44:32 चयूसुफ ते उंदे भ्राएं दी इक कहानी दस्सदा ऐ: जदूं यूसुफ मिस्र दा गवर्नर हा, तां उने ए

बिन्यामीन दी बोरी च चांदी दा प्याला बेंजामिन गी हिरासत च लैने दी कोशश च, जिस पर चोर होने दा इल्जाम लाया गेदा ऐ

(उत्पत्ति ४४:१-17 ऐ). फिरी यहूदा ने यूसुफ कूं आख्या कि ओ अपणेह छोटे दे वास्ते "दोष (पाप, हता)" घिनसी

भाई, बेंजामिन (उत्पत्ति 44:32 च). इथें, पाप(हता), एच2398 ऐ), दा अनुवाद इस चाल्ली कीता गेदा ऐइल्जाम उठाना: 1।

²³¹वीडियो 44, "शाख दी भविष्यवाणी (2 पतरस 1) 2/2" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शाख-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

²³²से कैद की गईप्रकासित 4:8 ऐ

²³³वीडियो 25. "एक कड़ी कहावत (द लोगो) 1/2!"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-एक-कठिन-कहने-दे-लोगोस-देव-दे-कम्म/.

²³⁴वीडियो 21. "वादा, बाहर दा खतना, अंदर दा खतना!"

www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-वादे-बाहर-खतना-अंतर-खतना/.

→ “जेकर मैं उसी तुं दे कोल नेई लेई औना, तां मैं अपने पिता गी हमेशा लेई 'दोष (हता)' चुकना ऐ” (उत्पत्ति 43:9 च).

- ऐ १ पतरस दाप्रमाणित करदा ऐ के एह सादा ऐमसीह जो 'दोष (या पाप) कू उठाया' क्रूस उते मर के तां कि अस्सां... (विश्वास वालेमसीह, एरोम 10:4 ऐ) 'पापें आस्तै मरे दे न ते धार्मिकता आस्तै जींदे न' (१पीतर २:२४).

इस चाल्ती सादे पाप माफ होई जंदे न ते शुद्ध होई जंदे न जेकर... अस अपने दिले थमां इकरार करदे आं जे...यीशु मसीह दा खून, ऐ परमात्मा दा पुत्रउनके इल्जाम उठाया (पाप करदा ऐ) सादे गी छुड़ाने आस्तै क्रूस उपर(१योहन् ना १:९).

→ इस आस् ते, “जेह गू लाना के सादे च कोई पाप नेई ऐ” दा मतलब एह ऐमसीहबेकार मरे, ते ओह धोखा देई गेदे ना ते सच्चाई उदे च नेई ऐ (१योहन् ना १:८).²³⁵

- एरोम 6:23 ऐ इस गल्ल गी समझने च मदद करदा ऐ जे दोष गी चुकने दा केहू मतलब हा, “किजोकी पाप दी मजदूरी मौत ऐ, पर दा तोहफाईश्वर ऐ अनन्त जीवन दे राहेंयीशु मसीह सादा प्रभु.” सादे पाप दी मजदूरी मौत ऐ” दसदा ऐ के सारे मांस दा नाश होना किस्मत च ऐ बिना कुसै होर दे उंदे आस्तै “दोष चुकने” दा

- अर्द्ध प्रकासित 5:1-5 ऐरिकार्ड करदा ऐ के “सुर्ग च, ना धरती च, ते ना धरती दे थल्ले कोई बी काबिल नेई ऐ किताब (सत्त मुहरे कनै मुहर लगी दी) गी खोलना, ते ना गै उसी दिखना। परके कबीले दा शेर यहूदा, ऐदाऊद दी जड़, किताब खोलने च, ते करने च जीत हासल कीती ऐसात मुहर डीला कर देउसके.”

→ कदू 1 सील दीखला है, प्रभु दा दूत (यहोवा) अगें बधी जाह्गटीओ फिलाडेल्फिया च कलीसिया गी मुहर लाओ

(बुद्धिमान कुंवारी, 144,000) जिन्हां ने प्रलोभन सहन कीता.

- जो हैं जो हैं प्रभु द्वारा चिन्हित साथ देपवित्र आत्मा दी मुहर, ऐ के आने पर रचर हो जावेगा

मनुख दा पुत्र. इस आस् ते फिलाडेल्फिया च कलीसियामजबूती कनै अपने मुकुट गी पकड़ी लैगन, द्वारा चिन्त होने आस्तै दा परीप्रभु गी (यहवा) 1 सील दे खुलने परा

→ के उद्घाटन पर 1 सील दी, ऐ प्रभु दा दूत²³⁶ धनुष चलाग, ते “निशान मारना” (या “सील दे परमात्मा दे सेवक”) आत्मा दे नाल (तीरंदाज दे तौर ते)।²³⁷

(दे प्रकट होने दे दिन प्रभु यीशु मसीह गीते उदा राज, जेके पबित्तर आत् मा कन् ने मुहर लाए गेदे हन ताज पहनाया जावेगा धर्म दा मुकुट ओह प्रभु ऐवादा किता के ओह उनेंगी देना ऐ, जेके उदे कन् ने प्रेम करदे न प्रकट होकर, ऐ रतिमुथियुस ४:१-८).

प्रकासित 7:3 ऐ आखना, जमीन, समुंदर, ते बूटे गी चोट नेई पजाओ

तकसाडे कोल ऐसील कर दियासाडे नौकरें देईश्वर उनके मत्थे परा

+ जो सफेद घोड़े ते बैठे दा, ओ दा दूत है प्रभु यीशु मसीह गी, ते उदे कोल धनुष हा, परमात्मा ते धरती दे बीच इक वादे दा निशान (उत्पत्ति ९:१३), जो कि परमात्मा दी धार्मिकता, सादा उद्धारकर्ता यीशु मसीह (रपतरस १:१).

²³⁵ कीजे इसराइलिये च इस सच्चाई दी कमी ही, इस आस् ते उनेंगी अपनी मूर्ति (सोने दा बछड़ा) बनाया ते परमेसरे कन् ने अपने रिश् ते गी नष्ट करी ओड़ेया।

“किजोकी तुमें अपने परमात्मा दी व्यवस्था गी अनदेखा करी ओड़ेया, ते मैं बी तुं दे पुत्रें गी नजरअंदाज करी देगा” (निकासी 32 दी, ऐ होसे 4:6 ऐ). इस करिए एह बड़ा गै जरूरी ऐ कि अस अपनी समझ उपर भरोसा नेई करदे, बल्के इस गल्ल गी नम्रता कनै स्वीकार करने आं यीशु सादे पापें आस्तै मरी गेआते सादा पूरा भरोसा रखी प्रभु ते उसी दा वचन साडे सारे दिल नाल (प्रो 3:5 ऐ).

²³⁶ से केद की गई प्रकासित 4:8 ऐ.

ओहके परी यहोवा (यहोवा), ऐ^{३०६८} जो प्रभु ('äðônây) ऐ^{१३६} भगवान (y^hôvâ) ऐ^{३०६९} (न्याय 6:22 ऐ), पैहलें यहोवा (यहोवा)^{३०६८} (रसा 7:18 ऐ).

→ यहोवा दा ए दूत (यहवा) प्रभु दे रेमा ('äðônây) गी लेई आंदा ऐ^{१३६} भगवान (y^hôvâ), ऐ^{३०६९}

जो परमात्मा ('êlohîm) है^{४३०} जो सच्चा है (रसा ७:२८ ऐ).

²³⁷ संदर्भ देना प्रकाशितवाक्य 13:16-18 ऐते दो किस्म दे “निशान” गी समझो।

(प्रकाशितवाक्य 6:3-4 ऐ) 2 सील दा खुलना (एक लाल घोड़ा, जमीन तों शांति लेओ)

प्रकाशित 6:3 ऐजदुं उनू ने दुआ मुहर खोली लेया, तां में दूए जानवर (जीव) गी सुनेया।²²²⁶ ऐ
कहो, आओ देखो।

प्रकाशित 6:4 ऐते इक होर घोड़ा जेड़ा लाल हा, निकली आया।⁴⁴⁵⁰ ऐ
ते सत्ता (अनुदान)¹³²⁵ जसि उप्पर बैठे दा हा, उसी शांति लेई दिता गोदा हा।¹⁵¹⁵ ऐ
धरती (जमीन) तों,¹⁰⁹³ ऐते इक दुए गी मारी ओड़ना
ते उसी इक बड्डी तलवार (μάχαира, मचैरा) दिती गेई।³¹⁶² ऐ

- ☞ प्रकाशित 6:3 ऐते जदुं ओह खोलेया ओहदुआ (2 वी) मोहर, ऐ
में दूजे (2nd) जीव नू कहदे सुनेया, “आओ देखो।
- ☞ प्रकाशित 6:4 ऐते इक होर घोड़ा, ऐलाल, निकल गया।
ते इस उप्पर बैठे दे उसी दिता गेआ जमीन से शांति ले, ऐ
तां जे लोक इक दुए गी मारी ओड़ना; ते उसी इक बड्डी तलवार दिती गेई।

➤ लाल घोड़े पर कौन बैठा?

→ दा परी प्रभु.²³⁹

→ इक तलवार (μάχαира, मचैरा)³¹⁶² ऐले लो गो दा आहलाई श्वर (देखो प्रकाशित 1:16 ऐ)।

मत्ती 10:34 ऐए मत सोचो कि मैं धरती (जमीन) ते शांति भेजना आया हं।¹⁰⁹³ ऐ

मैं शांति भेजने आस्ते नेई आया हा,¹⁵¹⁵ ऐपर इक तलवार।³¹⁶² ऐ

➤ जमीन से शांति ले

- महासंकट 2 मुहर दे खुलने पर शुरू होंदी ऐ, ते दुनिया अराजक होई जागडल्लू मुर्गी

लोगोस रेमा बनी जंदा ऐ (या जदुं भविष्यवाणियां सच होंदियां न):

→ बिल्डरां ने खारिज कर दिता पत्थर था यीशु मसीह, जो मनुख दा पुत्र हा या परमातमा दे लोगो

सील कर दिया अंत दे समें तक, ते ओह आ के 144,000 लोकें गी लेई जंदा ऐ।

→ यीशु जमीन पर शांति भेजने नहीं आया,²⁴⁰ पर ओह तलवार भेजने आस् ते आया हा, जेका ऐ
परमातमा दे लोगो।

- दा परी प्रभु, जिसगी इक बड्डी तलवार (बड्डी लोगोस, रेमा दा), मंजूर कर दिता गेआ
जमीन थमां शांति लेई लैना तां जे लोक इक दुए गी मारी ओड़ना।

- प्रभु दा दूत महान लोगो, रेमा, नाल जमीन तों झूठी शांति दा प्रगट कर देगा,
पर दिल दा जिंदे कोल सच्ची शांति ऐ ओ परेशान नेई होंगन कीजे सच्ची शांति ऐ
से आता है यीशु जग दे दिया दे नाल इक ही नहीं है (जहन्ना 14:27 ऐ)।

जहन्ना 14:27 ऐमें तुंदे कन्ने शांति छोड़ना, ते अपनी शांति तुसं गी देना ऐ।

ना जिवें दुनिया देंदा है, मैं तुसं गी देना।

तेरा दिल ना घबराए, ना डरो।

→ झूठे नबियों से झूठी शांति पाने वाले दा दिल उसदे बाद परेशान हो जावेगा

1 मुहर तों मनुख दे पुत्र दा आना। ध्यान रखो कि विश्व सरकार ते सारे मीडिया

रैचर घटना दी जगह यूएफओ एलियन अपहरण कन्ने लैग, ते ओह इस गी ढकने लेई कुसे बी चाल्ली दा कम्म करंगन
लोकें गी धोखा देने आस्ते रैचर करो, ते इत्थू तगर जे खोज करने आहें गी बी मारी ओड़ो सच्ची शांति जां लोगो दा।

मत्ती २४:११ ऐते मते सारे झूठे नबी उठनगे, ते मते सारें गी धोखा देंगन।

लूका 21:8 ऐओस ने आख्या, “सावधान रहो कि तोहे धोखे नेई देओ।

कीहके मेरे ना कन्ने मते सारे आए जांगन।

²³⁹संदर्भ देना प्रकाशित 4:8 ऐ.

²⁴⁰वीडियो 19. “पृथ्वी & जमीन” www.therhemaofthelord.com/course1/पृथ्वी-जमीन/.

मैं मसीह हूँ; ते समां नेड़े आई गेदा ऐ, इस आस् ते तुस उंदे पिच्छे नेई जाओ.

→ सो, **2 वी सील दा 1** रफर दे बाद महान संकट दी शुरुआत च खोलेआ जाग.

- † वैहला मनुख आदम मिट्टी दी जमीन दा ऐ, पर दूआ आदमी^{#444} ऐ प्रभुस्वर्ग दा है, जो जिंदा रोटी ऐ, जिंदा पत्थर ऐ। प्रभु जी, जो मनुखों से नकार दिया गया पर चुने हुए और पहले सेईश्वर, इक जिंदा पत्थर ऐ (१पीतर २:५), तां उंदे कोल नवजात शिशुएं दे रूप च उचित शब्दें (या लॉजिकोस) दे सच्चे दुद्ध दी इच्छा रखदे होई आओ^{#3050} च), ते च उगना प्रभु, इक आध्यात्मिक घर च, इक पवित्र याजक च बनाया जा, तां जे स्वीकार्य आध्यात्मिक बलिदान चढ़ाया जाईश्वरारहेयोशु मसीह, जिवें जिवें पत्थर।

(प्रकाशितवाक्य 6:5-6 ऐ) 3 सील दा खुलना (काला घोड़ा, नापने आस्ते जूआ दी जोड़ी)

प्रकाशित 6:5 ऐते जदुं उन् ने त्रीया मुहर खोली लेया, तां मैं त्रीए जानवर (रौहना प्राणी)^{#2226} ऐ

कहो, आओ देखो। ते मैं दिखया, ते दिखया

इक काला^{#3189} घोड़ा; ते जेड़ा उंदे उप्पर बैठे दा हा, उंदे कोल इक जोड़ी तराजू (जुए) ही।^{#2218} उंदे हत्य च।

☞ प्रकाशित 6:5 ऐते जदुं ओह खोलेया ओहवीआ (3 वां मोहर, मैं तीसरे (3rd) जीव नू कहंदे सुनेया, “आओ देखो”

तां मैं (यूहन्ना) ने दिखया, ते दिखया, इक काला घोड़ा, ते जेड़ा उस उप्पर बैठे दा हा, उंदे हत्य च इक जोड़ी जुआ हा।

➤ काले घोड़े पर कौन बैठा?

- दा परी प्रभु²⁴¹

➤ जुआ क्या है?

- मत्ती 11:27 ऐसारी चीजां मेरे पिता ने मिगी सौंपी दिती ऐ।

ते पिता दे सिवा कोई पुत्र गी नेई जानदा;

ते पुत्र गी छोड़िये कोई पिता गी नेई जानदा, ऐ

ते जिसदे उप्पर पुत्र उसी प्रगट करग।

मत्ती 11:28 ऐहे सारे मेहनत ते बोझदार, मेरे कोल आओ, ते मैं तुसें गी आराम देगा।

मत्ती 11:29 ऐमेरा जुआ ले लो^{#2218} तेरे उप्पर, ते सिक्खो(से) दा^{#575} में;

की वे मैं नम्र ते नम्र दिल ऐं;^{#5590}

मत्ती 11:30 तेमेरे जुआ दे वास्ते^{#2218} आसान ऐ, ते मेरा बोझ हल्का ऐ।

→ सारी चीजां गी सौंपी दिता जंदा ऐयोशु उंदे पिता दे द्वारा, ते पिता गी सिवाय कोई बी पुत्र गी नेई जानदा, ते कोई बी पिता गी नेई जानदा, सिवाय पुत्र दे, ते जिसदे उप्पर पुत्र उसी प्रगट करग। इस आस् ते जेके सुर्गीय पिता गी पाने आस् ते मेहनत करदे आए न ते उंजंगी बड़ा गै बोझ ऐ, उंजंगी एह औना गै पौना ऐ प्रभुतां जे ओह तुसें गी आराम देई सकदा ऐ (तुसें गी पूरी चाल्ली उगने आली घाह, जड़ी-बूटियें ते इक फलदार बूटे कन् ने चरागाह च लेई जाई सकदा ऐ, जेका जीवन देने आस् ते परमेसरे दे किस्म दे फल दिंदा ऐ)।

ओह तुंदा चरवाहा ऐ जेहड़ा तुसें गी आराम आह्ले पानी दे बक्खी घाह दे चरागाह च सुट्टी सकदा ऐ, ते तुसें गी उस बूटे थमां हर हरियां जड़ी-बूटी ते फल देई सकदा ऐ जेहड़ा सिर्फ पैदा करदा ऐ चंगाते बुराई नेई। ओह ऐ प्रभु गी जेड़ा तुंदा आत्मा गी वापस करी दिंदा ऐ, जेड़ी तुसें भलाई ते बुराई दे ज्ञान दे बूटे थमां व्यवस्था दा फल खाइयै अदन दे बाग च खोई गेदी ही।

ओह ऐ प्रभु गी तेरा चरवाहा जो तुहानू अपने नाम दे वास्ते धर्म दे रास्ते ते लेंदा है।²⁴² उदा जुआ आसान ऐ ते उदा बोझ हल्का ऐ; इस आस् ते उदा जुआ लैओ ते उदे थवां सिखो, कीजे ओह दिल च नम्र ते नीच ऐ, ते तुसें गी अपनी जान आस् ते विश् वास मिलग।

- २ करिन्थियों ६:१४ तुस (स्ट्रॉंग दे कोला) असमान रूप च जुए नेई बन्नी जाओ जी 2218 ने दी^{#2086} अविश्वासियें कन्ने:

की वे धर्म ते अधर्म दा केह साझेदारी ऐ ?

ते उजाले कन्ने न्हेंरे दा केह साझेदारी ऐ ?

गलाती 5:1 इस करिए आजादी च मजबूती कन्ने खड़ो जाओ^{#1657} जिसदे कन्ने मसीह ने सानु आजाद किता;

²⁴¹वही।

²⁴²वीडियो 27. “(मांस, आत्मा, ते आत्मा) भजन संहिता 23।”

ते फिरी जुए कन्ने नेई उलझ जाओ ^{ः2218} नः [ः] बंधन दा. ^{ः1397} रे

→ तुसैं गी (विश्वासी) गी अविश्वासियें (विश्वासी बनाम अविश्वासियें) कन्ने असमान रूप कन्ने जोड़ेआ नेई जाना चाहिदा धर्म बनाम अधर्म, रोशनी बनाम न्हरे दी शर्ते। इस करिए, दृढ़ता कन्ने खड़ोते दे आजादी जो मसीहने तुसैं गी आजाद करी दिता ऐ, ते फिरी उलझन नेई जाओ बंधन दा जुआ (मुक्त बनाम बंधन)।

→ **इक जोड़ी बैलेंस (जांजुआ)** “मुक्त बनाम बंधन” (के संदर्भ च) दे बच्चें गी मापग सुर्ग दी चीजां बनाम जमीन दी चीजां,²⁴³

- “**मुसलमान** बनाम अविश्वासी”
- “**धर्म** बनाम अधर्म”
- “**लो** बनाम अंधेरा”

- इक डेनारी च गेहूँ दा इक सूखा नाप, इक डेनारी च जौ दा 3 नाप (The oil & the wine are not offended)

प्रकासित 6:6 ऐते मैं चार जानवरें दे बिच्च इक आवाज सुनी (**रौहना** प्राणी) ^{ः2226} रे आकखो,
इक (सूखा) नाप ^{ः5518} रे आहलाकनक ^{ः4621} रे इक पैसे दे वास्ते, ऐ ^{ः1220} रे नी
ते त्रे (शुष्क) माप ^{ः5518} रे जौ दा ^{ः2915} रे इक पैसे दे वास्ते;
ते दिखो तू दुखी (अपराध) ^{ः91} रे तेल ना ^{ः1637} रे ते मदिरा बी। ^{ः3631} रे

☞ **प्रकासित 6:6** ऐते चार (4) जीव-जंतुएं दे बीच इक आवाज सुनी।

“एक नाप दा **कनक** लेई **इक दिनार** दा, ऐ
ते त्रे (3 सूखे) माप दे **जौ** लेई **इक दिनार** दा;
ते नाराज ना करो **तेल** दा **तेशराब** दा.”

➤ **जौ कीह है?** (ओमर ^{ः6016} रे → एफाह ^{ः374} रे → जौ ^{ः8184} रे)

- **ओमर** ^{ः6016} रे → **एफाह** ^{ः374} रे
निष्कर्ष 16:35 ऐते बच्चें (पुतर) ^{ः1121} रे **इसाएल** दा **किया** **खाया** **मन्ना** चालीस साल दा, ऐ
जद तक कि वे किसी धरती (धरती) ते नहीं आ गए ^{ः776} रे बसे दा;
मन्ना खांदे हो ^{ः4478} रे जदू तकर ओह दी सीमाएं तकर नेई पुज्जे
ओहजमीन (**धरत**) ^{ः776} रे **कनान** दा.
निष्कर्ष 16:36 चहूँ **इक ओमर** ^{ः6016} रे दसवां हे ^{ः6224} रे इक एफाह दा हिस्सा। ^{ः374} रे

→ **इसाएल** दे पुतर 40 सालें तकर मन्ना खांदे रेहूँ (तां जे परमेसरे उमेंगी परख करी सकन के ओह उदी व्यवस्था च चलन जां नेई, (**निष्कर्ष 16:4** ऐ) जदुं तकर ओह परमेसरे दी व्यवस्था दे सिरे तकर नेई पुज् जी गे, जां दुद्ध ते शहद कन् ने बागदी कनान दी धरती दे सिरे तकर नेई आई गे (**निष्कर्ष 16:35** ऐ, **ऐनिष्कर्ष 3:८** ऐ)।²⁴⁴

- मन्ना नापने लेई “एक ओमर” दा इस्तेमाल कीता जंदा हा, जेहड़ा इक सूखा नाप ऐ **इक दसवां हिस्सा (1/10 वा)** दा “एक एफाह.”²⁴⁵

† प्रभू दा सेवक प्रयास नेई करना चाहिदा; लेकन सारे मनुखें कन्ने कोमल, सिखलाई दे योग्य, धैर्य रखो (**रती 2:24** ऐ). **चलुका ९:५९** दा, इक खास आदमी आखदा ऐ, “मैं तुसैं गी दिक्खना प्रभु, पर मिगी वापस जाने देयो **कनान दी धरती** पहले अपने सांसारिक पिता दे धंधे दा ख्याल रखना” (जिय्यां मिट्टी दे लोक

²⁴³संदर्भ देना **प्रकासित 6:6** ऐचीजें गी किस चाल्ती नापया जाग, एह समझने आस्ते।

²⁴⁴वीडियो 23. “रोटी, मन्ना, & छिपे दा मन्ना।”

www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-द-ब्रेड-द-मन्ना-द-हिडन-मन्ना/.

²⁴⁵वीडियो 36. “दृष्टांत: स्वर्ग दा राज & परमात्मा दा राज्य।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-द-दृष्टान्त-स्वर्ग-दा-राज्य-देव-दे-राज्य/.

ऐ, उध्यां गै मिट्टी दे लोक बी ऐसे ना। [१कुरिन्थियों १५:४८](#)। टीनली जो मिले प्रभुवादा कीती दी धरती चके नौकर है प्रभु, इस आस् ते उनेंगी सुर्गीय पिता दे धंधे दा पालन करना पौना ऐ, जेका धरती दे पुरखें दी परंपरा दे मताबक नेई ऐ ([लुका २:४९](#) दा)।²⁴⁶

- “मेरे दे लोकें गी अपने मेरे दे लोकें गी दफनाने देयो” दा मतलब ऐ, “पृथ्वी दे लोकें गी अपने पृथ्वी दे पिता दे पिच्छे चलने देयो, तू (प्रभु दा सेवक) जाइये परमात्मा दे राज दा प्रचार करो। कोई बी मनुख, जेके अपने हथ हल दे उप पर रखे, ते पिच्छे मुड़ीए दिक् खीए (मतलब “स्वर्गीय कम्मों गी नेई, ना के”), परमेसरे दे राज आस् ते योग्य नेई ऐ ([एल्यूके ९:५९-६२](#) ऐ):

- इक रूह दा आदमी [जी 444](#) ऐ मिट्टी दे दी छवि गी बोर कीता, इस करी उसी जमीन जोतनी पौदी ऐ ([उत्पत्ति २:५](#))।

- पर खजाना मिलने दे बाद ओह स्वर्गीय दी प्रतिमा गी धारण करदा ऐ ([१कुरिन्थियों १५:४९](#))।

(पहले फल दा इक ओमर)

[लेवी 23:9](#) ऐते येहोवा (यहोवा) [एव 3068](#) रू मूसा कन्ने आखया।

[लेवी 23:10](#) ऐबच्चयां (पुत्तरे) कन्ने गल्ल करो [एव 1121](#) रू इस्राएल दे लोकें गी गू लाओ।

जदुं तुस मुलख (पृथ्वी) च आओगे [एव 776](#) रू जेड़ा में तुसें गी देगा, ते देगा

फसल कटाई उदे च इक गुच्छा (ओमर) लेई आओ [एव 6016](#) रू दे पैहे फल दा

तेरी फसलयाजक गी, [एव 3548](#) रू

[लेवी 23:11](#) ऐते ओह गुच्छा (ओमर) लहरावेगा [एव 6016](#) रू प्रभु (यहोवा) दे सामने

तुहाडे वास्ते स्वीकार कीता जावे:

सब्त दे बाद अगले दिन याजक [एव 3548](#) रू लहरा देगा।

[लेवी 23:12](#) ऐते तुस उस दिन चढ़ाई देगे जिसलै तुस गुच्छा (ओमर) लहरागे।

an he lamb (एक साल दा नर मेमना) [एव 3532](#) रू

पहले साल दा बिना दागप्रभु (यहोवा) गी होमबलि दे रूप च [एव 3068](#) रू

[लेवी 23:13](#) ऐ ते मांस दी चढ़ाई [एव 4503](#) रू उसदा होवेगा

दो [एव 8147](#) रू दसवें सौदे [एव 6241](#) रू तेल च मिलाए दे महीन आटे दा, [एव 8081](#) रू

येहोवा (यहोवा) गी अग दे बलिदान [एव 3068](#) रू मिट्टे स्वाद आस्ते:

ते पेय चढ़ावा [एव 5262](#) रू उदे च मदिरा दा होग, [एव 3196](#) रू

दा चौथा हिस्सा इक दिन (एक तरल माप) [एव 1969](#) च

[लेवी 23:14](#) ऐते ना रोटी खाओ ते ना सुक्के धान्य;

ना ही हरे कान (फलदार खेत से भरा कान), [एव 3759](#) रू

उसी दिन तकर जिसलै तुस अपने परमात्मा ('*ĕlōhîm*) गी बलिदान नेई लेई आए [एव 430](#) रू

ए तुंदी सारी पीदियें च तुंदे सारे निवासें च हमेशा लेई इक नियम होगा।

→ जदुं इस्राएल दे पुतर उस धरती च दाखल होई जंदे न, जिनेंगी परमेसरे (यहोवा) उनेंगी फसल कट्टने आस् ते दिता ऐ फसल कटाई, उनेंगी पैहे फल दा “एक ओमर” लाना पौदा ऐ (**इक दसवां हिस्सा या 1/10** दा “एक एफाह,” [रथ 2:17](#) ऐ) उंदी फसल दा याजक गी देना।

- ऐडकंद याजक तुसें गी स्वीकार करने आस्ते प्रभु (यहोवा) दे सामने ओमर लहरागे; याजक गी सब्त दे दिन दे बाद उसी लहराना पौना ऐ।

- ऐडकंद जिस दिन तुस ओमर लहरादे ओ, उस दिन तुसें गी बिना दाग दे इक साल दे नर मेमने गी चढ़ाना पोग प्रभु (यहोवा) गी होमबलि दे रूप च।

→ **मसीह**, जिन्ने साढ़े आस् ते बलिदान किता, ओह साढ़ा फसह ऐ, ते मेरे दे चा जिंदे होने दे बाद ओह बनी गया सोने आलें दे पैहे फला।

[१कुरिन्थियों ५:७](#) इस आस् ते पराने खमीर गी शुद्ध करो, तांजे तुस इक नमां गड्डी बनी जाओ।

जिथ्यां तुस अखमीरी ओ **मसीह** साढ़ा फसह साढ़े आस् ते बलिदान दिता गेदा ऐ।

[१कुरिन्थियों १५:२०](#) अब है **मसीह** मेरे दे विचों जी उठे, ते बन जाओ **पैहे फल** उन जेड़े साँदे हे.

→ तुस सारे (यहूदी, यूनानी, बंधन, आज़ाद, नर या नारी) विश्वास दे जरिए परमात्मा दे पुत्र ओ मसीह यीशुकीजे तुस सारे बपतिस्मा लेई गेदे ओ मसीह औय नहन लरमा शै मसीह, कु'न ऐ अब्राहम दे वंशज, ते इस चाल्ली तुस सारे वादे दे मताबक (तुस होने दे बाद) वारिस बनी गेदे ओ बपतिस्मा लेया मसीह, तुसी लाया है मसीह).²⁴⁷

- जेकर मसीह तुंदे च ऐ, पाप दे कारण शरीर मरी गोदा ऐ, लेकन आत्मा धर्म दे कारण जीवन ऐ। क्योंकि यीशु गी मरे दे बीचा जिंदा करने आला आत्मा तुंदे च रौंदा ऐ। ईश्वर जिसने उठाया मसीह मरे दे बीचा तुंदे च रौहने आली परमात्मा दी आत्मा दे जरिए तुंदे नश्वर शरीर गी बी जिंदा करगा क्योंकि तुहाडी अगुवाई करदे ने परमसरे दी आत् मा, तुस बी इक ओ परमात्मा दे पुत्र.

- ऐ धरती दा दसवां हिस्सा (पहले फल दा पैहला, ते पैहला फल)

निष्कर्ष 23:19 ऐ पैहला (एकवचन)^{एच 7225 रे} पैहे फल दा (बहवचन)^{एच 1061 रे} तेरी जमीन (जमीन) दा^{एच 127 रे}

तू दे घर च लेई आओ प्रभु गी^{एच 3068 रे} तेरा ईश्वर.^{एच 430 रे}

तू बच्ची (बकरी बकरी) गी नेई उबालना^{एच 1423 रे} अपनी मां के दूध में.

- सारे मांस घास दे समान ऐ जेड़ा मुरझाई जंदा ऐ, पर तुस अविनाशी दे द्वारा नमें सिरेआ जन्म लेंदे ओ लोगो दा परमात्मा दा, जो उसदे बाद तुंदे च हमेशा जिंदा रौहदा ऐ ते टिकदा रौहदा ऐरेमा दा प्रभु दा जेड़ा सुसमाचार दे जरिए तुसें गी प्रचार किता गोदा हा, ओह हमेशा टिकदा ऐ।

- ऐपैहे फले च पैह्ला ऐ मसीह (१ कुरिन्थियों १५:२०).²⁴⁸

- पैहे फल: मसीह दा उंदे आने पर पैहे फल (१ कुरिन्थियों १५:२३).

लेवी 27:30 ऐते जमीन (पृथ्वी) दा सारा दसवां हिस्सा,^{एच 776 रे}

बीज दा होवे^{एच 2233 रे} आहला जमीन (धरती),^{एच 776 रे}

या पेड़ दे फल दा, (एकवचन)^{एच 6086 रे}

यहोवा दा ऐ.^{एच 3068 रे} ए प्रभु (यहोवा) आस्ते पवित्र ऐ।^{एच 3068 रे}

- ऐ धरती दा दसवां हिस्सा (बीज गी जो तेरी जमीन दी धरती च लगाया गोदा ऐ) जंगल कि सामने लाया बूटे दा फल जिंदगी दा) गी पवित्र होंदे न प्रभु गी (यहवा), ऐ इस आस् ते नर बकरी दा कोई बी उबला मांस पैहू ले फल दा हिस्सा नेई होई सकदा तेरी जमीन दा।

- ऐ पैहला फल परमात्मा ते मेमने गी ओह गै हन, जेके पेन्टेकुस् ट च चढ़ाए जंदे हन (लेवी 23:20 ऐ, ऐगिनती 28:26 ऐ), जां 144,000 दी.²⁴⁹ कोई बी जो नहरे के पैहे फल (मसीह दा) दे घर च लाया जंदा ऐ प्रभु गी ईश्वर.

† प्रभु आदा ईश्वर²⁵⁰

कनान दी धरती गी जीतने दे बाद यहोशू इस्राएल दे गोत्रें दे सारे लोकें गी डरने आला आखदा ऐ प्रभु गी (यहोवा) ते परोसना प्रभु गी सच्चाई ते सच्चाई कन्ने, ते लोकें आखया।

“अस गवाह आं जे उनेंगी चुने दा ऐ प्रभु गी (यहूस 24:22 ऐ), ते प्रभु गी (यहोवा) सादा ईश्वर (Elohim) अस सेवा करगे, ते उंदी आवाज गी अस मनगे (यहोस 24:24 ऐ)।”

- फिर यहोशू ने लोकें कन् ने इक वादा किता ते उनेंगी इक नियम ते इक नियम बनाई लेता शेकेम च, ते ए शब्द (केरेमा) दी किताब विच परमात्मा दी व्यवस्था, ते ले लिया ए

²⁴⁷ वीडियो 42. “5 दा। तुरही।” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-द-भोज-दे-लॉर्ड-5-तुरही/.

²⁴⁸ “144,000 (मसीह दे पैहे फल) दा संदर्भ लैओ।”

²⁴⁹ “[चित्र 7-क]” जां वीडियो 18. “3. पैहे फल द 144,000।”

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-पहले-फल-द-144000/.

²⁵⁰ संदर्भ देना प्रकासित 4:8 ऐ.

बड़डा पत्थर, ते उसी पवित्र स्थान दे कोल खड़ा करी ओड़ेया प्रभु गी (यहोवा, ऐ जोस २४:२६ च).²⁵¹

→ शब्द सुनने पर ⁵⁶¹ आहला प्रभु गी (यहोवा, ऐ यहोस 24:24 ऐ), ऐडक बड़डा पत्थर बन जाता है
**इक गवाह कि तूसीं चुने दा ऐ प्रभु गी (यहोवा) ते परोसना प्रभु गी (यहोवा)
ईश्वर (ĕlōhîm).**

➤ **डब्ल्यू टोपी एफाह है ³⁷⁴ ?**

- **ओमर ⁶⁰¹⁶ → एफाह (प्रसाद च इस्तेमाल कीते जाने आह्ने आटे दा इक सूखा नाप) ³⁷⁴ → जौ ⁸¹⁸⁴**

एच इक पाप दी बलिदान

निष्कर्ष २९:२ ते बेखमीरी रोटी; ³⁸⁹⁹ ते तेल च खमीर दे केका

ते तेल कन्ने अभिषेक कीते गेदे बेखमीरी दे खमीर, कणक दे ²⁴⁰⁶ आटा ⁵⁵⁶⁰
तू उन्हें बना देगा।

लेवी 5:11 ऐपर जेकर ओह दो कबूतर, जां दो कबूतरों गी नेई लेई आई सकदा, तां ओह कि...

पाप करने आला अपने बलिदान च इक एफा दा दसवां हिस्सा लेई औग ³⁷⁴ महीन आटे दा ⁵⁵⁶⁰

पाप दे बलिदान दे वास्ते; ²⁴⁰³ ओह तेल नेई पाग ⁸⁰⁸¹ उदे उप्पर ते ना गै ओह

उदे उप्पर कोई बी लोबान पाओ, कीजे ए पाप दी बलिदान ऐ ²⁴⁰³

→ रोटी दी ³⁸⁹⁹ कणक से बणाया जाता था ²⁴⁰⁶ जिसगी पीसिये आटा बनाई दिता जंदा हा ⁵⁵⁶⁰

→ 1/10 आटे दा इक एफा + (तेल नेई) = पाप दी बलिदान

(पाप दी बलिदान निरंतर बलिदान नेई ऐ कीजे पैहें बी हा

अस्सां उस पल तों ही जिस वेले साडी गर्भधारण कीती गई, **भजन संहिता 51:3**).

आई लगातार मांस दी प्रसाद

लेवी 6:20 ऐएह हारून ते उं दे पुत्रों दा बलिदान ऐ, जिसी ओह इस च परमेसरे गी चढ़ाई देडन

जिस दिन उसी अभिषेक कीता जंदा ऐ;

दा दसवां हिस्सा इक एफाह ³⁷⁴ महीन आटे दामांस दे बलिदान दे वास्ते ⁴⁵⁰³

शाश्वत (निरंतर) ऐ, ऐ ⁸⁵⁴⁸ आधा सवेरे, ते आधा रात च।

लेवी 6:21 ऐकड़ाही च तेल कन्ने बनाया जा, ⁸⁰⁸¹ ते जदुं ए पकाई जाग, तां तू उसी अंदर लेई आओ।

ते मांस बलिदान दे पके दे टुकड़े ⁴⁵⁰³ तू चढ़ा देना ऐ

प्रभु आस्ते इक मीठी गंधा ³⁰⁶⁸

लेवी 6:22 ऐते उदे पुत्रों दा याजक जेड़ा उदे बदले च अभिषेक कित्ता गेदा ऐ, उसी चढ़ा देगा।

ए प्रभु आस्ते हमेशा आस्ते इक नियम ऐ; ³⁰⁶⁸ पूरी तरह जली जाह्य।

लेवी 6:23 ऐहर मांस दी प्रसाद दे वास्ते ⁴⁵⁰³ कीजे याजक पूरी चाल्ली जली जाह्य (गुप्त होई जाह्य); ⁶⁹⁹⁹

ना खाया जावेगा।

→ 1/10 इक एफा आटे = पाप दी बलिदान (तेल दे नाल) → लगातार मांस दी बलिदान

(पुरोहित को पूरी तरह जले) उस दिन प्रभु गी मिट्टी खुशबू चढ़ाने आस्ते जिसलै...

हारून ते उदे पुत्र अभिषेक कीते गेदे न, खाओ नेई।

- प्रसाद च इस्तेमाल कीती जाने आह ली शराब दा इक तरल माप

जम्मू लगातार मांस ते पेय चढ़ावा (दो मेमने ³⁵³²: इक सवेरे + इक शाम गी)

(सवेरे चढ़ाने दा 1 मेमना)

निष्कर्ष 29:38 चतू वेदी उप्पर चढ़ाना ऐ;

दो मेमने ³⁵³² पैहें साल दा दिन-ब-दिन लगातार.

²⁵¹वीडियो 23, "रोटी, मन्ना, & छिपे दा मन्ना।"

निष्कर्ष 29:39 ऐइक मेमना ^{एव 3532} तू सवरे चढ़ाई दे; ते दुआ मेमना ^{एव 3532} रे

तू शाम गी चढ़ाई देओ: 1।

निष्कर्ष 29:40 ऐते इक मेमने दे कन्ने ^{एव 3532} इक दसवां हिस्सा ^{एव 6241} आटे दा सौदा ^{एव 5560}

घुल-मिल (मिश्रित) ^{एव 1101} चौथे हिस्से दे नाल ^{एव 7243} इक हिन दा ^{एव 1969} च

पोटे (शुद्ध) दा ^{एव 3795} तेल, ^{एव 8081} रे

ते चौथा हिस्सा ^{एव 7243} की एकहिन ^{एव 1969} च शराब दा ^{एव 3196} पेय चढ़ावा दे वास्ते ^{एव 5262} रे

→ १मेमने + [(आटे दा १/१० = मांस दी बलिदान) +
(1/4 हिन शुद्ध तेल + 1/4 हिन शराब) = इक पेय चढ़ावा)]।
सवरे चढ़ाना।

(शाम नू चढ़ाने दा 1 मेमना)

निष्कर्ष 29:41 ऐते दूए मेमने गी शामीं च चढ़ाओ, ते उसी उदे मताबक करी ओड़ो

मांस चढ़ाईसवरे दा, ते पेय बलिदान दे मताबक ^{एव 5262} उसदा,

मिठ्ठे स्वाद आस्ते, द्वारा बनाई गेदी चढ़ावा आस्ते अगको प्रभु गी.

→ १मेमने + [(आटे दा १/१० = मांस दी बलिदान) +
(1/4 हिन शुद्ध तेल + 1/4 हिन शराब) = इक पेय चढ़ावा)]।
शाम गी मीठे स्वाद आस्ते पेश करना
द्वारा बनाया गया अगको प्रभु गी.

एल लगातार होमबलि

निष्कर्ष २९:४२ चएह लगातार होमबलि होग ^{एव 5930} तुंदी पीढ़ियें च

मंडली दे तम्बू दे दरवाजे पर (भोज) ^{एव 4150} रे

पैहलें प्रभु गी: 1। ^{एव 3068} जित्थे मैं तुंदे कन्ने मिलना ऐं, ते उथे तेरे कन्ने गल्ल करगा।

निष्कर्ष २९:४३ चते उथे मैं बच्चें (पुत्तरे) कन्ने मिलना ^{एव 1121} इस्त्राएल दा, ऐ

ते तम्बू मेरी महिमा कन्ने पवित्र होई जाग।

निष्कर्ष 29:44 ऐते मैं मंडली दे तम्बू गी पवित्र करगा, ^{एव 4150} ते वेदी गी;

मैं हारून ते उंदे पुत्तरे गी बी पवित्र करगा, तां जे याजक दे पद च मेरी सेवा करना

निष्कर्ष 29:45 ऐते मैं बच्चियां (पुत्तरे) दे बीच रेहना ^{एव 1121} इस्त्राएल दा, ऐ

औय उन्शें शोगा ईश्वर. ^{एव 430} रे

निष्कर्ष 29:46 ऐते ओह जानन गे के अऊं गै ऐ प्रभु गी (यहोवा) उं'दा ईश्वर ('एलोहिम), ^{एव 430} रे

जिसने उनेंगी देश (पृथ्वी) थमां कड्डी लेआ ^{एव 776} मिस्र दा, ऐ

तां जे मैं उंदे च रौहना ऐ प्रभु गी (यहोवा) उं'दा ईश्वर ('एलोहिम) ^{एव 430} रे.

→ द्वारा की गई प्रसाद अगको प्रभु गी (थमां एचगी जम्म) तुंदी पीढ़ियें च पैहलें तम्बू दे पर्व दे दरवाजे पर लगातार होमबलि होग प्रभु गी,
जित्थें ओह इस्त्राएल दे पुत्तरे कन्ने मिलग, बोलग ते रौहग ते... प्रभु गी (यहोवा) होंगे उनके ईश्वर ('एलोहिम).

लेवी 19:36 ऐबस (सही) ^{एव 6664} संतुलन बनांदा ऐ, ऐ ^{एव 3976} बस (सही) ^{एव 6664} चजन (पत्थर) दा, ऐ ^{एव 68}

इक न्यायी (सही) ^{एव 6664} एफाह, ऐ ^{एव 374} ते इक न्यायी (धर्मी) ^{एव 6664} हिन, ऐ ^{एव 1969} चतुदे कोल होग:

मैं आं प्रभु गी (यहोवा) उं'दा ईश्वर ('एलोहिम), ऐ ^{एव 430} रे

जिसने तुगी बाहर कड्डेया ^{एव 3318} जमीन (धरती) दा ^{एव 776} मिस्र दा. ^{एव 4714} रे

→ प्रभु जी इस्त्राएल दे घराना ते यहूदा दे घराना कन्ने वादा कित्ता के ओह चाहग

अच्छी गल्ल निष्पादित करो। ' .अच्छी गल्ल' धर्म दी शाखा दा संदर्भ दिंदा ऐ ओह चाहना
धरती उप्पर न्याय ते धार्मिकता गी पूरा करने आस्ते दाऊद दे कोल बधी जाओ

यहूदा ते यरूशलेम गी सुरक्षित बनानां दे नां पर प्रभु गी साडी धरमा

→ प्रभु परमात्मा तुसें गी अपने धर्मी लोकें दे जरिए मिस्र दी धरती थमां कड्डी लेआ

तराजू, पत्थर, एफाह ते हिन, तां जे ओह अपने लोके इस्माएल गी पवित्र धरती उप्पर लेई आवै।²⁵²

† हुण जदु अस पाप करदे हां, तां साडे कोल इक पैरवीकार होंदा ऐपिता **जीचयीशु मसीह**, जो नाम है आहला**प्रभु गी**, ऐ सादा**धरम**(**१योह २:१**)।²⁵³ **मसीह**प्रधान याजक बने^{१:749}आने आली “अच्छी चीजें” दा, इक बड्डा ते सिद्ध तम्बू (हत्थें कन् ने नेई बनाया गेदा, मतलब इस सृष्टि दा नेई^{१:2937}र(इब्रानियों १:११), बकरी ते बछड़े दः खून कन्ने नेई, पर अपने खून कन्ने ओह हासल करिये इक बारी पही परम पवित्र थाह र च दाखल होई गेआ**अनन्त छुटकारा**(इब्रानियों १:१२)।

कीजे जेकर बैलें दा खून^{१:5022}ते बकरियां ते बछड़े दी राख अशुद्ध गी छिड़कदे होई मांस दी शुद्धता आस्ते पवित्र करदे न (इब्रानियों १:१३), किन्ना होर होग**मसीह दा खून**, जो के माध्यम से**अनन्त आत् मा** बिना स्पॉट दे अपने आप गी पेश कीता**ईश्वर**, जिंदा दी सेवा करने आस्ते अपने अंतरात्मा गी मरे दे कम्मं थमां शुद्ध करो**ईश्वर**(इब्रानियों १:१४)? इस कारण, ओह मध्यस्थ ऐनए **वसीयत दा**, तां जे मौत दे जरिए पैले नियम दे अधीन आले अपराधें दे छुटकारा पाने आस्ते, जेड़े बुलाए गेदे न, उनेगी अनन्त विरासत दा वादा हासल करी सकन (इब्रानियों १:१५)।

- **जौ दा इक सूखा नाप**^{१:8184}र

गणना 5:15 ऐफिर आदमी (पति)^{१:376}रअपनी घरेआली गी याजक दे कोल लेई आओ, ते ओह करग उदे आस् ते उदी बलिदान, इफा दा दसवां हिस्सा लेई आओ^{१:374}रजौ दा^{१:8184}रभोजन (आटा रूडी)^{१:7058}रओह तेल नेई पाग^{१:8081}रउदे उप्पर, ना लोबान लाओ^{१:3828}रउदे उप्पर; की वे ए ईश्यां दा चढ़ावा ऐ, ते अधर्म गी लाने आला याददाश्त दा चढ़ा ऐ **याद करना**।

→जौ दे आटे दे आटे दा इक एफाह दा $1/10 =$ अधर्म गी लाने आस्ते इक प्रसाद **याद करना**।

- **इक एफाह दा इक सूखा नाप**^{१:374}रजौ दा^{१:8184}र

रथ 2:17 ऐइस करिए ओह (रूथ) ने कटाई कीती^{१:3950}खेत में^{१:7704}रशाम तक, ते जेड़ा उसी कट्टेया हा, उसी मारी ओड़ेया^{१:374}रजौ दा^{१:8184}र

→मन्ना नापने आस्ते ओमर दा इस्तेमाल कीता जंदा हा। 10 ओमर 1 एफाह ($1/10$) दे बराबर होंदा ऐ ओमर = 1 एफाह।**प्रभु**इस्माएल दे पुत्तें गी सिद्ध करने आस्ते मन्ना दिता जे केह उंदे नियम च चलन जां नेई (निष्कर्ष 16:4 ऐ), जो इशारा करदा है कि मन्ना, दा सुर्ग दी रोटी, दी व्यवस्था ही**प्रभु गी**।

दूजे शबदां विच, मन्ना या कानून दा**प्रभु गी**(ओमर दा इक सूखा नाप) ऐ 1 एफाह दे सूखे माप दे $1/10$ दी कीमता।

→रूथ ने खेत च जौ दा इक एफाह कट्टेआ, जेहड़ा “10 ओमर दे बराबर ऐ **जौ**”।

- **गल करना**जौ दी फसल & कणक दी फसल दे अंत तक

रथ 2:18 ऐते ओह उसी लेईये शौहरे च चली गई।

ते उदी सास ने उसी जे किश कट्टे दा हा, उसी दिक् खेया।

ते ओह उसी पैदा करी ओड़ेया, ते ओह उसी देई ओड़ेया, जेका उसी अपने होने दे बा'द गै रखेया हा काफी (संतुष्ट) हो गया।^{१:7648}र

रथ 2:19 ऐउदी सास ने उसी आख्या, “तू अज्ज कित्थे कट्टेया ऐ ?

ते तू कित्थे कम्म किता ?

धन्य होवे जो ज्ञान (ज्ञान) लेया^{१:5234}रतेरे दा। ते ओह उसी दस् सेया

सास जिसदे कन्ने कम्म करदी ही, ते आखदी ही, “आदमी दा (पति)^{१:376}र

जिसदे कन्ने में अज्ज कम्म कीता ऐ, उंदा नां बोअज ऐ।

²⁵²वीडियो 19. “पृथ्वी & जमीन” www.therhemaofthelord.com/course1/पृथ्वी-जमीन/।

²⁵³वीडियो 48. “8 दा हनुक्का” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-दे-भोज-8-हनुक्का/।

रथ 2:20 ऐनाओमी ने अपनी बहू गी आखया।

धनहो ओह दा**प्रभु गी**, जिसने जिंदे ते जिंदे उप्पर अपनी मेहरबानी नेई छडी
मरे दा. नाओमी ने उसी आखया, “ मनुख (पति)^{एव 376} रिशतेदार दे नेड़े है^{एव 7138} साडे कोल, ऐ
साडे अगले रिशतेदार (मुक्तिदाता) विचों इक).^{एव 1350}

रथ 2:21 ऐते मोआब दी रूथ ने आख्या, “उसने मिगी बी आखया।

तू मरे जवानों (एक मुंडा) दे नाल जोरदार रहो,^{एव 5288} जफ तक उन्शोंने भये सभस्त खत्म नशी शो गमे
पेदावार.

रथ 2:22 ऐनाओमी ने अपनी बहू रूथ गी आख्या, “ भला ऐ, मेरी बेटी!

कि तू उदी कुड़ियां कन्ने निकली जाओ^{एव 5291} कि ओह तुंदे कन्ने किसे होर च नेई मिलन
खेतर.^{एव 7704}

रथ 2:23 ऐइस आस् ते ओह कुड़ियें दे कश तेजी कन् ने रौंदी ही^{एव 5291} बोअज दा कटोरा

जौ दे सिरे तकर^{एव 8184} **पेदावार**ते कणक दा^{एव 2406} **पेदावार**,^{एव 7105} और साथ रहा
अपनी सास.

→रूथ ने न सिर्फ इक एफा जौ कड़ेया, बल्कि उसी अपने बाद बी किश आरक्षित कीता

संतुष्ट हो गया।**टीओह** मानू (पति) जेका उसी नोटिस किता ते उदे कन् ने कम्म किता, ओह बोअज ऐ,
कुसी**प्रभु गी** आशीवादि देओ कीजे उंदी मेहरबानी ने जिंदे ते मरे दे लोकें गी नेई छडुडी दिला ऐ, ते...

ओह मानू उंदे घरेआले रिशतेदार ऐ, उंदे मुक् तिदाताएं च शामिल ऐ। बोअज ने रूथ गी रुकने लेई आखेआ
अपने जवानों (या लडके) दे नेड़े²⁵⁴ जदू तकर ओह उंदी सारी फसल पूरी नेई करी लैदे, ते...

रूत अपनी बोअज दी जवान जनानियां दे नेड़े गै रेई गेई ते दूए खेतों च कुसे कन् ने नेई मिलदी ही

जौ ते कणक दी कटाई दे अंत तकर, ते ओह अपनी मां दे कन्ने घर च रेई गेई

कनून. इस आस् ते रूत दा पति बोअज सादे आत् मक पति दा प्रतिनिधित्व करदा ऐ, **मसीह**, जिस विच
फसल दे अंत तकर असंगी खेतर च गै रौह्ना चाहिदा।

बीओआज़इक आदमी है⁴³⁵ मसीह दा, मतलब ओह ओह गै ऐ, जिसी धरमी बनाया गेदा ऐई**धर**च

मसीह (रकुरिस्थियों ५:२१), दा बीज है**मसीह**, ते पवित्र ऐ⁴⁰ (मार्च 6:20 गी). इस करिए बोअज, जिय्यां

मसीह दा मनुख, अपनी जनानी (या उस घरेआली कन् ने प्रेम करदा ऐ, जिसदे थले परमेसरे दों लोगो ऐ

दे नियत समें तगर ट्यूटर ते गवर्नर**पिता जी**), इत्थं तगर जे**मसीह**भी प्यार किया

कलीसिया गी ते उदे आस् ते अपने आप गी देई ओड़ेया।

मसीहघोने कन्ने कलीसिया (मसीह च पुरुषें ते जनानियों) गी पवित्र ते साफ करग

शब्द दे द्वारा पानी दा (**रमा दा**), ऐ⁴⁴⁸⁷ तां जे उसी अपने आपै गी इक गौरवशाली पेश कीता जा
कलीसिया, दाग ते शिकन नेई होन, लेकन बिना दाग दे पवित्र होओ (**इफिसियों 5:27 ऐ**).²⁵⁵

बोअज दी तरह, अनुग्रह दे अधीन (आध्यात्मिक रूप च, मनुख,**जी435 ऐ**) उं लोकें कन्ने प्यार करना चाहिदा जेहड़े हेठ न

कानून (आध्यात्मिक रूप च नारी) जिवें ओह (पुरुष,**जी435 ऐ**) अपने शरीर दे कन्ने-कन्ने अपने मांस कन्ने बी प्यार करदा ऐ, जेहड़ा...

उसी परमात्मा दे रेमों च उगाने आस्ते उसी पोशित ते पोशित कीता।²⁵⁶

ए जानदे होई के मसीह पापें आस्ते इक बारी मरी गया ते परमेसरे आस् ते जीने आस् ते मरे दे चा जिंदा होई गया।

मौत दा हुन उदे उप्पर राज नेई रेंदा। उसी तरह तुस पाप आस्ते मरे दे ओ ते जिंदे ओई**धर**

दे राहें**यीशु मसीह**सादानाथ.

इस तहाँ जान लओ कि तुसीं दे शरीर दे अंग हो**मसीह**, ते कि तुंदे सदस्यें दे रूप च

²⁵⁴वीडियो 20. “(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवारा”

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

²⁵⁵वीडियो 32. “(एक बड़ड़ा रहस्य) मसीह & कलीसिया 1/2”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-एक-महान-रहस्य-मसीह-चर्च-सब-चीज-परमात्मा-दी-हैं/.

²⁵⁶वीडियो 31. “सिर दे बाला”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-एक-नजरी-देव-दे-सिर-के-बाल/.

धर्म दे साधन गीर्धर. पाप दा तुहाडे उप्पर प्रभुत्व नेई रेई गोदा कीजे
तुस हुन व्यवस्था दे अधीन नेई, लेकन अनुग्रह दे अधीन ओ। इस करिए जेहडे हेठ न
अनुग्रह गी उनें लोके गी पोशित करना ते संजोना चाईदा, जिच् यां प्रभु उंदे आस् ते करदा ऐ
कलीसिया (पुरुष ते जनानी)। अस मसीह दे शरीर दे, उदे शरीर दे, ते...
उंदी हड्डियां दा (इफिसियों 5:29 ऐ).²⁵⁷

नाओमी ते ओहदे परोआर कनान च अकाल कोला बचने आस्तै बेतलेहेम थमां मोआब चली गे, इत्थूं तगर जे...
परमेसरे कन् ने अपने रिश्ते ते गी गवाने दा खतरा। दे वादे दी धरती गी छोड़ने दे नतीजे दे तौर उप्पर
बेतलेहेम, नाओमी ने अपने पति (एलिमेक) ते उंदे दो पुत्तर (महलोन ते किलियन) गी 1990 च खोई लेआ
मोआब। ऐसी त्रासदी च शामिल होने आह्वे व्यक्ति आमतौर पर निराश होई जंदे न,
ते नाओमी दी निराशा सिर्फ इस आस् ते होर बी बधी गेई के उदे कोल कोई बी मदद नेई हा ते ना गै उसी बचाई सकै। बाबजूद
इस गल् ला गी, नाओमी ते रूत ने अपने बिच परमेसरे कन् ने चिपकने दा समझदार फैसला कित्ता
अपगत.²⁵⁸

नतीजे च, परमेसरे रूथ गी आशीष दिती के ओह बोअज कन् ने मिलने ते उंदे कन् ने ब्याह करने दा मौका दिता
देश दा वादा कित्ता, ते ओबेद इक पुत्तर पैदा कित्ता। इस ओबेद दा पिता बन गया
यिश्, जो बदले च दाऊद दा पिता (रथ 4:17 ऐ). एह वंशावली महत्वपूर्ण ऐ
क्योंकि ए दाऊद कन्ने परमेसरे दे वादे गी सिद्ध करदा ऐ के ओह उदे आस् ते इक घर बनाग (यहोवा,
रसा ७:१० ते), ते नमें नियम दे मताबक, यीशु मसीह अपने वंश दा पता लाया
दाऊद ने दी, “की पीढ़ी दी किताब यीशु मसीह दाऊद दा पुत्तर, अब्राहम दा पुत्तर.”
(मत्ती 1:1 ऐ)।²⁵⁹

➤ इक पैसा (denarion) ^{गी1220 ने बी}? (ओमर ^{एव 6016 ऐ} → एफाह ^{एव 374 ऐ} → जौ ^{एव 8184 ऐ} → पेनी (डेनारिओन) ^{गी1220 ने बी})

मत्ती 20:1 ऐ की वे सुर्ग दा राज मनुख दे समान ऐ ^{गी444 ऐ} कि इक घरे दा मालिक ऐ,

जेड़ा सवैरे-सवैरे अपने अंगूर दे बाग च मजदूरें गी किराए पर लैने आस्तै निकलदा हा।

मत्ती 20:2 ऐ ते जदु ओह मजदूरें कन् ने राजी होई गया ^{गी2040 ऐ} इक पैसे दे वास्ते ^{गी1220 ने बी} इक दिन, ऐ

उनें गी अपने अंगूर दे बाग च भेजी दिता। ^{गी290}

→ की जेईश्वर किसान ऐ, ते उंदा पुत्तर ऐ यीशु सच्ची बेल ऐ, अस शाखाएं दे रूप च, उस च रौह्ना चाहिदा परमात्मा दा पुत्तर ते नवे (रमा) परमात्मा दे राज च दाखल होने।
“मसीह अपने घरे उप्पर पुत्तर दे समान; जेकर अस अन्त तक भरोसे ते आशा दे आनन्द गी मजबूती कन्ने पकड़ी लेचे तां अस किस दे घर आं” (इब्रानियों ३:६) ते
इस यीशु है मसीह, परमेसरे दा पुत्तर, ते एह विश्वास करने कन् ने तुसें गी उदे नां कन् ने जीवन मिलग। उदे च रौहने आले मते सारे फल दिंदे न, ते इस चाल्ली आशीर्वादित होंदे
ना जेकर तुस उंदे च गै रौंदे ओलोगो दा, तुसें गी डरने दी लोड़ नेई ऐ जेकर तुसें गी शाखा दे रूप च ते अग च सुट्टी दिता जा ते जला दिता जा, कीजे... प्रभु गी तुहाडी जमीन
विच लाए गए लोगो नू उस नू बदल के बड़े-बड़े कम्म कर देगारेमा दा.²⁶⁰

• इक पैसा (denarion) ^{गी1220 ने बी}: दीनरी दा मतलब ऐ “दस युक्त”²⁶¹

- जभीन त्रय नानी चीजे स्केल की जाती हैं दस (मल्कीसेदेक ने दी) अब्राम गी आशीर्वाद दिता ते अब्राम ने उसी दिता

दसवां हिस्सा कीजे “पृथ्वी दा सारा दसवां हिस्सा, चाहे धरती दे बीज दा होऐ, जां बूहटे दे फल दा,

ऐ प्रभु दा (यहोवा) तां एह पवित्र ऐ प्रभु गी (यहोवा, ऐलेवी 27:30 ऐ). इस चाल्ली अब्राम ने मना करी दिता

सदोम दे राजा दे चढ़ाया गोदा कोई बी माल लेई लैओ, तां जे ओह नेई आखग जे उनै अब्राम गी अमीर बनाई दिता ऐ (उत्पत्ति 14:23 ऐ).²⁶²

²⁵⁷वीडियो 32. “(एक बड्डा रहस्य) मसीह & कलीसिया 1/2।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-एक-महान-रहस्य-मसीह-चर्च-सब-चीज-परमात्मा-दी-हैं/.

²⁵⁸वही।

²⁵⁹वीडियो 32. “(एक बड्डा रहस्य) मसीह & कलीसिया 1/2।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-एक-महान-रहस्य-मसीह-चर्च-सब-चीज-परमात्मा-दी-हैं/.

²⁶⁰वीडियो 28. “आत्मा दा फल” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्म-दा-फल/ ते वीडियो 31. “परमेसर (सिर दे बाल) गी इक नासरी।

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-एक-नजरी-देव-दे-सिर-के-बाल/.

²⁶¹G1220 - denarion - मजबूत दा ग्रीक शब्दकोश (kjv)। “नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 31 मार्च, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g1220/kjv/tr/0-1/ऐ>.

²⁶²संदर्भ देना प्रकासित 4:8 ऐ.

[लुका 20:24](#) ऐइक पैसा दिखाओ।^{ती1220 ने ती} किस दी छवि ते सुपरस्क्रिप्शन ऐ?

उने जवाब दिता, “कैसर दा ऐ।”

[लुका 20:25](#) ऐउन उन्दे कन्ने आख्या, “कैसर दी गल्ल कैसर गी देओ।

ते गीईश्वरजो चीजां होनरब दा.

- ई। ईarthly dēnaron बनाम स्वर्गीय dēnaron

→ क्योंकि पेनी (dēnaron) उपर छवि ते सुपरस्क्रिप्शन कैसर दी ऐ, नेईईश्वर, एह सिर्फ कर सकदा ऐ

कैसर गी सौपेआ जा, कीजे सांसारिक चीजे गी कर देने आहियां चीजां पवित्र नेई नप्रभु गी.

दू शब्दां च, पार्थिव दिनार गी दर्शाया गेदा ऐमें 10 दी इकाई ते धरती दा ऐ, ऐ तगर **स्वर्गीय दीनरी दाऐस्वर्ग दा इक फल**जेड़ा गुणा होईये पिता गी चढ़ाया जाना चाइदा (हाबिल ते कैन दे परमेसरे गी चढ़ाने दा उदाहरण इस गल् ला गी दर्शादा ऐ).

दसवां हिस्सा दी अवधारणा च, ऐसो, ऐपरमेसरे दी चीजे दा मतलब ऐ उने चीजे गी जेह् डियां उपर पैदा होईयां हियां परमेसरे दे लोगो खाने आले दे मांस दे जरिये पीसना. इस तर्हा जो ग्रहण करदा हैपरमातमा दे लोगो

अच्छी जमीन च (इस च रोहने कन्ने **टीओह प्रभु**), लोगो सुनदा ऐ, ते समझदा ऐ, फल दिंदा ऐ ते सौ गुना, साठ, या तीस गुना जेड़ा सुर्ग च पिता दी महिमा करदा ऐ ([युहन्ना 15:5-8](#)).²⁶³

[मार्च 14:5](#) ऐकीजे एह त्रै सौ पेंस (dēnaron) कोला बी मते च बिकाई सकदा हा।^{ती1220 ने ती} ते गरीबे गी बी दिता गेदा ऐ। ते ओह उदे खलाफ गुनगुनादे रेह।

→ उस जनानी ने अलबास्टर दा डिब्बा तोड़ी, ते मरहम ढाल दिता **यीशु दासिर** उंदे शरीर उपर अभिषेक करने आस्तै

दफनाने दे वास्ते अफोरहैंड ([मरच 14:3-8](#) गी, [ऐमती २६:७ ऐ](#), [ऐ मती २६:१२ ऐ](#)), लेकन चोर, प्रधान याजक, शास्त्री, ते चेलें सारें गी एह बरबादी समझेया, कीजे मरहम मते च बिकाई सकदा हा

(300 dēnaron) ते गरीबे गी दिता।

“किजोकी तुंदे कन्ने हर बेल्ले गरीब होंदे न, ते जदुं चाहो तां उंदे कन्ने भला करी सकदे ओ।

[लेकन मैं तुंदे कोल हमेशा नेई ऐ](#)” ([झं12:8, 10](#) चामार्च [14:7 ऐ](#), ऐ [मती २६:११ ऐ](#)).²⁶⁴

²⁶³वीडियो 28. “आत्मा दा फल।” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्मा-दा-फल/.

²⁶⁴“[चित्र 6-ख],” या वीडियो 10. ““फसह दी पर्व” दे दिन पहले।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-दिन-पहले-फसह-दे-त्योहार/.

[चित्र 6-ख] “फसह दी पर्व” कोला दिन पैहे

To Jesus	Judas Iscariot (Simon's son)	Woman
A pound of costly ointment (Jhn 12:5)	Ointment should be sold for 300 pence & given to the poor, for he was a thief (Jhn 12:6).	Let her alone: against the day of my burying hath she kept this (Jhn 12:7)
Mark	The chief priests & the scribes	To Woman
An alabaster box of very precious ointment of spikenard (Mar 14:4)	Why was this waste of the ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence, and have been given to the poor (Mar 14:4-5).	Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a good ^{G2570} work on me. She hath done what she could: she is come aforehand to anoint Jesus' body to the burying (Mar 14:8)
Anoint Jesus' body (Mar 14:8)		
Matthew	Jesus' disciples	To Woman
An alabaster box of very weighty ointment (Mat 26:7)	To what <u>purpose</u> is this waste ? For this ointment might have been sold for much , and given to the poor (Mat 26:8-9)	Why trouble ye the woman ? for she hath wrought a good ^{G2570} work upon me (Mat 26:10). For in that she hath poured this ointment on my body , she did it for my burial (Mat 26:12)

→ स्ट्रॉना दे मुताबिक जी 211 ऐचमार्च 14:3 ऐ, “तोड़ना^{#4937} र अलबास्टर दा डिब्बा” ज्यादातर संभावना ऐ जे इसदा संदर्भ दिदा ऐ “तोड़दे होए²⁶⁵ बक्से दी मुहर, ऐ”²⁶⁶ जो “के तोड़ने दा द्योतक ऐसात मुहरे गी” (जिस दे कोल ऐ उदे सिंहासन दे सामने सत्त आत् मा, हुन उदे कन् ने धरती उप पर नेई रौहग, बल् कि सुअगे च चढी जांगन और तोड़ देसात मुहरे गी).

मत्ती २६:१३ ऐ “मैं तुमें गी सच्च आखना ऐ, जित्थे बी ए सुसमाचार प्रचार कीता जाग^{#1722} ओह सारी दुनिया, उथे बी ए, जेड़ा इस जनानी ने कीता ऐ, उसी दी याद आस् ते दस्सेया जा”²⁶⁷

[चित्र 6-ग] “फसह दी पर्व” कोला छह दिन पैहे

By faith, a woman's sins are forgiven even prior to the crucifixion of Jesus (Luk 7:47)

To Jesus	Simon	Woman
Gave tears for Jesus' feet (Luk 7:44)	No	Washed His feet with tears & wiped them with the hairs of her head
Kiss Jesus' feet (Luk 7:45)	No	Not ceased to kiss Jesus' feet
Anoint Jesus' feet with ointment (Luk 7:46)	No	Anointed Jesus' feet with ointment
Sins are forgiven (Luk 7:47)	No	Yes (for shed loved much)
Saved from sins (Luk 7:50)	No	Thy faith hath saved thee; Go in peace

²⁶⁵G4937 - syntribō - मजबूत दा ग्रीक शब्दकोश (kjv)| नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 16 अक्तूबर, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4937/kjv/tr/0-1/ ऐ>.

²⁶⁶जी 211 - अलबास्टर - स्ट्रॉना दा ग्रीक कोश (kjv)| नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 31 मार्च, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g211/kjv/tr/0-1/ ऐ>.

²⁶⁷[चित्र 6-ग] “फसह दी पर्व” कोला छह दिन पैहे दा संदर्भ लैओ।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-दिन-पैहले-फसह-दे-त्योहार/.

- ऐकनक

घड़ी आ गई²⁶⁸

- कणक के दाना के लरए कमा अथश शै⁴⁶²¹ जेड़े मते सारे फल देने आस्ते जमीन च मरना पौंदे न
([इं:12:24 ऐ](#))?

- इसदा केहू लेना-देना ऐयीशु दाउसी दी दुआवापूसुर्ग च जदुं उन् ने गू लाया हा, “घड़ी आई गई ऐ” च
[जहन्ना 17:1 ऐ](#)?

मरे हुए जी उठे= बीज(शुक्रा) दा⁴⁶⁹⁰ परमातमा दे अपने शरीर दा

जेड़ा तुसें बोया ओ शरीर नेई ऐ, बल्के कणक दा नंगे दाना ऐ⁴⁶²¹(या लोगो दा) जां कुसै होर अनाज गी जेहड़ा जमीन च डिगी जंदा ऐ ते मरना चाहिदा ते मता फल देने आस्ते जिंदा होना चाहिदा ([इं:12:24 ऐ](#)). ईश्वरउसी अपनी मर्जी कन्ने शरीर दिदा ऐ, हर बीज (शुक्राणु) गी⁴⁶⁹⁰ (1कुरिन्थियों १५:३७-३८) कि मुड़दा हैपरमातमा दे लोगो रेमा च (या पानी गी शराब च बदली दिदा ऐ, [जहन्ना 2:9 ऐ](#)).

• परमातमा दा राज(बीज दा दृष्टांत⁴⁷⁰³)

परमातमा दा राजमानो कोई आदमी ढलाई करदा ऐ बीड²²³³ ऐ जी⁴⁷⁰³ (के लोगो दाईश्वर) जमीन च पाई दिता(जिसदी व्याख्या इस तर्हा कीती जांदी है कि इक आदमी दा लोगो लैदा हैईश्वर अपने शरीर च). ते रात-दिन सोदा ते जागदा रेआ, ते उंदे लोगोईश्वर आया ते अपने शरीर च उगया, पर उसी पता नेई ऐ के किस चाल्ली ([मार्च 4:26 ऐ](#)).

उं'आं गै यीशु मसीह, जो बीज (शुक्रा) ऐ⁴⁶⁹⁰ दाऊद दा, मरे दे विचों जी उठया ([२ती 2:8 ऐ](#)), इस चाल्ली, कोई बी मनुख जिस च बपतिस्मा लेता हायीशु मसीहउदी मौत च बपतिस्मा लेता हा, ते लोगो देईश्वरमें आदमी झरदा है ते उगदा है ते बीज (रेमा) चईश्वर. इसान बनाने तों पहलां, [एव120](#) ऐ ईश्वरकहा “पृथ्वी को दे⁷⁷⁶ सामने लानाघाह, बीज बोने आहूी जड़ी-बूटी ते अपनी किस्म दे फल देनः आहूे बूटे,” ते एह इयां गै हा, ते...ईश्वरदे खा कि अच्छा ([उत्पत्ति १:११](#)).²⁶⁹ कीजे परमेसरे दी नजर च भला हा, इस आस् ते उन् ने बीज गी उसी अपनी मर्जी दे मताबक शरीर दिता, धरती उप् पर हर बीज (शुक्राणु) गी बाद चरब दाकिरपाल, दा फल पैदा करदा ऐलोगो दा(1कुरिन्थियों १५:३८, ऐउत्पत्ति १:१२).

जेकर कोई बपतिस्मा लैदा ऐ, उसी दी मौत चयीशु मसीहजिंदा होने आली आत्मा कन्ने उंदी आत्मा दा जीवन जिंदा होई जाग ([इं:6:63 ऐ](#)), जदूं दा फलयीशु मसीह, ऐ या धर्मी(1थोह २:१), जीवन दे पेड़ तों बाद पैदा हो जांदा हैरब दादयालु, इक सुर्गदूत मंदर च निकली औग ते हंसी ठोकिये फसल कट्टगडबल्यूजदुं तुसेंगी अपने मांस दी जमीन दी फसल दे समान फसल कट्टने दा समां औंदा ऐ। बाद च तुस दिखगेमनुख दा पुत्रऊपर चद जाओजित्थें ओहू पैहें हा ([इं:६:६२ ऐ](#)), मांस गी किश बी फायदा नेई होंदा, जिंयारिमा दाजे यीशु तुंदे कन्ने बोलदा ऐ, ओह आत्मा ते जीवन ना के लोगो के रूप मेंईश्वरतुंदी जमीन च (या तुंदे शरीर च) मरदा ऐ ते फिरी जिंदा होई जंदा ऐ, तुंदा शरीर हून मिट्टी दा नेई होई जंदा, पर स्वर्गीय (1कुरिन्थियों १५:४०).

• सरसों दा दृष्टान्त

सरसों दे बीज दे इक दाने गी नंगे दाना आखदे न1कुरिन्थियों १५:३७ ऐ. दा राजईश्वरजमीन च बोए गेदे सरसों दे दाने दे समान ऐ, ते ए सरसों दा बीज “कुछ होर दाना” ऐ जेड़ा जमीन च होने आहूे सारे बीए कोला घट्ट ऐ। पर, जदूं बीज बोया जंदा ऐ ते उगदा ऐ तां ओहू सारी जड़ी-बूटियें कोला बी बड्डा होई जंदा ऐ ते बड्डी-बड्डी शाखाएं गी कड्डी लैदा ऐ, तां जे सुआंगें दे मुर्गी उंदी छाया च रुकी सकन ([मार्च 4:32 ऐ](#)).

→मत्ती दे श्रोताएं दे चेलें गी, दे रहस्यस्वर्ग दा राज उन्हें गी दिता गेदा ऐ

लोगो दे जरिए जानदे न, पर बड़ी भीड़ (लोग) गी नेई।

→मरकुस दे श्रोताएं दे चेलें गी यीशु ने लोगो दे बारे च मते सारे दृष्टान्त सुनेया।

ते उनेंगी सारें गी समझाया।

→ लूका दे श्रोताएं दे चेलें गी, दे रहस्यपरमातमा दा राज उन्हें गी जानने दा मौका दिता गेदा ऐ।

पर दूए गी नेई, जेके नेई दिक् खीए ते नेई समझी सकनरेमा दा.

→ “सच्चे, सचमुच, मैं (यीशु) तुहानूं आखदा है, घड़ी आने आली ऐ, ते हुन ऐ,

जदूं मरे दे लोकें दी आवाज सुनी जागओहपरमातमा दा पुत्र: ते सुनने आले जिंदे रौहगे” ([जहन्ना 5:25 ऐ](#)).²⁷⁰

²⁶⁸वीडियो 29. “घड़ी आई गई ऐ”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-प्रभु-फसल-शिय-बनाम-प्रेरित-घंटे-आंदे न/.

²⁶⁹वीडियो 1. “सृष्टि दे कदम” www.therhemaofthelord.com/कोर्स1/पाठ1/ ऐ.

²⁷⁰अध्याय 11 थमां “यीशु दी सुर्ग च अपने पिता (प्रभु परमेसरे दा नां)” दी प्रार्थना दा संदर्भ लैओ।

(नोट)

»कनक= लोगो दा

»इक पैसा (दिनार दा) = दस दे पैमाने पर जमीन पर लोगो गी नापदा ऐ।

»इक ओमर =इक एफाह दा 1/10 (निष्कर्ष 16:36 च)

»ओहमनाया कानून दाप्रभु गी (ओमर दा इक सूखा नाप) = 1 एफाह दे सूखे माप दे 1/10 दी कीमत ऐ।

»1/10 दाइक एफाह दाआटे दा + (तेल नहीं) = पाप दा बलिदान

»1/10 दाजौ दे आटे दे आटे दे इक एफाह दा= अधर्म नू याद करन दा प्रसादा।

→व्यवस्था पाप दा ज्ञान ऐ (रोम 3:20 ऐ), ते हुक्म दे जरिए पाप बड़ा गै पाप होई सकदा ऐ।

(रोम 7:13 ऐ)।

→रूथ ने खेत च जौ दा इक एफाह कड़ेआ = जेहड़ा “जौ दे 10 ओमर” दे बराबर ऐ।

- मतलब “इक डेनारिओन”

मत्ती 20:1 ऐलेईस्वर्ग दा राज घरे दे मनुख दे समान ऐ।

जेड़ा सवैरे-सवैरे अपने अंगूर दे बाग च मजदूरों गी किराए पर लैने आस्तै निकलदा हा।

मत्ती 20:2 ऐते जदुं ओह मजदूरों कन् ने इक पैसा (dēnariōn) लेई राजी होई गेया।^{मत्ती1220 ने ती}इक दिन, उनेगी अपने अंगूर दे बाग च भेजी दित्ता।

मत्ती 20:8 ऐतो जदों शाम हो गई, तां प्रभु (kyrios)^{मत्ती2962 ने ती}दाख दी बाग दाअपने भंडारी गी आखया।

मजदूरों गी सद्दो ते उनेगी उंदा किराया देओ, आखरी थमां लेइये पैहे तकरा

मत्ती 20:9 ऐय्यारह बजे दे करीब किट्टे आए दे लोक आए।

उनेगी हर इक माहू गी इक पैसा (इक दिनार) मिलदा हा।^{मत्ती1220 ने ती}

मत्ती 20:10 ऐपर जदुं पैहलें आए, तां उनेगी एह सोचेया के उनेगी होर बी मिलना हा।

ते उनेगी बी हर इक गी इक पैसा (इक डीनारिओन) मिलदा हा।^{मत्ती1220 ने ती}

मत्ती 20:11 ऐलेकन उन्हें घरे दे मालक दे खलाफ गुनगुनाया।

→ टीओह सुर्ग दा राजघर दे मालिक दे समान है (प्रभु गी), जो सुबेह-सवैरे किराए पर लेने निकले

मजदूर (या उदे दास, मत्ती 20:27 ऐ) उंदे अंगूर दे बाग आस्तै प्रभु किराए पर मजदूरों गी लेइये उंदे कन्ने सहमत होई गेआ

उन्हें भुगतान करनाइक पैसा (एक डेनारिओन) दिन चते उनेगी अपने अंगूर दे बाग च भेजी दित्ता।²⁷¹इस चाल्ली, नंबर दी परवाह नेई करदे इक दिन च कम कीते गेदे घंटें दा, इक पैसा (एक dēnariōn) उंदे अंगूर दे बाग च कम करने आस्तै इक दिन दी मजदूरी दे काबिल ऐ।

- ध्यान रखवो जे इक डेनारी दस दे पैमाने पर जमीन उप्पर लोगो गी नापदा ऐ। के कानून प्रभु गी पर जमीन गी ऐलोगो दाते जेकर तेल बगैर नापया जा तां पाप दा बलिदान ऐ। दिनार दे लेई त्रै (3) जौ ऐ जौ दे 3 ओमर दे बराबर इक डेनारी आस्तै जेहड़ा कानून दे तैह्त (जां बिना तेल दे) गी नापदा ऐ, सो, इक दिनार दा “पाप गी नापदा ऐ”।

- जौ दे आटे दे आटे दे इक एफाह दा 1/10 अधर्म गी याद करने आस्तै इक प्रसाद दे बराबर होंदा ऐ, ते रूथ खेत च जौ दा इक एफाह कड़ा कीता जेहड़ा “जौ दे 10 ओमर दे बराबर ऐ ते इस पर एहसान पाया शादी कर दे मसीह, जिन्ने सानु व्यवस्था दे श्राप कोला छुड़ाया ऐ, ते साड़े आस्तै अभिशाप बनाई लेया ऐ (मलाती 3:13 ऐ)। ओह पाप दी मजदूरी है मौत (रोम 6:23 ऐ) ते सारे पाप कित्ते ते परमात्मा दी महिमा कोला घट्ट होई गे (रोम 3:23 ऐ), पर पापी गी ओह प्रभु दे अंगूर दे बाग च आईये कम्म करदा हा (जिसदा मतलब ऐ अपने विश्वास गी रखना लूका 5:20 ऐ) शाम होने कोला पैहे उंदे नां दे कारण माफ कीते जंदे न (१योह २:१२)।

→ टीइस करिए, इक डेनारिओन संदर्भित करदा ऐ “पापें दी माफी,” ते जेड़े अंदर नमसीह दे कन्ने भुगतान कीते जंदे न “ए

डीनारिओन ने दी”जां उंदे पाप माफ” द्वारा प्रभु शाम होने से पहलो तो, सिर्फ इन मसीह, परमात्मा दी किरपा

ते परमेसरे ते साड़े प्रभु यीशु दे ज्ञान दे जरिए असेंगी शांति बधी सकदी ऐ (२पतरस १:२), ऐ

पर जिंदे च इन्हें दी कमी ऐ बडे ते अनमोल वादे तों वी बद्ध (२पतरस १:९) जां परमात्मा दे लोगो, होना

भुल्लती गया के ओह अपने पुराने पापें थवां शूद्ध होई गेदे हे (२पतरस १:१०)।

- **इक (सूखा)** नाप ^{#5518} आहलाइक पैसा (दिनार) दे बदले कणक
- गेहूँ (लोगो दाजमीन पर) गी इक पैसे (डेनरियस, दस स्केल) आस्तै नापया जंदा ऐ
 - रोटी दी (स्वर्ग थमां जमीन उपपर भेजे गेदे) कणक (लोगोस) थमां बने दा हा ते इस च पीसया जंदा हा आटा इक पैसा (दिनेर) नापने आस्तै जेहड़ा दस (10) स्केल कीता जंदा ऐ
- मन्ना (निष्कर्ष 16:4 ऐ)।
उंदे नियम च चलन जां नेई (निष्कर्ष 16:4 ऐ). इस कानून दा प्रभु गी जमीन पर हैलोगो दा, जित ओमर च नापया जंदा ऐ, जेहड़ा सूखे नाप च इक एफाह दा दसवां हिस्सा (1/10) दा ऐ, ते पाप ऐ प्रसाद देनाजेकर बिना तेल दे नापया जा।
- ➔ दा नाप कनकलेई इक पैसा (इक दिनार दा) दा नाप है परमातमा दे लोगो.
पर, कीजे उंनं लोकें दी मौत च बपतिस्मा दिती गई ही यीशु मसीह उंदी मौत च बपतिस्मा लेता हा, उंदी आत्मा च जीवन गी जीवंत करने आह्नी आत्मा कन्ने जिंदा होई जाग (इं6:63 ऐ), ते परमातमा दे लोगो उनमें बसंत हो जावेगा ते बीज विच उग जावेगा (रमा) आहला ईश्वर ते सादे ज्ञान च फलदायी बनी जाओ प्रभु यीशु मसीह.²⁷²
- त्रैसूखे उपायें ^{#5518} आहलाजो इक पैसा (दिनार) दे बदले
- इकजौ दा एफाहखेत च हासल कीता गेदा जौ दे 10 ओमर दे बराबर होंदा ऐ, इस चाल्ली इक एफाह दा दसवां हिस्सा (1/10) होंदा ऐ जौ आटे दा आटाजौ दे 1 ओमर दे बराबर ऐ, जेहड़ा इक ऐसी प्रसाद ऐ जेहड़ी अधर्म गी लेई आंदी ऐ याद करना. इस चाल्ली इक पैसा (डेनरियस) दे पैमाने थमां हेठ जौ दे 3 सूखे माप जौ दे 3 ओमर होंदे ना
 - ध्यान रकखो जे रूथ सवैरे थमां शार्मीं तक़र खेतर च कम्म करदी ही (या परमात्मा दे लोगो गी बधाने आस्तै कम्म करदी ही)।
(रथ 2:7 ऐ), ऐइकनद जौ दा इक एफाह कड़ा कीता, जेहड़ा “जौ दे 10 ओमर” दे बराबर ऐ। नतीजे च, यहोवा (यहोवा) ^{सू 3068} उंदे कर्में दा बदला दिता ते प्रभु (यहोवा) ^{सू 3068} ईश्वर (एलोहिम) ^{सू 430} इस्राएल दा उसी पूरा इनाम दिता (रथ 2:12 ऐ) ते बोअज कन्ने ब्याह किता जेड़ा सादे आत् मक पति दा द्योतक ऐ, मसीह, जिस विच फसल दे अंत तक़र असेंगी रौहना पौना ऐ
- ➔ इक पैसे (दिनार) दे बदले त्रै (3) जौ इक पैसे (दिनार) दे 3 ओमर दे बराबर होंदा ऐ, जेहड़ा...
कानून दे तैह्त उंनं गी मापदा ऐ। जौ दे आटे दे आटे दे इक एफाह दा इक दसवां हिस्सा (1/10) जानना (1 ओमर दा जौ) अधर्म गी याद च लेई औंदा ऐ, जौ दा 3/10 ओमर “जौ दे 10 ओमर” कोला घट्ट होंदा ऐ जेहड़ा...
रूथ ने अपने मुक्तिदाता बोअज कन्ने ब्याह करने आस् ते एहसान पाने आस् ते कड़ा किता, जेका प्रतिनिधित्व करदा ऐ मसीह जिसने सानु छुड़ाया व्यवस्था दा अभिशाप सादे आस् ते शाप बनी गेदा ऐ (गलाती 3:13 ऐ).
- कानून दापाप दा ज्ञान है (रोम 3:20 ऐ), ते हुक्म दे जरिए पाप बेहतर होई सकदा हा पापी (रोम 7:13 ऐ). जेहड़े सादे ज्ञान च निष्फल न प्रभु यीशु मसीह कृपा दी कमी कीजे ओह व्यवस्था दे अधीन न, ते एह बी भुल्ली गेदे हन के ओह अपने पुराने पापें थवां शुद्ध होई गेदे हे नतीजे दे तौर उपपर अधर्म गी याद च लाना (२पतरस १:९).
- तेल क्या है ^{#1637} ते शराब बी ^{#3631}? (देखो तू आहत (अपराध) ^{#91} तेल ते मदिरा नेई)
- (सवैरे चढ़ाने दा 1 मेमना)
➔ १मेमना + [(आटे दा १/१० = मांस दी बलिदान) + (शुद्ध हिन दा १/४ तेल + 1/4 दा इक हिन दा वाइन) = इक पेय प्रसाद]। सवैरे चढ़ाना।
- (शाम नू चढ़ाने दा 1 मेमना)
➔ १मेमना + [(आटे दा १/१० = मांस दी बलिदान) + (शुद्ध हिन दा १/४ तेल + 1/4 दा इक हिन दा वाइन) = इक पेय प्रसाद]। द्वारा बनाई गई मीठी स्वाद के लिए शाम को चढ़ाना अग्निको प्रभु गी.

²⁷²वीडियो 30. “कम्यूनियन दा” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ ऐ।

→ के कानून **प्रभु गी** जमीन पर हैलोगो दाते जेकर तेल बगैर नापया जा तां पाप दा बलिदान ऐ।
प्रभु परमात्मा इस्राएल दे 12 गोत्रें च लेवी दे कबीले गी चुनेया ऐ तां जे ओहदे नांस पर सेवा करन
प्रभु गी दिन च, याजक लेवी ते लेवी दे गोत्रें दा कोई हिस्सा ते ना गै विरासत ऐ
 इस्राएल कीजे उमेंगी दे बलिदानें गी खाने दा मौका मिलदा ऐ **प्रभु गी द्वारा बनाया गया अग्ग (रमा दा)**, ते **प्रभु गी'S** दा
 बरासत **प्रभु परमात्मा**सुर्ग दा तुंदे सामने अपने सुर्गदूत गी भेजग ते एह प्रगट करग के यीशु मसीह...
 परमात्मा दा पुत्र, इस्राएल दा राजा, ते एह **ऐरेमा दा आहलाप्रभु**, जेड़ा तुसैं गी प्रचार कीता जंदा ऐ
 दा **सूसमाचार यीशु मसीह**.²⁷³

2Ch 2:4 ऐदेखो, मैं (सुलेमान) बनांदा हांडक घरके नाम को **प्रभु गीमेराईश्वर**, ऐउसी समर्पित करने आस्तै,

ते ओस दे सामने मीठा धूप, ते लगातार दिखाने आली रोटी ते जले दे रोटी आस्ते जलाना
 सवरे-शाम, सब्द दे दिनें ते अमावस्या ते धूमधाम दे दिनें च बलिदान

के दावतें **प्रभु गीसादाईश्वर**. इस्राएल आस् ते एह हमेसा आस् ते इक नियम ऐ।

2Ch 2:15 ऐहुण इस करिएगेहं दा, ते **ओहजौ**, ऐ^{एव 8184} **ओहतेल**, ते **ओहवाइन**, ऐ

जो मेरे स्वामी ('ādôn)^{एव 113} आख्या ऐ, ओह अपने दासैं कोल भेजे।

नेह 10:33 ऐदिखाने दी रोटी आस्ते,^{एव 4635 एव 3899} ते सदा खाने दे बलिदान आस्ते।

ते लगातार होमबलि आस्ते, दा

सब्त दे दिन, अमावस्या, निर्धारित त्यौहारें ते पवित्र चीजें ते पापें आस्ते

प्रसाद देइसराइल ते साढ़े घरे दे सारे कर्में आस्ते प्रायश्चित करने आस्ते **ऐईश्वर**.

- ऐगेहं दा, ऐजौ दा, तेतेल दा, ऐशराब दा

→ कणक, जौ, ते तेल, ते मदिरा प्रभु ('ādôn) ने बोलेया हा^{एव 113} जां

धरती दा स्वामी (यहोस 3:11 ऐ) दे नाम दा घर बनाना **प्रभु गीसादाईश्वर**.

प्रसाद देजि'यां लगातार अन्नबलि, लगातार होमबलि ते पाप

इस्राएल दे प्रायश्चित करने आली बलिदान साढ़े घरे दे कर्में आस्ते ऐ **ऐईश्वर**.

→ जदुं ओह मनुख दे पुत्र गी बड़ी शक् ति ते महिमा कन् ने बादलें च औंदे दिक् खडन

मार्क दे दर्शक²⁷⁴ पवित्र आत्मा गी पाओ। कीजे ओह मूर्ख कुंवारी ही ते नेई ही

तैयार, उन्दे कोल कोई नेई होगतेल उंदे कन्ने जदुं मनुख दा पुत्र औग, ते इस चाल्ली रौहग
 जमीन पर।

व्यवस्था 11:14 ऐकि मैं तुहानूं तेरी धरती (धरती) दी बरसात देना^{एव 776} अपने उचित मौसम च,

पैह्री बरखाते बाद दी बरखा, ऐ

तां जे तू अपने धान च कड़ा करो (कनक), ऐ^{एव 1715} ते तेरावाइन, ते तेरातेल.

प्रो 16:15 ऐराजा दे चेहेरे दी रोशनी च जीवन ऐ; ते उदा एहसान दे बादल दे समान ऐ **बाद दी बरखा**.

जकरयाह 10:1 तुसीं मंगो **प्रभु गी बरखा** दे समें च **पिछला बरखा**;

इसलेई **प्रभु गी** चमकदार बादल बना देगा,

ते खेत च हर इक घास गी बरखा दी बरखा देओ।

याकूब 5:7 ऐइस आस् ते भ्राओ, धीरज रखो, जदुं तकर^{एव 2193} के आने दा **प्रभु**.

दिखो, किसान धरती (जमीन) दे कीमती फल दा इंतजार करदा ऐ।^{एव 1093}

ते उदे आस् ते लम्मी धैर्य रखदा ऐ, जदुं तकर ओह नेई होई जंदा **जल्दी ही ते बाद दी बरखा**.

याकूब 5:8 ऐतुस बी धैर्य रखो; अपने दिलें गी स्थिर करो: दे आने आस्ते **प्रभु नजदीक आ जांदा ऐ**.

• (जल्दी बरखा) **गेहं दा तेजौ दा**

→ जो पाते हैं **जल्दी बरखा हो गई (लोगो दा)** **नगेहं दा तेजौ दा** जो सुनते हैं और रखते हैं

परमात्मा दे लोगो जभीन नय यशते वभम, औय नशरे के आने नय रनचय (कटाई) शो जामे

मनुख दा पुत्र.

²⁷³वीडियो 28. "आत्मा दा फल" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्मा-दा-फल/.

²⁷⁴संदर्भ देना प्रकासित 2:23 ऐ.

- ऐलोगो दाहै ओह चीजां जोयीशुजदुं ओह तुंदे कन् ने धरती च हा (इं१४:२५ दा).

मांस दामनख दे पुतर दा लोगोस ऐ(इं१४:२५ दा) जो रोटी है जो उससे उतरी
सूगा, तां ज्ञानी कुआरियां जेड़े इस रोटी गी जीवन दे बूहटे थमां खादे न, ते उंदा खून पीदे न
ना मरना ते सदा जीना (इं६:५८ ऐ)।²⁷⁵

- (बाद दी बरखा)**तेल दातेशराब दी**

→पर मूर्ख कुंवारी 1 रेप्चर तों चूक जांगन ते जमीन ते छड्ड जांगन, इस करके ओह (**तेल दा**
तेओह वाइन) दा इंतजार करना पौग**बाद दी बरखा** पवित्र धरती उपर खड़ोने दे चक्कर च,
बलगना प्रभु दे आने आस्तेमहासंकट दे दौरान।

- “देखो कि तू चोट ना पाओ**तेल दातेशराब दा**”

- इस आस् ते "दे खें के तू चोट ना पाओ।"**तेल दातेशराब दा**, " दा मतलब ऐ "पवित्र संत गी नाराज नेई करो।"

जो दे नाम वास्ते आतमक घर दे हन**प्रभु गीईश्वर**, तां जे ओह दा सारा कम्म पूरा करी सकन
दा घरईश्वर(जल्दी बरखा ते बाद दी बरखा दी फसल) दे समें च**ओहवादा दी बरखा**.

→एह महासंकट संत मूर्ख कुंवारी न जेहड़े इंतजार करंगन**प्रभु गी**उन्हें देना

की बौछरें**बाद दी बरखा** तां जे फसल दी**गेहूँ दा**, ऐ**जौ दा**, ऐ**तेतेल दा**, ऐ**शराब दा**
उचित मौसम च इकट्टा कीता जाग, साढ़े घरे गी पूरा करदे होई**ईश्वर**के आने तक**प्रभु**.

- सारे भ्राएं गी आने तक धैर्य रखना चाहिदा**प्रभु** जबकि किसान (पिता जी) धीरज से

दी जमीन दे अनमोल फल दा इंतजार करदा ऐ**जल्दी बरखा हो गई**(बुद्धिमान कुंवारी कटाई करन लई), ऐ
तेबाद दी बरखा(मूर्ख कुआरियां दी फसल कट्टना).

→सो, **3 सील दीके मध्ये के दौरान खोले जांगनबड़ी कष्ट दाजदुं दुनिया अराजकता च ऐ.**

(प्रकाशितवाक्य 6:7-8 ऐ) 4वीं मुहर (एक हरे घोड़ा: मौत & नरक दा खुलना)

प्रकाशित 6:7 ऐजदुं उन चौथी मुहर खोली लेया, ते में चौथे प्राणी दी आवाज सुनी

(**रौहनाप्राणी**)^{अं२२२६} कहो, आओ देखो।

प्रकाशित 6:8 ऐते में दिक्खेआ ते इक पीला (हरा)^{अं५५१५} घोड़ा:

ते उदे उपर बैठे दा नां हा मौत,^{अं२२८८} ते नरक^{अं८६} उसदे कन्ने पिच्छे चली पेई।

ते सत्ता (अधिकार)^{अं१८४९} उनेंगी धरती (जमीन) दे चौथे हिस्से उपर दिता गेदा हा।^{अं१०९३}

साथ मारना^{अं१७२२} तलवार, ऐ^{अं४५०१} ते नाल^{अं१७२२} भूख (अकाल),^{अं३०४२} ते नाल^{अं१७२२} मौत,^{अं२२८८} ते

ते (द्वारा) दे नाल^{अं५२५९} जानवरें गी^{अं२३४२} धरती दा (जमीन दा).^{अं१०९३}

☞ **प्रकाशित 6:7** ऐजफ उसने खोला**ओहचौथा (4 वी)मोहर**, चौथे (4वें) जीव दी आवाज सुनी कि,

“आओ ते दिखो।”

☞ **प्रकाशित 6:8** ऐते में दिखया ते दिखया**इक हरा घोड़ा**. उदे उप् पर बैठे दा नां हा**मौत**, **तेनर्क**

उसदे कन्ने पिच्छे चली पेई. ते उनेंगी इक चौथाई (**1/4 ऐ**) आहला**जमीन गी**, मारना
तलवार कन्ने, अकाल कन्ने, मौत कन्ने, ते जमीन दे जानवरें कन्ने।

- **जिस पर बैठाइक हरा घोड़ा?**

- **शैतान** दाजिसदे कोल मौत दी ताकत ऐ (**इब्रानियों 2:14 ऐ**).

→शैतान गी तलवार, अकाल, मौत, ते 1/4 जमीन गी मारने दा अधिकार दिता जाग
धरती दे जानवरें दे द्वारा, ते नरक उंदे पिच्छे चलगा।

- **मौततेनर्क**

²⁷⁵वीडियो 13. “शब्द (लोगोस & rhēma)”www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा-दा-वरदान/.

- ऐफिरौन दे पैहले फल

निष्कर्ष 12:29 ऐते आधी रात गी प्रभु ने सारे पैहे बच्चें गी मारी ओड़ेया

जमीन (धरती) ^{पू 776} मिस्र दे, फिरौन दे पैहे पुतर कोला लेइयै जेड़े उंदे सिंहासन उप्पर बैठे दे हे कैदी दा पैहला बच्चा जेड़ा काल कोठरी (गड्डे) च हा; ^{पू 953} ते मवेशी दे सारे पैहले बच्चे।

→ फिरौन दे पैहले फल मिस्र दी धरती दे न, जेड़ी दासता दा घर ऐ (निष्कर्ष 20:2 च)।

→ आध्यात्मिक रूप च मिस्र दे लोकें गी बीज आस्ते वादे दे संतान दे रूप च नेई गिनेआ जंदा।

उनेंगी “शरीर दे संतान” दे रूप च संदर्भित कीता जंदा ऐ, ते परमेसरे दे संतान नेई।

- क्योंकि मिस्री सिर्फ मांस दे आदमी हन ते आत्मा दे नहीं, इस करके ओह उस दी तरफ नहीं देखे दे इस्त्राएल दे पवित्र ते ना ही प्रभु दी तलाश करो।

भजन संहिता 16:10 की वे तू मेरे प्राण गी नरक च नेई छडग; ^{पू 7585} ऐ

ना तू अपने पवित्र (पवित्र संत) ^{पू 2623} भ्रष्टाचार देखना.

यशायाह १४:१५ दाफिरी बी तू (लूसिफर, यशायाह १४:१२ दा) नरक च उतारी दिता जाग, ^{पू 7585} ऐ

बक्खरे (सीमा) गी ^{पू 3411} गड्डे दा ^{पू 953} ऐ

→ गड्डा ^{पू 953} ओह थाह र ऐ जित्थें फिरौन दे पैहे जागतें थमां लेइये केदियें दे पैहे जागतें तकर जेल च बंद होई जंदे न (निष्कर्ष 12:29 ऐ)।

→ नरक (शीओल) ^{पू 7585} गड्डे दा सब तों निचला हिस्सा है जित्थे अपवित्र आत्माएं (भजन संहिता 16:10, ऐयशायाह १४:१२-१५ ऐ)।

• परमातमा दे आस्तिकः मौत तों गुजर गया जीवन, ते गी जीवन सनातनी

जहन्ना 5:24 ऐमें तुसैं गी सच्च आखना ऐं, जेड़ा मेरा वचन सुनदा ऐ (लोगो दा), ऐ ^{पू 3056} ऐ

ते जेके मिगी भेजेया ऐ, उदे उप्पर विश् वास करदा ऐ, ते अनंत काल दा ऐ (सनातनी) ^{पू 166} जीवन, ऐ

ते निंदा च नेई और (फैसला करना) ^{पू 2920}

लेकन मौत कोलां गुजरी गेदा ऐ ^{पू 2288} कोजीवन।

→ अस जेड़े उंदी गल्ल सुनदे आं लोगो दा ते विश्वास करो ईश्वर जिसने अपने पुतर गी भेजेया, ओह अंदर नेई और

फैसला करना जिवें असीं मौत तों गुजर चुके होंगे जीवन, ते इस चाल्ली होग अनन्त जीवन। अस

कदें बी मौत दा स्वाद नेई चखग (जॉन 8:52 ऐ) चूकै अस बपतिस्मा लैदे आं यीशु मसीह ते इस चाल्ली बपतिस्मा लेता

उंदी मौत च (रोम 6:3 ऐ), इस आस् ते अस उंदे कन् ने मौत च बपतिस्मा देईये दफनाए गेदे आं ठीक उसी तरह

मसीह दी महिमा कन्ने मेरे दे बीचा जिंदा होई गे आपिता जी, तां जे अस बी नमी-नमी चली सकने आं

जिंदगी दा (रोम 6:4 ऐ)।

→ कीजे जेकर अस उंदी मौत दे रूप च इकट्टे होई गेदे आं, तां अस बी उंदे च गै रौहो

उपमाउसी दा जी उठना एचर्ड जेड़ा मरी गेदा ऐ, ओह पाप कोला मुक्त होई जंदा ऐ, तां जे अस मसीह दे कन्ने मेरे दे आं, अस

विश् वास करो के अस बी उदे कन् ने रौहगे मसीह मेरे दे विचों जिंदा होणा

होर मरदा नेई; मौत दा हुन नेई रेया उदे उप्पर प्रभुत्व (रोम 6:5-9 ऐ)।

- ऐजिंदगी च जी उठना बनाम न्याय दे लिए जी उठना

कलीसिया दा सुसमाचार औच भगवान अंदर आ गया लोगो दा, चताकत, ते में पवित्र आत्मा गी, जो है रेमा दा।

ओह घड़ी आने आली ऐ जिसलै भलाई करने आले आंगन जीवन दा जी उठना (और सुनोरेमा दा)। ^{पू 2920} (जहन्ना 5:29 ऐ)। ²⁷⁶

दे जी उठने दे जरिए मसीह, तेरी रूह विच नहीं छड्डी जावेगी नरक, ऐ ^{पू 86} ना तेरे शरीर नू भ्रष्ट होवेगा (प्रेरितों दे काम २:३१)। ²⁷⁷ मतलब हरे घोड़े दे खिलाफ नहीं आणा मसीह दा पैहे फलदे पैहे फल दे रूप च मसीह उदे होने कोला पैहे गै चोट नेई पुज्जी सकदी सील कर दिया उनके मत्थे पर (दिखो प्रकासित 7:3 ऐ)।

²⁷⁶ वीडियो 35. “(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार दे चेले”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शक्ति-अधिकार-के-साथ-

²⁷⁷ वही।

→ मसीह उदे वास्ते आ जावेगा **पैहे फल** अपने बचाने के लिये **आत्माओं को** **आत्मा गी**, पर फिरौन दे पैहे फल दा सामना करना पौग "मौत ते नरक" (प्रकासित 6:8 ऐ).²⁷⁸

➤ हरे घोड़े पर कौन बैठा?

- इक परी दा नां, मौत (जिन्हें इक चौथाई (1/4 ऐ) आहला **जमीन गी**, ऐ **प्रकासित 6:8 ऐ**).

१सा १०:१८ ऐ ते बच्चियां (पुत्तरे) गी आख्या **एव 1121 ऐ** इस्राएल दा, प्रभु इयां आखदा ऐ (**यहोवा**) **एव 3068 ऐ ईश्वर (ēlōhîm)** **एव 430 ऐ** इस्राएल दा, मैं इस्राएल गी मिस्र थमां कड्डेआ, ते तुमें गी उंदे हत्थे थमां बचाई लेता **मिस्री लोकें गी**, ते सारे राजें दे हत्थे ते तुंदे उप्पर अत्याचार करने आलें दे हत्थे थमां।

→ जिवें प्रभु (**यहोवा**) **एव 3068 ऐ ईश्वर (ēlōhîm)** **एव 430 ऐ** इस्राएल गी मिस्र थमां कड्डे लेता, ते इस्राएल दे पुत्तरे गी मिस्रियें, सारे राजें ते उंदे उप्पर अत्याचार करने आलें दे हत्थे थमां बचाई लेता। **प्रभु (यहोवा)** जो तेरा इकलौता ऐ **ईश्वर (एलोहिम)**, जां **ओह प्रभु यीशु मसीह** स्वर्ग गी साढ़े दे रूप च ग्रहण कीता जाग **ईश्वर** जदू तक सारें चीजें दी बहाली दे समें नेई औदी, ते जदू तक उंदे सारे दुश्मन उंदे पैरें हेठ नेई न (**१ करिन्थियों १५:२५**).

व्यवस्था 30:19 ऐ मैं स्वर्ग ते धरती गी आख्या **एव 776 ऐ** इस दिन गी तुंदे खलाफ दर्ज कराने आस्ते के मैं तुंदे सामने रखेया ऐ **जीवन** **एव 2416 ऐ** ते मौत, **एव 4194 ऐ** आशीर्वाद देते गालियां देना: इस आस् ते चुनो **जीवन**, ऐ **एव 2416 ऐ** कि तू ते तेरी वंश दोनो **एव 2233 ऐ** जिन्दा होवे।

देय 30:20 ऐ तां जे तू प्यार करो **प्रभु गी तेरा ईश्वर**, ते तां जे तुस उंदी गल्ल मनना ते तू उंदे कन्ने चिपक जाओ, की वे ओह तेरा ऐ **जीवन**, ते तेरे दिनें दी लंबाई; तां जे तू **जमीन (जमीन)** च रोहना **एव 127 ऐ** जित **प्रभु गी** अपने पुरखें गी, अब्राहम, इसहाक ते याकूब दी कसम खादी ही के उमेंगी देना ऐ।

देय 32:39 ऐ एहन दिक् खो के अऊं (**प्रभु यहोवा**, ऐ **देय 32:36 ऐ**), मैं भी, ओह हां, ते कोई देवता (**एलोहिम**) **एव 430 ऐ** मेरे कन्ने: मैं मारदा हां (लोग मारदा हां), **एव 4191 ऐ** ते मैं जिंदा करदा हां; मैं घाव करदा हां, ते मैं चंगा करदा हां। **कोई नेईक्या कोई ऐसा है जो दे कर सकदा है जिगर मेरे हाथ से बाहर निकली.**

→ **प्रभु परमात्मा (देऊ 30:20 दे)** तुंदी जिंदगी ऐ जिसदे कन्ने तुसेंगी चिपकना पौगा एनटी च, **मसीह** है साडा **जीवन (कुलुस 3:4 ऐ)** कुंन ऐ **प्रभु (क्योरिओस)** **एव 2962 ऐ** सुर्ग थमां, जेका साडा इकमात्र ऐ **नाथ (निरपेक्ष)** दा **ईश्वर** **एव 2316 ऐ** जो साडा है **प्रभु यीशु मसीह (जदे 1:4 ऐ)** टी इस करिए, चुनो **जीवन (मसीह)** राहें उंदी आवाज दा आज्ञा मनना ते उंदे कन्ने चिपकना.

➤ इक तलवार **एव 4501 ऐ**

- इक तलवार (रोम्फिया) **एव 4501 ऐ** तुंदी अपनी आत्मा गी छेददा ऐ ते एह मते सारे दिलें दे विचारें गी उजागर करदा ऐ।
- **प्रभु यीशु मसीह** अपने मुंह च इक तेज दोधारी तलवार पकड़े दा ऐ, जेहड़ी इक ज्वालामुखी तलवार ऐ (**रेमा दा**).
→ ज्वालामुखी तलवार पकड़ने आला हरा घोड़ा जमीन उप्पर बैठे दे लोकें कोल औग तां जे उंदे कन्ने उंदे दिलें गी प्रकट करन **रेमा दा**.

➤ काल **एव 3042 ऐ**

उत्पत्ति 41:46 ऐ चते यूसुफ तीस साल दा हा, जदुं ओह मिस्र दे राजा फिरौन दे सामने खडोते दा हा। ते यूसुफ फिरौन दे सामने चली गया ते सारे चली गया **जमीन (धरती)** **एव 776 ऐ** मिस्र दा.

→ आध्यात्मिक रूप च सदोम ते मिस्र जित्थें साढ़े प्रभु (**kyrios**) गी सूली च चढ़ाया गेआ (**प्रकासित 11:8 ऐ**).²⁷⁹

- 7 साल दी भरपूरी **एव 7647 ऐ**

²⁷⁸वीडियो 9 थमां आरेख दिक्खो "1. फसह दा दिना" www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-फसह-फ्राम-ओटी-एनटी/.

²⁷⁹वीडियो 46. "जीवन दा जी उतना" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-जीवन-दा-पुनरुत्थान/.

[उत्पत्ति 41:47](#) चते सत्त भरे सालें च धरती^{एव 776 रे} सामने लाया^{एव 6213 रे} मुड्डी भर दे द्वारा।

[उत्पत्ति 41:48](#) चते सारे खाने (मांस) कड्डा कित्ता^{एव 400 रे} सात साल दा,

जेडे मिस्र दे देश (पृथ्वी) च हे,

ते अन्न (मांस) बिछाया^{एव 400 रे} शहरें च; ^{एव 5892 रे} खाना (मांस) दा ^{एव 400 रे} खेत दा, ऐ

जेडा हर शहर दे चारों पासे हा, उसी उसै च रखेया।

[उत्पत्ति 41:49](#) ऐते यूसुफ ने मकई (कणक) कड्डा कित्ता^{एव 1250 रे} जिवें समुंदर दी रेत, बहुत ही,

जदुं तकर ओह गिनती नेई करी ओड़ेया; की वे ओह बेजोड़ ही।

[उत्पत्ति 41:50](#) ऐअकाल दे साल आने कोला पैहलें यूसुफ दे दो पुत्र पैदा होए।

ओन दे याजक पोतीफेरा दी कुड़ी असनाथ ने उसी जन्म दित्ता।

[उत्पत्ति 41:51](#) चयूसुफ ने पैहले पुत्रे दा नां मनश्शे रखेया।

परमातमा दे वास्ते, ^{एव 430 रे} उ^{रे} में आखेआ, मेरी सारी मेहनत ते मेरे पिता दे सारे घरे गी भुल्ली दित्ता ऐ।

[उत्पत्ति 41:52](#) चदुए दा नां एप्रैम रखेया।

परमातमा दे वास्ते, ^{एव 430 रे} धरती (पृथ्वी) च मिगी फलदा-फूलदा ऐ^{एव 776 रे} मेरे दुख दा. ^{एव 6040 रे}

[उत्पत्ति 41:53](#) ऐते सत्त साल दी भरमार दो^{एव 7647 रे} जो देश (पृथ्वी) विच सी^{एव 776 रे} मिस्र दा, ऐ खत्म हो गए।

→ जदुं 7 भरपूर सालें च धरती भरपूर पैदा होई, तां यूसुफ ने सारे...

7 साल दा मांस मिस्र दी धरती च ते खेतर दा मांस शहरें च बिछाया।

- शहरां दा^{एव 5892 रे} राज दे पुत्रें दा जिक्र करोजो लोगो (के राज्य च दाखल होने आस्तै) हासल करग ^{सुरग} ते उदी रोशनी (परमात्मा दे राज च दाखल होने आस्तै)²⁸⁰

- **ऐटीओह मांस^{एव 400 रे} भेजना**एस “मनुख दे पुत्र दे शरीर” गी, कु'न ऐपरमातमा दे लोगो.

- **ऐडबल्युगर्मी^{एव 1250 रे}** संदर्भित करदा ऐलोगो दा जो जमीन च डिग्गी जानी चाहिदी ते मरना चाइदा ते पैदा करने आस्ते जिंदा होना चाइदा बहुत फल दा^{लोगो दा}.²⁸¹

ईश्वरगुणा हो गया**परमातमा दे लोगो** मिस्र दी धरती च बोई गई (पृथ्वी मनुख दा मांस ऐ), ते बधी गई**धर्म दे फल**.²⁸² **ईश्वरयूसुफ** गी अपने दुखें दे दौरान धरती च लोगो गी इकड्डा करने च बड़ा फलदायी बनाई दित्ता, तां मिस्र दी धरती च सत्त साल दी भरमार दा अंत होई गेआ।

- [7 साल दे अकाल^{एव 7458 रे}](#)

[उत्पत्ति 41:54](#) ऐते सत्त साल दी कमी (**काल**)^{एव 7458 रे} जिय्यां यूसुफ ने आखेआ हा, उय्यां गै औने लगी पेया।

ते कमी (दी **काल**)^{एव 7458 रे} सारे देशां (पृथ्वी) विच सी^{एव 776 रे};

लेकन सारे मुलखें (पृथ्वी) च^{एव 776 रे} मिस्र दारोटी ही थी।^{एव 3899 रे}

[उत्पत्ति 41:55](#) चते जदुं सारे जमीन (पृथ्वी)^{एव 776 रे} मिस्र दाभूखे मर गया, ^{एव 7456 रे} जनता रोने लगी

रोटी दे बदले फिरौन, ते फिरौन ने सारे मिस्री लोकें गी आखया।

यूसुफ दे कोल जाओ; जेडा ओह तन्दे कन्ने आखदा ऐ, ऐकरो.

[उत्पत्ति 41:56](#) ऐते अकाल^{एव 7458 रे} सारे धरती उप्पर हा।

यूसुफ ने सारे भंडार खोले ते मिखियें गी बेची दित्ता;

ते अकाल^{एव 7458 रे} जमीन (धरती) विच मोम नाल घाव^{एव 776 रे} मिस्र दा.

[उत्पत्ति 41:57](#) ऐते सारे मुलख (पृथ्वी)^{एव 776 रे} धान खरीदने आस्ते मिस्र च यूसुफ दे कोल आया;

क्योंकि कि अकाल^{एव 7458 रे} सारे मुलखें (धरती) च इन्ना दुखी हा।^{एव 776 रे}

²⁸⁰वीडियो 35. “(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार दे चेतो।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शिष्य-शक्ति-अधिकार-के-साथ-

²⁸¹वीडियो 29. “घड़ी आई गई ऐ।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-प्रभु-फसह-शिष्य-बनाम-प्रेरित-घंटे-आंदे-न/

²⁸²परमसेरे मसीहा (यः रेमा) दे बीड दी सेवा करदा ऐ^{वी 4690 रे} मनुख दे पुत्र गी बच्चें गी बोने आस्तै^{वी 5043 रे} दे राज च वादे दा

सुरग. परमसेरे तुदे मांस आस् ते पोशण आली रोटी (लोगोस) दी सेवा बी करदा ऐ, जेकी मनुख दे पुत्र दा मांस ऐ (**इंइः५५ दी**).

- हालांकि सत साल दा अकाल धरती उपपर आया हा, पर मिस्र च “रोटी बनी दी ही **कनक**” कि यूसुफ ने मिस्र दी धरती उपपर 7 साल दी भरमार दे दौरान इकट्टा कीता हा। कीजे अकाल सारे धरती उपपर हा, इस आस् ते लोक फिरौन गी पुकारदे हे रोटी, लेकन ओस ने आखया, **“यूसुफ दे कोल जाओ;जेड़ा ओह तन्दे कन्ने आखदा ऐ, ऐकरो.”**
- इकटी गलील दे काना च ब्याह, यीशु दी मां ने आखेआयीशु, “उंदे कोल कोई शराब नेई ऐ”। (इंर:३ ऐ), ते यीशु ने जवाब दिता “मेरा घड़ी अजे नेई आई गई ऐ” (इंर:४ ऐ). फिर उसने कहा नौकर, **“जे किश ओह तुंदे कन्ने आखदा ऐ, ओह कर”** (इंर:५ ऐ), जो कन्ने मेल खांदा ऐ सारे मिस्रियें गी फिरौन दा जवाब.
- 7 साल दे अकाल दे दौरान सारे धरती दे लोक कणक खरीदने आस्ते मिस्र च आए यूसुफ दी रोटी।
- दूजे शबदां विच, जो कानून दे अधीन हन (मिस्र दे शासित) ओह धरती दे राजा दे कोल आंदे हन अपनी जान दी जिंदगी दा खाना खरीदने के लिये।
- 7 साल दी भरमार दे दौरान लोक आंदे नयीशु उतनी रोटी इकट्टा करने के लिये (लोगो दा) जितना हो सके जो के फल सामने लांदेमा दा जबकि दिन ऐ (जहन्ना ९:४). एह रोटी दस्सी दिंदी ऐयीशु जेड़ा सुर्ग थमां उतरी आया हा, ते पानी जेड़ा मुड़दा हा गलील च शराब च उस रोटी दा जीवन ऐ, जेड़ा ऐमसीह (जह 6:48 ऐ, ऐकुलुस्स 3:4 ऐ).²⁸³

उपदेशक ३:१-२ हर इक चीज दा इक मौसम ऐ, ते सुर्ग दे थल्ले हर इक मकसद दा इक समां ऐ।
पैदा होने दा इक समां, ते मरने दा इक समां ऐ; रोपने दा इक समां,
ते जो रोपया गेदा ऐ उसी उखाड़ने दा समां ऐ.

➤ जानवरों गी एच929 ते जमीन दा

- जानवरों गी एच929 ते पुराने नियम च जमीन उपपर ओह गै हन, जिनेंगी अजे बी धरमी बनाना बाकी ऐ, इस आस् ते जेकर ओह उनेंगी मजबूत करने आली बूटे, अंजीर दे बूटे ते बेल दे फल नेई खांदे तां ओह जमीन उप पर गै रौहना²⁸⁴
 - साथ ही, जानवर ओह हन जो घास विच नहीं चरदे (भजन संहिता २३:२ ऐ) चारागाह. एच4999 ते की जे प्रभु उंदा चरवाहा नेई ऐ, उंदे नां नेई लिखे जांगन **जीवन दी किताब**, इस तर्हा वे से आध्यात्मिक पानी देना चाइदा प्रभु.²⁸⁵
 - ये जानवर एच929 ते (जिन्हें गी अजे तकर धर्मी बनाना बाकी ऐ) जानवर नेई न^{२342} ते दी नमें नियम च जमीन (प्रकाशितवाक्य 13 ऐ) जिंदे नां जीवन दी कताब च उस थमां नेई लिखे गेदे हे दुनिया दी नीव (प्रकाशितवाक्य 17:8).
- पर जेकर ओह जानवर, जेके अजे तकर धर्मी बनने आले न, ते आत् मक पानी नेई पींदे, तां ओह पीनगे दी भावना **मसीह विरोधी** (१जोह ४:३) ते जानवर दी पूजा जमीन दे निवासियें दे रूप च करो, सिर्फ उदे कोल आने आस्ते न्याय दा जी उठना (जहन्ना 5:29 ऐ).

- 4वीं मुहर दे खुलने पर, मौत ते नरक जमीनी निवासी दे 1/4 दे पिच्छे होंगन जो ना बने धर्मीते उंदे नां नेई लिखे गेदे न **जिंदगी दी किताब**. किउंकि उन्हां ने बुरा किता है, ते ओहदे कोल आ जांगन न्याय दे लेई जिंदा होना (जहन्ना 5:29 ऐ).

²⁸³वीडियो 9. “1. फसह दा दिना” www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-फसह-फ्राम-ओटी-टू-एनटी/.

²⁸⁴“[चित्र 6-घ],” या वीडियो 27. “(मांस, आत्मा, ते आत्मा) भजन संहिता 23।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-खून-दा-क्षेत्र-एक-कञ्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हो/.

²⁸⁵वीडियो 24. “तुस पवित्र यरूशलेम ओ (3/3)”

www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-देव-दे-घर-तुस-पवित्र-यरूशलेम/.

→ जो हैं जो हैं धर्मी बनाया दरम्यान "प्रलोभन दी घड़ी" उस जानवर दी मूर्ति दी पूजा करने थमां इन्कार करी देग ते मारी जाओ।²⁸⁶हालांकि उनेगी मारी दिता जाग, पर शैतान उप्पर उदे खून कन्ने जीत हासल होई जाग मेमने दा, होआ करदा लोगो दा गवाह, तां ओह अपनी जान गी मौत तक प्यार नेई करंगन (प्रकाशित 12:11 ऐ).
कमोंकक उन्शोंने शै भला कित्ता, ऐ ओह आने देगा जीवन दा जी उठना (जहन्ना 5:29 ऐ).

²⁸⁶संदर्भ देना प्रकाशितवाक्य 13:15 ऐ.

[चित्र 6-घ] (मांस, आत्मा, ते आत्मा) भजन संहिता 23²⁸⁷

²⁸⁷वीडियो 27. “(मांस , आत्मा , & आत्मा) भजन संहिता 23।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-खून-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हो/.



God made the life of the earth, beast, and everything that moves upon the earth after their kind, which God saw them good. Then God created man^{H120} and blessed them and said, "Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it," and rule over the following things:

- ① over the fish of the sea (the gathering together of the waters, Gen 1:10) - the fish meaning **the things that move in the gathered waters or the logos of God** (refer to "*The rhema is for God's chosen witnesses*" for details),
 - ② over the beast - the beast is the things that move upon **the ground**^{H127}
 - ③ over the fowl of the heaven - the fowl of the heaven means **the life of the soul** that fly above the earth in **the open firmament of heaven**
 - ④ over the life that moves upon the earth - the life that moves upon the earth means **the life that is of the earth** (or earthly things)
- Therefore, **God's command to man (male and female)**^{H120} to rule over the four things listed above is as follows: Be fruitful (grow the fruits of your righteousness), multiply (multiply the logos of God sown in you), and replenish the earth (fill your flesh with the logos of God by eating the meat of the Son of man), and subdue it (subdue all things that move in the logos of God, upon the ground, the life of the soul that fly above the earth in the open firmament of heaven, and the life on earth).

Gen 1:12 The earth brought forth (from the seed of Christ, after God's kind):

- **Grass**^{H487}
- **Herb**^{H6212}
- **The Fruit of the tree** (made firm, shuts the eyes)

- The beast or cattle (Strong's H929) in Gen 1:24 refer to living creature other than man. These creatures are described as the living creatures of the field that lived before the pastures^{H989} of the wilderness brought forth anything, thus had not eaten the fruit from the tree, the fig tree, and the vine that gives strength.
 - However, the beasts or cattle (Strong's H1165) that were given spiritual water in Num 20:8 are the living creatures that have been depastured. Therefore, the beast in Gen 1:24 and Joe 2:22 refer to the Gentile nations of the field (or of the world, Mat 13:38) waiting to be spiritually nourished, while the beasts in Num 20:8 refer to those who have been depastured in grass (Psa 23:2) and are led by the LORD beside the resting waters to have their souls restored in the paths of righteousness (Psa 23:3).
 - Therefore, **the beasts are those who have yet to be made righteous.**
- The grass, herb, and fruit**
- The root meaning of the tree (Strong's H6529) is to make firm and to shut eyes (Strong's H6095), so a tree that makes fruit with the seed in itself means the fruit of the tree firmly shuts your eyes to see the evil things (Gen 3:4).
 - To reiterate Gen 1:12, the grass, herb, and fruit from the earth after God's kind were sown from the seed of Christ, and **the fruit of the tree** firmly shut your eyes to see the evil things, which was good in the sight of God (Note that grass is the first sprouts of the earth to spring up from Christ's seed).
 - In the eyes of a woman whose husband is a man with a living soul, the fruit from the tree of the knowledge of good and evil (or the law) was good for gaining wisdom of the law. Therefore, the fruit opened the eyes of man^{H120} and woman, which had been firmly closed to see the evil things (Gen 3:4), and the apron of sewn fig leaves hid their nakedness (refer to "*From Adam*"^{H121} to *Bride*"^{H3069} for details).
 - The Lord commanded Moses and Aaron to gather the congregation before the rock^{H5553} and **speak** to the rock before their eyes so that He could give the congregation and their beasts the water that came out of the rock. The congregation here refers to rebellious sons of Israel (Num 20:12) and the beasts^{H198} are their cattle (Num 20:4). Instead of speaking to the rock, ^{H5553} Moses however smote it twice and abundant water was given to the sons of Israel and their beasts (but why was the water also given to the beasts?).
 - The water that was intended to be given to the sons of Israel and their cattle for drinking was intended to sanctify the LORD in the sons of Israel, so the Lord commanded the Moses and Aaron to believe Him that the water would come out of the rock (*seia*)^{H5553} when they "spoke" to it, so that the LORD would be sanctified in the eyes of the sons of Israel. However, with his disbelief, Moses smitten the rock (*seia*)^{H5553} with the rod that he used to smite the rock (*sidj*)^{H6607} in Horeb and made the water appear the same to that which was intended for "the people"^{H5971} to drink.
 - Meribah^{H4898} water is drank by the sons of Israel who strove with the Lord and sanctified the LORD in them. Therefore, the people who have tempted the LORD drank the water of **Massah**, while the sons of Israel who have sanctified the LORD within them drank the water of **Meribah**, which is the spiritual drink from the spiritual Rock (*petra*)^{H6073} **Christ**. **Christ** sanctifies and cleanse the church by the washing of water of Meribah.

Man shall not live by bread (Luk 4:4) alone but by every word (Luk 4:4) that proceedeth out of the mouth of God (Luk 4:4) or from of God spoken through the Son of God (Jhn 3:34) For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God (Rom 8:14)

प्रकाशितवाक्य 6:9-11 ऐ) 5वीं मुहर दा उद्धाटन (The slain souls)

प्रकाशित 6:9 ऐजदुं उन पंजमी मुहर खोली लेया, ते में वेदी दे थल्ले प्राणें गी दिक् खेया^{#5590}उन्दे दा जो वचन (लोगोस) दे वास्ते मारे गए^{#3056} परमातमा दा, ते गवाही (गवाह) दे वास्ते^{#3141} जिसगी उंनंगी पकड़े दा हा।

☞ प्रकाशित 6:9 ऐते जदुं अने पंजमी (5मीं) मुहर खोली, तां में वेदी दे हेठ उंनं लोकें दी जान दिक् खीए जिसदे कारण मारी दिता गेदा हापरमातमा दे लोगोते इस करिएगवाह दा जिसगी अने पकड़ेया।

- मारे हुए आत्माएंआहलाओह गवाह आहलापरमातमा दे लोगो²⁸⁸वेदी दे थल्ले हो।
→जेड़े मरने कोला इन्कार करदे न या बपतिस्मा लेने कोला इन्कार करदे न उंनं नां कन्नेयीशु मसीह प्यार करने वाले हैं उंन्दी आत्मा गी, ते उंन्दी आत्मा गी खोई जाग कीजे उंनं कोल कोई नेई ऐजीवनते इस चाल्ली नेई होई सकदाजिंदा हो गया.²⁸⁹

प्रभु (despotēs) कब न्याय करग & खून दा बदला लैग

प्रकाशित 6:10 ऐते ओह बड़ी आवाज च पुकारदे रेह, “ हे प्रभु, किन्नी देर तक!^{#1203}पवित्र ते सच्चे, क्या तू धरती (जमीन) उप्पर रौहने आलें उप्पर साढ़े खून दा बदला नेई लैना^{#1093} ?”

☞ प्रकाशित 6:10 ऐते ओह बड़ी आवाज च पुकारे, “किन्नी देर, ओनाथ(निरंकशता दा)^{#1203}पवित्र ते सच्चे, जदुं तक तुस जमीं उप् पर रौहने आलें उप् पर न्याय नेई करो ते साढ़े खून दा बदला नेई लैगे?”

→की मारी हुई आत्माओं कीओह गवाहआहला परमातमा दे लोगोजो वेदी दे हेठ हन, उहनां नेदी रेमा दा नाथ और पुकार रहे हैं कोप्रभु(निरपेक्षता दा), ऐ^{#1203}पुच्छदे होई के ओह कदू उंनं खून दा फैसला करग ते उंन्दा बदला लैग जमीनी वासी से।²⁹⁰

- ओह नाथ (निरंकशता दा)^{#1203}दे अनमोल खून नाल तुहानूं खरीदी (मुक्त) कीतामसीह: 1।
यीशु, इक मेमना^{#286} बिना दाग ते बिना दाग हो गया,मसीहसाडा फसह.

प्रकाशित 6:11 ऐते गोरे^{#3022} बागे^{#4749} उंनं च हर इक गी दिता गेआ; ते उंन्दे कन्ने आखया गेया। कि ओह आराम करन^{#373} फिरी बी थोड़े मौसम आस्ते, जदुं तक उंनं साथी नौकर नेई होंदे^{#4889} ते उंनं भ्राएं गी बी।^{#80}जो उसी तरह मारना चाइदा, उसी पूरा करना चाइदा।

☞ प्रकाशित 6:11 ऐतेइक सफेद चोगा उंनं च हर इक गी दिता गेआ; ते उंनंगी एह गू लाया गेया कि थोड़ी देर आराम करन, जब तक कि उन दोनों की गिनती नहीं हो जावे

288वीडियो 2. “उत्पत्ति 1:1 थमां उत्पत्ति 2:4 तक”www.therhemaofthelord.com/course1/2-एडन-दे-बाग-2/.

- बीज दा^{#4703} जिंकर करदे होईपरमातमा दे लोगो“बोना,^{#4687} ते इस लोगो^{#3056} मांस बण के साड़े विच रह गया (इं१:१४ ऐ).
- पौलुस ते बरनबास ने “परमातमा दे लोगो” यहूदियें गी गू लाया, लेकिन उंनंगी उसी छड्डी ओड़ेया ते अपने आप गी नू याय किता अनन्त जीवन दे अयोग्य (प्रेरितों दे काम 13:45-6). इस आस् ते, ओह गैर-यहूदियें आस् ते मुड़ गे।
- ऐडफिसियों 5:31 ऐइस आस् ते इक मनुख होग^{#444} अपने पिता ते मां गी छोड़ी देओ, ते होंगन अपनी घरेआली कन्ने जुड़ी गेआ, ऐ^{#1135} ते दोरे इक शरीर होंगना।

289वीडियो 16, “गैर-यहूदी, सारे राष्ट्र (पौलुस ते पतरस दी प्रेरितता) 3/10”

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

पौलुस गी गैर-यहूदी जातिएं आस् ते खतना नेई होने आलें की सुसमाचार सौपी गेई ही, इस आस् ते उंनं ने नीहू रक्खी, जेकी...यीशु मसीह ऐ, ते बीज रोपया (परमातमा दे लोगो) परयीशु मसीह, जिसगी अपोलोस (इक विद्वान मसीही यहूदी) ने पानी दिता तां जे...ईश्वरइसे बढ़ा देता। पौलुस गी यरूशलम च, ते यहूदिया दे सारे समुंदरी किनारा च, ते फिरी गैर-यहूदियें गी पछताने ते उंनं कश मुड़ने आस् ते आज्ञा दिती गेई हीईश्वर, ते पछतावे वास्ते मिलदे कम्म (प्रेरितों दे काम २६:२०).

गैर-खतना दे सुसमाचार गी गैर-यहूदियें च इक यूनानी कौम थवां बोए जाने दे बा'द, जेके अपने पापें दा पछतावा करदे न, उंनंगी अपनी जमीन च परमेसरे दा लोगो मिलग। पतरस, जिसे खतना दे सुसमाचार दा जिम्मा सौपेआ गेदा हा, उसदे बाद लोगो गी बपतिस्मा दे जरिए मरने च मदद करगयीशु मसीहउंनं पापें दी माफी आस्ते।

जी उठने च विश्वास करने कन्ने उंनंगी दा वरदान मिलगपवित्र आत्मा गी जेहड़ा मता फल पैदा करदा ऐ की जे उंनं अंदर दे लोगो रेमा च बदली जांगन (प्रेरितों दे काम २:३८).

290जमीनी निवासियें दे बारे च विस्तार लेई दिक्खो “प्रकाशित 20:11 ऐ इक बड्डा सफेद सिंहासन.”

साथी नौकर ते उंदे **भाइयो**, जो उसी तरह मारे जांदे, उवें ही पूरा हो जांदे।

- **डबल्यूबागे मारे**: सफेद वस्त्र च सजने आलें दी आत्मा ओह गै न जेह्दे बाहर निकली जांगन
"महान **मुसीबत**," ने अपने कपड़े धोए, के खून में सफेद कर दिया
मेमने दा, ऐ **721** ते दी सिंहासन दे सामने हनईश्वर (प्रकाशितवाक्य 7:13-15 ऐ)।
- **साथी नौकर**— दे वफादार मंत्री **मुसीहचप्रभू** (क्योरिओस) **2962** like इपाफ्रास दा
(क्लुस्स 1:7 ऐ, ऐक्लुस्स 4:7-12 ऐ, ऐ Phm 1:23 ऐ)।
- **भाइयो** - जो नामा शै **भविष्यवाणी दी भावना** ते की गवाही दे **यीशु**.²⁹¹
 - की गवाही दी **मुसीहचंगाई** दे वरदान दे जरिए उंदे च पुष्टि करदा ऐ, मदद करदा ऐ, सरकारें, ते...
अन्त तकर बक्ख-बक्ख भाशाएं दी गल्लां करदियां न, तां जे ओहू दिने च निर्दोष होई सकन **प्रभू** (क्योरिओस)
यीशु मुसीह.
 - भ्राएं गी आने तकर धैर्य रखना चाहिदा **प्रभू** किसान दे रूप च (पिता जी), ऐ
लंबा धैर्य रखदे होई, दी जमीन दे कीमती फल दा इंतजार करदा ऐ **जल्दी बरखा हो गईते**
वाद दी बरखा.
 - च **प्रकाशितवाक्य 6:9-11 ऐ**, पंजवीं (5वीं) मुहर आ गया **पैहलें संसार दे अंत दा दुआ निशानी**.
 - 5वीं मुहर दुनिया दे अंत दा दूजा निशान प्रकट होने तों पहलां आंदी है, ²⁹²ते लूका दा श्रोताएं गी दिक्खना पौग जे बुरे राज दे गैर-यहूदी जातियें गी चेलें उप्पर हत्थ पाना पौगा
उनेंगी सताओ, उनेंगी आराधनालयें ते जेलें च सौंपी देओ, ते उनेंगी राजाएं दे सामने लेई आओ ते...
उंदे नां दी खातिर गवर्नरा
 - ऐफिरी, मत्ती दे श्रोता चेलें गी सौंपी दिते गेदे दिक् खडन **मुसीबत दा सामना करना** ते इस आस् ते मारी दित्ता जा
उंदे नां दे कारण, ते सारे गैर-यहूदी जातिएं कन्ने नफरत होगा। **एम** जहाज दे दर्शकें गी ध्यान देना चाहिदा जे उनेंगी...
डिलीवर करना होगा **टीओ** आराधनालयें च कौंसिलें गी मारया जंदा हा, ते राज्यपालें दे सामने लाया जंदा हा ते...
राजा उदे आस् ते उंदे खलाफ गवाह बनन, जिंदे च ओह सुसमाचार दे रूप च गवाह बनी जाडन
राज दापैह्ले प्रचार करना गै पौग अंत आने शा पैहलें गै सारे गैर-यहूदी जातिएं चा

→ इस करिए सारे आत्माएं दे उद्घाटन पर दिक्खेआ गेआ **5वीं मुहर दा** च **प्रकाशित 6:9 ऐ**, ऐ जो नामा शै, वे शें
दे रेमा दा सुसमाचार प्रभू जो उन्हें प्रचार कित्ता गया (**१पतरस १:२५**)।

. यीशु दे गवाही दी शहादत 2 रप्चर (**मत्ती 11:12 ऐ**) जो दे कोल ऐ
महासंकट दा अंत.

(**प्रकाशितवाक्य 6:12-17 ऐ**) **6वीं मुहर दा खुलना** (मेमने दे गुस्से दा बड़ा दिन आ गया)

प्रकाशित 6:12 ऐ ते में दिक् खेया, जदुं उने छठी मुहर खोली, ते दिक् खो, इक बड्डा भूंचाल आया।

ते सूज बालें दे बोरी दे समान काला होई गेआ, ते चंद्रमा खून दे समान होई गेआ;

प्रकाशित 6:13 ऐ ते सुर्ग दे तारे धरती (जमीन) उप्पर पेई गे। **1093**

अंजीर दे पेड़ दे समान भी **4808** अपने असमय अंजीर गी ढालदा ऐ, **3653**

जदू ओह इक ताकतवर (महान) कोला हिलदी ऐ। **3173** ब्हाऽ.

प्रकाशित 6:14 ऐ ते सुर्ग इक ग्रंथ (कताब) दे रूप च चली गया। **975** जदू एह इक दुए कन्ने लुढ़कदा ऐ;

ते हर इक फ्हाड़े ते द्रीप अपने थाहरें थवां चली गया।

प्रकाशित 6:15 ऐ ते धरती (जमीन) दे राजा, **1093** ते महान मनुख ते अमीर मनुखा।

ते सरदार, ते पराक्रमी, ते हर दास (सेवक) **1401** ते हर इक आजाद मनुख,

²⁹¹वीडियो 45. "6. प्रायश्चित करो।" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-प्रभू-दे-भोज-6-प्रायश्चित/, वीडियो 43. "(आत्मा दे नेतृत्व च) परमात्मा दे पुत्र" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-आत्मा-भगवान-दे-पुत्र-अगुवाई-दे/, & video 13. "शब्द (लोगोस & रेमा)", www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा-दा-वरदान/.

²⁹²"संकट" (5वीं मुहर दूजे निशाने तों पहलां चले वास्ते आंदी है) दा संदर्भ डेवो **प्रकाशित 2:19 ऐ**.

मांद में लुका गए⁴⁶⁹³ ते चट्टानें च⁴⁰⁷³ पहाड़ां दा;

प्रकाशित 6:16 ऐते फ्हाड़ें ते चट्टानें गी आखया।

साढ़े उपपर डिग्गी जा, ते सिंहासन उपपर बैठे दे चेहरे थवां छुपाओ, ऐ

ते गुस्से कोला³⁷⁰⁹मेमने दा (अर्नियन): 1।⁷²¹

प्रकाशितवाक्य 6:17 ऐकीजे उदे गुस्से दा बड्डा दिन आई गेदा ऐ; ते कुन खडोई सकग ?

☞ **प्रकाशित 6:12** ऐओय भैं दे खा जफ उवने खोराओह छठा(6वीं दी)मोहर, ते दिखो, उखें गै हाइक बड्डा भूकंप;

ते सूरज बालें दे बोरी दे समान काला होई गेआ, ते चंद्रमा खून दे समान होई गेआ।

☞ **प्रकाशित 6:13** ऐते सुर्ग दे तारे जमीन उपपर डिग्गी गे, जिय्यां अंजीर दा पेड़ अपने असमय अंजीर गी सुट्टदा ऐ
जदू बड़ी हवा कन्ने हिलदा ऐ।

☞ **प्रकाशित 6:14** ऐते सुअर्ग इक कताब दे रूप च चली गेया, जदुं उसी लुदकाई दिता जंदा ऐ।
ते सारे फ्हाड़े ते द्वीप अपने थारें थवां चली गे।

☞ **प्रकाशित 6:15** ऐते जमीन दे राजा, महापुरुष, अमीर, सरदार, पराक्रमी;
ते हर दास ते आज्ञाद मनुख, गुहाएं च ते चट्टानें च छिपी गेदे हे
पहाड़ें गी,

☞ **प्रकाशित 6:16** ऐ ते फ्हाड़ें ते चट्टानें गी आखया।

“साढ़े उपपर डिग्गी जाओ ते सिंहासन उपपर बैठे दे चेहरे कोला छुपाओ (ईश्वर) ते से

गुस्से दा³⁷⁰⁹आहलामेमने दा!

☞ **प्रकाशितवाक्य 6:17** ऐलेईउदे गुस्से दा बड्डा दिन आया ऐ, ते कुन खडोने च समर्थ ऐ?

➤ **उदे गुस्से दा बड्डा दिन** (प्रभु दा बड्डा ते भयानक दिन)

- ऐसेनाएं दा प्रभुभेजने का वादा कियाएलियाहनबी ने दीके आने से पहलेमहान ते
प्रभु दा भयानक दिन (माल ४:५ ऐ), जो किमेमने दे गुस्से दा बड्डा दिन.²⁹³

➤ का महान दिन**गुस्से दाआहलामेमने दा**²⁹⁴

बाद चओहछठा (6वीं दी)मोहरखुलदा ऐ,

I. इक बड्डा भूकंप,

II. टीओह सूरज: काला हो जांदा है (बालें दे बोरी दे समान),

III. टीओह चंद्रमा: खून दे समान बनदा ऐ,

IV. आकाश दे तारे: जमीन उपपर डिग्गी जाओ (जिय्यां अंजीर दा पेड़ अपने अपक्के अंजीर गी फेंकदा ऐ (जेहड़ा सर्दियें च उगदा ऐ, पर फिरी बी परिपक्व नई
होंदा पर बसंत ऋतु च डिग्गी जंदा ऐ))²⁹⁵बड़ी हवा दे हिलने,

V. आकाश इक लुदकदी किताब दे रूप च चली जंदा ऐ,

VI. सारे पहाड़ ते द्वीप अपनी जगहें थमां कडुडी दिते गे,

VII. धरती दे राजा, बड्डे ते अमीर, सरदार, पराक्रमी, सारे गुलाम, ते सारे मुक्त मनुख, गुहाएं च ते पहाड़ें दी चट्टानें च छिपदे न, ते पहाड़ें ते चट्टानें गी आखदे ना
“साढ़े उपपर डिग्गी जाओ, ते सिंहासन उपपर बैठे दे चेहरे कोला छुपाओ (ईश्वर), ते से

गुस्से दाआहलामेमने दा, ऐचजां उदे गुस्से दा बड्डा दिन आई गेदा ऐ, तां कुन खडोई सकदा ऐ?”

→ उदे गुस्से दा बड्डा दिन - आकाश ते जमीन, जेहड़े हून सुरक्षित न

उसी लोगो द्वारा, न्याय ते विनाश दे दिन तकर अगग आस्ते आरक्षित कीते गेदे हे

अभक्त मनुख – आए, ते कोई खड़े नहीं होवेगा (२पतरस ३:७).²⁹⁶

²⁹³उदे गुस्से दे महान दिन दी समें-सीमा आस्ते, “[3] दानिय्येल दे 70 हफते” दा संदर्भ लैओ।

²⁹⁴वीडियो 39. “मेरे दे जी उठना।” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-संभावित-समय-अनुक्रम-सली पर चढ़ाने-पहले-और-अंतिम-आदम-मृतक-के-पुनरुत्थान/.

²⁹⁵जी3653 - ओलिथोस - मजबूत दा ग्रीक कोश (kjv)।¹ नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 5 अप्रैल, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3653/kjv/tr/0-1/ऐ>.

²⁹⁶वीडियो 44. “शास्त्र दी भविष्यवाणी (2 पतरस 1) 2/2।” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेसा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

→ इकके खुलने दे बाद 6वीं मुहर दी, मेमने दा गुस्सा (या न्याय दा प्रभु, ऐनिरकुशता दा¹²⁰³ हे) मारे गेदे आत्माएं दे खून दा बदला लैने आसतै जमीनी रौहे आहें च औंदा ऐपरमातमा दे लोगो.²⁹⁷

- ऐसूरज, चंद्रमा, ते तारे

• टीओह सूरज(मजबूत दाएच 8121 ऐ, ऐजी2246 ऐ)^{एच 8121 ऐ जी2246 ऐ}

उत्पत्ति ३७:१ ऐते याकूब उस देश (पृथ्वी) च रेया।^{एच 776 ऐ} जिस च उंदा पिता परदेसी हा।

धरती (धरती) विच^{एच 776 ऐ} कनान दा.) ऐ।

उत्पत्ति ३७:५ ऐयूसुफ ने इक सपना दिखया, ते उने अपने भ्राएं गी सपना दस्सेया।

उत्पत्ति ३७:६ ऐउन उन्दे कन्ने आख्या, "सुनो, ए सपने जेड़ा मैं दिखेया ऐ।

उत्पत्ति ३७:७ ऐकी वे, दिखो, अस खेतै च गुच्छा बन्नी करदे हे।^{एच 7704 ऐ} ते दिखो, मेरी गुच्छा उठी गई, ते खड़ोई गई; ते दिखो, तेरी गुच्छे चारों ओर खड़ोते दे हे, ते नमन करदे हे।^{एच 7812 ऐ} मेरे गुच्छे को.

उत्पत्ति 37:8 चउदे भ्राएं उसी आख्या, "क्या तू साढ़े उप्पर राज करगे ?

या तू सचमुच प्रभुत्व (शासन) करगे।^{एच 4910 ऐ} साढ़े उप्पर?

ते उदे सपने ते उदे शब्दें दे कारण (या...रेमा).^{एच 1697 ऐ}

→जदुं याकूब कनान दी धरती उप् पर परदेसी बनी गया, तां उंदे बारां पुत्तें चा इक यूसुफ ने दो सपने दिक् खेया।

• उसका पहला सपना: 1।

1 जदुं ओह खेतर च गुच्छे गी बन्नी करदे हे, तां यूसुफ दा गुच्छा उठी गया ते खड़ोई गया, ते...

उंदे भ्राएं दे गुच्छे गोल-गोल खड़ोते दे हे, ते यूसुफ दे गुच्छे दी पूजा करदे हे।

→यूसुफ दा गुच्छा उठ के कनान दे खेतर च इकठे कीते गेदे बारां गुच्छे दे बीच सीधा खड़ोई गेआ

धरत. इस गल्ल गी दिक्खदे होई जे गुच्छा अनाज दे (कणक, जां परमात्मा दे लोगो) दे डंटल दा इक गठरी ऐ,

जो यूसुफ ने बन्नी दी है, ओस दा लोगो हैईश्वर(अच्छा बीज)जो यूसुफ दे शरीर च उगदा ते बधदा गेआ

पर ओह नेई जानदा के किय् यां (मार्च 4:26 ऐ).

सुअर्गे दे राज दे बारे च यीशु दे दृष्टांत दे मताबक, दुश् मन आ के सुत्ते दे मनुख दे खेतर च कणक दे बीच खरपतवार बोदा ऐ। पर कीजे खरपतवार कणक दे समान खेतर च होंदे न, इस करी फसल कट्टने तकर इकठे उगना पौंदा ऐ कीजे जेकर कणक कट्टने कोला पैहे कट्टा कीता जंदा ऐ तां खरपतवारों कन्ने जड़ें बी होई सकदी ऐ।

फसल कट्टने दे समें च यीशु कट्टने आलें गी आखग जे उंनेगी इकट्टा करो, पैहे खरपतवारों गी गठरी च बन्नी लैओ तां जे उंनेगी जला सकन, पर कणक गी उंदी कोठरी च इकट्टा करो (मती १३:२४-३० ऐ).

टीओह यूसुफ दा सपना दिक्खदा ऐ जे ओह याकूब दे परोआर उप्पर राज करग ते राज करग^{यीशु मसीह}, जो बीज(शुक्रा) ऐ^{जी4690 ऐ} दाऊद दा, मरे दे विचों जी उठया (रती 2:8 ऐ), ते कोई बी मनुख जिस च बपतिस्मा लैता गेदा हा^{यीशु मसीह}उदी मौत च बपतिस्मा लेता हा, ते लोगो देईश्वर आदमी दे अंदरबसंत हो जावेगा ते बीज विच उग जावेगा (रेमा) आहलाईश्वर.^{जी4690 ऐ}

उत्पत्ति 37:9 ऐते उन इक होर सपने दिखया ते अपने भ्राएं गी दस्सेया।

दिखो, मैं इक सपने होर बी दिक्खेआ ऐ; ते सूरज गी दिखो^{एच 8121 ऐ} ते

चाँद दा^{एच 3394 ऐ} ते ग्यारह तारे^{एच 3556 ऐ} बनाई पूजा^{एच 7812 ऐ} मेरे कोला

उत्पत्ति 37:10 ऐउन अपने पिता ते अपने भ्राएं गी ए गल्ल दस्सी, ते उदे पिता ने उसी डांटया।

²⁹⁷प्रभु (निरपेक्ष) ने तुसैं गी मसीह दे क्रीमती खून कन्ने खरीदी लेता (मुक्त): यीशु गी मेमने दे रूप च^{जी286 ऐ} बिना दाग ते बिना दाग मसीह साडा फसह बनी गया. इस आस् ते सिर्फ प्रभु (निरकुश) परमेसरे गी प्रभु (kyrios) यीशु मसीह (जदे 1:4 ऐ).

→परमात्मा दे लोगो दे गवाहें दी मारी गेदी आत्माएं गी जेह्दे वेदी दे हेठ न, उंदे कोल प्रभु दा रेमा ऐ ते रोंदे न प्रभु यीशु मसीह दे कोल पुछे होई के ओह कदू जर्मी उप् पर रौहने आले खून दा बदला लैगा।

ते उसी आखया।

एह केह सपना ऐ जेड़ा तूं सपना दिक्खेआ ऐ? क्या मैं ते तेरी मां ते तेरे भ्राएं गी सचमुच तेरे सामने धरती उपर प्रणाम करने आए आं ?

• उसका दूजा सपना: 1।

2 सूरज, चंद्रमा ते ग्यारह (11) तारे यूसुफ दी पूजा करदे हे।

याकूब ने धरती दे सामने (कानून दे तहत) सूरज, चंद्रमा ते 11 तारे कूं इस तरह संदर्भित कित्ता:

- सूरज दा: जमीन दा पिता (याकूब, मत्ती 23:9 ऐ, ऐउत्पत्ति 37:10 ऐ)
- चंद्रमा दा: बंधन के घर की माँ (याकूब दी घरेआली, इक मां जेड़ी कानून दे अधीन ऐ (गलाती 3:18 ऐ-19 ऐ)

- तारे : 1। शरीर दे संतान (याकूब दे 11 पुत्र, गुलामी दे बच्चे, रोम 9:8 ऐ, ऐगलाती 4:25 ऐ)

→ धरती दे सामने सूरज, चंद्रमा ते 11 तारे धरती दे हन ते इस तहाँ मिट्टी दे हनाजदू दी...

के लोगो ईश्वर तुंदी जमीन च (या तुंदे शरीर च) मरदा ऐ ते फिरी जिंदा होई जंदा ऐ, तुंदा शरीर न लंबे समय तक सांसारिक हो जांदा ऐ, पर स्वर्गीय (१ कुरिन्थियों १५:४०). इसी तरह के लोगो भी ईश्वर यूसुफ दे अंदर अंकुरित होकर बीज (रहेमा) में उग गया ईश्वर²⁹⁸ जो कि से है प्रभू आहला सूरगकुसी असी पूजा करदे हाना²⁹⁹

→ याकूब दा परिवार धरती दे सामने ऐ, जदके यूसुफ कोला पैहले ऐप्रभू (क्योरिओस)^{३००} स्वर्ग दा

(१ कुरिन्थियों १५:४७ ऐ), दा बीज होने मसीह ते इस चाल्ली दा इक माहू बनना मसीह. इक आदमी^{३०१} आहला मसीह

दा बीज है मसीह ते धर्मी बनाई दिता जंदा ऐ ईश्वर च मसीह (२ कुरिन्थियों ५:२१) ते इस चाल्ली पवित्र^{३०२}

(मार्च 6:20 गी). इस आस् ते यूसुफ गी केह मानू दे रूप च पेश कीता गया मसीह, जो अपनी जनानी (या

पत्नी या जिसदे कोल परमात्मा^{३०३} दा लोगो होवे जो वक्त तक ट्यूटर ते गवर्नर दे हेठ होवे

के नियुक्त कीता पिता जी), इत्थं तगर जे मसीह कलीसिया कन्ने बी प्यार करदा हा ते उदे आस् ते अपने आप गी बी देई दिदा हा।

मसीह कलीसिया (मसीह च मर्द ते जनानियां) गी पानी दे धोने कन्ने पवित्र ते साफ करग

शब्द (रेमा दा), ऐ^{३०४} जे कलीसिया गी अपने सामने इक महिमामयी कलीसिया पेश करी सकै, जिसदे कोल नेई दाग, या शिकन, पर बिना दाग दे पवित्र हो (इफिसियों 5:26-27 ऐ).

→ बीकीजे यूसुफ ने मिस्र दे शासक बनने दे बा'द अपने भ्राएं दे पाप माफ करी ओड़ेयारेमा दा उसी दा

सपने मिसाल दे दे ने मसीह ते उंदी गौरवशाली चर्च (उत्पत्ति 50:17 च).

→ इक फेर याकूब दा नां इझाएल च बदली दिता गेदा ऐ, इझाएल दे सूरज, चंद्रमा ते तारे (अनुग्रह दे हेठ) न

निम्नलिखित रूप च संदर्भित कीता गेआ ऐ:

- ऐसूरज दा: ईश्वर (प्रकाशां दा पिता^{३०५} स्वर्ग च, मत्ती 5:16 ऐ, ऐयाकूब 1:17 ऐ, ऐमत्ती 23:9 ऐ)
- ऐचंद्रमा दा: मसीह, ऐपरमातमा दा पुत्र (मसीह, वादे दा बीज, स्वर्ग दा स्वामी, ऐमार्च 12:35 दी, ऐ१ कुरिन्थियों १५:४७ ऐ, ऐगलाती 3:16 ऐ)
- ऐतारे : 1। पैहला फल, ऐपरमातमा दे पुत्र (पहले फल, वादे दे संतान,^{३०६} १ कुरिन्थियों १५:२३, ऐरोम 8:14 ऐ; १:८ ऐ).^{३०७}

[चित्र 6-1] सूरज, चंद्रमा, ते तारे दा आध्यात्मिक महत्व

सूरज, चांद, ते (11) तारे - धरती उपर

सूरज दा, चंद्रमा, ते (12) तारे - स्वर्ग च

²⁹⁸ये केद की गई प्रकाशित 6:6 ऐ.

²⁹⁹वही।

³⁰⁰“[चित्र 4-क]” दा संदर्भ लैओ।

³⁰¹वीडियो 18. “3. पैहले फल (द 144,0000)” www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-पहले-फल-द-144000/.

(कानून दे तहत)	(कृपा दे तहत)
<ul style="list-style-type: none"> • सूरज दा: 1। जमीन दा पिता (कानून दा) • चाँद दा: 1। बंधन के घर की माँ • तारे: 1। शरीर दे संतान 	<ul style="list-style-type: none"> • सूरज दा: 1। ईश्वर (स्वर्ग में पिता जी) • चाँद दा: 1। मसीह, ऐपरमातमा दा पुत्र • तारे: 1। मसीह दे पैहले फल, ऐपरमातमा दे पुत्र

- ऐ अलग-अलग किस्म दे शरीर³⁰²

उत्पत्ति १:२८ ऐते परमेसरे उनेंगी आशीष दिती (मनुख: एव 120 मद्वेव 2145 ऐते मादा, एव 5347 ऐ उत्पत्ति 1:27 ऐ), ते परमेसरे उनेंगी ग् लाया फलदायी हो, एव 6509 ऐते गुणा करना (बढ़ाना), एव 7235 ऐते फिरी भरना (पवित्र करना) एव 4390 ऐ धरती गी, ऐ एव 776 ऐ ते उसी अपने वश च करो: एव 3533 ऐते प्रभुत्व (शासन) रखना एव 7287 ऐ मछलियां दे उपर एव 1710 समुंद्र दा, ऐ एव 3220 ऐ मुर्गी दे उपर एव 5775 ऐ हवा (आकाश) दा, ऐ एव 8064 ऐ ते हर जीव (जीवन) उपर एव 2416 ऐ जो चलदा है (रिंगदा है) एव 7430 ऐ धरती उपर एव 776 ऐ

→ परमात्मा ने मनुख (नर ते नारी) बनाया एव 120 ऐ ते उनेंगी आशीष दिती के ओह उंदे च फलदायी होन प्रभु दा रेमा राहें बढ़ते हुए परमात्मा दे लोगो तुहाडे विच अपनी मूल दी धरती गी पवित्र करने आस्तै, ते हमेशा लेई अपने बनाने आस्तै पवित्र धरती उपर बने रौहने आस्तै मांस तां जे तुस उंदी प्रतिरूप ते प्रतिरूप च इक नमां प्राणी बनी जाओ प्रभु परमात्मा, जित ईश्वर शुरू तों ही पैदा कीता.³⁰³

- ऐ मूल रूप च परमात्मा दा बनाया गेदा मनुख समुंदरे दी मछियें, स्वर्ग दे मुर्गियें उपर राज करने आस्तै बनाया गेदा हा, ते धरती उपर रेंगे आला जीवना³⁰⁴

१ क्रिस्त्वियों १५:२९ सारे शरीर इक गै शरीर नेई न;

पर इक किस्म दा ऐगेश्वर १५:२९ मनुखें दा, ऐ १५:२९

जानवरें दा इक होर मांस (चार पैरें आह्ले जानवर), ऐ १५:२९

मछियें दा इक होर, ऐ १५:२९

ते इक होर चिड़ियें दा (पंखें कन्नै सुसज्जित, मुर्गियें थमां, स्ट्रॉन्ग दा १५:२९ ऐ). १५:२९

→ दा मांस माहनु (anthropos, स्टॉन्ग दा १५:२९ ऐ) १५:२९: 1।

- कमजोरी, बेइज्जती, ते भ्रष्टाचार च बोया (१ क्रिस्त्वियों १५:४२-४३).

→ दा मांस जानवरें दा (चार पैर वाले जानवर) १५:२९: 1।

- जानवरें दा १५:२९ जमीन उपर बैठे दे न, ते उंदे च लेश गी अजे तकर धर्मी नेई बनाया जाना ऐ।³⁰⁵

→ दा मांस मछलियां १५:२९: 1।

- परमेसरे दे लोगो च रौहने आली मछियें च मनुख दे पुत्र दा मांस ऐ। पर उंदा शरीर मुड़ना ऐ परमात्मा दा रेमा जदुं ओह लोगो उप् पर विश् वास करदे हन ते पबित्तर आत् मा गी पीदे हना

• साफ पानी च मछलियां (पवित्र आत्मा दा ग्रहण करो)

- मछलियां जो पानी च रौहियें न लोगो दा (या यीशु दा जमीन उपर बोले दा वचन)³⁰⁶ नदियों में रह जाएगा

बहने आले जिंदे पानी दा जेकर ओह विश्वास करदे न (और पांटे न पवित्र आत्मा गी (जॉन 7:38-39 ऐ)).

→ वे नशरे नयभात्मा वे नशरे वे नशुच जामेगे जीवन, ते गी जीवन शाश्वत.³⁰⁷

मती 4:19 ऐते ओह (यीशु) उन्हें आख्या, “मेरे पिच्छे चलो, ते मैं तुसैं गी मनुख मच्छी मारने आला बनाई देगा।”^{१५:२९}

→ दिता गे आयीशु मनुखें दे मछुआरे बनना (मती 4:19 ऐ), वचन दा प्रचार करन लई तैयार होना है

³⁰²“[चित्र 6-2] बकख-बकख किस्म दे शरीरें दा आध्यात्मिक महत्व” दिखो।

³⁰³“[चित्र 13-घ] आदम दी पीढ़ियें दी कताब” दा संदर्भ लैओ।

³⁰⁴वीडियो 1. “परमेसर दी सृष्टि दे सत्त दिना।” www.therhemaofthelord.com/कोर्स1/पाठ1/ ऐ।

³⁰⁵जानवरें दा मांस (अजें तकर धर्मी बनाया जाना ऐ)। “प्रकाशितवाक्य 6:7-8 ऐ) 4वीं महर (एक हरे घोड़ा: मौत & नरक दा खुलना).”

³⁰⁶“प्रकाशितवाक्य 1:14-15 ऐ) उंदे सिर, अकखीं, पैर, & आवाज दे सफेद बाल.”

³⁰⁷शब्द दे प्रचार दे बारे च, “[चित्र 6-च] खून दा खेतर (एक कब्जा)” दा संदर्भ लैओ।

([लोगो दा](#)) मौसम च ते मौसम दे बाहर सुसमाचार प्रचारक दे रूप च अपनी सेवा गी पूरा करने आसतै ([रतिमथियुस ४:२-५](#)).

• **अशुद्ध पानी च मछलियां**(अपवित्र आत्मा गी ग्रहण करो)

- फिरौन दी नदियें च रोहने आली मछलियां गी अग्न दी अनन्त झील च सुट्टी दिता जाग।³⁰⁸

→मिस्र दे राजा फिरौन दी नदियें च मछलियां उनें लोकें गी दस्सदियां न जिनेंगी मसीह गी सूनी च चढ़ाया हा ते कदें बी नेई

पश्चाताप किता ([प्रकासित 11:8 ऐ](#)), इस करिए ओह भरपूर मेंढक पैदा करंगन ([निष्कर्ष 8:3 ऐ](#)) जां “अशुद्ध आत्माएं”।³⁰⁹

→दा मांसपछी (पंखें कन्ने सुसज्जित, मुर्गी थमां, मजबूत दा [जी4071 ऐ](#))³¹⁰

- पछी (मजबूत दे [जी4421 ऐ](#)) संकुचन ऐ (या चिड़िया दा इक छोटा रूप) स्ट्रॉन्ग दे “मुर्गी” आसतै [जी4071 ऐ](#).

- आध्यात्मिक तौर पर मुर्गी गी मनुख दी आत्मा दा जीवन दस्सया गेदा ऐ जेहड़ा अंदर रौहदा ऐ [यीशु मसीह](#) ते उदे च

[रुह](#), आकाश (या धरती दे आकाश) दे बिच्च उड़दा। इक आत्मा च मांस नेई होंदा

ते हड़डियां पर यीशु दे कोल ओह ([लुका 24:39 ऐ](#)), आत्माएं आंदे न ते उंदी शाखाएं च रुकदे ना

अदु, प्रभु दी आत्मा गीउन (आकाश दे मुर्गी) उप्पर आराम करग) जो में निवास करदे हैं [यीशु](#)

[मसीह](#), जो बुद्धि ते समझ दी आत्मा कन्ने भरोचे दा ऐ, ते सलाह ते पराक्रम दी आत्मा कन्ने भरोचे दा ऐ।

ज्ञान ते प्रभु दे डर दी आत्मा ([यशायाह ११:२](#)).

➤ इस आसू ते मनुख गी समुंदरे दी मछियें, सुअर्गे दे पछियें ते धरती उप् पर रेंगेने आले जीवन उप् पर राज करने दी व्याख्या इस चाल्ली कीती जंदी ऐ।

• **समुंदर दी मछलियां** : यार(जिस ने [परमातमा दे लोगो](#)) जनानी (जो कानून दे अधीन है) ते राज करना)

- उस जनानी गी जिसने अब्राहम दे वंश (शब्द या लोगोस) गी गर्भधारण कीता ऐ [3056 ऐ](#) चादे दा, ऐ

[रोम 9:9 ऐ](#)), जो मनुख दा पुत्र ऐ, अपने आप गी अपने मनुख (पति) दे अधीन करो जेड़ा ऐ

वादे नाल पैदा होई आज्ञाद जनानी, [गलाती 4:23 ऐ](#)). दे राहें [लोगो दावादे दातूसीं](#) गर्भधारण कर लीं, तू

नारी, दा फल पैदा करग [मसीह प्रभु](#), जो है [परमातमा दा रेमा](#).

• **स्वर्ग दे मुर्गी** & धरती उप्पर रेंगेने आला जीवन: सरसों दा इक दाना लेओ जेड़ा इक माहू (मनुख दे पुत्र) ने लेईथे राज दे पुत्रें दे मन च बोया हा, तां जे बीज [मसीह](#) धरती च (तुदे मांस च) बोई गेदी बड़डी जड़ी-बूटी तकुर उगदा ऐ ते जीवन देने आह्ला बूहटा बनी जंदा ऐ (या... [जिंदगी दा पेड़](#)). जेकर फल खाओ [जिंदगी दा पेड़](#) (अविनाशी मांस), तुस अविनाशी ([१कुरिन्थियों १५:५२](#)) ते सदा जीओ (उत्पत्ति ३:२२), तुसंगी धरती उप्पर रेंगेने आहू ले सारे जीवन गी अपने वश च करने दी अनुमति दिंदा ऐ।

[१कुरिन्थियों १५:४०](#) आकाशीय ([स्वर्गीय](#))^{302 ऐ} लाशें, ते शरीर स्थलीय ([पार्थिव](#)): [1](#)^{311 ऐ}

लेकन आकाशीय (स्वर्गीय) दी महिमा^{302 ऐ} इक ऐ, ऐ

ते पार्थिव (पृथ्वी) दी महिमा^{311 ऐ} इक होर ऐ।

[१कुरिन्थियों १५:४१](#) ऐइक ही है [महिमा](#) ^{311 ऐ} सृज दा, ते चंद्रमा दी इक होर महिमा, ^{311 ऐ}

ते तारे दी इक होर महिमा^{311 ऐ} कीजे इक तारा महिमा च दुप तारे कोला बक्ख ऐ।

[१कुरिन्थियों १५:४२](#) तो भी ऐसा ही है [मरे दे जिंदा होना](#). भ्रष्टाचार च बोया जंदा ऐ; ओह अविनाशी च जिंदा होई जंदा ऐ।

बेइज्जती च बोया जंदा ऐ; में उभारा जाता है [महिमा](#): कमजोरी च बोया जंदा ऐ; में उभारा जाता है [ताकत](#): [1](#)^{311 ऐ}

→दाऊद दे शरीर गी परमात्मा दी मर्जी दी सेवा करने दे बाद बी भ्रष्टता दिक्खी गेई।

पर [प्रभु](#) (मांस [दामनुख दा पुत्र](#), ऐ [१कुरिन्थियों १५:४७ ऐ](#)) ने भ्रष्टाचार दे माध्यम कन्ने नेई दिक्खे [आजी उठने दा](#)

[मसीह दा](#), ते उंदी आत्मा नरक च नेई छडी गेई। इस तहाँ मनुख (आदम) दे जरिए मौत आई, पर मनुख (द...

[प्रभु](#)) आ गया [मरे दे जिंदा होना](#) ([१कुरिन्थियों १५:२१](#)).³¹⁰

[प्रेरितों दे काम 13:36](#) कीहके दाऊद परमात्मा दी मर्जी कन्ने अपनी पीढी दी सेवा करने दे बाद सोई गया।

ते उसी अपने बब्बे दे सामने रखेया गया ते नाश होने दिक्खेया।

³⁰⁸“[प्रकाशितवाक्य 6:7-8 ऐ](#)) 4वीं मुहर (एक हरे घोड़ा: मौत & नरक दा खुलना).”

³⁰⁹संदर्भ देना [प्रकाशितवाक्य 16:13 ऐ](#).

³¹⁰“[चित्र 6-ई] पैह्ला आदम & आखरी आदम” दा संदर्भ लैओ।

प्रेरितों दे काम २:३१उसने इस गल्ल गी दिक्खदे होई पैहें गै गल्ल कीती मसीह दे जी उठना, कि उसदी आत्मा नरक विच नहीं छडी गई,

ना उदे शरीर गी भ्रष्टाचार दिक्खेआ.

१कुरिन्थियों १५:२१कीजे जदू धमां मनुक्ख दे द्वारा ^{॥444॥}आया मौत,

आदमी द्वारा ^{॥444॥}आया बी मरे दे जिंदा च।)

१कुरिन्थियों १५:४७ ऐपेहला आदमी दा है ^{॥1537॥}धरती (जमीन), ^{॥1093॥}मिट्टी दे: 1। ^{॥5517॥}

दूजा आदमी है ^{॥1537॥}प्रभू (दे) तो सूरज.

[चित्र 6-2] बकख-बकख किस्म दे शरीरों दा आध्यात्मिक महत्व

<u>१कुरिन्थियों १५:४०</u>	पार्थिव शरीर	स्वर्गीय पिंड
<u>१कुरिन्थियों १५:४७</u> ऐ	धरती दा मांस, ई। ई। आर्थी	चलेश दासूरज
<u>१कुरिन्थियों १५:३९</u>	चलेश दापुरुष ^{॥444॥}	चलेश दामनुख दा पुत्र ³¹¹
<u>१कुरिन्थियों १५:४२</u>	टीओह मरे दे लोकें दा जिंदा करदा ऐ ³¹²	टीओह मसीहा दे जींदा ऐ (प्रेरितों दे काम २:३१)
टीओह 1st आदमी, आदमबनामा	एस कमजोरी में अपना	आर aised में ताकत
	एस वेइज्जती में अपना	आर aised में महिमा
	एस भ्रष्टाचार में अपना	आर aised में अभ्रष्टाचार
[चित्र 6-1 ऐ]	सूरज, चांद, ते (11) तारे - धरती उपर (कानून दे तहत)	सूरज दा, चाँद, ते (12) तारे - स्वर्ग च (कृपा दे तहत)
डी ifferent महिमा अलग अलग महिमा ³¹³	• सूरज दा: 1। जमीन दा पिता (कानून दा)	• सूरज दा: 1। ईश्वर (स्वर्ग में पिता जी)
	• चाँद दा: 1। बंधन के घर की माँ	• चाँद दा: 1। मसीह, ऐपरमातमा दा पुत्र
	• तारे: 1। शरीर दे संतान	• तारे: 1। मसीह दे पैहले फल, ऐ परमातमा दे पुत्र


³¹¹ इं६:५५ टी ("कीजे मेरा मांस सच्चे खाने दा ऐ, ते मेरा खून सच्चे पेय ऐ"), ऐजह 6:53 ऐ, तेरो 14:17 ऐ.

"[चित्र 2-क], " जां वीडियो 30. "कम्यून" दा संदर्भ लैओ www.therhemaoofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ ऐ

³¹² जानवरों दा मांस (अजें तकर धर्मी बनाया जाना ऐ)। "प्रकाशितवाक्य 6:7-8 ऐ) 4वीं महर (एक हरे घोड़ा: मौत & नरक दा खुलना)."

³¹³ मंदरे च बख-बख महिमाएं गी किय् यां लाया जंदा ऐ, एह समझने आस् ते "परमेसर दे लोक दे तम्बू च दाखल होडन परमातमा, अलग-अलग महिमा लांदि होए" ते "बीच संपत्ति दे शरीर तों महिमामंडित शरीर तक" तों "प्रकाशितवाक्य 21:27 ऐ" में लिखे हुए मेमने दी जिंदागी दी किताब, ऐ" फिर "[चित्र 21-2]" दे आरेख गी समझो।

[चित्र 4-क] आदम दी पीढ़ियां ते अब्राहम + जनानी³¹⁴



→ उस जनानी ने अब्राहम दे वंश या वादे दे लोगो (रोम 9:9 ऐ), अपने गै माहू दे अधीन होना चाहिदा (पति) जो मुक्त नारी दा होवे, वादे नाल पैदा होया (गलाती 4:23 ऐ). वादे दे लोगो (चीश, मनुख दा पुत्र, परमात्मा दी रोटी) कि जनानी ने गर्भवती होई, दा बीज है **मसीह प्रभू** (लुका 2:11 ऐ) ते मते सारे फल पैदा करदे न **लोगो दा**.³¹⁵


³¹⁴वीडियो 7. “आदम दी पीढ़ियां ते अब्राहम + जनानी” www.therhemaofthelord.com/course2/7-आदम-से-अब्राहम-महिला-दी-पीढ़ियां-आओ-असी-अपनी-रूपता-बाद-अपनी-छवि-च-मर्द-बनाओ/, ऐ

video 24. “तुस पवित्र यरूशलेम ओ” www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-देव-दे-घर-तुस-पवित्र-यरूशलेम/.


³¹⁵वीडियो 32. “(एक बड़डा रहस्य) मसीह ते कलीसिया 1/2!”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-एक-महान-रहस्य-मसीह-चर्च-सब-चीज-परमात्मा-दी-हैं/.

[चित्र 6-ई] पैह्ला आदम & आखरी आदम³¹⁶



[चित्र 6-च] खून दा खेत (एक कब्जा)³¹⁷



³¹⁶वीडियो 37. "पैह्ला आदम & आखरी आदम"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-खून-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हैं/.

³¹⁷वीडियो 37. "खून दा खेत (एक कब्जा)"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-खून-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हैं/.

(प्रकाशित 7:1 ऐ) जमीन दे 4 कोने पर 4 स्वर्गदूत

प्रकाशित 7:1 ऐइस गल् ला दे बाद मैं चार सुर्गदूत धरती दे चार कोने उप पर खड़ोते दे दिक् खेया।^{1093 ३}

धरती (जमीन) दे चार हवाएं गी धारण करदे होई,^{1093 ३}

कि हवा धरती (जमीन) ते ना चली,^{1093 ३} ना समुंदर ते ना किसे (सब) ते^{3956 ३} बूहटा.

☞ **प्रकाशित 7:1** ऐइस गल् ला दे बा'द मैं चार (4) सुर्गदूत जमीं दे चार (4) कोने च खड़ोते दे दिक् खेया।

धरती दे चार (4) हवाएं गी पकड़ियै,

कि हवा जमीन उपपर, समुंदरे उपपर ते सारे बूहटे उपपर नेई बगा

(प्रकाशितवाक्य 7:2-3 ऐ) परमात्मा दे सेवक (मत्थे ते मुहर लगी)

प्रकाशितवाक्य 7:2 औय भैंने एक औय दे खा^{243 ३} पूरब तों चढ़दा स्वर्गदूत, जिंदे उपपर जिंदे परमात्मा दी मुहर ऐ।

ते ओह चार सुर्गदूतें गी जोरें-जोर कन्ने पुकारया।

जिसगी धरती (जमीन) गी चोट पजाना दिता गेदा हा,^{1093 ३} ते समुंदर,

प्रकाशित 7:3 ऐकहते हुए, जमीं को चोट न दे),^{1093 ३} ना समुन्दर, ना बूहटे,

जदू तक अस सील नेई करी लैंदे^{4972 ३} नौकरें गी^{1401 ३} साडे दा^{2257 ३} भगवान में (पर)^{1909 ३} उदे मत्थे.

☞ **प्रकाशितवाक्य 7:2** ते मैं इक होर सुर्गदूत कोलः चढे दिक्खेआ^{पूरब दा}, होना^{मुहर लगा दीजिंदे दाईश्वर}.

ते ओह चार (4) सुर्गदूतें गी बड़ी आवाज च पुकारया

जिसी जमीन ते समुंदर गी चोट पजाने दी अनुमति दिती गई ही।

☞ **प्रकाशित 7:3** ऐकहते हुए, "चोट ना देनाजमीन, समुंदर, जां बूहटे

जब तक साडे कोल^{सील कर दियासाडे नौकरें देईश्वर} उनके मत्थे पर."

→ जमीन, समुंदर, रुकखें गी जद तक फरिश्ताएं गी नुकसान नेई होगी^{सील कर दिया} नौकरें गी^{1401 ३} आहला^{ईश्वर} में उनके मत्थे³¹⁸ जा^{144,000} दी इस्त्राएल दे पुत्रों दे सारे गोत्रें च (प्रकाशित 7:4 ऐ).³¹⁹

➤ दावत^{4150 ३} तम्बू दा): पूर्वी पासे

- गिनती 2 च, प्रभु (यहोवा) ने मूसा ते हारून कन्ने इस बारे च गल्ल कीती जे "तम्बू दा पर्व" किस चाल्ती खड़ोते दा ऐ। (गणना 2:1 ऐ).

- ऐहर मद^{376 ३} इस्त्राएल दे पुत्रों गी अपने (बड्डे फौजी) मानक कन्ने पिच करना चाहिदानिशन दे नाल^{226 ३} उनके पिता के घर, ते पिच फेसिंग^{5048 ३} दावत दा^{4150 ३} तम्बू दा (गणना 2:2 ऐ).

एच [पूरब पासे] पूरब पासे सूरज दे उगने दी तरफ, डेरा दा^{यहूदा} (बड़े) दा होना चाहिदा

फौजी) मानक ऐ। उस बेले इस्साकर दे गोत्र ने यहूदा दे बगल च खड़ोतेया, ते जबूलून दे गोत्र ने खड़ोती

इस्साकर दे बगल च (गणना 2:3-5 ऐ).

→ "इक होर सुर्गदूत" जो पूरब तों चढ़दा है विच^{प्रकाशितवाक्य 7:2} की ददशा से खड़े होने की अचधक संभावना शै

तम्बू दे पर्व दे पूरब पासे जित् थे यहूदा दा बड्डा फौजी डेरा ऐ। जानतः हुए कियीशुऐ

के कबीले से^{यहूदा}, एह इक होर सुर्गदूत जेहड़ा 4 सुर्गदूतें गी पुकारदा हा, ओह प्रभु दा दूत होई सकदा ऐ

(यहोवा) प्रभु दे सामने (यहोवा), जां "प्रभु ('^{ädonay} 136 ३ ईश्वर (^{y'hōvā}).^{3069 ३}"

→ जिंदगी दे पेड़ दा रस्ता रखना, प्रभु परमात्मा करुब ते इक ज्वालामुखी तलवार रखेया^{2719 ३} पर

³¹⁸संदर्भ देना प्रकाशित 7:3 ऐ, ऐ प्रकाशितवाक्य 14:1.

³¹⁹"[चित्र 7-क]" जां वीडियो 18. "3. पैहे फल द 144,000!"

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-पहले-फल-द-144000/.

प्रबअदन दे बाग दाजफ उसने उस आदभी को भगाई (उत्पत्ति 3:24 ऐ). ज्ञानी ने दिखे तारा केवीशु, ऐ यहूदियों दा राजा, “प्रब” च (मत्ती २:१-२ ऐ), ते इस्राएल दे परमात्मा दी महिमा दे रस्ते कोला आई गेई “प्रब दा” (इज 43:2 ऐ).

(प्रकासित 7:4-8 ऐ) 144,000 (पृथ्वी उपर परमात्मा दी इक कौम, इस्राएल, ज्ञानी कुंवारी³²⁰) सील कर दिता

प्रकासित 7:4 ऐते मैं मुहर लाए दे लोकें दी गिनतरी सुनी^{#4972} ते उर्थें मुहर लाए गेदे हे
इक सौ चौवालीस हजारबच्चों (पुत्र) दे सारे कबीले दे^{#5207} इस्राएल दा.
प्रकासित 7:5 ऐयहूदा दे गोत्र च बारह हजार मुहर लाए गेदे हे।
रूबेन दे गोत्र च बारह हजार मुहर लाए गेदे हे। गाद दे कबीले दे बारह हजार मुहर लागी गे।
प्रकासित 7:6 ऐअसेर दे कबीले च बारह हजार मुहर लाए गेदे हे। नेपथलीम दे कबीले च बारह हजार मुहर लाए गेदे हे।
मनसे दे कबीले च बारह हजार मुहर लाए गेदे हे।
प्रकासित 7:7 ऐशिमोन दे गोत्र च बारह हजार मुहर लाए गेदे हे। लेवी दे गोत्र च बारह हजार मुहर लाए गेदे हे।
इस्साकर दे कबीले च बारह हजार मुहर लाए गेदे हे।
प्रकासित 7:8 ऐजबुलोन दे गोत्र च बारह हजार मुहर लाए गेदे हे। यूसुफ दे गोत्र च बारह हजार मुहर लाए गेदे हे।
बिन्यामीन दे गोत्र च बारह हजार मुहर लाए गेदे हे।

☞ प्रकासित 7:4 ऐते मैं उर्थें लोकें दी गिनतरी सुनी **सील कर दिया**.

इक सौ चौवालीस हजार (144,000 दी) इस्राएल दे पुत्रों दे सारे गोत्रों देसील कर दिते गए:

☞ प्रकासित 7:5 ऐयहूदा दे कबीले दे हेसील कर दिया बारह हजार (12,000) दी।

रूबेन दे कबीले दे हेसील कर दिया बारह हजार (12,000) दी।

गाद कबीले दे हेसील कर दिया बारह हजार (12,000) दी।

☞ प्रकासित 7:6 ऐअसेर दे कबीले च बारह हजार (12,000) मुहर लाए गेदे हे।

नेपथलीम दे कबीले दे हेसील कर दिया बारह हजार (12,000) दी।

मनशस दे कबीले दे हेसील कर दिया बारह हजार (12,000) दी।

☞ प्रकासित 7:7 ऐशिमोन दे कबीले दे हेसील कर दिया बारह हजार (12,000) दी।

लेवी दे कबीले दे हेसील कर दिया बारह हजार (12,000) दी।

इस्साकर दे कबीले दे हेसील कर दिया बारह हजार (12,000) दी।

☞ प्रकासित 7:8 ऐजबुलोन दे कबीले दे हेसील कर दिया बारह हजार (12,000) दी।

यूसुफ दे कबीले दे हेसील कर दिया बारह हजार (12,000) दी।

बिन्यामीन दे कबीले दे हेसील कर दिया बारह हजार (12,000) दी।

- नंबर दा महत्व 12, ऐ 1,000 दी, ऐ & 10 हजार दी बाइबल च लिखे दा ऐ

- नंबर 12 दा^{#1427} प्रकाशितवाक्य च 12 गोत्रों दा जिक्र ऐ, जेड़े इस्राएल दे पुत्रों दे सारे गोत्र ना

- ऐनंबर 1000 दा^{#5505} च प्रकासित 7:5 ऐ-8 कुल मर्दे दी गिनतरी दा वर्णन करदा ऐ (जमीन उपर, प्रकासित 14:3 ऐ) इक इकाई दे रूप चा

➔ नंबर दी 12

- 12 कबीले, 1000 दी इकाई कन्ने मिलिये, ऐ 12 हजार दी जो नुरुषों की कुल सोख्मा का प्रनतननधधत्व कयता शै हरइस्राएल दे पुत्रों दे 12 गोत्रों च जेह्दे धरती थमां छुड़ाए गेदे न (प्रकासित 14:3 ऐ).

➔ नंबर दी 1,000 दी

- इस्राएल दे सारे पुत्रों दा प्रतिनिधित्व इस नंबर कन्ने कीता गेदा ऐ, 144,000 दी (12 कबीले x 12,000 दा).

➔ नंबर दी 10 हजार दी

- उन (स्वर्गदूत, जीव-जंतु, ते बुजुर्ग) दी गिनतरी जेड़े दे गद्दी दे आसपास गोल न

मेमने ते परमात्मा गी 10,000 (10,000) दी इकाई कन्ने दर्शाए गेदे न प्रकासित 5:11 ऐ).

इसा 18:6 ऐजुतुं दाऊद पलिस्ती दे कत्ल थवां बापस आया।

कि जनानियां इस्राएल दे सारे नगरों चों निकली आए।

³²⁰संदर्भ देना प्रकाशितवाक्य 14:15-16 ऐ विस्तार कन्ने जानने लेई।

गांदे ते नचदे, राजा शाऊल कन्ने मिलने आस्ते, ताबरे कन्ने, खुशी कन्ने, ते संगीत दे साज कन्ने मिलने आस्ते।

[१सा 18:7](#) ऐते जनानियें खेडदे-खेलदे इक-दुए गी जवाब दिता, ते आखया।

शाऊल जीअपने हजारों (1,000) गी मारी दिता ऐ, ते दाऊद उंदे दस हजार (10,000 दे दशक)।

[१सा 18:8](#) ऐते शाऊल बड़ा गुस्सा आया, ते ए गल्ल उसी नाराज होई गई; ते उन आखया।

उनेंगी दाऊद गी दस हजार (10,000),

ते मेरे ऊपर उनेंगी हजारों (1,000) गे जोड़े ना।

ते राज्य (एकवचन) दे सिवा होर कौी हो सकदा ऐ? [4410](#) रे

[१सा 18:9](#) ऐस दिन शाऊल दाऊद गी उस दिन थवां गे नजरी मारी ओड़ेया।

→शाऊल गी शमूल ने अभिषेक कित्ता ते परमेसरे दे लोके इझाएल दा शासक बनी गया ([१सा ९:१६](#) ते)।

हालांकि ओह आत् मा च गे शुरू कित्ता हा, पर परमेसरे दी आत् मा ने शाऊल गी सिद्ध करने दे बा'द छड्डी ओड़ेया

मांस ([गलाती 3:3](#) ऐ, ऐ [१सा १६:१४](#) ते)।

- फिर, दाऊद गी इझाएल दे राजा दे तौर ऊपर अभिषेक कीता गेआ ([२सा ५:३](#) ऐ)। ओह परमात्मा दे अपने दिले दे मताबक इक माहू हा, जिदे जरिए परमेसरे दाऊद दे वंश दे जरिये इझाएल आस् ते इक मुक् तिदाता यीशु गी जिंदा करिये अपनी सारी मर्जी पूरी कित्ती

([प्रेरितों दे काम 13:22-23](#))।

→इस आस् ते शाऊल गी 1000 लोके गी मारी ओड़ना, ते दाऊद गी उंदे 10,000 लोके दी व्याख्या इस चाल्ली कीती जाई सकदी ऐ:

“शाऊल मिट्टी दा (चलेशली) मनुख, जिसने मिट्टी दे प्रतिकरूप गी धारण कीता ऐ,

लेकन दाऊद सर्गीय (प्रभु दा) मनुख ऐ, जेड़ा सर्गीय ([१कुरिन्थियों १५:४८](#))।

- दूजे शबदां च, शाऊल पैहलें मनुख आदम दा हा, पर दाऊद प्रभु दा हा स्वर्ग से

([१कुरिन्थियों १५:४५](#))।

[मती 10:28](#) ऐ शाऊल दे देवता कोला मत डरो, जेड़ा शरीर गी मारदा ऐ, लेकन आत्मा गी मारने च समर्थ नैई ऐ।

लेकन दाऊद दे परमात्मा कोला डरो, जेड़ा दोने आत्माएं गी नष्ट करने च समर्थ ऐ

ते नरक च शरीर।”

→उस बेले शाऊल गुस्से च पेई गया, की के लोक उसी शरीर ते खून दा मनुख दस्सदे हे

जो परमात्मा दे राज दा वारिस नहीं हो सकदा ([१कुरिन्थियों १५:५०](#)) पर इस संसार दा राज ([१सा 18:8](#) ऐ)।

• सील कर दी

- यीशु ने अपने चेलें गी आखेआ हा जे ओह मांस आस्ते मेहनत करन ([परमात्मा दे लोगो](#)) जो टिकदा ऐअनन्त जीवन, जो था

[सील कर दिया](#) [जो4972](#) रे मनुख दे पुत्र च द्वारा [ईश्वर पिता जी](#)।³²¹

- ऐ144,000 गी चिह्नित ते सील कीता गेदा ऐपवित्र आत्मा गी, पवित्र भविष्यवक्ताओं द्वारा पहले बोली गई, और दी

[प्रभु ते उद्धारकर्ता दे प्रेरितें दा हकम](#) ([२पतरस ३:२](#), [ऐमती २४:९](#) ऐ, ऐ [एकट 19 ऐ: 1](#)।[४-६](#) दा, ऐ [१कुरिन्थियों १२:१](#))।³²²

• प्रभु यीशु दा जी उठना

- ऐप्रभु यीशुसुर्ग थवां प्रगट होवेगा मतलब सच दा लोगो (तुंदे उद्धार दा सुसमाचार) होवेगा

हो जला दे [ज्वालामुखी आग](#) खुलासा करनारेमा दासादे सुसमाचार दे जरिएप्रभु यीशु मसीह।

→तेरे बादमान [लियाचमसीह](#), तुसीं थे [सील कर दिया](#) कनै [पवित्र आत्मा गीवादे दा](#)।³²³

† [144,000 दीऐपरमेसरे दे सारे लोके दी इक कौमजेड़े](#) मथे ऊपर उंदे पिता दा नां लिखे दे सियोन पहाड़ ऊपर इक मेमने कन्ने खडोते दे ना

³²¹वीडियो 23. “रोटी, मन्ना , & छिपे दा मन्ना।”

www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-द-ब्रेड-द-मन्ना-द-हिडन-मन्ना/.

प्रधान याजके ते फरीसियें (यीशु दी) कन्न गी मुहर ला के पक्का करी ओड़ेया [4972](#) रेपत्थर ते घड़ी लगाई। उन्होनें ऐसा कित्ता

कीजे उनेंगी एह सोचेया हा के यीशु दे चले रातीं आस् ते उसी चुराई लेंदे हन, तांजे ओह त्रे दिन दे बा'द उदे जींदा होने दे बारे च झूठ बोलना

³²²वीडियो 14. “पश्चाताप, बपतिस्मा, ते पवित्र आत्मा।”

www.therhemaofthelord.com/पश्चाताप-बपतिस्मा/14-पश्चाताप-बपतिस्मा-पवित्र-आत्मा/.

³²³वीडियो 35. “(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार दे चेलो।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शिष्य-शक्ति-अधिकार-के साथ-.

- + कुल मिलाकर **144,000** दीइसाएल दे पुत्र 12 गोत्रें (यहूदा, रूबेन, गाद, असेर, नेप्थलीम, मनसि, शिमोन, लेवी, इस्साकर, जबूलोन, यूसुफ बिन्यामीन) सील कर दिते जादे हन।

- ऐ **144,000** दी(मसीह दे पैहले फल)

- 144,000 इसाएल दे सारे पुत्रें की कुल गिनतरी दा प्रतिनिधित्व करदे न, या... **परमातमा दी इक कौम, ऐइजराइल**(या परमात्मा दे लोक) धरती विच (२सा ७:२३ ऐ).
- **परमातमा दे लोक, ऐइजराइल**, जिन्हें गी परमात्मा ने मिस्र थमा छुड़ाया हा, ओह आने आले बड़्डे समें आस्ते दाऊद दे घरे दे न; ओह कुंवारी न, उंदे पैहले फल **ईश्वरते गीमेमने दा**, इसाएल दे पुत्रें दे सारे गोत्रें की गिनतरी, जिनेंगी मुहर लाया गेदा ऐ, जिंदे मत्थें उप्पर इक मेमने दे पिता दा नां लिखे दा ऐ, ते सिंहासन दे सामने इक नमां गीत गांदे न, जेड़े धरती उप्पर जमीन थमां छुड़ाई गेदे न।³²⁴
- **यीशु मसीह** खतना दा मंत्री था जो **आध्यात्मिक खतना कित्त गौर-यहूदी लोके दे दिलें** गीउन्हें गी आध्यात्मिक पुत्र बनाने लेई **इजराइल** (जां **आध्यात्मिक यहूदी**), तां जेरब दासच्चाई पिताएं कन्ने कीते गेदे वादे दी पुष्टि करी सकदी ऐ.³²⁵

- ऐमसीह च जी उठने दा क्रम

१कुरिन्थियों १५:२० पर हन ऐमसीहमरे दे विचों जी उठे, ते बन जाओ **पैहे फल** उन जेड़े सोंदे हे.

1थु 4:14 ऐकीहके जे अस विश्वास करदे हां कि यीशु मरी गया ते जी उठया।

इत्थू तगर जे उंदे च बी जेहड़े सोंदे न (द्वारा) **१२२३** ऐ **यीशु** चाहना **ईश्वर** अपने कन्ने लेई आओ.

१कुरिन्थियों १५:२१ कीजे जदू थमां मनुख दे द्वारा **४४४** ऐ आया मौत, आदमी द्वारा **४४४** ऐ आया भीमरे दे जिंदा होना.

१कुरिन्थियों १५:२२ कीजे आदम दे समान **७६** सारे मर जांदे ने, इत्थू तकर कि में **मसीह** सारें गी जिंदा करी दिता जाग.

१कुरिन्थियों १५:२३ लेकन हर इक माहू अपने-अपने क्रम च;

मसीह पैहे फल; बाद च ओह जेड़े **नमसीह** दा उंदे आने पर।

➤ **मसीहपैहे फल**

- ऐमसीहहो गया प्रथम फल **आहला** द्वारा सोने वाले **यीशु** मरे दे विचों जी उठन दे बाद (**1थु 4:14** ऐ).

जिस क्रम च ओह जेहड़े नमसीह दा जिंदा कर दिता जाग

➤ **(1) = (क) + (ख) ऐ 1 फसल दी**(मसीह दे पैहले फल, **144,000** दी, उंदे आने पर)

(इक) **पवित्र संतों दा पैहला फल** जो सोया (**144,000** दी, ऐमत्ती **27:52** ऐ)

- **मौत** आदम तों ले के मूसा तक राज कित्ता, इस करिए दे शरीर **144,000** दी जो सोया गया मौत दे राज दे दौरानबंद कर्र में थे।³²⁶

→ सोने आले दे पैहले फल (**१कुरिन्थियों १५:२०**, ऐ **1थु 4:14** ऐ) पहले उठेगा (**1थु 4:15** ऐ), ऐ³²⁷ अदू,

(ख) के लिये पहले फल **“जानी कूआरियां”** (पैहे फल को **ईश्वरते गीमेमने दा**, ऐ प्रकाशितवाक्य **14:4** ऐ):

- ओह **(144,000** दी) मनुख दे पुत्र दे आने पर रप्चर होई जागा।³²⁸

- ऐबाद च **1 सील दीखुला** है, प्रभु दा दूत (यहोवा) आके दे **देंगे मुकुट दा धर्म दा प्रलोभन** झेलने आलें गी।³²⁹ जो हैं जो हैंके साथ सील कर दिया **पवित्र आत्मा ऐप्रभू द्वारा चिन्हित** के आने पर रप्चर होना **मनुख दा पुत्र**.

- ऐसो, **मसीह दे पैहले फल (144,000** दी), जो 1 सील दे खुलने पर चिन्हित होंदे न, मनुख दे पुत्र दे आने पर (1 रप्चर) रप्चर कीता जागा।

³²⁴वीडियो 18. “3. पैहे फल (द 144,000)” www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-पहले-फल-द-144000/.

³²⁵वीडियो 16. “पोलुस ते पतरस दी प्रेरितता (3/10)” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ऐ.

³²⁶ मत्ती 27:52 ऐ, ऐरोम 5:14 ऐ, ऐ १कुरिन्थियों १५:२०, ऐ 1थु 4:14 ऐ

³²⁷“(1 रप्चर) जदुं परमेसरे दी तुरही बजग तां केह होंग?” “[चित्र 10]” दे अंतर्गत

³²⁸“(प्रकाशितवाक्य 14:1-5 ऐ) इक मेमना & 144,000 (कुंवारी) सिव्योन पहाड़ उप्पर खड़ोते दे (2nd watch वा 1st रप्चर).”

³²⁹“(प्रकाशितवाक्य 6:1-2) 1st सील दा खुलना (एक सफेद घोड़ा, इक धनुष & इक मुकुट).”

→ अस जेके जिंदे ते रेहई गेदे आं (या अस जेके नमें नियम दे मताबक जिंदे हन),
उदे कन्ने (इदे च मरे दे लोकें गी) पकड़ी लैता जागमसीहजो सो रहे हैं द्वारायीशु)
बादल विच, मिलन लईप्रभुहवा मेंते सदा प्रभू दे नाल रहो (1थु 4:17 ऐ).

➤ (२) **2 वी फसल दी** (मुख कुंवारी, महासंकट संत)

→ 7वीं मुहर खुलने तों ठीक पहले,³³⁰ प्रभूअपने आप गी सुर्ग थमां उतरी जाग
इक चिल्लाहट, प्रधान स्वर्गदूत दी आवाज कन्ने ते परमात्मा दी तुरही कन्ने
→ मुख कुआरियें आस्ते 2nd रैचर उसलै होंदा ऐ जिसलै 7वां तुरही बजने आली होंदी ऐ³³¹

➤ (३) **3 वी फसल दा** (दूसरी कुंवारी)

→ 1000 साल खत्म होने दे बाद बाकी मरे (दूजी कुंवारी) आ जांगनजीवन, ऐ
जो बाकी मरे दे लोगें वास्ते 1 ही जी उठन होवेगी³³²

³³⁰“[प्रकाशितवाक्य 8:1-5](#)) 7वीं मुहर दा खुलना (परमात्मा दे सामने 7 सुर्गदूतें गी 7 तुरही दिती जंदी ऐ).”

³³¹ प्रकाशित 11:15-16 ऐ, ऐ”[\(प्रकाशितवाक्य 14:14-16 ऐ\)](#) द हार्वेस्ट, द रैचर (3 वी घड़ी दा 2nd रैचर).”

³³²“[\(प्रकाशितवाक्य 20:5-6\)](#) पैहला जी उठना (The 4th watch).”

[The 7 feasts of the LORD]

3. First-fruits (The 144,000)

Spring

Bones = The house of Israel (Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. (Eze 37:11))

- **Woman = Bone & Flesh** (Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. (Eze 37:11)) because she was taken out of **Man** (Gen 2:23)
- **Man = (after sinned) = erred** (Gen 3:6) (and the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is **erred**. (Gen 6:3))
- **The man = (before sinned) = The life** (Gen 2:7) (of the soul)

→ Originally, the man (male and female, Gen 5:2) was created in **God's** image (Gen 1:27), but after the man sinned, the **ground** was cursed and the dust of the ground, which is the **flesh of the life of the soul** lost its **mist of the earth** that **wetted the whole face of the ground** (Gen 2:6), therefore became **dry** which is **earth**. (Gen 3:17, Gen 1:10) In other words, it became **erred** (Gen 3:6) (a flesh without life).

This is what **Ezekiel** meant when he said about **dried bones**. "Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel; behold, they say, Our bones are dried, and our hope is lost: we are cut off for our parts. (Eze 37:11)" Therefore prophesy and say unto them, **Thus saith the Lord God**: Behold, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land. (Eze 37:12)

→ This prophesy by **the Lord** was fulfilled when "Christ rose from the dead, and became the firstfruits of them that sleep." (1Co 15:20)

Fulfilled the prophecy of Ezekiel (Eze 37:1-14)

Risen Christ → became the firstfruits of them that sleep

→ That sleep means the death of man (1Co 15:20-22)

"For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead (1Co 15:21)"


① **Christ the firstfruits** → ② **They that are Christ's at his coming**

→ By rising from the dead, Christ defeated death, and the next are man in Christ (1Co 15:22)

Since Christ is risen, the next is they that are at Christ's coming.

If at His coming, who are they? of who are His firstfruits?

→ It is revealed in David's response regarding his house, before the LORD in 2Sa 7:25-26 and 2 Samuel 7 also corresponds to the 144,000 described in Revelation 7, 14, and 21.



How it all began

Prepare ye the way of the Lord, make His paths straight, John the Baptist, preached in the wilderness of Judea,

→ "Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand" (Mat 3:1-3)

After that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God.

→ The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

Thus it is written, and thus

→ It behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day. (Luk 24:46)

→ The repentance and remission of sins should be preached in Christ's name among all nations.

→ Beginning at Jerusalem. (Luk 24:47) You are witnesses of these things. (Luk 24:48)

Who are the 144,000?	David's response (2Sa 7:23)	144,000 (Revelation 7, 14, 21)
One nation	In the earth	All the tribes of the children (the sons) of Israel (Rev 7:4)
God's people	Thy people = Israel	The number of them which were sealed (Rev 7:4)
God's redeemed ones	Redeemedst to thee from Egypt	Redeemed from the earth (the ground) (Rev 14:3)
Name	Puttest him a name	Father's name written in their foreheads (Rev 14:1)
2Sa 7:23 And what one nation in the earth is like thy people, whom God went to redeem for a people to himself, and to make a name for thyself before the people, which thou redeemedst to thee from Egypt, from the nations and their gods?		
2Sa 7:19 And thou hast spoken also of thy servant's house for a great while to come, saying, O Lord God, thou hast sealed an hundred and forty and four thousand of all the tribes of the children of Israel.		
Rev 7:4 And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed an hundred and forty and four thousand, having the Father's name written in their foreheads.		
Rev 14:3 And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders; and no man could learn that song, but the hundred and forty and four thousand, which were redeemed from the earth.		
Rev 21:17 And he measured the wall thereof, an hundred and forty and four cubits, according to the measure of a man.		

The firstfruits of Christ at his coming is one nation of all of God's people

Who were redeemed from Egypt to put His name in their foreheads.

→ They are not defiled with women, for they are virgins (Rev 14:4)

→ Follow the Lamb whithersoever he goes (Rev 14:4)

→ Redeemed from among men (Rev 14:4)

→ The firstfruits unto God and to the Lamb (Rev 14:5)

→ In their mouth was found no guile; without fault before the throne of God

God's people, Israel, whom God redeemed from Egypt, who are of the house of David for a great while to come, they are virgins, the firstfruits unto God and to the Lamb, the number of all the tribes of the sons of Israel who are sealed, having a Lamb's Father's name written in their foreheads, singing a new song before the throne, redeemed from the ground.

But why tarry in the city of Jerusalem?

Luk 24:49 And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high.

The meaning of the city of Jerusalem

Jerusalem is the city of the great King (Mat 5:35) and a city of truth (Eze 8:3), where the house of the LORD is (Ezr 1:5), and where his name is (2Ch 6:5-8)

→ Know ye not that, ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? (1Co 3:16)

Thus tarrying in the city of Jerusalem means

→ dwelling in the house of the LORD in the truth of his great name in you

Those who dwell at Jerusalem are Jews and devout men, out of every nation under heaven (Act 2:5)

→ Have seen the LORD (Luk 20:13) therefore glad (Luk 20:20)

→ Be filled with the Holy Spirit (Luk 20:20) or new wine (Act 2:13)

→ For the kingdom of God is not in word, but in power. (1Co 4:20)

These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me. (Luk 24:44)

Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures. (Luk 24:45)

(प्रकाशित 7:9-12 ऐ) इक बड्डी अनगिनत भीड़ (सब राष्ट्र, कबीले, लोक, ते भाशाएं च)

प्रकाशित 7:9 ऐइसदे बाद मैं इक बड्डी भीड़: दिक्खी।^{¶3793} जिसी कोई गिनना नेई सकदा हा।
सारे जाति दे,^{¶1484} ते रिरतेदार (कबीले),^{¶5443} ते लोक,^{¶2992} ते जीभ (शरीर दा अंग)^{¶1100} ते
सामने खड़े हो गए (चंदी मौजूदगी)^{¶1799} सिंहासन दा, ते पैहे (चंकी मौजूदगी)^{¶1799} मेमने दा (अर्नियन),^{¶721}
सफेद वस्त्रों से कपड़े पाये, ते हथेलियां^{¶5404} उंदे हथेलें च;

प्रकाशित 7:10 ऐते बड़ी आवाज च चिल्लाया, “ उद्धार साढ़े परमात्मा गी, जेड़ा सिंहासन उप्पर बैठे दा ऐ, ते मेमने गी”

प्रकाशित 7:11 ऐते सारे सुर्गदूत सिंहासन दे चारों पासे खड़ोते दे हो

ते बुजुर्गों ते चार जानवरों दे बारे च।^{¶2226}
ते उंदे मुंह उप्पर सिंहासन दे सामने झुकिये परमात्मा दी आराधना किता।

प्रकाशित 7:12 ऐआखदे होई, आमीन:

आशीर्वाद दे, ते महिमा, ते बुद्धि, ते धन्यवाद, ते आदर ते शक्ति;^{¶1411} ते ताकत (ताकत),^{¶2479}
साहडे परमात्मा दे युगों-युगों तक रहो। आमीन.

- ☞ **प्रकाशित 7:9** ऐइमें गल्लें दे बाद मैं दिखया, ते दिखया। **इक महान भीड़** (लोक),^{¶3793} जिसदी गिनती कोई नेई करी सकदा हा, ऐ
सारे राष्ट्र दा (एकवचन),³³⁴ कबीले, लोक ते भाषा (शरीर दा सदस्य),
सिंहासन दी मौजूदगी च खड़ोते दे ते **ओहोमना**, ऐ
सफेद वस्त्रें कन्ने, हथेलें च हथेलियां,
- ☞ **प्रकाशित 7:10** ऐते जोर-जोर कन्ने चिल्लादे होई आखया।
“**मुक्ति** साडे दा हैईश्वर जो सिंहासन पर बैठे, ते **गीमेमने दा!**”
- ☞ **प्रकाशित 7:11** ऐते सारे सुर्गदूत सिंहासन ते बुजुर्ग ते चार (4) जीव-जंतु दे चारों पासे खड़ोते दे हो
ते सिंहासन दे सामने मुंह उप्पर डिंगी गे ते आराधना किता **ईश्वर**, ऐ
- ☞ **प्रकाशित 7:12** ऐआखदे होई, “आमीन:
आशीर्वाद दे, ते महिमा, ते बुद्धि, ते धन्यवाद, ते आदर, ते शक्ति ते ताकत,
साडे कोल हो जाओ **ईश्वर** सदा ते सदा वास्ते. आमीन।”

- ऐबड़ी असंख्य भीड़

→ ध्यान रक्खो जे 144,000 दा प्रतिनिधित्व करदा ऐपरमेसरे दे सारे लोकें दी इक कौम.

पर “सभी राष्ट्र (प्रकाशित 7:9 ऐ)” दा संदर्भ दिंदा ऐ सारे जाति, कबीले दी इक बड्डी “अनगिनत” भीड़ गी,
लोकें, ते भाशाएं गी जो हैमसीह दे शरीर दा अंग.

- ये हैपवित्र संत गी जेड़ा जानवर दा निशान नेई पाने दे कारण कैद होई जाग ते मारी दिता जाग
महासंकट दे दौरान।³³⁵ उन्हांने सफेद वस्त्रों भें नशरे, हथेली भें हथेली नकडकय...
सिंहासन दी मौजूदगी तेमेमने दा (अर्नियन दा), ऐ^{¶721} जों कन्ने रोंदे होई, “**मुक्ति** साडे कोल **ईश्वर** जिस पर बैठे दा ऐ
सिंहासन दा, ते **गीमेमने दा**.”^{¶721}

(प्रकाशितवाक्य 7:13-15 ऐ) जो महासंकट तों बाहर निकलदे हन ओह सफेद वस्त्रां विच सजदे हन

प्रकाशित 7:13 ऐते इक बुजुर्ग ने मिगी आखया।

एह केह न जेहड़े सफेद वस्त्रें च सजदे न? ते ओह कित्थे आए?

प्रकाशित 7:14 ऐते मैं उसी आखया, “ प्रभु (प्रभु, kyrios),^{¶2962} तू जानदे ओ।

उन मीगी आखया, “ए ओह बड़े मुसीबत कोलां निकले ना
ते उंदे कपड़े धोइये मेमने दे खून च सफेद करी दित्ते ना।^{¶721}”

प्रकाशित 7:15 ऐइस आस् ते ओह परमात्मा दे सिंहासन दे सामने न, ते ओस दे मंदिर च दिन-रात उदी सेवा करदे ना
ते जेका सिंहासन उप्पर बैठे दा ऐ, ओह उंदे च गै रौहगा।

- ☞ **प्रकाशित 7:13** ऐऔर इक दा **बुजुर्गों गी** जवाब दिता ते मिगी (यूहन्ना) आखया।

³³⁴वीडियो 16. “गैर-यहूदी (5/10)” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

³³⁵(प्रकाशितवाक्य 14:14-16 ऐ) द हार्नेस्ट, द रेचर (3 वी घड़ी दा 2nd रेचर).”

“इह किस विच सजदे हनसफेद वस्त्र, ऐते कित्ये आए?”

☞ प्रकाशित 7:14 ऐते में उसी आख्या, “नाथ, तूस जानदे ओ.”

इस आस् ते उन् ने मिगी ग् लाया, “एह गै हन, जेके बाहर निकले बड़ी कष्ट दा, ऐ तेधोया उनके वस्त्रते बनाया चिट्ठा चमेमने दा खून.

→ में सजने वाले सफेद वस्त्रसे बाहर आ गया “बड़ी कष्ट दा,” धोया उनके बागे, ऐ ते बनाया चिट्ठाके खून मेंमेमने दा (अर्नियन दा) ^{अ० 721 ए}

→ सनी दा कपड़ा उस कन्न च बिछाया गेदा हा जित्यें यीशु गी रखेया गेदा हा, ते उंदे खून च डुबोया गेदा कपड़ा बी ऐ सदेआ, ऐ परमातमा दे लोगो, जिन्हां गी सुर्ग च सेनाएं गी कपड़े पहिनदे न; चिट्ठाते साफ. ³³⁶

☞ प्रकाशित 7:15 ऐइस करिए ओह (उसी मौजूदगी च) पैहे गै ना ^{अ० 1799} परमातमा दा सिंहासन, ऐ

ते उदे मंदर च दिन-रात उंदी सेवा करो। ते जेका सिंहासन उप्पर बैठे दा ऐ, ओह उंदे च गै रौहगा।

→ जेड़ा सिंहासन उप्पर बैठदा ऐ; ईश्वर.

→ टीहे महासंकट संतकी मौजूदगी में होंगे परमातमा दा सिंहासन, दिन रात परमात्मा दी सेवा करदे च परमातमा दा मंदिर.

(प्रकाशितवाक्य 7:16-17 ऐ) मेमने दा (टीहे shepherd) उनेंगी खिलाना & पानी दे जिंदे फव्वारे च लेई जाह्या

प्रकाशित 7:16 ऐना हन भूख ते ना प्यास; ना ही सूरज दी रोशनी (पड़ग) ^{अ० 4098 ए} उंदे उप्पर, ना कोई गर्मी।

प्रकाशित 7:17 ऐलेई मेमने दा (अर्नियन दा) ^{अ० 721 ए} जो सिंहासन दे बिच्च ऐ

उनेंगी चराई देग, ते उनेंगी पानी दे जिंदे झरने च लेई जाह्या।

तेईश्वर उंदी अक्खीं दे सारे आंसू पोंछी लैग।

☞ प्रकाशित 7:16 ऐना उन्हें भूखा न प्यास होंगे, ना ही सूरज ते ना गर्मी उंदे उप्पर पौग।

☞ प्रकाशित 7:17 ऐ चजां मेमने दा जो सिंहासन दे बिच्च ऐ

उन्हें चराई देगा

ते उनेंगी पानी दे जिंदे फव्वारे च लेई जाओ.

तेईश्वर उंदी अक्खीं दे हर इक आंसू पोंछी लैग।

→ चजां मेमने दा (अर्नियन) ^{अ० 721 ए} जो सिंहासन दे बिच्च ऐचाहना एस चरवाहा उनेंगी ते उंदी अगुवाई (जिंदे च सजदे न

महासंकट च सफेद वस्त्र निकले) पानी दे जिंदे फव्वारे गी।

तेईश्वर उंदी अक्खीं दे सारे आंसू पोंछी लैग।

(प्रकासित 8:1-5.) 7वीं मुहर दा खुलना

प्रकाशितवाक्य 8:1 जदुं उने सतमें मुहर खोली लेया, ते सुर्ग च कोई अद्धे घण्टे च सन्नाटा पेई गया।

प्रकाशितवाक्य 8:2 ते में उने सत्त सुर्गदूतें गी दिक्खेआ जेह्दे परमात्मा दे सामने खड़ोते दे हे; ते उनेगी सत्त तुरही दितियां गोइयां।

- ☞ **प्रकाशितवाक्य 8:1** ते जदुं ओह खोलेया **ओहसातवां (7वीं दी) मोहर**, तकरीबन आधे घण्टे तक स्वर्ग भें सन्नाटा था।
- ☞ **प्रकाशितवाक्य 8:2** ते में (यूहन्ना) दिक्खेआ **ओहसात (7) स्वर्गदूत** जो सामने खड़े हो जांदे नेईश्वर, ते उनेगी दित्ता गेआ **सात (7) तुरही बजाना**.

→ डब्ल्यूमूर्गी **7वीं दी मोहर** खोला गया, 7 स्वर्गदूत सामने खड़े होए **ईश्वर** अपनी तुरही बजाने आले ना।

- पवित्र संत दी प्रार्थना परमात्मा दे सामने चढ़ी गई

प्रकाशितवाक्य 8:3 ते इक होर सुर्गदूत आया ते वेदी दे कोल सोने दा धूप दा बर्तन रखेया।

ते उसी खूब धूप दित्ता गया।^{अ॥2368 व॥}

कि ओह सारे संत (पवित्र संत) दी प्रार्थना दे नाल चढ़ावे^{अ॥40}

सोने दी वेदी उपपर जो सिंहासन दे सामने ही।

प्रकाशितवाक्य 8:4 ते धूप दा धुंआ, ^{अ॥2368 व॥} जो संत (पवित्र संत) दी प्रार्थना दे नाल आया।^{अ॥40}

सुर्गदूत दे हत्थे थमां परमात्मा दे सामने चली गे।

प्रकाशितवाक्य 8:5 ते सुर्गदूत ने धूप दा बर्तन लेई लेया।^{अ॥3031 व॥} ते वेदी दी अग कन्ने भरोईये धरती (जमीन) च सुट्टी दित्ता।^{अ॥1093 व॥}

ते आवाजें, गरजने, ते बिजली दी गड़बड़ी ही।^{अ॥796 व॥} ते इक भूकंप आया।

- ☞ **प्रकाशितवाक्य 8:3** फिरी इक होर सुर्गदूत सोने दा धूपदां लेइयै, आ के वेदी दे कोल खड़ोते दा हा। उसी मता धूप दित्ता गेआ।
इसे साथ अर्पित करने के लिये **दुआ दी आहलासारे पवित्र संत**, सिंहासन दे सामने सोने दी वेदी उपपर।
- ☞ **प्रकाशितवाक्य 8:4** ते धूप दे धुंआ कन्ने **दुआ दी आहलासारे पवित्र संत गी**, ऐ
पहले ऊपर चढ़ गया (की मौजूदगी में)^{अ॥1799} **ईश्वर** स्वर्गदूत दे हत्थों बाहर निकली।
- ☞ **प्रकाशितवाक्य 8:5** फिरी सुर्गदूत ने धूप दे बर्तन गी लेई लेया, उस च भरी दित्ता **अग वेदी से**, ते जमीन उपपर सुट्टी दित्ता।
ते शोर-शराबे, गरजने, बिजली ते भूचाल आया।

→ तोराह विच पाप दी बलिदान वास्ते आटे दा सूखा नाप इस्तेमाल कीता जांदा सी ते ओ लगातार मांस दी बलिदान बणदी सी
जदुं तेल च मिलाया जंदा ऐ, जिसगी पुजारी गी पूरी चाल्ली जला (गुप्त) करना पाँदा ऐ तां जे मिट्टी सुगंध चढ़ाई सके
प्रभु गी (यहोवा) जिस दिन हारून ते उंदे पुत्रों दा अभिषेक कीता जंदा ऐ।³³⁷

- ऐडब्ल्यूमूर्गी शराब दा इक तरल नाप लगातार मांस ते पेय दे बलिदान (इक मेमने च...)

सबेरे ते शाम इक), द्वारा बनाई गई मीठी स्वाद बन जांदा है **अगको प्रभु गी**।³³⁸

→ द्वारा की गई प्रसाद **अगको प्रभु गी** तुंदे सारे च निरंतर होमबलि बनी जंदा ऐ
पीढ़ियों पर **दरवाजे दातम्बू दे पर्व दा की मौजूदगी में प्रभु गी (यहोवा)**, जिल्ये ओह
इसाएल दे पुत्रों कन्ने मिलदा ऐ, बोलदा ऐ ते रौंदा ऐ कीजे **प्रभु गी (यहोवा)** उंदी ऐईश्वर (**एलोहिम**)।

→ **प्रभु जी (यहोवा)** इसाएल दे घराना ते यहूदा दे घराना कन्ने वादा कित्ता के ओह भलाई करग
चीज. “अच्छी गल ल” धार्मिकता दी शाखा गी दर्शांदी ऐ जेकी दाऊद गी फांसी देने आस् ते बधी जाग
फैसला करनाते धरती उपपर धार्मिकता, जेड़ी यहूदा गी बचाई लैग ते यरूशलेम गी नां कन्ने सुरक्षित बनाग
आहला प्रभु गी साडा धरम जो है **यीशू मसीह (शुओह २:१)**.

- नोट: तुहानू खरीदी (खरीदे) दी कीमती खून नाल **मसीह (यीशू)** जियां **इक मेमना**।^{अ॥286 व॥} बिजन

³³⁷ संदर्भ देना **प्रकासित 6:6 ऐ. 1/10** इक एफा आटे = पाप दी बलिदान (तेल दे नाल) → इक निरंतर मांस बलिदान (पुरोहित गी पूरी तरह जले)
जिस दिन हारून ते उंदे पुत्र अभिषेक होंगन, उस दिन परमेसरे गी मिट्टी खुशबू चढ़ाने आस् ते नेई खाओ।

³³⁸ संदर्भ देना **प्रकासित 6:6 ऐ.**

दाग ते बिना दाग जो हो गया मसीह साडा फसह), ते ओहू नाथ (निरपेक्ष) दा ¹²⁰³ है जो
तुसें ते परमेसरे दे लोके इस्नाएल गी खरीदी लेतामिस्र दी धरती थवां अपने घरमी लोके दे जरिये पबित्तर धरती गी कड्डी ओड़ना
संतुलन बनांदा ऐ, पत्थर, एफाह, ते हिन (२पतर २:१). प्रभू जी (निरपेक्षता दा) ऐ प्रभु गी (यहवा) जो तेरा हो गया
ईश्वर, जां प्रभु यीशु मसीह गी सादा ईश्वर.³³⁹

³³⁹संदर्भ देना प्रकासित 6:6 ऐ & प्रकासित 6:11 ऐ.

March 24, 2024

Purim

Daniel 9:27	Moedim	#	Duration	Jewish Calendar	2024 God's Calendar	Feast	Event	Bible Verse	Status
69 Weeks	Spring Feasts	1	14 Days	Nissan 14	End of the Day, April 22, 2024	Passover (Shabbat)	Jesus' Crucifixion	Leviticus 23:4-8	Fulfilled (at Christ's 1st coming)
		2	24 Hours	Nissan 15-22	April 23 – April 29, 2024	Unleavened bread (Chag Hamotzi)	Jesus' Burial (in the grave)	Leviticus 23:6	
		3	3 (2-6) Days	Nisan 17	Sunday of Unleavened Bread (April 24 or April 28, 2024)	First Fruits (Yom habikkurim)	Christ's Resurrection	Leviticus 23:10	
		4	50 Days (7days * 7wk) +1	Sivan 7	June 12 or June 16, 2024 (50 days after Firstfruits)	Pentecost (Feast of Weeks) (Shavu'ot)	The Holy Spirit is given	Leviticus 23:16	
Thefulness of the Gentiles									
1 Week (70th Week)	Fall Feasts	5	135 Days	Tishrei 1	October 3, 2024 (Rosh Hashanah)	Trumpets (Yom Teruah)	The feast of trumpets is observed over two days because the new moon can appear on either day that no one knows (Mat 24:36).	Leviticus 23:24	To be Fulfilled
		6	10 Days	Tishrei 10	October 12, 2024 (Begins at sundown)	The Day of Atonement (Yom Kippur) the holiest.	Leviticus 16; 23:26-32		
		7	5 Days	Tishrei 15-22	October 17-24, 2024	Tabernacles (or Booths) (Sukkot)	Leviticus 23:34		

73 Days

Dec 26, 2024 – Jan 2, 2025

Hanukkah

What will happen?	Moedim	#	Duration	Harvest	Expected time	Feast	Event	Bible Verse	Status
	Harvests	1	The Great Tribulation (3.5 years)	BARLEY	At the start of the Great Tribulation	Before The feast of Trumpets	Wise virgins (the 144,000) raptured before the Great Tribulation)	Rev 7:4-8	
		2		WHEAT				The coming of the Lord Jesus Christ	
3		GRAPES (The clusters of the vine)	Christ's appearing	Feast of Tabernacles	Other virgins (On the ground during a 1,000 years)	Rev 20:5-6			

प्रकाशितवाक्य 8:6) 7 तुरही कन्ने 7 सुर्गदूत बजाने दी तैयारी करदे न

प्रकाशितवाक्य 8:6ते सत्त सुर्गदूत जिंदे कोल सत्त तुरही बजाना हा।

☞ प्रकाशितवाक्य 8:6ते सत्त (7) स्वर्गदूत जिसदे सत्त (7) तुरही बजाना आवाज देने के लए अन्ने आन्न को तैमाय ककमा।

प्रकाशित 8:7 ऐ) 1st एंजेल ने तुरही बजाई (1/3 पेड़ & सारी हरी घास जली गई)

प्रकाशित 8:7 ऐपैहलै सुर्गदूत ने बजया, ते उदे पिच्छे ओले ते अग खून कन् ने घीली आया।
ते ओह धरती उप्पर (जमीन) उप्पर सुट्टी दिते गो।^{जि1093} ए
ते रुक्खें दा तिहाई हिस्सा जली गया, ते सारी हरियां घाह जली गेइयां।

☞ प्रकाशित 8:7 ऐपैहली (1 वी) परी आवाज दी: 1।
ते ओले ते अग खून कन्ने घुलदे होई ओले ते ओह जमीन उप्पर सुट्टी दिते गो।
ते इक तिहाई (1/3) बूहटे जली गे, ते सारी हरियां घाह जली गेइयां।

- ① पेहला (1 वी) परी बजया (तुरही):
ऐहनते अग साथ घुल मिल गया लहू जमीन पर फेंके गए।
→ इक तिहाई (1/3) बूहटे जली गे, ते कन्ने गै सारी हरियां घाह बी जली गेइयां।

प्रकाशितवाक्य 8:8-9) 2nd स्वर्गदूत ने तुरही बजाई (1/3 समुद्र, जीव, & जहाज नष्ट हो गए)

प्रकाशितवाक्य 8:8 दूए सुर्गदूत ने बजया ते अग कन्ने जले दा इक बड्डा पहाड़ समुंदरे च सुट्टी दित्ता।
ते समुंदर दा तिहाई हिस्सा खून बनी गोआ;
प्रकाशितवाक्य 8:9 ते जीवां दा तीसरा हिस्सा^{जि2938} ए जेड़े समुंदरे च हे, ते जिंदा हा, मरी गोआ;
ते जहाजें दा त्रीया हिस्सा नष्ट होई गोआ।

☞ प्रकाशितवाक्य 8:8 फिर दूजी (2 वी) परी आवाज दी: 1।
ते अग च जलदे इक बड्डे पहाड़े दे समान किश समुंदरे च सुट्टी दित्ता गोआ।
ते समुंदर दा इक तिहाई (1/3) हिस्सा खून बनी गोआ।
☞ प्रकाशितवाक्य 8:9 ते समुंदरे च इक तिहाई (1/3) जीव मरी गे, ते इक तिहाई (1/3) जहाज नष्ट होई गो।

- ② दुजा (2 वी) परी बजया (तुरही):
इक अग कन्ने जले दे बड्डे पहाड़ आंगर, समुंदरे च सुट्टी दित्ता गोआ।
→ समुंद्र दा इक तिहाई (1/3) हिस्सा खून बनी गोआ।
→ समुंदरे च जिंदे कोल जीवन हा, उंदे च इक तिहाई (1/3) प्राणी मरी गो।
→ इक तिहाई (1/3) जहाज नष्ट होई गो।

प्रकाशितवाक्य 8:10-11) 3वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई (वर्मवुड नदियों दे 1/3 हिस्से पर गिर गया)

प्रकाशितवाक्य 8:10 ते तीसरे सुर्गदूत ने बजया ते सुर्ग थवां इक बड्डा तारा डिग्गी गया, जेड़ा दीया दे समान जलांदा हा।^{जि2985} ए
ते नदियें दे तिहाई हिस्से ते पानी दे फव्वारे उप्पर पेई गोआ।
प्रकाशितवाक्य 8:11 ऐते तारे दा नां वर्मवुड ऐ।
ते पानी दा तिहाई हिस्सा कड़ी बनी गोआ;
ते मते सारे मनुख पानी कन्ने मरी गे, की के ओह कड़वा होई गो।

☞ प्रकाशितवाक्य 8:10 फिर तीसरा (3 वां) परी आवाज दी: 1।
ते सुर्ग थवां इक बड्डा तारा दीया दे समान जलदा पेया।
ते ओह इक तिहाई (1/3) नदियें उप् पर ते पानी दे झरने उप् पर पेई गया।
☞ प्रकाशितवाक्य 8:11 ऐओय तारे का नाभ शैवर्मवुड।
पानी दा इक तिहाई (1/3) हिस्सा कड़ी बनी गोआ, ऐ

ते पानी कड़वा होने के कारण मते सारे मनुख मरी गे.

③ **टीओह तीसरा(3 वां)परी** बजया (तुरही):

स्वर्ग दा इक बड़डा तारा, दीपक दी तर्ज पर जलदा, 1/3 नदियें ते पानी दे फव्वारे उप्पर डिग्गी गोआ

(टीओह तारे दा नाम हैवर्मवुड).

→ पानी दा इक तिहाई हिस्सा (1/3) कड़ी बनी गोआ, ते मते सारे माहू जेहड़े पानी हे, उंदे कन्ने गै मरी गे कड़वा बना दिया।

(प्रकाशितवाक्य 8:12-13) 4वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई (1/3 सूरज, चंद्रमा, & तारे न्हैरे हो गए)

प्रकाशितवाक्य 8:12ते चौथे सुर्गदूत ने बजया।

ते सूरज दा तिहाई हिस्सा ते चंद्रमा दा तिहाई हिस्सा ते तारे दा तिहाई हिस्सा मारी गया;

जिय्यां उंदे दा तिहाई हिस्सा न्हैरे होई गोआ, ते दिन दा इक तिहाई हिस्सा नेई चमकदा हा, ते रात बी उसै चाल्ली।

प्रकाशित 8:13 ऐते में इक सुर्गदूत गी सुर्ग दे बिच्च उड़दे सुनेया।

“हाय, हाय, हाय, बासने आलें (वासियें) गी”²⁷³⁰ धरती (जमीन) दा¹⁰⁹³ ऐ

त्रै सुर्गदूतें दी तुरही दी दूई आवाजें दे कारण, जेड़ी अजें बी बजने आली ऐ!”

☞ प्रकाशितवाक्य 8:12 फिर चौथा (4 वी)परी आवाज दी: 1।

ते सूरज दा इक तिहाई (1/3), चंद्रमा दा इक तिहाई (3वां) ते तारे दा इक तिहाई (3वां) वार होया।

तां जे उंदे च इक तिहाई (1/3) न्हैरे होई गे।

दिन दा इक तिहाई (1/3) दिन चमकदा नेई हा, ते उसी तरह रात बी।

☞ प्रकाशित 8:13 ऐते में इक सुर्गदूत गी सुर्ग दे बिच्च उड़दे सुनेया ते बड़ी आवाज च आखदा हा।

“हाय, हाय, हाय, जमीन पर निवास करने आलें गी,

त्रौ सुर्गदूतें दी तुरही दी दूई आवाजें दे कारण जेड़े बजने आले न!”

④ **टीओह अगें बधी गोआ(4 वी)परी** बजया (तुरही):

→ सूरज, चंद्रमा ते तारे दा इक तिहाई (1/3) हिस्सा न्हैरे होई गे।

→ इकदिन दा तीसरा (1/3)ना चमकी, ते रात भी उसी तरह।

➤ हाय, हाय, हाय(3 होर तुरही 3 सुर्गदूतें ने छड़डी दिते)

→ स्वर्ग दे बिच्च उड़दा इक कोण आखदा ऐ,

“हाय, हाय, हाय, धरती दे रौहे आलें गी, कीजे दूई आवाजें दे कारण

तुरही बजानात्रै (3) सुर्गदूतें दे जेहड़े बजने आले न (3 हाय)!”

अध्याय 9 दा

(प्रकाशितवाक्य ९:१-५) 5वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाया (The 1st owe)

प्रकाशितवाक्य ९:१ते पंजमें सुर्गदूत ने आवाज़ बजाई, तः में इक तारा सुर्ग थमा धरती (जमीन) उपपर डिगदा दिक्खेआ।^{¶1093}

ते उसी अथाह दी चाबी दित्ती गई^{¶12}खप्पा.^{¶5421}

प्रकाशितवाक्य ९:२ते उस ने अथाह खड्डा खोली लेया; ते गड्डे च इक धूआं निकली गया, जिय यां इक बड्डी भट्टी दे धुंए दे रूप चा ते गड्डे दे धूएं दे कारण सूरज ते हवा न्हरे होई गई।

प्रकाशितवाक्य ९:३ते धुंए च टिड्डियां धरती उपपर (जमीन) उपपर निकली आए।^{¶1093}

ते उंमंगी शक्ति (अधिकार) दित्ती गई ही।^{¶1849}

जिवें धरती (जमीन) दे बिच्छू^{¶1093}सत्ता (अधिकार) होनी चाहिदी।^{¶1849}

प्रकाशितवाक्य ९:४ते हुक्म दित्ता गया (कहया)^{¶4483}उन्हें कि

उंमंगी धरती (जमीन) दी घाहू गी चोट नेई पुजाना चाहिदा,^{¶1093}ना कोई हरी चीज,^{¶5515}ना कोई बूहटे;

पर सिर्फ उन मनुखें गी गै^{¶444}जिं दे उपपर (पर) परमात्मा दी मुहर नेई ऐ।^{¶1909}उं दे मत्थे.

प्रकाशितवाक्य ९:५ते उंमंगी एह दित्ता गया के ओह उंमंगी नेई मारन, लेकन उंमंगी पंज (5) महीने तडपाया जा।

ते उं दी तडप बिच्छू दे तडप दे समान ही, जदू ओह मनुख गी मारदा ऐ।^{¶444}

☞ प्रकाशितवाक्य ९:१फिर पंचमी (5वीं)परी आवाज़ दी: 1।

ते में इक तारा सुर्ग थवां जमीन उपपर डिगे दा दिखया। उसी अथाह गड्डे दी चाबी दित्ती गई।

➤ 3 परेशानियां दा 1 वी

⑤ **टीउसने पंजवां(5वीं)परी** बजया (तुरही):

→ इक तारा आसमान थमा जमीन उपपर डिगी गेआ।

→ स्वर्ग तों डिगे दे तारे नू अथाह गड्डे दी चाबी मिली।

☞ प्रकाशितवाक्य ९:२उन उस अथाह गड्डे गी खोली लेया, ते उस खड्डे च इक बड्डी भट्टी दे धुंए दे समान धुंआ निकली आया।

इस करिए गड्डे दे धूएं दे कारण सूरज ते हवा काला होई गेआ।

☞ प्रकाशितवाक्य ९:३फिरी धुंए च टिड्डियां जमीन उपपर आई गेइयां।

ते उंन्हें गी अधिकार दित्ता गेदा हा, जिय्यां जमीन दे बिच्छूएं गी अधिकार ऐ।

☞ प्रकाशितवाक्य ९:४उंमंगी हुक्म दित्ता गेदा हा जे ओह जमीने दे घाहू गी, जां कुसै बी हरी चीजै गी, ते कुसै बी बूहटे गी चोट नेई पजाना।

पर सिर्फ उन मनुखें गी गै जिं दे उपपर मुहर नेई ऐ^{ईश्वर}उनके मत्थे पर.

☞ प्रकाशितवाक्य ९:५ते उंमंगी मारने दा अधिकार नेई दित्ता गेआ, बल्के उंमंगी पंजें (5.)महीने.

उं दी तडप उं दे समान ही जि'यां बिच्छू मनुख गी मारदा ऐ।

→ जदुं अथाह गड्डा खुली गया ते उस गड्डे च इक बड्डी भट्टी दे धुंए दे समान धुंआ निकली गेआ।

ते गड्डे दे धूएं दे कारण सूरज ते हवा न्हरे होई गई।

- फिरी जमीन उपपर धूएं च टिड्डियां निकलियां, ते उंमंगी अधिकार दित्ता गेआ, जिय्यां जमीन उपपर बिच्छूएं गी अधिकार ऐ। टिड्डियें गी आखेआ जंदा हा जे ओह जमीने दी घाहू गी, जां कुसै बी हरे-भरे, जां कुसै बी बूहटे गी नुकसान नेई पजाओ, पर सिर्फ उं नें माहूएं गी चोट नेई पुजान^{¶444} जिं दे कोल मुहर नेई ऐ^{ईश्वर}उनके मत्थे पर।

- दूजे शबदां च, टिड्डियें गी उंमंगी लोकें गी चोट पजाने दा अधिकार दित्ता गेआ हा जेह्दे उं दे सुसमाचार उपपर विश्वास नेई करदे हे

उं दे सुने दे बाद उध्दार^{सच्चाई दे लोगो}. कीजे उंमंगी विश्वास नेई हा, इस आस् ते उं दे उप पर मुहर नेई लगी ही

पवित्र आत्मा गीवादे दा(इफिसियों 1:13 ऐ).

(प्रकाशितवाक्य ९:६) मौत मनुखें कोला फरार होंदी ऐ

प्रकाशितवाक्य ९:६ते उंमंगी उंमंगी मनुख होंगन^{¶444} मौत दी तलाश करो, ते नेई पाग;

ते मरने दी इच्छा रखग, ते मौत उं दे कोला भागी जाग।

☞ प्रकाशितवाक्य ९:६तेमैं उन दिनें (पहले बकाया दे दौरान), मनुख मौत गी दूहनगे पर नेई पाग।

मरने दी इच्छा होंगन, पर मौत उंदे कोला भागी जाग।

→ एह 2मीं रेप्चर फसल कोला पैह्ले होगा³⁴⁰

(प्रकाशितवाक्य ९:७-१०) टिड्डियां दी उपमा (5 महीने तक मनुखें गी चोट पजाना)

प्रकाशित 9:7 एते आकृतियां (उपमा)³⁶⁶⁷ टिड्डियां दा²⁰⁰ युद्ध (युद्ध) आस्ते तैयार घोड़े दे समान हे);⁴¹⁷¹ र

ते उंदे सिंरें उप्पर सोने दे मुकुट आंगर हे, ते उंदे चेहरे मनुखें दे चेहरे आंगर हे।⁴⁴⁴ र

प्रकाशितवाक्य ९:८ ते उंदे बाल जनानियें दे बालें दे समान हे, ते उंदे दांत शेरें दे दांते दे समान हे।

प्रकाशितवाक्य ९:९ ते उंदे कोल लोहे दी छाती दे समान छाती ही;

ते उंदे पंखें दी आवाज रथें दी आवाज दे समान ही⁷¹⁶ कई घोड़े दःलड़ाई (युद्ध) च दौड़ना।⁴¹⁷¹ र

प्रकाशितवाक्य ९:१० ते उंदे पूंछ बिच्छू दे समान हे, ते उंदे पूंछ च डंगर हे।

ते उंदी शक्ति (अधिकार)¹⁸⁴⁹ मर्दे गी चोट पजाना हा⁴⁴⁴ र पंज महीने.

- ☞ प्रकाशित 9:7 एते उपमा दी **टिड्डियां दी** युद्ध आस्ते तैयार घोड़े दे समान हा।
उंदे सिंरें उप्पर सोने दे समान किश मुकुट हे, ते उंदे चेहरे मनुखें दे चेहरे दे समान हे।
- ☞ प्रकाशितवाक्य ९:८ ते उंदे बाल जनानियें दे बालें दे समान हे, ते उंदे दांत शेरें दे दांते दे समान हे।
- ☞ प्रकाशितवाक्य ९:९ ते उंदे च लोहे दी छाती आली छाती ही।
ते उंदे पंखें दी आवाज रथें दी आवाज दे समान ही जिंदे च मते सारे घोड़े युद्ध च दौड़दे हे।
- ☞ प्रकाशितवाक्य ९:१० ते उंदी पूंछ बिच्छू दे समान ही, ते उंदे पूंछ च डंगर हे।
उन्दा अधिकार मर्दे गी पंज **(5) महीने**.

- टिड्डियें गी मारने दा अधिकार नेई दित्ता गेआ, पर पंज **(5) महीने**।⁴⁴⁴ र

(प्रकाशितवाक्य ९:११) अथाह गड्डे दे दूत दा राजा (अपोलियोन)

प्रकाशितवाक्य ९:११ ते उंदे उप्पर इक राजा हा, जेड़ा अथाह गड्डे दा सुर्गदूत ऐ।

जिसदा इब्रानी भाषा च नां अबादोन (मतलब “विनाश”) ऐ,³

पर ग्रीक भाषा च उंदा नां अपोलियोन (मतलब “विनाशक”) ऐ।⁶²³ र

- ☞ प्रकाशितवाक्य ९:११ ते उंदे उप्पर अथाह गड्डे दा सुर्गदूत उंदे उप्पर राजा हा।
जिसदा नां इब्रानी च अबादोन (मतलब “विनाश”) ऐ,
पर ग्रीक च उंदा नां ऐ **अपोलियोन ने दी** (मतलब “विनाशक”)।
→ अथाह गड्डे दे सुर्गदूत दे राजा दा नां: अबादोन (इब्रानी च) & अपोलियोन (ग्रीक च)।

➤ **अपोलियोन ने दी**⁶²³ र (अथाह गड्डे दा राजा जो सुर्गदूत है)

- ऐ अथाह गड्डे दे राजा दा सुर्गदूत अपोलियोन (स्ट्रॉन्ग दा **जी 623 ऐ**, अपोल्लियोन), ऐ⁶²³ र मतलब “विनाशक” ऐ।

→ इस अपोलियोन, मजबूत दा **जी 623 ऐ**, अपोल्लियोन, एपोलीमी (स्ट्रॉन्ग दा इक सक्रिय कर्मधारय ऐ **जी 622 ऐ**, ऐ **ἀπόλλυμι ऐ**), ऐ
जिसदा मतलब ऐ “नाश करना जां नाश करना।”

→ दो ए **अपोलियोन ने दी तेनाश हो जाना** उसी ग्रीक मूल शब्द, अपोलीमी (नष्ट करना, मजबूत दा, साझा करदा ऐ **जी 622 ऐ**)।

- नाश दा मतलब

→ **तबाही** (मजबूत दा **जी 684**, ἀπώλεια, arōleia) दे इक अनुमानित व्युत्पन्न थमां ऐ **ἀπόλλυμι ऐ**
(मजबूत दा **जी 622 ऐ**, अपोलीमी), जिसदा मतलब ऐ “नाश करना जां नष्ट करना।”

→ परमेसरे अपने गुस्से गी दस्सन ते गुस्से दे बर्तनें गी ढालने कन् ने अपनी ताकत दा पता लाना ऐ, जेका ह्योग
पूरी तरह कन्ने रेंडर कीता गेदा ऐ **तबाही** (रोम ९:२२).⁶⁸⁴

रोम ९:२२ क्या होंदा अगर ईश्वर, ऐ²³¹⁶ र अपने गुस्से गी दस्सन गी तैयार, ऐ³⁷⁰⁹

³⁴⁰ [3] दानियेल दे 70 हफ्ते” दा संदर्भ लैओ।

ते अपनी शक्ति (शक्ति) बनाने लेई^{#1415} पनछान्, गुस्से दे बर्तन गी बड़ी धीरज कन्ने सहन कीता^{#3709} फिट (परफेक्ट) कीता^{#2675} गीतवाही: 1^{#684}

- ऐतबाहीबनामामुक्ति

- मेमने दे गुस्से दा इक बड्ड़ा दिन उसले औंदा ऐ जिसले 6मीं मुहर खुल्ली जंदी ऐ (प्रकाशितवाक्य 6:12-17 ऐ).
- परमातमा दा गुस्सा 7वीं तुरही बजने दे बाद धरती उप्पर उडेल जांगन (7 शीशी, प्रकाशितवाक्य 16 ऐ).
- ऐगैर-यहूदी जाति दे पवित्र संत हॉगन एप्पर कर दिता 3 वी घड़ी (2.) ते एन्धे एप्पर करना, ऐ प्रकासित 11:14 ऐ).

→ इस आस्ते ते तुसेंगी अपने विरोधिये थवां घबराई नेई जाना चाईदा कीजे एह परमेसरे दी निशानी होग

तुंदे आस्ते मुक् ति, पर उंदे (तुंछे) आस्ते नाश होने दे इक प्रगट सबूत दा निशान ऐ।

फिलिपिन्स 1:28 ऐते तुंदे विरोधिये कोला किश बी नेई डरदे।

जो उंदे आस्ते इक प्रगट टोकन (सबूत) ऐ^{#1732} नाश होने दा,^{#684}

लेकन तुहाडे कोल मोक्ष दे, ते कि दा ईधर.

→ दूजे शबदां च, “विनाश” दा विलोम शब्द ऐ मुक्ति.

नाश दा पुत्र

- दे मुताबिक प्रकासित 17:11 ऐ, “विनाश या विनाश” च जाने आला जानवर ऐ 2nd जानवर दा जिस दा पुत्र बी पुत्र होग नाश हो जाना.³⁴¹

प्रकासित 17:11 ऐते जेड़ा जानवर हा, ते जेड़ा नेई ऐ, ओह बी अठमां ऐ।

ते सत्ते च ऐ ते अंदर चली जंदा ऐ नाश हो जाना.

पाप दा आदमी

- नाश दा पुत्र 2nd जानवर दा (जो दा है अपोलियन) होंगे झूठे नबी दा (प्रकाशितवाक्य 19:20) जो जमीन वासी नू मसीह विरोधी (जहन्ना 17:12 ऐ).
- वर्तमान (1st) आकाश ते धरती न्याय दे दिन ते... नाश हो जाना^{#684} अभक्त मनुखें दा (बहुवचन, २पतरस ३:७), ऐ^{#444} जिस च मसीह विरोधी ते झूठे नबी बी शामिल ना।

२पतरस ३:७ लेकन आकाश ते धरती, जेड़े हुन न, ओही वचन दे द्वारा भंडार च रखे गेदे ना।

न्याय दे दिन दे खिलाफ अग आस्ते आरक्षित ते... नाश हो जाना^{#684} अभक्त मनुखें दा।^{#444}

→ मसीह विरोधी (पाप दा आदमी) ते झूठा नबी (विनाश दा पुत्र) दोनों,

जो शैतान दे हन (१योहन् ना ३:८) दे आने तों पहलां प्रगट हो जावेगा प्रभु यीशू गी

मसीह (2 वी रैप्पर फसल) ते मसीह दा दिन (3 वी फसल दा) (२थिस २:१-३ च).

२थिस २:१ ए प्राओ, अस तुंदे आने कन्ने विनती करने आं प्रभु यीशू मसीह, ऐ

ते साड़े उदे कोल इकट्टे होने कन्ने।

२थिस २:२ कि तुस्सी जल्दी ना हिल जाओ, ते ना गै आत्मा दे कन्ने घबराई जाओ।

ना ही शब्द (लोगो) दे द्वारा, ना ही पत्र (पत्र) दे द्वारा^{#1992} नै [#]जिवें साडे कोलों, ऐ

जिवें कि मसीह दा दिन हत्थे च ऐ.

२थिस २:३ कोई तुसें गी कुसै बी चाल्ली धोखा नेई दे।

की वे ओह दिन नेई औगा।

सिवाय इसदे के पहले इक गिरने आला (धर्मत्याग),^{#646}

ते ओह आदमी (एकवचन)^{#444} पाप दा^{#266} प्रगट हो, नाश दे पुत्र,^{#684}

→ परमातमा दा पुत्र प्रकट हो गया टीओ शैतान दे कर्मों गी नष्ट करना कीजे पाप शैतान दा ऐ।

१योहन् ना ३:८ पाप करने आला शैतान दा ऐ; की वे शैतान शुरू थवां गै पाप करदा ऐ।

इस उदे लेई परमातमा दा पुत्र प्रकट हो गया, ऐ

³⁴¹“(प्रकाशितवाक्य 17:7-8) जनानी दा रहस्य (2nd जानवर - जो था, नहीं है, और आने वाला है).”

(प्रकाशितवाक्य ९:१२) 1 वी हाय दा अंत

प्रकाशितवाक्य ९:१२ इक हाय बीती गई; ते दिखो, इसदे बाद दो विपत्तियां होर औदियां न

☞ प्रकाशितवाक्य ९:१२ इक (1) हाय बीती गई। दिक् खो, इनें गल् लें दे बा'द अजें बी दो (2) विपत्तियां औदियां न।

(प्रकाशितवाक्य ९:१३-१६) 6वें सुर्गदूत ने तुरही बजाई (2 दा कर्जा: महान नदी यूफ्रेटिस दे 4 सुर्गदूत ढीले हो गए)

प्रकाशितवाक्य ९:१३ छठे सुर्गदूत ने बजया, ते में सोने दी वेदी दे चार सींगों कोला इक आवाज सुनी ईश्वर, ऐ

प्रकाशितवाक्य ९:१४ छठे सुर्गदूत गी आख्या, जिसदे कोल तुरही हा।

उन चार सुर्गदूतों गी ढीला करो जेड़े बड्डी फरात नदी च बन्नी गेदे न।

प्रकाशितवाक्य ९:१५ ते चार सुर्गदूत छड़े गे, जेड़े इक घंटे, इक दिन, इक महीने ते इक साल लेई तैयार हो

कीजे मनुखें दे तिहाई हिस्से गी मारी ओड़ना ऐ।^{अ०444}

प्रकाशित 9:16 ऐते घोड़े दी फौज दी गिनतरी दो लख हजार ही।

ते में उंदी गिनतरी सुनी।

☞ प्रकाशितवाक्य ९:१३ फिर छठे (6वीं दी) परी आवाज दी: 1।

ते में इक आवाज सुनी के चार (4) सींगों थमां सोने दी वेदी जो नशरे की शै ईश्वर, ऐ

☞ प्रकाशितवाक्य ९:१४ छठे को कहते हुए (6वीं दी) परी जिसदे कोल तुरही ही, ऐ

“चारों ढीले कर दे (४) स्वर्गदूत जो फडी फरात नदी च बन्नी गेदे न.”

☞ प्रकाशितवाक्य ९:१५ तो चार (4) सुर्गदूत, जिन्हें गी तैयार कीता गेदा हा घड़ी दी ते दिन ते महीना ते ब'रा, ऐ

इक तिहाई (3 वा) आहला पुरुष.

☞ प्रकाशित 9:16 ऐते घुड़सवारों दी फौज दी गिनतरी ही

दो सौ (दो बार, जांदो) ^{अ०1417} १० हजार (दस जहार) ^{अ०3461} १० हजार (दस जहार): ^{अ०3461}

ते में उंदी गिनतरी सुनी।

→ घुड़सवारों दी फौज दी गिनतरी दो करोड़ ही

(दो बारी ^{अ०1417} १० हजार दी ^{अ०3461} १० ते 10 हजार दी ^{अ०3461} १० (२ * १०,००० * १०,००० = 200,000,000 दी)) ऐ

तुरही कन्ने 6वें सुर्गदूत दी आवाज पर दर्शन च दिक्खे जंदे न (दिखो प्रकाशितवाक्य ९:१३).

(3 फेशानियां विचों 2 वी)

⑥ टी उसने छठे स्थान पर (6वीं दी) परी बजया (तुरही):

- के चार (4) सींगों से एक आवाज सोने दी वेदी पैहलें ईश्वर सुनी जांदी ऐ कदूं ओह छटा (6वीं दी) परी आवाज दी।

• तुरही बजाने आले छठे (6वें) सुर्गदूत गी आखदे होई।

“उन्हें चार (4) सुर्गदूतों गी ढीला करो जेड़े महान फरात नदी च बन्नी गेदे न,” तां

• चारों ने (४) स्वर्गदूत, जिन्हां गी घड़ी, दिन, महीने ते साल दी तैयारी कीती गई ही।

इक तिहाई (1/3) मनुखें गी मारने आस्तै ढीले कीते गो।^{अ०444}

• घुड़सवारों दी फौज दी गिनतरी = 200,000,000 (या 2 एकस (10,000 x 10,000))।

- ऐनंबर 1,000, 10,000, & 10 हजार दी

→ मिट्टी दे मनुख दी गिनतरी गी इकाइयें च दस्सेआ जंदा ऐ 1,000 दी.³⁴²

- इस धरती दे राज च धरती दे यरूशलेम दे मनुख दी गिनतरी;
1,000 x 1,000 (2Ch 14:9 ऐ), या 1,000,000 दा।

(2Ch 14:9 ऐते इथियोपियाई जेराह उंदे उपपर इक सेना कन्ने निकली आया

इक हजार (1,000)^{एव 505 ऐ} हजार (1,000) दा, ^{एव 505 ऐ} ते त्रे ^{एव 7969 ऐ} सौ ^{एव 3967 ऐ} (300) ऐ।
रथें, ^{एव 4818 ऐ} ते मारेशा च आया।

→ सुर्गीय मनुख दी गिनती जो सुअर्गे च सुर्गीय यरूशलेम दा ऐ, इकाइयें च दर्शाया गेदा ऐ
आहला 10 हजार दी.³⁴³

(१सा 18:7 ऐते जनानियें खेडदे-खेलदे इक-दुए गी जवाब दिता, ते आखया।

शाऊल ने अपने हजारां (1,000) लोकें गी मारी ओडेया, ऐ ^{एव 505 ऐ} ते दाऊद उंदे दस हजार (10,000)।^{एव 7233 ऐ}

- स्वर्गीय मनुख दी संख्या जो स्वर्ग विच परमात्मा दे कोने दे समान है (मत्ती 22:30 ते), ऐ
10,000 X 10,000 (१सा 18:7 ऐ), जां 100,000,000 दे दी.³⁴⁴

(मत्ती 22:30 तेकीहके जिंदा होने च ओह ना ब्याह करदे न ते ना गै ब्याह करदे ना
लेकन सुर्ग च परमात्मा दे सुर्गदूतें दे समान ना।)

→ 4 स्वर्गदूतें दी अगुवाई च घुड़सवारों दी फौज दी गिनतरी, थमां तैयार कीती गेईसोने दी वेदीपेहलें
ईश्वर (या परमात्मा दे राज दे पवित्रतम पवित्र स्थान दे सामने)।³⁴⁵ दी संख्या दे दो गुणा व्यक्त कीता जंदा ऐ
स्वर्ग च स्वर्गदूत ते परमात्मा दे रथ (2 x 100,000,000)।, जां 200,000,000 दी.³⁴⁶

- ऐइक डबल हिस्सा

राजा २:१ जदु ओह उस पार चली गे, तां एलिय्याह ने एलीशा गी ग् लाया।

तेरे कोला दूर होई जाने कोला पैहे में तेरे आस्तै केहू करां, पुच्छो। एलीशा ने आख्या, “ मेहरबानी करना!
दोगुना (दो) दे ^{एव 8147 ऐ} हिस्सा (मंह, शब्द, तलवार दा धार) ^{एव 6310 ऐ} तेरी आत्मा दा हो
मेरे उपपर।

राजा २:१० ते उन आख्या, “ तू इक कठिन गल्ल मंगी ऐ ^{एव 7185 ऐ} फही बी,

जेकर तू मिंगी दिखदे ओ, जदु मैं तेरे थवां कडुडी गेदा ऐं;
तेरे कन्ने बी इय्यां गै होग; लेकन जेकर नेई तां ऐसा नेई होग।

राजा २:११ ते जदु ओह अज् ज बी गल् लां करदे हन, तां .

दिखो, इक रथ प्रकट होया ^{एव 7393 ऐ} आग दा, ऐ
ते अग दे घोड़े, ते उन्हें दोने गी विभाजित करी दिता;
ते एलिय्याह चली गेया ^{एव 5927 ऐ} बवंडर दे द्वारा स्वर्ग च.

→ एलीशा ने एलिय्याह गी दोगुना हिस्सा मंगेआ, जेहड़ा दोधारी तलवार ऐ, जां...रेमा दा

आहलाईश्वर.³⁴⁷ एलिय्याह ने परमेसरे दे रेमा गी उस बेल्लै थमां गै कठिन गल् लें दे रूप च वर्णन कित्ता प्रभु गी, ऐपरमात्मा दा आहला
सारे मांस, जो लोगो दे जरिए अद्भुत कम्म करदा ऐ, ओहू सिर्फ चीजें गी बदली सकदा ऐ
रेमा दा.³⁴⁸

³⁴²“[प्रकासित 7:4-8 ऐ] 144,000 (पृथ्वी उपपर परमात्मा दी इक कौम, इस्राएल, ज्ञानी कुंवारी) ने मुहर लाया.”

³⁴³वही।

³⁴⁴संदर्भ देना प्रकासित 5:11 ऐ.

³⁴⁵“[चित्र 13-k] धरती उपपर पुराने तम्बू (हल्यें कन्ने बने दा पुराना यरूशलेम) दा संदर्भ लैओ।”

³⁴⁶वही।

³⁴⁷“[चित्र 2-d],” या वीडियो 20. “(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवार) दा संदर्भ लैओ।”

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

³⁴⁸“[चित्र 2-g],” या वीडियो 31. “परमेसर (सिर दे बाल) दे वास्ते इक नासरी।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-एक-नजरी-देव-दे-सिर-के-बाल/.

जेर २:२७ ऐदिखो, मैं प्रभु, सारे शरीर दा परमात्मा आं

क्या कोई चीज (शब्द, रेमा) ऐ¹⁶⁹⁷ बहुत मेहनत (अद्भुत काम)⁶³⁸¹ मेरे लेई ?

- पर एलीशा ने सादी शक्ति ते औने दा अक्खीं च गवाह बनी गेआ **प्रभु यीशु मसीह** एलिय्याह दे जरिए

जदुं एलिय्याह गी उदे थवां कड्डी लेता गया, तां उसी गवाही दिती गेई **लोगो दामें बदलते हुए रेमा दा**.

दोहरी हिस्सा परमात्मा दे राज (लुका 14:15 ऐ) तां इसदा कब्जा लांदा ऐ

शाश्वत आनन्द (यशायाह 61:7 च).

यशायाह 61:6 चपरयेनाम रखेगा यहोवा दे याजक: 1।

मनुख तुहानू बुला देंगे साडे परमात्मा दे सेवक: 1।

तुस गैर-यहूदियां दी धन-दौलत खाओगे।

ते उंदी महिमा च तुस अपने आप गी घमंड करोगे।

यशायाह 61:7 चतुंदी शर्म दे कारण तुंदे कोल दोगुना होगे;⁴⁹³²

ते उलझन दे कारण ओह अपने हिस्से च खुश होंगन।²⁵⁰⁶

इस करिए उंदी धरती (पृथ्वी) च⁷⁷⁶ उंदे कोल दोगुना होगा।⁴⁹³²

सनातन होने आलाउन्दे लेई खुशी होगे।

→ इस आस् ते ओह हुक् म जेका पैहलें सोने दी वेदी थवां निकलदा ऐई **श्वर अपने च**

राज, स्वर्ग दे राज्य दे दो गुणा (या दोगुना) दे रूप च व्यक्त कीता गेदा ऐ।

- घुड़सवारों दी फौज दी गिनतरी परमेसरे दे राज दे सामने तैयार किता गेदा ऐ, जेका सुअमें दे राज कोला दो (दोगुना) गुणा ऐ (2 x 100,000,000) जां **200,000,000 दी**.

→ इस तहाँ नंबरां, **1,000 दी, 10,000 ऐ, & 10 हजार दी**, दे जरिए कम्म करने आहू ली चीजें गी व्यक्त करने आस्तै इस्तेमाल कीते जंदे न

अलग-अलग राज्य, जो हैं **दा राजधरत (१,०००) दा**, ऐ **दा राजसरा (१०,०००) दा**, ते

परमात्मा दा राज (2 x 10,000) ऐ, क्रमशः।

(प्रकाशितवाक्य ९:१७-१९) 1/3 आदमी अग, धुए, & गंधक कन्ने मारे जंदे न

प्रकाशितवाक्य ९:१७ इस चाल्ली मैं दर्शन च घोड़े ते उंदे उपपर बैठे दे लोके गी दिक्खेआ।

जिसदे छाती च अग, ते जसिंथ, ते

गंधक दा: ते घोड़े दे सिर शेरें दे सिरें दे समान हे;

ते उंदे मुंह च निकली गे¹⁶⁰⁷ अग ते धुआं ते गंधक.

प्रकाशितवाक्य ९:१८ इनें त्रैनें कन्ने मनुक्खें दा त्रीया (1/3) हिस्सा हा⁴⁴⁴ मारे गए,

अग ते धुए ते गंधक दे द्वारा, जेड़े उंदे मुंह थमां निकलदे हे।

प्रकाशित 9:19 ऐ अपनी शक्ति (अधिकार) दे वास्ते¹⁸⁴⁹ उंदे मुंह च ते उंदे पूंछ च ऐ।

कीजे उंदी पूंछ नागें दे समान ही, ते उंदे सिर हे, ते उंदे कन्ने ओह चोट करदे ना⁹¹

☞ **प्रकाशितवाक्य ९:१७** ते मैं दर्शन च घोड़े गी इस चाल्ली दिक्खेआ।

जेड़े उंदे उपपर बैठे दे हे, उंदे कोल अग, जसीन ते गंधक दे छाती हे;

ते घोड़े दे सिर शेरें दे सिरें दे समान हे;

ते उंदे मुंह च अग, धुआं ते गंधक निकले।

☞ **प्रकाशितवाक्य ९:१८** इनें त्रै (3) विपतियें कन्ने इक तिहाई (1/3) मनुक्खें गी मारी दिता गेआ,

उंदे मुंह च निकलने आली अग ते धुए ते गंधक दे द्वारा.

☞ **प्रकाशित 9:19** ऐ कीजे उंदा अधिकार उंदे मुंह ते उंदे पूंछ च ऐ; कीजे उंदी पूंछ नागें दे समान न, जिंदे सिर होंदे न;

ते उंदे कन्ने दुख बी करदे ना।

(प्रकाशितवाक्य ९:२०-२१) बाकी मनुक्खें ने अपने हल्यें दे कम्में दा पछतावा नेई कीता

प्रकाशितवाक्य ९:२०ते बाकी मनुख⁴⁴⁴ जो इन्हां महामारी ने नहीं मारे⁴¹²⁷।

फिरी बी अपने हत्थें दे कम्मों दा पछतावा नेई किता, तां जे ओह शैतानें दी पूजा नेई करना

ते सोने, चांदी, पीतल, ते पत्थर ते लकड़ी दियां मूर्तियां न;

प्रकाशितवाक्य ९:२१ना उनेंगी अपने कत्ल ते ना गै अपने जादू टोने ते ना गै अपने व्यभिचार ते ना गै अपनी चोरी दा पछतावा किता।

☞ प्रकाशितवाक्य ९:२०बाकी मनुख जेके इन्हें विपत्तियें कन्ने नेई मारे गे हे, ते अपने हत्थें दे कम्मों दा पछतावा नेई किता।

तां जे ओह भूत-प्रेत ते सोने, चांदी, पीतल, पत्थर ते लकड़ी दी मूर्तियें दी पूजा नेई करना।

जो ना देख सकदा है ना सुन सकदा है ना चल सकदा है।

☞ प्रकाशितवाक्य ९:२१ते उने अपनी हत्याएं ते अपने जादू टोने ते अपने व्यभिचार ते अपनी चोरी दा पछतावा नेई किता।

→ कीजे जेके थियातीरा च कलीसिया थवां पछतावा नेई करी सकदे हे, उनेंगी कलीसिया च सुट्टी दिता गया**बड़ी कष्ट**।

दौरान प्लेग होने दे बावजूद**बड़ी कष्ट दा**, हालांकि, ओह पछतावा करने थमां इन्कार करदी रेई

इस आस् ते उदी व्यभिचार दा न् याय उंदे कम् में दे मताबक गै किता जागा³⁴⁹

³⁴⁹“(प्रकाशितवाक्य 2:18-29 ऐ) (4) थियातीरा च कलीसिया दे सुर्गदूत गी.”

अध्याय 10 दा

(प्रकाशितवाक्य १०:१-२) इक छोटी जेही किताब (समुद्र उप्पर ताकतवर परी दा दाहिना पैर & जमीन उप्पर बाएं पैर)

प्रकाशित 10:1 ऐते मैं इक होर पराक्रमी सुर्गदूत गी बादल दे कपड़े पाईये सुर्ग थमां उतरदे दिक्खेआ।

ते इक इंद्रधनुष^{१२४६} पर था^{११९०९} उसदा सिर,
ते उदा मुंह सूरज दे समान ते पैर अग दे खंभे दे समान हो।

प्रकाशितवाक्य 10:2 ते उंदे हलथे च इक छोटी जेही किताब ही^{११९७४} खु'ल्ला:

ते अपना सज्जा पैर समुंदरे उप्पर, ते बाएं पैर धरती उप्पर रखेया।^{११०९३}

☞ **प्रकाशित 10:1** ऐते मैं (यूहन्ना) इक होर शक्तिशाली सुर्गदूत गी बादल दे कपड़े पाईये सुर्ग थमां उतरदे दिक्खेआ।
उदे सिर उप्पर इंद्रधनुष हा, उदा मुंह सूरज दे समान ते पैर अग दे खंभे दे समान हो।

☞ **प्रकाशितवाक्य 10:2** औय उवके नास था **इक छोटी जेही किताब** उसके हलथे मैं खुला।
ते उने अपना सज्जा पैर समुंदरे उप्पर ते बाएं पैर जमीन उप्पर रखेया।

→ इक शक्तिशाली स्वर्गदूत, जिसदा सज्जा पैर समुंदरे उप्पर ते बाएं पैर जमीन उप्पर बैठे दा हा।
आयोजत **इक छोटी जेही किताब** उंदे हलथ च।

(प्रकाशित 10:3-4 ऐ) 7 गरजों द्वारा बोली गई बातों पर मूहर लगा दी

प्रकाशित 10:3 ऐते जोर कन्ने चिल्लाया, जिय्यां शेर गर्जदा ऐ।

ते जदुं ओह पुकारेया, तां सत्त गरजने आस् ते बोले।^{११२९८०} उंदी आवाजें।

प्रकाशित 10:4 ऐते जदुं सत्त गरजने आले (बोले) ^{११२९८०} उंदी आवाजें, मैं (जरूरी) दे बारे च हा।^{११३१९५} लिखने के लिये:

ते मैं सुर्ग थवां इक अवाज सुनेया, जेड़ा मिगी आखदा हा।

सील कर दे ^{११४९७२} जेड़ी गल्लां सत्त गरजें बोलियां (बोलीयां), ^{११२९८०} ते उनेंगी नेई लिखो।

☞ **प्रकाशित 10:3** ऐते बड़ी आवाज च चिल्लाया, जिय्यां शेर गर्जदा ऐ।

जदुं ओह चिल्लाया तां सत्त (7) गरजने ने अपनी आवाज बुलंद कीती।

☞ **प्रकाशित 10:4** ऐते जदुं सत्त (7) गरजने आले, तां मैं लिखने आला हा;

लेकन मैं सुर्ग थवां इक आवाज सुनी, जेड़ी मिगी आखदी ही।

“सील कर देउन चीजें जो ओहसात (7) गरजने ने बोल दिया ते इन्हें ना लिखना.”

➤ यूहन्ना 7 गरजने आली गल्लां लिखने च समर्थ की नेई होई सकेआ?

- समुंदरे ते जमीन उप्पर खड़ोने आला पराक्रमी कोने ने **“छोटी जेही किताब”** कि गल्लां बोलियां ना”

छठे (6वें) सुर्गदूत ने तुरही बजाने दे बाद 7 गरजे (**प्रकाशित 10:8 ऐ**). पर **“छोटी जेही किताब”** उनें लोकें लेई होग जेहड़े 1000 सालें तगर जमीने उप्पर गै छड़े दे रौहगना³⁵⁰

(प्रकाशित 10:5-6 ऐ) सुर्गदूत ने परमातमा (आकाश, धरती, ते समुंदर दा सृष्टिकर्ता) दी कसम खादी)

प्रकाशित 10:5 ऐते जिस सुर्गदूत गी मैं समुंदरे उप्पर ते धरती उप्पर खड़ोते दा दिक्खेआ।^{१११०९३}

उठायो (अपने) ^{१११४२} उसदा हलथ स्वर्ग च, ऐ

प्रकाशित 10:6 ऐते जेड़ा सदा-सदा जिंदा ऐ, जिसने सृष्टि कित्ता, उदे कन्ने कसम खादी ^{११२९३६}

सुरग, ते उदे च जेकी चीजां न;

ते धरती (जमीन) ^{१११०९३} ते उदे च जेड़ी चीजां न,

ते समुंद्र ते उस च जेड़ी चीजां न,

कि होवे (होना चाहिदा) ^{११२०७१} समा ^{११५५५०} हुण नेई:

☞ **प्रकाशित 10:5** ऐते जिस सुर्गदूत गी मैं (यूहन्ना) समुंदरे उप्पर ते जमीन उप्पर खड़ोते दे दिक्खेआ हा, उने अपने हलथ सुर्ग उप्पर चुक्की लेता

☞ **प्रकाशित 10:6** ऐते उसदी कसम खादी (**ईश्वर**) जो सदा सदा जींदा ऐ, ऐ

³⁵⁰“**प्रकाशित 10:8-11 ऐ** छोटी किताब (Receive & devour to prophesy again).”

निष्कर्ष 6:3 एते में प्रकट होया (देखो) ^{पृ 7200} अब्राहम, इसहाक ते याकूब गी।
परमातमा दे नाम नाल ('एल्') ^{पृ 410} सर्वशक्तिमान (**šadva**), ^{पृ 7706} ऐ
लेकन मेरे नां यहोवा (**प्रभु गी, ऐयहोवा**) ^{पृ 3068} था मैं उंदे कोला नेई जानवा हा।

(प्रकासित 10:8-11 ऐ) छोटी किताब (Receive & devour to prophesy again)

प्रकासित 10:8 एते जेड़ी आवाज में सुर्ग थवां सुनी ही, ओह फिरी मेरे कन्ने बोली गई, ते आखया।
जाओ ते छोटी जेही किताब लेई जाओ ^{¶974} जेड़ा सुर्गदूत दे हत्थ च खल्ली गेदा ऐ
जेड़ा समुंदर ते धरती (जमीन) उपपर खड़ोते दा ऐ ^{¶1093} र
प्रकासित 10:9 एते मैं सुर्गदूत दे कोल जाइयै उसी आखया, “ छोटी जेही किताब मिगी देयो” ^{¶974}
ते उन् ने मिगी आखया, “ लेओ (प्राप्त करो) ^{¶2983} इसे, ते खाओ (खाओ) ^{¶2719} इसे ऊपर;
ते तेरा पेट बनाई देग ^{¶2836} कौड़ा, ^{¶4087} लेकन तेरे मुंह च शहद दे समान मीठा होगा।
प्रकासित 10:10 एते मैं लेया (प्राप्त) ^{¶2983} छोटी जेही किताब ^{¶974} सुर्गदूत दे हत्थों बाहर निकली, ते खाया (भक्षण) ^{¶2719} इसे ऊपर;
ते मेरे मुंह च शहद दे समान मीठा हा ^{¶5315} यह, मेरा पेट कड़वा था।
प्रकासित 10:11 एते उन मिगी आखया, “
तुसैं गी (दे) कोला पैह्ले फिरी भविष्यवाणी करना पौगा ^{¶1909} मते सारे लोक, ते जातियां, ^{¶1484} ते भाषाएं ते राजाएं गी।

- ☞ **प्रकासित 10:8** ऐफिरि जेड़ी आवाज में (यूहन्ना) सुर्ग थवां सुनी ही, ओह फिरी मेरे कन्ने बोली गई ते आखया।
“जाओ, लेओ **छोटी जेही किताब**
जेड़ा सुर्गदूत दे हत्थ च खल्ली गेदा ऐ जेड़ा समुंदर ते धरती उपपर खड़ोते दा ऐ।”
- ☞ **प्रकासित 10:9** ऐइस आसू ते मैं सुर्गदूत दे कश जाइए उसी गू लाया, “मेरे गी देयो **छोटी जेही किताब**.” ते उन मिगी आखया, “
“**हासल करो तेखा जाओ एह;**
ते तुंदे पेट गी कड़वा करी देग, लेकन तुंदे मुंह च शहद दे समान मीठा होगा।”
- ☞ **प्रकासित 10:10** ऐफिर मिल गया **छोटी जेही किताब** सुर्गदूत दे हत्थे च निकलियै खाई लेआ, ऐ
ते मेरे मुंह च शहद दे समान मीठा हा। पर जदुं मैं खा लेया तां मेरा पेट कड़वा हो गया।
- ☞ **प्रकासित 10:11** एते उन मिगी आखया, “
“तुसैं गी जरूर **भविष्यवाणी करना परतियै** कई लोकें गी, राष्ट्रें गी (बहुवचन रूप), ^{¶1484} जीभ, ते राजा।”

- ध्यान देयो कि “सभी राष्ट्र” दा एकवचन रूप च **प्रकासित 7:9** ऐसे इक बड़्डी असंख्य भीड़ दा संदर्भ दिंदा ऐ
सारे कौम, कबीले, लोक ते भाषाएं चजो हैं **मसीह दे शरीर दा अंग**।

→ “राष्ट्रें दा बहुवचन ^{¶1484}” च **प्रकासित 10:11** ऐ “दूई कुंवारी” गी संदर्भित करदा ऐ जेड़ी बाद च औग
1000 साल खत्म हो गए (**प्रकासित 20:5** ऐ)।

→ इस चाल्ली “**छोटी जेही किताब**” उनें लोकें आस्तै होग जेहड़े इस आस्तै जमीने उपपर छडी दिते जाडन
ए 1000 साल दा।

➤ मतलब “मुंह च शहद दे समान मीठा” & पेट च कड़वा”

- दाऊद प्रभु दी गल्ल दा बखान करदा ऐ (**यहोवा**) जिन्ना मीठा स्वाद उंदे मुंह च शहद
(**भजन संहिता 119:103**), कीजे ओह सेवक जेका अपनी चेतावनी गी मनदा ऐ ते प्रभु दा डर करदा ऐ (**यहोवा**) साफ ऐ ते
बड़ा इनाम मिलग, इस करी एह शहद ते शहद दे छत्ते कोला बी मीठा ऐ (**भजन संहिता 19:10-11**)।

पर, कीजे प्रभु दा न्याय (**यहोवा**) सच्चा ते धर्मी ऐ, ओह (दुष्ट) जो
अनदेखा कीती गई उंदी चेतावनी बड़्डे उल्लंघन थमां बेगुनाह नेई ऐ ते इस चाल्ली उंदी छुड़ाई नेई होग
प्रभु गी (यहोवा) जदू नबी ने खाई गेदी भविष्यवाणी पूरी होई जंदी ऐ ³⁵⁶

→ जदू यूहन्ना ने “**छोटी जेही किताब**” ते खा गया (फिर हो गया **प्रभु दानाकर नबी**, ऐ

³⁵⁶संदर्भ देना **प्रकासित 14:7** ऐहोर मती जानकारी लेई।

[यिर्मयाह २६:५](#)), इसदा स्वाद उंदे मुंह च शहद दे समान मीठा होंदा ऐ कीजे एह् एप्रभु दा रेमा जो उसी साफ करदा ऐ।
पर, उसी खाने दे बाद उंदे पेट च कड़वा होई गोआ कीजे न्याय गी...
अधर्मी दृष्टिजिसने चेतावनी दी अनदेखी कीती।

† शब्द **(रेमा दा)**³⁵⁷ [एव 1697](#) आहला **प्रभु गी** यिर्मयाह दे कोल आया ते आख्या ([यिर्मयाह 1:4](#) ऐ), ऐ
“इस तों पहलां मैं तुगी पेट विच बणा दिता”⁹⁹⁰ [मैं तुगी जानदा हा](#);
ते पेट चों निकलने कोला पैहलें [एव 7358](#) [मैं तुगी पवित्र किता](#),
ते मैं नियुक्त कीता [एव 5414](#) [तूइक नबी \(गैर-यहूदी\) जातिएं गी](#)¹⁴⁷¹ [” \(यिर्मयाह 1:5 ऐ\)](#)।

फिरी यिर्मयाह ने आख्या, “आह, प्रभु (**‘.ădōnay**) ईश्वर (**y^ohōvâ**)!
दिखो, मैं बोलना नेई जानदा, कीजे मैं इक बच्चा ऐ”⁵²⁸⁸ [ऐ](#)
→ इक बच्चा [एव 5288](#) [इत्थें इस्तेमाल कीता गेदा इक जागत दा संदर्भ दिंदा ऐ](#), जो दासी दा जन्म दा पुत्र (उत्पत्ति 21:12 ऐ)।

बीउत प्रभु **(यहोवा)** [एव 3068](#) [उसी आख्या](#),
“नहीं कहो कि मैं इक लौंडा हां, [एव 5288](#) [कीहके तुस उन सारे कोल जाओगे](#), जिन्दे कोल मैं तुगी भेजना ऐ।
ते जे किश मैं तुसेंगी हुकम देना ऐ, उसी बोलना ऐ।
उंदे चेहरे कोला नेई डर, कीजे मैं तुगी बचाने आस्ते तेरे कन्ने ऐं, प्रभु आखदं ऐ **(यहोवा)** ([यिर्मयाह 1:7-8](#))।”

फिरी प्रभु **(यहोवा)** हत्थ फैलाया, ते मेरे मुंह गी छूया।
ते यहोवा **(यहोवा)** ने मिगी आख्या,
“दिखो, मैं अपनी गल्लां **(रेमा दा)** [एव 1697](#) [तेरे मुंह विच](#).
दिखो, मैं अज्ज तुगी गैर-यहूदी जातिएं दे राज्यें उप्पर जड़ें गी उखाड़ने ते उखाड़ने आस्ते नियुक्त कीता ऐ।
[ते नाश करना, ते उखाड़ना, बनाना ते रोपना](#)” ([यिर्मयाह 1:9-10](#))।

→ इक जागत (यिर्मयाह) नबी बनदा ऐ जदू... **प्रभु दा हत्थ** मुंह छूया और उसी **देरेमा**
[लड़के के मुंह में](#). मुंडा फिर हो गया **इक नबी** (ओह जो दा है **ईश्वर**, सुनदा ऐ **एव darhēma**, [ऐव 8:47](#) ऐ)
ते गैर-यहूदी जातिएं दे राजें उप्पर फिरी भविष्यवाणी करने आस् ते उसी आज्ञा दिती गेई।

→ **इक नबी जी** ऐ **प्रभु दा रेमा** इस आस् ते उसी जे किश बी दिता जंदा ऐ, उदे शा नेई डरना चाईदा
उस घड़ी, कीजे ऐ **पवित्र गी रुह** जो बोलता है, उसे नहीं ([मार्च 13:11](#) ऐ).³⁵⁸

³⁵⁷वीडियो 6. “प्रभु तुंदा परमात्मा बनी जंदा ऐ”

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशु-इजराइल-दे-पुत्र-पीढ़ियों-दी-पुस्तक/.

³⁵⁸वीडियो 20. “(एक तेज) म्यान, तलवार, & दो धारें आली तलवार”

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

>> [चित्र 10-1] इस संसार दे अंत च दिनें दे निशान (यीशु & उंदे चले)

- इस संसार दे अंत च मनुख दे पुतर & प्रभु दे ओने दे निशान

मती २४:१ ऐते यीशु बाहर निकली गे ते मंदर चली गया।

ते उंदे चले उंदे कोल मंदर दी इमारतें गी दस्सने आस् ते आए।

मार्च 13:1 ऐमंदरे च बाह निकलदे गे उंदे इक चले उसी आखया।

मास्टर, ऐ¹³²⁰दिखो इत्थें केह-केह पत्थर ते केह-केह इमारतां न!

लुका 21:5 ऐते जिय्यां केई मंदर दे बारे च बोलदे हे, उन आखया।

मती २४:२ ऐयीशु ने उन्दे कन्ने आखया, “तुस ए सारी गल्लां नेई दिखदे ? मैं तुसें गी सच्च आखना ऐं

इत्थे इक पत्थर ना बचेगा³⁰³⁷ दूजे उप्पर, जेड़ा नेई सुट्टेआ जागा।

मार्च 13:2 ऐयीशु ने उसी जवाब दिता, “के तू ए बड्डियां इमारतां दिखदे हो ?

इक पत्थर दूए उप्पर नेई बचेगा, जेड़ा नेई सुट्टेआ जा।

लुका 21:6 ऐजिन्दे बारे च तुस दिखदे ओ, ओह दिन औंगना।

जिस च इक पत्थर दूए उप्पर नेई बचेगा, जेड़ा नेई सुट्टेआ जागा।

- **जम्मूसुस** ने दीने अपने चेलें गी आखेआ जे ओह दिन औंगन जिसलै अच्छे पत्थरें ते बरदानें कन्ने सजाए दे इ'नें बड्डे-बड्डे इमारतें (मंदरें) गी उड़ाई दिता जाग तां जे इक पत्थर दूए उप्पर नेई बची जा।

मार्च 13:3 ऐते जदुं ओह मंदर दे सामने जैतून दे पहाड़ उप् पर बैठेया।

पतरस ने दीते याकूब ते यूहन्ना ते अंत्रियास ने उंदे कोला निजी तौर उप्पर पुच्छेआ।

- जियां यीशु मंदरे दे सामने जैतून दे पहाड़ उप्पर बैठे दे हे, उंदे चले (पतरस, याकूब, यूहन्ना ते अंत्रियास) ने निजी तौर उप्पर उंदे शा निम्नलिखित सवाल पुछे।

(१) ऐ.दिन दा आना: जदुं यहूदी ग लांदे हन, “धन्य ऐ जेका प्रभु दे नां कन्ने ओंदा ऐ”

मती 24:3 ऐजदुं ओह जैतून दे पहाड़ उप् पर बैठेया, तां चले उंदे कश आए ते पुच्छे छे।

सानु दस्सो, ए गल्लां कदू होंगन?

ते केह निशानी होग⁴⁵⁹² त्तरे आने दा, ऐ

ते अंत दा⁴⁹³¹ दुनिया दा?

➤ पैहलें यीशु “मंदरें दे आने आले दिनें दे बारे च ग लाया, जेके उड़ाई दिते जाडन,” उनें गी यरूशलेम उप् पर विलाप किता।

मती 23:37 ऐहे यरूशलेम, यरूशलेम, हे भविष्यवक्ताएं गी मारने आला।

ते जेड़े तेरे कोल भेजे गेदे न उन्हें गी पत्थर मारना।

मैं किन्नी बार तेरे बच्चें गी इकट्टा करना चाहदा हा।

जिय्यां मुर्गी अपने कुर्गे गी अपने पंखें दे हेठ कट्टा करदी ऐ, ते तुस नेई चांदे!

मती 23:38 ऐदिखो, तेरा घर उजाड़ होई गेदा ऐ।

मती 23:39 ऐकीहके मैं तुसें गी आखना ऐं, जद तकर तुस नेई आखगे।

“धन्य ऐ जेड़ा प्रभु दे नां कन्ने आवै.”

→ यीशु यहूदियें (शास्त्रियें ते फरीसियें) गी पाखंडी, नाग ते इक पीढ़ी आखदा ऐ

सांप जिय्यां ओह नबियें गी मारने आलें दे पुतर न, पर उंदी कन्न बनांदे न

भविष्यवक्ताएं गी, ते धर्मी लोकें दी कन्न गी सजाओ। यीशु उनें गी दसदा ऐ के यहूदियें गी

जदुं तकर ओह नेई ग लांदे, तां तकर यीशु गी नेई दिक् खडन।

“धन्य ऐ ओह जेड़ा प्रभु दे नां कन्ने आवै,” जिसदा मतलब ऐ के ओह नेई दिक् खडन

यीशु, जदुं तकर ओह साढ़े प्रभु ते मुक् तिदाता यीशु मसीह दे ज्ञान च अनुग्रह च बधदे न ते...

प्रभु गी उंदे मुक् तिदाता दे रूप च स्वीकार करो। पर, गैर-यहूदी जातिएं गी उध्दार च...

इस बीचा³⁵⁹

³⁵⁹“गैर-यहूदी, सारे राष्ट्र” या...

वीडियो 16. गैर-यहूदी, सारे जाति (प्रभु, प्रभु यीशु, & प्रभु यीशु मसीह) 7/10”

www.therhemaofthelord.com/द-ससमाचार/16/ऐं.

→जेड़े प्रभु (यहवा) दे नां कन्ने आंदे न³⁰⁶⁸ दे घर तों बाहर आशीर्वादित होंदे ने
 प्रभु (भजन संहिता 118:26). जभीन के नशरे ज्ञानी को घय भें लामा जाता शै
 प्रभु परमात्माजो तेरा हैजीवन, ऐओह मसीह (देय 30:20 ऐ, ऐक्लुस्स 3:4 ऐ). सादानाथते उंदीमसीहचाहना
 7वें स्वर्गदूत दे तुरही बजाने दे बाद दुनिया दा राज बहाल करो (प्रकासित 11:15-16 ऐ)
 ते संसार दे राज (या महान शहर बाबुल) उप्पर न्याय च औग
 इक घंटे (प्रकाशितवाक्य १८:१०-२०).

- ओह दिन औग जिसलै विजयी (पहले फल, पवित्र संत, ते...
 अवशेष जो हैंमसीह दादी सारी चीजां वारिस हो जांगनईश्वर(प्रकासित 21:7 ऐ). इस करिए ओह करंगन
 राज ते प्रभु, ते राज्य दी महानता दा आशीर्वाद पाओ
 सारा स्वर्ग, परमात्मा दे पवित्र लोकें दे लोकें गी दिता जाग, जिंदे
 राज्य इक अनन्त राज ऐ, ते सारे प्रभु उंदी सेवा करंगन ते उंदी आज्ञा मनन
 (दान 7:27 ऐ).

→इस आस् ते चेलें ने सवाल खड़े कीतेयीशुउस दिन दे बारे च जिसलै बड्डे-बड्डे मंदिर (राज्यें दे...
 दुनिया) होगा नीचे फेंक दिया, जो दुनिया दा अंत होग जिसलै पवित्र संत सारें कोला मते
 उच्चे गी राज दी महानता दिती जागा

जी.एह गल्लां (प्रभु दा दिन) कदू होंगन?
 च. तेरे आने दा (प्रभु दे आने दा) की निशानी होग?
 उ. इस संसार दे अंत दा निशान केहड़ा होग?

(२) ऐ. मनुख दे पुत्र दा आना(दिन & घंटे दा पता नहीं)

मार्च 13:4 ऐसानु दस्सो (मास्टर जी, ¹³²⁰मार्च 13:1 ऐ), ऐ

कदूएह गल्लां होंगन?

ते जदुं ए सारी गल् लां पूरी होई जांगन (अंत) तां केह निशानी होग?⁴⁹³¹ ऐ

लूका 21:7 ऐते उने उदे कोला पुछया, “ गुरु!¹³²⁰

लेकन ए गल्लां कदू होंगन?

ते जदुं एह गल् लां होई जाडन, तां केह निशानी होग?¹⁰⁹⁶ ऐ

➤ मरकुस ते लूका च यीशु दे चले उसी “गुरु” आखदे हे¹³²⁰ जदुं ओह मंदर च बाहर निकली गेयीशु.

- मास्टर (मजबूत दाजी¹³²⁰, διδάσκαλος, didaskalos) रब्बोनी (स्ट्रॉंग दा) गी संदर्भित करदा ऐजी⁴⁴⁶² ऐ) मतलब इक
 जो तुझे दे खने के लए अननी ददख ग्रहण कय वकता शैप्रभूते बपतिस्मा लैओपवित्र आत्मा गीअपने द्वारा
 तबार.

→ यीशु दाचले उसी गुरु (मजबूत दा) आखदे हेजी¹³²⁰, διδάσκαλος) या रब्बी⁴⁴⁶¹ ऐइसदे पैहे ओह हा
 क्रूस उप्पर सूली उप्पर चढ़ाया गेआ, पर रब्बोनी आखदे हे⁴⁴⁶² ऐउदे सूली उप्पर चढ़ाने दे बाददा संदर्भ च,यीशुइस तर्ही है
 मास्टर या रब्बी ने दी³⁶⁰

→मास्टर¹³²⁰गी “रब्बी” आखदे हे⁴⁴⁶¹ ऐपैहलेंयीशु दासूली उप्पर चढ़ाया जाना (या मनुख दे पुत्र) पर आखया जंदा ऐ
 “रब्बोनी⁴⁴⁶² ऐ” उंदे सूली च चढ़ाने दे बाद (मसीह). जदुं चेलें गी “रब्बी” मिलदा ऐ⁴⁴⁶¹ ऐ(दे पुत्र दा
 माहन) विश्वास दे द्वारा, “रब्बी⁴⁴⁶¹ ऐबन जाता है उनकी रब्बोनी⁴⁴⁶² ऐया उनकेनाथ (क्योरिओस) ²⁹⁶² ऐया परमात्मा दा पुत्र, ऐ
 ते पवित्र आत्मा उनेंगी दिती जागा³⁶¹

ई. एह गल्लां (मनुख दे पुत्र दा आना) कदू होंगन?

ख. जदुं एह गल् लां (मनुख दे पुत्र दा आना) होने आली ऐ, तां केह निशानी होग?

³⁶⁰वीडियो 17. “3. पैहे-फूला” www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-पहले-फल-प्रभु-देव-दे-घर-

³⁶¹से कैद की गईप्रकासित 3:15 ऐ.

(३) ऐ. प्रभु दा आना (घटे दा पता नहीं)

मार्च 13:4 ऐसानु दस्सो (मास्टर जी, 1320 मार्च 13:1 ऐ), ऐ

कदू एह गल्लां होंगन?

ते जदुं ए सारी गल् लां पूरी होई जांगन (अंत) तां केह निशानी होग? 4931 ऐ

लूका 21:7 ऐते उने उदे कोला पुछ्या, “ गुरु! 1320

लेकन ए गल्लां कदू होंगन?

ते जदुं एह गल् लां होई जाडन, तां केह निशानी होग? 1096 ऐ

➔ दानियेल नबी ने अपनी 70 हफते दी भविष्यवाणी दे आखरी हफते च होने आली घटनाएं दा भविष्यवाणी किता।

मैंन मरकुस ते लूका, चेले यीशु कोला निम्नलिखित सवाल पुछ्छे तां जे ओ चिन्नें गी जानन

प्रभु दा दिन ते उंदे आने दा दिन, जेड़ा ओह दिन होग जिसलै ओह उंदे कन्ने मिलन ते उंदे कन्ने सदा (1थु 4:17 ऐ).

सी. एह केह संकेत होग जे एह सारी गल्लां (दानियेल दा 70वां हफता) खत्म होई जांगन?

D. एह गल्लां (प्रभु दा आना) कदू होंगन?

यीशु दा उपरले चेलें (एजी) दे सवालें दा जवाब बड़ी संभावना ऐ जे निम्नलिखित क्रम च होग: 1।

उ. इस संसार दे अंत दा निशान की होवेगा (2 निशान)?

- ऐ टी उसने पहले संकेत दे (इस दुनिया दे अंत दा)

मत्ती २४:६ ऐते तुस सुनी लैगे 191 युद्धां ते अफवाह (सुनना) दा 189 युद्धां दा: दिखो के तुस घबराई नेई जाओ।

की वे ए सारी गल्लां होनी चाहिदीयां ना 1096 ऐ पर अंत 5056 ऐ अजे तक नहीं है. 3768

मार्च 13:7 ऐते जदुं तुस सुनगे 191 युद्धां ते अफवाहां दा (सुनना) 189 युद्धां दा, तुस घबराई नेई जाओ।

कीजे इस चाल्ली दे कम्मं गी (करने दी लोड़ ऐ); 1096 ऐ पर अंत 5056 ऐ अजे तक नहीं होंगे। 3768

- मत्ती ते मरकुस दे दर्शकें गी युद्धें ते अफवाहें दे बारे च सुनना चाईदा जेकी करना जरूरी ऐ, पर यीशु ने उनें गी लाया के ओह परेशान नेई होन, कीजे अन् त अजे नेई ऐ।
- “टी ओह अंत अजे नेई ऐ” इंगित करदा ऐ जे जिस घटना शुरू होई ऐ ओह उस समें दे बिंदु पर पैह ले थमां गै प्रगति च ऐ।
- कदू जम्मूसस ने खरपतवार दी फसल दे बारे च समझाया, उने इशारा कीता के ए “इस” दुनिया दा अंत होग
(मत्ती 13:40 ऐ इस आस् ते खरपतवारों गी इकट्टा करिये अग च जला दिता जंदा ऐ;
इस संसार दे अंत च बी इय यां गै होगा”)

लूका 21:9 ऐलेकन जदुं तुस सुनगे 191 युद्धां ते हंगामे (उलझन) दा, 181 घबराई नेई जाओ:

की वे पैहलें इनें गल् लें गी जरूरी ऐ 4412 ऐ होन आना (कर गया), 1096 ऐ

पर अंत 5056 ऐ (तुरंत) द्वारा ते द्वारा नहीं है। 2112 ऐ ती

- लूका दे दर्शकलड़ाइयें ते उलझनें दे बारे च सुनना चाईदा जेके पैहलें गै करना चाईदा, पर यीशु ने उनें गी लाया के ओह घबराई नेई जाओ, कीजे अंत नेडे नेई ऐ।
- डब्ल्यूhen मत्ती ते मरकुस दी तुलना च, लूका इशारा करदा ऐ के चेले युद्धें दे बारे च सुनी लैन ते उलझन च पेई जांगन, पर उनें गी डरना नेई चाहिदा कीजे ए पैहली गल् ल ऐ जेकी होनी चाईदी ऐ, ते इस चाल्ली अंत नेडे नेई ऐ।

- पैहली निशानी दा अंत -

कष्ट दा अंत (टीटिका जिंदा चले दुए निशान दे सामने सामना करंग, प्रकाशितवाक्य 13:15 ऐ)

लूका 21:12 ऐपर इन्हां सारेआं तों पहलां (संसार दे अंत दे 2 निशाने तों पहलां, लूका 21:10 ऐ, ऐमत्ती २४:७, २.मार्च 13:8 दा), ऐ

ओह तुंदे उपर हथ्य रखन ते तुसें गी आराधनालयें च सौपीये सतागा

ते जेलें च राजे दे सामने लाया गया 935 ऐ शासक (शासक) 2232 ऐ ती मेरे नाम दे वास्ते।

लूका 21:13 ऐते गवाही (गवाह) आस्ते तुंदे कोल औगा 3142 ऐ

[मत्ती २४:९](#) ऐफिरी ओह तुसें गी दुखी होने आस् ते सौपी देडन (**मुसीबत दा सामना करना**), ऐ [#2347](#) ते तुगी मारी देगा।

ते सारे जाति तुं दे कन्ने नफरत करो [#1484](#) मेरे नाम दे वास्ते।

मरच 13:9 ऐलेकन अपने आप गी सावधान रवो, की वे ओह तुसें गी मंडली च सौपी देंगन;

ते आराधनालयें च तुसें गी मारया जागा।

ते तुसें गी शासकें (शासक) दे सामने लाया जागा [#2232](#) ते [#935](#) ते राजा

मेरे वास्ते, इक गवाही दे वास्ते (एक गवाह) [#3142](#) उंदे खिलाफ.

मार्च 13:10 **दीतेसुसमाचार गी** पैहे प्रकाशत (प्रचार) होना चाहिदा [#2784](#) बीच (में) [#1519](#) सारे राष्ट्र (गैर-यहूदी) [#1484](#) ते

- दुनिया दे अंत दा दूआ निशान प्रकट होने कोला पैहे, लूका दे श्रोताएं गी दिक्खना पौग जे बुरे राज दी गैर-यहूदी जातियें गी चेलें उपपर हल्थ पाना पौग, उनें गी सताना पौना ऐ, उनें गी आराधनालयें ते जेलें च सौपना पौग, ते उंदे नां दे आस् ते राजाएं ते राज्यपालें दे सामने लेई औना पौना ऐ, जिंदे चा तुस बी होगे इक गवाहा³⁶²
- **मैथ्यू दे दर्शक** चेलें गी मुसीबत च सौपी दित्ता जा ते उंदे नां दे कारण मारी दित्ता जाग, ते सारे गैर-यहूदी जातियें थमां नफरत कीती जागा³⁶³
- **एमसन्दुक दे दर्शक** ध्यान देना चाइदा के उनें गी सौपी दित्ता जाना चाहिदा **टीओ** आराधनालयें च पीटे गेदे कौंसिलें गी, ते उंदे आस् ते उंदे खलाफ गवाहें दे रूप च गवर्नरें ते राजाएं दे सामने लाया जंदा हा, जिंदे बारे च तुस गवाह बनगे कीजे अंत आने शा पैहलें सारे गैर-यहूदी जातियें च राज दे सुसमाचार दा प्रचार करना पौना ऐ।

(सुसमाचार दी लोड़)

+ तुस पछतावे दे बपतिस्मा दे बाद मसीह यीशु उपपर विश्वास करो ते प्रभु यीशु दे नां कन्ने बपतिस्मा लैओ। फिर पवित्र आत्मा उन (तू) जिंदे कोल लोगो हन जो रेमा ([२पतरस ३:२](#)).

+ प्रभु यीशु सुर्ग थवां प्रगट होने दा मतलब ऐ के सच्चाई दे लोगो (तुंदे उद्धार दा सुसमाचार) सादे प्रभु यीशु मसीह दे सुसमाचार दे जरिये रेमा गी प्रगट करने आस् ते ज्वालामुखी आग च जली जागा। तुसी विश्वास करन दे बाद **मसीह**, तुस वादे दी पवित्र आत्मा कन्ने मुहर लागे गेदे हे। तुस मसीह दे औने दे पैहले फल ओ, जेकी परमेसरे दे सारे लोकें च इक गै जाति ऐ, जां 144,000 जेके अपने पिता दे नां कन्ने सियोन पहाड़ उप् पर इक मेम्ने कन्ने खड़ोते दे ओ उंदे मत्थे च लिखे दा.³⁶⁴

(सारे गैर-यहूदी जातियें च सुसमाचार प्रचार करना चाईदा)

- परमेसरे दी कलीसिया दा सुसमाचार लोगोस च, शक्ति च ते पबित्तर आत् मा च आया, जेका रेमा ऐ।

- ओह घड़ी आने आली ऐ जिसलै भलाई करने आह्ने जीवन दे जींदा होने च औंगन (सुनने आस्तै रेमा)।

- यीशु मसीह च बपतिस्मा दे जरिए तुसें पछतावा किता ऐ ते यीशु मसीह दी मौत च बपतिस्मा लेता ऐ। यीशु मसीह दे नां दे बपतिस्मा दे जरिए तुंदे पाप माफ किसे गेदे न, ते तुसें गी दान मिलग पवित्र आत्मा गी, ते लोक पवित्र आत्मा दे वरदान दे जरिए दूई भाशाएं च बोलदे हे ते भविष्यवाणी करदे हे।

- पबित्तर आत् मा दे तुंदे उप् पर ओने दे बा'द तुसें गी "शक्ति" मिलग, ते प्रभु यीशु दे गवाह बनगे **मसीह** (जिन्हें रेमा पाई लेया) यरूशलेम ते सारे यहूदिया च (जिनें गी माफी मिली ही उंदे पापें दा), सामरिया च (जिनें गी लोगोस मिलदा हा), ते जमीन दे सिरे तक (जो शापित जमीन ते हन, जां कबर विच हन जिन्हां नूं उद्धार पाण वास्ते पछतावा करन दी लोड़ है)।

- + 12 गी यीशु दे चले दे रूप च सारे शैतानें उपपर ते बीमारियें गी ठीक करने आस्तै शक्ति ते अधिकार दित्ता गेदा ऐ ([लूका ९:१](#) ऐ), ते परमेसरे दे राज दा प्रचार करने ते बीमारें गी चंगा करने आस् ते सुसज्जित, ([लूका ९:२](#) ऐ). मतलब उन्दे कोल रोशनी ऐ [#5457](#) परमातमा दा ([१जो 1:5](#) ऐ), ते परमात्मा (जिसने उजाले दा हुकम दित्ता [#5457](#) ते हरे च चमकने आस्तै) उंदे दिलें च चमकी गेदा ऐ, इस चाल्ली उनें गी रोशन कीता गेआ [#5462](#) परमात्मा दी महिमा दे ज्ञान दा यीशु मसीह दे चेहेरे च ([२कुरिन्थियों ४:६](#)). परमातमा दी महिमा, जो उजाला है [#5458](#) परमातमा दा जो कि क्रिस्टल दे रूप च साफ ऐ ([प्रकासित 21:11](#) ऐ), प्रेरितें दी रोशनी बनीं जंदा

³⁶²वीडियो 16. "गैर-यहूदी, सारे जाति (प्रभु दे बफादार ते ज्ञानी भंडारी बनो) 10/10"

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

³⁶³वीडियो 18. "3. पैहे फल (द 144,000)" www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-पहले-फल-द-144000/.

³⁶⁴विस्तार कन्ने जानने लेई वीडियो 18, "पहले फल (144,000)" दिक्खो।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-पहले-फल-द-144000/.

ऐ⁵⁴⁵⁷ दुनिया दा (या खेत दा, मत्ती 13:38 ऐ), ते उंदे च हर इक शैर ए जेहड़ा बिछाया गोदा ऐ²⁷⁴⁹ इक पहाड़ दे ग्रां च³⁷³⁵ जो की वजह से छुपाया नहीं जा सकदा परमात्मा दी रोशनीकि ओह लांदे ने (मत्ती 5:14 ऐ). इक ग्रां²⁹⁶⁸ इक ऐसी जगह दा मतलब ऐ जित्थें सुसमाचार दा प्रचार कीता जंदा ऐ (मांस देखै जां... परमात्मा दे लोगोजनता दे वास्ते), ते जित्थें चंगाई होंदी ऐ (मत्ती 14:15 ऐ).³⁶⁵

- चेले गी डिलीवर कीता जंदा ऐकछ दा

मार्च 13:11 ऐलेकन जदुं ओह तुहानू अगुवाई करन ते तुहानू सौंपी देंगे, ते पैहलें तोहे की बोलना ऐ, इस बारे च कोई सोचेया नेई जाओ।

ना तोहे सोचे, लेकन जो कुछ तुहानू उस बेले दिता जावेगा, ओह बोलो।

की वे बोलने आले तुस नेई, लेकन पवित्र आत्मा गै बोलदे ओ।

लूका 21:14 ऐबसना(लेट)⁵⁰⁸⁷ इस आस् ते तुंदे दिलें च एह ऐ कः तुस केह जवाब देगे, उदे शा पैहलें धू यान नेई करो।

लूका 21:15 ऐ की वे मैं तुसं गी मुंह ते ज्ञान देगा;

जिसदे उपर तुंदे सारे दुश्मन ना गै विरोध करी सकन ते ना गै विरोध करी सकन।

जदुं चेले गैर-यहूदियें दे राजाएं ते राजशास्लें गी सौंपी दिते जंदे नः 1।

- **मार्क दे दर्शकः** तुसं गी केह बोलना चाईदा, उसी पैहलें नेई सोचो ते ना गै पूर्व-चिंतन करो, कीजे पबित्र आत् मा उस घड़ी च तुंदे जरिये बोलगा।

→ टीओह पवित्र आत्मा मरकुस दे श्रोताएं च रौहदा ऐ

+ मुंह ही जित्थे प्रभु दे वचन रखे जांदे हन (प्रभु ने मिगी आख्या, “ दिखो, मैं अपनी गल्लां रखेया ऐ।”¹⁶⁹ तरे मुंह विच। मैं अज्ज तुगी राष्ट्रें ते राज्यें उपपर लाया ऐ, ऐ

(**यिर्म्याह 1:9-10**). मनुख विच दिल दी तैयारियां,¹²⁰ ते जीभ दा जवाब, यहोवा दा (**नीतिवचन 16:1**).³⁶⁶ इस करिए सुसमाचार दी दोधारी तलवार (ज्वालामुखी तलवार) गी पवित्र संत दे हत्थ च परमात्मा दी उच्ची स्तुति कनै (**ऐल**)⁴¹⁰ उंदे मुंह चा³⁶⁷

- **एलूके दे दर्शकः** तुसं गी जवाब देने शा पैहलें मनन नेई करना चाईदा कीजे ओह तुसं गी मुंह ते ज्ञान देग, ते तुंदे सारे विरोधी ना गै गड़बड़ी करी सकन ते ना गै विरोध करी सकन; इस आस् ते अपने दिलें गी सुझी ओड़ो।

→ परमात्मा दा राज हैमैं लूका दे दर्शकां दा दिला

+ प्रभु दा डर ही ज्ञान दी शुरुआत ऐ(प्रो 9:10 ऐ)ते प्रभु दे मुंह च ज्ञान ते समझ निकलदी ऐ (प्रो 2:6 ऐ). परजेड़ा इन्हें चीजें दी कमी ऐ, ओह अन्धा ऐ, ते दूर नेई दिक्खी सकदा, ते भुल्ली गोदा ऐ के ओह अपने पुराने पापें कोला शुद्ध होई गोदा ऐ (रपतरस १:९), इस आस् ते ओह ज्ञान कन् ने नफरत करदे हे, ते प्रभु दा डर नेई चुनदे हे (प्रो 1:29 ऐ): इस आस् ते ओह (गैर-यहूदी जातियें दे राजा ते शासक) गिरी जाडन ते उंणी परमेसरे परमेसरे दा नू याय कीता जागा।

- कई नाराज हो जाओ

मत्ती 24:10 ऐते फिरी मते सारें गी ठेस पौगा⁴⁶²⁴ ऐ

ते धोखा देग(डिलीवर) कर देगा³⁸⁶⁰ इक दुए कन्ने नफरत करगे।

मत्ती २४:११ ऐते मते सारे झूठे नबी उठनगे, ते मते सारें गी धोखा देंग।

मत्ती २४:१२ ऐऔर क्योंकि अधर्म⁴⁵⁸ भरपूर (गुणा) होग, ⁴¹²⁹ कई दा प्यार ठंडा हो जावेगा।

मार्च 13:12 ऐहुन भाई (भ्राएं)⁸⁰ धोखा देना (डिलीवर करना)³⁸⁶⁰ भाई (भाई)⁸⁰ मौत गी,

ते पिता पुतर; ते बच्चें गी⁵⁰⁴³ उंदे मां-प्यो दे खलाफ उठी जांगना।

ते उंणी मारी ओड़गा।

लूका 21:16 ऐते तुहानू धोखा (मुक्त) हो जावेगा³⁸⁶⁰ माता-पिता ते भ्राएं दे द्वारा।

ते रिश्तेदार (रिश्तेदार),⁴⁷⁷³ ते दोस्तें गी; ते तुंदे च किश गी मारी ओड़ना।

लूका 21:17 ऐते मेरे नां दे कारण तुंदे कन्ने सारे मनुखें कन्ने नफरत होगा।

³⁶⁵ “[चित्र 1-ग],” जां बीडियो 35. “(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार कन्ने चेलो।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शिष्य-शक्ति-अधिकार-के-साथ-

³⁶⁶ बीडियो 43. “(आत्मा दे नेतृत्व च) परमात्मा दे पुतर”। www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-आत्मा-भगवान-दे-पुत्र-अगुवाई-दे/

³⁶⁷ बीडियो 20. “(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवार।”

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/

[मत्ती २४:१३](#) ऐलेकन जेड़ा अन्त तकर टिकी रेहग; [#5056](#) ऐसी बचाया जाग.

[मार्च 13:13](#) वीते मेरे नां दे कारण तुं दे कन्ने सारे मनुखें कन्ने नफरत होग।

लेकन जेड़ा अन्त तकर टिकी रौह्या [#5056](#) ऐसी बचाया जाग.

जिन्दे बीज गी पत्थरें दे दिलें च बोया गेदा हा, उंदे च मते सारे लोकोस च नाराज होई जांगन, जदं मुसीबत जां सताई पैदा होग

- **एमएथ्यू दे दर्शक:** इस आस् ते ओह इक-दुऐ कन् ने धोखा करडन ते नफरत करडन, ते मते सारे झूठे नबी उट्टी जाडन ते उमेंगी धोखा देडन, ते नतीजे च अधर्म बधी जाग, मते सारें दा प्रेम ठंडा होई जाग।³⁶⁸पर जेड़ा अन्त तकर सहन करदा ऐ, उदा उद्धार होग, मतलब जेड़ा अपनी आत्मा गी पाग, ओह उसी खोई देग, पर जेड़ा उदे आस्ते अपनी आत्मा गी खोई लैग, ओ उसी पाग ([मत्ती 10:39](#) ऐ).
- **मार्क दे दर्शक:** ओह भ्रा हन (जिसदा पिता सुर्ग च ऐ; [मत्ती 23:9](#) ऐ) पर ओह अपने भ्राएं गी मारी देंगन, ते पुत्र दा पिता, बच्चे अपने माता-पिता दे खिलाफ उठी जांगन, ते उमेंगी मारी ओड़ना जेड़ी आत्मा मरकुस दे सुसमाचार दे जरिए तुं दे कन् ने गल् ल करदी ऐ, ओह एह ग् लांदी ऐ के तुमेंगी उं लोके कन् ने नफरत कीती जाग, जेके उदे नां आस् ते लोगो कन् ने नाराज हना। पर जेका अन्त तकर धीरज रखदा ऐ, उदा उद्धार होग, मतलब जेड़ा अपनी आत्मा गी पाग, ओह उसी खोई लैग, पर जेड़ा उदे आस्ते अपनी आत्मा गी खोई लैग, ओ उसी पाग ([मत्ती 10:39](#) ऐ).
- **एलुके दे दर्शक:** उंदे कन्ने मां-प्यो, भ्राएं, रिशतेदारें ते दोस्ते कन्ने धोखा कीता जाग, ते तुं दे च किश गी मारी दिता जाग। जेड़ी आत्मा लूका दे सुसमाचार दे जरिए तुं दे कन् ने गल् ल करदी ऐ, ओह एह ग् लांदी ऐ के तुमेंगी उं लोके कन् ने नफरत कीती जाग, जेके उदे नां आस् ते लोगो कन् ने नाराज हना। पर उमेंगी अंत तकर धीरज कियूं यां नेई ग् लाया जंदा ऐ?

[मत्ती 13:20](#) ऐलेकन जेस ने (राज्य दा लोगोस) ग्रहण कीता। [मत्ती 13:19](#) ऐ) बीज (दिल विच बोया) [#4687](#) ऐ

पत्थर दी जगहें (पत्थर दी जमीन) च, [#4075](#) ऐ

उसी गै ऐ जेड़ा वचन (लोगोस) गी सुनदा ऐ। [#3056](#) ऐ के कोई खुशी कन्ने उसी ग्रहण करदा ऐ;

[मत्ती 13:21](#) ऐफिरी बी ओह अपने आप च जडें नेई जडैया, लेकन थोड़ी देर लेई रेहंदा ऐ।

कदू दे वास्ते [मुसीबत दा सामना करना](#) [#2347](#) ऐ [जां सतावना](#) [#1375](#) ऐ उठदा ऐ

शब्द (लोगोस) दे कारण, [#3056](#) ऐ धीरे-धीरे उसी नाराजगी होंदी ऐ। [#4624](#) ऐ

- **इकन्योन** जो राज्य दे लोगो सुनदा ऐ पर उसी अपने दिल दी पत्थर दी जमीन च ग्रहण करदा ऐ, जड दी [लोगो दा](#) उंदे च नेई ऐ, इस आस् ते ओह उस वेले नाराज होई जंदे न, जदं मुसीबत जां सताव पैदा होई जंदी ऐ, कीजे उंदे च लोगो थोड़ी देर आस् ते गै टिकी सकदे ना
- ध्यान देयो कि [मुसीबत दा सामना करना](#) भी मतलब है [सतावना](#).
- † **रेमा दाके** यीशू तुं दे कन्ने बोलदा ऐ, ओह आत्मा ऐ ते ओह जीवन ऐ।³⁶⁹की जेमसीहसभनें च, जेके इक आत् मा थवां पीं दे हे, ओह मसीहा दे शरीर न, चाहे ओह शरीर च खतना जां खतना नेई किता जा। इस कारण पतरस ने ग् लाया के परमेसरे पक्षपातपूर्ण नेई ऐ, कीजे ओह हर गैर-यहूदी जाति गी स्वीकार करदा ऐ, जेकी उदे शा डरदी ऐ ते धार्मिकता (आत् मा च ते सच् चाई च, [इं४:२४](#) ऐ)।

(सिर दे बाल)

[लुका 21:18](#) ऐलेकन बाल बी नेई होन [#2359](#) ऐ त्तरे सिर दानाश हो जाओ।

[लुका 21:19](#) ऐ अपने धीरज च अपने प्राणें गी अपने कब्जे च रखो। [#5590](#)

- कीजे पोषण दा खाना खाने दा मतलब ऐ परमात्मा दे (शब्द, rhēma) दे पोषण कन्ने खिलाना ([जेर३२:२७](#) ऐ), पोषण आहार खाने कन्ने तुं दे सिर थमां बाल नेई खडोने [#5160](#), जो मुक्ति दी ओर लेई जंदा ऐ ([प्रेरितों दे काम 27:34](#)). इस करिए अस प्रचार करदे आंमसीह, हर मनुख गी चेतावनी ते सिखाना [#444](#) ऐ हर इक माहू गी पेश करने आस्ते सारे बुद्धि च [#444](#) ऐ में परफेक्ट [मसीह यीशू](#) ([कुलुस्स 1:28](#) ऐ)।³⁷⁰

³⁶⁸संदर्भ देना [मत्ती 13:20](#) ऐ.

³⁶⁹वीडियो, 25. "एक कठोर कहावत (लोगोस) & परमात्मा दे कर्म 2/2!"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-एक-कठिन-कहने-दे-लोगोस-देव-दे-कर्म/.

³⁷⁰वीडियो 31. "परमात्मा दे कोल इक नासरी (सिर दे बाल)!"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-एक-नज़री-देव-दे-सिर-के-बाल/.

+ "माहूँ" ^{#444} शरीर दे आदमी गी संदर्भित करदा ऐ जिसदे कोल ऐपरमात्मा दे लोगो मनुख दे पुत्र दे जरिए, इस चाल्ती उसी अपने पिता ते मां गी छोड़ियै अपनी जनानी कन्ने जुड़ना चाहिदा तां जे ओहदे शरीर (हड्डी ते मांस) कन्ने जुड़ी सकै प्रभू जो "जीवन" जो आत्मा च ऐ, जां चमसीह. ³⁷¹

+ चउत्पत्ति 2:24 ऐ, "मर्द (पति, 'ई') ^{एव 376} शरीर दी आत्मा ऐ गी दस्सेआ जंदा ऐ जेहड़ी गर्भधारण करने च समर्थ ऐ जीवनविश्व वास कन् ने धर्मी ते पबित्त बनना ऐ, ते जनानी गी (कानून दे अधीन) जोड़ना ऐ शरीर दा (हड्डी ते गेश्त) मनुख दा (कृपा दे हेठ).

→ क्रम च इक जनानी दे बाल (के बीज लोगो दा कानून दे तहत) च उगने आस्तैरेमा दा आहला ईश्वर, एह समें दी पूर्णता तकर पोशित होना चाहिदा। इस करिए, प्रचुर मात्रा च लोगो दा कानून दे तहत (द जनानी) इस करिए दे प्रकट होने तकर ढकना चाहिदा रेमा दा.

- साथ ही, इक पति ('ई') ^{एव 376} इक आदमी ऐ (anthropos) ^{#444} जो "के जी उठने दा गवाह बनदा है मरे हुए" (प्रेरितों दे काम १:२२) पवित्र आत्मा दे साझेदारी दे जरिए (२ कुरिन्थियों १३:१४). ³⁷²

इस करिए पति ^{#435} (परमात्मा दी किरपा दे अधीन इक इंसान) अपनी जनानी (पत्नी) कन्ने प्यार करना चाहिदा जिसने... ओह लोगो दा आहला ईश्वर (पर ट्यूटर ते गवर्नर दे हेठ, जिस समें तकर... पिता जी), इत्थं तगर जे मसीह कलीसिया कन्ने बी प्यार करदा हा ते उदे आस् ते अपने आप गी बी देई दिदा हा (इफिसियों 5:25 ऐ). ³⁷³

से संक्रमण कष्ट दागी बड़ी मुसीबत

- ऐदूजी निशानी (दुनिया दे अंत दा)

मत्ती २४:७ ऐ राष्ट्र (गैर-यहूदी राष्ट्र) दे वास्ते ^{#1484} राष्ट्र दे खिलाफ उठी जाग ^{#1484}, ते राज्य दे खिलाफ राज;

ते बकख-बकख थाहें उप्पर अकाल, महामारी ते भूचाल होंगना

मत्ती २४:८ ऐ ये सारे हैं दुखों की शुरुआत. ^{#5604}

मार्च 13:8 दाकीहके राष्ट्र जाति दे खिलाफ, ते राज्य राज्य दे खिलाफ खडोगा

ते बकख-बकख थाहें उप्पर भूचाल औगा

ते अकाल ते मुसीबतें होंगन दुखां दी शुरुआत. ^{#5604}

- मैथ्यू दे दर्शक अकाल देखना जरूर → महामारी → विविध थाहें पर भूचाल (दुखें दी शुरुआत)।
- एमसन्दूक दे दर्शक भूकंप जरूर देखे → अकाल, → मुसीबतें (दुखां दी शुरुआत)।
- मत्ती ते मरकुस च दुनिया दे अंत या दुखें दी शुरुआत दा 2 निशान "बड़ी कष्ट दा."
- "जाति राष्ट्र दे खिलाफ उठी जाग" दा मतलब ऐ "गैर-यहूदी जाति इस्राएल दे कौम दे खिलाफ उठी जांगन, ते बुराई दा राज सुर्ग दे राज दे खिलाफ उठना पौगा" ³⁷⁴

लूका 21:10 ऐ उस बेले उन उन्हें आख्या, " राष्ट्र जाति दे खिलाफ, ते राज्य राज्य दे खिलाफ उठगा

लूका 21:11 ऐ ते बकख-बकख थाहें उप्पर बड्डे-बड्डे भूचाल, ते अकाल ते महामारी होंगन;

ते भयावह नजारे ते बड्डे-बड्डे निशान ^{#4592} सुर्ग थवां होवेगा.

- एलुके दे दर्शक बकख-बकख थाहें पर बड्डे-बड्डे भूचाल दिखना पौगा → अकाल पड़े → महामारी → डरावनी नजर, → सुर्ग थमां बड्डे-बड्डे निशान।
- मत्ती ते मरकुस दे विपरीत, लूका दे वास्ते दुख दी शुरुआत दा जिक्र काहनी दर्शक, क्यों ?

³⁷¹वीडियो 2. "उत्पत्ति 1:1 थमां उत्पत्ति 2:4 तक" www.therhemaofthelord.com/course1/2-एडन-दे बाग-2/.

³⁷²वीडियो 2. "उत्पत्ति 1:1 थमां उत्पत्ति 2:4 तक" www.therhemaofthelord.com/course1/2-एडन-दे बाग-2/.

³⁷³वीडियो 32. "(एक बड्डा रहस्य) मसीह & कलीसिया 1/2"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-एक-महान-रहस्य-मसीह-चर्च-सब-चीज-परमात्मा-दी-हैं/.

³⁷⁴वीडियो 16. "गैर-यहूदी, सारे जाति (प्रभु दे वफादार ते ज्ञानी भंडारी बनो) 10/10")।

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ऐ. (विस्तार दे वास्ते "[गैर-यहूदी]" कू देखो)।

- लूका च संसार दे अंत दा दूआ निशान “**बड़ी कष्ट दा**”:
- दुख (भूकंप, अकाल, महामारी, & परेशानिया) शुरू होने दे बाद, होंगे
→ बड़डे-बड़डे भूचाल (जो शुरू होने थमां शुरू होंदा ऐ **ओह 6वीं दी मोहर**, ऐप्रकासित 6:12 ऐ)
दे पूरे दिनें च “**बड़ी कष्ट दा**” (प्रकाशितवाक्य 13 ऐ) ते दी 7वीं शीशी **परमातमा दा गुस्सा**
(प्रकाशितवाक्य 16:17-18 ऐ), ऐ
→ डरावनी नज़र (**रेचर दा** आहला **144,000 दी**, ऐप्रकाशितवाक्य 12:1), ते
→ स्वर्ग थमां बड़डे-बड़डे निशान (सूरज, चंद्रमा ते तारे दे निशान, **मत्ती २४:२९ ऐ**, ऐमार्च **13:24-25 गी**, ऐ
लूका 21:25-26 ऐ) चाहना 1st जानवर दे समुंदरे च उड़ने कोला ठीक पैह्ले दिक्खेआ जा (**प्रकासित 13:1 ऐ**).

बी.जदुं एह गल् लां (मनुख दे पुत्र दा आना) होने आली ऐ, तां केह निशानी होग?

- ऐटीओह मनुख दे पुत्र दे औने दे संकेत दिंदा ऐ (पृथ्वी उप् पर नजारा)

मत्ती २४:२९ ऐ फौरनबाद च **मुसीबत गी** ^{नं०2347} उन (कि) दा **नं०1565** दिनकरग
सूरज न्हरे हो जा, ते चंद्रमा उसी रोशन नेई देगा ^{नं०5338}

ते तारे सुर्ग थमां डिग्गी जांगन, ते शक्तियां ^{नं०1411} आकाश दा हिल जाह्य: 1।

मार्च 13:24 ऐ परच ^{नं०1722} उन (कि) **नं०1565** दिन, ऐबाद च उस **मुसीबत गी**, ऐ
सूरज दा अन्हार हो जावेगा, ते चंद्रमा उसी उजाला नेई देगा ^{नं०5338}

मार्च 13:25 दी ते सुर्ग दे तारे डिग्गी जांगन, ते सुर्ग च शक्तियां हिल जांगना

- **फौरनबाद च मुसीबत गी**: सूरज न्हरे होंगे, चान ना देगा उसे ज्योति, तारे
सुर्ग थमां डिग्गी जाह्य, ते सुर्ग दी शक्तियां हिल जांगना

- मैथ्यू दे दर्शक: दा आना **मनुख दा पुत्र** “तुरंत बाद” होगा **मुसीबत गी** उन दिनां दा (संकट दे दिनां दा, **मार्च 13:19 ऐ**), जो कि दानिय्येल दे 70वें हफ्ते दे ब्रेक अवधि दे बाद होवण आले महान संकट दी शुरुआत होसी।³⁷⁵
- एमजहाज दे दर्शक: दा आना **मनुख दा पुत्र** “बाद” होवेगा **मुसीबत गी** उन दिनां (महान कष्ट विच, **मत्ती 24:21 ऐ**).
→ मत्ती दे श्रोताएं आस् ते मनुख दे पुत्र दा आना मुसीबत दे “तुरत बाद” होग, जदके मरकुस दे श्रोताएं आस् ते संकट दे “बाद” जां महान संकट दे दिनें च होगा

लूका 21:25 ऐ ते होवेगा **संकट दे** ^{नं०4592} सूरज ते चंद्रमा ते तारे च;
ते धरती (जमीन) उप्पर ^{नं०1093} राष्ट्रों दी संकट (गैर-यहूदी राष्ट्रें), ^{नं०1484} उलझन दे नाल;
ओहसमुंदर ते लहरें दा गर्जना;

लूका 21:26 ऐ पुरुषों की ^{नं०444} दिलें गी डर दे कारण, ते उंदी देखभाल (उम्मीद) दे कारण असफल करना ^{नं०4329} उन चीजें जो हैं
धरती (संसार) ते आना: ^{नं०3625} की वे सुर्ग दी शक्तियां हिल जांगना

- मत्ती ते मरकुस दे दर्शक लेई दोनों: सूरज न्हरे होई जाग, चंद्रमा उसी रोशनी नेई देग, तारे सुर्ग थमां डिग्गी जांगन, ते आकाश दी शक्तियां हिल जांगन (**मत्ती २४:२९ ऐ**, ऐमार्च **13:24 ऐ-25 ऐ**).
- च्या लूका दे श्रोता: सूरज, चंद्रमा, तारे ते सुर्ग दी शक्तियें च निशानें दे अलावा, गैर-यहूदी जातिएं गी जमीन उप्पर उलझन कन्ने परेशानी होग, ते समुंद्र ते लहरें दा गर्जना होगा
→ इस तर्हा, मर्दा दा ^{नं०444} दिल डर ते उमें चीजें दी उम्मीद कन्ने असफल होई जांगन जेहिडियां उप्पर औने आहियां न
दुनियां जिवें स्वर्ग दी शक्तियां हिल जांगना लूका ने दिन दे निशानें दा कियूं यां वर्णन कित्ता ऐ, इस उप् पर धू यान देओ
अप्रत्यक्ष तरीके कन्ने, पुरुषें दा बखान करदे होई ^{नं०444} दिलें गी, लूका दे दर्शकें गी पर्यवेक्षक दे रूप च स्थापित करदे होई (से
सुर्ग).

→ संदर्भ देना **प्रकाशितवाक्य 14:14 ऐ** “मनुख दे पुत्र दे आने” दे ब्यौरे आस्तै।

³⁷⁵ “[3] दानिय्येल दे 70 हफ्ते” दा संदर्भ लैओ।

ग. एहू केहू संकेत होग जे एहू सारी गल्लां (दानियेल दा 70वां हफ्ता) खत्म होई जांगन?

[मत्ती 24:14](#) ऐते राज्य दा ए सुसमाचार गवाही (गवाही) दे वास्ते सारे संसार विच प्रचार किता वेसी।³¹⁴² ऐ

सारे जातियें गी (गैर-यहूदी जातियें गी);¹⁴⁸⁴ ऐते उस बेले अंत आंगा।

→ यीशु ने अपने चेलें गी गू लाया के ओह निम्नलिखित लोगो गी उंदे कारें च डुबकी लान: “**मनुख दा पुत्र मनुखें दे हल्थ च सौपी जाग**” ([लुका 9:44](#) ऐ). रेमा उसलै तकर छिपे दा ऐ जिसलै तकर तुस इस लोगो गी नेई समझदे ते विश्वास करदे ओ, जेहड़ा मते सारे लोकें गी छिपे दा ऐ। कीहके जिस परमात्मा ने भेजेया ऐ, ओह बोलदा **ऐपरमात्मा दा रेमा**, पर मते सारे लोकें गी एहू नेई समझेया, ते उमेंगी पुच् छने दा डर बी हाथीशुकी क्या कि **rhēma** ऐ ([लुका 9:45](#) ऐ), ते उमेंगी डर हा के यीशु उमेंगी किय यां प्रगत होग, जिय यां के **आत्मा गी** ([मत्ती 14:26](#) ऐ).³⁷⁶

→ अन्त कब आणा **परमसरे दे राज दा सुसमाचार** (प्रिर्तों दे काम २८:३१) सारे गैर-यहूदी जातिएं (जेहू डे इस्राएल दे पुत्र नेई हे) गी गवाही देने आस् ते सारे संसार च प्रचार किता जंदा ऐ। लेकन जेके अन्त तकर सहन करदे न, उन्दा उद्धार होई जाग।³⁷⁷

- कदू भागना (संकट दे तुरंत बाद & महान संकट दी शुरुआत)

- ऐमुसीबत

[मार्च 13:18](#) ऐते तुस प्रार्थना करो के तुंदा पलायन (फरार हो जाओ)⁵³⁴³ ऐ ⁵⁴³⁷ ऐ में ना हो **जाड़ा दा**.

[मार्च 13:19](#) ऐकीजे उंनं दिनें च ²²⁵⁰ ऐ ²³⁴⁷ ऐ दुःख होंगे (**मुसीबत दा सामना करना**), ऐ ²³⁴⁷ ऐ

जिवें सृष्टि दे शुरू तों ही नहीं सी ²⁹³⁷ ऐ जिस परमात्मा ²³¹⁶ ऐ

इस समें तकर रचे दा ऐ, ते ना गै होगा।

- **एमसन्दक दे दर्शक:** प्रार्थना करो कि सर्दियें च तुस न भागी जाओ, कीजे उर्थें गै होग **मुसीबत** उंनं दिनें च, जि'यां सृष्टि दे शुरू थमां गै इस समें तकर परमात्मा ने पैदा कीता हा, ते ना गै कदें बी होगा।

→ मार्क दे दर्शक इस बारे च सुनदे **नकष्ट दा** जो महासंकट दे पहले सर्दियें च शुरू होग ([दान 9:27](#) ऐ).

- ऐ **जीreat कष्ट दा सामना करना**

[मत्ती 24:20](#) ऐपर तुस प्रार्थना करो के तुंदा पलायन (फरार हो जाओ)⁵³⁴³ ऐ ⁵⁴³⁷ ऐ में ना हो **जाड़ा दा**, ना ही पर **सब्त दे दिन**: 1।⁴⁵²¹ ऐ

[मत्ती 24:21](#) ऐकीजे तदू गै होग **बड़ी कष्ट**, ऐ ²³⁴⁷ ऐ

जिवें दुनिया दे शुरू तों ही नहीं सी ²⁸⁸⁹ ऐ इस समें तकर, ना, ना कदें बी होगा।

- **मैथ्यू दे दर्शक:** प्रार्थना करो के तुंदा पलायन जाड़े च ते ना सब्त दे दिन नेई होऐ, कीजे उर्थें गै होग **बड़ी कष्ट**, जिवें दुनिया दे शुरू तों ही इस वक्त तक नहीं होया, ना, ना ही कदे होवेगा।

→ मैथ्यू दे दर्शक भागने दे समें दे बारे च सुनदे **नबड़ी मुसीबत** जेड़ा सर्दियें दे बाद शुरू होई जाग, जिसलै मुसीबत खत्म होई जाग।

→ मनुख दा पुत्र फौरन बाद च औंदा ऐ **कष्ट दा**, जो की शुरुआत है **बड़ी कष्ट दा**.

मतलब जेड़े लोग रैप्चर दी घटना दे बाद जमीन उप्पर रेहंदे न, उमेंगी इस आस्ते तैयार रौहना चाइदा

भाग जाओ कीजे उसलै गै होंदा ऐ **बड़ी कष्ट दा** शुरू होंदा ऐ, जेहड़ा उसी सब्त दे दिन होग

स्याल ([मत्ती २४:२०-२१](#) ऐ).

<बड़ी मुसीबत>

(संकट दे तुरंत बाद)

³⁷⁶वीडियो 25, “एक कठिन कहावत (लोगो) 1/21”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-एक-कठिन-कहने-दे-लोगोस-देव-दे-कम्म/.

³⁷⁷वीडियो 10. ““फसह दी पर्व” दे दो दिन पैहलैं।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-दिन-पैहले-फसह-दे-त्योहार/.

D. एह गल्लां (प्रभु दा आना) कदू होंगन?

- ऐउजाड़ दी घृणित

[लूका 21:20](#) ऐते जदुं तुस यरूशलेम गी फौजें कन्ने घिरे दा दिखगो।⁴⁷⁶⁰ फिर जान लओ कि [ओह उजाड़ होना](#)²⁰⁵⁰ उसदा नेड़े ऐ।

[मत्ती 24:15](#) ऐजदुं तुस दिखगे [घृणित काम](#)⁹⁴⁶ आहला [उजाड़ होना](#), ऐ²⁰⁵⁰ दानिय्येल भविष्यवक्ता ने आख्या।
थांपवित्र में⁴⁰ थाहर, ऐ⁵¹¹⁷ (जो पढ़दा ऐ, ओह समझो।)

[मत्ती 24:16](#) ऐफिरी यहूदिया दे लोक फ्हाड़ें च भागना।

[मार्च 13:14](#) ऐलेकन जदुं तुस दिखगे [घृणित काम](#)⁹⁴⁶ आहला [उजाड़ होना](#), ऐ²⁰⁵⁰ दानिय्येल भविष्यवक्ता ने आख्या।

[खड़े होकर](#) जित्थें नेई होना चाहिदा, (पढ़ने आला समझन)

फिरी यहूदिया दे लोक फ्हाड़ें च भागना।

[लूका 21:21](#) ऐ फिरी यहूदिया दे लोक फ्हाड़ें च भागन;

ते जेड़े ओस दे बिच्च न, ओह उसी ([जम्मू एरूसालेम](#))⁸⁴⁶ [बाहर रवाना हो जाओ](#);

ते मुल्लें च रौहने आले उदे च नेई जाओ।

- [लूका दे दर्शक](#): जदू तुस फौजें दा घेराबंदी दिखवे ओ [यरूशलेम](#), जान लओ कि द... [उजाड़ होना](#)²⁰⁵⁰ नेड़े है।
[प्रभु परमात्मा](#) इस्त्राएल दा चुनेया [यरूशलेम](#) उदे नां ते दाऊद गी अपने लोकें दे शासक दे रूप च रखने आस् ते [इजराइल](#) (2Ch 6:6 ऐ)।³⁷⁸

→ इसलेई, [लूका 21:20](#) ऐदी व्याख्या इस चाल्ली कीती जंटी ऐ:

“जदू तुस फौजें गी यरूशलेम दा घेराबंदी करदे दिखवे ओ, इस्त्राएल दी राष्ट्र, जित्थे दा नां [प्रभु परमात्मा](#) ऐ,
जान लओ कि उजाड़ नेड़े ऐ.”

- [घृणित आकृति](#) (7 चीजां जिन्हां नाल प्रभु नफरत करदा है)

- 6 चीजां प्रभु नफरत करदा ऐ ([नीतिवचन 6:16-19](#))

[प्रो 6:17](#) ऐ (१) इक गर्व दा नजर (आख),⁵⁸⁶⁹

(२) इक झूठी जीभ, ते

(३) मासूम खून बहाने वाले हल्य,

[प्रो 6:18](#) ऐ (4) इक दिल जो कल्पना करदा है (शांति रखो)²⁷⁹⁰ दुष्ट (अधर्म)²⁰⁵ कल्पनाएं (विचार, गढ़ना),⁴²⁸⁴

(5) पैर जो बदमाशी (बुरी) च दौड़ने च तेज होन,⁷⁴⁵¹

[प्रो 6:19](#) ऐ (६) इक झूठा (झूठा)⁸²⁶⁷ आहजो झूठ बोलदा ऐ,³⁵⁷⁷ ते

- 7वीं गल्ल कि यहोवा नफरत करदा ऐ [इक घृणित गल्ल](#) आत्मा गी⁵³¹⁵ ([प्रो 6:19](#) ऐ)

[प्रो 6:19](#) ऐ (७) जो बोंदा है (भेजदा है)⁷⁹⁷¹ विवाद (झगड़ा)⁴⁰⁹⁰ भाइयां दे बीचा²⁵¹

→ घृणित आकृति दा इक वर्णन

घमंडी नजर वाली, झूठी जीभ वाली, मासूम खून बहाने वाले हल्य, अधर्म दा दिल जो

शांति बोलदा ऐ, पैर बुरे च दौड़ने च तेज, झूठ बोलने आला झूठा गवाह ते बोने आला

भ्राएं च विवाद जिंदा पिता परमात्मा ('[Elohim](#)) ऐ।

- ऐबदला लेने दे दिन

- [एमथ्यू दे दर्शक](#): जदुं तुस उस उजाड़ दी घृणित गल्ल लें गी दिक् खदे ओ, जिसी दानिय्येल नबी आस् ते गू लाया हा, तां पबित्तर थाहर च खड़ोई जाओ, तां जेका पढ़दा ऐ, उसी समझी लै, तां यहूदिया दे लोग फ्हाड़ें च भगदे होई जा।

- [मार्क दे दर्शक](#): पर जदुं तुस उस घृणित गल्ल गी दिक् खो, जेकी दानिय्येल नबी दे आस् ते जित् थें नेई चाईदा, उत्यों खड़ोती दी ऐ, (जेकरा पढ़दा ऐ, उसी समझी लैओ), तां यहूदिया दे लोक फ्हाड़ें च भागी जाओ।

- [एलूके दे दर्शक](#): मत्ती ते मरकुस दे उल्ट, लूका ने एह नेई गू लाया ऐ के "जदू तुस नबी दानिय्येल ने गल्ल लां उजाड़ दी घृणित गल्ल दिक् खदे ओ, तां पबित्तर थाहर च खड़ोओ (पढ़ने आला समझी लै)" पर एह गै गू लांदा ऐ के, जेके यहूदिया च हन पहाड़ें गी। फिरी आखदा ऐ, जेड़े यरूशलेम दे बिच्च न ([या गहर्च](#)) जाओ, ते जेके मुल्लें (यहूदिया दे इलाके ते यरूशलेम दे नगर) च नेई न, उदे च नेई जाओ।

³⁷⁸वीडियो 48. "8 दा हनुक्का" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-दे-भोज-8-हनुक्का/.

- ✓ **जम्मुdaea** – (इक पहाड़ी इलाका) संकीर्ण अर्थ च, यरदन ते मृत सागर दे इस पाससे पड़े दे फिलिस्तीन दे दक्षिणी हिस्से तक, इसगी सामरिया, गलील, पेराया ते इदुमिया थमां भेद करने आस्तै³⁷⁹
- ✓ **जम्मुerusalem** – यहूदिया दे पहाड़ें च पठार उप्पर बसे दा इक शहर

[मत्ती २४:१७](#) ऐजो चालू है उसे दे¹⁹⁰⁹ हाउसटॉप दा¹⁴³⁰ अपने घरै च कोई बी चीज कड्डने आस्तै नेई उतरो।
[मार्च 13:15](#) दीते (पर)¹¹⁶¹ उसे (नीचे आने दे)²⁵⁹⁷ जेड़ा घरै दे चोटी उप्पर ऐ, घरै च नेई उतरो;
 ना गै उदे घरै च कोई बी चीज कड्डने आस्तै उदे च जाओ।

[मत्ती 24:18](#) ऐना गै जेड़ा खेतर च ऐ⁶⁸ अपने कपड़े (परिधान) लेई वापस वापस आओ।²⁴⁴⁰
[मार्च 13:16](#) ऐते जेड़ा खेतर च ऐ, उसी दे⁶⁸ अपने कपड़े गी लेईये फिरि पिच्छें नेई मुडना।²⁴⁴⁰

[लूका 21:22](#) ऐकीजे इनें होन**बदला लेने दे दिन**, ऐ¹⁵⁵⁷ तां जे लिखी दी सारी गल्लां पूरी होई सकना।

- **मैथ्यू दे & मार्क दे दर्शक: 1।**
 - घर दे चोटी (नमाज दी जगह, **प्रेरितों दे काम १०:९**)¹⁴³⁰ अपने घरै च कुसै बी चीजै गी कड्डने आस्तै नेई उतरना।
 → मतलब अपने (पृथ्वी) घर च प्रार्थना करने आला कोई बी नेई, पर प्रभू दे घर च प्रार्थना नेई करैरुह
 ([मत्ती 21:13](#) ऐ) ते उद्धार पाने आस्तै अंत तक सहन करने आस्तै मसीह उप्पर अपना पूरा भरोसा रखो ([मत्ती २४:१३](#) ऐ)।
 - ऐकोई खेत में ना (**टीओह दुनिया, मत्ती 13:38** ऐ) वापस वापस आ के अपना कपड़ा लेन (कपड़े होन)¹⁷⁴⁶।
 → मतलब, संसार च कोई बी अपने शारीरिक कपड़े पाने आस् ते वापस नेई लौटी जा, बल् कि मसीह दे कपड़े पाने आस् ते
 ([गलाती 3:27](#) ऐ)। दूजे शब्दां एच, तुस्सां थोड़ी देर एच अपणेह शरीर कू छोड़ डेसो ताकि अनन्त जीवन पावण किते मसीह कू पाओ।
- **एलुके दे दर्शक:** कीहके ए बदला लेने दे दिन न, कि जेड़ी लिखी दी सारी गल्लां पूरी होना।

[मत्ती २४:१९](#) ऐते उनें दिनें च गर्भवती ते दुद्ध देने आलें उप्पर हाय !

[मार्च 13:17](#) ऐलेकन उन दिनें च गर्भवती ते दुद्ध देने आलें उप्पर हाय !

[लूका 21:23](#) ऐलेकन उनें दिनें च गर्भवती ते दुद्ध देने आलें उप्पर हाय !

की वे ज़मीन (जमीन) च बड़ा विपत्ति होगा।¹⁰⁹³ ते क्रोध³⁷⁰⁹ इस लोके उप्पर।

- **मत्ती, मरकुस & लूका दे दर्शक:** उनें दिनें च गर्भवती जनानियां (दासी, जिनेंगी सांसारिक बच्चें दा गर्भ धारण कीता हा) ते जेहड़े³ बच्चें गी दूध पिलादे न (कानून दे तैहत मांसल बच्चें गी दूध पिलादे न) दा हाय
- **लूका दे दर्शक:** जफ जभीन नय फडी नीड़ा औय क्रोध आमेगा, तो जो कानून के अधीन शैं, लश नशीं बची।

[लूका 21:24](#) ऐतः किनारा(मुंह) नाल डिग्गी जांगन⁴⁷⁵⁰ तलवार दा,³¹⁶² ऐ
 ते सारे जातियें च (गैर-यहूदी जातियें च) कैद करी दित्ता जाग।¹⁴⁸⁴ ऐ
 ते यरूशलेम गैर-यहूदी (गैर-यहूदी) दे द्वारा रौंद दित्ता जाग।¹⁴⁸⁴ ऐ
 गैर-यहूदियां दे समें तक, ¹⁴⁸⁴ पूरा हो जाओ।

- **लूका दे दर्शक:** ओह तलवार दे मुंह (प्रभु यीशु मसीह दे मुंह तों निकलने आली रेमा) दे मुंह नाल गिर जांगन।**प्रकाशित 1:16** ऐ), ते सारे गैर-यहूदी जातियें च बंदी बनाईये लेई जाडन, ते यरूशलेम (जमीन उप् पर कलीसिया) गैर-यहूदी जातियें दे रौंदे हन, जतुं तक गैर-यहूदियें दा समां पूरा नेई होई जंदा।
 → फिर [मत्ती 21:21-24](#) ऐ, यीशु ने भविष्यवानी कित्ती**बदला लेने दे दिन** जो लिखे गए हैं तो होना चाहिये
 पूरा हो गया, जो में पूरा हो जावेगा**प्रभु दा दिन** च**प्रकाशितवाक्य 19:2**।

³⁷⁹ ¹ [ज्2449 - ioudaia](#) - मजबूत दा ग्रीक कोश (kjv) ¹ नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 9 मार्च, 2023।
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2449/kjv/tr/0-1/ऐ>।

- ऐचुने हुए के लिए दिन छोटे होंगे

मत्ती 24:22 ऐओय उन को छोड़कय ¹⁵⁶⁵दिन ²²⁵⁰ने छोटा कर देना चाहिदा, ऐ ²⁸⁵⁶कोई मांस नेई होना चाहिदा ⁴⁵⁶¹उद्धार हो जाओ: 1।

लेकन चुने दे लोके आस्ते ¹⁵⁸⁸ने सिवाय उनें गी ¹⁵⁶⁵दिन ²²⁵⁰ने छोटा कर दिता जायगा ²⁸⁵⁶रे

मार्च 13:20 दीओय उसदे अलावा ²⁹⁶²छोटा हो गया था ²⁸⁵⁶उनें दिनें च कोई बी शरीर दा उद्धार नेई होना चाईदा।

लेकन चुने गेदे लोके आस्ते; ¹⁵⁸⁸ने जिसी उने चुनेया ऐ, ऐ ¹⁵⁸⁸ने उसने छोटा कर दिता ऐ ²⁸⁵⁶दिनें ²²⁵⁰ने

→ महासंकट दे संत लोके दे दिन घट्ट होई जांगन, कीजे उनें गी 7 तारीख गी रप्चर कीता जाग

तुरही बजाने आली ऐ, ते साद्दा प्रभु ते उदा मसीह इस संसार दे राज गी बहाल करडन

(प्रकाशित 11:17 ऐ, ऐप्रकाशितवाक्य 19:1-7 ऐ).³⁸⁰

Great Tribulation				Armageddon
h week	Daniel's 2nd half of 70th week			
his brethren, Rev 1:9)	Abomination (AOD)		The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)
	250 days		790 days	250 days
The times of the Gentiles				
The transgression of desolation (Dan 8:13)	220 days	30 days	790 days	220 days 30 Days
	The holy saints & the host trodden under foot (Dan 8:13)			shortened
	(The 1st Rapture)		The opening of the 1st to 5th seal	250 Days shortened Unless those days were shortened, no flesh would be saved; but for the elect's sake those days will be shortened. (Mat 24:22)
The brides (the wise virgins), who are marked at the opening of the 1st seal, will be raptured at the coming of the Son of man (Rev 6:1-2). The Son of man will come at an hour you do not expect (Luk 12:40).			The 6th seal opens (The wrath of the Lamb)	
			The opening of the 7th seal (the 7 trumpets) The 1st - 4th trumpet	
			The 5th trumpet (1st owe, hurt men for 5 mo)	
			The 6th trumpet (2nd owe)	
		1/3 of men killed (the hour/day/month/year)		

- ऐसी [3] डैनियल दे 70 हफते थमा" अप्चर कीता गेआ।

→ उजाड़ दे घृणित (एओडी) दी शुरुआत थमां लेइयै आरमागेडोन दे अंत तक 1,290 दिन (220 + 30 + 790 + 220 + 30 दिन) न, फिरी दानिय्येल दे 70वें हफते दा दुआ आधा हिस्सा खत्म होई जागा।

→ दानिय्येल दे 70वें हफते (या महान संकट दे दिन) दे आखरी 250 दिन (30 + 220 दिन) गी... 250 दिन दा (220 + 30 दिन दा) लेई प्रभु दा चुने।

- **एमएथ्यु दे दर्शक:** जदू तक ओह दिन (महान संकट दे दिन) घट्ट नेई होई जांदे, तां कोई बी मांस नेई बची सकदा; पर चुने गेदे लोके (पवित्र संते, जां मूर्ख कुंवारीएं) आस्ते महान संकट दे दिन घट्ट होई जांगन।
- **एमसन्दूक दे दर्शक:** सिवाय इसदे प्रभु उनें दिनें गी (महान कष्ट दे दिनें गी) घट्ट करी दिता हा, तां कोई बी मांस नेई बची सकदा हा; पर उदे चुने दे लोके दी खातिर, जिनें गी प्रभु चुनेया हा, तां महान संकट दे दिन घट्ट होई जांगन।
→ प्रभु जी उदे चुनेदे (या मरकुस दे श्रोताएं) आस् ते औगा।
- **एलुके दे दर्शक:** उल्लेख नेई कीता गेदा (जिय्यां के ओह मनुख दे पुत्र दे औने दे बा'द गै होई गेदे हन)।

ई. एह गल्लां (मनुख दे पुत्र दा आना) कदू होंगन?

1 144,000 (The coming of...) दे वास्ते 1 वी रैप्चर मनुख दा पुत्र)

→ संदर्भ देना प्रकाशितवाक्य 14:14 ऐविस्तार कनै जानने लेई।

- मनुख दे पुत्र दे आने आस्ते दिन & घड़ी अनजान न

मत्ती 24:34 ऐमें तुसें गी सच्च आखना ऐं, जद तक एह सारी गल्लां पूरी नेई होई जांगन, तदू तक एह पीढ़ी नेई बीती जागा।¹⁰⁹⁶रे

मार्च 13:30 बजेमें तुसें गी सच्च आखना ऐ जे एह पीढ़ी उसले तक नेई बीती जायगा, जदू तक एह सब किश नेई होई जायगा।¹⁰⁹⁶रे

लुका 21:32 ऐमें तुसें गी सच्च आखना ऐं, जदू तक सब किश पूरा नेई होई जाग, तदू तक एह पीढ़ी नेई बीती जागा।¹⁰⁹⁶रे

- **मैथ्यु दे दर्शक:** ए (दूई कुंवारी, जेड़े इस्त्राएल दे पुत्र नेई न) पीढ़ी उसले तक नेई गुजरी जाग, जदू तक एह सारी गल्लां नेई होई जांगन।

³⁸⁰समें दी रेखाएं आस्ते, "[3] डैनियल दे 70 हफते" दिखो।

- **मार्क दे दर्शक:** एह (मूर्ख कुंवारी, जेड़े इस्त्राएल दे पुत्र न) पीढ़ी उसलै तकर नेई गुजरी जाग, जदू तकर एह सारी गल्लां नेई होई जांगना
- **लूका दे दर्शक:** इस (बुद्धिमान कुंवारी, जो हैंमसीह दे पैहले फल) पीढ़ी उसलै तकर नेई बीती जाग जिसलै तकर इस्त्राएल दे पुत्र आस्तै परमात्मा दी मर्जी धरती उपर शापित धरती उपर नेई होई जंदा तां जे तुं दे लोके इस्त्राएल गी पवित्र धरती उपर लेई औन जि'यां सुर्ग च ऐ³⁸¹
- † **मसीह दे पैहले फल** उन जिन्हें गी परमेसरे मिस्र थवां छुड़ाया ऐ, जेके आने आले बड्डे समें आस् ते दाऊद दे घरे दे हन, ओह कुंआरियां न, परमेसरे ते मेम्ने दे पैहले फल न, इस्त्राएल दे पुत्र दे सारे गोत्रें दी गिनतरी ऐ, जिनेंगी मुहर लाया गोदा ऐ। उंदे मर्थे उपर इक मेमने दे पिता दा नां लिखे दा हा, ते सिंहासन दे सामने इक नमां गीत गांदे हे, जेड़े जमीन थमां छुड़ाई गेदे हे³⁸²

मत्ती 24:35 ऐआकाश ते धरती (जमीन)¹⁰⁹³ बीती जाह्य, पर मेरा वचन (लोगो दा)³⁰⁵⁶ ना गुजरेगा।
मार्च 13:31 दीआकाश ते धरती (जमीन)¹⁰⁹³ बीती जाह्य, पर मेरा वचन (लोगो दा)³⁰⁵⁶ ना गुजरेगा।
लूका 21:33 ऐआकाश ते धरती (जमीन)¹⁰⁹³ बीती जाह्य, पर मेरा वचन (लोगो दा)³⁰⁵⁶ ना गुजरेगा।

- **मत्ती, मरकुस, & लूका** दे दर्शक: दुनिया (आकाश ते जमीन) जो आसीं हुण वेखदे हां, ओह हैलोगो दा. अग दे वास्ते आरक्षितअभक्त मनुखें दे न्याय ते नाश दे दिन दे खिलाफ। इस आस् ते न्याए दे दिन अभक्त मनुखें आस् ते दिक् खे गेदे लोगो बी चली जाडन, पर जेके ग्रहण करडन, उंदे आस् ते सिद्ध होई जाडन **परमात्मा दा रेमा**.³⁸³
- † **चइफिसियों 5:31 ऐ**, "एक आदमी (अश्रोपोस)"⁴⁴⁴ दास दे मांस दे आदमी दा मतलब ऐ जिसदे कोल ऐलोगो दाआहलाईश्वरमनुख दे पुत्र दे जरिए, ते इस चाल्ली उसी अपने पिता ते मां गी छोड़िये अपनी मुक्त जनानी (जिस च ऐजीवनचमसीह) तां जे ओह दे शरीर (हड्डी ते मांस) कनै जुडन **मसीह**. इस करिए उन लोके दे कम्मं गी जेहड़े रोटी कनै जींदे रेह (लोगो दा) अकेले (शरीर विच), ते नेई **रेमा** दाकि दे मुंह तों बाहर निकलदा हैईश्वर (आत्मा विच), जली जांगन ते अग नाल नुकसान उठानगे (उन्हां दा उद्धार होवेगा, फिर वी उवें हीअग)।

मत्ती 24:36 ऐपर उस दादिनतेघैंटाकुसे गी नेई जानदा, ना, सुर्ग दे सुर्गदूत नेई, पर सिर्फ मेरे पिता।
मार्च 13:32 दीपर उस दादिनते किघैंटाकुसे गी नेई जानदा, नेई,
 ना कि सुर्गदूत जो हैंच¹⁷²² सुर्ग, ना पुत्र, पर **पिता जी**.

- **मैथ्यू दर्शक:** पर कोई पता नहीं **दिन दातेघैंटा**, स्वर्गदूत भी नहीं **आहला** स्वर्ग, पर सिर्फ उंदा गैबापू.
- **मार्क दे दर्शक:** पर कोई पता नहीं **दिन दातेघैंटा**, स्वर्गदूत नेई **चसुर्ग**, **ना ही पुत्र**, पर **पिता जी**.
- **लूका दे दर्शक:** उल्लेख नहीं कीता (जिवें ओह उस वेले तक रेप्चर हो चुके हन)।

† ध्यान रक्खो जे सुर्गदूत **"आहला"** मत्ती दे श्रोताएं आस्तै स्वर्ग, जदके सुर्गदूतें ते... **परमात्मा दा पुत्र** **"च"** मरकुस दे दर्शकें आस्तै स्वर्गी इस करिए ऐ के जिनेंगी हासल करने दे काबिल मन्नेआ जंदा ऐ **अनंत काल दा नपरमात्मा दे पुत्र**, होआ करदा **जी उठने दे पुत्र**. इस चाल्ली, ओह फी नेई मरी सकदे हन, कीजे ओह "स्वर्गदूतें दे बराबर" हन तांजे ओह अपने आप बी **"च"** सुर्गआध्यात्मिक नजरिये से (**लूका 20:35-36 ऐ**).

इकुरियियों १५:१२ अब अगरमसीहप्रचार किता जा कि ओह मरे दे विचों जी उठया।

तुं दे च किश लोग किस चाल्ली ग् लादे न के मरे दे जिंदा नेई होई सकदा ?

† जेकर तुस आकाश दे चेहरे गी समझी सकदे ओ तां तुसेंगी मौसमें दे निशानें गी समझने च समर्थ होना चाहिदा, सिवाय मनुख दे पुत्र दे औने दे दिन जां घड़ी दे (**लूका 12:56 ऐ**).³⁸⁴

मत्ती 24:37 ऐलेकन जिय्यां नूह दे दिन हे, उय्यां गै आने दा बी होग **मनुख दा पुत्र** होना.

मत्ती 24:38 ऐकी वे जलप्रलय कोला पैहले दे दिनें च ओह खांदे-पींदे हे।

ब्याह ते ब्याह च देना, उस दिन तकर जिस दिन नूह जहाज च दाखल होई गेआ, ऐ

³⁸¹वीडियो 19. "पृथ्वी & जमीन" www.therhemaofthelord.com/course1/पृथ्वी-जमीन/.

³⁸²वीडियो 18. "3. पैहले फल (द 144,000)" www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-पहले-फल-द-144000/.

³⁸³video 44, "(The logos & the rhema) आखरी दिनें च (2 पतरस 3) 1/2" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

³⁸⁴वीडियो 8. "इस्त्राएल दे पुत्रें आस् ते परमेसरे दे सत्त पवी" www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-द-सत्त-भोज-इजराइल-जीस-दे-पुरुष-बच्चे-सो-तो-प्रभु/.

मत्ती 24:39 एते जदुं तकर जल-प्रलय नेई आई ते उनेगी सारें गी नेई लेई गया;

इसी तरह दा आना भी होग**मनुख दा पुत्र** होना.

- **मैथ्यू दे दर्शक:** जदुं नूह जहाज च दाखल होया, तां परमेसरे दे पुत्रों मनुखें दी धीए गी दिक् खेया^{प120} के ओह भले हन, ते जे किश उनेगी चुनेया हा, उदे च उनेगी घरेआली बनाई लेता।³⁸⁵जिय्यां नूह दे दिनें च "दूई कुडियां" मनुखें दी धीए कनै खाइयै पींगन, ब्याह करडन ते मनुखें दी कुडियां कनै ब्याह करडन, ते जदुं तकर जल-प्रलय नेई आई जा ते उनेगी सारें गी नेई लेई जाओ, तां तकर उनेगी नेई पता लग्गी जाग। मनुख दे पुत्र दा आना बी उय्यां गै होग।
- **एम्सन्दक दर्शक:** उल्लेख नहीं कीता। मूर्ख कुंवारी जमीन उपपर गै छडी जांगन, पर पवित्र आत्मा उदे उपपर औगा
- **लूका दे दर्शक:** उल्लेख नहीं कीता। ज्ञानी कुडियां पैहें गै रप होई चुकी दियां न कीजे ओह मरी नेई सकदियां कीजे ओह सुर्गदूतें दे बराबर ना

- ऐलोगो & रेमा दे खिलाफ निंदा

मत्ती 24:40 ऐफिरी दो खेतर च होंगन;^{¶68}इक (पकड़े तों) ले जावेगा^{¶2983} ऐ, ऐ^{¶3880} ते दूजा छड्डी गया।^{¶863}

लूका 17:36 ऐदो मनुख खेतर च होंगन;^{¶68}इक (पकड़े तों) ले जावेगा^{¶2983} ऐ, ऐ^{¶3880} ते दूजा छड्डी गया।^{¶863}

➤ दो चोरों गी यीशु दे बगल च सुली च चढ़ाया गेआ³⁸⁶

इक दादो चोरे (या अपराधी) जेड़े यीशु दे बगल च सुली उप् पर चढ़े गेदे हे, दूए अपराधी गी डांटदे न, ते एह ग् लादे न के, "केह तुस परमेसरे दा डर नेई करदे, के तुस उदे फैसले दे अधीन ओ, कीजे ए जानदे ओ के असेंगी अपने कम् में दे काबिल गैर-धर्म दा इनाम मिलदा ऐ, पर एह मानू (धर्मी यीशु) ने कोई बुराई नेई कीता।"

→ **१योह २:१**रिकार्ड करदा ऐ, यीशु मसीह "धर्मी,"^{¶1342}इस तहाँ उस चोर ने सुली ते दूजे नू डांटया

जानदा हा के यीशु उदे बगल च लटकदा यीशु मसीह ऐ (**मत्ती 16:20** ऐ). इस दुष्ट गी जानकारी ही

परमेसरे, इस आस् ते उदे डरे ते धरमी आस् ते जागदा होई गया (**१कुरिन्थियों १५:३४**).

→पर, यीशु दे उप् पर गड़बड़ी करने आला बदमाश परमेसरे दी धार्मिकता गी नेई जानदा हा (**२कुरिन्थियों ५:२१**), इसलेई

आखया, "जेकर तू मसीह ओ तां अपने आप गी ते असेंगी बचाओ," इस आस् ते ओह पैहलें गै जमीन थवां उप् पर न्याय कित्ता गेदा हा। एह दुष्ट मूर्ख हा कीजे उसी ज्ञान दी कमी ही ते इस करी ओह प्रभु कोला डरदा नेई हा।

भगवान को डरने वाला दुष्ट, अपने बगल च लटकदे यीशु गी आखया, "प्रभु,^{¶2962}जदुं तू अपने राज च औगे तां मिगी याद करा"^{¶932} (**लूका23:42** ऐ). भले ही दो अपराधियों च इक ने यीशु गी क्रूस उप् पर निंदा कित्ता, पर दुए अपराधी गी डांटने आला ने इस गल् ला गी "विश्व वास" कित्ता**यीशुऐमसीह गी, ऐपरमातमा दा पुत्र, ते उंदीनाथ.** संभव हे कि दो अपराधी यीशु कू स्वीकार किते सी, हुदे कू यीशु कू मारन दी कोशिश करण आले दी नजर एच अपराधी बणा डेंदे हेन ते एन्दा किते यीशु दे बगल एच क्रूस उते कील ठोक डीने गो। यीशु दे खिलाफ गाली देने आला अपराधी उसी लोगोस (या मनुख दे पुत्र) दे रूप च जानदा हा, पर दुआ अपराधी यीशु गी रेमा दे रूप च जानदा हा, ते इस चाल्ली यीशु गी मसीह, परमात्मा दे पुत्र दे रूप च विश्वास करदा हा।

उसी तरह यीशु अपने पिता ते परमेसरे दे कश चली गया, ते परमेसरे मरियम मगदलीनी आस् ते पिता ते परमेसरे बनी गया**यूहन्ना 20:17** च, परमेसरे बी दुष्ट दा पिता ते परमेसरे बनी जंदा ऐ, जेका विश्व वास कन् ने विश्व वास करदा हा के यीशु गै मसीह ऐ जेका अपने पिता, अपने परमेसरे दे कश चली जंदा ऐ।**लूका 23:42** ऐ("प्रभु, जदुं तुस अपने राज च औगे तां मिगी याद करो") दी व्याख्या इस चाल्ली कीती जंदा ऐ: "प्रभु, मैं विश्वास करना जे तुस यीशु मसीह, परमात्मा दा पुत्र ओ, ते तुस अपने पिता ते मेरे पिता ते अपने कोल चली जागे परमातमा ते मेरे परमातमा। इस आस् ते जदुं तुस अपने राज च औगे, तां मेरे विश्व वास गी याद करो।"**लूका23:43** ऐयीशु ने उसी आखया, "मैं तुगी सच आखना ऐं, अज्ज तू मेरे कन्ने घरे च रौहगसुरा."

यीशु दा मतलब एह गै हा, जदुं उन् ने ग् लाया हा, "तब दो खेतों च (दुनिया,**मत्ती 13:38** ऐ);^{¶68}इक गी लेई जाह्य, ते दूआ छोड़ी दिता जाग (**मैट24:40** दे)।" दूजे शबदां एच, जो पवित्र आत्मा (या रेमा) कू ग्रहण करण तां इन्कार करेंदे हेन, ते "विश्वास" काहनी करेंदे कि यीशु मसीह हे (या मसीह,**इ१:४१** ऐ), परमातमा दा पुत्र,**न**पहले ही न्याय कित्ता ते अपना उद्धार गवाया (**इ२0:31** ऐ), इस आस् ते ओह उंदे राज च दाखल नेई होई सकदे।

→ **लूका12:10** दीजो कोई इक वचन बोले (**लोगो दा**)^{¶3056} खिलाफ**मनुख दा पुत्र**= उसी माफ कीता जाह्य:

लेकन पवित्र आत्मा दी निंदा करने आले गी (**रेमा दा**) = माफ ना होवेगा।

³⁸⁵वीडियो 21. "वादा, बाहर दा खतना, अंदर दा खतना।"

www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-वादे-बाहर-खतना-अंदर-खतना/.

³⁸⁶"[चित्र 10-ख], "जां वीडियो 38 गी दिक्खो, "यीशु दे बगल च सुली च चढ़े गेदे दो चोरा।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-यीशु-दे-सुली-च-चढ़ाने-दे-दो-चोरों-गी-यीशु-दे-बगल-च-सुली-च-चढ़ाया-गेआ/.

The two thieves crucified next to Jesus

Luk 19:18 Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.

→ The two were referred to as **thieves** 63027 and **malefactors** 62557. **why?**

There were **two thieves** 63027 crucified with Jesus on the cross, one on the right hand, and another on the left (Luk 23:33).

• These **two malefactors** 62557 led with Jesus to be put to death (Luk 23:32).

• They that were crucified with him **reviled** 39079 him (Mar 15:32).

Conversation between the two malefactors

• And one of the malefactors 62557, which were hanged, **railed** on him, saying, **If thou be Christ save thyself and us** (Luk 23:39).

• **But the other answering rebuked** him, saying, **Dost not thou fear God, seeing (that) 13154 thou art in the same (his) 6346 condemnation (judgment) 23217** (Luk 23:40).

• **And we indeed justify (righteously) 6148 for we receive the due reward (warranty) 6514 of our deeds, but this man 6370 hath done nothing amiss** 6824 (Luk 23:41).

→ One malefactor rebuked the other malefactor, saying, "Do you not fear God, that you are under his judgement, knowing that we indeed receive the un-righteous reward worthy of our deeds, but this man (righteous Jesus) has done nothing amiss." (regarding "The reward of unrighteousness," refer to video 37, "The field of blood (A possession)")

Justly (righteously) 6148

- An adverb from **ἰσχυρός**, or **righteous** 6142

1Jo 2:1 "If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous."

→ 1Jo 2:1 records, **Jesus Christ is "the righteous"** 6142; thus, the thief who rebuked the other on the cross knew that Jesus hanging next to Him was **Jesus the Christ** (Luk 16:20).

→ This malefactor had knowledge of God, therefore feared Him, and was awoken to **righteousness** (1Co 15:34).

Jhn 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

Jhn 3:17 For God sent not his Son into the world to condemn (judge) 2319 the world; but that the world through him might be saved.

Jhn 3:18 **He that believeth on him is not condemned (judged) 6333**; but **he that believeth not is condemned (judged) 6333 already**, because **he hath not believed in the name of the only begotten Son of God**

(Pro 17: The fear of the Lord is the beginning of knowledge; but fools despise wisdom and instruction (Pro 12:15 The way of a fool is right in his own eyes)

→ However, the malefactor who railed against Jesus did not know the righteousness of God (2Co 5:21), thus said, "If thou be Christ, save thyself and us," therefore, he was already judged above the ground.

→ This malefactor was a fool because he lacked knowledge and therefore did not fear the Lord.

The malefactor who feared God, said unto Jesus hanging next to him, "Lord 6265 remember me when thou comest into thy kingdom." 6332 (Luk 23:42)

Even though one of two malefactors reviled Jesus on the cross, the one who rebuked the other malefactor, "believed" that Jesus is the Christ, the Son of God, and His Lord.

• In the same way that Jesus ascended to His Father and God, and God became the Father and God for Mary Magdalene in John 20:17, God will become the Father and God of the malefactor, who by faith believed that Jesus will ascend to His Father, His God.




Luk 23:42 is therefore interpreted as follows:

• Luk 23:42 **Lord, remember me when thou comest into thy kingdom."**

• Luk 23:43 And Jesus said unto him,

"Lord, I believe you are Jesus Christ, the Son of God, and that you will ascend to your Father and my Father, and to your God and my God. Therefore, remember my faith, when you come into your kingdom."

"Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise."



The Lord's prayer
And lead us not into temptation, but deliver us from evil (Mat 6:13)

It is possible that the two malefactors acknowledged Jesus, making them malefactors in the eyes of those seeking to kill Jesus, and thus they were nailed to the cross next to Jesus.

→ The malefactor who railed against Jesus knew Him as the logos (or the Son of man), but the other malefactor knew Jesus as the rhema, and thus believed Jesus as the Christ, the Son of God.

→ This is what Jesus meant when he said, "Then shall two be in the field (the world, Mat 13:39), one shall be taken, and the other left (Mat 24:40).

Luk 12:10 Whosoever shall speak a word (logos) 6306 against (the Son of man) = it shall be forgiven him; but unto him that blasphemeth 6337 against (the Holy Ghost (rhema)) = it shall not be forgiven.

→ In other words, those who refuse to receive the Holy Spirit (or the Rhema), and do not "believe" that Jesus is the Christ (or the Messiah, Jhn 1:41), the Son of God, will be judged (cannot be saved, Jhn 20:31), not can they enter His kingdom.

मत्ती 24:41 ऐदो जनानियां पीसने होंगी³²⁹चक्की च;³⁴⁵⁹ ३

इकले जावेगा (पकड़े तों²⁹⁸³ ३), ऐ³⁸⁸⁰ते दूजा छड्डी गया।

लूका 17:35 ऐदो जनानियां पीसने होंगी²²⁹किट्टे;

इकले जावेगा (पकड़े तों²⁹⁸³ ३), ऐ³⁸⁸⁰ते दूजा छड्डी गया।⁸⁶³

- चक्की दा मूल शब्द (जी3459 ऐ)चक्की दा पत्थर ऐ (, μύλος,जी3458 ऐ), “इक बड्डी चक्की च दो पत्थर होंदे हे, इक उप्परा ते इक थल्ले; निचला पत्थर स्थिर हा, पर ऊपरी पत्थर गी गधे ने घुमाया हा, जिस थमां चक्की दा पत्थर (μύλος) दा नां रखेआ गेआ³⁴⁵⁸ ३)” ऐ।³⁸⁸

टीओह परमात्मा दी इमारत दी नीह् ऐयीशु मसीह(१कुरिन्थियों ३:१-११) जो निचले स्थिर पत्थर (लोगो दा), ते ऊपर दा पत्थर जेड़ा जिंदा पत्थर च बदली जंदा ऐरेमा दा. जेड़ा इसाएल दे समान व्यवस्था दे कम्मं गी तुपदा ऐ जेड़ा विश्वास च नेई ऐ, ओह उस टोकर दे पत्थर उप्पर टोकर खाग, पर जेड़ा विश्वास दे धार्मिकता दे नियम दे कम्मं दी तलाश करदा ऐ, ओह धार्मिकता गी हासल करग।³⁸⁹

- प्रेरित पौलुस ने रोपयापरमात्मा दे लोगो तुहाडे विच, ते इक परिपक्व मसीही ने उस नू पानी दिता (परमात्मा दे लोगो+ पानी = इक), पर परमेसरे (जेका तुंदे खाने आस् ते रोटी दी सेवा करदा ऐ) बधदा ऐलोगो दाद्वारा तेरे में बोया गयामनुख दा पुत्रते तुंदी धार्मिकता दे फल उगदा ऐ (यारेमा दा).³⁹⁰

→इस आस् ते जेकर कुसे दा कम्म टिकदा ऐयीशु मसीह(राहेंविश्वास), उसी इक धर्मा मनुख दा इनाम मिलग (१कुरिन्थियों ३:१३-१५, ऐमत्ती 10:41 ऐ). लेकन जेकर कुसै दा कम्म जली जा, तां उसी अग दे समान बचाई लैने पर बी उसी नुकसान होग।

† मुंह तों निकल के रेमा दे नाल जीण वाले दे कम्मईधर, जिय्यां ओह आत् मा दे मताबक जींदे हे, उंवां गै जली नेई जाडना पर जेहडे लोक सिर्फ मांस दे मताबक रोटी (लोगोस) कन्ने गै जींदे हे, उंदे कम्मं च जली जाग ते इसदे कन्ने गै नुकसान होगअग, पर उंनेगी बचाया जाग, फिरी बी उंवां गैअग.

१कुरिन्थियों ३:१४जेकर कुसे दा कम्म जेड़ा उदे उप्पर बणाया ऐ, ते उसी इनाम मिलग।³⁴⁰⁸ ३

१कुरिन्थियों ३:१५जेकर कुसै दा कम्म जली जा, तां उसी नुकसान होग।

लेकन ओह खुद उद्धार पाग; फिरी बी अग दे जरिए इय यां गै।

→इस आस् ते जेड़े दोऐं गी धरमी बनाया गेदा हा, उंदे चा इक गी पकड़ी लैता जाग, ते दुआ पिच्छें रेई जाग

(रोम 5:19 ऐ).

स्वर्ग दा राज:निचले पत्थर (यीशु मसीह, लोगोस)³⁹¹

- मैथ्यू च: पीसने दा मूल शब्द (स्ट्रॉन्ग दाजी229) खाना ऐ (स्ट्रॉन्ग दाजी224 ने ती)
- मैथ्यू दे दर्शकें गी इसदे बारे च पता लगदा ऐलोगो दाजमीन पर, जो गवाही देती हैआत्मा गी, ऐपानी दा, तेखून दा.
- ऐमत्ती 13:33 ऐइक होर दृष्टांत उन्दे कन्ने आखया;

स्वर्ग दा राजखमीर दे समान ऐ, जिसगी इक जनानी ने लेई लेया,

ते त्रै नाप आटे च छिपी गया।²²⁴ ३ ३जदू तकर सारा खमीर नेई होई गेआ।²²²⁰ ३ ३

१जोह ५:८ते त्रै वी हन जो रिकार्ड(गवाह) वी हन³¹⁴⁰धरती विच (मदान), ऐ¹⁰⁹³ ३

आत्मा गी, तेपानी दा, तेखून दा: ते एह त्रै सहमत न (होंदे न)¹⁵²⁶ ३ ३इक में

परमात्मा दा राज:टीओह ऊपरी पत्थर (पिता, रेमा)³⁹²

- लूका च: चक्की³⁴⁵⁹ ३ उल्लेख नेई कीता गेदा ऐ एह उप्परला पत्थर ऐ जेहड़ा सुर्ग च गवाही दिंदा ऐ।
- एलूके दे दर्शक दे बारे च जानदे नेरेमा दास्वर्ग दा, ऐजितगवाही देता हैपिता जी, ऐलोगो दा, तेपवित्र आत्मा गी.
- ऐलूका 13:20 ऐफिरी उन आखया, “में किस दी तुलना करां।”परमात्मा दा राज?
- ऐलूका 13:21 ऐएह खमीर दे समान ऐ, जेहड़ा इक जनानी ने लेइयै त्रै नापें च छुपाया हा।²²⁴ ३ ३
जदू तकर सारा खमीर नेई होई गेआ।
(१जो 5:7 ऐकीजे त्रै ऐसे न जेहड़े गवाही दिंदे न³¹⁴⁰चसुरा, ऐ

³⁸⁸ G3458 - mylos - मजबूत दा ग्रीक शब्दकोश (kjv)। नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 9 मार्च, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3458/kjv/tr/0-1/> ऐ।

³⁸⁹वीडियो 41. “परमेसर गी स्वीकार्य होने आस्ते प्रभु च बधो”, & वीडियो 47, “7. तम्बू”,www.theRhemaOfTheLord.com पर ऐ।

³⁹⁰वीडियो 41. “परमेसर गी स्वीकार करने आस्ते प्रभु च बधी जाओ।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-भगवान-दे-भगवान-चल-बढ़ना/.

³⁹¹वीडियो 13. “शब्द (लोगोस & रेमा)।”www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा-दा-चरदान/.

³⁹²वही।

पिता जी, ऐवचन दा(लोगो दा), तेपवित्र आत्मा गी: 1।

ते एहू त्रै सहमत न (होंदे न) ¹⁵²⁶इक.)

- † **परमातमा दा राजनंगी अकखीं कन्नै नेई दिक्खेआ जाई सकदा कीजे एहू तुंदे अंदर ऐ, इस करी तुसं गी (उंदी महिमा दे चश्मदीद गवाह दे तौर उप्पर), सादी शक्ति ते औने दा प्रचार करना पौगप्रभु यीशु मसीह (रपतरस १:१६).**³⁹³

१करिन्थियों ११:२६कीहके जदुं बार तोहे ए रोटी खांदे हो ते ए प्याला पींदे हो।

तुस दस्सोप्रभु दामौतजब तक ओह आ जावे.

- आने आली चीजें थमां बचने दे काबिल समझे जाओ

मार्च 13:33 दीध्यान रखो (देखो), ऐ ⁹⁹¹ते दिक्खो ⁶⁹ते प्रार्थना करो: ⁴³³⁶की वे तुस नेई जानदे के कदू समां औग ²⁵⁴⁰ऐ.

मार्च 13:34 दीकीहके मनुख दा पुत्र उस मनुख दे समान ऐ जेड़ा दूर जाइयै अपने घरे गी छड्डी गेदा ऐ।

और अधिकार दे दिया ¹⁸⁴⁹उदे नौकरें गी, ¹⁴⁰¹ते हर इक माहू गी अपने कम्मं गी;

ते द्वारपाल (दरवाजे दा रखवाला) गी हुकम दित्ता ²³⁷⁷देखना।

लूका 21:34 ऐते ध्यान रखो (सावधान) ⁴³³⁷अपने आप गी इस आस्ते के तुंदे दिलें च कदें बी ज़्यादा भार नेई होई जा सरफेट करना, ते नशे, ते इस जीवन दी चिंताएं, ते इस चाल्ली ओह दिन तुंदे उप्पर अनजाने च औंदा ऐ (चानक) ¹⁶⁰

लूका 21:35 ऐकीहके ए सारी धरती (जमीन) उप्पर रोहने आलें उप्पर जाल दे रूप च औगा ¹⁰⁹³ऐ

लूका 21:36 ऐ इस आस् ते जागत रौओ, ते सदा प्रार्थना करदे रौओ, तांजे तुस उदे योग्य समझे जाओ बचनाए सारी गल्लां जो होवेगा, ते अगं खड़ोना मनुख दा पुत्र.

लूका 21:37 ऐ ते दिने च ओह मंदर च शिक्षा देआ करदा हा;

ते रातीं ओह बाहर निकली गे ते जैतून दे पहाड़ आला फ्हाड़े उप्पर रोहदा हा।

लूका 21:38 ऐते सारे लोक सवेरे-सवेरे मंदर च उदे कोल आए, उदःी सुनने आस्ते।

- **मार्क दे दर्शक:** क्मोंकक तुभ नशीा जानते कक वभम कफ आमा शै , सावधान यखें औय दे खें , जागते यशें दे खने के लरए, औय प्रार्थना कयने के लरए मनुख दा पुत्र इक मनुख ऐ ⁴⁴⁴दूर-दूर तक जाइयै अपने दासं गी, ते हर इक माहू गी अपने कम्मं दा अधिकार देइयै अपने घरे थमां निकली गोआ, ते दरवाजे पर नजर रक्खने दा हुकम दित्ता।
- **लूका दे दर्शक:** सावधान रहो, कहीं तुंदे दिलें च इस जीवन दी धुरी, नशे ते चिंताएं दा ज़्यादा ज़ोर नेई होई जा, नेई ते दिन तुंदे उप्पर अचानक इक जाल आई सकदा ऐ जेहड़े सारे जमीन उप्पर रौहदे ना

इस आस् ते सदा जागत रौह ते पराथना करदे रौहना, तांजे तुस इनं सारे गल् लें शा बचने ते मनुख दे पुत्र दे सामने खड़ोने दे काबिल समझे। यीशु उंनें गी दिन च मंदर च सिखांदा हा, लेकन रातीं जैतून दे पहाड़ उप्पर गै रौंदा हा। (जैतून दा पहाड़ ओ जगह हे जिथांह प्रभु यीशु मसीह अपणेह सारे संतों नाल स्वर्ग कल्लों उतरेसी, ताकि ओ अपणेह बचे दे लोगें दे वास्ते लड़ सग्दे)। ध्यान रक्खो के सारे लोक सवेरे-सवेरे मंदर च यीशु दी शिक्षा सुनने आस् ते आए।

2महान संकट संतों के लिए 2nd रैप्चर(प्रभु दा आना)

→संदर्भ देना प्रकासित 11:15-16 ऐविस्तार कन्नै जानने लेई।

- ऐघैटाके आने के लरए अनजान शै प्रभु

मत्ती 24:42 ऐइस आस् ते जागत रौओ, की वे तुस नेई जानदे के केह ऐघैटा ⁵⁶¹⁰थुआदानाथआ जांदा ऐ.

मत्ती 24:43 ऐपर एहू जानना जे जेकर घरे दा भला (गृहस्थ) ³⁶¹⁷ऐ

किस घड़ी (जेल) च पता हा ⁵⁴³⁸चोर दा ²⁸¹²ने सीआ जांदा,

ओह दिक्खदा हा, ¹¹²⁷ते अपने घर गी तोड़ने दी अनुमति नेई देना हा।

मार्च 13:35 दीइस आस् ते जागत रौओ, की वे तुस नेई जानदे के कदू मालक (प्रभु) ²⁹⁶²घर दाआंदी ऐ,

शाम गी, जां आधी रात गी, जां मुगें दे बाजने च, जां सवेरे;

³⁹³वीडियो 35. “(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार दे चेलो।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शिष्य-शक्ति-अधिकार-के-साथ-

[मार्च 13:36](#) दीकहीं अचानक आ के तुझे सोते न जाए।

[मार्च 13:37](#) ऐते जे किश अऊं तुसें गी आखना ऐं, ओह सारें गी आखना ऐं, जागरूका

- **मैथ्यू दे दर्शक:** देखो, क्योंकि तुसीं करदे होनेई जानिए किस घड़ी तेरा^{नाथ}(दुल्हन) आ जांदा। जेकर घरे दे मालिक गी पता होंदा तां चोर कदू औग तां ओह दिखवा & अपने घरे गी तोड़ने दा सामना नेई करदा।
- **मार्क दे दर्शक:** देखो, क्योंकि तुहानू पता नहीं कदू प्रभूघर दा आ जांदा है। शाम गी, आधी रात गी, मुर्गे दे कौआने पर, जां सवेरो देखो, ए कहावत सारें लेई ऐ, कहीं प्रभूजदुं ओह औदा ऐ तां तुसें गी सुते दा पाओ।

- ऐदिन ते घड़ी

➤ ध्यान रकखो जे “[दिनतेघेंटा](#)” दे आने लेई अनजान नमनुख दा पुतर जबकि सिर्फ “[घेंटा](#)” दे आने लेई अनजान ऐप्रभू: 1।

- ऐदिन (मजबूत दाजी2250 ने दी) सूर्योदय ते सूर्यास्त दे बिच दे अंतराल गी दस्सेआ जंदा ऐ, ऐ³⁹⁴तेघड़ी दी (मजबूत दाजी 5610) साल दे मौसमें (बसंत, गर्मी, गिरावट, सर्दियां) दा संदर्भ दिंदे न)।³⁹⁵ मनुख दा पुतरसंकट दे तुरंत बाद प्रकट होग, जेड़ा महान संकट दी शुरुआत होग, पर दिन दी शुरुआत दा पता कुसै गी बी नेई होग ([टीओह दिन दा सूर्योदय ते सूर्यास्त](#)) ते महान संकट दा घड़ी (मौसम), इस आस् ते उंदे आने दा दिन ते घड़ी पिता दे सिवाय नेई जानया जाई सकदा।

- ऐ प्रभू यीशु मसीह “के दिन” च आएकाप्रभू” के आने के लरएप्रभू, ऐदिन दा (सुरज उगने ते सूर्यास्त दे बिच) उंदे औने दा पता इस करिए ऐ की जे ओह रातीं च चोर दे रूप च औग जेहड़ी आधी रात च होंदी ऐ([मती 25:6 ऐ](#)), परघड़ी दीजांमौसम दा (बसंत, गर्मी, गिरावट, जाड़ा) साल दा पता नहीं।

[मती 25:6 ऐते](#) आधी रात (mid & night) च^{मती3319मती3571 ऐ}उथे इक पुकार होया,

दिखो, दुल्हन आवै करदा ऐ; तुस उदे कन्ने मिलने आस्ते निकलो।

[२पतरस ३:१०](#) पर दिन वीप्रभू रात च चोर दे समान औग,^{मती3571 ऐ}

जिस विच आकाश होंगेगुजर जाओ बड़ा शोर-शराबे दे नाल, ऐ

ते तलवां करनगेपिघलनाउग्र गर्मी दे नाल, ऐ

धरती (जमीन)^{मती1093 ऐ}भी ते कम्मं गी बी^{मती2041 ऐ}जेड़े उदे च न, उनें गी जला दित्ता जागा।

[२पतरस ३:११](#) तां ए सब भंग होई जांगन।^{मती3089 ऐ}

सारे पवित्र आचरण ते भक्ति च तुसें किस चाल्ली दे व्यक्ति बनना चाइदा।^{मती2150 ने ची}

[२पतरस ३:१२](#) दे दिन आने वी प्रतीक्षा ते जल्दबाजी चईधर, ऐ

जिस च आकाश अग कन्ने भरोची जाहा।^{मती3089 ऐ}

ते तत्व (मूलभूत)^{मती4747 ऐ}करगपिघलनाउग्र गर्मी दे नाल?

[2पतरस 3:13 ऐ](#)फिरी बी अस उदे वादे दे मताबक

नवे आकाश ते नवी धरती (जमीन) वी तलाश करो,^{मती1093 ऐ}जिस च धर्म वसदा ऐ।^{मती1343 ऐ}

- कदू प्रभू दा दिन आओ, आसमानें दे होंगेगुजर जाओ बड़ा शोर-शराबे दे नालते तत्व जोरदार गर्मी कन्ने पिघल जांगन, ते जमीन उप्पर कीते गेदे कम्मं गी जली दित्ता जागा ए जानदे होई के ए सारी गल्लां भंग होई जांगन, तां तुसें गी सादे ज्ञान च फलदायी होने आस्ते सारे पवित्र गल्लबात ते भक्ति च होना चाइदाप्रभू यीशु मसीह।³⁹⁶
- के आने परमातमा दा दिन, आकाश आग च घुल जांगन, ते मूलभूत चीजां भंग होंगनपिघलनाउग्र गर्मी दे नाल, पर उदे वादे दे मताबक तुसें गी सिद्ध करी दित्ता जागपरमातमा दा रेमा नवे आकाश ते धरती विच, जित्थे धार्मिकता रहंदी है।

³⁹⁴“जी2250 - hēmera - मजबूत दा ग्रीक शब्दकोश (kjv)।” नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 13 मार्च, 2023।

[https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2250/kjv/tr/0-1/ ऐ](https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2250/kjv/tr/0-1/)।

³⁹⁵“G5610 - hōra - मजबूत दा ग्रीक कोश (kjv)।” नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 13 मार्च, 2023।

[https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5610/kjv/tr/0-1/ ऐ](https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5610/kjv/tr/0-1/)।

³⁹⁶वीडियो 30. “कम्यूनियन दा” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ ऐ](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/)।

- † **प्रभु दे लोगो:** “जिंदे आने तकर जिंदे न ते जिंदे न **प्रभु** सोए दे लोकें गी नेई रोकग” (1थू 4:15 ऐ). विश् वास दे आने दे बा'द, ओह सारे गै जेके उंदे च लोगो हन, ओह हन कुसे स्कूली मास्टर दे अधीन नेई रेहदे (या सुअर्गे ते धरती दे हेठ), पर ओह मसीह यीशु उप् पर विश् वास कन् ने परमेसरे दे पुत्तर होई जंदे हना³⁹⁷

लोगो गी भंडार च रक्खेआ गेदा ऐ ते अभक्त मनुखें दे न्याए ते नाश होने दे दिन आग आस्ते सुरक्षित रक्खेआ गेदा ऐ।^{टीइस आस् ते, भलेआं अंबर ते धरती बीती जाडन,}

लोगो दा द्वारा परफेक्ट बनाया जावेगा **परमातमा दा रेमाके दिनईश्वर**.³⁹⁸

लुका 12:36 ऐते तुस अपने आप गी मनुखें दे समान ओ, जेड़े उंदी प्रतीक्षा करदे **ननाथ**, ऐ²⁹⁶² ऐ

जदू ओह ब्याह तों लौट जावेगा (**ओह ब्याह**),¹⁰⁶² ऐ

तां जे जदुं ओह आईये खटखटाग, तां ओह तुरत उदे सामने खोली सकन।

लुका 12:37 ऐधन्य हैं उन सेवक,¹⁴⁰¹ ऐ

कसी **प्रभु जी** जदुं ओह ओग, तां ओह पक् का जागत पाग: 1¹¹²⁷ ऐ

मैं तुसैं गी सच्च आखना ऐं के ओह अपने आप गी कढ़ाई रखग।⁴⁰²⁴ ऐ

ते उनेंगी खाने आस्ते बैठाओ,³⁴⁷ ते सामने आईये उंदी सेवा करग।

लुका 12:38 ऐते जेकर ओह अंदर **ओगदुजादिक्खो** (जेल विच चौकस रखण वाले बंदे,

जिल्थें कैदियें गी रक्खेआ जंदा ऐ), जां

अंदर आओतीसरादिक्खो (जेल विच चौकस रखण वाले बंदे,

जिल्थें कैदियें गी रक्खेआ जंदा ऐ), ऐ⁵⁴³⁸ ऐ

ते उनेंगी इय यां पाओ, धन ऐ के ओह सेवक।

लुका 12:39 ऐते ए जानना, कि जेकर घर दा भला (घरवाला)³⁶¹⁷ ऐ जान गया था


किस घड़ी चोर आता, ओह दिक्खदा,

ते उदे घर गी तोड़ने नेई दिता।

³⁹⁷वीडियो 45. “6. प्रायश्चित्त करो” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-प्रभु-दे-भोज-6-प्रायश्चित्त/.

³⁹⁸“प्रकाशितवाक्य 22:3-4 ऐ,” या वीडियो 44. “(The logos & the rhema) आखरी दिनें च (2 पतरस 3) 1/2।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.



एचमसीह दा पैहला आना (उसदी मौत ते जी उठन विच बपतिस्मा)

- **1st घड़ी दी** (70वें हफ्ते दा डैनियल दा 1st हाफ पूरा हो गया)

- यीशु दा मानना ऐ कि ओ 33 ते 34 साल दी उम्र दे बीच (33 साल 6 महीने अगर दावत तों गणना कीती जावे उंदे सूली उपर चढ़ाने तक, फसह दे दिन तक तम्बू दा)। जेकर एह टाइमलाइन सही ऐ तां यीशु धरती उपर अपनी सेवा शुरू कीती 27 ई. च ते 31 ई. च मसीहा बनी गेआ (अपने कन्ने अनन्त वाचा गी मजबूत करदे होई, दान 9:27 ऐ), ऐ जद ओह 33 साल 6 महीने दे हे.

→ इस कन् ने दानियल दे 70वें हफ्ते (या 3.5 साल) दा पैहला आधा हिस्सा पूरा होई गेया, पर इस आस् ते के यहूदी कौम ने खारिज करी ओड़ेया परमातमा दे लोगो, दा सुसमाचार मुक्ति दे लोगो गैर-यहूदी दी ओर मूड गया (प्रेरितों दे काम 13:46, ऐप्रेरितों दे काम 13:26), ते इस्त्राएल गी किश हद तक अंधता उसलै तक होंदा ऐ, जद तक जे गैर-यहूदी लोकें दी पूर्णता नेई आई जंदी (रोम 11:25 ऐ).

- ऐ मसीह दुनिया च आया (जॉन 11:27 ऐ) पापी वास्ते.

(जॉन 11:27 ऐ उन उसी आख्या, "हां, नाथ (क्योरिओस):

मैं विश्वास करदा हां कि तू ही हो मसीह गी, ऐ परमातमा दा पुत्तर, जो दुनिया च आना चाइदा।)

- उन सारे मसीह यीशु, जिंदे च बपतिस्मा लेता गेदा ऐ मसीह, लगा दी है मसीह, ते हो गया मसीह दा.

इस चाल्ली ओह अब्राहम दे वंश ते वादे दे मताबक वारिस न (गलाती 3:27-29 ऐ).

गलाती 3:27 ऐ की वे तुंदे च जिन्ना बपतिस्मा लेता ऐ मसीह लगा दी है मसीह.

गलाती 3:28 ऐ ना यहूदी ते ना यूनानी, ना दास ते ना आजाद, ना नर ते नारी।

कीजे तुस सारे इक गै ओ मसीह यीशु.

गलाती 3:29 ऐ ते जेकर तुस हो मसीह दा, तां तुस अब्राहम दे वंश जे ते वादे दे मताबक वारिस ओ।

† डैनियल दा 70वें हफ्ते दा 2nd हाफ होग आर Resume 1st रेचर दे बाद, उसदे बाद उजाड़ दी घृणिता⁴⁰⁰

Tribulation		Great Tribulation		Armageddon
Daniel's 1st half of 70th week		Daniel's 2nd half of 70th week		
(John is partakers in Tribulation with his brethren, Rev 1:9)		Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)
1,260 days	The times of the Gentiles	250 days	790 days	250 days
Fulfilled before Christ's 1st coming		(1 Hour)	To be fulfilled by the Lord Jesus Christ	(1 Hour)
Time (feast), Times (feasts), & the dividing (midst) of time (Dan 7:25, Dan 12:7)				
Feast (of Passover, Unleavened, Firstfruits)	The midst of the feast		Feasts (of Trumpet, Atonement, Tabernacles)	

³⁹⁹होर मती जानकारी आस्ते "[चित्र 21-1] परमेसरे दे लोक परमेसरे दे तम्बू च किन् यां दाखल होडन" गी दिक्खो।

⁴⁰⁰"[3] दानियल दे 70 हफ्ते" दा संदर्भ लैओ।

आईमनुख दे पुत्र दा आना(धर्मीआं दीआत्मा सिद्ध हो जावेगी)⁴⁰¹

- **(1 वी रैचर फसल)** धर्मी दी आत्माएं गी सिद्ध कीता जाग

- प्रेरित पौलुस ने जेका सुसमाचार प्रचार किता हा, ओह मनुख दे बा'द नेई, बल् कि उंदे द्वारा गै हायीशु मसीह दा प्रगटीकरण (गलाती 1:11-12 ऐ), ते सुसमाचार दे जरिए, उने (प्रेरित पौलुस) तुसेंगी अपने च पैदा किता ऐमसीह यीशु (१कुरिन्थियों ४:१५).⁴⁰²

- **स्वर्गीय यरूशलेम**

कमोंकक तुभ भें लोगो फढ़ गमे शैं, औय तुभने रेमा की आवाज सुनी शै, आत आमै शैं सिथ्योन पहाड़, जेड़ा जिंदे परमात्मा दा नगर ऐ, सुर्गीय यरूशलेम जित्थें इक अनगिनत ऐ स्वर्गदूतों दी संगत करदे न, आम सभातेपैह्ले पुत्रों दी कलीसिया जो लिखे हैं स्वर्ग च जित्थे ईश्वरसब दा जज है, तेआत्माएं गी जो बणाए जांदे हन दाधर्मीबनाये जाते हैंपूरण (इब्रानियों 12:22-23 ऐ).⁴⁰³

ध्यान रक्खो के ओह सुसमाचार दे जरिये पैदा होए, जेके प्रेरित पौलुस ने प्रचार किता हा, उंदी आत् मा ऐ में धर्मी ते सिद्ध बनाया। वे दे कलीसिया हनजेठे बच्चे सुर्ग च लिखे दे, जो खड़े होन सिथ्योन पहाड़ उपपर, जेड़ा जिंदे परमात्मा दा नगर ऐ, जेड़ा सुर्गीय यरूशलेम ऐ। यानी वे शैंओह मसीह दे पैह्ले फल जो 2 घड़ी (प्रकासित 7:9 ऐ)।

- “कुछ लोग मौत दा स्वाद चखने कोला पैहले परमात्मा दे राज्य गी दिक्खी लैगन”

लुका९:२० दीउन उन्दे कन्ने आखया, “लेकन तुस कुन आखो? पतरस ने जवाब दिता, “परमात्मा दा मसीहा” लुका९:२६ ऐकी वे जेड़ा मेरे ते मेरे वचनें च शर्मिदा ऐ।³⁰⁵⁶उदे च मनुख दा पुत्र होग झित्था, जदु ओह अपनी महिमा च, ते अपने पिता ते पबित्तर सुअर्गदूतें दे महिमा च औग। लुका९:२७ दालेकन मैं तुहानूं इक सच्चाई आखदा हां, “हो जाओचंदइत्थे खड़े होके, जो होंगेमौत दा स्वाद नहीं, ऐतकवे दे खते शैंपरमातमा दा राज.”

→जेके पबित्तर आत् मा कन् ने बपतिस् मा लेंदे हन, उनेंगी उंवां गै मौत दा अनुभव नेई होग चाहनाकदें बी नेई मरना.⁴⁰⁴

- उनेंगी अनंत काल हासल करने दे काबिल मन्नेआ जंदा ऐ, ते मेरे दे लोकें च जिंदा होना, ऐ दे पुत्रईश्वर, जी उठने दे पुत्र होने दे नाते, ते इस चाल्ली ओह होर बी नेई मर सकदे जि'यां ओह नबरोबरीस्वर्गदूतें गी (लुका20:35-36 ऐ).⁴⁰⁵

→यीशु दे शरीर दा मंदर नष्ट होने दे बाद ते मंदर दा पर्दा दो भागें च फट्टी गेआ

(मती 27:51-53 ऐ), लोकें पवित्र संत दे मते सारे शरीरें दा जिंदा होना दिक्खेआ जेहड़े हे सोंदे (कम्हार दे खेत विच), उठ के अंदर दाखल हो गयापवित्र नगर दा (प्रकाशितवाक्य 21:2).

- **2nd घड़ी दी:** (1 रैचर दा)मनुख दा पुत्रआ जांदा ऐ “च” शक्ति ते बड़ी महिमा आला बादल (लुका 21:27 ऐ, ऐप्रकासित 7:9-17 ऐ)।

→ टीनली जिन्हें सुनीरमा दाउस पहाड़ उपपर नेई होग जिसगी छूया जाई सकदा ऐ ते

साथ जला देअग्ग, पर जिंदे लोकें दे नगर सिथ्योन पहाड़ उपपर गै रौहगईश्वर, ऐस्वर्गीय दा यरूशलेम, ऐपैह्ले पुत्रों दी कलीसिया जेड़े सुर्ग च लिखे दे न, जित्थें आत्माएं दी ओह धर्मीपरफेक्ट बनाये जांदे हैं(इब्रानियों 12:23 ऐ)।

⁴⁰¹“प्रकाशितवाक्य 21:27 ऐ) मेमने दी जिंदगी दी किताब च लिखे दे.”

⁴⁰²वीडियो 16. “गैर-यहूदी (मसीह दा रहस्य)”www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

⁴⁰³वीडियो 41. “परमेसर गी स्वीकार करने आस् ते प्रभु च बधी जाओ।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-भगवान-दे-भगवान-चल-बढ़ना/.

⁴⁰⁴अध्याय 20 दे “<मसीह दे दिन>” थमां कैद कीता गेदा।

⁴⁰⁵वीडियो 45. “6. प्रायश्चित करो।”www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-प्रभु-दे-भोज-6-प्रायश्चित/.

→ कीजे मनुख दा पुत्र कष्ट दे फौरन बाद गै प्रगत होग, जेकी शुरुआत होग
 दानियेल दे 70वें हफ्ते दे 2 आधे हिस्से च, एह बड़ी संभावना ऐ जे ओह प्रकट होंगन निकट भविष्य च.⁴⁰⁶

जम्मू मसीह, मसीह दा 2 आना (प्रभु यीशु मसीह: रक्खो अभ्रष्टता & अमरता पर)⁴⁰⁷

- **2 वी रैचर फसल** प्रभु यीशु मसीह, जेड़ा अमरता रखदा ऐ & परमात्मा च रौहदा ऐ **आओ**

(परमात्मा दी तुरही)

1थू 4:15 ऐस आस्ते अस तुंदे कन्ने वचन दे द्वारा आखने आं (लोगो दा)^{#3056} आहला प्रभु, ऐ
 कि अस जेड़े जिंदे ते रेहदे आं
 प्रभु दे आने तकर सोए दे लोके गी नेई रोकगा।

1थू 4:16 ऐकीहके प्रभु अपने आप गै चिल्लाहट कन्ने, महादूत दी आवाज कन्ने सुर्ग थमा उतरगा
 ते नाल परमात्मा दी तुरही: ते मरे दे अंदर मसीह पहले उठेगा: 1।

1थू 4:17 ऐ फिरी अस जेड़े जिंदे ते बचे दे आं, उन्दे कन्ने कन्ने पकाया जागेबादल च,
मिलने के लिये प्रभु हवा में: ते अस बी कदें बी इयू यां गै रौह्यो प्रभु.

→ इक चिल्लाहट कन्ने, प्रधान स्वर्गदूत दी आवाज कन्ने, ते परमात्मा दी तुरही कन्ने प्रभु उतरेगा
 सुर्ग थमां ते मरे दे लोके च मसीह पैह्ले उठगा, “मसीह पैह्ले फल; बाद च ओह जेड़े न
मसीह दा उदे आने पर” (१कुरिन्थियों १५:२३).

→ रुहने आत्मा 144,000 दा 1 रैचर च स्वर्गीय यरूशलेम च लेई जाया जागा दूसरे में
 शब्द, जदू 7वीं तुरही बजने आली ऐ, तां ओह पैहलें गै रचर होई गेदे होंगन ते होंगन
 सुर्गीय यरूशलेम च प्रभु दा इंतजार करो, ए जानदे होई के उदे अविनाशी शरीर बी करगे
 हवा च प्रभु कन्ने मिलने आस्ते उठो।

- **3 वी घड़ी दी**: (द 2nd रैचर) दा आना प्रभु यीशु मसीह गी

जदू 7वीं तुरही बजने आली ऐ (प्रकाशित 11:14 ऐ), मरे दे जिंदा हो जांगन अविनाशी ते
 साडा नश्वर शरीर पहिन देगा अमरता, ते “मौत होगा जीत में निगल गया.”

१कुरिन्थियों १५:५१ ऐदिखो, मैं तुमें गी इक रहस्य दस्सना ऐ; अस सारे नेई सोगे, पर अस सारे बदली जागे,

१कुरिन्थियों १५:५२ इक पल च, इक अकखीं दी झिलमिलाहट च, आखरी तुरही पर:
 की वे तुरही बाजगा।

ते मरे दे जिंदा हो जांगन अविनाशी, ते अस बदली जागे।

१कुरिन्थियों १५:५३ की वे इस नाशवान गी अविनाशी धारण करना पौगा।
 ते इस नश्वर गी अमरता गी धारण करना पौगा।

१कुरिन्थियों १५:५४ तो जदों ए नाशवान पहनना होवेगा अभ्रष्टाचार, ऐ
 ते ए नश्वर धारण करी लैग अमरता, ऐ
 उस बेले लिखी दी गल्ल पूरी होई जागा।

जीत जीत में निगल जाती है मौत.

→ 50 सालें थमां मते समें थमां राजा चार्ल्स त्रीए जलवायु परिवर्तन दी पैरवी करा करदे न, ते उने बी...

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) दे वार्षिक च “द सस्टेनेबल मार्केट्स” पहल शुरू कीता

जनवरी 2020 च दावोस च बैठक, ते फिर “द ग्रेट रीसेट” शुरू कीता **3 जून दी, ऐ 2020 दी**

2030 तक दुनिया गी बेहतर जगह बनाने दे लक्ष्य कन्ने।⁴⁰⁸ हालांकि एह इक ऐ

दुश्मन दी बुरी योजनाएं गी साढ़े औने कोला पैह्ले प्रभु यीशु मसीह, जो ना आएगा जब तक

⁴⁰⁶ इस कताब दा अध्ययन करने दे बाद तुमेंगी उंदे औने दे अनुमानित दिन दा अंदाजा लाने च सक्षम होना चाइदा।

⁴⁰⁷ “(प्रकाशितवाक्य 21:27 ऐ) मेमने दी जिंदगी दी किताब च लिखे दे.”

⁴⁰⁸ इंटरनेट पर, संयुक्त राष्ट्र दी आधिकारिक वेब साइट पर “स्थायी विकास आस्ते 2030 दा एजेंडा” सर्व करो।

पैह्ले इक धर्मत्याग ऐ, जेहड़ा प्रगत करग पाप दा आदमी (मसीह दे विरोधी), ऐदा पुत्र
नाश हो जाना (झूठा नबी, प्रकाशितवाक्य 19:20, ऐरथिस २:३).⁴⁰⁹

- धर्मत्याग दे बारे च, “अब्राहम समझौतें” दी घोशणा 45वें राष्ट्रपति ने कीती
अमरीका, डोनाल्ड जॉन ट्रंप 15 सितंबर, 2020 गी, जेहड़ा इक संस्कृति स्थापित करदा ऐ
रमानयहूदी, ईसाई, ते इस्लाम दे कन्नै-कन्नै सारी मनुखता च बी.
→ इस तहाँ साफ है कि... मनुख दा पुत्र जल्द ही आओगे और उसी रैप्चर कर देंगे 144,000 दी.

(तुहाडी सारी आत्मा, आत्मा, & शरीर)

१थुन ५:२३ ऐ और बहुत ही ईश्वरशांति दा तुसें गी पूरी चाल्ली पवित्र करो; ते मैं प्रार्थना करदा हां ईश्वरतेरा सारा रुहते आत्माते शरीर
साढ़े आने तक निर्दोष बचाई रखो प्रभु यीशु मसीह.

→ पवित्र संत दे सारे मरे दे शरीर गी पैह्ले आखरी तुरही दी आवाज कन्नै जिंदा कीता जाग जिसलै...
प्रभु यीशु मसीह आंदे ने। इस करिए पूरी तरह पवित्र हो जाओ ईश्वरतां जे तुंदा सारा रुह, ऐ
आत्मा, ते शरीर साडे आने तक निर्दोष बचाया जाग प्रभु यीशु मसीह अनुमति देना
जीवन दी आत्माथमां ईश्वर तुहाडे विच दाखल हो सकदा है। (प्रकासित 11:11 ऐ).⁴¹⁰

† **के लोगो दा प्रभु:** असी जो जिंदे हां ते दे आने तक रेहंदे हां प्रभु उनें गी नेई रोकग जिनेंगी सुते दा हा ते कुम्हार दे (प्रभु दा) खेत, इस गल्ल गी दिक्खदे
होई जे खेत दे घै च कुम्हार दा ऐ प्रभु, ते परदेसी दी लाशें दे आने पर जिंदा होई जांगन प्रभु यीशु मसीह गी (1थु 4:15 ऐ).⁴¹¹

। राजाओं दा राजा, & परभुओं दा स्वामी (परमात्मा दे जन्त विच)

• अमरता

1ती 6:12 ऐइमान की अच्छी लड़ाई लई, पकड़ रखें अनन्त जीवन, जिसदे लेई तू बी बुलाया गेदा ऐ।
ते मते सारे गवाहें दे सामने इक अच्छा पेशे दा दावा कीता ऐ।

1तिमथियस 6:13 ऐमें तुगी नजर च चार्ज देना ईश्वर, जेड़ा सारें चीजें गी जिंदा करदा ऐ, ते पैह्ले मसीह यीशु, ऐ
जेस पॉतियस पिलातुस दे सामने इक अच्छा इकबाल दा साक्षी हा;

१तिमथियस ६:१४ कि तू इस हुकम गी बेदाग, बेदर्द, बेदर्द मनना।
के प्रकट होने तक साढ़े प्रभु यीशु मसीह: 1।

1तिमथियस 6:15 ऐ ओह अपने समें च दस्सग, जेड़ा धन्य ते इकलौता शक्तिशाली ऐ।
राजाएं दा राजा, ते प्रभुएं दा प्रभु;

1तिमथियस 6:16 ऐजिसदे कोल सिर्फ ऐ अमरता, रोशनी विच वास करदे 5457 जिसदे कोल कोई नेई जाई सकदा;
जिसी कोई नेई दिखदा ते ना दिख सकदा ऐ; आमीन।

→ पकड़ बिछाओ अनन्त जीवन, हुकम गी बिना दाग ते बेधड़क बनाई रखो, जदू तक
ओहसाडी प्रकट हो रही प्रभु यीशु मसीह, कु'न ऐराजाओं दा राजा ते प्रभुओं दा स्वामी, ऐ अमरता, ऐ
ते दी रोशनी विच निवास करदा है ईश्वर (१जो 1:5 ऐ) कि कोई बी इसदे कोल नेई जाई सकदा ते ना गै दिक्खी सकदा।⁴¹²
→ जेकर आत्मा गी आहला ईश्वर कि उठाया यीशु मरे दे विचोंतरे विच रहो, ईश्वर जिसने उठाया
मसीह मरे दे विचोंतरे नश्वर शरीर गी बी जिंदा करग रुह दा रुह जेड़ा तुंदे च वसदा ऐ
(रोम 8:11 ऐ).

⁴⁰⁹“१थु ५:२३ दी.”

⁴¹⁰“[चित्र 10-घ],” जां वीडियो 46. “जीवन दा जी उठना” दिक्खो।

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-जीवन-दा-पुनरुत्थान/.

⁴¹¹वीडियो 37. “तुस इक कीमत (इक इज्जत) कन्नै खरीदे गेदे ओ।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-खुन-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हैं/.

⁴¹²संदर्भ देना १ती 6:12-16 ऐ, ते वीडियो 39. “मरे दे जी उठना,” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-संभावित-समय-अनुक्रम-सली-पर-चढ़ाने-पहले-और-अंतिम-आदम-मृतक-के-पुनरुत्थान/.

ते वीडियो 45, “6. प्रायश्चित्त करो” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-प्रभु-दे-भोज-6-प्रायश्चित्त/

- (दरम्यान मसीह दा 1000 साल दा राज) **मेमने दे द्वारा खिलाया जा**

[फिलिपिन्स 3:20](#) ऐकी वे साडी गल्ल सुर्ग च ऐ; जित्थूं दा वी असीं दूढदे हांमुक्तिदाता दा, ऐप्रभु यीशु मसीह गी: 1।

[फिलिपि 3:21](#) ऐसाडी नीच (नीच जागीर) कौन बदलेगा^{#5014} शरीर, ऐ

तां जे उसी (अनुरूप) बनाया जा^{#4832} ओहदा गौरवशाली तन, ऐ
जिस कम्म दे अनुसार ओह सारे चीजें गी अपने अधीन करी सकदा ऐ।

→ कदूं **अविनाशी बीज (परमातमा दे लोगो)**, ऐ १ पतरस १:२३ आहलायीशु मसीह (शाश्वत राजा), ऐ
तुहाडे विच धर्मी दा फल (परमातमा दे लोगो दा रेमा) पैदा करदा है ([1ति 1:16](#) ऐ), यीशु
मसीह तुंदा अनन्त राजा बनी जंदा ऐ ते तुस पहिनगे **अमरता ते सदा जीओ** ([1ति 1:17](#) ऐ).

[1ति 1:16](#) ऐपर इसे कारण मिगी दया मिली।

ओद्वेरे चपैहलायीशु मसीहसारे धीरज गी दस्सी सकदा ऐ, ऐ

उंदे आस् ते इक नमूना आस् ते जेके बाद च उंदे उप् पर विश्वास करन **जीवन सनातन**.

[1ति 1:17](#) ऐहन तो **राजा शाश्वत**, ऐ **अमर**, ऐ **अदृश्य**, इकलौते ज्ञानी ईश्वर, ऐ

आदर ते महिमा होसदा ते सदा वास्ते. आमीना

- † जेकर सादा धरती दा घर (मांस) घुलदा ऐ तां सादे कोल सुर्ग च इक अनन्त घर, परमात्मा दी इमारत ऐ। इस तम्बू (नश्वर शरीर) च सादी कराहने दे बावजूद बी अस अमरता (**प्रभु यीशु मसीह गी**) बपतिस्मा दे जरिए सादे सुर्ग दे घर कन्ने कपड़े पाई ऐ मसीह.⁴¹³

एचमसीह दा प्रकट होना (नीच संपत्ति दे शरीर गी महिमामंडित शरीर आस्तै बनाया गेदा ऐ)⁴¹⁴

- **(3 वी फसल दा) मसीहमें प्रकट होंदा ऐ महिमा**

[कुलुस्स 3:4](#) ऐकदूं मसीह, जो साडा है **जीवन**, प्रगट होगे, तां तुस बी उंदे कन्ने प्रगट होगे **महिमा**.

[इब्रानियों १:२८](#) दा इसलेई **मसीह** इक बारी पेश कीता गेआ हामते सारें दे पापें गी सहन करना;

ते जेके उसी दिखदे न, ओह दूई बारी बिना पाप दे उद्धार आस्ते प्रगट होग.^{#4991}

→ विजयी, जिंदे च बपतिस्मा लेता गेदा **हामसीह इक** एनडी लगा दी है **मसीह** ([गलाती 3:27](#) ऐ), दूढेंगे मसीह
जो 2 वी वारी बिना पाप दे प्रकट होवेगा **मोक्ष** दे उंदे आस् ते जेके उसी दिक् खदे हन, ते ओह चाहंदे हन
साथ दिखाई दे मसीह महिमा में।

[चित्र 10-ग] प्रभु यीशु मसीह दा जी उठना⁴¹⁵

([Heb 10:20](#)) This cup is
the new testament in my blood,
which is shed for you ([Luk 22:20](#)).
By **a new and living way,**
which he hath **consecrated** for us,
through **the veil,** that is to
say, **his flesh**

The **life of the flesh of man is**
now **in the blood of Jesus**

Your **Life**
(**Flesh & Soul**) is
→ **In the Spirit of God**
([Gen 9:4](#), [Rev 11:11](#), [1Th 5:23](#))

Christ = our Life
([Col 3:4](#))



When **Christ, who is our life,** shall appear, → then shall **ye also appear with him in glory** ([Col 3:4](#)).

- **4वीं घड़ी दी:** तकरीबन चौथी घड़ी रात दा, ऐयीशु (जिवें प्रतीत होंदा है **इकरुह**) **आ गयाते** समुंदरे उप्पर चलदा ऐ

⁴¹³वीडियो 47. "7 दा तम्बू" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-प्रभु-दे-भोज-7-तम्बू/.

⁴¹⁴"(प्रकाशितवाक्य [21:27](#) ऐ) मेमने दी जिंदगी दी किताब च लिखे दे."

⁴¹⁵वीडियो 46. "जीवन दा जी उठना" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-जीवन-दा-पुनरुत्थान/.

रात गीचेलें दे कोल जाने दे इरादे कन्ने **यीशु मसीह**, जो साडे कोल भेजेया गया ते हो गया साडा **सनातन राजा**, साडे निम्न जागीर दे शरीर गी बदल देग **महिमावानशरीर** आहला **ओह उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह** (पीएचएल ३:२०-२१) ऐ, **ऐसर्वशक्तिमान जी**, कुन **ऐमेमने दा.**⁷²¹ ऐ।

मार्च 6:48 गीउन उनेंगी नौकायन च मेहनत करदे दिक्खेया; की वे हवा उन्दे विपरीत ही; ते बारे **चचीथी घड़ी** रात दा ओह उंदे कोल औंदा ऐ।

टुरनासमुंदर दे उपर, ते उंदे कोला गुजरदा।

मार्च 6:49 ऐ लेकन जदुं उनेंगी समुंदरे उप् पर चलदे दिक् खेया।

उन्शोंने सोचा कक ऐवा शो गमा **शैडुक भावना**, ते चिल्लया।

मार्च 6:50 तेकी वे सारे उसी दिखिये घबराई गो। ते फौरन उंदे कन् ने गल् ल किती।

ते उन्दे कन्ने आख्या, “धीरज रखो; डरना ना।

मार्च 6:51 दीते ओह नाव च चढ़ी गया; ते हवा रुकी गई।

ते ओह अपने आप च बड़ा हैरान होई गो, ते अचंभित होई गो।

मार्च 6:52 दीकी वे ओह रोटी (रोटी) दे चमत्कार गी नेई समझदे हो **740**

उंदे आस्तै दिलहाकठोर हो गया. ऐ।

➤ **यीशु समुंदरे उपर चलदा ऐ**⁴¹⁶

झं6:16 ऐशाम होईये उदे चले समुंदरे च उतरो।

→ शाम होई गई ही, जदुं यीशु समुंदरे उप् पर अपने चेलें दे जहाज दे कश चली गया।

मत्ती 14:26 ऐजदुं चेलें उसी (यीशु) गी समुंदरे उप् पर चलदे दिक् खेया, ते ओह ग् लाया।

एह् **ऐडुक भावना** (आत्मा दा इक रूप);⁵³²⁶ ते डरदे-डरदे पुकारो **5399** ऐ।

→ यीशु दे समुंदरे उप् पर चलने दा केह मतलब ऐ?

ते उदे चले यीशु दे प्रकट होने थवां किय् यां डरदे हे?

➔ **यीशु** इक आत्मा दे रूप च प्रकट होँदा ऐउंदे चेलें गी जिंदा दिल कठोर होई गेदा हा। "जेकर **मसीह** तरे विच हो, तन है पाप दे कारण मरे होए; पर **आत्मा गी** धर्म दे कारण जीवन ऐ" (रोम 8:10 ऐ)।

पर इस करिए के उंदे च लोगो (रोटी) (जमीन च या शरीर गी) नेई मरी गेई **यीशु मसीह**, ऐ

वे दे ख वकते शैं (**भावना गी**), पर ओह बोध नेई करंगन (**मसीह**, ऐ रोम 8:10 ऐ); ते सुनी सकदे (**ओह रह**), ते ओह नेई समझगे (**यशायाह 6:9-11** च)।

यशायाह 6:9 च, “तुस सच्चें गै सुनो, पर समझो नेई; ते तुस सच्चे दिखो, लेकन नेई समझो।”

उंदी अक्खीं उसलै तकर बंद रौंदिद्यां न जिसलै तकर जमीन पूरी चाल्ली उजाड़ नेई होई जंदी।

यशायाह 6:10 चइस लोकें दे दिल गी मोटा करो, ते उंदे कान गी भारी करो, ते उंदी अक्खीं बंद करो;

कहीं ओह अपनी अक्खीं कन्ने नेई दिखदे, ते अपने कानें कन्ने नेई सुनी लैन, ते अपने कन्ने समझी सकन **दिल**, ते धर्मातिरित हो जाओ, ते चंगा हो जाओ।

यशायाह 6:11 चफिर मैं आख्या, प्रभु (**‘āḏōnāy**)¹³⁶ कितनी देर?

ते उन जवाब दित्ता, “जदू तकर शैहें च कोई रौहना नेई होई जंदा।

ते बिना मनुख दे घर, ते जमीन (जमीन)¹²⁷ बिल्कुल उजाड़ हो जाओ, ऐ

यशायाह 6:12 चते प्रभु ने मनुखें गी दूर दूर करी दित्ता ऐ, ते...

देश दे बिच्च इक बड्डा त्याग होवे (**धरत**)⁷⁷⁶ ऐ।

- ऐलोगो गी तुदे कानें च थल्ले डूबने देओ

उत्पत्ति 1:9 ते परमात्मा ने आख्या, “सुर्ग दे हेठले पानी इक थाहर इकडा हो जाओ।

ते सुक्की जमीन प्रगट होवे।

उत्पत्ति 1:10 ऐते परमेसरे सुक्के धरती गी धरती आख्या; ते पानी दे इकडे होने गी समुंदरे आख्या।

ते परमेसरे ने दिक् खेया के ओह भला ऐ।

लुका ९:४३ दाते सारे परमात्मा दी पराक्रमी शक्ति उपर हैरान होई गो। पर जदू के ओह हर...

⁴¹⁶वीडियो 25. “एक कड़ी कहावत (द लोगो) 1/2।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-एक-कठिन-कहने-दे-लोगोस-देव-दे-कम्म/.

यीशु ने जे किश किता हा, उसी अपने चेलें गी आख्या।
[लुका१:४४](#) दाये कहानियां (लोगो दा)⁴¹⁷ कान में नीचे डूब जाओ: 1।
की वे मनुख दा पुत्र मनुखें दे हत्थ च सौंपी जाग।

→ इस आस् ते पानी जां समुंदरे दा इकट्टा होना, जेका आकाश दे हेठ ऐ।
स्याही च लिखे दे लोगो (२कुरिन्थियों ३:३)।
→ सादे द्वारा सेवा कीती गेदी मसीह दी पत्र, जेड़ी स्याही कन्ने नेई, लेकन जिंदे लोकें दी आत्मा कन्ने लिखी गेदी ऐ

ईश्वर; पत्थर दी तखलें च नेई, लेकन दिल दी मांसल तखलें च (२कुरिन्थियों ३:३), ऐमेंएस दी रेमा।

→ **इस लोगो गी तुंदे कानें च थल्ले डूबने देओते जिंदे परमात्मा दी आत्मा गी उसी घुमाने दी अनुमति देओ**
चरिमा को.⁴¹⁷

- **वक्त आ जाएगा कि तुहानू ओ रेमा याद होवे जो यीशु ने तुहानू दस्या सी**⁴¹⁸
- तुसेंगी पबित्त नबीएं आसेआ आखेआ गेदा रेमा ते आज्ञाएं गी याद करना पौग
प्रभु ते उद्धारकर्ता दे प्रेरित, जिने तुंदे शुद्ध मन गी याद च उकसाया।

यीशु ने जेड़ीयां गल्लां आख्यां ही, अस कियु यां याद करी सकने आं?

[इज16:4](#) ऐलेकन ए गल्लां में तुहानू दस्या कि जदों ओह वक्त आ जावे ते तुहानू याद होवे

कि मैं तुसें गी उंदे बारे च दस्सेया हा. ते मैं शुरू च तुंदे कन्ने ए गल्लां नेई आखी ही।
कीजे मैं तुंदे कन्ने ने हा.

[इज१४:२६](#) ऐपरदिलासा देने आला, जो हैपवित्र आत्मा गी, जिसे पिता मेरे नां कन्ने भेजग;

ओह तुसें गी सब किश सिखाग, ते तुसें सारें गी याद करग।
जे किश मैं तुसें गी लाया ऐ।

→ बाद च **मसीह** मेरे दे बीचा जी उठी गया ते अपने पिता ते अपने परमात्मा दे कोल चली गया

([इज20:17](#) ऐ), असेंगी गोद लैने दी आत्मा मिली गई ऐ इस करी परमात्मा ने दी आत्मा गी भेजेआ ऐ

उदे पुत्र गी सादे दिलें च, जिसदे नाल असी रोंदे हां, अब्बा,⁴¹⁹ बापू. ([रोम 8:15](#) ऐ, [ऐगलाती 4:6](#)).

→ ते पिता दिलासा देने आले (पवित्र आत्मा) गी भेजदा ऐ

सारे चीजें गी तुंदी याद च लाइयै तुसें सारें गी रेमा सिखाने आस्तै।

→ कीजे यीशु दे पिच्छे चलने आलें गी जीवन दा रोशनी ऐ (लोगो दा), ते एह रेमा बनी जाग

जदुं परमेसरे दी आत्मा पानी दे चेहरे उप् पर चली जंदी ऐ (लोगो दा, गेशत), जां
के चेहरे में **यीशु मसीह** (उत्पत्ति १:२, ऐ २कुरिन्थियों ४:६).

- **जिसदे कोल रेमा छिपे दा ऐ, ओह यीशु कोला डरदे न**

[लुका१:४५](#) दापर उनेंगी ए गल्ल नेई समझ आई गई (रेमा), ऐ⁴⁴⁸⁷ ऐ

ते उंदे कोला छुपाई गेदा हा, तां जे उनेंगी एह नेई पता लग्गी गया।

ते ओह डरदे हे⁵³⁹⁹ ऐ उस कहावत दा उसदे कोला पुच्छना (रेमा).⁴⁴⁸⁷ ऐ

→ रेमा उसलै तकर छिपे दा ऐ जिसलै तकर तुस निम्नलिखित लोगो पर विश्वास नेई करो:

“मनुख दे पुत्र गी मनुखें दे हत्थें च सौंपी दित्ता गेआ (लुका१:४४ दा)।”

→ जेडे लोग रेमा गी नेई समझदे, ओ यीशु कन्ने इसदे बारे च पुच्छने थमां डरदे ना

दूए शबदां च, उनेंगी डर ऐ के यीशु उनेंगी कियु यां प्रगट होग **मसीह गीजांमसीहा गी**, ऐ

[मती 14:26](#) ऐ.

→ लेकन यीशु उनेंगी ग् लांदा ऐ के ओह नेई डरे, ते उदे खाने आस् ते जेका अनंत समें तकर टिकदा ऐ, उदे आस् ते मेहनत करन
जीवन, जो मनुख दे पुत्र ने तुसें गी दित्ता ऐ (**इह में हां**).

⁴¹⁷वही।

⁴¹⁸समझो कैसे रेमा=रुह+जीवन.

वीडियो 13. “शब्द (लोगोस & रेमा)।” www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा-दा-चरदान/.

[इं६:२०](#) दी लेकन उन उन्दे कन्ने आख्या।**इह में हां; ना होडर(डर)**।^{¶5399} २

→ "में ही हां" जरिया **"में परमात्मा दा पुत्र हां"** जिस पर आत्मा गीस्वर्ग से उतरे

([इं१:३२](#) ऐ), ते **"में यीशु मसीह हां"** जो पानी दे चेहेरे ते चलदा है (लोगो दा) जेडा शरीर बनी गेआ ते तुंदे च रेई गेआ ([इं१:१४](#) ऐ). ते हन **"में अरिमा दा"** क'न दिल दी मांसल मेजें च रौहनाकनैजिंदे परमात्मा दी आत्मा.

➤ **किताब दा रेमा**

[इं६:२५](#) दाते जदों ओह (लोग^{¶3793} ३) उसी समुंदर दे दूए पाससे पाया हा,
उने उसी आख्या, "रब्बी"

(सूली च चढ़ाने कोला पैहे गुर, "3. पैहे-फूल)" दा संदर्भ लैओ),^{¶4461} ३ तू इत्थे कदू आया?

[इं६:२६](#) ऐयीशु ने उनेगी जवाब दिता, "में तुसेंगी सच चाई कनू ने आख्या ऐं

तुस मिगी दूढदे ओ, इस आस्ते नेई के तुस दिखदे ओचमत्कार (चिन्ह), ऐ^{¶4592} २
लेकन तुस रोटी (रोटी) च खांदे हे^{¶740} ते भरे होए.

[इं६:२७](#) दानाश होने आले खाने आस्ते नेई, लेकन उस खाने आस्ते मेहनत करो^{¶1035} जेडा टिकदा ऐ

अनन्त (अनन्त) जीवन, जेका मनुख दा पुत्र तुसें गी देगा

कीजे उदे कोल **ऐपिता परमात्मासील कर दिया.**^{¶4972} २

→मांस जो परमात्मा कोल हैसील कर दिया मनुख दे पुत्र च असेंगी देना **अनन्त जीवन**, ऐ **किताब दा रेमा**, जो हैसील कर दिया अन्त दे समें तकर ([दान 12:4](#) ऐ).⁴¹⁹

➤ जो लोगो दे नाल यीशु एच सोंदे हेन, मसीह एच जी उठनगे

→आदम दे द्वारा मोत आई, तां अस सारे उदे च मरने आं, लेकन मसीह दे द्वारा मरे दे जिंदा होना आया।

इस आस् ते जेके उंदे च लोगो हे ते यीशु च सुत्ते दे हे (मसीह च मरे दे हे) उंदे औने दे समें पैहलें जिंदे होई जाडन ([१थ 4:14-16](#) ऐ, ऐ^१कुरिन्थियों १५:२०-२३).

➤ प्रभु गी दूढने दा समां ऐ⁴²⁰

→तुसें गी अपने पिता-पिता दी परंपरा दे मताबक नाश करने आह्नी चीजें कन्ने नेई छुड़ाया गेआ हा

ते **मनुख**, जेका मसीह दे मताबक नेई ऐ। तो, तुहानू अविनाशी चीजां दा पालन करना है (यीशु दे जरिए)

ते परमात्मा दे राज दा प्रचार करो ([कुलुस्स 2:8](#) ऐ, ऐ^१पतरस १:१८). इस आस् ते धर्म च बोओ ते फसल कड्डो

दया कर, ते अपनी परती जमीन तोड़ दे; की वे प्रभु गी दूढने दा समां ऐ, ते ओह तुसेंगी सिखाग

धर्म ([होस 10:12](#) ऐ).

[मती 24:44](#) ऐइस आस् ते तुस बी तैयार रवो; **इक घंटे दा** जिय्यां तुस सोचदे ओ^{¶1380} नेई **मनुख दा पुत्र** आंदी ऐ।

[मती 24:45](#) ऐजो फिर वफादार ते ज्ञानी ऐ^{नौकर}, ऐ^{¶1401} जिसे उसके **नाथ** अपने घरे दा शासक बनाई लेदा ऐ।

उन्हें मांस देना^{¶5160} उचित मौसम (समय) च^{¶2540} ?

[लुका 12:40](#) देइस आस् ते तुस बी तैयार रवो; **मनुख दा पुत्र पर आंदी ऐइक घंटे दा** जदू तुस सोचदे ओ^{¶1380} नेई.

[लुका 12:41](#) ऐफी पतरस ने उसी आख्या, "**नाथ, तू ए दृष्टांत साढ़े कन्ने, या सारें कन्ने बोलना ऐ?**

[लुका 12:42](#) ऐते **प्रभु** आख्या, "तां ओह वफादार ते ज्ञानी कौन ऐ?" **भंडारी ने दी**, ऐ^{¶3623} २

जिसे उसके **नाथ** अपने घरे दा शासक बनाग^{¶2322} २

उनेंगी उंदा मांस दा हिस्सा देना^{¶4620} उचित मौसम (समय) च^{¶2540} ?

⁴¹⁹वीडियो 41. "परमेसर गी स्वीकार करने आस् ते प्रभु च बधी जाओ।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-भगवान-दे-भगवान-चल-बढ़ना/.

⁴²⁰वीडियो 25. "एक कड़ी कहावत (द लोगो) 1/2।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-एक-कठिन-कहने-दे-लोगोस-देव-दे-कम्म/.

- **मैथ्यू दे दर्शक:** तूमसटी तैयार हो क्योंकि **मनुख दा पुत्र** एक घोट्टे नय आमंगा जो तुभ नशी सोचते. **टीओह नौकर** (मजबूत दा **जी1401 ऐ**) **मार्च 10:44 ऐ-45 वा**). सेवक परमेसरे दे लोगो ते यीशु मसीह दी गवाही दी गवाही दिंदे न, ते ओह सारे गै गवाही दिंदे न, जिंदे च परमेसरे उंणी ओह गल् लां दस् सेया, जेका यीशु मसीह दे प्रगत होने दे जरिये थोड़े गै समें च ह्लोना ऐ (**प्रकासित 1:1 ऐ-2**).⁴²¹
- † **ईश्वरपैह्ले खुलासा कीतायीशु मसीह**अपने सेवक यूहन्ना गी (**प्रकासित 1:1 ऐ**) अपने सेवकें गी उंनं गल् लें दा दस् सेने आस् ते जेके थोड़े गै समें च औने आला ऐ, ते जेके धरमी दे सेवक बनने आस् ते हार मनदे हन, ओह पौलुस हा (**रोम 1:1 ऐ**), यहूद (**जदे१:१ ऐ**), तीतुस (**तीत 1:1 ऐ**), जेम्स (**याकूब 1:1 ऐ**), ते शमौन पतरस (**२पतरस १:१**). धरमी दे सेवक प्रभु दे हन, इस करिए ओह जिंदे ते मरदे न**प्रभू** जानदे होई के मसीह होने आस् ते मरी गया, जिंदे होई गेयाना**थ**जिंदे ते मरे दे दोनों उप्पर. तुस पाप दे सेवक हे, पर परमेसरे दा धनवाद ऐ के तुस पापें थवां छुटकारा पाई लेंदे ओ, जदुं तुस उस उपदेश गी मनने दे बा'द धरमी दे सेवक बनी गो
- † तेरे जो बने**धर्म दे दास**जरूर**पोषण देना**“सब झुंड, जिंदे उप्पर**पवित्र आत्मा गी** उंणी (तुसैं समेत) निरीक्षक बनाई लेदा ऐ, तांजे ओह खिलवाड़ करन**परमेसरे दी कलीसिया**, जिसगी उने अपने खून कन्ने खरीदे दा ऐ” (**प्रेरितों दे काम 20:28**).⁴²²पौष्टिक भोजन दा मतलब ऐ “मसीह दे शरीर दा साझेदारी (**१कुरिन्थियों १०:१६, ऐ१कुरिन्थियों ११:२४**),” जेका प्रेरित पौलुस ने लोकें दे सामने याद च कित्ता**प्रभु यीशु गी** (**प्रेरितों दे काम 27:35-37**) ऐ।⁴²³
- **एमसन्दक दे दर्शक:** उल्लेख नहीं कीता। प्रभु दे आने पर उंणी सुर्ग च लेई जाया जगा।
→1/3 अवशेष जेड़े प्रभु दे आने च उंदा नां पुकारने च असफल रौह्दे न, ओह जमीने उप्पर गै रौह्यान ते चांदी दे रूप च परिष्कृत होई जांगन ते सोने दे रूप च अजमाए जांगन, तां जे ओह आखन “**प्रभु मेरा परमात्मा ऐ**” (**जकरयाह 13:8-9**) ते इक 1,000 साल च दाखल होंदे ना
- **लूका दे दर्शक:** तूजरूरतैयार रवो कीजे ओह उस समें च औग, जिस वेले तुस नेई सोचदे ओ, ते जेका इक घरे च औग, ओह ऐ**प्रभू**जिसने अपने चेलें गी दृष्टत दित्ता ऐ। पर लूका च पतरस ने पुच् छेया**प्रभू**दृष्टत सिर्फ उंदे चेलें आस् ते गै हा जां सारें आस् तो यानी उने पुच्छया कि निगरानी दा जिम्मा कुस दा होग**प्रभु दाग**ओमिंग, ते**प्रभू**जावाब दित्ता, “तब ओह कुन ऐ**वफादार**ते **ज्ञानीभंडारी ने दी**, ऐ³⁶²³ **जिसे उसकेनाथ**अपने घरे दा शासक बनाग²³²² **उंणी उंदा मांस दा हिस्सा देना**⁴⁶²⁰ **उचित मौसम (समय) च**”²⁵⁴⁰”
यूnlike मनी, शब्द “भंडारी” (स्ट्रॉन्ग दा**जी3623 ऐ**) दा इस्तेमाल लूका च “सेवक” (स्ट्रॉन्ग दा**जी1401 ऐ**). भंडारी (मजबूत दा**जी3623 ऐ**) दा अफसर ऐ**मसीह**, इक वफादार जिस पर रहस्यें गी संभालने दा जिम्मा दित्ता गेदा ऐ**ईश्वर**(**१कुरिन्थियों ४:१-2**).
- † दा रहस्य**ईश्वर**उसी अपने सेवक नबियें गी घोशित कीता गेदा हा, ते एह 7में सुर्गदूत दी आवाज दे दिनें च खत्म होई जाग, जिसले ओह बजना शुरू करी देग (**प्रकासित 10:7 ऐ**).⁴²⁴दूजे शबदां एच, भंडारी (एक वफादार ते ज्ञानी) धर्म दे सेवक हेन जिन्दे उते प्रचार दा जिम्मा हे**प्रभु दामौत दा आने तकर**(**१कुरिन्थियों ११:२६**), अपने लाडले बच्चें कन्ने आध्यात्मिक मांस साझा करिये जेह्दे उंदे आसेआ सुसमाचार दे जरिए पैदा होए न, तां जे ओह अंदर दी गल्लें गी याद करन**मसीह**उचित समें च ते जदू ओह पिच्छें नेई रेह्या**आ गया**.⁴²⁵
- † भाइयों, जिन्होंने पाये**भविष्यवाणी दी भावना**, ऐ यीशु दी गवाही देओ**मसीह दी गवाही**उन्दे (तुस) च पृष्टि करदा ऐ) अंत तकर चंगाई, मदद, सरकार, ते बकख-बकख भाशाएं दे वरदान दे जरिए, तां जे ओह (तुस) दे दिन बेदाग होई सकदे ओ**प्रभु यीशु मसीह गी**.⁴²⁶

(बुरा सेवक आखदा ऐ “मेरे रब अपने आने च देरी करदे न”)

मती 24:46 ऐधन्य ऐ ओह सेवक,¹⁴⁰¹ जिसी ओस दे स्वामी औदे गै उसी इयां करदे पागा

मती 24:47 ऐमें तुसैं गी सच्च आखना ऐं के ओह उसी अपने सारें उप्पर शासक बनाग**समान**.

मती 24:48 ऐपर जेकर ओह दुष्ट दास अपने मन च आखग, “मेरा”**नाथ**²⁹⁶² उंदे आने च देरी करदा ऐ;

मती 24:49 ऐते अपने साथी दासैं गी मारना शुरू करी देग, ते नशेडियें कन्ने खाना पीना शुरू करी देग;

421वीडियो 43. “(आत्मा दे नेतृत्व च) परमात्मा दे पुत्र”www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-आत्मा-भगवान-दे-पुत्र-अगुवाई-दे/.

422वीडियो 16. “गैर-यहूदी, सारे जाति (प्रभु दे वफादार ते ज्ञानी भंडारी बनो) 10/10”

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ऐ/.

423वीडियो 31. “सिर दे बाला”www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-एक-नजरी-देव-दे-सिर-के-बाल/.

424वीडियो 45. “6. प्रायश्चित्त करो”www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-प्रभु-दे-भोज-6-प्रायश्चित्त/.

425वीडियो 16. “गैर-यहूदी, सारे जाति 10/10”www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ऐ/, ऐ video 30. “कम्यूनियन”

दाwww.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ऐ/ वीडियो 34. “**आत्मा दे अनुसार & अनुग्रह दे तहत**”
www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-अनुग्रह-दे-तहत-आत्मा-दे-अनुसार-देवताएं-चयनित-गवाहें-लेई-रेमा/.

426वीडियो 43. “(आत्मा दे नेतृत्व च) परमात्मा दे पुत्र”www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-आत्मा-भगवान-दे-पुत्र-अगुवाई-दे/.

[मत्ती 24:50](#) ते प्रभु जी²⁹⁶² उस दास दा उस दिन और, जिस दिन ओह उसदी इंतजार नेई करगा।

ते इक घड़ी च, जिसदे बारे च उसी पता नेई ऐ,

[मत्ती २४:५१](#) ऐते उसी टुट्टी देग ते पाखंडिये कन्ने उसी अपना हिस्सा देई देगा।
उथे रोना ते दांत चीरना होगा।

- धन ऐ के ओह सेवक, जिसी उदे स्वामी उसी सारे भेड़े गी पोशित करदे होई, जिंदे उप् पर पबित्तर आत् मा ने उसी निरीक्षक बनाया ऐ, तांजे ओह परमेसरे दी कलीसिया गी चरने आस् ते उसी अपने खून कन् ने खरीदे दा ऐ। प्रभू उसी अपने सारे माल उप्पर शासक बनाई देगा।
- पर जेड़ा नौकर अपने दिल च आखदा ऐ, "मेरा प्रभु अपने आने च देरी करदा ऐ" बुरा ऐ (जिय्यां ओह दिक्खदा नेई ऐ), इस करी ओह अपने साथी दासों गी दुनिया दे नशेडिये कन्ने खाने-पीने आसतै मारना शुरू करी दिदा ऐ, जेहड़ा नेई ऐ पवित्र आत्मा गी। अदं प्रभु उस नौकर दा उस दिन और जिसलै ओह बुरा नौकर उसी नेई दूढदा, ते प्रभु एक घोट्टे भें आमेगा कक दृष्ट सेवक अनजान शै, ते उसी टुट्टी ते पाखंडिये कन्ने अपना हिस्सा देई ओइना।
- [प्रभुसिथ्योन च बापस और ते यरूशलेम दे बिच्च रौहाग](#), जिसी सच्चाई दा नगर, सेनाएं दे प्रभु दा पहाड़, पवित्र पहाड़ आखया जाग। जियां-जियां तुस कृपा च ते सादे ज्ञान च बधदे [ओनाथते उद्धारकर्ता यीशु मसीह \(२परेतर ३:१८\)](#), तुस सिथ्योन पहाड़ जेका जिंदे परमात्मा दा नगर ऐ, सुर्गाय यरूशलेम ते दस हजार गुणा दस हजार सुर्गदूत दे कोल और [सेनाएं दा प्रभु](#) जेड़ा पुराने नियम च सिथ्योन पहाड़ ते ओदी फाड़ी आस्ते लइने आस्ते सुर्ग थवां उतरग, नमें नियम च पूरा होई जाग, जदुं सारे जिंदा होई जांगन [मसीह](#) ते जिंदे परमात्मा दे नगर च लेई गया के उंदे कन्ने रौहना [प्रभुनिम्नलिखित क्रम च: 1।](#)
→ ["मसीह दा पैहला फल; बाद च ओह जेड़े नमसीह दा उंदे आने पर"](#) ([१कुरिन्थियों १५:२३](#)).

- पैह्ले जन्मे (मेरे दे बच्चें च पैह्ले जन्मे) दी आम सभा ते कलीसिया [ऐमसीह, ऐकलुस 1:18 ऐ](#)⁴²⁷

दी कलीसियाएं दे रूप च संदर्भित कीता जंदा ऐ [मसीह](#) जेड़े सुर्ग च (मेम्मे दे जीवन दी किताब च) लिखे दे न;

कर्ता [हईश्वर](#) सारे दा न्यायी ऐ ते जिनेंगी धर्मी बनाया गेदा हा, उंदी आत्माएं गी सिद्ध कीता जंदा ऐ

खून ते विश्वास दे जरिए.⁴²⁸

- प्रभु पैह्ले जन्में दी कलीसिया गी जां मसीह दी कलीसियाएं गी (जेहड़े लोकें च प्रभु च रौहदे हे

[दाऊद दा नगर जित्थे मसीह प्रभु दा जन्म होया हा](#)) जिंदे परमात्मा दे नगर गी, जेड़ा ऐ

स्वर्गाय यरूशलेम दा।⁴²⁹

- ऐ प्रभु अपने इनाम दे नाल आदे ने च्या तेरे कम्मे, ते सिथ्योन दी कुड़ी गी उद्धार मिलदा ऐ।

तुस पबित्तर लोक, परमेसरे दे छुड़ाए गेदे, ते इक नगर जेका नेई होग

त्याग दित्ता।⁴³⁰

[चातेरे आने दा की निशानी होग \(प्रभु दा आना\)?](#)

[मत्ती २४:२४](#) ऐकी वे उथे पैदा होवेगा [झूठे मसीह](#), ऐ⁵⁵⁸⁰ ते [झूठे नबी](#), ऐ⁵⁵⁷⁸ ते बड़ा गै दिखाई देग [संकेत देते](#) अजूबे;

इय यां के जेकर होई सकदा तां ओह चुने गेदे लोकें गी गै धोखा देई ओइना।

[मार्च 13:22](#) ऐ लेई [झूठे मसीह](#)⁵⁵⁸⁰ ते [झूठे नबी](#)⁵⁵⁷⁸ उठेगा,

ते दस्सी देग [संकेत देते](#) आश्चर्य, जेकर संभव होंदा तां चुने गेदे लोकें गी बी बहकाने आसतै।

• मत्ती दे दर्शकें लेई: [झूठा मसीह एस](#) ते [झूठे नबी](#) उठदे ते मत्ती दे श्रोताएं आस् ते "बड्डे-बड्डे निशान ते अचंभ" दस्सन जेके "चुने गेदे" ना।

• दरखास्त [इंकार](#) दे दर्शकें गी: मरकुस दे दर्शकें आसतै "चिन्हें ते अजूबे" दस्से जाडन जेहड़े "चुने गेदे" ना।

[मत्ती 24:25](#) ऐ दिखो, मैं तुसेंगी पैहलें गै दस् सेया हा।

[मार्च 13:23](#) दीलेकन तुस सावधान रवो; [सारी चीजां](#)।

⁴²⁷"[3] दानिय्येल दे 70 हफ्ते" दा संदर्भ लैओ।

⁴²⁸वीडियो 4. "जमीन दा फल [एच127 ऐ](#) बनाम धर्म दे फला।"

www.therhemaofthelord.com/course1/4-जमीन-दे-फल-बनाम-धर्म-दे-फल-अपडेट/.

⁴²⁹वीडियो 9 (पहले फल दे बारे च विस्तार कन्ने जानने लेई, "1. फसह" दे हेठ यरूशलेम दा आरख दिक्खो)।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-फसह-फ्राम-ओटी-टू-एनटी/.

⁴³⁰वीडियो 24, "तुस पवित्र यरूशलेम ओ (3/3)।"

www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-देव-दे-घर-तुस-पवित्र-यरूशलेम/.

- मत्ती दे श्रोताएं आस ते यीशु ने उनेंगी पैहलें गै झूठे मसीहें ते झूठे भविष्यवानी करने आलें दे बारे च दस् सेया हा।
- मरकुस दे श्रोताएं आस ते यीशु ने सारी गल् लें दा भविष्यवानी किती ही, एह ग् लाया के मरकुस दे श्रोता उदे “मित्र” हन, कीजे उनेंगी उनेंगी **“सारी चीजां”** (इं१५:१५ ते).⁴³¹

- **एमसीह विरोधी, ऐझूठे मसीह, ऐ & झूठा नबीएस**

• **मसीह दे विरोधी**^{#500}

१योह २:१८ बच्चो, ए आखरी बारी ऐ, ते जिय्यां तुसें ए गल्ल सुनी ऐ **मसीह विरोधी** (**ἀντίχριστος** ऐ, एकवचन दा)^{#500}

आएगा, हुन बी मते सारे न**मसीह विरोधी** (**ἀντίχριστοι** ऐ, बहुवचन):^{#500}
जिसदे कन्ने अस जानने आं जे एह आखरी बारी ऐ।

१योह २:२२ जेड़ा इस गल्ल दा इन्कार करदा ऐ, उदे अलावा कुन झूठा ऐयीशु**एमसीह गी?**

ओह **एमसीह विरोधी** (**ἀντίχριστος** ऐ, एकवचन) ऐ, ऐ^{#500}कि इन्कार करदा ऐ**पिता जीतेपुत्र गी**।

१जोह ४:३ ते हर इक आत्मा जेड़ा इस गल्ल गी कबूल नेई करदी**यीशु मसीह**आया ऐ शरीर च नेई **ऐईधर: 1।**

ते एह ओह आत्मा **एमसीह विरोधी** (**ἀντίχριστου** ऐ, एकवचन) ऐ, ऐ^{#500}

जिस दे बारे च तुसें सुनेया ऐ के ए आने आला ऐ; ते हुन बी एह संसारे च गै ऐ।

२जो 1:7 ऐ की वे संसार च मते सारे धोखेबाज प्रवेश करदे न;

जो कबूल करदे न कि**यीशु मसीह**शरीर च आया ऐ. एह इक धोखेबाज ऐ^{#4108}ते**इक मसीह विरोधी**.^{#500}

➤ **मसीह विरोधी&मसीह विरोधी(झूठा = धोखेबाज)**

- ऐका एकवचन रूप**मसीह विरोधी**(**ἀντίχριστος** ऐ) पाप दा आदमी है, जो 1 जानवर वास्ते कम्म करग
(**प्रकाशितवाक्य 13:1-2, ऐरथिस २:३**).

- ऐका बहुवचन रूप**मसीह विरोधी** (**ἀντίχριστοι** ऐ) ओह ऐ, जिदे च मसीहा विरोधी दी भावना दा इकलौता रूप ऐ
(**ἀντίχριστου** ऐ, एकवचन), मसीह विरोधी।

- जिन्हां ने**मसीह विरोधी** दी भावना झूठे हैं क्योंकि इन्कार करदे हैं**यीशुएमसीह** गीकन्ने गै**ओह बापूतेपुत्र गी**. धोखेबाज न ते दुनिया च पैहें गै मते सारे ना

- वे नयभ नयभात्मा के नशी शैं क्मोकक उवकी आत्माओ को कबूल नशी कयते**यीशु मसीह**शरीर च आया ऐ.

→**ठीओह**मसीह विरोधी अपने आप गी इस गल् ला उप् पर एह दस् सेया के जेके परमेसरे ग् लादे न, उदे उप् पर अपने आप गी उंचाई दिंदा ऐ परमेसरे दा मंदर, ते इस चाल्ली ओह धोखेबाज ऐ, जिसी मसीहा विरोधी आत् मा ऐ (**रथिस २:३-४ च**).

→च**प्रकाशितवाक्य 13 ऐ**, दो जानवर होंगन, इक जेड़ा समुंदरै थमां उडग, जेह्दा 1st जानवर ऐ
(**प्रकासित 13:1 ऐ**), ते इक होर जमीन तों बाहर निकलदा है, 2 जानवर (**प्रकासित 13:11 ऐ**).

- ऐमहान अजगर दा 1st जानवर जिसदी पूजा जमीन दे निवासी करंगन, ते आदमी
पाप दादे एकवचन रूप दे वर्णन कन्ने मेल खांदा ऐ **“मसीह दे विरोधी.”**

➤ **झूठे मसीहा&झूठे नबी**

- ऐ महान संकट दे दौरान, मते सारे झूठे मसीह ते झूठे भविष्यवक्ता पैदा होनगे, ते बड्डे-बड्डे निशान दिखानगे ते चुने गोदे लोकें गी धोखा देने आस्तै चमत्कार (**मत्ती २४:२४ ऐ**). 2nd जानवर जमीन से बाहर, जो कर देगा जंगली लोकें गी धोखा देने आस्तै बड्डे-बड्डे निशान(**प्रकासित 13:13 ऐ**) झूठा है नबी जी(**प्रकाशितवाक्य 19:20**).

जी**एह गल्लां (प्रभु दा आना) कद् होंगन?**

मत्ती 24:4 ऐयीशु ने उनेंगी आखया, “ सावधान रहो कि कोई तुहानू धोखा नेई दे।”

मार्च 13:5 ऐयीशु ने उनेंगी जवाब देईये आखया, “ सावधान रहो कि कोई तुसें गी धोखा नेई देगा।”

⁴³¹वीडियो 48. “8 दा हनुक्का”www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-दे-भोज-8-हनुक्का/.

- चया मत्ती दे श्रोता, यीशु उनेंगी चेतावनी दिंदा ऐ के किसे कन्ने धोखा नेई होन.
- मरकुस दे दर्शकां वास्ते, यीशु उनेंगी चेतावनी दिंदा ऐ के के कोई उनेंगी धोखा नेई देई सकै.

मत्ती २४:५ ऐकीहके मेरे नां कन्ने मते सारे आए दे होंगन, “मैं हां” मसीह; ते मते सारें गी धोखा देगा।

मरच 13:6 ऐकीहके मेरे नां कन्ने मते सारे आए दे होंगन, “मैं हां” मसीह; ते मते सारें गी धोखा देगा।

- मत्ती ते मरकुस दे श्रोताएं च मते सारे लोक उस वेले धोखा च पौडन, जदुं कोई मसीहा दे नां उप् पर औंदा ऐ ते ग् लांदा ऐ, “मैं मसीह हां”.

मत्ती 24:23 ऐफिरी जे कोई तुसैं गी आखग, “दिखो, इत्थे मसीह ऐ या उथे ऐ; इस पर विश्वास ना करो।

मार्च 13:21 ऐते जेकर कोई तुंदे कन्ने आखग, “दिखो, इत्थे मसीह ऐ; जां, दिखो, ओह उलथें गै ऐ; उदे उप्पर विश्वास नेई करो।

- मत्ती ते मरकुस दे श्रोताएं गी चेतावनी दिती जंदी ऐ जे जेकर कोई उनेंगी आखदा ऐ तां विश्वास नेई करना
“दे खें, इव नय शै मसीह जांतुआह”.

लूका 21:8 ऐओस ने आख्या, “सावधान रहो कि तोहे धोखा नेई देओ।

कीहके मेरे नां कन्ने मते सारे आए जांगना मैं मसीह हां; तेवक्त नेडे आ गया: 1।

इस आस् ते तुस उंदे पिच्छे नेई जाओ।

- लूका दे श्रोताएं गी चेतावनी दिती जंदी ऐ जे ओह धोखेबाजें दे पिच्छे नेई जाओ जेह्दे आखदे न “मैं मसीह हाते समां नेडे आवे करदा ऐ” जिय्यां लूका दे श्रोताएं आस ते मुक्ति (मसीह दा आना नेई) नेडे औंदा ऐ.

- परमेसरे दे लोकें दे शरीरें दा केह होंदा ऐ ?⁴³²

- पवित्र लोकें दी आत्मा दा केह होंदा ऐ जेह्दे सोई गोदे हे?

प्रेरितों दे काम 7:59 ते स्टीफन गी पत्थर मारदे होई परमात्मा गी पुकारदे होई आखेआ, “प्रभु यीशु, मेरी आत्मा (आत्मा) गी ग्रहण करो।⁴¹⁵¹ ऐ

प्रेरितों दे काम 7:60 उन घुटने टेकिये जोर कन्ने चिल्लाया, “प्रभु, ए पाप उंदे उप्पर मत लाओ।”

जदुं ओह एह ग् लाया, तां ओह सोई गया।²⁸³⁷ ऐ

→ प्रभु यीशु गी अपने पवित्र संत दी आत्मा मिलदा ऐ, पर उंदे शरीर गी उसलै तकर सुत्ते दा ऐ

प्रभु यीशु दा आना (प्रकाशितवाक्य 22:20), जिसदा सबूत स्टीफन दी मौत दे जरिए मिलदा ऐ।

- पवित्र संत दे मरे दे लाशें दा केह होंदा ऐ?

प्रेरितों दे काम 13:34 ते उन उसी मरे दे बीचा जिंदा कित्ता, ते हुन फिरी भ्रष्टाचार च नेई लौटने आला।

उन इस गल् ला उप् पर ग् लाया, “अऊं तुसैंगी दाऊद दी पक् का दया देगा।”

प्रेरितों दे काम 13:35 इस आस् ते ओह इक होर भजन च बी ग् लांदा ऐ।

तु अपने पवित्र गी भ्रष्टाचार नेई दिखना.

→ दाऊद नींद च पेई गया ते उसी अपने पुरखें दे सामने सुट्टी दिता गेआ ते उसी भ्रष्टता दिक्खी गई (प्रेरितों दे काम 13:36). पर ओह जिस

परमात्मा ने फिर जिया, कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखे (प्रेरितों दे काम 13:37) ते उनेंगी साढ़े आस् ते बी उं'दे गै पूरा करी ओड़ेया ऐ

ज्याणें⁵⁰⁴³ ऐ (प्रेरितों दे काम 13:33).

- जेके मसीह दी मर्जी कन्ने महिमा च प्रगट होन

लूका 9:27 ऐलेकन मैं तुहानू इक सच्चाई आखदा हां,

इत्थें कुसै खडोते दे होन, जेह्दे मौत दा स्वाद नेई चखग, जदू तकर ओह नेई दिक्खदे परमात्मा दा राज.

लूका ९:२८ दाते इय यां गै होई गया इक आठ दिन दा इन कहावतें दे बाद, ऐ

ओ पतरस ते यूहन्ना ते याकूब गी लेईये प्रार्थना करने आस् ते इक फ्हाड़े उप् पर चली गया।

लूका 9:29 ऐते जदुं ओह पराथना करदा हा, तां उदे चेहरे दा धू यान बदली गया।

ते उदे कपड़े²⁴⁴¹ ऐ हाचिट्टाते चमकती हई.

लूका 9:30 दाते दिखो, दो मनुख उदे कन्ने गल्लां करदे हे मसा जी तेइलियास ने दी: 1।

⁴³² “[चित्र 10-घ],” या वीडियो 39. “मरे दे जी उठना” दा संदर्भ लैओ www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-संभावित-समय-अनुक्रम-सली-पर-चढ़ाने-पहले-और-अंतिम-आदम-मृतक-के-पुनरुत्थान/.

[लूका 9:31](#) एकु नमहिमा में प्रकट हुआ, ते उदी मौत दी गल्ल किती जेडी उसी यरूशलेम च पूरा करना ऐ।

→ आठवां दिन उस दिन दा संदर्भ दिंदा ऐ जेहड़ा ईश्वर अपने लोकें च रौह्या ते चलग ते बनग ईश्वर में अपने लोकें दापरमात्मा दा तम्बू, ऐ⁴³³जित्थें परमात्मा दे लोकें दे शरीर जो होना हो चुके हैं फैशन कर दिता प्रभु यीशु मसीह दा महिमामंडित शरीर.⁴³⁴

→ हालांकि मूसा मरे दे लोकें दा इक मिसाल हा, जिनेंगी मौत दे राज च सुते दा हा; पतरस, यूहन्ना ते याकूब ने मूसा ते एलिय्याह गी अंदर दिक् खेया महिमा, यीशु दे कन्ने गल्ल करदे होई ए फ्हाड्डी यीशु दे सूली च चढ़ाने कोला पैह्ले (लूका ९:२८-३० ते), इशारा करदे होई जे सोआने आह्लें दी आत्माएं कुम्हार दे खेतर च प्रभु यीशु ने ग्रहण किता, पर लाशें दी ओह जो में हैं मसीह उंदे आने पर जिंदा होई जाग (१ कुरिन्थियों १५:२२-२३ ऐ).⁴³⁵

• प्रभु, सच्चा तम्बू

[लूका 9:32](#) ऐलेकन पतरस ते उदे कन्ने दे लोक नींद च भारी पेई गो।

जदुं ओह जागे, तां उनेंगी उसी दिक् खेया महिमा, ते उदे कन्ने खड़ोते दे दो मनुखा।

[लूका ९:३३](#) चजदुं ओह उदे कोलां चली गो।

पतरस ने आख्या यीशु, ऐमास्टर, ऐ¹⁹⁸⁸नेई साढे आस् ते इत् थें रौहना भला ऐ:

ते आओ अस त्रै तम्बू बनाचे;

तेरे वास्ते इक, ते इक मूसा आस्ते, ते इक एलिय्याह आस्ते;

[लूका 9:34](#) ऐजदुं ओह एह ग् लां दे हे, तां इक बादल आया ते उंदे उप् पर छाया पेया।

ते बादल च जां दे गै ओह डर दे हे।

[लूका 9:35](#) ऐते बादल चों इक आवाज आई एह मेरा लाडला पुतर ऐ: 1। उसी सुनो.

[लूका 9:36](#) ऐते जदुं आवाज बीती गेई यीशु अकेला पाया गया।

उने उसी नेडे रखेया, ते उन दिनें च जेडी गल्ल उने दिखी ही, उने किसे गी बी नेई दस्सेया।

→ जेडे यीशु दे नाल हेन (पतरस, यूहन्ना, याकूब, लूका ९:२८ दा) गहरी नींद च हे, जदुं यीशु

में प्रकट हुआ महिमा मूसा ते एलिय्याह दे नाल (यीशु दे चेहेरे ते उदे कपडे बदले हन सफेद ते चमकदार हो गया)। मतलब उनेंगी कुस पहाड़ दा कोई अंदाजा नेई हा

(लूका ९:२८ दा) ओह पर हे, इस आस् ते पतरस ने यीशु गी ग् लाया के ओह उंदे आस् ते 3 तम्बू बनाग यीशु, मूसा ते एलिय्याह।

[इब्रानियों 8:1](#) हून जेडी गल्लां असें बोली ऐ, उंदा सार ए ऐ: साढे कोल इक ऐसा महायाजक ऐ।

जेडा सुगें च महामहिम दे सिंहासन दे सज्जे पाससे बैठे दा ऐ;

[इब्रानियों 8:2](#) अभयारण्य दा इक मंत्री, ते दा सच्चा तम्बू, जित प्रभु पिच कर दी, ते मनुक्ख नेई।

→ बादल चों इक आवाज ने चेलें गी पक्का करी दिता जे उनेंगी परमात्मा दे लाडले पुतर गी सुनना चाहिदा।

यीशु. दू ए शबदां च, जिस जगह च चले खड़ोते दे हे, ओह सच् चे च पबितर भूमि ही

तम्बू ओह प्रभु पिच कर दी, ते प्रभु ऐ सच्चा तम्बू (याद रखो कि ईश्वर

अपने लोकें कन् ने अपने तम्बू च रौहने दा वादा किता).⁴³⁶

• नश्वर शरीर किस तरह जीवंत होंगे?

मरे दे लाशें गी जिंदा होने दे चक्कर च, जीवन दी आत्मा थमाई ईश्वर जिन्दे च मरे दे न, उंदे च दाखल होग यीशु

⁴³³“(प्रकाशितवाक्य 22:3-4 ऐ) परमात्मा दे सेवक परमात्मा दा मुह (परमात्मा दा दिन).”

⁴³⁴“[चित्र 10-2] 3 फसल & 4 घड़ियां” दा संदर्भ लैओ।

⁴³⁵परमेसरे दे मंदर च दाखल होने आस् ते किस चाल्ती जीत हासल कीती जा, इसदे बारे च विस्तार कन्ने जानने आस् ते वीडियो 47 दिक्खो। “7. तम्बू”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-प्रभु-दे-भोज-7-तम्बू/

ते वीडियो 11. “(एक वस्त्र) फसह दी पर्व तों पहलां,”

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-फसह-त्योहार-दे-पहिले-यीशु-वस्त्र/.

⁴³⁶“(प्रकाशितवाक्य 21:2-3) नमां यरूशलेम (परमेसर दे तम्बू दे मंदर दा पबितर नगर).”

मसीह.⁴³⁷

- जिन्दगी खून ते शरीर दे साझेदारी दे जरिए नश्वर शरीरें च प्रवेश करदा ऐमसीह, जेडा मनुख दे पुत्र दा मांस खाइयै कीता जंदा ऐ (परमातमा दे लोगो) ते उदा खून पीना (आत्मा गी, ऐरेमा दा) (१करिन्थियों १०:१६).
- जेकर आत्मा गी आहला ईश्वर कि उठाया यीशु मरे दे विचोंतरे विच रहो, ईश्वर जिसने उठाया मसीह मरे दे विचोंतुंदे नश्वर शरीर गी बी जिंदा करग दा रुह जेडा तूंदे च वसदा ऐ (रोम ८:११ ऐ).

⁴³⁷संदर्भ देना प्रकासित 11:11 ऐ.

(प्रकाशितवाक्य ११:१-२) परमातमा दे मंदिर नाप

प्रकाशित 11:1 ऐते उथे मिगी इक खद्व दित्ता गोआ^{१२५६३} छडी दे समान: 1।^{१४४६४} ते सुर्गदूत खडोते दा आखया।

चढ़ेआ, ते नाप दे मंदिर दाईश्वर, ते वेदी ते उदे च उपासना करने आलें।

प्रकाशितवाक्य 11:2 पर कोर्ट दा^{१४३३} जो बाहर (बाहर अंदर) ऐ^{१८५५} नै^{२०८१} मंदिर छोड़ दे, ते नाप नेई;

की वे ए गैर-यहूदियां गी दित्ता गेदा ऐ।^{१४८४}

ते पवित्र^{४०} शहर^{४१७२} ओहू बयालीस (42) महीने पैरें थमां हेठ रौदे ना।

☞ प्रकाशित 11:1 ऐतफ भेये नास छडी की तयश एक खद्व ददमा गमा। ते सुर्गदूत खडोते दा आखया।

“उठो ते नाप के मंदिर दाईश्वर, वेदी, ते उथे पूजा करने आले।

☞ प्रकाशितवाक्य 11:2 “लेकन मंदर दे बाहले आंगन गी छड्डी ओड़ो, ते उसी नाप नेई करो।

की वे ए गैर-यहूदियां गी दित्ता गेदा ऐ।

ते ओह रौहगेपवित्र नगर दा बयालीस (42 ऐ) महीने।

→ पवित्र नगर पवित्र संत, ⁴³⁹ ते उनेंगी 42 महीने तगर पैरें थमां हेठ रक्खेआ जाग, जेहड़ा...

की शुरूआतउजाड़ दी घृणित चीजटीओ चुने गेदे लोकें लेई घट्ट कीते गेदे दिन (मत्ती 24:22 ऐ)।⁴⁴⁰

• इक ईख^{२५६३}

मत्ती 12:16 ऐते उनेंगी आज्ञा दित्ती के ओह उसी नेई बनाना।(मत्ती 12:8 ऐ) पनछानू:

मत्ती 12:17 ऐतां जे यशायाह भविष्यवक्ता ने आखया हा, ओह पूरा होई जा।

मत्ती 12:18 ऐमेरे दास गी दिखो, जिसी मैं चुनेया ऐ; मेरे लाडले, जिदे उप्पर मेरा प्राण खुशा ऐ।

मैं अपनी आत्मा उदे उप्पर लाना,

ते ओह गैर-यहूदियें गी (गैर-यहूदियें दे जातिएं गी) नू याय देगा।^{१४८४}

मत्ती 12:19 ऐओह ना झगड़ा करग, ना रोना; ना कोई गली च उदी आवाज सुनी।

मत्ती 12:20 ऐइक चोट लगी दी ईख^{२५६३} क्या ओह ना तोड़ना, ते धुआ पीदे सन गी नेई बुझागा।

जदू तक ओह नू याय गी जीत आस् ते नेई भेजे।

मत्ती 12:21 ऐते गैर-यहूदी उदे नां उप्पर भरोसा करंगना।

- ऐई। ईsaias नबी ने गल्ल कीती हीप्रभू(क्योरिओस),

“मेरे दास गी दिखो, जिसी मैं चुनेया ऐ, मेरे प्यारे गी जिदे उप्पर मेरी आत्मा खुशा ऐ। मैं उदे उप् पर अपनी (परमेसर दी) आत् मा रखना ऐ, ते ओह गैर-यहूदियें गी अपने नू याय गी दस् सेना ऐ। ना ही ओह कोशिश करग ना चिल्लाग, ना ही कोई गलीएं च उंदी आवाज सुनगा। इक चोटी दी खद्व गी ओहू नेई तोड़ग, ते धुआधार सन गी ओहू नेई बुझग, जदू तक ओह न्याय गी जीत आस्तै नेई भेजगा। ते गैर-यहूदी उदे नां उप् पर भरोसा करडन।”

→ चोट खाई खद्व की डंडामिस दा मतलब ऐ, जिस उप्पर इक माहू^{३७६} झुकदा ऐ, ओहू उंदे हत्थै च जाइयै उसी छेदग

(राजा १८:२१)।

(परमातमा दे मन्दिर नाप, टीओह वेदी, जेड़े उदे च पूजा करदे न)

→ उस बेले यूहन्ना गी लाठी दे समान इक सरक दित्ता गोआ, ते सुर्गदूत खडोते दा आखया।

“चढ़ेआ, ते नाप दे मंदिर दाईश्वर, ते वेदी, ते उदे च पूजा करने आले।

लेकन मंदर दे बाहले आंगन गी नापिये उसी बाहर नेई छड्डी; की वे गैर-यहूदी जातिएं गी दित्ता गेदा ऐ।

ते ओह रौहगेपवित्र नगर दाबयालीस (42) महीने तक पैरें दे हेठ।”

→ (व्याख्या) दा

यूहन्ना गी गू लाया गया के परमेसरे दे मंदर गी नाप⁴⁴¹ ते वेदी, ते उदे च पूजा करने आलें गी, पर नेई

⁴³⁹“पवित्र शहर” दे बारे च विस्तार कन्ने दिखोप्रकाशित 3:12 ऐ.

⁴⁴⁰अध्याय 10 थमां “चुने दे लोकें आस्तै दिन घट्ट कीते जाडन” दा संदर्भ लैओ।

⁴⁴¹“[चित्र 21-2] सुर्ग च नमां तम्बू & परमेसरे दा मंदिर।”

जेड़े मिश्र (दंड दे समान खड़) उप्पर टिका करदे ना मिश्र दे राजा (पृथ्वी राजा, [राजा १८:२१](#))

पर होगा [कोर्ट दामंदरे](#) दे बाहर जेड़ा गैर-यहूदी जातिएं गी दित्ता जाग, ऐ⁴⁴²ते ओह सूत देंगे

[पवित्र नगर](#) दापैरों के नीचे 42 महीने तक।

† प्रभु दे घर दा आंगन ([जेर २६:१-६](#) च)

[प्रभु दानौकर नबी](#) (थिर्मयाह) ने रेमा बोलया ^{स्व1697} [आहला प्रभु गी](#) यहूदा दे सारे नगरों गी जेड़े खडोते दे हे [कोर्ट दा](#) आहला [प्रभु दा](#) घर उनेंगी अपने बुरे रस्ते कोला मुड़ने दी चेतावनी देना। पर जेकर गैर-यहूदी जाति नेई सुन्दे [मा दा](#) द्वारा भेजे गए नबीओं से [प्रभु गी](#) ते उदी व्यवस्था च नेई चलना। [प्रभु गी](#) उंदे नगर गी धरती दी सारी जातियें आस्ते अभिशाप बनाई देगा।

† पवित्र नगरी

टीनली जिन्हें [सुनीरेमा दा](#) उस नहाड नय नशी शोगा जजसके साथ छूमा जा वकता शै औय जरा जा वकता शै [अग्ग](#), पर जिंदे दे नगर सियोन पहाड़ उप्पर हो [गईश्वर](#), ऐ [सुर्गीय यरुशलैम गी](#), ऐ [पैहू पुत्रों दी कलीसिया](#) जेड़े सुर्ग च लिखे दे न, जित्थें आत्माएं दी [ओह धर्मी परफेक्ट](#) बनाये जांदे हैं ([इब्रानियों 12:18](#) ऐ, [ऐइब्रानियों 12:23](#) ऐ)।

→ तुसीं ओह हो [पवित्र नगर](#) जो बन जाएगा [मेमने दी पत्नी](#)।⁴⁴³

([प्रकासित 11:3-4](#) ऐ) दो (2) गवाह

[प्रकासित 11:3](#) ऐते मैं अपने दो गवाहें (गवाह, शहीद) गी अधिकार देगा।^{स्व3144} ऐ
ते ओह भविष्यवानी करडन ^{स्व4395} हजार दो सौ साठ (1,260) दिन, बोरी दे कपड़े चा ^{स्व4526} ऐ
[प्रकासित 11:4](#) ऐ एह दोऐ जैतून न ^{स्व1636} पेड़-पौधा, ते दो (2) मोमबत्ती ^{स्व3087} ऐ
सामने खड़े होकर [ओह ईश्वर](#) धरती (जमीन) दा।^{स्व1093} ऐ

☞ [प्रकासित 11:3](#) ऐते मैं अपनी शक्ति देगा [दो \(२\) गवाह](#), ते ओह भविष्यवानी करडन **1,260 दिन दा**, बोरी दा कपड़ा पहिरे।

☞ [प्रकासित 11:4](#) ऐते हैं [दो \(२\) जैतून दे पेड़](#) ते [दो \(२\) मोमबत्ती दी](#) धरती दे परमात्मा दे सामने खड़ोते दे।

- दो (2) गवाह कौन हैं ?

→ मेरा [दो \(२\) गवाह](#) बोरी दे कपड़े पाईए भविष्यवानी करने आस् ते 1,260 दिन दित्ते जाडना

- [ओह २ मोमबत्ती दी](#): 1 [दी 2 कलीसियाएं गी](#) ([प्रकासित 1:13](#) ऐ)
- [ओह २ जैतून दा \(पेड़-पौधा\)](#): [दी 2 जैतून](#) दे पेड़ मोमबत्ती दे दाएं ते बाएं पाससे [नदो \(२\) पुत्र](#) जो खड़े हो जांदे ने प्रभु दे द्वारा ('[āḡôn](#)')^{स्व113} [धरती दा](#), से शुद्ध सोने दे तेल दा बाढ़ उझिलदा कणक दे कान दी शाखाएं।

([ईश्वर जमीन दा](#) है प्रभु ('[āḡôn](#)')^{स्व113} [धरती दा](#) ([यहोस 3:11](#) ऐ))⁴⁴⁴

→ दे महान ते भयानक दिन दे आने कोला पैहले 2 पुत्र गी भविष्यवाणी करने आस्ते जमीन उप्पर भेजेआ जाग

[प्रभु गी](#), ते ओह [चाहना](#) ओह गै होन, जिनेंगी अजें तक मीत दा अनुभव नेई कित्ता ऐ, तांजे ओह उंदे बा'द जिंदा होई सकन उनेंगी "नमें रोमन राज" दे शासनकाल च मारी दित्ता जंदा ऐ।

- इस करिए 2 गवाहें च सारें शा मते संभावित उम्मीदवार न :

(१) ऐ. [एलियाहनबी](#) ने दी ([माल ४:५](#) ऐ), ते

(२) ऐ. [हनोक ने दी](#) (आदम तों सतमां, ऐजेदे [1:14-15](#) ऐ)।

→ (व्याख्या दी [प्रकासित 11:3-4](#) ऐ)

[दी 2 जैतून दे पेड़](#) दाएं ते बाएं पाससे [ओह २ कलीसियाएं गी](#) न [ओह २ पुत्र](#) ([एलियाह ते हनोक ने दी](#)), ऐ⁴⁴⁵ जो हैं

[दी 2 गवाह](#) सामने खड़े होकर [ईश्वर जमीन दा](#) (प्रभु (प्रभु) दा ('[āḡôn](#)')^{स्व113} [धरती दा](#)), उझिलते हुए

[शुद्ध सोने दे तेल दा बाढ़](#) कणक दे बालें दी शाखाएं थमां, भविष्यवाणी करने आस्ते **1,260 दिन दा**, ऐ

442 वही।

443 वीडियो 48. "8 दा हनुक्का" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-दे-भोज-8-हनुक्का/.

444 संदर्भ देना [प्रकासित 6:6](#) ऐ.

445 " ([प्रकाशित वाक्य 11:5-6](#)) दो गवाहें दा अधिकार."

बोरी च कपड़े पाईये।

- परमात्मा दे लोके दी इक कौम, इस्राएल दा: **मसीह पैहे फल**, ते बाद च, जेह्दे **नमसीह दा** उंदे आने पर।

रोम 11:16 एके लिए अगर **पैहला फल** पवित्र हो, गांठ दा ^{शी5445} पवित्र बी ऐ: 1।

ते जेकर जड़ ^{शी4491} पवित्र हो, शाखाएं भी पवित्र हो. ^{शी2798} ने की

→ जेकर पैहला फल (**मसीह**) पवित्र ऐ, उंवां गै गांठ (कणक दे कानें दी शाखाएं थमां) बी ऐ **पवित्र**: 1।

ते जेकर जड़ (लोगोस **यीशु मसीह**) पवित्र ऐ, ते शाखाएं बी जिंदे कोला शुद्ध सोने दे तेल दा बाढ़ औंदा ऐ डाला जाता है।

→ दे राहें **मसीह दा** कतिया, **यीशु मसीह** साडे कोल भेजया जांदा है, ते एह गल्ल कीती गई हीरब दा पवित्र नबी तब से दुनिया शुरू हो गई।⁴⁴⁶ इस चाल्ली असंगी दी सुसमाचार थमां शर्म नेई औनी चाहिदी **मसीह**, कीजे एह दी शक्ति ऐई **धर कोमोक्ष दे** उंनें सारें लेई जेह्दे **मन्नो**, पैहलें यहूदी गी, ते यूनानी (या गैर-यहूदी) गी बी।⁴⁴⁷

+ यहूदी ते गैर-यहूदी कन न?⁴⁴⁸

यहूदियों ने जिन्दे शरीर च हत्थै कन्ने खतना किता गेदा हाइसराइल दे पुत्र आखदे हे, जदके शरीर च खतना नेई कीते गेदे लोके गी गैर-यहूदी (इस्राएल दे पुत्र नेई) आखदे हे जेह्दे शरीर च खतना कीते गेदे हे।

- **यहूदियों** ने: उंदे हत्थें कन्ने बने दे शरीर च खतना कीता जंदा ऐ (पतरस गी सुसमाचार सौपेआ गेदा हा **ओहखतना करना**). **यहूदियां** स्वभाव दे जरिए गैर-यहूदी जातिएं (या लोके दे पापी नेई न, ऐ **गलाती 2:15** ऐ) जिय्यां उंमंगी (इस्राएल दे पुत्रें) शरीर च खतना किता गेदा हा, ते पतरस गी सौपेआ गेदा हा शरीर च खतना किते गेदे यहूदियें आस्ते खतना दे सुसमाचार दे कन्ने.

- **गैर-यहूदी**: जेडे शरीर च खतना नेई हे यहूदियों ने गैर-यहूदी आखया।

- ऐखतना किता जां बिना खतना दा होना शरीर दे मामलें कन्ने जुडे दा ऐ ना के आत्मा दे मामले कन्ने। की नजर में **यहूदियां गी** (जेह्दे स्वभाव च पापी नेई हे), इस आस् ते याकूब गी उंदे कन् ने खाना गैरकानूनी हा गैर-यहूदी लोक जेडे शरीर च “अनखतना” हे (**गलाती 2:12** ऐ). आध्यात्मिक रूप च यहूदी ते गैर-यहूदी दोनों शरीर दे हे ते महिमा कोला घट्ट हेई **धर** जो इक आत्मा ऐ (**रोम 3:23** ऐ, ऐजहन्ना **4:24** ऐ). दे मुताबिक सादे शरीर दी वासना, अस उंदे संतान हे **क्रोध स्वभाव** से, ऐशरीर दी इच्छाएं गी पूरा करदे होई ते **मन दा**, ऐ अतीत च सादी अवज्ञा दे जरिए (**इफिसियों 2:3** ऐ).⁴⁴⁹

- इक जंगली जैतून दा पेड़ & इक अच्छा जैतून दा पेड़

रोम 11:17 ऐते जेकर कुसै शाखाएं च ^{शी2798} टूटी जाओ, ऐ

तेतु, होआ करदा **इक जंगली जैतून दा पेड़**, ऐ ^{शी65} वेर्ट उनके बीच में ग्राफ,

ते नाल उंनेहिस्सा लैओ ^{शी4791} आहला **जड़ दा** ^{शी4491} ते **मोटाई** ^{शी4096} आहला **जैतून दा पेड़**. ^{शी1636} ऐ

रोम 11:24 ऐकीहके जे तू उस जैतून दे पेड़ कोला कट्टे गेदे ओ जेड़ा स्वभाव च जंगली ऐ।

और **wert** प्रकृति दे विपरीत ग्राफ में **इक अच्छा जैतून दा पेड़**: 1। ^{शी2565} ऐ

कुदरती शाखाएं दा इन्हें किन्ना ज्यादा होगा।

अपने च ग्राफ कीता जा **जैतून दा पेड़**? ^{शी1636} ऐ

→ **इक जंगली जैतून दा पेड़**: गैर-यहूदी (स्वभाव दे मताबक गैर-यहूदी जातिएं दे पापी न कीजे ओह...

इस्राएल दे पुत्र नेई हे ते शरीर च खतना नेई किते गेदे हे)।

⁴⁴⁶संदर्भ देना प्रकासित 4:8 ऐ.

⁴⁴⁷वीडियो 16. “सब जाति (सब गी परमात्मा दा उद्धार) 8/10।” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

⁴⁴⁸वीडियो 16. “गैर-यहूदी, सारे जाति (फोलुस ते पतरस दी प्रेरितता) 3/10।” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

⁴⁴⁹वीडियो 20. “(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवार।”

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

→ **इक अच्छा जैतून दा पेड़**: यहूदी (स्वभाव दे तौर उप्पर गैर-यहूदी जातिएं दे पापी नेईं न जि'यां उंदे न इस्राएल दे पुत्र, जेड़े शरीर च खतना किते गे हे)।

- **ऐकुदरती शाखाएं**: इस्राएल (या यहूदियां) दे पुत्र हे

खतना कर दिताहल्यै कन्नै मांस च, इस चाल्ली स्वाभाविक रूप कन्नै दे पापी नेईं हे गैर-यहूदी जातिएं गी।

- **ऐयहूदी दा अपना जैतून दा पेड़**: जैतून दा पेड़ जिसदी कुदरती शाखाएं होंदियां न मतलब परमात्मा दी भलाई दा ऐ।⁴⁵⁰

• **जड़ और मोटाई की जैतून दा पेड़**^{नी1636 रे}

- **जड़**^{नी4491 रे}

नीतिवचन 12:12 दुष्ट बुरे मनुखें दे जाल दी चाह रखदा ऐ, लेकिन जड़ दी **ओहधमी**^{नी6662 रे} फल देंदा ऐ.

→ धर्मी = **यीशु मसीह** (१योह २:१).

इक जेड़ा राज दे लोगो सुनदा ऐ, पर अपने दिल दे पत्थरें दे धरती च उसी ग्रहण करदा ऐ।

की जड़ लोगो दा उंदे च नेईं ऐ, इस आस् ते ओह नाराज होई जंदे न, जदुं मुसीबत जां सताव पैदा होई जंदी ऐ, कीजे...**लोगो दा** उन्दे च थोड़ी देर लेईं गै टिकी सकदा ऐ (मत्ती 13:21 ऐ).⁴⁵¹

रोम 15:12 ऐते फिरी यशायाह आखदा ऐ, "इक जड़ होगा"^{नी4491 रे} जेसी दा, ऐ

ते जेड़ा गैर-यहूदियां उप्पर राज करने आस्ते उठी जागा। गैर-यहूदी उदे उप्पर भरोसा करंगना।

→ यिशै दा पुत्र दाऊद ऐ (१सा १७:१२ ऐ), ते दाऊद दी जड़ ऐ **एरब दाबेटा**, **ऐयीशु मसीह सादानाथ** (प्रकासित 5:6 ऐ), शरीर दे मताबक दाऊद दे वंशज (रोम 1:3 ऐ).⁴⁵²

प्रकासित 22:16 ऐमें **यीशु** मेरे सुर्गदूत गी भेजेया ऐ तां जे तुस कलीसियाएं च इन्हें गल्लें दी गवाही देना

मैं जड़ ह्यै^{नी4491 रे} ते दाऊद दी संतान, ते उज्ज्वल ते सवरे दा तारा।

→ मैं (यीशु) दाऊद दी जड़ ते संतान हां, ते उज्ज्वल ते **सुबह दा तारा**⁴⁵³ (प्रभु यीशु मसीह).

- **मोटाई**^{नी4096 रे}

मोटाई दी व्युत्पत्ति^{नी4096 रे} पिओन (मोटी, शायद दे वैकल्पिक कन्नै मिलदा ऐ) थमां ऐ **πῶν** (जी 4095) ऐजां "**गीपीना**" भरने दे विचार दे जरिए).⁴⁵⁴

साझीदारी दे दौरान, **यीशु** प्याला लेईये धनवाद किता ते चेलें गी देईये आख्या, "**पीना** इस सब दा," ते चले पीदे **हेनवे नियम दा खून**.

⁴⁵⁰ कोई भी अच्छा नहीं^{नी18} पर ईश्वर (लुका 18:19 ऐ, ऐमती 19:17 ऐ, ऐमार्च 10:18 ऐ).

⁴⁵¹ संदर्भ देना प्रकासित 2:19 ऐ.

⁴⁵² संदर्भ देना प्रकासित 6:1 ऐ.

⁴⁵³ से कैद की गई प्रकासित 2:28 ऐ.

सुबे दा तारा: यशायाह 14:16-21 च सुबे दा पुत्र बाबुल दे राजा दा जिक्र करदा ऐ। यशायाह 14:16-17 च लोकें गी बड़ा गै डर लगी गेआ शक्तिशाली बाबुल दे पतन कन्नै, ते ओह बाबुल दे राजा दा मजाक उड़ादे न ते आखदे न, "के ए ओ आदमी ऐ जेड़ा धरती गी बनांदा ऐ^{पू 776} गी काँपना?" इस दुष्ट राजा दी जड़ अथाह गड़दे थमां, बादलें दे उच्चे थारें पर चढ़ने दी, समान होने दी इच्छा

सब तों उच्चाया परमात्मा ('एल')^{पू 410} जो स्वर्ग ते धरती दे मालिक दा जिक्र करदा है, जो है **मसीह**, जिस विचईश्वरसारे डाल दिया है

चीजांके पैरों के नीचे मसीह (१कुरिन्थियों १५:२७).

⁴⁵⁴ "G4096 - piotēs - मजबूत दा ग्रीक शब्दकोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 10 अप्रैल, 2023।

[https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4096/kjv/tr/0-1/ ऐ](https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4096/kjv/tr/0-1/).

- फसह दे बाद चले इक भजन गांवे होई दे पहाड़ च निकले जैतून दा^{जी1636 रे} (मार्च 14:26 रे) तेथीशुआखदे नप्रभू⁴⁵⁵ जैतून दा पहाड़ ओ जगह ऐ जिल्ये चेलें दी सारी भीड़ खुश ते स्तुति करदे हेईधरउन सारे पराक्रमी कर्मों दे वास्ते जोरदार आवाज दे नाल (लूका 19:37 रे).

→ की जड़लोगो दा (सतही) हैथीशु मसीह, ऐ जो साडे (अपने चले) गी अपने आध्यात्मिक कन्ने मोटा करदा ऐ मांस ते खन ते सादा बनी जंदा ऐनाथ, असेंणी खुश होने ते स्तुति करने दी अनुमति दिंदे होईईश्वरके लिये जोरदार आवाज दे नाल उंदे सारे पराक्रमी कर्मों गीके माउंट पर जैतून दा.

- में 2 गवाहजकरयाह 4

जकरयाह 4:1 ते मेरे कन्ने गल्ल करने आला सुर्गदूत फिरी आईये मिगी जगाया।

इक आदमी दे तौर उप्पर^{एच 376 रे} जो उदी नींद तों जगाया जांदा है, ऐ

जकरयाह 4:2 ते मिगी आख्या, “तू के दिखदा ऐ ? ते में आख्या, “में दिखया ते दिखया।”

इक मोमबत्ती^{एच 4501 रे} सारे सोने दे, इक कटोरे दे नाल^{एच 1531 रे} उसदे उपर, ते

उदे सत्त (7) दीये, ते सत्त (7) दीये गी सत्त (7) पाइप,

जेड़े ओस दे चोटी उप्पर न;

जकरयाह 4:3 ते दो जैतून दे पेड़^{एच 2132 रे} इसदे द्वारा, कटोरे दे सज्जे पासे इक,

ते दुआ उदे बाएं पास्से।

जकरयाह 4:4 तां में उस सुर्गदूत कन्ने ग्लाय, जेका मेरे कन् ने गल् ल करदा हा।

एह केह न मेरे रब ('ādōn')^{एच 113 रे}?

→ जकरयाह ने सुर्गदूत “प्रभु ('ādōn')”, ऐ^{एच 113 रे}” इस चाल्ली ओह दस् से दे सुर्गदूत कन् ने गल् ल करदा हा सारी धरती⁴⁵⁶

जकरयाह 4:11 उस बेले में उदे कन्ने आख्या।

एह केह-केह न दो जैतून दे पेड़^{एच 2132 रे} मोमबत्ती दे सज्जे पासे

ते उंदे बाएं पास्से?

जकरयाह 4:12 ते में फिरी जवाब दिता, ते उसी आख्या।

इह केहड़े होन दो जैतून^{एच 2132 रे} शाखाएं (मकई दे कणक दे कान, पानी दा बाढ़, बहदी धार)^{एच 7641 रे}

जो दो (2) सोने दे पाइप दे जरिए खाली (बहा दे)^{एच 7324 रे} सोने दा^{एच 2091 रे} तेल

अपने आप से बाहर निकलना?

→ जकरयाह ने पुच्छया,

“एह केह न जैतून दे पेड़ मोमबत्ती दे दाएं ते बाएं पास्से^{एच 4501 रे}? ते,

“एह केह न जैतून दा पेड़ मकई दे कान दी शाखाएं जो सोने (तेल) उझिल रहे हैं)?

जकरयाह 4:13 उन मिगी जवाब दिता, “के तू नेई जानदा के ए केहड़े न ?

ते में आख्या, ना मेरे प्रभु ('ādōn')^{एच 113 रे}।

जकरयाह 4:14 फिरी उसने कहा,

ये हैं र अभिषिक्त (तेल, या शुद्ध तेल से एच 6671) ऐ, मतलब “तेल दबाना”^{एच 3323 रे}

इक (पुत्तर), ऐ^{एच 1121 रे} जो प्रभू दे कोल खड़े ('ādōn')^{एच 113 रे} सारी धरती दा.

→ स्वर्गदूत (पृथ्वी दे) ने आख्या।

“दी 2 जैतून दे पेड़ मोमबत्ती दे दाएं ते बाएं पास्से नदी 2 पुत्तर जो खड़े हो जांदे ने

प्रभु जी ('ādōn')^{एच 113 रे} सारी धरती दा, से शुद्ध सोने दे तेल दा बाढ़ उझिलदा

कान दी शाखाएं हं दा.”

→ मेमने दा (अम्नोस)^{जी 721 रे} इक मोमबत्ती दी रोशनी^{जी 3088 रे} उस मोमबत्ती दा (चर्च)^{एच 4501 रे} (प्रकासित 21:23 रे).

⁴⁵⁵ मत्ती २६:२७-३०, वीडियो 29, “प्रभु दा फसह (चले बनाम प्रेरित)।”

⁴⁵⁶ संदर्भ देना प्रकासित 4:8 रे.

जकरयाह 14:4ते उस दिन (प्रभु, यहोवा दे दिन) उंदे पैर खड़े होंगन।

के पहाड़ पर **जैतून दा**, ए²¹³² जेड़ा पूरब पासे यरूशलेम दे सामने ऐ।

ते माउंट दा **जैतून दा** ए²¹³² उदे बिच्च पूरब ते पूरब आली बक्खी फट्टी जाह्य।

पश्चिम च, ते इक बड़डी घाटी होग;

ते आधा पहाड़ उत्तर च, ते आधा दक्खन पासे चली जाह्य।

→ कदंयहोवा दा दिन (यहवा) आदे, पैर दे **प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान** के माउंट पर खड़े होंगे **जैतून दा**.

- **ऐसारे इस्राएल दा उद्धार होई जाग**

रोम 11:25 ऐकीहके ए प्राओ, अऊं नेई चाहन्दा के तुस इस गल्ले थमां अनजान होओ **पिरब**, ऐ

कहीं तुस अपने घमंड च ज्ञानी नेई होओ;

कि इस्राएल दे किश हद तक अंधता होई गई ऐ, जदू तक जे गैर-यहूदी लोकें दी पूर्णता नेई आई जंदी।

① **टीउसी इस्राएल दे किश हिस्से च अंधता**

कीजे यहूदियें परमेसरे दे लोगो दे खलाफ गल् ल करदे हे ते निंदा करदे हे, इस आस् ते पौलुस ते बरनबास ने दिक् खेया के यहूदियें अपने आप गी अनंत जीवन दे काबिल नेई समझेया ऐ ते ग् लाया, “एह जरूरी **हालोगो दा परमातमा** दापैहे तुदे कन्ने गल्ल कीती जानी चाहिदी ही” (प्रिती दे काम 13:46) **रोम 10:19** ऐ).

- **ऐलोगो दा आहलाईश्वर** पैहलें यहूदियें कन् ने गल् ल कीती गई ही, पर गैर-यहूदी जातिएं गै महिमा करदे हे ते...

मान लिया लोगो दा आहलाप्रभु औय नामारेमा दा, यहूदियां गी ईर्ष्या करदे होई⁴⁵⁷

② **टीओह गैर-यहूदियां दी पूर्णता**

सारे कौम देखनगे **प्रभु गी** (यहवा) उंदी कुदरती अक्खी कन्ने जदू उंदे पैरें दे पहाड़ उप्पर खड़ते दे न **जैतून दा** के दिन **प्रभु गी**, ते ओह जानन गे के ओह **ऐप्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान**.⁴⁵⁸

रोम 11:26 ऐइस चाल्ली सारे इस्राएल उद्धार होग, जिय्यां लिखे दा ऐ।

उथे सियोन तों मुक्तिदाता निकलेगा, ते याकूब कोला अभक्ति गी मोड़ देगा।

रोम 9:33 ऐजिय्यां लिखे दा ऐ,

दिखो, मैं सियोन च पेदा हा⁴⁶²² इक ठोकर ते चट्टान (**मसीह**, ऐ **१ करिन्थियों १०:४**)⁴⁰⁷³ अपराध दा: 1।

ते जेका कोई उदे उप्पर विश्वास करग, ओह शर्मिदा नेई होग।

③ **यीशु मसीह (इक ठोकर पत्थर ते चट्टान⁴⁰⁷³ अपराध दा)⁴⁵⁹**

मसीह इक बारी अधर्मियें दे पापें आस् ते दुखी होई गेदा ऐ ते उसी शरीर च मारी दिता गेदा हा, पर असंगी उदे च लेई औने आस् ते आत् मा दे जरिये जिंदा करी दिता गेदा **ऐश्वर**. जेके इस्राएल दे समान व्यवस्था दे कम्में गी तुप्पदे न, जेके विश्वास च नेई न, उदे ठोकर दे पत्थर उप्पर ठोकर खाई जांगन, लेकन जेके विश्वास दे धर्म दे कम्में कन्ने कम्म करदे न, ओह गैर-यहूदियां दे समान धार्मिकता गी हासल करंगन।

रोम 9:33 ऐ “दिखो, मैं सियोन च ठोकर खाने आली पत्थर दा पत्थर ते अपमान करने आली चट्टान रखेया।

और जो भी **मानता है** उदे उप्पर शर्म नेई होग.”

यीशु पर चर्च बनाया मसीह

यीशु ने पतरस (पेट्रोस, चट्टान) गी आख्या⁴⁰⁷⁴ कि ओह इस पेत्रा उप्पर अपनी कलीसिया बनाग (**कम्पड**), ऐ⁴⁰⁷³ जिस पर है **मसीह** (**१ करिन्थियों १०:४**) तां जे नरक दे फाटक उदे उप्पर हावी नेई होन (**मत्ती 16:18** ऐ). एह **मसीह** के दाहिने हाथ बैठा है **ऐश्वर** (**कुलुस्स 3:1** ऐ).

- ऐयीशुपेट्रोस दे पैर धो के पेट्रोस गी पूरी चाल्ली साफ करी दिता (**झं१३:१०** दी), औय कशा कक पेट्रोस बी

जेकर यीशु सूली च चढ़ाने शा पैहलें पेट्रोस दा प्रभु ते मालक ऐ तां इक-दुए दे पैर धोना चाईदा। दूसरे में

⁴⁵⁷संदर्भ देना प्रकाशित 2:9 ऐहोर मती जानकारी लेई।

⁴⁵⁸“[3] दानियेल दे 70 हफ्ते” दा संदर्भ लैओ।

⁴⁵⁹वीडियो 41. “परमेसर गी स्वीकार करने आस् ते प्रभु च बधी जाओ।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-भगवान-दे-भगवान-चल-बढ़ना/.

शब्द, यीशु दे चेलें गी दे लोगो कन्ने धोना चाइदा ईश्वर जिय्यां यीशु अपने सामने साफ किता गया
सूली च चढ़ाया जाना (या उंदे अपने आप होने कोला पैहरेमा दा).⁴⁶⁰

- परमेसरे प्रेरित पौलुस गी आत् मक घर बनाने आस् ते ज्ञानी माहिर बनने दी कृपा दिती ऐ।
पर नींव रखना यीशु मसीहदूए गी उंदे उपर निर्माण करने आस्ते। प्रेरित पौलुस ने रोपया लोगो दा
तुंदे च परमात्मा दा, ते इक ज्ञान मसीही उसी पानी दिता (परमात्मा दे लोगो + पानी = इक), पर
परमेसरे, जेका तुंदे खाने आस् ते रोटी दी सेवा करदा ऐ, ते मनुख दे पुत्र दे जरिये तुंदे च बोए गेदे लोगें गी मता करदा ऐ
ते तुंदी धार्मिकता दे फल उगदा ऐ (यारेमा दा).⁴⁶¹ नुसीं परमात्मा दा खेतीबाड़ी ते परमात्मा दा
इक आध्यात्मिक घर दा निर्माण (१ करिन्थियों ३:१).⁴⁶²
- यीशु मसीह इक आध्यात्मिक घर दी इकमात्र नीह ऐ।

④ आध्यात्मिक यहदियों

यीशु मसीह खतना दा मंत्री हाजेस ने गैर-यहूदी दे दिलें दा आतमक रूप च खतना किता
लोक-उमेंगी इस्त्राएल दे आत् मक पुत्र (या आत् मक यहूदी) बनाने आस् ते, ताजे... रब दी सच्चाई दी पुष्टि कर सकदा ऐ
पिताओं से किता वादा (रोम 15:8 ऐ).

⑤ इका। इस्त्राएल दा उद्धार होवे⁴⁶³

रोटी दा जड़ शब्द ^{गी 740} αἶψα ^{ऐ 1142}, जिसदा मतलब है जमीन तों उठना। इस तहाँ दी रोटी ईश्वर, जेड़ा सुर्ग थवां उतरदा ऐ, ओह बी जीवन दे जरिए जमीन थमा
जिंदा करदा ऐ आया दुनियां च (इंफ्र: ३३ दी). यीशु ऐ मनुख दा पुत्र ते अस उदा मांस जेड़ा खाना ऐ, ते उदा खून जेड़ा पीना ऐ, खाने आं; पर, कीजे परमेसरे दा
राज लोगोस च नेई, बल कि सत्ता च ऐ, इस आस् ते शरीर ते खून परमेसरे दे राज दा वारिस नेई होई सकदा। इसलेई, यीशु मसीह (बीज दा ^{गी 4690} दाऊद दा) मरे दे
बीचा जिंदा होई गेआ. इक मनुख दी आज्ञाकारिता कन्ने, यीशु मसीह, मते सारें गी धर्मा बनाया जंदा ऐ (रोम 5:15 ऐ; ५:१९ ऐ).

ए जानदे होए के परमात्मा दा राज मांस-पेय दा नेई ऐ, दरवाजा बाद च खुल्ली जंदा ऐ मसीह मरे दे बीचा जिंदा होई जंदा ऐ, ते यीशु ने अपने चेलें उप् पर पबितर
आत् मा देई ओड़ेया। जी उठे हए यीशु बन जाता है प्रभु उं चेलें गी जिनेंगी ग्रहण कीता ऐ पवित्र आत्मा गी ते मान लिया ओही यीशु मसीह परमात्मा दा पुत्र है, ते
ओह उंदा गै बनी जंदा ऐ नाथउं दाईश्वर (इंफ्र: 20:28 ऐ).

ईश्वर, जिसने सानु च चुनेया मसीह दुनिया दी नींव दे पहले (इफिसियों 1:4 ऐ), पैहरे भरोसा कीता गे आमसीह (इफिसियों 1:12 ऐ) बोना दे गुर्ग दे राज च वादे दे
बच्चे. के इस रहस्य रब दा चाहना (इफिसियों 1:9 ऐ) बीज (शुक्राणु, जां रेमा) दी सेवा करिये कीता जंदा ऐ। ^{गी 4690} मनुख दे पुत्र गी, जेड़ा फिरी रोटी दी सेवा
करदा ऐ (लोगो दा) मांस दे वास्ते (मनुख दे पुत्र दा शरीर, इंफ्र: ५५ दी) वादे दे बच्चें गी, गुणा करदे होई परमात्मा दे लोगो बोया गया उंदे च उंदी धार्मिकता दे फल
गी बधाने आस्ते (मती 13:38 ऐ). यीशु जीवन दी रोटी ऐ जेड़ी सुर्ग थवां उतरी आई ऐ, ते जिंदगी दाउस रोटी दा ऐ मसीह (जह 6:48 ऐ, ऐकलुस्स 3:4 ऐ).

सुर्ग च पिता परमेसरे शमौन पतरस गी प्रगट किता हा के यीशु, ऐ मनुख दा पुत्र, ऐ मसीह गी, ऐ जिंदा परमात्मा दा पुत्र, इस चाल्ली उसी सुर्ग दे राज दी चाबी मिली
गेई ऐ। जदू अस सारे हिस्सा लैंदे आं प्रभु दा टेबल, अस सारे इक रोटी दे हिस्सेदार आं जिय्यां इक तनच मसीह, तां जेड़ा मनुख दे पुत्र दा मांस खांदा ते खून पींदा
ऐ अनन्त जीवन की जे यीशु मसीह दा पुत्र है ईश्वर.

- रब दा उंदे पुत्र दे जरिए सादे आस् ते इच छा करग है कि हर कोई जो उंदे पुत्र गी दिखदा ऐ ते... मानता है उस विच होवेगा
अनन्त जीवन. इस करिए अपने मुंह कन्ने इकबाल करो (द्वारा पवित्र आत्मा गी) ओह " यीशु मसीह आ गया है
शरीर च," ते जानना के तुस दे ओईश्वर.

(प्रकाशितवाक्य 11:5-6) दो गवाहें दा अधिकार

⁴⁶⁰वीडियो 17. "3. पैहरे फल (प्रभु परमात्मा दा घर," वीडियो 11 " (इक कपड़ा) फसह दी पर्व कोला पैहरे," ते...

वीडियो 10. " "फसह दी पर्व" दे दो दिन पैहलें।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-दिन-पैहले-फसह-दे-त्योहार/.

⁴⁶¹वीडियो 30. "कम्यूनियन दा" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ ऐ.

⁴⁶²वीडियो 16. "गैर-यहूदी, सारे जाति परमेसरे दी इक जाति बनाम गैर-यहूदी जाति) 5/10"

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

⁴⁶³वीडियो 30. "कम्यूनियन दा" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ ऐ.

प्रकासित 11:5 ऐते जेकर कोई उनेंगी चोट पजाना चांहदा ऐ, तां उंदे मुंह च अग्न निकली जंदी ऐ ते उंदे दुश्मनें गी भस्म करी दिंदी ऐ।
ते जेकर कोई उनेंगी चोट पजाना ऐ तां उसी इस चाल्ली मारना गै पौगा।
प्रकासित 11:6 ऐ इन्दे च शक्ति (अधिकार) ऐ ^{#1849}स्वर्ग बंद कर देना, तां जे उंदी भविष्यवाणी दे दिनें च बरखा नेई होऐ।
ते है सत्ता (अधिकार) ऐ ^{#1849}पानी दे उपरउनेंगी खून च बदलने आस्तै,
ते धरती (जमीन) गी मारना ^{#1093}सारे प्लेग दे नाल, जिन्ना बार करंगना।

- ☞ **प्रकासित 11:5** ऐते जेकर कोई उनेंगी चोट पजाना तां **अग्न** उंदे मुंह थमां निकलदा ऐते उंदे दुश्मनें गी खांदा ऐ।
ते जेकर कोई उनेंगी चोट पजाना तां उसी इस चाल्ली मारना गै पौगा।
- ☞ **प्रकासित 11:6** ऐ इन्हें गी सुर्ग गी बंद करने दा अधिकार ऐ, तां जे उंदी भविष्यवाणी दे दिनें च बरखा नेई होऐ;
ते पानी उपर उनेंगी खून च बदलने दा अधिकार ऐ।
ते जिन्ना चाहंदे न, उन्ना गै जमीन गी सारे विपत्तियें कन्ने मारना।

- ऐप्रभु दे महान & भयानक दिन तां पहलां

माल ४:५ ऐदिखो, मैं तुगी एलियाह नबी गी भेजगा

दे महान ते भयानक दिन दे आने कोला पैहले **प्रभु गी (यहवा)**: ^{ख 3068}

- **2 पुत्र दी (2 गवाह)** गी जमीन उपर भेजेआ जागबड्डे लोकें दे औने कोला पैहले भविष्यवाणी करना ते **भयानक यहोवा दा दिन**, जो पहले होंगे **बड़ी कष्ट दा**.

(भविष्यवाणी, दर्शन, सपने)

प्रेरितों दे काम २:१६ लोकन ए गल्ल योएल नबी ने आखी ही;

प्रेरितों दे काम २:१७ ते आखरी च बी होई जाग ^{#2078}दिन, कहते हैईश्वर, मैं अपने से उझिल देगा **रुह** सारे शरीर उपर;

ते तुंदे पुत्र ते धीयां भविष्यवाणी करंगन, ते तुंदे जवान दर्शन गी दिक्खन।
ते तुंदे बुजुर्ग सपने दिखडन।

प्रेरितों दे काम २:१८ ते अपने उनें दिनें च अपने दासों ते अपनी नौकरियें उपर उंडेलगारुह;

ते ओह भविष्यवाणी करडन।

प्रेरितों दे काम २:१९ ते मैं उपर सुर्ग च चमत्कार करगा, ते धरती (जमीन) च निशान ^{#1093}थल्लै;

खून, ते अग्न, ते धुंए दा वाष्प;

→ **प्रभु दा दिन** आखरी दिनें च औंदा ऐ, ते परमेसरे सारे शरीर उपर अपनी आत् मा उंडेलग, उंदे आस् ते भविष्यवाणी करो, दर्शन ते सपने दिखो, ते सुर्ग च अजूबे ते थल्ले दी जमीन च निशान दस्सो।

(सूरज & चंद्रमा दे निशान)

प्रेरितों दे काम २:२० सूरज न्हेंरे च, ते चंद्रमा खून च बदली जागा।

उस महान ते उल्लेखनीय कोला पैहले **प्रभु दा दिन** आओ:

जो 2:31 ऐ **सूरज** दान्हेंरे च बदली जाग, ते **चाँद** दाखून च,

बड्डे ते भयानक दे सामने **यहोवा दा दिन** आओ.)

लुका 21:25 ऐते होवेगा **संकट दे** ^{#4592}सूरज ते चंद्रमा ते तारे च;

ते धरती (जमीन) उपर ^{#1093}राष्ट्रों दी संकट (गैर-यहूदी राष्ट्रों), ^{#1484}उलझन दे नाल;

ओहसमंदर ते लहरें दा गर्जना;

प्रेरितों दे काम २:२१ ते ऐसा होवेगा कि जेड़ा कोई नां पुकारदा ऐ **प्रभु** उद्धार होवेगा।

- “**धन्य ऐ जेड़ा प्रभु दे नां कन्ने आवै**”

यीशु यहूदियें (शास्त्रियें ते फरीसियें) गी पाखंडी, नाग ते सापें दी पीढ़ी आखदा ऐ, कीजे ओह नबियें गी मारने आलें दे पुत्र हन, पर ओह नबियें दी कबरें गी बनादि हन, ते धरमी लोकें दी कन्न गी सजांदे हन। यीशु उनेंगी ग् लांदा ऐ के यहूदियें यीशु गी उस वेले तक नई दिक् खेडन, जुं दुं तक ओह ग् लांदा हन, "धन्य ऐ जेका प्रभु दे नां कन्ने

औंदा ऐ", जिसदा मतलब ऐ के ओह यीशु गी नेई दिक् खी सकन, जदुं तकर ओह साढ़े प्रभु ते मुक् तिदाता यीशु दे ज्ञान च अनुग्रह च बधदे न मसीह गी ते प्रभु गी उंदे मुक् तिदाता दे रूप च स्वीकार करो। पर, इस बीच गैर-यहूदी जातिएं दा उद्धार होई जागा⁴⁶⁴

(प्रभु दा दिन रात बिच चोर दे समान आ जांदा है)

१थ 5:1 ऐपर जमाने दा^{#5550} ते मौसमें गी, ^{#2540} प्राओ, तुसैं गी कोई लोड नेई ऐ के मैं तुसैं गी लिखना।

१थ 5:2 ऐकी वे अपने आप गी ए गल्ल पूरी चाल्ली जानदे ओ **प्रभु दा दिन** इय् यां रात च चोर दे समान औंदा ऐ।

२पतरस ३:१० पर दिन दी **प्रभु** रात च चोर दे समान औग; ^{#3571} ऐ

जिस च आकाश बड़े शोर-शराबे कन्ने गुजरी जांगन, ते तत्व उमंग कन्ने पिघल जांगन

गर्मी, धरती (जमीन) ^{#1093} भी ते कम्मं गी बी ^{#2041} जेड़े उदे च न, उमेंगी जला दिता जागा।

- टीओह प्रभु दा दिन चोर दे रूप च आना रातीं च मतलब ऐ जे उंदा दिन उसलै औग जिसलै शैतान दे राज च दुनिया, इसदे पैहे न्हैरे (आध्यात्मिक रूप कन्ने रात-समय) कन्ने भरोची दी होग **मसीह दा 2nd** आने आला।
- कदू **प्रभु दा दिन** औंदा ऐ, आकाश बड़ा शोर-शराबे कन्ने गुजरी जाग ते तत्व उग्र गर्मी कन्ने पिघल जांगन, ते जमीन उप्पर कम्म जली जांगन। एह् दिखदे होई जे एह् सारी गल्लां भंग होई जांगन, ते तुसैं गी सारें पवित्र गल्लबात ते भक्ति च रौह्ना चाहिदा (२पतरस ३:११) साढ़े ज्ञान च फलदायी होना **प्रभु यीशु मसीह**.⁴⁶⁵

(प्रकासित 11:7 ऐ) जानवर अथाह गड्डे कोला बाहर निकलदा ऐ (2 गवाहों गी मारदा ऐ)

प्रकासित 11:7 ऐते जदुं ओह अपनी गवाही गी पूरा करी लैडन; ^{#3141} ऐ

अथाह गड्डे च चढ़ने आला जानवर उंदे कन्ने लड़ाई लड़ग,
ते उंदे उप्पर जीत पाग ते उमेंगी मारी ओड़ग।

☞ प्रकासित 11:7 ऐते जदुं ओह अपनी गवाही गी पूरा करदे हे, तां

जानवर गीओ अथाह गड्डे से बाहर चढ़ती है उंदे कन्ने लड़ाई करग,
काबू पाना उमेंगी मारी ओड़ो।

→ जेड़ा जानवर अथाह गड्डे च चढ़दा ऐ, ओह अथाह गड्डे दे सुर्गदूत दा राजा ऐ।
अपोलियन (प्रकाशितवाक्य ९:११)।

(प्रकासित 11:8 ऐ) दो गवाहों की लाश

प्रकासित 11:8 ऐते उंदे मरे दे लाशें च गै पेई जाग ^{#1909} बड़े शहर दी गली,

जिसी आतमक रूप च सदोम आखदे न ^{#4670} ते मिस्र च, ऐ ^{#125} जित्थे भी साडा रब (kyrios) ^{#2962} सूली च चढ़ाया गेआ।

☞ प्रकासित 11:8 ऐ और लाश (2 गवाहों की) की गली में पड़ेगी **महान शहर**, ऐ

जिसगी आध्यात्मिक रूप च आखदे न **सदोम ते मिस्र दा**, ऐ जित्थे साडानाथ (kyrios) गी सूली च चढ़ाया गेआ।

- जहां साडानाथ (kyrios) ^{#2962} सूली च चढ़ाया गेआ

जॉन 19:20 दाए शीर्षक (यहूदियों दा राजा नासरत दा यीशु) फिर कई यहूदियों कूं पढ़ेया।

जिस जगह दे वास्ते **यीशु सूली च चढ़ाया गेआ** शहर दे नेडे ही:
ते इब्रानी ते ग्रीक ते लैटिन च लिखे दा हा।

→ यीशु नगर (यरुशलेम दे) दे कोल क्रूस उप्पर चढ़ाया गेआ। **जॉन 19:20 दा** ते शहर दे फाटक (इब्रानियों 13:12 ऐ)।

- **सदोम ते मिस्र दा**

उत्पत्ति 13:13 ऐ लेकन सदोम दे मनुख ⁵⁴⁶⁷ दुष्ट (बुरे) श्रेय ⁷⁴⁵¹ ऐ

ते पापी प्रभु दे सामने (यहोवा) ³⁰⁶⁸ बेहद ही।

⁴⁶⁴ "गैर-यहूदी, सारे राष्ट्र" या...

वीडियो 16. गैर-यहूदी, सारे जाति (प्रभु, प्रभु यीशु, & प्रभु यीशु मसीह) 7/10"

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ।

⁴⁶⁵ वीडियो 30. "कम्यूनियन दा" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ ऐ।

उत्पत्ति १८:३२ ते उन आख्या, “हे प्रभु (**ădōnay**)^{एव 136} तुम्हें च जाओ, ते मैं अजें बी इस गल्लै गी इक बारी गै बोलना ऐ।
शायद दस (दस धर्मी) उथे (सदोम, उत्पत्ति १८:२०)।
ते उन आख्या, “दसों दे कारण मैं उसी नष्ट नेई करगा।”

डब्ल्यूबीमार यहोवा (यहोवा) सदोम दा नाश कर दे ते ना बख्शा दे कि ओ दस धर्मियों दे शहर दे अंदर **सदोम**?

→ परमेसरे (यहोवा) ने जवाब दिता के सदोम शैहरे गी इस आस् ते नाश नेई किता जाग **दस (धर्मी इक)**, ते अब्राहम ते परमेसरे दे बिच गल् लां खत्म होई गई।

गल्लबात दा अंत क्यों होई **दस**?

→ जुहुं इसाएल दे पुत्र उस धरती उप पर चली जं दे न, जित् थें परमेसरे उंनेगी फसल कट्टने आस् ते दिती ऐ।

उंनेगी पैहू ले फलें दा “इक ओमर” (“एक एफाह” दा इक दसवां हिस्सा जां 1/10 हिस्सा” लेई औना चाहिदा अथ 2:17 ऐ) दे अपने

पैदावार याजक गी। **इक** याजक ओमर गी प्रभु (यहोवा) दे सामने लहरावेगा
स्वीकार कर ली।

मन्ना (निष्कर्ष 16:4 ऐ) (निष्कर्ष 16:4 ऐ). जमीन उपपर प्रभु दा ए नियम लोगोस ऐ, जेड़ा ओमर च नापया जंदा ऐ, जेड़ा सूखे नाप च इक एफा दा दसवां हिस्सा (1/10) दा ऐ, ते पाप दी बलिदान ऐ।⁴⁶⁶

जमीन उपपर नापी गेदी चीजें गी स्केल कीता जंदा ऐ **दस** (एक पैसा, डेनारिओन ^{नं 1220} नं) ते पवित्र होंदे **नप्रभु गी (यहोवा, ऐलेवी 27:30** ऐ)।⁴⁶⁷ हालांकि, में माप दे अनुसार प्रकासित 6:6 ऐ, ऐ जमीन उपपर नापे गेदे पाप दस (10) दे जमीन दे नाप कोला घट्ट होई गे, जिसदा मतलब ऐ के शैहर **ऐकानून दे तहत** (अधर्मी), पाप दी बलिदान गी प्रभु (यहोवा) गी स्वीकार्य बनाने च गै अपर्याप्त बनाई दिता ऐ।

- **ऐमिस दी धरती** बंधन दे घर दा संदर्भ दिता ऐ (निष्कर्ष 20:2 च), जिल्ये पिता अब्राम दा घर ऐ **हागर** उंदी मां दे रूप च, जेहड़ी “कानून दे अधीन” ऐ (गलाती 3:18 ऐ), मांस दे बाद पैदा होए. घर बंधन में है कीजे उंदी जिंदगी सुक्की धरती थमां पैदा होई ही, ना के सुर्ग थमां (इं 6:58 ऐ). सराय दी बंजरता **दस** दा ऐ जे ओह शुक्क धरती दी कीऽ ऐ, ते इस चाल्ली उंनेगी मिट्टी दे लोकें दी मूर्ति (१ क्रिस्त्रियों १५:४८)।⁴⁶⁸

→ इयां गै बड्डे शैह र दी गली जिल्ये 2 गवाहें दी लाशें गी पेई जाग, ओह बी ओह शैह र ऐ जेहड़ा...

खारिज कर दिता **परमातमा दे लोगो** ते साढ़े गी सूली उपपर चढ़ाया **नाथ (kyrios)**।^{नं 2962} बडा नगर नाप जावेगा (प्रकासित 6:6 ऐ), ऐ

पर एह दस (10) जमीन दे नाप कोला घट्ट होई जाग ते उसी बडा गै अधर्म शैह र दः रूप च न्याय कीता जाग गंभीर पापा

- नतीजे च बड्डा अधर्म नगर नष्ट होई जाग, पर सदोम ते अमोरा दी जमीन नष्ट होई जाग न्याय दे दिन उस महान शहर कोला ज्यादा सहनशील हो (मत्ती 10:15 ऐ)।

• पर महान शहर गी “आत्मिक रूप च” सदोम ते मिस कीं गू लाया जंदा हा?

→ **महान शहर ऐ बाबूल कतांह बडी वेश्या** 7 पहाड़ ते 7 जमीन दे राजाएं उपपर राज करदा ऐ।⁴⁶⁹

महान शहर सदोम दामिस दी सुक्की धरती उपपर बडी वेश्या दा राज ऐ, ते...

उंदी आत्मा बंधन दे घर च ऐ (कृपा दे हेठ नेई), जःों अपने भ्रष्ट होने दे नाल नरक विच छड्ड दिता जावेगा न्याए दे दिन शरीरा।⁴⁷⁰

• **टीओह फसह दा दिन** (मेमना) ^{एव 7716} ऐ

निष्कर्ष 12:1 ऐ ते यहोवा (**यहोवा**) ^{एव 3068} ऐ मूसा ते हारून कन्ने देश (पृथ्वी) च गल्ल कीती। ^{एव 776} ऐ मिस्र दा, ऐ कहते हुए,

निष्कर्ष 12:2 ऐ ए महीना तुंदे लेई महीने दी शुरुआत होगा।

⁴⁶⁶से कैद की गई प्रकासित 6:6 ऐ.

⁴⁶⁷से कैद की गई प्रकासित 4:8 ऐ.

⁴⁶⁸[चित्र 11-क], या वीडियो 9. “1. फसह दा दिन” www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-फसह-फ्राम-ओटी-टू-एनटी/

⁴⁶⁹से कैद की गई प्रकाशितवाक्य 17:18 ऐ, ते प्रकासित 18:10 ऐ.

⁴⁷⁰वीडियो 35. “(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार दे चेलो”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शक्ति-अधिकार-कन्ने/

तुंदे आस् ते साल दा पैहला म्हीना होग।

निष्कर्ष 12:3 ऐतुस इस्राएल दी सारी मंडली कन्ने बोलो।

इस महीने दे दसवें दिन हर इक गी अपने कोल लेई जांगन **इकमेमना (शे)** दा, ऐ^{एव 7716}

उंदे पुरखें दे घरे दे मताबक **इकमेमना (शे)** दा^{एव 7716} इक घर दे वास्ते: 1।

निष्कर्ष 12:4 ऐते जेकर घरे दा कम्म बी घट्टु होऐ तांमेमने दा (शे), ऐ^{एव 7716} उसी ते अपने पड़ोसी गी उंदे बगल च गै रोहना चाहिदा

घर उसी आत्माएं दी गिनतरी दे मताबक लेई लैओ;

हर इक मनुख अपने खाने दे मताबक तुंदी गिनती मेमने दे लेई करग।

निष्कर्ष 12:5 ऐथुआदामेमना (शे) दा^{एव 7716} बेदाग होग, पैह्ले साल दा इक नर:

तुस उसी भेडें (मेमने) कोला कड्डी लैगे^{एव 3532}, जां बकरियें थमां:^{एव 5795}

→ मिस्र दी धरती च, **प्रभु गी** साल दा पैहला महीना घोशित कीता।

फसह दे वास्ते, **प्रभु गी** मूसा दे जरिए इस्राएल दी सारी मंडली कन्ने गलाया के ओह लेई जांगन

उन्हें हर मनुख (पति) गी^{एव 376} **इक मेमना**, ऐ^{एव 7716} उंदे पुरखें दे घरे दे मताबक

इक मेमना (शे) दा^{एव 7716} **इक घर दे वास्ते**. एह **मेमना (शे)** ^{एव 7716} है कया ईश्वर^{एव 430} होमबलि दा इंतजाम कीता ऐ

अब्राहम दे पुत्र इसहाक दी जगह (उत्पत्ति 22:13 ऐ).

- इस्राएल दे पुत्रों गी दी सत्त परबें दा ऐलान करना होग **प्रभु गी** पवित्र दीक्षांत होनकि उनके में

दावतें (मौसम, लेवी 23:1-2 ऐ).

उत्पत्ति च, आदमी (मजबूत दा **एच 376 ऐ**) में एस "पति" या शरीर दी आत्मा दा हवाला डेवण किते इस्तेमाल कित्ता वेंदे।

- **ऐपति (iS)** दा^{एव 376} इक आदमी है^{एव 120} जिन्हें गी परमातमा परमातमा ने चमड़े दे कोट (या आहम) कन्ने कपड़े पाईये भेजे

अदन दे बाग तों दूर। उसदे बाद उसी शापित जमीन ते जान थमां बाहर कड्डी दिता गेआ

पति अपनी पत्नी से जुड़ गया (उत्पत्ति २:७; ३:१७-२३ च) इस्राएल दे धरती च लाया जाना (**इज 37:12 ऐ**).⁴⁷¹

- इस करिए उंदे दरवाजे दे खंभे उपपर उंदे मेमने दे खून दा बलिदान बिना दाग बनदा ऐ,

→ न सिर्फ **इक निशानी** (उत्पत्ति 1:14 ऐ)^{एव 226} ओह **प्रभु गी** इस्राएल दे पुत्रों दे घरे गी छुड़ाई देग

मिस्र दा (**निष्कर्ष 12:5 ऐ**), पर भी **इक निशानी** ओह **प्रभु गी** आत्माओं को छुड़ा देगा (**प्रभु डिलीवर कर दी है**

मेरा आत्मा थमां मौत, ऐ **अजन्म संहिता १६:८ ऐ**) इस्राएल दे घरे दाते परमेसरे दे वादे गी पूरा करो

अब्राहम, **इसहाक** ते **याकूब** अपने चुने दे लोकें गी पट्टेदार दे राज थमां मुक्त करियै

लोबड्डी रोशनी गी (उत्पत्ति 1:16 ऐ).⁴⁷²

निष्कर्ष 12:26 ऐते ऐसा होग, जदू तुंदे बच्चे (पुत्र)^{एव 1121} तुन्दे कन्ने आखगा।

इस सेवा दा तुंदा के मतलब ऐ ?

निष्कर्ष 12:27 ऐकि तुसीं आखो, ए दा बलिदान ऐ **प्रभु दा** (यहवा दा)^{एव 3068} **फसह दा दिन**, ऐ^{एव 6453}

जो बच्चों (पुत्रा) दे घरां तों गुजरे^{एव 1121} मिस्र च इस्राएल दा, जदू उसने मारया

मिस्र दे लोग, ते साडे घरां नू डिलीवर कर दिता। ते लोकें सिर झुकाइयै पूजा कीती।

- **ईश्वर** अब्राहम ने वादा कित्ता के ओह इंतजाम करग **इक मेमना** (मजबूत दा **एच 7716 ऐ**), ते परमेसरे अब्राहम गी इक मेदा (अयिल) उपलब्ध करोआया। **एच 352 ऐ** (एक नर भेड) होमबलि दे बदले इसहाक दी जगहा।

→ **प्रभु** (यहवा) मिस्र च इस्राएल दे पुत्रों दे घरे ते उंदे पुत्रों दी आत्माएं गी बचाई लेआ

इजराइलमौत से। प्रभु दे फसह दे बलिदान दे जरिए, इक उद्धारकर्ता **मसीहसादानाथ**

(**लूका 2:11 ऐ**) सपुर्द कीता गेआ **आत्माओं को** इस्राएल दे पुत्रों दे घरे दा, ते **मसीहबनी** गेआ **मेमने दा**^{एव 721}

लेई **प्रभु दा फसह** (**१ करिन्थियों ५:७**) में वर्णन किया गया **परानाओ 12:4-11 च**, जो के माध्यम से **शाश्वत दारुह**, ऐ

बिना दाग दे अपना खून चढ़ाया **ईश्वर**, तुसंगी अपने ज़मीर गी मरे दे कम्मं थमां शुद्ध करने दी इजाजत दिदा ऐ

जिंदे दी सेवा करना **ईश्वर** (**इब्रानियों ९:१४-१५**), दोनों को बचाते हुए **आत्माओं को** ते **आत्मा गी** इस्राएल दे पुत्रों दा.

⁴⁷¹वीडियो 7. "आदम दी पीढ़ियां अब्राहम + जनामी तकरा" www.therhemaofthelord.com/course2/7-आदम-से-अब्राहम-महिला-दी-पीढ़ियां-आओ-असी-अपनी-रूपता-बाद-अपनी-छवि-च-मर्द-बनाओ/.

⁴⁷²वीडियो 9. "1. फसह दा दिन" www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-फसह-फ्राम-ओटी-टू-एनटी/.

→के खूनमसीहपानी गी शराब च बदली दिता, परयीशुआख्या कि ओह् बाद च फसह नेई खाग उसी दे दुखें गी उसलै तकर पूरा नेई होई जंदा राज्य चईश्वर(लुका22:16 ऐ), मतलब ओह होर नेई खाग **फसह दा दिनरोटी दा (यापरमातमा दे लोगो)साडे** (पुराने नियम) दे नाल, क्योंकि हुंदे बाद दुखी होता है, पानी (लोगो दा) मदिरा (रमा दा) जो कि दे राज विच है **ईश्वर**(नमां नियम), जो कित्ता जावेगा**सत्ता में**.

रोटी दीओह्यीशुटूटा हुआ है उहदा तन, ते प्याला उंदे च नमां नियम ऐलह्, पर कीजे इक गदार (यहूदा) दा हत्थ बी कन्नै हायीशुपर**प्रभु दाटेबल**, असें गी समझना पौग**ओह् प्रभु दाशरीरखांदे वक्तप्रभु दा फसह** उंदी मेज पर.⁴⁷³

- † लेई**प्रभु दाफसह** दा दिन, ऐमसीहइक मेदा बनी गया जेड़ा इसहाक दी जगह होमबलि दे रूप च चढ़ाया जंदा हा।
ईश्वरबन जाएगापिता जीतेईश्वरपार्पी दा जेके विश् वास कन् ने एह विश् वास करदे हनयीशु, ऐमनुख दा पुत्तर, ऐमसीह गी, ऐपरमातमा दा पुत्तर, ते जो उंदे कोल चढ़ी गेदा ऐबापू, ओहदाईश्वर.

⁴⁷³वीडियो 26. "प्रभु दा फसह (नमां नियम)।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-द-त्तोंईस-पास-ओवर-द-नए-वसीयत/.

Passover
(Exodus 12)

When your children(sons)^{H1121} say to you, "What do you mean by this service?"^{Exo 12:26}
 → That ye shall say, **It is the sacrifice of the LORD'S passover, who passed over the houses of the children(sons)^{H1121} of Israel in Egypt, when he smote the Egyptians, and delivered our houses^{Exo 12:27}**


For Passover, the LORD spoke to all the congregation of Israel through Moses, that they shall take to them every man (husband)^{H376} a lamb^{H7736} according to the house of their fathers, a lamb^{H7736} for an house (Exo 12:3).
 - In Genesis, man^{H376} (Strong's H376, 'is, v'y) was used to make reference to a "husband" of a woman, or the Soul of the flesh).
 - Therefore, the sacrifice of the blood of their lamb without blemish on their door posts becomes not only a sign (Gen 1:14)^{H226} that the LORD will deliver the house of the sons of Israel in Egypt (Exo 12:5), but also a sign that the LORD will deliver the souls (The LORD had delivered my soul from death, Psa 116:8) of the house of Israel and carry out God's promise made with Abraham, Isaac, and Jacob (by delivering His chosen people from being ruled by the lesser light to the greater light).

Abram

When Sarai (Abram's wife) was barren thus bare him no children (beget)^{H305}, (Gen 11:30 Gen 15:1).
 Sarai asked Abram to go to her Egyptian maid Hagar, to obtain children (bud)^{H1128} by her.
 • And **she conceived and bore Isaac to Abram** (Gen 16:2)
 → This is the same story of how **the LORD God** commanded him not to Gen 3:17, and hast eaten of the tree, the LORD God **condemned** him not to Gen 3:17, and Hagar as their mother, who is "under the law", (Gal 3:18), born **after the flesh**
 → The house is in bondage because their life was **brought forth from dry earth** without water) and not from heaven (Jhn 6:58). Sarai's barrenness explains why she is "of dry earth", and thus they have borne the image of the earthy (1Co 15:48).
 1Co 15:47 The first man is of the earth earthy, the second man is the Lord from heaven.
 1Co 15:49 And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.

Abraham

The children **descend from the seed of Isaac** who has Abraham as a father, and Sarah (free woman) as a mother, are **Israel born after the Spirit and by promise**
 → Rom 9:6 Not as though the word of God hath taken none effect. For they are **not all Israel, which are of Israel**
 → Rom 9:7 Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children.
 → but, **In Isaac shall thy seed be called**
 → Rom 9:8 That is, They which are the children of the flesh, these are not the children of God.
 → but the children **of the promise** are counted for the seed.



The mother of Jesus was there, and both Jesus was called, and his disciples, to the marriage (Jhn 2:1-2). And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, **"They have no wine"** (Jhn 2:3).
 Jesus saith unto her, **Woman** ⁶¹¹³ what have I to do with thee? **mine hour is not yet come** (Jhn 2:4). His mother saith unto the servants, **Whatever he saith unto you, do it** (Jhn 2:5).
 Jesus saith unto them, **Fill the waterpots with water**. And they filled them up to the brim (Jhn 2:7). And he saith unto them, **Draw out now, and bear unto the governor of the feast** ⁶³⁵⁵. And they bare it (Jhn 2:8).
 When **the ruler of the feast** had tasted the water, **that was made wine** ⁶³⁸¹ and knew not whence it was (but the servants which drew the water knew) **the governor of the feast called the bridegroom** ⁶³⁸⁶ (Jhn 2:9).
 And saith unto him, **Every man at the beginning doth set forth good wine**, and **when men have well drunk, then that which is worse** but **thou hast kept the good wine until now** (Jhn 2:10).
 → This is the first miracle (Sign)⁶³⁵⁶ of Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. (Jhn 2:11)
 → Jesus called his mother "Woman," ⁶¹¹³ before Passover or before Jesus' crucifixion.
 → We learned from Genesis that **Woman** refers to the current man's wife, thus the woman (wife) is **one flesh** with her husband. Which is why Jhn 2:1 records that "the mother of Jesus was there."
 → Jesus called His mom as "Woman," prior to the Passover and His crucifixion, alluding that His hour of crucifixion (God's appointed time, **mo'ed**) is near.
 → Jesus' first miracle (Sign)⁶³⁵⁶ of turning the water into wine, is "a sign (Strong's G4592, σημεῖον)" in Gen 1:14, - "let them be for signs ^{H226} - foretells that Jesus is the ruler of the lights in the firmament of the heaven, who can lead the people who are ruled by the lesser light (under the law) to the greater light (under grace) through His death and resurrection, and is therefore the second Adam."

प्रकाशित 11:9 ऐ दो गवाहें दी लाशें गी सारें गी 3 1/2 दिनें तगर दिक्खना पौंदा ऐ

प्रकाशित 11:9 ऐते ओह (देखो) ^{¶1991}साढ़े त्रै दिन उंदी लाशें गी, ^{¶5443}ते भाषाएं ते राष्ट्रें गी ^{¶1484}देखेगा ^{¶991}साढ़े त्रै दिन उंदी लाशें गी, ^{¶863}ते कष्ट ना भुगतना (छोड़ना) ^{¶5087}उंदे मरे दे लाशें गी रक्खना (लेट) ^{¶5087}कन्न (कबर) विचा ^{¶3418}

☞ प्रकाशित 11:9 ऐफिरी लोकें, कबीले, भाषाएं ते जातिएं दे लोक उंदी लाशें गी दिक्खी लैगन ३ १/२ दिन दा, ऐ ते उंदी लाशें गी कबर च नेई पाने देना।

- मरे दे बीचा जी उठने दे बाद, माहून्यू जी उठने दे पुत्रें दे लाश, राज दे पुत्र, कन्न चों निकले (लूका 20:35-36 ऐ). इस करिए 2 गवाहें दी लाशें गी कन्न च नेई पाने दी इजाजत ऐ कीजे ओह राज दे पुत्र ना ⁴⁷⁵

प्रकाशितवाक्य ११:१०-१३ 2 नबी दा जी उठना ⁴⁷⁶

प्रकाशित 11:10 ऐते धरती (जमीन) उप्पर रौहने आले ^{¶1093}उंदे उप्पर खुश होंगन, ते मस्त होंगन, ते करंगन इक दुए गी दान भेजना; कीजे इनें दऊं नबी धरती (जमीन) उप् पर रौहने आलें गी सतांदे हो ^{¶1093}
प्रकाशित 11:11 ऐसाढ़े त्रै दिनें बा'द परमात्मा थमां जीवन देने आह्नी आत्मा उंदे च आई गेई ते ओह उंदे पैरें उप्पर खड़ोते दे रेहू। ते जेके उनेंगी दिक् खेया हा, उंदे उप् पर बड़ा डर पेई गया।
प्रकाशित 11:12 ऐउन् ने सुर्ग थवां इक बड़्डी आवाज सुनी कि उन्हें आखदी ही, “ चढो!” ^{¶305} इत्थे. ते ओह उप् पर चढ़ी गे ^{¶305}में स्वर्ग को ^{¶1722}इक बादल; ते उंदे दुश्मन ^{¶2190}उन्हें दे खा.
प्रकाशित 11:13 ऐऔय वही (उस भें) ^{¶1722}चैटातां इक बड़्डा भूचाल आया ते नगर दा दसवां हिस्सा डिग्गी गेआ। ते भूचाल च मनुखें गी मारी दिता गेआ ^{¶444}सात हजार (7,000) ते बचे दे लोक घबराई गे; ते सुर्ग दे परमात्मा दी महिमा दिती।

- ☞ प्रकाशित 11:10 ऐते जमीन उप्पर रौहने आले उंदे उप्पर खुश होंगन, मस्ती करंगन ते इक दुए गी दान भेजना कीजे एह् दवें (२) नबीजर्मी पर रौहने आलें गी सताया।
- ☞ प्रकाशित 11:11 ऐते साढ़े त्रै-साढ़े (३१/२ दा) दिन जीवन दी आत्मा थमां ईश्वर उन्दे च दाखल होई गेआ, ऐ ते ओह अपने पैरें उप्पर खड़ोते दे हे, ते उनेंगी दिखने आह्लें उप्पर बड़ा डर पेई गेआ।
- ☞ प्रकाशित 11:12 ऐउने सुर्ग थवां इक बड़्डी आवाज सुनी कि उन्हें गी आखदी ही। “इत्थे ऊपर आओ.” ते ओह सुअर्गे च चली गे ^{¶1722}इक बादल, ते उंदे दुश्मनें उनेंगी दिक् खेया।
- ☞ प्रकाशित 11:13 ऐते उस बेले इक बड़्डा भूचाल आया ते इक दसवां हिस्सा (1/10 दा) शहर दा डिग्गना. 7,000 आदमी उस भूचाल च मारे गे, ऐ ते बचे दे लोक डरी गे ते महिमा देई गे ईश्वर स्वर्ग दा.

(2 गवाह = 2 नबी = 2 पुत्र)

- टीओह लोक, कबीले, भाषा ते जातिदेखेगा 2नबी जीएस दे लाशें गी साढ़े त्रै (3 1/2) दिनें तगर रक्खग ते उंदी लाशें गी कन्न च बिछाने आसतै नेई छड़्डगा।
- ते जेडे जमीन उप्पर रौंदे न, उंदे उप्पर खुश होंगन लाशें दो गवाहों का, मस्ती करो, ते इक दुए गी तोहफे भेजो, कीजे एह्दो (२) नबी सताया जो जमीन नय वासते शैं।

→ 2 गवाहें दी मौत पर जमीनी निवासी क्यों खुश होंगन?

- कर्मोकक उन्शोंने (जमीन नय नयदे शी को अन्नने आकय नयदे श के लरए भोवायाभ ककमा शै अगय वे कयते शैं बड़े बाबुल कोलां नेई निकलो; प्रकाशित 11:3 ऐ, प्रकाशित 18:4 ऐ) 1,260 दिनें लोई, जिसलै के पोषण करदे होई अवशेष ते यहूदियों दे कन्ने परमात्मा दे लोगो जंगल च 1,260 दिनें तगर (प्रकाशितवाक्य 12:6).

- पर साढ़े त्रै दिनें (3 1/2) दिनें दे बाद, जीवन दी आत्मा कोला... ईश्वर उंदे च दाखल होई गे ते उंदे पैरें उप्पर खड़ोते दे हे, ते उनेंगी दिक् खने आलें गी बड़ा डर पेई गया।

⁴⁷⁵वीडियो 39. “मरे दे जी उठना” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-संभावित-समय-अनुक्रम-सली-पर-चढ़ाने-पहले-और-अंतिम-आदम-मुतक-के-पुनरुत्थान/.

⁴⁷⁶वीडियो 46. “जीवन दा जी उठना” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-जीवन-दा-पुनरुत्थान/.

- ऐं2 नबी ने सुर्ग थवां बड़ी आवाज़ "सुनी" ए आखदी ही, "इत्थे ऊपर आओ" ते ओह चढ़ी गे
बादल में स्वर्ग, ते उंदे दुश् मनं उमेंगी दिक् खेया।

→जेड़े सुर्ग थवां बड़ी आवाज़ सुनदे ने, "इत्थे चली जाओ" सुर्ग च चली जांगना यह ए
आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व किवें मरे हुवे स्वर्ग कलों आवाज़ सुणदे हेन, जी उठदे हेन ते किवें चढदे हन
स्वर्ग जदू दी आत्मा जीवन थमाईश्वरउन्दे च दाखल होंदा ऐ।

• मैंn उस घड़ी, इक बड़डा भूचाल आया, ते शहर दा दसवां हिस्सा (1/10) डिग्गी गेआ। भूकंप में 7000 आदमी^{#444} मारे गे, ते बाकी डरदे-डरदे महिमा देई
गेपरमातमा दास्वर्ग दा.

→क्यों सिर्फ मर्द ही थे^{#444} मारी दिता? जिवें पहले विच समझाया गया है प्रकासित 8:13 ऐ, मर्द^{#444} रोटी दे नाल जीना नहीं जावेगा
अकेले (या अकेले लोगो), पर सारें दे द्वार रेमापरमातमा दा. आध्यात्मिक रूप च, जेहड़े भूचाल च मरी गे
ओह गै हन, जेके सिर्फ रोटी उप् पर गै जींदे हे (जां व्यवस्था दे मताबक, ते आत् मा दे मताबक नेई)⁴⁷⁷

(प्रकासित 11:14 ऐ) 2 वी हाय दा अंत (परमात्मा दा रहस्य उस वेले पूरा होंदा है जिस वेले 7वीं तुरही बजने आली है)

प्रकासित 11:14 ऐदूजी हाय बीती (चली गई);^{#565} ते दिखो, तीसरी विपत्ति जल्दी आंदी ऐ।

☞ प्रकासित 11:14 ऐदूजा (2 वी) हाय चली गया. देखो, तीसरा (3 वा) हाय जल्दी आ रही है.

>> पवित्र संतों दा 2nd रैफर (परमातमा दा रहस्य उस वेले पूरा हो जांदा है, जदों 7वीं तुरही बजण वाली है)
(तीसरी घड़ी)

प्रकासित 10:7 ऐपर दी आवाज़ दे दिनां विच सतमां दा (7वीं दी) परी, जदं ओह (तुरही) बजाने आला ऐ,
दा रहस्य ईश्वर⁴⁷⁸ पूरा होई जाग, जिय्यां दासं गी नबियें गी दस्सेआ हा।

→ दा सुसमाचार ईश्वर जित ईश्वर पबितर शाखें च अपने नबियें दे जरिये पैहलें गै वादा किता हा, ऐ
उंदे पुत्र दे बारे च यीशु मसीह सादानाथ, तुरही बजाने दे दिनें च पूरा होई जाग
7वें परी द्वारा.⁴⁷⁹

- ऐं महासंकट संत (प्रकासित 10:7 ऐ) उस वक्त रैफर हो जावेगा, जदों 7वां सुर्गदूत आवाज़ देण वाला होवेगा
तुरही बजाना ते साडे ईश्वर ते उंदी मसीह इस दे राज्यों गी बहाल करो डब्ल्यू orid ने दी, दा रहस्य पूरा करदे होई
ईश्वर.

1थ 4:16 ऐलेई प्रभू अपने आप गी चिल्लाहट कन्ने, प्रधान दूत दी आवाज़ कन्ने सुर्ग थमां उतरगा।

ते नाल परमातमा दी तुरही: ते मरे दे अंदर मसीह पहले उडेगा: 1।

1थ 4:17 ऐफिरी अस जेड़े जिंदे ते बचे दे आं, उसी पकड़ी लैता जाग (हरपाज़ी)^{#726} उंदे कन्ने मिलिए

च^{#1722} बादल दे, ऐ^{#3507} मिलने के लिये प्रभू च (च)^{#1519} हवा दा: ते अस बी कदें बी इय यां गै रौटो प्रभू.

→ प्रभू जीमहादूत दी आवाज़ कन्ने ते तुरही कन्ने उतरगईश्वर, ते मरे दे विच
मसीह (जिन्हां विच सोया सीमसीह खून दे खेतर च जिसगी उने अपने खून कन्ने खरीदे दा हा) उड़ी जाग
पैहला.

⁴⁷⁷ अध्याय 10 "ईं" थमां केद कीता गेदा ऐ। चइफिसियों 5:31 ऐ, "एक आदमी (अंथ्रोपोस)"^{#444} दास दे मांस दे आदमी दा मतलब ऐ जिसदे कोल ऐ
लोगो दा आहला ईश्वर मनुख दे पुत्र दे जरिए, ते इस चाल्ती उसी अपने पिता ते मां गी छोड़िये अपनी मुक्त जनानी (जिस च...

ऐजीवन च मसीह) तां जे ओह दे शरीर (हड्डी ते मांस) कन्ने जुड़न मसीह, इस करिए चलने आलें दे कम्मं च
रोटी दे नाल जीना (लोगो दा) अकेले (शरीर च), ते द्वारा नेई मा दा कि दे मुंह तों बाहर निकलदा है ईश्वर (आत्मा विच),
जली जांगन ते अग कन्ने नुक्सान चुक्कनगे (उन्हें बचाया जाग, फिर भी जिवें द्वारा अग).

⁴⁷⁸ वीडियो 43. "(आत्मा दे नेतृत्व च) परमात्मा दे पुत्र," ते वीडियो 45. "6. प्रायश्चित"), www.theRhemaOfTheLord.com पर ऐ.

⁴⁷⁹ संदर्भ देनारोम 1:1-4 ऐ.

जेड़े जिंदे न, उंदे कन्ने मिलियै जेड़े सोए दे न, उंदे कन्ने गै फसी जांगन (हरपाजो ग्रीक च, जां रेटसलेटिन च जिसदा उच्चारण “रेचर” कीता जंदा ऐ”) “इच” बादलें च हवा च प्रभु कन्ने मिलने आस्ते, ते अस करगे म्हेशांसाथ हो प्रभु.⁴⁸⁰

(प्रकासित 11:15-16 ऐ) 7वें सुर्गदूत ने तुरही बजाई (साडा प्रभु ते ओस दा मसीह इस दुनिया दे राज्यें गी बहाल करदे न)

प्रकासित 11:15 ऐते सतमें सुर्गदूत ने बजया; ते सुअर्गे च बड़ी-बड़ियां आवाजां होंदियां हियां।
 इस संसार दे राजसाडे प्रभु (क्योरिओस) दे राज बण जांदे ने, 2962 ते उंदे मसीह दा;
 ते ओह सदा-सदा राज करग।
प्रकासित 11:16 ऐते चौबीस बुजुर्ग जेड़े परमात्मा दे सामने अपने आसनें उप्पर बैठे दे हे; 2362 ते
 उंदे मुंह उप्पर खडोइयै परमात्मा दी पूजा कित्ती।

(साडा प्रभु ते ओस दा मसीह संसार दे राज्य गी बहाल करदा ऐ & ते ओह हमेशा ते हमेशा लेई राज करग)

☞ प्रकासित 11:15 ऐफिर सतमीं (7^{वीं}) परीबजया (तुरही): ते सुअर्गे च बड़ी-बड़ियां आवाजां आए।

“इस संसार दे राज हो गए है राजें गी आहलासादानाथते उंदे दामसीह, ते ओह सदा-सदा राज करग!”

☞ प्रकासित 11:16 ऐते चौबीस (24) बुजुर्गों

जो पहले बैठा था ईश्वर उंदे सिंहासन उप्पर उंदे चेहरे उप्पर पेई गे ते उंदी पूजा कीती ईश्वर.

- ऐसाडा परमात्मा सदा राज करदा ऐ

→ ईश्वर सदा राज करदा ऐ, जदू इस संसार दे राज साढे राज बनी जंदे ननाथ (प्रभु यीशु मसीह) ते उंदे (रब दा) मसीह.

→ नाथ 2962 ऐ ईश्वर 2316 ऐ सर्वशक्तिमान जी 3841 ऐ जरिया यीशु जो बुलाया जाता है मसीह जां प्रभु गी (यहोवा), ऐ 3068 ऐ

“प्रभु (मुक्तिदाता) यीशु मसीह, थुआदा ईश्वर, कुंन ऐमेमने दा (अर्नियन दा), ऐ 721 ऐ ते ईश्वर, जो में धामसीह (२ कुरिनथियों ५:१९), दे माध्यम कन्ने औंदा ऐ प्रभु ते मुक् तिदाता यीशु मसीह, ऐ ओह मेमना.⁴⁸¹”

- ऐ 7वें सुर्गदूत ने तुरही बजाई

प्रकासित 11:15 ऐफिर सतमीं (7^{वीं}) परीबजया (तुरही): ते सुअर्गे च बड़ियां-बड़ियां आवाजां होंदियां हियां।

आखदे होई, “संसार दा राज “साढे” दे राज बनी गेदा ऐनाथ (जां ईश्वर)” ते “ओह दामसीह,” ते ओह सदा-सदा राज करग!”

→ 2 वी रेचर दा पवित्र संतों दा 7वीं तुरही दी आवाज पर होंदा ऐ, ते सादानाथते उंदी मसीह दुनिया दे राजें गी बहाल करग।

→ ईश्वर सादा पिता बनी जंदा ऐदे राहें प्रभु यीशु मसीह गी, इस आस् ते, “साढे दा राजनाथते ओह दामसीह” दा मतलब ऐ “साढे दा राज ईश्वरते उंदी मसीह.”

✦ ए गल्ले शिमोन (एक धर्मी ते भक्त मनुख) गी प्रगट कित्ती गेई 444 ऐ यरूशलेम च) राहें पवित्र आत्मा गी कि “उसी नेई दिखना चाइदा मौत, इसदे पैहे गै उसी दिखेआ हा प्रभु दा (क्योरिओस) मसीह (जां परमेसरे दा मसीह)”⁴⁸²

- इत् थें गै, दाऊद (यीशु दे सुअर्गे च जाने थवां पैहलें) ने ग् लाया, “प्रभु मेरे कन्ने आखयानाथ,”

→ मतलब “ईश्वर मेरे कन्ने आखयामसीह (मसीह)।”

(प्रेरितों दे काम २:३४ की वे दाऊद सुर्ग च नेई चढेया।

480 “[चित्र 1-ग] जां वीडियो 45. “6. प्रायश्चित्त करो।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-प्रभु-दे-भोज-6-प्रायश्चित्त/.

481 से कैद की गई प्रकासित 4:8 ऐ.

482 वीडियो 8. “(फसह दे पैहलें) यीशु गी नर बच् चे थवां प्रभु तकसा” www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-द-सत्त-भोज-इजराइल-जीस-दे-पुरुष-बच्चे-से-तो-प्रभु/.

लेकिन ओह अपने आप आखदा ऐ, “प्रभु(क्योरिओस)”²⁹⁶² मेरे कन्ने आखयानाथ(क्योरिओस), ऐ²⁹⁶² रे
तू मेरे सज्जे हलथ च बैठो, जदू तकर मैं तेरे दुश्मनें गी तेरे पैरें दा आधार नेई बनाना (प्रेरित ोः दे काम २:३५)।

† (2nd) रैचर फसल दीउसलै होंदा ऐ जिसलै (7वीं) तुरही दाईश्वरबजने वाला है
 (१थ 4:16-17 ऐ).

- ऐजी उठने दे पुत्र मौत दा अनुभव नेई करंगन कीजे ओह कदें बी नेई मरंगन

- "पैह्ली मौत" शब्द बाइबल च उस बेल्लै थमां नेई ऐप्रभु यीशु गी अपने पवित्र संत दी आत्माएं गी ग्रहण करदा ऐ। दुल्हनें ते पवित्र संत गी पैह्ली मौत दा अनुभव नेई होग जि'यां उ'नेंगी बपतिस्मा दित्ता गेदा हायीशु मसीहउदे आने कोला पैहलै, ते इस चाल्ली ओह उंदी मौत च गै मरी गेदे हे (रोम 6:3-4 ऐ)जाँउदे अविनाशी ते नश्वर शरीर च, इय यां गै ओह उंदे जी उठने दे रूप च बी होंगन (रोम 6:4 ऐ-5).
- मरे हूए लाशेंपवित्र संतों दातक सोया जावेगाप्रभु यीशु दे आने दा(प्रकाशितवाक्य 22:20). इस आस् ते पबित्र संत दी मौत गी “अपने शारीरिक तम्बू गी उतारना (या पराने तम्बू गी छड्डने आस् ते आत्मा गी” दे रूप च समझना चाईदाजाँउते वर्तमान मांसल शरीर ऐ, प्रेरितों दे काम 7:59)” ओहप्रभु यीशु मसीह गीपतरस गी दस्सेआ हा (२पतरस १:१४).⁴⁸³ इस आस् ते, जेकर ओह मरी गेदे हे, तां बी ओह जिंदे रोहन, तां जेके बी जिंदा रोहना ऐ ते उदे उप् पर विश् वास करदा ऐ, ओह “कदे ना मरना” (जाँन 11:26 ऐ).
- मसीहराज करना चाहिदा, जदू तकर ओह अपने सारे दुश्मनें गी अपने पैरें हेठ नेई करी लैदा (१कुरिन्थियों १५:२५), परमसीहअपनी मौत दे जरिए उंदे उप्पर पैह्लें गै “जीत” करी चुके दा हा (इब्रानियों 2:14 ऐ) ते जी उठना, तां तुस बी करगेकदें बी नेई मरना जेकर तुस इस गल्ल गी मनदे ओसच्चाईते जीओच मसीह.
- आखरी दुश्मनहै मौत (१कुरिन्थियों १५:२६), ते जिसदे कोल मौत दी ताकत ऐ (इब्रानियों 2:14 ऐ) शैतान ऐ।परमात्मा दा पुत्र(मसीह) प्रकट हो गयाटीओ शैतान गी नष्ट करो जिसदे कोल मौत दी शक्ति ही, तां जे शैतान गी अग्न दी झील च सुड्डी दित्ता जाईश्वरसफेद सिंहासन दे फैसले दे सामने।⁴⁸⁴

१योन ना ३:८पाप करने आला शैतान दा ऐ; की वे शैतान शुरू थवां गै पाप करदा ऐ।

इस आस् ते परमेसरे दा पुत्र (मसीह) प्रकट हो गया, ऐ
 तां जे शैतान दे कम्मं गी नष्ट करी सकै।

- ऐअंत आ जांदा ऐ

१कुरिन्थियों १५:२४ फिर अंत आ जांदा ऐ, ऐ⁵⁰⁵⁶ जदू ओह सौपी देई ओइगपरमेसरे गी राज देना, ऐधोड़ीपिता जी;

जदू ओह निचे (नष्ट) करी ओइगा।²⁶⁷³ ऐ

सारे नियम (शुरुआत)⁷⁴⁶ ते सारे अधिकार ते शक्ति।

१कुरिन्थियों १५:२५की वे उसी राज करना चाइदा, जदू तकर ओह सारे दुश् मनं गी अपने पैरें हेठ नेई रखे।

१कुरिन्थियों १५:२६आखरी दुश्मन जो नष्ट हो जावेगा²⁶⁷³ मौत है।

(इब्रानियों 2:14 ऐकीहके बच्चे मांस ते खून दे हिस्सेदार न;

उसी बी उससे चाल्लीं गै हिस्सा लैता गेआ;

तां जे मौत दे जरिए मौत दी शक्ति आह्ले गी नष्ट करी सकै।

यानी शैतान दा;)

→सादानाथते उंदीमसीहइस संसार दे राज गी बहाल करदा ऐ, जदू पवित्र दा 2nd रैचर

संत 7वीं तुरही दी आवाज पर होंदा ऐ।⁴⁸⁵की आवाज परआखरी(7वीं) ऐतुरही बजाना, ओह
मरे दे जिंदा हो जांगनअविनाशी, ते अस 2 गी इक अकखीं दी झिलमिलाहट च बदली जागे
 रैचर करना।⁴⁸⁶

→ मसीहमेरे दे बीचा जी उठे, ते बण गएपैह्ले फलसोने वाले दा। उंदी मौत दे जरिए

ते जी उठना,मसीहराज किता ते उस शैतान गी नष्ट करग जिसदे कोल मौत दी शक्ति ऐ, ते

इस संसार दे राजें गीतक पहंचा दी जाएगीईश्वर(प्रकाशित 11:15 ऐ), ऐफिर अंत आ जांदा ऐ

(१कुरिन्थियों १५:२४).

⁴⁸³वीडियो 42. “5 दा तुरही” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-द-भोज-दे-लॉर्ड-5-तुरही/.

⁴⁸⁴“प्रकाशितवाक्य 20:9-10 शैतान गी अग्न & गंधक दी झील च सुड्डी दित्ता गेआ.”

⁴⁸⁵“प्रकाशित 11:14 ऐ 2 बी हाय दा अंत (परमात्मा दा रहस्य उस वेले पूरा होंदा है जिस वेले 7वीं तुरही बजने आली है).”

⁴⁸⁶वही।

- ऐमरे दे जी उठना

→ एह मरे दे लोकें दे जिंदा होने दा ओह ऐ जेहड़ा मारथा ने यीशु कन्नै आखेआ हा, अपने मरे दे भ्राउ दे बारे च लाजरा

जॉन 11:24 ऐ "मारथा ने उसी (यीशु गी) आख्या।

मैं जानना आं के ओह (मरे दे लाजर) च फी जिंदे होगी उठने दा पर आखरी दिन."

→ हालांकि मारथा ने रेफर कीता यीशुजियांप्रभु (जहन्ना 11:21 ऐ), उसने सिर्फ स्वीकार कर दिया यीशु मनुख दे पुत्र दे रूप च (लोगो दा) छड़ा, ते जिवें नही परमातमा दा पुत्र जो भी आया सत्ता में, तेपवित्र आत्मा च.⁴⁸⁷

→ इसी कारण यीशु उसे आख्या,

"मैं जी उठना, ते जीवन हां: 1।

(इक) जेड़ा मेरे उपपर विश्वास करदा ऐ, ऐभले ही ओह मरी गेदा हा, पर जिंदा रेहग: 1।

(ख) ते जेका जिंदा ऐ ते मेरे उपपर विश्वास करदा ऐ, ओह कदे नेई मरग.

तू इस गल्लै पर विश्वास करो? (जॉन 11:25-26 ऐ)" ऐ⁴⁸⁸

➤ (क) मारथा दा मरे दा भ्रा उसने आखने दे बाद जिंदा हो गया।

"नाथ: 1। मैं विश्वास करना के तू मसीह ओ, ऐपरमातमा दा पुत्र, ऐ जिस विच आना चाहिदा दुनियां गी."

→ हालांकि लाजर मरी गेदा हा, पर ओह जिंदा रेहया ते उसी कबर थवां छड्डी दिता गया

कदू यीशु जोरदार आवाज च चिल्लाया, इकएनडी ने कहा, "लाजर, सामने आओ" (जॉन 11:43 ऐ).

मरे दे जी उठन तों पहला⁴⁸⁹

- आदम थमां लेइयै मूसा तकर मौत दा राज हा, इस करी जेड़े लाशों गी सुत्ते दा हा

मौत दे राज दे दौरानबंद कर्र में थे^{3419 र}

(मत्ती 27:52 ऐ, ऐरोम 5:14 ऐ).

मरे दे जी उठने दे बाद

- राज दे पुत्रों दी लाश कबर च निकली आए^{3419 र}

➤ (ख) क्योंकि मारथा ने विश्वास किता यीशुजियांप्रभु, ऐमसीह गी, तेपरमातमा दा पुत्र मौत दा स्वाद चखने कोला पैहें गै ओह करग कदे ना मरना.⁴⁹⁰

- ऐप्रभु जी (क्योरिओस) सादाईश्वर (थियोस) दा = इकनाथ (क्योरिओस)

मार्च 12:18 ऐ फिरी सदुकी उदे कोल आए, जेड़े आखदे ने कि जिंदा कोई नां नेई ऐ;

ते उने उदे (यीशु कोला) पुछया।

मार्च 12:19 ऐ मास्टर, 1320 मूसा ने सानु लिखेया, "जे मनुख दा भ्रा मरी जा ते अपनी घरेआली गी छड्डी जा।

ते कोई संतान नेई छोड़ो, तां जे ओहदे भ्रा अपनी घरेआली गी लेई जा।

ते बीज उगाओ^{4690 र} अपने भ्रा गी.

मार्च 12:20 ऐ सत्त भैन हे, ते पैले ने इक ब्याह लेई लेया, ते मरने कन्ने कोई बीज नेई रेया।

मार्च 12:21 ऐ दूजे ने उसी पकड़ी लेया ते मरी गया, ते ना गै कोई बीज छड्डी गया;

मार्च 12:22 ऐ ते सत्तें च उसी बी हा, ते उंदे कोला कोई बीज नेई रेया, लेकन आखरी च ओह जनानी बी मरी गई।

मार्च 12:23 ती जी उठने चइस आस् ते, जदु ओह करडन चढ़ेआ, ऐ

⁴⁸⁷संदर्भ देना 1:१५ ऐ.

⁴⁸⁸होर मती जानकारी आस्तै, अध्याय 20 थमां "<मसीह दा दिन>" दिक्खो।

⁴⁸⁹"प्रकासित 3:12 ऐ."

⁴⁹⁰होर मती जानकारी आस्तै, अध्याय 20 थमां "<मसीह दा दिन>" दिक्खो।

उन्दे च कुस दी पत्नी होग ? की वे सत्तों ने उसी ब्याह करी लेया हा।

मार्च 12:24 ऐयीशु ने उन्दे कन्ने आख्या, “

इसे आस्ते के तुस गलती नेई करदे?

कीहके तुस पबित्तर ग्रंथें गी नेई जानदे ओ ते ना गै शक्ति गी^{¶1411} परमात्मा दा^{¶2316}?

मार्च 12:25 दीकी वे जदु ओह मरे दे बीचा जी उठनगे, ते ना ब्याह करन ते ना ब्याह करन;

लेकन सुर्ग च होने आले सुर्गदूतें दे समान ना

मार्च 12:26 ऐते मरे दे लोकें दे बारे च जे ओह जी उठना

के तुस मूसा दी कताब च नेई पढ़ेया के परमात्मा झाड़ी च किन्ना ऐ^{¶2316} उदे कन्ने आख्या।

मैं अब्राहम दा परमात्मा, इसहाक दा परमात्मा, ते याकूब दा परमात्मा आं ?⁴⁹¹

मार्च 12:27 ऐओह परमात्मा नेई ऐ^{¶2316} मरे दे, पर^{परमात्मा दा}^{¶2316} आहला जिदे लोग: इस आस् ते तुस बड़ी गलती करदे ओ।

मार्च 12:28 ऐते इक शास्त्री आया ते उंदे कन्ने गल्लबात करदे सुनेया।

ते ए समझी लेया के उन उन्हें ठीक जवाब दिता ऐ, ते उंदे कोला पुछया।

जो सब दा पैहला हुकम ऐ?

- सदुकी (कोई जी उठने पर विश्वास नेई करदे)

- **सदुकी लोग** कहो कि कोई जी उठना नहीं, ते उने पुकारेयीशु^{¶1320} मास्टर (सूली उपपर चढ़ाने आला),” जिसदा मतलब ऐ के ओह “इस गल् ला गी नेई मनदेयीशु उहदे कोल चढ़ जावेगा बापू उदे सूली उपपर चढ़ाने दे बाद।”
उन्शोंने ऐवा शी नता चरा ईश्वर अब्राहम, इसहाक ते याकूब दा परमात्मा ऐ। पर, उंणी शाखें गी जिंदे परमेसरे दी आत् मा कन् ने दिलें दी मांसल पाट्टियें च नेई पढ़ेया, बल् कि उंणी स्याही कन् ने पत् थरें च लिखे दा पढ़ेया (^२कुरिनथियों ३:३) ते नतीजे दे तौर उपपर जी उठने दा इन्कार करी दिता।

ईश्वर ('एलोहिमा')^{¶430} अब्राहम ने वादा कित्ता कि ओ अब्राहम दे वंश दे बाद इक अनन्त वाचा स्थापित करग^{¶2233} (जो हैमसीह, ऐगलाती 3:16 ऐ)

कनान दी सारी धरती उपपर इक सनातन संपत्ति आस्तै जिल्यें ओह परदेसी हा ते ओह उंदा होग **ईश्वर** ('एलोहिमा')^{¶430} (उत्पत्ति 17:3-8). वादे दी इस वादे गी रद्द नेई कीता जाई सकदा जि'यां पैहें इसदी पुष्टि कीती गई ही ईश्वर (थियोस) दा^{¶2316} चमसीह (गलाती 3:17 ऐ, ऐ^२कुरिनथियों ५:१९).

पर, सदुकी ऐ गी नेई दिक् खेया यीशु जि'यां मसीह ते इस चाल्ली घोशणा नेई करी सकदा यीशु मसीह जि'यां उंदे “नाथ,” एस ओ साडे स्वर्गीय बापूना उंदा पिता ऐ ते ना उंदा परमात्मा⁴⁹²

मार्च 12:29 ऐते यीशु उसी जवाब दिता, “सब आज्ञाएं च पैहली आज्ञा ऐ, “सुनो, हो।” **इजराइल;**

प्रभू (क्योरिओस)^{¶2962} सादर^{¶2257} ईश्वर (थियोस) दा^{¶2316} इक ऐनाथ (क्योरिओस): 1।^{¶2962}

12:30 मार्च गी ते तू गै करगे हिरख प्रभू^{¶2962} तेरा ईश्वर^{¶2316} तेरे सारे दिल नाल,

ते सारे प्राण ते सारे मन कन्ने।

ते अपनी सारी ताकत कन्ने, ए पैहला हुकम ऐ।

मार्च 12:31 दीते दूआ इय यां ऐ, “तुस करगे।” **हिरख अपने पड़ोसी गी अपने आपै दे समान.**

इन्दे कोला बड़डा कोई होर हुकम नेई ऐ।

मार्च 12:32 दीते शास्त्री ने उसी आख्या।

खैर, गुरु, तू सच्च आख्या ऐ, की वे इक ऐ ईश्वर,^{¶2316}

ते उदे सिवा होर कोई नेई ऐ।

मार्च 12:33 दीते उदे कन्ने सारे दिल ते सारी समझ कन्ने प्रेम करना।

ते सारे प्राण ते सारी ताकत कन्ने ते अपने पड़ोसी कन्ने अपने आपै गी प्यार करने आस्ते।

सारे होमबलि ते बलिदानें कोला बी मता ऐ।

मार्च 12:34 ऐजदु यीशु ने दिक् खेया के उन् ने समझी कन् ने जवाब दिता, ते उन उसी गू लाया।

तू दूर नहीं हो परमात्मा दा राज. ते उसदे बाद कुसे ने बी उसी कोई सवाल पुछने दी हिम्मत नेई होई।

⁴⁹¹वीडियो 17. “3. पैहें-फूल” www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-पहले-फल-प्रभु-देव-दे-घर-

⁴⁹²वही।

- पवित्र आत्मा दाइसाएल दी धर्मी कौम गी प्रगट करदा ऐ के **जम्मूसस** ने दी **ऐप्रभु दा मसीह** (लुका 2:26 ऐ), ते कि **प्रभू** "सादा" ईश्वर है "इकनाथ." **प्रभु परमात्मा** संदर्भित करदा ऐ "प्रभु यीशु मसीह गी" जो "ओह नाथ" ते इस आस्ते धरती उप्पर दिक्खेआ गे **आरब दाइसाएल** दे बाद लोकें गी मिले **आयीशु मसीह** जिं यां उंदे "नाथ"
२कुरिन्थियों ६:१७ "उंदे बीचा निकली जाओ, ते तुस अलग हो जाओ **प्रभू**."

→ इस करिए असेंगी प्यार करना गै पौग **प्रभु गीसादाईश्वर** (**यीशु मसीह सादा नाथ**), उंदी आवाज दा पालन करो, ते उंदे कन्ने चिपक जाओ: कीजे ओह सादा ऐ **जीवन**, ते सादे दिने दी लंबाई, तां जे अस उस च रौह सकचे मदान ^{१२७} **जित प्रभु गी** ^{३०६८} सादे पुरखें गी, अब्राहम गी, इसहाक गी, ते उंदे कन्ने कसम खादी ही याकूब ने दी, उन्हे देना (देऊ 30:20 दे). और टीओहदा **मसीह** है सादा **जीवन** (सीओल ३:४ ऐ).

- चमार्च 12:29 ऐहालांकि, ध्यान देओ कि **यीशु**न कशा, "उसकानाथ" जियां "उसदा या तेरा" **ईश्वर**, पर "सादे" दा, एह इशारा करदा ऐ जे उंदा **ईश्वर ऐपिता जी** इसाएल दी कौम दा (जिंदे विश्वास करदे न **यीशु दा** उंदे उप्पर चढ़ना **बापू**), जो पूरा करदा ऐ **रब दा** अब्राहम गी वादा करो, "ओह उंदा गै होग **ईश्वर कनान** दी सारी धरती उप्पर जित्थें ओह परदेसी न" (उत्पत्ति 17:8 च).⁴⁹³

➤ तो, "प्रभुसादाईश्वरइक ऐनाथ"?⁴⁹⁴

२कुरिन्थियों ५:१८ ते सारी चीजां दे हन ^{१५३७} **ईश्वर**, जिसे सादे कन्ने अपने आप कन्ने मेल मिलाप कीता ऐ ^{१२२३} **यीशु मसीह**, ऐ ते असेंगी मेल-मिलाप दी सेवा देई दित्ती ऐ;

१कुरिन्थियों ८:६ पर सादे आस्ते इक गै ऐ **ईश्वर**, ऐपिता जी, आहला ^{१५३७} जो सब चीजां हन, ते असीं विच ^{१५१९} उसी; ते इक **प्रभु यीशु मसीह**, राहें ^{१२२३} जो सब चीजां हन, ते अस द्वारा ^{१२२३} उसी.

- चरोम 7:25 ऐ, प्रेरित पौलुस दा धन्यवाद करदा ऐ **ईश्वर** राहें "यीशु मसीहसादानाथ." एह बी, पौलुस एह घोशणा करदा ऐ के "सब किश इक गै हन **ईश्वर**, ऐपिता जी, कीजे सारी चीजां इक गै न **प्रभु यीशु मसीह**." मतलब असीं इक (च) हां **ईश्वर** (द्वारा) "इकनाथ यीशु मसीह": सादे आस्ते इक गै ऐ **ईश्वर**, ऐपिता जी, (जिस दे) सारे चीजां हन, ते अस उंदे च (उस च) हां; ते 'इक' **प्रभु यीशु मसीह**, (जिस दे द्वारा) सारे चीजां हन, ते असीं (उस दे द्वारा)।" (१कुरिन्थियों ८:६).
- पौलुस दी उपदेश "धन्यवाद देना" **ईश्वर** (नां ते) साडे **प्रभु यीशु मसीह** (१कुरिन्थियों १५:५७ ऐ, ऐ इफिसियों 5:20 ऐ) दा इक महत्वपूर्ण अर्थ ऐ, कीजे नां **प्रभु परमात्मा**, "प्रभु यीशु मसीह गी, ऐ" ते "ईश्वर", सारे किस कन्ने गठबंधन करदे न **यीशु** में कहा है **ज्ञां 10:30 बजे**, "मेंते मेरा **बापू** इक होंदे न."
- जेकर सारी चीजां (की) "पिता परमात्मा", कुं न ऐ "प्रभू" ^{२९६२} आकाश ते धरती दा (मत्ती 11:25 ऐ), ते जेकर **प्रभु गी** (**यहोवा**) **ईश्वर** (**एलोहिम**) धरती ते आकाश बनाया (उत्पत्ति २:४), ते जेकर अस दे पुत्र आं **ईश्वर** (रोम 8:14 ऐ), नाम "यहोवा" दा मतलब सिर्फ "प्रभु यीशु मसीह गी." की जे **ईश्वर** ने सानु अपने कन्ने मेल मिलाप करी लेया ऐ **यीशु मसीह** (२कुरिन्थियों ५:१८), सारी चीजां जो (के) हन **पिता परमात्मा**, साडे कोल आया (द्वारा) **प्रभु यीशु मसीह गी**. इस तर्हा असीं (इच) ओह **पिता परमात्मा** (राहें) **प्रभु यीशु मसीह गी** के प्यार के साथ **ईश्वर** ते साझीदारी दा पवित्र आत्मा गी (१कुरिन्थियों ८:६, ऐ २कुरिन्थियों १३:१४).

- ऐयीशु दी सुर्ग च अपने पिता गी प्रार्थना (प्रभु परमेसरे दा नां)

† **जम्मूसस** दी प्रार्थना **होना** परमात्मा दे दित्ते गेदे कम्में गी पूरा करने थमां पैहे

जहन्ना 17:1 ऐये शब्द (चीज) ^{५०२३} बोलेया **यीशु**, ते अपनी अक्खीं सुर्ग उप्पर चुक्की लैता ते आखया।

बापू, घड़ी आई गई ऐ; अपने पुत्र दी महिमा कर, तां जे तेरा पुत्र बी तुंदी महिमा करग।

जहन्ना 17:2 ऐजिय्यां तू उसी शक्ति दित्ती ऐ (अथाटी) ^{१८४९} उप्पर **सारे मांस**, ऐ

तां जे जिन्ना तुसैं उसी दित्ता ऐ, उन्नां गी अनन्त जीवन देग।

जहन्ना 17:3 ऐ औय मश **शै जीवन शाश्वत**, तां जे उनेंगी पता लग्गी जातू

इकमात्र सच्चाईश्वर, ते **यीशु मसीह**, जिसी तू भेजेया ऐ।

⁴⁹³वीडियो 21. "वादे, बाहर दा खतना, अंदर दा खतना,"

ते वीडियो 37. "खून दा खेत (एक कब्जा) & तुसीं इक कीमत (इक इज्जत) नाल खरीदे जांदे हो।"

⁴⁹⁴संदर्भ देना प्रकासित 4:8 ऐ.

- **एलाife शाश्वत**

यीशु ने अपनी अकहीं सुअर्गो उप्पर चुक्की लेता ते आखया, “**बापू, ऐघड़ी आ गई**, अपने पुत्र दी महिमा करो, तां जे तेरा पुत्र बी तुंदी महिमा कर”। **जीओडी** अपने पुत्र गी सारे शरीर उप्पर अधिकार दिता ऐ, जेड़ा **ऐयीशु मसीह** (प्रभु जेड़ा साडा परमात्मा बणया; **जाँसारे शरीर दा परमात्मा**)।⁴⁹⁵ **जीवन शाश्वत** के माध्यम से जान रहा है **यीशु मसीह** कि उसी दा **बापू** इकमात्र सच्चा है **ईश्वर** ते के ओह अपने पुत्र गी भेजू जेया **यीशु मसीह** दुनिया बचाने के लिये (जॉन 12:47 ऐ)।⁴⁹⁶

जहन्ना 17:4 ऐ मैं धरती उप्पर तेरी महिमा कीती ऐ।^{1093 ऐ}

जेड़ा कम्म तू मिगी दिता हा, उसी मैं पूरा करी ओड़ेया।

- **दी रेमा**

ईश्वर इस्त्राएल दे पुत्रों गी लोगो भेजेया कि सिखाने के लिये **यीशु मसीह** ऐनाथसब दा (प्रेरितों दे काम 10:36)।

रेमा दा दे दिया जाता है **रब दा चुने गवाह** जो दे नाल खांदे-पींदे रेह **यीशु मसीह** नसरत दामरे दे बीचा जी उठने दे बाद।⁴⁹⁷ जेका कोई उदे नां उप् पर विश् वास करदा ऐ, उसी पापों दी माफी मिलग, ते पबित्तर आत् मा दा दान उनें सारें उप् पर पौग, जिंदे च गैर-यहूदियें बी शामिल ना।⁴⁹⁸

- **लोगोस & दी रेमा आखरी दिनें च**

तुसें गी याद जरूर ऐरेमा दा पवित्र भविष्यवक्ताएं ते प्रभु ते उद्धारकर्ता दे प्रेरितें आसेआ आखे गेदे हुकमें दे आज्ञाएं गी, जेहड़े तुंदे शुद्ध मनें गी याद करने च उकसाने दे बगैर राती-दिन अपनी प्रार्थनाएं च तुंदी याद करदे ना।⁴⁹⁹ आखरी दिनें च, जेके अपनी वासनाएं दे मताबक चलदे न, ओह आखडन, प्रभु दे औने दा वादा कित्थें ऐ? ओह ओह गै हन, जेके आत् मा च नेई चलदे हन, लेकन शरीर दी वासना कन् ने मजाक उड़ादे हन। इस करिए वर्तमान संसार (लोगो दा) जेहड़े हून अपनी कुदरती अकहीं कन्ने दिक्खदे न ओह सिर्फ उनें चीजें थमां गै बने दे न जेहिडियां दिक्खने गी मिलदियां ना सुनने के चक्कर **मेरेमा दा**, दा दाना **लोगो दा** जमीन पर गिरना ते मरना चाहिदा तां जे मता फल पैदा होई सके (२पतरस ३:१-४)।⁵⁰⁰

लोगो दा हा शुरू च, ते **लोगो दा** साथ थाईश्वर, ते **लोगो दा** "हा"ईश्वर (इं१:१ ऐ)। पर मजाकिया इस गल्ल तां अनजान हन **परमात्मा दे लोगो**, आकाश पुराने समें दा हा, ते धरती पानी च ते पानी च खड़ोती दी ही **परमात्मा दे लोगो**। जिसदे कन्ने पुराना आकाश ते जमीन पानी कन्ने भरोची गेई तः नाश होई गेई पर वर्तमान आकाश ते... **मदान** (दुनिया) इक ही होंदे ते **लोगो दा** (शुरूआत तां ही), ते अभक्त मनुखें दे न्याय ते नाश दे दिन आस्ते भंडार च रखेया जंदा ऐ ते अग आस्ते सुरक्षित रखेया जंदा ऐ (२पतरस ३:५-६)।⁵⁰¹

- **तबार जरूर आना, ऐपरमात्मा दे रेमा समझन लई**

इसदे माध्यम कन्ने ऐतबार कि अस समझने आं के संसार (आकाश ते धरती) गी सिद्ध बनाई लेदा ऐ **परमात्मा दा रेमा**। जो दुनिया असी अज्ज दिखदे हां, ओह है **ओह लोगो दा**, ऐ **जी**^{3056 ऐ} जेड़े प्रकट होने आली चीजें कन्ने नेई बने दे न, लेकन भंडार च गै रखे गेदे न **अग** अभक्त मनुखें दे न्याय ते नाश दे दिन दे खिलाफ। विश्वास आने दे बाद असी स्कूल दे मास्टर (गलाती 3:25 ऐ, जां आकाश ते धरती दे हेठ), पर अस बनी जंदा आं **परमात्मा दे पुत्र** मसीह यीशु च विश्वास दे द्वारा ते द्वारा सिद्ध कीता जाग **परमात्मा दा रेमा** (इब्रानियों 11:3 ऐ, ऐ २पतरस ३:७)।⁵⁰²

- **विश्वास किवें आ जांदा है?**

⁴⁹⁵संदर्भ देना प्रकासित 3:14 ऐ.

⁴⁹⁶दे अर्थ दे बारे च विस्तार कन्ने जानने लेई “घड़ी आ गई,” दा संदर्भ लेओ प्रकासित 6:6 ऐ, या वीडियो 29. “घड़ी आई गेई ऐ।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-प्रभु-फसह-शिष्य-बनाम-प्रेरित-घंटे-आंदे-न/.

⁴⁹⁷“[चित्र 11-ख],” जां वीडियो 34 गी दिक्खो, “रेमा परमेसरे दे चुने गेदे गवाहें आस् ते ऐ।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-अनुग्रह-दे-तहत-आत्मा-दे-अनुसार-देवताएं-चयनित-गवाहें-लेई-रेमा/.

⁴⁹⁸वीडियो 34. “रेमा परमेसरे दे चुने गेदे गवाहें आस् ते ऐ।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-अनुग्रह-दे-तहत-आत्मा-दे-अनुसार-देवताएं-चयनित-गवाहें-लेई-रेमा/.

⁴⁹⁹याद च अपने शुद्ध दिमाग गी हिलाने दे महत्व दे बारे च विस्तार कन्ने दिक्खो

वीडियो 13. “शब्द (लोगोस & रेमा)” www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा-दा-वरदान/.

⁵⁰⁰वीडियो 29 & वीडियो 13. “शब्द (लोगोस & rhēma)”

www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा-दा-वरदान/.

⁵⁰¹वीडियो 44. “(The logos & the rhema) आखरी दिनें च (2 पतरस 3) 1/2” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

⁵⁰²वीडियो 42, “5 ऐ तुरही” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-द-भोज-दे-लॉर्ड-5-तुरही/.

परमात्मा दा राज विच नहीं है लोगो दा छड़ा, पर में परमात्मा दा रेमा, ते विश्वास सूनने कन्ने गै औंदा ऐ परमात्मा दा रेमा, ऐजो में है सत्ता दीचपवित्र आत्मा गी (रोम 10:17 ऐ).⁵⁰³

- उं'आं, पवित्र आत्मा गी यीशु दी महिमा होन तों पहलां यहूदियां नूं अजे तक नहीं दिता गया (जह्न 7:39 ऐ). पर घड़ी हुन आई गई ऐ, ते यीशु अपने पिता गी प्रार्थना करता ऐ के ओह उसी जमीन उप् पर महिमा करी ओड़ेया। पर जमीन पर क्यों?

- ऐप्रभु परमात्मानाग ते जनानी दे बीच दुश्मनी शापित उप्पर लाओ

पीस, ते रोटी ओहसिर्फ खेतर थमां गै ऐ सिर्फ आदम गी धूड बनी जंदा ऐ ते वापस औने आस्ते

शापित धरती तका⁵⁰⁴ दूप शबदां च, यीशु ने शापित लोकें गी लेई आया मदान महिमा करने के लिये।

• यीशु दे पेर⁵⁰⁵

पैरें दी स्थिति कन्ने पता चलदा ऐ जे ओह शापित जमीन उप्पर खड़ोते दा ऐ जां पवित्र जमीन उप्पर। जदुं यीशु संसार च आया, तां ओह अग् गे चली गया मदान¹⁹⁰⁹ कि शापित हो गया।¹⁰⁹³ पर, जदुं यीशु सुली उप् पर चढ़ाने दे बा'द इक बूटे उप् पर लटकदे होई मरी गया, तां उंदे पैरें शापित जमीन गी नेई छुए जिंवे ओह जमीन दे उपर (प्रेरितों दे काम ५:३०).

→ यीशु गी सुली च चढ़ाना ते मारी दिता जाना (प्रेरितों दे काम ५:३०) दे प्रतीकात्मक होंदे न जीवन के पेड़ पर मारा जा रहा है

भलाई-बुरे दा ज्ञान, जो कानून है। इस करिए कानून दे बूटे दा संदर्भ दिंदा ऐ

भलाई-बुरे दा ज्ञान जिसदे कोल कोई जान नेई ऐते जिंदे बगैर जिंदे न ओह इक कानून दे अधीन न ते...

इस चाल्ली शापित होंदे न, "शापित हर इक माहू जेहड़ा बूटे उप्पर लटकदा ऐ" (गलाती 3:13 ऐ).

- इस करिए, "शापित ऐ हर कोई जेड़ा पेड़ उप्पर लटकदा ऐ" (गलाती 3:13 ऐ) जरिया

→ जेड़े भलाई-बुरे दे ज्ञान दे पेड़ उप्पर लटकदे न

इक कानून दे अधीन होंदे न ते इस करी शापित होंदे न."

• शमोन ने दी (यहूदा इस्करियोती दा पिता, दुश्मन, इज 12:4 ऐ)

यहूदा इस्करियोती (खरपतवार = दृष्ट दे पत्तर, शैतान (दुश्मन बोने आला होंदा ऐ, ऐ मत्ती 13:38-39 ऐ).

→ पवित्र धरती यीशु दा भ्रष्ट हो गया क्योंकि यहूदा इस्करियोती (दुश्मन, द...

गदार) पवित्र धरती उप्पर हा जित्यें यीशु हा (निष्कर्ष ३:५ ऐ, ऐइज 12:4 ऐ).

→ यीशु दे सुली उप् पर चढ़ाने दी तैयारी च शापित जमीन थवां उड़ने शा पैहलें उनेंगी गी गै करना पौना ऐ

उसी बिना दाग दे मेमने दे रूप च पेश करने आस्ते धोया जा (१पतरस १:१९).

→ इस चाल्ली जदुं यीशु शमोन (दुश्मन) दे घर च दाखल होया, तां ओह जनानी (पापी) धोई गई उसके पैरा

जदुं जमीन प्रभु ने शाप दिता इश्वर (उत्पत्ति ३:१७), धरती दा खो दिया था अपनी

धुंद ते पाप संसार च आई गया (रोम 5:12 ऐ). क्योंकि पाप दे जरिए प्रवेश कीता

सूखी धरती दी शापित जमीन, मसीह यीशु पापी गी बचाने आस्ते दुनिया च आया (1ति 1:15 ऐ) थमां

शापित जमीन (या उस कन्न थमां जेहड़ी गड़ढे दे बकखरे-बकखरे हिस्सें च रक्खी गेदी ऐ, ऐ भजन संहिता 30:3) (इज 32:23 ऐ).

इस करिए "तेरा राज आओ" दा मतलबा तेरी मर्जी जमीन ते हो जा, जिज्यां सुर्ग च ऐ

(मत्ती 6:10 ऐ)" दी व्याख्या इस चाल्ली कीती जानी चाहिदी:

→ प्रभु ('ādōnāy) इश्वर (y'hōvā) पापी गी अपनी कन्न थमां बाहर निकलने दा कारण बनदा ऐ तां जे...

आहनोरब दालोक इस्राएल (रसा ७:२३ ऐ) इस्राएल दी पवित्र भूमि च (इज 37:12 ऐ), बनाने दे चक्कर च

503 वीडियो 14. "पश्चाताप, बपतिस्मा ते पवित्र आत्मा"

www.therhemaofthelord.com/पश्चाताप-बपतिस्मा/14-पश्चाताप-बपतिस्मा-पवित्र-आत्मा/.

504 वीडियो 23. "रोटी, मन्ना, & छिपे दा मन्ना"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-अनुग्रह दे तहत-आत्मा दे अनुसार-देवताएं-चयनित-गवाहें लेई-रेमा/.

505 वीडियो 10. "फसह दी पर्व" कोला कोई साल पैहलें।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-दिन-पैहले-फसह-दे-त्योहार/.

506 वीडियो 19. "पृथ्वी & जमीन" www.therhemaofthelord.com/course1/पृथ्वी-जमीन/.

उन्हें **पैले फल** पर **एच** आ रहा है (१ कुरिन्थियों १५:२३).⁵⁰⁷ साडा प्रभु ते ओस दा मसीह बहाल करदा ऐ
7वीं तुरही (प्रकासित 11:15 ऐ).

(ओह अपने पिता गी जमीन उप्पर नेई सददे कीजे मसीह दे पैले फल दा पिता अंदर ऐ
सुग, मैट २३:९ ऐ).

➤ **अब, बाकी समझोसुर्गा च अपने पिता गी यीशु दी प्रार्थना**

- परमातमा दे लोगो रखण वाले चले, परमातमा दा रेमा दित्ता जांदा है

जहन्ना 17:5 ऐते हुन हे पिता जी, **महिमामंडन करो** तू में (यीशु) महिमा दे नाल अपने आप नाल
जेड़ा संसार दे होने कोला पैले तेरे कन्ने हा।

जहन्ना 17:6 ऐमें प्रगट कीता **ऐतेरा नाम** मनुखें गी ^{¶444} (चले गी, ऐजॉन 16:29 ऐ)

जेड़ा तू मिगी संसार च देई दित्ता ऐ: तेरे गै हे, ते तू उनेंगी मिगी देई दित्ता;

ते तेरे वचन दा पालन कित्ता (**लोगो दा**).^{¶3056}

जहन्ना 17:7 ऐहुन उनेंगी एह पता लगी गया के जे किश तू मिगी दित्ता ऐ, ओह सारे तेरे थवां गै हना।

जहन्ना 17:8 ऐकी वे में उन्हें गी वचन देई दित्ता ऐ (**रेमा दा**)^{¶4487} जेड़ा तू मिगी दित्ता ऐ;

ते उनेंगी उसी ग्रहण करी लेता ऐ, ते ए गल्ल पक्की जानदी ऐमें **तेरे कोलों निकल आया**, ऐ

ते उनेंगी बी **ऐमान लिया** ओह तूँ मिगी भेजेया हा।

जहन्ना 17:9 मैं उंदे आस्ते प्रार्थना करदा हां:

मैं संसार आस्ते नेई, लेकन उन लेई प्रार्थना करना जेड़े तू मिगी दित्ता ऐ; की वे ओह तेरे गै ना

जॉन 17:10 दाते मेरे सारे तेरे ते तेरे मेरे न; तेमें **महिमा च हा**^{¶1722} उनें.

- पवित्र पिता, पवित्र पुत्र इक

जहन्ना 17:11 ऐते हुन अऊं संसारे च नेई हन, लेकन एह संसार च गै हना।

ते में तेरे कोल आ जांदा हां। **पवित्र पिता जी**, अपने नां दे जरिए उनें गी रखो, जिनेंगी तेरे कोल ऐ

दे दिया, तां जे ओह होन **इक**, जिवें असीं हां।

जहन्ना 17:12 ऐजदुं मैं संसार च उंदे कन् ने हा, ते तेरे नां कन् ने उनेंगी रखेया।

जेड़े तू मिगी दित्ते हे, उनेंगी मैं रखेया, ऐ

ते उंदे चा कोई बी नेई खोई गेदा, सिवाय नाश दा पुत्तर; तां जे शास्त्र पूरा होई जा।

- पवित्र पिता, पवित्र पुत्र, ते पवित्र पुत्र इक न

जॉन 17:13 ऐते हुन मैं तेरे कोल आना; ते ए गल्लां में संसार च बोलना ऐं

तां जे उंदे च मेरी खुशी पूरी होई जा।

जहन्ना 17:14 ऐमें उन्हें तेरा वचन दे दिया (**लोगो दा**),^{¶3056} ते संसार ने उंदे कन्ने नफरत कित्ती ऐ।

कीजे ओह संसार दे नेई, जिय्यां मैं संसार दा नेई ऐं।

जॉन 17:15 ऐमें नेई मंगना के तू उनेंगी संसार च कड्डी लौ।

लेकन उन्हें बुराई कोला बचाई लौ।

जॉन 17:16 ऐउह संसार दे नहीं हन, जिवें मैं संसार दा नहीं हां।

जॉन 17:17 ऐ **पवित्र करो** उन्हें तेरे दे जरिए **सच्चाई**: तेरा वचन (**लोगो दा**)^{¶3056} **ऐसच्चाई**।

जहन्ना 17:18 ऐजिय्यां तू मिगी संसार च भेजेया ऐ।

इत्थं तकर के में बी उनेंगी भेजे दा ऐ (**प्रेरितें गी**)⁵⁰⁸ दुनियां च.

⁵⁰⁷वही।

⁵⁰⁸वीडियो 40. "4. पेंटेकोस्ट" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-प्रभु-दे-त्वौहार-4-पेंटेकोस्ट/.

[जहन्ना 17:19](#) ऐते उंदे आस्ते मैं अपने आप गी पवित्र करदा हां।
तां जे ओह बी पबित्तर होन (च) [ः३१७२२](#) सच्चाई दा.

[जॉन 17:20](#) दाना ही मैं सिर्फ इन्हां वास्ते प्रार्थना करदा हां,
लेकन उन लोकें आस्ते बी जेड़े अपने वचन दे जरिए मेरे उप्पर विश्वास करंगन ([लोगो दा](#)); [ः३३०५६](#) ऐ

[जहन्ना 17:21](#) ऐतां जे ओह सारे गै होन [इक](#); जिवें तू [बापु](#), कला [मेरे च](#), तेमैं [तेरे विच](#), ऐ
तां जे ओह बी होन [इकसाडे विच](#): तां जे संसार [मन्नो ओहतू भेज दिया है मुझे](#).

[जॉन 17:22](#) ऐते [महिमा दा](#) जो तू मिगी देई ओड़ेयामैं [उन्हें दे दिया](#);
तां जे ओह होई सकन [इक](#), उवें ही जिवें असीं हां [इक](#): 1।

[जॉन 17:23](#) ऐ [मैं उंदे च](#), तेतू [मेरे च](#), ओह [ओहहोई सकदा ऐबनाए दा पूरण चइक](#);
ते तां जे दुनियां गी [जानो ओहतू मिगी भेजेया ऐ](#), ऐ
ते जल्दबाजी [चप्यार कीता](#) उनें, जिवें तेरे कोल है [प्यार कीता](#) में.

[जॉन 17:24](#) ऐ [बापु](#), मैं चाहन्ना के ओह बी, जिन्हें गी तू मिगी दिता ऐ, उर्थें गै मेरे कन्ने होन;
तां जे ओह मेरे गी दिक् खी सकन [महिमा](#), जो तू मिगी दिता ऐ;
[लेईतू मेरे कन्ने प्यार किता दुनिया दी नीह होने कोला पैहे](#).

[जॉन 17:25](#) ऐ [ओधर्मी पिता जी](#), संसार ने तुगी नेई जानया।
लेकन मैं तुगी जानना ऐ, ते ए जानदे न के तू मिगी भेजेया ऐ।

[जॉन 17:26](#) ऐते मैं उन्हें गी दस् सेया [ऐतेरा नाम](#), ते इस गी घोशित करग:
[ओहप्यार दा](#) जिसदे कन्ने तेरे कोल ऐ [प्यार कीता](#) में हो सकदा ऐ के उंदे च होन, ते मैं उंदे च।

➔ [पिता जी स्वर्ग चवन जाणा पिता जी रखे वालों को ओहदा लोगो दा](#), ऐ
[किस कोरब दानाम प्रगट हो जावेगा](#).

- नाम दा प्रयोग [“प्रभु परमात्मा”](#)

➤ साडा इस नाम दा प्रयोग [“प्रभु परमात्मा”](#) इक ऐलान ऐ जे अस ([परमातमा दे पुत्र](#)) दे प्यार विच (मैं) हन [पिता परमात्मा](#) (राहें) [प्रभु यीशु मसीह गी](#): 1।

[“साडा परमातमा यहोवा”](#)

असी, इक राष्ट्र दे तौर उप्पर [रब दालोक](#), ऐ
हिरख [ईश्वर](#) सारे दिल, सारी आत्मा, सारे मन ते सारी ताकत कन्ने,
की जे [ईश्वर](#) पहले साडे नाल प्यार किता ([१जोह ४:१९](#)) ते अपने इकलौते पुत्र गी देई दिता।
तां जे अस नाश नेई होचे, पर नाश होई जाचे [अनन्त जीवन](#) दे राहें [प्रभु यीशु मसीह](#) गी।
([पैहली हकम, 12:30](#) मार्च गी)

असी जानदे हां कि [परमातमा दा पुत्र](#) आया है ते सानु समझ देई है,
तां असीं (अब) जानदे हां [ईश्वर](#) जो सच्चा ऐ; ते अस हां [च\(ईश्वर\)](#) जो सच्चा ऐ, [चउसी दा पुत्र यीशु मसीह](#), ऐ
[सच्चा परमातमा ते अनन्त जीवन](#) ([१जोह ५:२०](#)).

कीजे सुअगें च पिता ने असें गी पबित्तर किता [सच्चाई में](#) दे जरिए उंदे [लोगो](#) जो उहदे विच सीबेटा ([जहन्ना 17:19](#) ऐ), ऐ
अस, जिनें गी परमेसरे अपने पुत्र गी दिता ऐ, उर्थें गै पुत्र दे कन् ने बी होई सकने आं, जित् थें ओह ऐ,
तां जे अस पुत्र दी महिमा गी दिखगे जेहड़ी परमात्मा उसी दिती ऐ;
[लेईईश्वर दुनिया दी सृष्टि तों पहलां ही उस नाल प्यार कीता](#) ([जॉन 17:24](#) ऐ).

की जेलोंगों दा शरीर बनीं गे ते साढ़े च रौहना लगी पेया।

अस उदी महिमा गी, पिता दे इकलौते पुत्र दी महिमा गी, अनुग्रह ते सच्चाई कन्ने भरोचे दे (जह्न 1:14 ऐ).

जेडी महिमा परमेसरे अपने पुत्र गी दिती ही, ओह असेंगी बी दिती गई ही परमात्मा दा पुत्रकु'न द्वारा साडे कोल भेजया गयाईश्वर, ऐ तां जे अस हांइक च ईश्वर, इत्थं तगर जे परमात्मा दा पुत्रतेईश्वरनइक (जहन्ना 17:21 ऐ).

कीजे परमात्मा दा पुत्र ऐचसानु ते परमात्माचउदे पुत्र, अस हिरखसाढे पड़ोसी गी अपने आपै चजिय्यां परमात्मा दे पुत्र;

ते अस बनाई गेदे आ पूरणचइक.

(दूआ हुकम, माचं 12:31 दी)

इत्थे ही साडा हिरख बनाए दा पूरण, तां जे न्याय दे दिन अस हिम्मत बनाई सकचे।

कीजे जिय् यां ओह ऐ, उंवां गै अस बी इस संसार च (१जोह ४:१७).

असी धन्यवाद देंदे हांईश्वर, जो साडे जरिए जीत देंदा है प्रभु यीशु मसीह! (१कुरिन्थियों १५:५७ ऐ)

➤ भजन संहिता ९१:२-१४ बी कीजे तुसैं मेरी इच्छा कीती ऐ (प्रभु गी, यहोवा), ऐमें तुगी छुड़ा देगा.

कमोंकक तुभने भेया नाभ (प्रभु परमात्मा), ऐमें तुसैं गी उच्चे उप्पर सेट करगा.


The rhema is for God's chosen witnesses

Mat. 16:15 He (Jesus) saith unto them (disciples), But whom say ye that I (the Son of man) am?
 Mat. 16:16 And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
 Mat. 16:17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.
 → What Jesus meant is that, confessing Jesus is the Christ, the Son of the living God is not revealed by the word, the logos (or flesh and blood) but by the rhema through the Holy Spirit as a result of worthy partaking of the Lord's table.
 → This is done by eating the body of the Lord Jesus (the Holy Spirit not yet been fallen, Act 8:16), and drinking (His spirit, 1Co. 10:4) the cup of the Lord for the new testament of the word (the rhema) in His blood.

2Co. 4:10 Always bearing about in the body the tribulation of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body.
 → The only way to remember what the Lord has taught us is to worthily partaking at the Lord's table, discerning the Lord's body.
 → By diligently doing so, grace and peace will be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord (2Pe 1:2), until you become eyewitnesses of the power and coming of our Lord Jesus Christ (2Pe 1:16).

The rhema is for God's chosen witnesses
 Act. 10:34 Then Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons:
 Act. 10:35 But in every nation (Gentiles) who feareth him, and worketh righteousness, he is accepted with him.
 Act. 10:36 I am now sending thee back, and with thee I have nothing, which God sent unto the children (the sons) of Israel, preaching peace by Jesus Christ: (he is Lord of all)
 Act. 10:37 That word (rhema) I say ye know which was published throughout all Judaea, and began from Galilee, after the baptism which John preached:
 Act. 10:38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good, and healing all that were oppressed of the devil: for God was with him.
 Act. 10:40 Him God raised up the third day, and shewed him openly:
 Act. 10:41 Not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead:
 Act. 10:42 And he commanded us to preach unto the people, and to testify, that it is he which was ordained of God to be the Judge of quick and dead.
 Act. 10:43 To him give all the prophets witness, that through his name whatsoever believeth in him shall receive remission of sins.
 Act. 10:44 While Peter yet spake these words (rhema), the Holy Ghost fell on all them which heard the word (logos).
 → God sent the logos to the sons of Israel to teach that Jesus Christ is Lord of all. The rhema is given to God's chosen witnesses who ate and drank with Jesus Christ of Nazareth after He rose from the dead. Whosoever believes in His name will receive remission of sins, and the gift of the Holy Spirit will fall upon all who hear it, including the Gentiles.

Gentiles also received the gift of the Holy Spirit
 Act. 10:45 And they of the circumcision (in flesh, the Jews) which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost.
 Act. 10:46 For they heard them speak with tongues, and magnify God. Then answered Peter,
 Act. 10:47 Can any man forbid water, that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we?
 → No one can forbid the baptism of water (logos) because the uncircumcised Gentiles who were baptized also received the Holy Spirit as apostles.
 → (Act. 10:48) And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days.)



(प्रकाशित 11:17 ऐ) प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान राज करता ऐ

प्रकाशित 11:17 ऐकहते हुए, हम तेरा धन्ववाद करते हैं, हे प्रभु (क्योरिओस)^{१२९६२} ईश्वर^{२३१६} सर्वशक्तिमान जी, ऐ^{३८४१} ऐ
जो (कौन)^{३५८८} कला, ते बर्बादी, ते आने आली कला;
क्योंकि तू अपने कोल लेई लेया ऐ (लेया)^{२९८३} तेरी बड़ी शक्ति, ^{१४११} ते राज किता ऐ।^{९३६}

प्रकाशित 11:17 ऐकहते हुए, “असौं तुहाडा शुक्रिया अदा करते हैं, ओ प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान, कुन ऐ, ते कौन है, ते कौन आना है, ऐ
कीजे तू अपनी बड़ी शक्ति गी लेईये राज करना शुरू करी ओड़ेया ऐ”

→ नाम, “प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान,” मतलब ऐ

“ईश्वर दे रहें प्रभु ते मुक्तिदाता यीशु मसीह जा ओह मेमना अपनी बड़ी शक्ति गी लेई लेआ ऐ
ते राज करना शुरू कर दित्त।”^{५१०}

• आखरी (७वीं) तुरही

१ कुरिन्थियों १५:५१ ऐदिखो, मैं तुसें गी इक रहस्य दस्सना ऐ; अस सारे नेई सोगे, पर अस सारे बदली जागे,

१ कुरिन्थियों १५:५२ इक पल च, इक अक्खी दी झिलमिलाहट च, एट आखरी तुरही: की वे तुरही बाजग,

ते मरे दे जिंदा हो जांगन अविनाशी, ते अस बदली जागे।

१ कुरिन्थियों १५:५३ कीजे इस भ्रष्टाचार गी जरूर लाना पौग अभ्रष्टाचार, ते इस नश्वर गी पहनना गै पौग अमरता।

१ कुरिन्थियों १५:५४ तो जदों ए नाशवान पहनना होवेगा अभ्रष्टाचार, ऐ

ते ए नश्वर धारण करी लैग अमरता, ऐ

फिरी ए गल्ल साकार होई जाग जेड़ी लिखी दी ऐ, “मौत च निगल गई ऐ।” जीत।

→ की आवाज पर आखरी (७वीं) ऐ तुरही बजाना, भ्रष्ट शरीर अविनाशी धारण कर देंगे तां जे...

नश्वर अमरता गी धारण करेगा। मरे दे जिंदा हो जांगन अविनाशी, ते अस च बदली जागे
इक आंख दी झिलमिलाहटा

- लेकिन मनुख दे पुत्र दे आने दा ओह दिन ते घड़ी कोई नेई जानदा, ते इसदे सुर्गदूत बी नेई जानदे
स्वर्ग, पर सिर्फ उदे पिता। इस आस् ते जागत रोहओ, कीजे तूसे नेई जानदे के तुं दे कौन घड़ी ऐ नाथ
आएगा।

(प्रकाशित 11:18 ऐ) प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान (परमात्मा) दा गुस्सा & इनाम

प्रकाशित 11:18 ऐते जातियां (गैर-यहूदी जातियां)^{१४८४} गुस्से च आए ते तेरा गुस्सा^{३७०९} आ गया है, ते मरे दे समें,
तां जे उंदे उप्पर न्याय कीता जा।^{२९१९} ते अपने दास नबी गी इनाम देना।
ते संत (पवित्र संत) गी^{४०} ते जेड़े तेरे नां कोला डरदे न, छोटे ते बड़े;
ते धरती (जमीन) गी नाश करने आलें गी नष्ट करी ओड़ना।^{१०९३}

प्रकाशित 11:18 ऐते गैर-यहूदी जाति गुस्से च आए ते तेरे क्रोध आ गया है, ऐ

ते मरे दे लोकें दा न्याय होने दा समां;

और कि तुसें गी करना चाहिदा इनाम थुआदान नौकर नबीएं गी ते पवित्र संत गी, ऐ

ते जेड़े तेरे नां कोला डरदे न, छोटे ते बड़े,

और जमीन को नष्ट कयने वारों को नष्ट कयना चादहमे।

→ गैर-यहूदी राष्ट्र गुस्से च न जिय्यां सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा दा क्रोध^{५११} आ गया है, और
उंदे (मरे दे) दा न्याय कीता जागा

- पर सेवक नबी ते पवित्र संत गी इनाम मिलेगा

^{५१०} “(प्रकाशितवाक्य 12:10-11 ऐ) उद्धार, शक्ति, साढ़े परमात्मा दा राज, परमात्मा दे मसीह दा अधिकार आया ऐ।”

^{५११} उंदे गुस्से दे बारे च होर मती जानकारी आसतै दिखो “(प्रकाशितवाक्य 14:20) परमात्मा दे गुस्से दा बड़डा दाख दा बूट्टा” ते “(प्रकाशित 15:1 ऐ) ओह
परमात्मा दा क्रोध (7 आखरी विपत्तियां)।”

- ऐपरमातमा दा गुस्सा (प्रभु दा बड़ा ते भयानक दिन)

The great and dreadful day of the LORD (Mal 4:5)		
<p>The wrath of the Lamb (Rev 6:17)</p>	<p>The wrath of the Lord God Almighty (Rev 11:18)</p>	<p>The wrath of God (Rev 15-16)</p>
<p>The LORD of hosts promised to send Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD (Mal 4:5), which is the great day of the wrath of the Lamb</p>	<p>The Gentile nations are angry as the wrath of God has come, and they (the dead) will be judged. But the servants the prophets and the holy saints will be rewarded</p>	<p>The 1st rapture harvest for the 144,000 (Rev 14:1-5) and the 2nd rapture harvest for the Holy saints (Rev 14:14-16) are completed before The 7 vials of the wrath of God was poured out (Rev 16)</p>

- 3 किस्म दे इनाम दे

- मत्ती 10:41** ऐजेड़ा ग्रहण करदा ऐ 1 इक नबी⁴³⁹⁶ इक नबी दे नां ते
इक नबी दा इनाम (मजदूरी) मिलग,³⁴⁰⁸
ते जेड़ा 2 धर्मी मनुख गी ग्रहण करदा ऐ¹³⁴² धर्मी मनुख दे नां ते¹³⁴²
धर्मी मनुख दा मिलग¹³⁴² इनाम (मजदूरी) देना³⁴⁰⁸
मत्ती 10:42 ऐ ते जेका कोई इन्हें निकके बच्चें च इक गी ठंडे पानी दा प्याला देग
छड़ा 3 इक चले दे नां ते, मैं तुसें गी सच्च आखना ऐ, ओह अपने इनाम गी किसे बी तरीके कन्ने नेई खोष्टा।

➤ इनाम दा केह मतलब है ते तूहानं किसे मिलदा है?

- **बपतिस्मा**(βαπτίζω, बपतिस्मा)⁹⁰⁷ मतलब डुबकी या डुबो के साफ करना, धोना, साफ करना
पानी दे नाल, अपने आप गी धोना, नहाना। परमेसरे दा राज च नेई ऐलोगो दा छड़ा, पर में **rhēma** आहला
ईश्वर, जो शक्ति च & पवित्र आत्मा च ऐ (1थ 1:5 ऐ).
→ इनाम दे बपतिस्मा लैने दे बाद औंदा ऐ, ते बपतिस्मा दा मकसद साढ़े शरीर गी हासल करना ऐ
पवित्र कीता और में साफ कर दिता **रेमा दा** (इफिसियों 5:26 ऐ).

प्रेरितों दे काम १:८ लेकन तोहे गी शक्ति मिलनी ऐ¹⁴¹¹ इंसदे बाद पवित्र आत्मा तुदे उप्पर आई गेदा ऐ।
ते तुस यरूशलेम ते सारे यहूदिया ते सामरिया च मेरे गवाह बनगे।

ते तक (जद तक)²¹⁹³ अत्यंत (अंतिम) **जी 2078** ऐ धरती दा हिस्सा **जी 1093** ऐ)

1थ 1:5 ऐ की वे साडा सुसमाचार तुदे कोल वचन (लोगोस) च नेई आया³⁰⁵⁶ सिर्फ, पर सत्ता च बी,
ते पवित्र आत्मा च।

→ **मत्ती २८:१९** ऐ इसे आस्ते तुस जाओ, ते सारे जातियें गी सिखाओ।

बपतिस्मा देना उन्हें दे नाम पर **पिता जी**, ते दा **पुत्र गी**, ते दा **पवित्र आत्मा गी**.

➤ होन दा की मतलब है **इनाम दिता** के नाम पर 1 इक नबी, ऐ 2 इक धर्मी, ते 3 इक चेला?

(मत्ती 10:42 ऐ)

1 में इक नबी दा नां

मत्ती 21:9 ऐ ते अगो चली ते पिच्छे चली दी भीड़ चिल्लादे होई आखदी रेई।

होसाना तो **दाऊद दा पुत्र: 1।**

धन्य ऐ ओह जो दे नां कन्ने आवै **प्रभु** (क्योरिओस),²⁹⁶² होसन्ना उच्चतम में।

मत्ती 21:10 ऐ जदु ओह यरूशलेम च आया, तां सारे शहर चकित होई गे, "ए कुन ऐ?"

मत्ती 21:11 ऐ ते भीड़ (लोग)³⁷⁹³ आख्या, एह ऐ **यीशुनबी ने दी**⁴³⁹⁶ **नासरत दागलील** दा.

→ जदुं यीशु यरूशलेम च दाखल होने आस् ते जा करदे हे, तां लोकें उसी दाऊद दा पुत्र (...)

माहनु, जो दे नाम ते आन्दा है प्रभू (क्योरिओस).^{#2962} जदुं ओह अंदर आया यरूशलेम, ऐ लोकें दिक्खे आ यीशु जियांनबी ने दी नासरत दागलील दा.

• चमसीह⁵¹²

- इस्राएल दे मर्दे ने जीवन दे राजकुमार गी मारी ओडेया, पर अस किस चाल्ली दे गवाह आंईश्वरबधाया गेदा यीशु मसीह आहला नासरत मरे दे विचों. जिवें असीं अंदर हांमसीह, असी अब नहीं जानदे मसीह शरीर चा की जेईश्वर बना दिया है मसीह सादे आस् ते पाप होने आस् ते अस बनाई गेदे आं परमात्मा दी धार्मिकता उस चा।

- जानना सब चीजां दे हनईश्वर, तेईश्वरमें था मसीह, असी मेल मिलाप करदे हांईश्वर दे राहें यीशु मसीह, ते लोगो दासुलह दासाडे नाल प्रतिबद्ध हो चुका है। पिता जी अपने आप विच जीवन है, ते उसी देई दित्ता पुत्र गी अपने आप च जीवन होने ते अस दे पुत्र बनी गेईश्वर आत्मा दी अगुवाई च परमात्मा दा. मसीह साडी जिंदगी है, इस आस् ते अस बी उंदे कन् ने महिमा च प्रगट होगे, जदुं ओह प्रगट होगा.⁵¹³

• अच्छी गल्ल⁵¹⁴

- क्या कोई भला हो सकदा ऐ 18 चीजनासरत चों निकल आओ? फिलिप ने उसी आख्या, “आओ”^{#2064} ते वेखो 1492 ऐ (इं१:४६ दा).

- चंगा^{#18} – भलाई दा मतलब परमात्मा गी ऐ 2316 ऐ (“कोई बी नहीं चंगा^{#18} पर इक, यानी, ईश्वर” मार्च 10:18 ऐ)
- आओ^{#2064} – आओ मतलब “दिक्खना”
- दिक्खो^{#1492} – दे खें मतलब आंखें कन्ने बोध करना।

→ इस आस् ते “क्या नासरत च कोई भला गल् ल निकली सकदी ऐ?” ऐ निम्नलिखित दे रूप च व्याख्या कीती गई ऐ:

“सकना ऐनीथिंग जेड़ा परमात्मा दा ऐ, नासरत चों निकली जाओ ते अक्खों कन्ने दिक्खे आ जा ?”

- नतनएल ने यीशु गी आख्या, “रब्बी, जी 4461 ऐ तू परमात्मा दा पुत्र ऐ; तू इस्राएल दा राजा ऐ.” (इं१:४९ दा)

- यीशु ने उसी आख्या, “कीजे मैं तुगी आख्या हा, मैं तुगी अंजीर दे पेड़ दे थल्ले दिक्खे आ हा, तां के तू विश्वास ऐ? तू इन्हें कोलां बड्डियां चीजां दिखगो। मैं तुसें गी सच्च आखना ऐं। इसदे बाद तूस दिखगे 3700 स्वर्ग खुला, ते परमात्मा दे सर्गदूत चढ़दे ते उतरदे मनुख दा पुत्र” (इं१ 1:50 दी-51 ऐ)।

(जदुं मरियम मगदलीनी, ते याकूब दी मां मरियम, ते सलोमी यीशु गी दिक् खीए गे

उदे सूली उप्पर चढ़ाने, जिंदे च यीशु कबर च नेई हा (मार्च 16:1 ऐ): 1।

दिखो, जित् थें उनेंगी उसी सुट्टी दित्ता हा (मार्च 16:6 ऐ)।

टीओह सर्ग दा राज

† यीशु चेलें गी आखेआ के गैर-यहूदियें दे रस्ते च नेई जाओ, ते सामरी दे किसे बी शैहरे च नेई जाओ (किजोकी उस शैहरे दे मते सारे सामरी उंदे उप् पर विश्वास करदे हे)

कुएं दे कंडे दी जनानी दी गवाही आली गल्ल ऐ, “उसने मिगी जे किश बी कित्ता हा, उंमें मिगी दस् सेया”।

मत्ती 10:5 ऐ, ऐ इं४:३९-४२ ते।

- ऐइसदे बजाए यीशु ने चेलें गी ग् लाया के इसराइल दे घरेआले दे गुआची गेदी भेडें दे कश जाओ

⁵¹²वीडियो 37. “खून दा खेत (एक कब्जा)”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-खून-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हैं/.

⁵¹³वीडियो 46. “जीवन दा जी उठना” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-जीवन-दा-पुनरुत्थान/.

⁵¹⁴वीडियो 15. “नासरत दा यीशु & नासरत दा यीशु मसीह” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/15/ ऐ.

([मती 10:6](#) ऐ), [दूबनापापी](#) जिन्हें जरूरत [ऐपश्चाताप करना](#) ([लुका १५:७](#) ऐ) ते राज दा प्रचार करदे [सुरग](#).⁵¹⁵

- [स्वर्ग दा राजहल्यै](#) च ऐमतलब अंधें गी अपनी नजर मिलने आली ऐ
मनुख दे पुत्र ([लोगो दा](#)), ते जेड़ा उदे उपर विश्वास करग, उसी अनन्त जीवन मिलग
(या उदे च लोगो रेमा च बदली जेदे न) ते उनेगी आखरी दिन जिंदा करी दिता जाग,
[इं6:40](#) दे).⁵¹⁶

• [येमंगना यीशु नासरत](#) दाजो था

- ऐसूली च चढ़ाया, जी उठया, इत्थे नेई:

→ दिखो उस जगह गी जित् थें उनेगी उसी सुट्टी दिता हा ([मार्च 16:6](#) ऐ)

→ दिखना चांदे हो तो [यीशु नासरत दा](#) (यूसुफ दा पुत्र मूसा ने व्यवस्था ते द...)

[नबी](#), [ऐजह 1:45](#) ऐ), उदे बारे च पढ़ो जेका पुराने नियम च लिखे दा ऐ ते उसी उर्थें गै पाओ।

† [यीशु जियांनबी ने दीगलील](#) दे नासरत दाजरिया [यीशु नासरत](#) दादाऊद दा पुत्र ऐ, ऐ [मनुख दा पुत्र](#).

→ इस चाल्ली इक नबी दे नां च मतलब ऐ “पुत्र दे नां कनै” ([मती 10:41](#) ऐ, [ऐमती २८:१९](#) ऐ).

† [तुसैं गी मिलदा ऐ मनुख दा पुत्र \(लोगो दा\)](#) दे नां ते बपतिस्मा दे जरिए [पुत्र गी](#). यूहन्ना ने सचमुच पश्चाताप दे बपतिस्मा कन्ने बपतिस्मा दिता
([प्रेरितों दे काम 19:4](#)), तां जेड़े यूहन्ना दा बपतिस्मा लेंदे हे, उनेगी सिर्फ [बपतिस्मा लेता](#) पछतावे दे बपतिस्मा दे नाल ते इस तर्हा उन्हां ने पवित्र
आत्मा दे बारे विच नहीं सुणया।

- इस आस् ते तुसैंगी उस उप पर विश्वास करना चाईदा जेका यूहन् ना दे बा'द आया हा, यानी [परमसीह यीशु](#)
([प्रेरितों दे काम 19:4](#)) ते बपतिस्मा लैओ [प्रभु यीशु गी](#).⁵¹⁷

→ पश्चाताप दे जरिए पुत्र दे नां च बपतिस्मा लैने दे जरिए तुसैंगी मिलदा ऐ [लोगो दा](#).

2 [मैंन](#) इक धर्मी दा नाम

- [यीशु जियांनबी ने दीगलील](#) दे नासरत दामतलब कि [यीशु नासरत](#) दा दाऊद दा पुत्र ऐया मनुख दा पुत्रा [परमसीह](#) जेड़ा दाऊद दे वंश च आया ऐ, दे नाम ते आंदी है [प्रभु](#)
([क्योरिओस](#)),
[परमात्मा दा पुत्र](#).

[जम्मूसस मसीह दा](#) धर्मी है ^{#1342} ऐ ([१योह २:१](#))

→ इस चाल्ली, “एक धर्मी दे नां कनै” दा मतलब ऐ “दे नां कनै [यीशु मसीह](#)” ([मती 10:41](#) ऐ, [ऐमती २८:१९](#) ऐ).

पश्चाताप दे बपतिस्मा दे नाल बपतिस्मा लैण दे बाद, विश्वास करो [मसीह यीशु](#) ते बपतिस्मा लैओ
नाम दा [प्रभु यीशु गी](#). बपतिस्मा दे जरिए [यीशु मसीह](#), तुस पछतावा किता ते बपतिस्मा लेता
की मौत दा [यीशु मसीह](#), मतलब तुं दे पापें गी बपतिस्मा दे जरिए माफ कीता जंदा ऐ [यीशु](#)
[मसीह](#). इस तर्हा पश्चाताप ते बपतिस्मा दे नां ते [यीशु मसीह](#) मतलब जानना (नहीं भुलना) अपने
पाप माफ हो जां दे ने।

→ इस तर्हा तुसीं पां दे हो [पवित्र आत्मा दा वरदान](#).⁵¹⁸

⁵¹⁵वीडियो 35. “(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार दे चेलो”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शिष्य-शक्ति-अधिकार-के-साथ-

⁵¹⁶वीडियो 25. “एक कठिन कहावत (The logos) & परमात्मा दे कम्मों”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-एक-कठिन-कहने-दे-लोगोस-देव-दे-कम्म/

⁵¹⁷संदर्भ देना प्रकाशित 2:18 ऐ.

⁵¹⁸संदर्भ देना प्रकाशित वाक्य २:५-६, वीडियो 12. “1 . फसह दा दिन | 2 . बेखमीरी रोटी।” www.therhemaofthelord.com/अनश्रेणीबद्ध/12/ऐ.

- **पवित्र आत्मा** दा दे नां कन्ने बपतिस्मा लैने आलें उप्पर आई सकदा ऐप्रभु यीशु गीते लोगो वी होना उसदे बाद उनेंगी आत् मक बरदान मिलग जेहू डे उनेंगी बोलने च समर्थ बनाडन **जीभेंते भविष्यवाणी करना** दे दान दे जरिए **पवित्र आत्मा गी** (२पतरस ३:२, ऐमत्ती २४:१ ऐ, ऐ एकट 19 ऐ: 1) ४-६ दा, ऐ **१ कुरिन्थियों १२:१**).⁵¹⁹

→ पवित्र आत्मा दे नां दे बपतिस्मा दे जरिए तुसें गी मिलदा ऐ **पवित्र आत्मा दा वरदान** के रूप में ए यीशु मसीह गी धर्मी गी ग्रहण करने दा इनामा।

भविष्यवाणी & पवित्र आत्मा

† **भविष्यवाणी** दीपवित्र आत्मा दे द्वारा पवित्र मनुखें दे जरिए पैदा कित्ता गेदा हा ^{ती444} परमातमा दा, मनुख दी मर्जी नाल नहीं। इस आस्ते पैहलें एह जानना के पवित्र शास्त्र तर दी कोई बी भविष्यवाणी कुसे बी निजी व्याख्या दी नेई ऐ (२पतरस १:२०-२१). ते जदुं अस उंदे कन् ने हे तां प्रेरितें तुसें गी एह भविष्यवाणी कित्ती **प्रभु यीशु मसीह** गीपवित्र फ़ाइ सिख्योन च उत्तम महिमा थवां सुर्ग थवां इक आवाज़ आई, “एह मेरा लाडला पुत्र ऐ, जिदे उप् पर अऊं खुश ऐं”

- ऐउंदी महिमा दे चश्मदीद गवाह होने दे नाते प्रेरितें तुसें गी दस् सेया **ऐसत्ता दीते आने दा साढ़े प्रभु यीशु मसीह** (२पतरस १:१६). इस चाल्ली साढ़े कोल भविष्यवाणी दा इक होर स्थिर लोगो ऐ (जिस उप्पर तुस ध्यान देना ठीक करदे ओ) जिय्यां इक मोमबत्ती, जेड़ी दिन तक न्हरे दी जगह च चमकदी ऐ भोर रात दे न्हरे गी तोड़दा ऐ (**मेमने दा**)⁵²⁰, तेपरमातमा दाप्रकाश पैदा होकर प्रकाश दे तरे दिलों में और याद रखेंगेरेमा दा (२ पतरस १:१९ ऐ).⁵²¹

3 इक चले दे नाम ते

मत्ती 10:42 ऐते जेका कोई इन्हें निकके बच्चें च इक गी इक प्याला पीना देग **ठंडापानी** (मार्च 9:41 दी)

सिर्फ इक चले दे नां ते, ऐ ^{ती3101} में तुसें गी सच्च आखना ऐं के ओह अपने इनाम गी किश बी नेई खोह्य (उजरत). ^{ती3408}

- शब्द “**ठंडा**” इस श्लोक थमां उस इनाम कन्ने जुड़े दा ऐ जेहड़ा “अच्छी चीजें” कन्ने जुड़े दा ऐ **सु १:४६ दा**). फिर **मैप्रकासित 3:15 ऐ**, परमेसरे दे सुअर्गदूत ने गू लाया के एह “अच्छी गल् लां” “अच्छे कम् में” कन् ने जुड़ी दी ऐ, जेके लौदीकिया दे लोकें गी करना चाईदा हा। ‘अच्छे कम्में’ दी परिभाषा इस च पाई जंदी ऐ **मत्ती 5:16 ऐ**, “तुं दी उजाला मनुखें दे सामने इन्ना चमकन, तां जे ओह तुं दे भलाई कम्में गी दिक्खी लैन ते तुं दी महिमा करन **बापूजो हैस्वर्ग च.**”

→ **भला कम्भ ओह गौरवशाली गल् लां हन, जेकी उन लोकें गी करना ऐ, जिनें गी यीशु दी रोशनी ऐ लोकें दे सामने चमको, साढ़े सुर्गीय पिता दी महिमा करने आस्तै.**

- रही बात शब्द दी तां “**तत्ता**”, इसदा मूल अर्थ इस शब्द थमां निकलदा ऐ, “उग्र” च इस्तेमाल कीता गेदा ऐ **प्रेरितों दे काम १८:२५**, जिस च वर्णन कीता गेदा ऐ जे किस चाल्ली माहू दे रस्ते च निर्देश दिते जाने पर आत्मा च उग्र होई जंदा ऐ **प्रभु**. यहां, राह दा **प्रभु** “अच्छा रस्ता” दे रूप च परिभाषित कीता गेदा ऐ। दे मुताबिक **यिर्मयाह 6:16 ऐ**, एह ओह रस्ता ऐ जेहड़ा विश्वासियें दी आत्माएं गी बाकी गी दूढने लेई लेई जंदा ऐ। इसदे अलावा, **चरोम 12:11 ऐ**, प्रेरित पौलुस असें गी सलाह दिंदा ऐ के अस अपनी सेवा च आत्मा च गंभीर बनन **प्रभु**.

→ इस चाल्ली शब्द “**तत्ता**” उस व्यक्ति गी दस्सेआ जंदा ऐ जेहड़ा दे रस्ते पर चलदा हा **प्रभु** और में उग्र हो गया **रुह**. जिन्हां दे राह विच नहीं चलया **प्रभु** कदें बी च उग्र नेई होई सकदा **भावना गी**, ऐ ते उंदे **आत्माओं** को कदें बी आराम नेई मिलगई **धर**, कु'न ऐ **भावना गी**.

→ होआ करदा **ठंडा** साढ़ी महिमा करने आस्तै दुनिया दा रोशनी होने दा निहितार्थ ऐ **बापूसाढ़े** नेक कम्में दे जरिए,

⁵¹⁹वीडियो 14. “पश्चाताप, बपतिस्मा, ते पवित्र आत्मा”

www.therhemaofthelord.com/पश्चाताप-बपतिस्मा/14-पश्चाताप-बपतिस्मा-पवित्र-आत्मा/.

⁵²⁰संदर्भ देना **प्रकासित 5:6 ऐ**.

⁵²¹वीडियो 44. “शास्त्र दी भविष्यवाणी (2 पतरस 1) 2/21” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-नेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

→ हो आ करदा तत्ता तात्पर्य उन लोकें गी ऐ जेहड़े उग्र भावना आहें न जेहड़े रस्ते च चलदे नप्रभु जिस दुनिया च आराम पाग, उस दुनिया गी जीतने लेईई धर इककला.

- यीशु यहूदियों (शास्त्री ते फरीसियों) गी पाखंडी, नाग ते सांपें दी पीढ़ी आखदा ऐ की जे ओह उमें लोकें दे पुत्र न जिनेंगी नबियें गी मारी दिता हा, पर नबियें दी कब्रें गी बनाया हा ते उंदी कन्न गी सजाया हा धर्मी लोग (मती 23:29 ऐ). यीशु उमेंगी दसदा ऐ के यहूदी यीशु गी नेई दिक् खडन, जदुं तकर ओह नेई ग् लांदे, “धन्य ऐ के ओह धन ऐ, जेका उंदे नां उप् पर औंदा ऐ प्रभु (मती 21:9 ऐ)” जिसदा मतलब ऐ के ओह नेई दिक् खडन प्रभु जदुं तकर ओह स्वीकार नेई करदे प्रभु जिवें उनके मुक्तिदाता ते साढ़े ज्ञान च अनुग्रह च बधोनाथते उद्धारकर्ता यीशु मसीह. पर गैर-यहूदी जातिएं गी इस बीच बचाया जागा⁵²²
- कोई बी पानी दे बपतिस्मा (लोगोस) गी मना नेई करी सकदा कीजे जेके गैर-खतना गैर-यहूदी बपतिस् मा लेंदे हे, उमेंगी बी प्रेरितें दे रूप च पबित्तर आत् मा हासल किता। इस आस् ते, पतरस ने उमें लोकें गी आज्ञा दिता की जेके शरीर च खतना किते गेदे हे, उंदे नां उप् पर बपतिस् मा लेओ प्रभु (प्रेरितों दे काम 10:48).

यीशु सिखाया कि कबूल करना यीशु ऐ मसीह गी, ऐजिंदे परमात्मा दा पुत्र शब्द (लोगोस या मांस ते खून) कन्ने नेई प्रगट होंदा ऐ, बल्के द्वारा रेमा दा पवित्र आत्मा दे जरिए प्रभु दी मेज च योग्यता कन्ने हिस्सा लेंदे होई.

एह प्रभु यीशु दे शरीर गी खाइये कीता जंदा ऐ (पवित्र आत्मा अजें तगर नेई पेई गेदा ऐ प्रेरितों दे काम 8:16), ते पीना (उसदी आत्मा, शुक्रिन्थियों १०:४) प्रभु दा प्याला (वचन दा नवां नियम, रेमा दा) उंदे खून चा।

प्रभु ने साकुं जो सिखाया हे, ओ याद करण दा हेक ही तरीका हे कि प्रभु दे शरीर कूं समझदे हुवे, प्रभु दी मेज ते योग्य रूप नाल हिस्सा धिनणा। लगन कन्ने एह करने कन् ने तुंदे उप् पर अनुग्रह ते शांति होई जाग।

परमात्मा दा ज्ञान ते साढ़े प्रभु यीशु दा (२पतरस १:२), जदू तकर तुस साढ़ी शक्ति ते औने दे चरमदीद गवाह नेई बनी जाओ प्रभु यीशु मसीह (२पतरस १:१६).

प्रभु परमात्मा इसाएल दे 12 गोत्रें च लेवी दे कबीले गी चुनेया ऐ तां जे ओहदः नांड पर सेवा करन प्रभु गी दिन चा। लेवी याजकें ते लेवी दे गोत्रें गी इसाएल कन्ने कोई हिस्सा नेई ऐ ते ना गै विरासत ऐ, कीजे उमेंगी बलिदान खाने दी लोड़ ऐ प्रभु गी द्वारा बनाया गया अग्ग (रेमा दा), ते प्रभु दा बरासत.⁵²³

→ ध्यान रक्खो जे हर कोई नेई जेहड़ा हिस्सा लेंदा ऐ प्रभु दा मेज आत्मक शैं तो आजको आत्मा को नूया कयना चादहमे।

प्रेरितों दे काम १८:२५ आदमी (यहूदी जिसदा नां अपोलोस हा, जेड़ा सिकंदरिया च पैदा होया हा, इक वाक्पटु आदमी हा, ते इक...

शास्त्रें, प्रेरितों दे काम १८:२४) दे रास्ते च हिदायत दिती गई ही प्रभु; ते उग्र होना

भावना च, ओह लगन कन्ने गल्लां बोलदे हे ते सिखादे हे प्रभु, जानदे ही

यहन्ना दा बपतिस्मा.

- दे नाम ते बपतिस्मा दे जरिए बापु (प्रभु साढ़ाई धर) तुसैं गी दा दान मिलग ई धर, ऐ अनन्त जीवन, दे राहें यीशु मसीह साढ़ानाथ (रोम 6:23 ऐ).

→ ई धर ने साडे नाल वादा कीता है अनन्त जीवन, दे राहें यीशु मसीह साढ़ानाथ, जां प्रभु साढ़ाई धर, ऐ⁵²⁴ तो तुसैं गिर जांदे हो पीछे कोई तोहफे च नेई, साढ़े आने दा इंतजार करदे होई प्रभु यीशु मसीह.⁵²⁵

टीओह परमात्मा दा राज

† 12 चेलें गी सारे शैतानें उप्पर, ते बीमारियें गी ठीक करने आस्तै अधिकार ते अधिकार दिता गेआ।

जदुं चले यीशु दे जरिये “भेज् जे गेदे” हन, तां ओह “प्रेरित” बनी जंदे हन लुका 9:10 ऐ

चेलें गी “प्रेरित” (प्रेरित आस् ते जड़ शब्द) दे रूप च संदर्भित करदा ऐ ⁶⁵² स्ट्रॉन्ग दा हैजी 649, ऐ

मतलब “भेजेया”)। प्रेरितें दे तौर उप्पर उमेंगी भेजेआ गेआ (स्ट्रॉन्ग दाजी 649) परमात्मा दे राज दा प्रचार करना, ते बीमार गी ठीक करने आस्तै।

- परमात्मा दा राज नंगी अक्खी कन्ने नेई दिक्खेआ जाई सकदा कीजे ओह तुंदी आत्मा दे अंदर ऐ,

इस आस् ते तुसैंगी (उंदी महिमा दे चरमदीद गवाह दे तौर उप् पर) दी शक् ति ते औने दा प्रचार करना पौना ऐ

साढ़ा प्रभु यीशु मसीह (२पतरस १:१६)⁵²⁶.

522 “[गैर-यहूदी, सारे राष्ट्र]” थमां कैद कीता गेदा।

523 वीडियो 28. “आत्मा दा फल” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्मा-दा-फल/.

524 वीडियो 6. “प्रभु (तुंदा) परमात्मा बनी जंदा ऐ”

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशु-इजराइल-दे-पुत्र-पीढ़ियों-दी-पुस्तक/.

525 वीडियो 43. “(आत्मा दे नेतृत्व च) परमात्मा दे पुत्र” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-आत्मा-भगवान-दे-पुत्र-अग्वाई-दे/.

526 वीडियो 35. “(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार दे चेलो”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शक्ति-अधिकार-के-साथ-.

(प्रकासित 11:19 ऐ) परमेसरे दा मंदर खुलदा ऐ (मेमने दा ब्याह शुरू होंदा ऐ)

प्रकासित 11:19 ऐते सुर्ग च परमात्मा दा मन्दिर खोली गया।

ते उदे मंदरे च उदे वादे दा सन्दूक दिक्खेआ गेआ।⁵²⁷

ते बिजली, आवाजें, गरजने, ते भूंचाल, ते बड़े ओले होए।

☞ प्रकासित 11:19 ऐफिर के मंदिर ईश्वर सुर्ग च खोली दिता गेआ, ते उंदी सन्दूक वाचा दे उदे मंदर च दिक्खेआ गेआ।

ते बिजली, आवाजें, गरजने, भूंचाल ते बड़े ओले पेई गे।⁵²⁷

- मेमने दा ब्याह (प्रकाशितवाक्य 19:6-7 ऐ) शुरू होंदा ऐ जद प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान राज करदा ऐ पैहले 7 वीं तुरही (7 शीशी, प्रकासित 11:15-16 ऐ) 3 बकाया पर (प्रकासित 15:5 ऐ).⁵²⁸

⁵²⁷वीडियो 46. "जीवन दा जी उठना।" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-जीवन-दा-पुनरुत्थान/.

⁵²⁸"(प्रकाशितवाक्य 19:6-7 ऐ) प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान राज करदा ऐ & मेमने दा ब्याह आई गेदा ऐ."

अध्याय 12 दा

(प्रकाशितवाक्य 12:1-2) स्वर्ग च इक बड्डा निशान: जनानी

प्रकाशितवाक्य 12:1 ते इक बड्डा अचरज (चिन्ह) प्रकट होया।⁴⁵⁹² स्वर्ग च;
 इक जनानीसूरज दे कपड़े, ते पैरें थल्ले चंद्रमा, ते सिर उप्पर मुकुट⁴⁷³⁵ बारह तारे दा: 1।
 प्रकाशितवाक्य 12:2 औय लश गर्भ के साथ शोने वे¹⁰⁶⁴ रोया, जन्म च प्रसव करदे,⁵⁶⁰⁵ ते प्रसव होने च दर्द होंदा हा।⁵⁰⁸⁸

- ☞ प्रकाशितवाक्य 12:1 ते सुअर्गे च इक बड्डा निशानी प्रगट होया।
 इक जनानी कपड़े पहने सूरज दा, कन्नै चाँद दा पैरों के नीचे, ऐ
 ते बारह दा मुकुट (12) तारे सिर पर।
- ☞ प्रकाशितवाक्य 12:2 फिरी गर्भवती होने दे नाते ओह प्रसव च ते दर्द च बच्चा पैदा करने आस्तै चिल्लादी ही।

→ स्वर्ग च इक बड्डा निशान प्रकट होआ। **इक डबल्यूओमानसूरज** दे कपड़े पाईये, ते पैरें हेठ चंद्रमा, ते सिर पर मुकुट⁴⁷³⁵ 12 सितारे दा.

- **इक जनानी:** सूरज, चंद्रमा, ते तारे दी दृष्टिकोण दे अनुसार, इक जनानी या तां बंधन दे घर दी मां होंदी ऐ (धरती उप्पर यरूशलेम-**गलाती 4:25 ऐ**) या मुक्त घर दी मां (ऊपर यरूशलेम,**गलाती 4:26 ऐ**). लेकन सुर्ग च बड़े चमत्कार दे कारण;**जनानी गी** मुक्त दे घर दी मां गी संदर्भित करदा ऐ, जां **स्वर्गीय यरूशलेम दा**.
- **सूरज दे कपड़े पाई दी इक जनानी:** जदू कोई जनानी कृपा दे अधीन होंदी ऐ तां **“सूरज दा”** दा मतलब ऐ **“ईश्वर,”** इस चाल्ली सूरज कन्नै कपड़े पाने आह्नी जनानी दा मतलब ऐ जे इक आध्यात्मिक जनानी जां...**स्वर्गीय यरूशलेम दा** के साथ सजदा हैरब दा कृपा करो.
- **टीओह उंदे पैरें हेठ चाँद:** स्वर्ग है प्रभु दा सिंहासन, ते जमीन उदे पैरें दा टेहुन ऐ (**प्रेरितों दे काम 7:49**). इस गल्ल गी दिक्खदे होई जे चंद्रमा दा जिक्र ऐ **मसीह परमात्मा दा पुत्र**, “उसदे पैरें हेठ चंद्रमा” दा इशारा **“मसीह दा (2 वी) औना जमीन पर”** जो दूजी (2) वारी बिना पाप दे उद्धार वास्ते प्रगट होवेगा (**इब्रानियों ९:२८ दा**).
- **12 दा मुकुटसिर पर तारे:** इस गल्ल गी दिक्खदे होई जे धर्म दे रस्ते च महिमा दा मुकुट मिलदा ऐ (**प्रो 16:31 ऐ**), ऐमा दा विश्वास करने आलें गी प्रगट होगी **शुजियां परमात्मा दा पुत्र**, ते जीतने आले, जो दे प्रकट होने कन्नै प्यार करदे न प्रभू लेकन मौत दी परख च पेई गे, ते पा लैगन **धर्म दा मुकुट**.⁵²⁹ इस आस् ते, सुअर्गीय यरूशलेम दे सिर उप्पर 12 तारे दा मुकुट, मुकुटें गी संदर्भित करदा ऐ **मसीह दे पैहले फल**, ऐ **144,000 दी** इस्त्राएल दे पुत्रों दे सारे 12 गोत्रें च जेहड़े न **सलील कर दिया**.⁵³⁰

+ “[**चहुरे 6-1 ऐ**]” सूरज, चंद्रमा ते तारे दे आध्यात्मिक महत्व दे बारे च होर विस्तार कन्नै जानने लेई।⁵³¹

→ **जनानी** (स्वर्गीय यरूशलेम) गर्भवती होने दे नातेमें गौरवशाली कलीसिया दा इशारा करदा ऐ **मसीह**, जो प्रसव भें औय प्रसव भें नीड़ा भें **शैबच्चे गी**, कुन ऐ **मसीह दे पैहले फल**, ऐ **144,000 दी**.

(प्रकाशितवाक्य 12:3) स्वर्ग च इक होर निशान प्रकट होंदा ऐ (इक महान लाल अजगर जिसदे 7 सिर, 10 सींग, & 7 मुकुट होंदे न)

प्रकाशितवाक्य 12:3 ते इक होर अचरज (चिन्ह) प्रकट होया।⁴⁵⁹² स्वर्ग च;
 ते दिखो इक बड्डा लाल अजगर।
 सात (7) सिर होने वाले²⁷⁷⁶ ते दस (10) सींग, ऐ²⁷⁶⁸
 ते सात (7) मुकुट (मुकुट, सिर दा राज आभूषण, मुकुट)¹²³⁸ उंदे सिरें उप्पर।

- ☞ प्रकाशितवाक्य 12:3 ते सुर्ग च इक होर निशानी दिक्खी गई।
 दिखो, **इक बड्डा लाल अजगर** सात होने वाले (7) सिरें ते दस (10) सींग, ऐ
 ते सात (7) मुकुटें दा उंदे सिरें उप्पर.

→ नोट: महान लाल अजगर (7 सिर, 10 सींग, ते 7 मुकुट) जो स्वर्ग विच प्रकट होंदा है, ओ 2 जानवर है।

⁵²⁹संदर्भ देना प्रकाशितवाक्य 6:2 विस्तार कन्नै जानने लेई।

⁵³⁰वीडियो 18. “3. पैहले फल (द 144,000)”

⁵³¹ “[चित्र 6-1] सूरज, चंद्रमा, ते तारे” दा संदर्भ लैओ।

- **इक बड़ा लाल अजगर** (प्रकाशितवाक्य 12:3): 7 सिर, 10 सींग, & 7 मुकुट
 - **7सिर = 7 राज्य**
 - 7 राजाएं दे 7 सिर बेहद ऊंचे पहाड़ें उप्पर न, जेहड़े दुनिया दे 7 राज न (मती 4:8 ऐ).
 - 7 राज्यें दा सार दिक्खने लेई “[चित्र 13-1] 7 राज्यें” दा संदर्भ लैओ।
 - **10 सींग= 10 राजा**
 - ऐ 10 राजा (10 सींग) होंदे ने 10 राजा जिन्हें गी अजे तकर कोई राज नेई मिलेया, लेकन राजा दे रूप च अधिकार मिलग कन्ने ओह (1st) जानवर दा 1 घंटे तक ते अपनी शक्ति ते अधिकार इक मन कन्ने (1st) जानवर गी देंगे।⁵³²
 - **मुकुटां दा**
 - ऐसींग दे राजा जिन्हां नू 1 घंटे तक राजा दे तौर ते अधिकार मिलया है (प्रकासित 17:12 ऐ).
 - ऐ 2nd जानवर महान लाल अजगर दा ऐ जिसदे 7 मुकुट हन।⁵³³
 - **1st जानवर दा (प्रकासित 17:3 ऐ) & 2nd जानवर (महान लाल अजगर दा, प्रकाशितवाक्य 12:3)**
 - ऐ 1st जानवर दा: 7 सिर (राज्य), 10 सींग (राजा) होंदे ने
 - ऐ 2 वी जानवर दा (महान लाल अजगर): 7 सिर, 10 सींग, ते 7 मुकुट (प्रकाशितवाक्य 12:3).
 - 2 वी जानवर दा: 7 सिर (राज्य), 10 सींग (राजा) & निंदा दे नां कन्ने भरोचे दा (प्रकासित 17:3 ऐ).
 - जनानी (महान वेश्या) द्वारा ढोया & 2 जानवर (प्रकासित 17:7 ऐ):
 - 7 सिर (राज्य), 10 सींग (राजा) होंदे ने।
 - महान लाल अजगर भी 7 सिर, 10 सींग होंदे ने (प्रकासित 17:3 ऐ), पर उंदे सिरें उप्पर 7 मुकुट (प्रकाशितवाक्य 12:3).

⁵³² प्रकाशितवाक्य 17:12-13 ऐ, आरएफर तो प्रकाशितवाक्य 17 ऐ ते प्रकासित 18:10 ऐ विस्तार कन्ने जानने लेई।

⁵³³ “[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दा संदर्भ लैओ।

- ऐ 10 मुकूट बनाम 7 मुकूट

दान 7:24 ऐओह 10सिंग (राजाऐ) इस (रोमन) राज्य थमां उड़ी जाह्ग,“ ते

इक होर राजा (नवे बाबूल दे राज दा मसीह विरोधी) उंदे पिच्छे उठ के अपने वश च करग 3राजा: 1।

→ दी 10सिंग (राजाऐ) जिन्हां नेफिर भी राज होने दा बी।ut वे अन्ननी सत्ता औय अथधकाय 1st को दे देंगे

जानवर ते “रोम राज्य” चों उठदे ना 3उंदे च इक होर राजा (मसीह विरोधी) ने अपने वश च कीता जाग

नए बाबूल राज्य दा, कुल छोड़कर 8राजाऐ(प्रकाशितवाक्य 17:12-13 ऐ).

→कुल 8 राजा = 10 राजा – 3 राजा वश च कीते = कुल 7 राजा + इक होर राजा (मसीह विरोधी)


* संयुक्त राष्ट्र दी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) 2019 दी सबनें थमां ताजा रिपोर्ट च निम्नलिखित जानकारी दिती गई ऐ

डेटा जेहू डा देशों गी अट्ट (8) समूहें च बंडदा ऐ (मूल रूप च 10 समूह), जिंदे चा अट्ट (8) राजा

में उल्लेख कीता गेदा ऐदान 7:24 ऐपैदा हो सकदा ऐ:


संयुक्त राष्ट्र एमडीजी दे क्षेत्रीय समूहीकरण			
# # ए.	2015 दी(10 ग्रुप) दा	→इक बड्डा बदलाव	2019 दी (८ ग्रुप) दा
1	विकसित क्षेत्र	यूरोप ते उत्तरी अमेरिका	यूरोप ते उत्तरी अमेरिका
2	उत्तरी अफ्रीका दा पश्चिमी एशिया	उत्तरी अफ्रीका ते पश्चिमी एशिया	उत्तरी अफ्रीका ते पश्चिमी एशिया
3	दक्षिणी एशिया दा काकेशस ते मध्य एशिया	- ऐ मध्य एशिया	मध्य ते दक्षिणी एशिया
4	उप-सहारा अफ्रीका	- ऐ	उप-सहारा अफ्रीका
5.	पूर्वी एशिया दक्षिण-पूर्वी एशिया च	पूर्वी ते दक्षिण-पूर्वी एशिया	पूर्वी ते दक्षिण-पूर्वी एशिया
6.	लैटिन अमेरिका ते कैरेबियन	- ऐ	लैटिन अमेरिका ते कैरेबियन
7	ओशिनिया	(बहिष्कार) आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड	ओशिनिया
8		ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड	ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड

* 2015 च एमडीजी दे अनुसार क्षेत्रीय समूहीकरण दी रिपोर्ट



* संयुक्त राष्ट्र दी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) रिपोर्ट च प्रगति दे आंकड़े पेश कीते गे न समग्र रूप कन्ने दुनिया ते बक्ख-बक्ख देशों दे समूहें लेई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य। एह 'विकासशील क्षेत्रें ते 'विकसित' क्षेत्रें दे रूप च वर्गीकृत कीते जंदे न।⁵³⁴

* 2019 च एमडीजी रिपोर्ट दे अनुसार क्षेत्रीय समूहीकरण (2016 दी एसडीजी रिपोर्ट थमां इक बड्डा बदलाव)



Notes: • Oceania* refers to Oceania excluding Australia and New Zealand throughout the publication.
• The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

* देश समूहीकरण दे आधार दे तौर उपपर भौगोलिक क्षेत्रें वा इस्तेमाल 2016 थमां इक बड्डा बदलाव ऐ सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट ते सहस्राब्दी विकास पर प्रगति रिपोर्ट मंजल. इस थमां पैहू ले, "विकसित" क्षेत्रें दे मुलखें ते 1990 दे मुलखें लेई आंकड़े पेश कीते गे हे "विकासशील" क्षेत्र, जिंंगी होर बी भौगोलिक उप-क्षेत्रें च बडेआ गेआ।⁵³⁵

⁵³⁴सहस्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2015. (2016), सहस्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट च, संयुक्त राष्ट्र (पृष्ठ 71), <https://doi.org/10.18356/6cd11401-en> पर ऐ.

⁵³⁵संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग। (nd), क्षेत्रीय समूहीकरण — एसडीजी संकेतक, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/क्षेत्रीय-समूह/दा>.

→ 1 जानवर दे 7 सिर ते 10 सींग, ते 10 मुकुट हन, पर 2 जानवर (के...[महान लाल अजगर](#)) च 1st जानवर कोला 3 कम मुकुट (या कुल 7) होंदे न कीजे 3 राजाएं गी दुए दे वश च कीता जाग राजा (मसीह विरोधी).

([प्रकाशितवाक्य 12:4-5](#)) इक जनानी (स्वर्गीय यरूशलेम) ने इक पुरुष पुत्र पैदा किता (The 144,000)

[प्रकाशित 12:4](#) ऐते उदी पूंछ ने सुर्ग दे तारे दा तिहाई हिस्सा खिचवी लेता ते उनेगी धरती उप्पर सुट्टी दिता।^{¶1093} ऐते अजगर दाजेडी जनानी प्रसव लेई तैयार ही, उदे सामने खड़ोती दी ही।
कीजे उसी अपने बच्चे गी खाइयै रक्खेआ जा^{¶5043} जफ ही जन्म शो गमा.

☞ [प्रकाशित 12:4](#) ऐ [इक](#)nd उसकी (एक महान लाल अजगर दी) पूंछ इक तीसरा (1/3 ऐ)तारे दास्वर्ग दा ते उनेगी जमीन उप्पर सुट्टी दिता।
औय अजगर नशरे खडा शो गमाजनानी गी जो जन्म देण लई तैयार सी,
अपने बच्चे गी पैदा होंदे गै खाइयै रक्खना.

• [डब्ल्यूहो हैजनानी गी?](#)

[यशायाह 66:7](#) चउसी (सियोन) प्रसव करने कोला पैह्ले गै ओह पैदा करी दिती ही;

दर्द आने कोला पैहले उसी इक आदमी बच्चे दा जन्म होया (मर्द).^{एच2145}

[यशायाह 66:8](#) चऐसी गल्ल किसने सुनी ऐ? ऐसी गल्लां कुस ने दिखी?

करगधरती गीअंदर लाने आस्तै बनाया जाइक दिन? या होगाइक कौमपैदा हो जाओइक बारी च?

क्योंकि जियां हीसियोनप्रसव हो गई, उसने अपने बच्चे पैदा कर दी (बेटा).^{एच1121}

• क्या धरती गी अंदर पैदा करने आस्तै बनाया जाइक दिन?⁵³⁶

उचित पुल्लिंग संज्ञा, आदम (ādām (אָדָם, मजबूत दाएच121 ऐ) दा इक क्रिया दी व्युत्पत्ति ऐ

रूप, 'ādam'(אָדָם, मजबूत दाएच 119) ऐ, ऐ^{एच119}जबकि जमीन दा स्त्रीलिंग संज्ञा (הָאָרֶץ,

मजबूत दा एच127 ऐ)^{एच127}बी इक क्रिया रूप दी अपनी व्युत्पत्ति ऐ, "ādam"(אָדָם, Strong'sएच 119) ऐ.^{एच119}

→पैहला आदमीइकडेमद्वारा धरती दी धूड़ कन्ने बनाया गेदा हा

[प्रभु परमात्माचइकधआच.](#)

• क्या इक वारी इक कौम पैदा होवेगी?

[माइक 4:1](#) ऐपर मेंआखरी दिनहो जावेगा, कि पहाड़ दा

[यहोवा दा घर](#) पहाड़ें दी चोटी च स्थापित होग,

ते ओह पहाड़ियें कोलां उप्पर चली जाग; ते लोक उदे कोल बग जांगना

→ दे कर्ममें गी ढूंढने आह्लेकानून गी विश्वास दे धर्म दागैर-यहूदी दे समान,

धार्मिकता गी हासल करगे, लेकन व्यवस्था दे कर्ममें गी तुप्पने आह्ले बी इस चाल्ली दे समानइजराइल

जेड़ा विश्वास च नेई ऐ, ओह उस ठोकर दे पत्थर उप्पर ठोकर खाई जागा। इस प्रकार, जानिए

कि तुस प्रेरितें ते भविष्यवक्ताएं दी नीह् उप्पर बने दे ओ।[यीशु मसीह](#)

अपने आप गी मुख कोने दा पत्थर होने दे नाते ([इफिसियों 2:20](#)), तः जेड़ा उदे उप्पर विश्वास करदा ऐ, ओह चाहिदा ऐ

शर्म ना कर ([१पतरस २:६](#)).

[रोम 9:33](#) ऐजिय्यां लिखे दा ऐ,

दिखो, मैं सियोन च पेदा हा^{¶4622} ठोकर खाने आला पत्थर ते अपराध दी चड्डान: 1।

ते जेका कोई उदे उप्पर विश्वास करग, ओह शर्मिदा नेई होगा।

[१पतरस २:६](#)इस आस् ते एह शास्त्र च बी ऐ।

दिखो, मैं सियोन च पेदा हा^{¶4622} इक मुखिया कोना^{¶204} पत्थर(नीव दा पत्थर), ऐ^{¶3037}

⁵³⁶“[चित्र 12-क] धरती & जमीन,” या

वीडियो 19. “पृथ्वी & जमीन” www.therhemaofthelord.com/course1/पृथ्वी-जमीन/.

चुने, कीमती, ते जेड़ा उदे उप्पर विश्वास करदा ऐ, ओह बेशर्म नई होगा।

माइक 4:2 ऐते कई राष्ट्र^{म¹⁴⁷¹ ६} आयेगा, ते आखदे ने,
आओ, आओ, प्रभु दे पहाड़ उप्पर चली जाचे, ते
याकूब दे परमात्मा दे घर गी; ते ओह सानु अपने रस्ते सिखागा।
ते अस उदे रस्ते च चलगे **कानून गी** सिंथ्योन तों निकल जावेगा, ऐ^{म⁸⁴⁵¹ ३}
तेशब्द दा^{म¹⁶⁹⁷ ३} आहला **प्रभु गी** यरूशलेम थमां.

→ प्रभु दे मकान दा ओह पहाड़ जेड़ा चोटी उप्पर खड़ोते दा होग
“सिंथ्योन पहाड़” जेका यरूशलेम दे सारें शा उच्चे थाहर उप्पर ऐ।
- व्यवस्था सिंथ्योन थवां औदी ऐ, ते सुसमाचार दा प्रचार जेका मनुख दे बाद नेई, पर बाद च ऐ
यहोवा दे घर दे पहाड़े थमा यहोवा दा रेमा;
जेड़ा यरूशलेम च सिंथ्योन पहाड़ ऐ।

शब्द (दानार) दा^{म¹⁶⁹⁷ ३} प्रभु दा मतलब सारे शब्दां (रेमा) दा मतलब है जिन्हां विच लिखे होए हन
कानून दी किताबांते नबी दी कताब बी जेड़ी इस च सुनी जानी ऐ
प्रभु दे घर च लोकें दे कान, तां जे प्रभु उंदा परमात्मा बनी जा।⁵³⁷

- ओह विश्वास दे धार्मिकता दा नियम सिंथ्योन तों बाहर निकल जावेगा जित्थे इक प्रमुख कोना
पत्थर (यीशू मसीह) बिछाया जंदा ऐ, ते **प्रभु दा रेमा** अगें बधी जंदा ऐ अपने उच्चतम से
यरूशलेम च इशारा करदे न, जो है **सिंथ्योन पहाड़**, जिंदा परमात्मा दा नगर, **स्वर्गीय दा**
यरूशलेम (इब्रानियों 12:22 ऐ).

→ इस चाल्ली, जदू प्रभु दे घर दा पहाड़ सिंथ्योन पहाड़ च स्थापित होई जंदा ऐ
आखरी दिन, सारे राष्ट्र जेड़े प्रभु दे घर च न, ओह सिंथ्योन दे पहाड़ उप्पर बग जांगन
सुनो **प्रभु दा रेमा** ते उंदा रस्ते दा सिखाया जाओ (यशायाह २:१-३ च).⁵³⁸

➤ **सुर्गीय यरूशलेम**⁵³⁹ यरूशलेम ऐ जेड़ा उप्पर ऐ ते आजाद ऐ, जेड़ा सादे सारें दी मां ऐ
(गालाती 4:26 ऐ). सो, **जनानी गी** जो बच्चा पैदा करन लई तैयार सीसंदर्भित करदा ऐ “**सुर्गीय यरूशलेम गी**.”

प्रकासित 12:5 ऐते उसने इक मर्द (पुरुष) गी जन्म दित्ता^{म⁷³⁰} बच्चा (पुत्र),^{म⁵²⁰⁷ ३}
जिसने राज करना हा (फीड)^{म⁴¹⁶⁵ ३} सारे राष्ट्र (गैर-यहूदी राष्ट्र)^{म¹⁴⁸⁴ ३} लोहे दी छड़ी कन्ने:
ते उसी दा बच्चा^{म⁵⁰⁴³ ३} पकड़ा गया (हरपाजो)^{म⁷²⁶ ३} को^{म⁴³¹⁴ ३} ईश्वर, ते उंदा सिंहासन उप्पर।

☞ **प्रकासित 12:5** ऐते जनानी (**स्वर्गीय यरूशलेम दा**) ने जन्म दिया (जनम दे)

गी **इक नर पुत्र (मसीह दे पैहले फलजां 144,000 दी)**

ओह सारे गैर-यहूदी जातिएं गी लाठी कन्ने खिलाना ऐ^{म⁴⁴⁶⁴ ३} लोहे दा: 1^{म⁴⁶⁰³ ३}

और उसी **बच्चा** पकड़ा गया (हरपाजो) “को” **ईश्वर** ते उंदा **गद्दी पर बैठे**.

• **डबल्यूहो है जनानी दा बच्चा?**

→ **जनानी** जेड़ा मसीह दे पैहले फल (1,44,000) गी पैदा कित्ता, ओह सादे सारें दी मां ऐ।
सुर्गीय यरूशलेम गी, ते उसदा बच्चा, **मसीह दे पैहले फल (144,000)** तक फस जाएगा **ईश्वर**

⁵³⁷वीडियो 6. “प्रभु तुंदा परमात्मा बनी जंदा ऐ।”

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशू-इजराइल-दे-पुत्र-पीढ़ियों-दी-पुस्तक/.

⁵³⁸वीडियो 24, “(तुस पवित्र यरूशलेम ओ) यरूशलेम दे सिंथ्योन पहाड़ थमां सादे कोल लेई आए गेदे (1/3)।”

www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-देव-दे-घर-तुस-पवित्र-यरूशलेम/.

⁵³⁹“[चित्र 6-1] सूरज, चंद्रमा ते तारे दा आध्यात्मिक महत्वा”

ते उदे सिंहासन (1 रैप्चर दे जरिए).⁵⁴⁰

- **इक नर पुत्र**(औरत दा बच्चा, यशायाह 66:7-8 च): 1।**मसीह दे पैहले फलजां 144,000 दी.**
प्रभु लेंदा कलीसिया दी **जेठे बच्चे** या दी कलीसियाएं **मसीह**(मसीह दे पैहले फल जो इस विच रहंदे सन दाऊद दे नगर च, जित्थे मसीह प्रभु दा जन्म होया हा) जिंदे परमात्मा दे नगर गी, जेड़ा ऐ **सुर्गीय यरूशलेम गी.**⁵⁴¹उ'नेगी पकड़ी लेता जंदा ऐ (रिप्चर) "कर" **ईश्वरते** उदी सिंहासन.
- **लोहे दी इक छड़ी: 1।144,000 दी** जो की कर्मों को रखे **परमात्मा दा पुत्र अंत तक अधिकार** दे दिया जाएगा **गैर-यहूदी जातिएं** उप्पर, ते उंदे कन्ने खिला दे **गलोहे दी इक छड़ी** जिवें **कुम्हार** दे बर्तन विच **टूटे होए** **टोटेजिय्यां** उसी अपने पिता कोला मिलदा ऐ(**प्रकासित 2:26 ऐ-27 ऐ**).⁵⁴²

⁵⁴⁰“(प्रकाशितवाक्य 12:4-5) इक जनानी (स्वर्गीय यरूशलेम) ने इक पुरुष पुत्र पैदा कित्ता (The 144,000).”

⁵⁴¹से कैद की गई प्रकासित 2:23 ऐ.

⁵⁴²से कैद की गई प्रकासित 2:26 ऐ-27 ऐ।

The earth & The ground


The heaven and the earth^{H776} is God's creation in the beginning. (Gen 1.1), and God called the dry^{H2004} land Earth^{H776}. (Gen 1.10). Before the LORD God formed man of the dust of the ground, the ground (*ādāmā*^{H127}) was already watered by a mist^{H108} from the earth^{H776}. (Gen 2.6).
 → Meaning, after the ground^{H127} was cursed by the LORD God (Gen 3.17), the earth^{H776} has lost the mist^{H108}. (Gen 2.6)
 → It was the ground (*ādāmā*)^{H127} that was cursed, not the earth (eres) the dry land^{H5854}^{H776} which was God's creation in the beginning.
 → Which is why the treasure of the kingdom of heaven could be hidden in earthen field (or in the world) for man^{H2} to till and find it (1Co 2.7).
 "The kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field. (Mat 13.44), the field is the world^{H5888} (Mat 13.38).
 (We speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world/perpetuity of time of the world). (into) our glory. 1Co 2.7)
 God is a spirit (Jhn 4.24) and the LORD God is holy (Lev 19.2), and he which hath called you is holy (1Pe 1.15), and he that is called, being free, is Christ's servant (1Co 7.22)
 → God = Spirit, Holy = Christ
 → The Holy Spirit is the spirit of God in Christ, and God is present in Christ as one (Jhn 17.23)
 → "I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the LORD, which call thee by thy name, am the God of Israel." (Isa 45:3)

Col 2.1 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh; that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ; (Col 2.2) In whom, (Christ) are hid all the treasures^{G2344} of wisdom and knowledge. (Col 2.3)

If Christ is holy, how can we have this heavenly treasure (wisdom & knowledge) in earthen vessels. (or vessels that is of earth) (2Co 4.7)?
 → It is possible because Christ Jesus came into the world to save sinners (1Ti 1.15). In him we live, and move, and have our being (Act 17.28).
 → Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit (1Jo 4.13).
 → Because we have this treasure in earthen vessels, it is impossible for us to have the heavenly treasure unless we dwell in Christ, which ascertains that the excellency of the power is of God, and not of us (2Co 4.7).

The ground (*ādāmā*)^{H127}, G1093

The ground (אֲדָמָה, Strong's H127)^{H127} is feminine noun and is transliterated as "ādāmā", and it has its etymology of a verb form, "ādām" (אָדַם, Strong's H119),^{H119} meaning "red".
 → The proper masculine noun *ādām* (אָדָם, Strong's H121) is the same as the masculine noun *ādām* (אָדָם, Strong's H120), which is from Strong's H119.



The LORD said to Moses in Exo 3.5, "Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground."^{H127}
 Then the same scripture is quoted in Act 17.33, "Put off thy shoes from thy feet: for the place where thou standest is holy ground."^{G1093}
 → In Luk 8.27, however, the ground (Strong's G1093) is mostly translated as "the earth". According to Exo 3.5 and Act 7.33, the earth (Strong's G1093) from Matthew 6.10, "Thy kingdom come. Thy will be done in earth,^{G1093} as it is in heaven," should also be translated as "ground": "Thy kingdom come. Thy will be done (on)^{G1909} (ground),^{G1909} as it is in heaven."

What is the significance of correctly interpreting ground (*ādāmā*)^{H127}, G1093 as "ground"?
 → Because the sin entered through the cursed ground of the dry earth, Christ Jesus came into the world to save sinners (1Ti 1.15) from the cursed ground (or grave which is set in the sides of the pit) (Eze 32.23).
 Therefore, the meaning of "Thy kingdom come. Thy will be done (on)^{G1909} (ground),^{G1909} as it is in heaven (Mat 6.10)" should be interpreted as follows:

The Lord (*ādōnāy*)^{H136} GOD (*yehová*)^{H1068} to cause the sinners to come up out of their graves and bring them (God's) people Israel, 2Sa 7.23 into holy ground of Israel (Eze 37.12), and they will become the first-fruits at Christ's coming (1Co 15.23)

And call no man your father upon the earth (ground);^{G1093} for one is your Father, which is in heaven (Mat 23.9).

Our Father which art in heaven; Hallowed be thy name (Mat 6.9)
 Thy kingdom come. Thy will be done (on the cursed) ground;^{G1093} on earth (to bring your people Israel to holy ground) as it is in heaven (Mat 6.10).

The Lord's prayer #1 His will

प्रकाशितवाक्य 12:6) जनानी 1260 दिन तक पोशण वास्ते जंगल विच भाग गई

प्रकाशितवाक्य 12:6 ते जनानी जंगल च भागी गई, जित्थें उसी इक थाहर तैयार कीती गेदी ऐ।^{¶575} ईश्वर, ऐ कि ओह खिलाना (पोशित)^{¶5142} उसे उथेइक हजार दो सौ साठ (1,260) दिन

☞ प्रकाशितवाक्य 12:6 फिर जनानी (स्वर्गीय यरूशलेम दा) जांसिय्योन पहाड़ जेड़ा जिंदे परमात्मा दा नगर ऐ; इब्रानियों 12:22 ऐ) जंगल च भागी गे, जित्थें ईश्वर उसी पोशित करने आस्तै इक थाह र तैयार कीती हीलेई 1,260 दिन दा.

- उस जनानी ने कयों (स्वर्गीय यरूशलेम दा) दे पैहे फल दे बाद जंगल च भागी जंदे नमसीह पकड़े गए तक ईश्वर ते उदी सिंहासन?

मत्ती 23:37 ऐहे यरूशलेम, यरूशलेम,

तू नबियें गी मारने आला ते तुंदे कोल भेजे गेदे लोकें गी पत्थर मारने आला।

मैं किन्नी बार तेरे बच्चें गी इकट्टा करना चांहदा हा।

जिय्यां सुर्गी अपने कुर्गे गी अपने पंखें दे हेठ कट्टा करदी ऐ, ते तुस नेई चांदे।

मत्ती 23:38 ऐदिखो, तेरा घर उजाड़ छडी गेदा ऐ (जंगल दा)।^{¶2048}

मत्ती 23:39 ऐकीहके मैं तुसें गी आखना ऐं, जद तकर तुस नेई आखगो।

धन्य ऐ ओह जो दे नां कन्ने आवे प्रभु (क्योरिओस)।^{¶2962}

→ पैहे फलें दे रचर होने दे बाद, जेड़े यरूशलेम दी जमीन उपपर (जेहड़ा उपपर सुर्गीय यरूशलेम नेई ऐ) पिच्छें रेई गेदे न, ओह गे न जेहड़े कोठरी च इकट्टे होने थमां इन्कार करदे न प्रभु परमात्मा (जित्थे मसीह दे पैहले फल हन), ते इस चाल्ली उंदा घर जंगलै च गै छोड़ी दिता जाग। अबी तो वे नशीं दे ख वकते प्रभु के दिन तक प्रभु, पर जो अपनी उम्मीद दे नाम पर रखदे ने प्रभु बचाया जावेगा।

→ इस गी पूरा करने आस्तै ऐ “रहस्य दा इस्राएल दे किश हिस्से च अंधकार दाजुं तकर गैर-यहूदियें दा पूरा-पूरा नेई औग” (रोम 11:25 ऐ)। सारे कौम देखनगे प्रभु गी (यहवा) उंदी कुदरती अक्कीं कन्ने जद उंदे पैरे दे पहाड़ उपपर खड़ोते दे न जेतून दाके दिन प्रभु गी, ते ओह जानन गे के ओह ऐ सर्वशक्तिमान परमात्मा।⁵⁴⁴

प्रकाशितवाक्य 12:7-9) स्वर्ग च युद्ध (महान अजगर & ओदे सुर्गदूतें गी स्वर्ग थमां जमीन उपपर सुट्टी दिता गेआ)

प्रकाशित 12:7 ऐसुर्ग च जंग होई गई, मिकेल ते ओस दे सुर्गदूत अजगर कन्ने लड़े; ते अजगर ते ओस दे सुर्गदूत लड़े।

प्रकाशितवाक्य 12:8 ते जीत नेई मिली; ते ना गे उंदी जगह सुर्ग च मिली गई।

प्रकाशित 12:9 ऐ ते महान अजगर गी बाहर कडूडी दिता गेआ, ओह बुजुर्ग नाग, जिसगी शैतान ते शैतान आखदे हे। जेड़ा सारे संसार गी धोखा दिदा ऐ।

उसी धरती (जमीन) च सुट्टी दिता गेआ,^{¶1093} ते ओस दे सुर्गदूत उदे कन्ने बाहर कडूडे गो।

☞ प्रकाशित 12:7 ऐ फिर सुर्ग च जंग होई।

माइकल ने दीते ओस दे सुर्गदूत अजगर दे खिलाफ लड़ाई लड़ी; ते अजगर ते ओस दे सुर्गदूत लड़े।

☞ प्रकाशितवाक्य 12:8 लेकन ओह ना जीते, ते ना ही उंदी जगह सुर्ग च मिली गई।

☞ प्रकाशित 12:9 ऐ ते महान अजगर बाहर कडूडी दिता गेआ, ओह पुराने नाग, सदे आशैतान गी, ऐ^{¶1228} ते शैतान, ऐ जिसने सारे संसार गी धोखा दिता; उसी जमीन उपपर सुट्टी दिता गेआ, ते उंदे कन्ने सुर्गदूत बी सुट्टी दिते गो।

- महान अजगर, पुराना नाग, शैतान & शैतान

- महान अजगर दा

→ महान अजगर (जिस गी पुराना नाग & शैतान आखदे न), ते शैतान, अपने सुर्गदूतें कन्ने जमीन उपपर सुट्टी दिता गेआ।⁵⁴⁵

उत्पत्ति १:२१ ते ईश्वर बनाया महान व्हेल (अजगर), ऐ^{¶8577}

ते हर इक जीव जेड़ा चलदा ऐ, जेड़ा पानी ने पैदा कीता हा

अपनी किस्म दे मताबक ते हर इक पंखें आले चिड़ियें गी अपनी किस्म दे मताबक मता, ते परमात्मा ने दिक्खेआ जे एह भला ऐ।

⁵⁴⁴“प्रकाशितवाक्य 19:15-18 ऐ) आरमागडोन (सर्वशक्तिमान परमात्मा दा क्रोध)।”

⁵⁴⁵“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दा संदर्भ लैओ।

- उंदी सृष्टि दे 5वें दिन, ईश्वर बनाया ऐ “महान अजगर दा” ते हर इक जीव जेड़ा चलदा ऐ, जिसदे कन्ने पानी भरपूर पैदा करदा हा (उत्पत्ति १:२१).⁵⁴⁶
- परमहान अजगर दा धोखा करदा है सारे संसार, जो धरती दे अवरोधक (जमीन गी ते दीसमंदर दा, ऐप्रकाशितवाक्य 12:7-9).⁵⁴⁷

(महान अजगर कौन है?)

इज 29:3 ऐबोलो, ते बोलो, प्रभु इयां आखदा ऐ¹³⁶ ईश्वर, ³⁰⁶⁹ ऐ
देखो, मैं तेरे खिलाफ हां, मिस दा राजा फिरौन, ऐ
महान अजगरजो उदे बिच्च पड़ा ऐनदियां, ऐ²⁹⁷⁵ ऐ
जिसने आख्या ऐ, “मेरा”²⁹⁷⁵ मेरा अपना है, ते मैं अपने आसतै बनाई लेदा ऐ।
इज 29:4 ऐलेकन मैं तेरे जबड़े च हुक लाना ते तेरी नदियें दी मछलियां तेरे तराजू च चिपकाई देगा।
ते मैं तुगी तेरे बीचा कड़डी लैना नदियां, ऐ
ते सारे मछलियां गी तेरे दानदियां तेरे तराजू कन्ने चिपक जाह्य।
इज 29:5 ऐते मैं तुगी ते तेरी नदियें दी सारी मछियें गी जंगल च सुड़ी देना छोड़ी देगा।
तू खुल्ले मैदानें उप्पर डिग्गी जागे; तू ना इकड़ा कीता जाह्य ते ना गै इकड़ा कीता जागा।
मैं तुगी खेतर दे जानवरें ते सुर्ग दे पछियें गी खाने दे तौर उप्पर दिता ऐ।

→ महान अजगर अपने (मिस दे राजा फिरौन दा) नदियां। क्योंकि इस
फिरौन महान अजगर दी सेवा करदा ऐ, उसी गोग, मसीह विरोधी दे रूप च संदर्भित कीता गेदा ऐ.⁵⁴⁸

• बूढ़े नाग

उत्पत्ति ३:१ हूँनाग दा किसी भी जानवर तों वी सूक्ष्म सी (जीवन) दे खेतर दाजेड़ा प्रभु परमात्मा ने बनाया हा।
उन उस जनानी गी आख्या, “हां, के परमात्मा ने आख्या ऐ, ‘तुस बाग दे हर इक बूढ़े दा फल नेई खाग ?’

→ ओह महान अजगर “नाग दा” कि अदन दे बाग च जनानी गी “धोखा” (१तिमिथि २:१४).⁵⁴⁹
→ एह पुराने नाग सब तों सूक्ष्म जीव है (उत्पत्ति ३:१) दुनिया विच (खेत विच, मत्ती 13:38 ऐ)।

• शैतान

लुका 10:18 ऐउन उन्दे कन्ने आख्या, “मैं दिखया।” शैतान⁴⁵⁶⁷ जिवें स्वर्ग तों बिजली गिरदी है।
२कुरिन्थियों ११:१३ क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित हन,⁵⁵⁷⁰ धोखेबाज कम्म करने आले, अपने आप गी प्रेरितें च बदली दिंदे नमसीह।
२कुरिन्थियों ११:१४ ते कोई अचरज नेई; लेई शैतान⁴⁵⁶⁷ अपने आप गी रोशनी दे दूत (परमेश्वर दी रोशनी) च बदली जंदा ऐ।⁵⁴⁵⁷
१कुरिन्थियों ५:५ ऐसे गी शरीर दे नाश आस्ते शैतान दे हत्थ च सौंपी देना।
तां जे प्रभु यीशु दे दिन आत्मा दा उद्धार होई सकै।
लुका 22:3 ऐफिर दाखल हो गया शैतान⁴⁵⁶⁷ हहा उपनाम इस्करियोती च, बारां दी संख्या दा होना।
प्रेरितों दे काम ५:३ लेकन पतरस ने आख्या, “अननिया, किच्यां ऐ।” शैतान⁴⁵⁶⁷ भरी दिल तेरापवित्र आत्मा कन्ने झूठ बोलना,
ते जमीन दी कीमत दा इक हिस्सा वापस रखना (इक्जमीन दा टुकड़ा⁵⁵⁶)?

→ शैतान इक आत् मक प्राणी ऐ जेका सुअर्गे थवां डिगो दा ऐ, इस आस् ते ओह अपने आप गी परमेश्वर दे उजाले दे सुर्गदूत दे रूप च भेस बनांदा ऐ
मांस दा नाश करो। एह शैतान मनुख दे दिल विच दाखल हों जांदा है, ते अपने आप गी प्रेरितें दा भेस बनाई लैदा ऐ मसीह च
दूजे गी धोखा देने दा हुकमा ए शैतानी जीव झूठे नबी कन्ने मेल खांदा ऐ, जेड़ा 2 जानवर दा ऐ।⁵⁵⁰

• शैतान दा: मौत दी ताकत है

इज्रानियों 2:14 ऐकी वे जदु बच्चियां मांस ते खून दे हिस्सेदार न, ते उने बी इस चाल्ली गै हिस्सा लैता

⁵⁴⁶वीडियो 1. “सृष्टि दे शुरू च & कदम च” www.therhemaofthelord.com/कोर्स1/पाठ1/ऐ.

⁵⁴⁷“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दा संदर्भ लैओ।

⁵⁴⁸अध्याय 19 थमां “चित्र 19-1” दिक्खो।

⁵⁴⁹वीडियो 5. “आदम दा इक ज्ञानी कुंवारी च बदलावा”

www.therhemaofthelord.com/course1/5-आदम-से-दुल्हन-देव-सृष्टि-दा-एक-सार-सार/.

⁵⁵⁰संदर्भ देना प्रकाशित 13:14 ऐ, ऐप्रकाशितवाक्य 19:20.

ओह इक्के जनेहा; तां जे मौत दे जरिए मौत दी शक्ति आह्वे गी नष्ट करी सके, यानी शैतान दा; ^{¶1228} [¶] लुका 4:33 ऐ आराधनालय च इक मनुख हा ^{¶444} [¶] जिस च अशुद्ध आत् मा ही शैतान, ऐ ^{¶1140} [¶] ते चिल्लाय
 ज़ोरदार आवाज़ दे नाल,
मत्ती ९:३२ ऐजदुं ओह बाहर निकलदे हे, तां दिक् खो, उदे कश इक गूंगा मानू लेई आए ^{¶444} [¶] के साथ कब्जा कर दिया इक शैतान. ^{¶1139}
मत्ती 17:18 ऐते यीशु डांटया शैतान दा; ते ओह उदे कोलां चली गया, ते उस बेलै कोलां बच्चा ठीक होई गेआ।
याकूब 4:7 ऐइस करिए अपने आप गी अधीन करोई शैतान दा, ऐ ^{¶1228} [¶] ते ओह तुदे कोलां फरार होई जगा।
प्रेरितों दे काम 13:10 ते आख्या, हे सारे चालाकी ते सारी बदमाशी कन्ने भरोचे दे हे बच्चे (पुत्र) ^{¶5207} [¶] आहला ओहशतान, ऐ ^{¶1228} [¶] ते
 तू सारे धर्म दा दुश मन, क्या तू प्रभु दे सच्चे रस्ते गी बिगाड़ना नेई छडग ?
जॉन 8:44 ऐतुस अपने पिता दे हो शैतान दा, ते अपने पिता दी वासना गी तुस पूरा करगो। ओह इक हत्यारा हा
 शुरूआत ही, ते सच्चाई च नेई रोहना, कीजे उदे च सच्चाई नेई ऐ।
 जदुं ओह झूठ बोलदा ऐ, तां ओह अपने आप गै गू लांदा ऐ;
मत्ती 12:24 ऐलेकन फरीसियों ने ए गल्ल सुनी ते आख्या।
 ए आदमी शैतानों गी नेई कड़डदा, लेकन बिलजबूब दे राजकुमार (शासक) दे द्वारा ^{¶758} [¶] शैतानों दा. ^{¶1140}

→ शैतान दा मौत दी ताकत ऐ, ते ओह आखरी दुश्मन ऐ जेहड़ा नष्ट होई सकदा ऐ।⁵⁵¹

- एह शैतान इक अशुद्ध आत् मा ऐ जेकी मनुख च दाखल होई सकदी ऐ ते उदे च अपने आप गी अपनाई सकदी ऐ।
 - पर जेकर तुस शैतान दा नां ते विरोध करो यीशु, ओह तेरे कोलों भाग जावेगा।
- एह शैतान, जिसदे पुत्र न ते उंदा पिता ऐ, ओह शुरू थमां गै कल्ल ते झूठा ऐ।
- के शासक शैतानों गी ऐबेलजेबुल ने दी।

(प्रकाशितवाक्य 12:10-11 ऐ) उद्धार, शक्ति, साढ़े परमेसरे दा राज, & परमेसरे दे मसीह दा अधिकार आया ऐ

प्रकाशित 12:10 ऐते मैं सुर्ग च इक ज़ोरदार आवाज़ सुनी।

हन मक्ति, ते ताकत (शक्ति) आई गई ऐ, ऐ ^{¶1411} [¶]
 ते साढ़े परमात्मा दा राज, ते सत्ता (अधिकार) दा ^{¶1849} [¶] अपने मसीह दा: 1।
 की वे साढ़े पराएँ उप्पर इल्जाम लाने आला, जेड़ा दिन-रात साढ़े परमात्मा दे सामने उंदे उप्पर इल्जाम लांदा हा।

☞ प्रकाशित 12:10 ऐ टीhen मैं सुर्ग च इक बड़डी आवाज़ सुनी।

"हूँ मोक्ष दे, ते ताकत, ते दा राज साढ़ाईश्वर, ते अधिकार दा उसी दा (परमात्मा दा) मसीह ⁵⁵²
 आ गए हैं।
 साढ़े पराएँ उप्पर इल्जाम लाने आले लेई, जिने साढ़े सामने उंदे उप्पर इल्जाम लाया हाईश्वर दिन रात, हो चुका है
 नीचे फेंक दे।"

→ मक्ति, ऐ ताकत, ऐ साढ़े परमात्मा दा राज, ते परमेसरे दे मसीह दा अधिकार आ गए हैं.

प्रकाशित 12:11 ऐते ओह उदे उप् पर होई गे

मेमने (अर्नियन) दे खून नाल, ^{¶721} [¶] ते शब्द (लोगो) दे द्वारा ^{¶3056} [¶] उंदी गवाही (गवाह) दा; ^{¶3141} [¶]
 ते उने अपनी जिंदगी (आत्मा) कन्ने प्यार नेई कित्ता। ^{¶5590} [¶] मौत तक.

☞ प्रकाशित 12:11 ऐते उने (साढ़े भ्राएँ) उसी (अजगर) दे खून कन्ने जीत हासल कीती मेमने दा, ऐ

ते द्वारा लोगो दा उनके गआह, ते उनेगी अपने कन्ने प्यार नेई कित्ता आत्माओं को मौत तक.

(प्रकाशितवाक्य 12:12-13 ऐ) अजगर, जिसदे कोल थोड़ा समां होंदा ऐ, ओह जनानी गी सतांदा ऐ (शैतान दा गुस्सा)

प्रकाशित 12:12 ऐसो ^{¶1223} [¶] ^{¶5124} [¶] हे सुर्ग ते उन्दे च रोहने आले खुश होओ।

हाय धरती (जमीन) दे वासी दे ^{¶1093} [¶]
 ते समुंदर दे! की वे शैतान बड़ा गुस्से च तुंदे कोल उतरी आया ऐ। ^{¶2372} [¶]

⁵⁵¹ "(प्रकाशितवाक्य 20:5-6) वैहला जी उठना" होर मती जानकारी आसै।

⁵⁵² संदर्भ देना प्रकाशित 11:15 ऐ.

कीजे ओह जानदा ऐ के उदे कोल थोड़ी देर गै ऐ

☞ प्रकासित 12:12 ऐइस आस् ते हे आकाश ते उन्दे च रौहने आले खुश हो जाओ।

हायजमीन ते समुंदर दे निवासियें गी!

की वे शैतान तेरे कोल बड़ा गुस्से च उतरी आया ऐ।

कीजे ओह जानदा ऐ के उसी (अजगर) थोहड़ी गै समां ऐ।

प्रकाशितवाक्य 12:13 ऐजदुं अजगर ने दिक् खेया के ओह धरती उप् पर सुट्टी दित्ता गेदा ऐ।^{¶1093} ऐ

उस जनानी गी सताया जिसने उस मर्द (नर) गी जन्म दित्ता।^{¶730} बच्चा (पुत्तर) दा।

☞ प्रकाशितवाक्य 12:13 ऐजदुं अजगर ने दिक् खेया के उसी जमीन उप् पर सुट्टी दित्ता गेदा ऐ।

उन उस जनानी गी सताया जेड़ी पैदा करदी हीनर दाबेटा।

- जनानी (स्वर्गीय यरूशलेम) जिसने 144,000 गी सामने लाया हा, ओह हून जंगलें च पोशित होआ करदा ऐ से तैयार कीईश्वर. अजगर ने जनानियां गी सताया तां जे ओह बचे दे लोकें गी जन्म नेई देई सकै अवशेष।

(प्रकासित 12:14 ऐ) जनानी गी “इक साल, साल ते आधे साल तकर पोशित कीता जंदा ऐ”

प्रकासित 12:14 ऐते उस जनानी गी इक बड्डे चील दे दो पंख दित्ते गो।

तां जे ओह उड्डिये जंगलै च, अपनी थाह र उप्पर, जित्थें ओह ऐ

इक समें लेई पोशित,^{¶1563} ^{¶2540} ते समें,^{¶2540} तेहलच^{¶2255} इक वक्त, ऐ^{¶2540} नाग दे चेहेरे तौं

☞ प्रकासित 12:14 ऐ बीउत उस जनानी गी दो (२)पंखइक बड्डे चील दा, ऐ

तां जे ओह जंगलै च उड्डिये अपनी थाह र पर जाई सकै, जित्थें उसी पोशित कीता जंदा ऐ

इक वक्त(उचित समें, क्रियाविशेषणातीत 1:3 ऐ), ऐ^{¶1563} ^{¶2540} तेबार(उचित समें, बहुवचन), ऐ^{¶2540}

ते^{¶2532} ऐअद्दा^{¶2255} इक वक्त(आधा उचित समय, एकवचन), ऐ^{¶2540} नाग दे चेहेरे तौं

- इक बड्डा चील डब्ल्यूइथ पंखउच्चतम शाखा लेई सकदा ऐ^{¶6788} (इज 17:3 ऐ) ते उथे अपना घोंसला बनाओ (अय्यब 39:27 च)।

→ उच्ची शाखा धार्मिकता दी शाखा ऐ, या प्रभु साडा धार्मिकता, जित्थे यरूशलेम

सुरक्षित रहना(यिर्मयाह 33:15-16 ऐ). इक बड्डे चील दे 2 पंख “2 पुत्तर (2

गवाह)” जिनें गी बड्डे लोकें दे औने कोला पैह्ले 1,260 दिनें तकर भविष्यवाणी करने आस्ते जमीने उप्पर भेजेआ जाग

और भयानक दिन दाप्रभु गी.⁵⁵³ जो जभीन नय बचे गमे शैं उवे अननी उम्भीद के नाभ नय यखेंगे

प्रभु और में रहनाप्रभु दाआहलड़ा.

[चित्र 12-ख] ऐ।इक जमानातेबारतेआधा वक्त(वक्त दा बंटवारा, जांआधा)

- दे मुताबिकउत्पत्ति 1:14 ऐ, संकेत दे^{¶226} ऐ(१) मौसमां दा,^{¶4150} ऐ(२) दिन दा,^{¶3117} ऐ(३) साल^{¶8141} ऐ परमात्मा दे द्वारा शासित होंदे न सुर्ग च रोशनी जेड़ी दिन ते रात गी बंडदी ऐ⁵⁵⁴

उत्पत्ति 1:14 ऐतेईश्वरआख्या, “रोशनी होन दे”^{¶3974} आकाश दे आकाश विच

दिन ते रात गी बंडना;

ते ओह उंदे आस् ते गै होनसंकेत दे, ऐ^{¶226} ऐ

(१) ते वास्तेमौसमें(दावत), ऐ^{¶4150} ऐ

(2) ते वास्तेदिन(नियत समें), ऐ^{¶3117} ऐ

(3) तेबर: 1।^{¶8141} ऐ

⁵⁵³ “(प्रकासित 11:3-4 ऐ) द. (2) गवाह.”

⁵⁵⁴ वीडियो 8. “इस्त्राएल दे पुनरें आस् ते परमेसरे दे सत्त पवी” www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-द-सत्त-भोज-इजराइल-जीस-दे-पुरुष-बच्चे-से-तो-प्रभु/

(१) ऐ.रुत्त(mô'éd, मजबूत दाएच 4150 ऐ): “भोज” सेलेवी 23:2 ऐते “मौसम” थमांउत्पत्ति 1:14 ऐइक ही शब्द हैं

- **मौसमों:** 1।दावत या मंडली (TWIN, मजबूत दाएच 4150 ऐ, mô'éd दा)मतलब “नियत समें” जां “**मौसमों**.”

लेवी 23:2 ऐ प्रभुमूसा ने आख्या कि (लेवी 23:1 ऐ), ऐ

“बात करोपुत्रों गी एच1121 ऐ इस्त्राएल दा, ते उन्दे कन्ने आख्या।

सम्बन्ध मेंदावतें दा(मो'éd, मौसम) ऐ।^{एच 4150 ऐ} प्रभु दा, ऐ

जिसी तुस पवित्र सभा दे रूप च घोशित करो।

इत्थूं तकर के एह मेरे दावत (mô'éd, मौसम,उत्पत्ति 1:14 ऐ).^{एच 4150 ऐ}

दान 12:7 ऐ ते में उस माहू वी गल्ल सुनी^{एच 376 ऐ}लिनन दे कपडे पाईये, जेड़ा नदियें दे पानी उप्पर हा।

जदुं ओह अपना सज्जा ते बाएं हत् थें गी सुअर्गे आस् ते उड़ेया।

ते जेके सदा जींदा ऐ, उदे कन्ने कसम खादी कि ए उदे लेई होग

इक वक्त(mô'éd, दावत,उत्पत्ति 1:14 ऐ), ऐ^{एच 4150 ऐ} बार(mô'éd, दावतें),^{एच 4150 ऐ}

तेआधा(दावत दे बिच्च),^{एच 2677 ऐ} जदुं ओह पूरा करी ओड़ग

शक्ति (हल्थ) बिखरना^{एच 3027 ऐ}पवित्र लोकें दे, ए सारी गल्लां खत्म होई जांगन।

→इस आस् ते, “इक समें, समें ते डेढ़” थमांदान 12:7 ऐ, दी व्याख्या इस चाल्ली कीती जाई सकदी ही जे “**इक दावत, भोज, ते दावत दे बिच्च**” इस्त्राएल दे पुत्रों आस् ते परमसेरे दे सत परबें चा⁵⁵⁵

* “[3] डैनियल दे 70 हफ्तें” थमां कैद कीता गेदा।

Tribulation		Great Tribulation		Armageddon
Daniel's 1st half of 70th week		Daniel's 2nd half of 70th week		
(John is partakers in Tribulation with his brethren, Rev 1:9)		Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)
1,260 days	The times of the Gentiles	250 days	790 days	250 days
Time (feast), Times (feasts), & the dividing (midst) of time (Dan 7:25, Dan 12:7)				
Feast (of Passover, Unleavened, Firstfruits)	The midst of the feast	Feasts (of Trumpet, Atonement, Tabernacles)		

(पेन्टेकोस्त दा दिन: पर्व दे बिच्च)

जहन्ना 7:14 ऐअब के बारे मेंदावत दे बिच्च यीशुमंदरे च चली गया ते सिखाया।

जहन्ना 7:15 ऐते यहूदी अचभित होईये ग् लादे हे।

इस मनुख गी अक्षरें गी किस चाल्ली जानना ऐ, जेड़ा कदें बी नेई सिक्खेआ?

जहन्ना 7:16 ऐयीशु ने उनेंगी जवाब दिता, “मेरा शिक्षा मेरा नेई, लेकन उदी ऐ जेका मिगी भेजेया ऐ।”

जहन्ना 7:17 ऐ जेकर कोई अपनी मर्जी गी पूरा करना चांहदा, तां ओह शिक्षा दे बारे च जानगा

चाहे परमात्मा दी होवे, या मैं अपने आप गी बोलना ऐ.

जहन्ना 7:18 ऐजेड़ा अपने आप गी बोलदा ऐ, ओह अपनी महिमा मंगदा ऐ;

जेस ने उसी भेजेया, ओह सच्च ऐ, ते उदे च कोई अधर्म नेई ऐ।

→कदूंपेंटेकोस्त दा दिनपूरी तरह आया, पवित्र आत्मा विश्वासियों दे घर भरी लेया

(प्रेरितों दे काम २:१-२), ते नर्मी शराब (रेमा) कन्ने भरोचे दे शब्द (लोगोस) गी पींदे हे।

- इस तयह, जो नवित्र आत्मा को नामा शै , उवके नास नयभात्मा शै , जो शै

परमातमा दा, उन्हा दा नहीं (प्रेरितों दे काम २:१३).

(२) ऐ.दिन (yôm, मजबूत दाएच 3117 ऐ) चउत्पत्ति 1:14 ऐस्ट्रॉना दा इक ही शब्द ऐजी2250 ने दी(hēmera) ग्रीक चा

- **दिन:** “दिन (hēmera)” मेंउत्पत्ति 1:14 ऐकि च इस्तेमाल कीता जंदा ऐप्रकासित 12:14 ऐ, दा संदर्भ दिंदा ऐ

“द स्वीकार कीताउचित समयलेईदिन दामुक्ति दा” (२करिन्थियों ६:२) जनानी दे बीज दे बचे दे वास्ते विच

प्रकाशितवाक्य 12:17 ऐ.

प्रकासित 12:14 ऐ बीउत उस जनानी गी दो (२)पंखइक बड्डे चील दा, ऐ

⁵⁵⁵ “[3] दानियल दे 70 हफ्तें” दा संदर्भ लैओ।

तां जे ओह जंगलै च उड़ियै अपनी थाह र पर जाई सकै, जिल्यें उसी पोशित कीता जंदा ऐ
इक वक्त (नियत समें, तीत 1:3 ऐ), ऐ¹⁵⁶³ ते²⁵⁴⁰तेबार (उचित समें), ऐ²⁵⁴⁰
तेअद्दा²²⁵⁵ इक वक्त (आधा बकाया वक्त), ऐ²⁵⁴⁰नाग दे चेहरे तौं

(आधा उचित समय)

→ ध्यान रखो जे 1 रैचर दा स्वीकार कीता गेदा समां 250 दिन पैहें गै औंदा ऐ बकाया दा आधा हिस्सा समां, 2 रैचर दे स्वीकृत उचित समें गी 250 दिनें तगर अमों बधादे होई
डैनियल दे 70वें हफते दा अंत.


रुकिरिन्थियों ६:२ (किजोकी ओह आखदा ऐ, "मैं थोड़ी देर च तेरी गल्ल सुनी ऐ"²⁵⁴⁰स्वीकार कीता, ते चदिन दा²²⁵⁰ मुक्ति दा
मैं तेरी मदद कीती ऐ;²⁵⁴⁰दिखो, हुन ऐ
दिन दा²²⁵⁰ मुक्ति दा.) ऐ।

→ कीजे जनानी गी 1260 दिनें तक जंगलै च पोशित कीता जाग,
 "एक वभम, वभम, औय आधा वभम" से प्रकासित 12:14 ऐइस चाल्ली व्याख्या कीती जाई सकदी ऐ
 "इक उचित समय, ऐउचित समय, तेआधा बकायासमां," आहला 1,260 दिन दा.

प्रकाशितवाक्य 12:6 उस बेले ओह जनानी जंगल च भागी गेई

कताहई^{धर}उसी पोशित करने आस्तै इक थाह र तैयार कीती हीलेई 1,260 दिन दा.

* "[3] डैनियल दे 70 हफतें" थमां



(३) ऐ. ब'रा (šānâ, मजबूत दाएच 8141 ऐ) चउत्पत्ति 1:14 ऐसमें दे बंड, समें दे माप, उम्र दे संकेत, जां...
जिंदगी दे सालते कनै गै मौसमें च बदलाव, जि'यां बसंत, गर्मी, गिरावट, ते सदी⁵⁵⁶

⁵⁵⁶H8141 - šānâ - मजबूत दा हिब्रू शब्दकोश (kjv)|" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 2 सितंबर, 2023।
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h8141/kjv/wlc/0-1/> दा नां ऐ।

- **बरी:** इक समां ('idān, मजबूत दाएच⁵⁷³² ऐ), समें, एच⁵⁷³² ते समें दा बंटवारा करना एच⁵⁷³² चदान 7:25 ऐ संदर्भित करदा ऐसालाना समांखांचामें वर्णन किया गयादान 4:16-32 ऐ.⁵⁵⁷

दान 7:25 ऐ इक होर राजापरमात्मा ('illay) दे खिलाफ गल्लां बोलग, एच 5943 ऐ
 ते परमात्मा ('elyôn) दे पवित्र संत गी घिसाई देग, एच 5946 ऐ
 ते समें गी बदलने दा इरादा रखग^{एच2166} ते कानून वी: 1^{एच1882}
 फिर पवित्र संत उंदे हत्थ च उसलै तकर देई दिते जांगनइक वक्त(एक साल, दान 4:23-25 ऐ)^{एच5732}
 तेबार(बरी)^{एच5732} तेबंटवारे दा(अद्दा)^{एच 6387} आहलासमां(बरा).^{एच5732}

- नए बाबुल राज्य (7वें राज्य) दा राजा मनुक्खें कोला भगाया जाग ते...
 ओह कन्नै गै रौहग जानवरें गी खेत दा ते सात (7) बारपास होगा (दान 4:23-25 ऐ).
 →सात (7)बार^{एच5732} डैनियल दे 70वें हफते दा संदर्भ दिदा ऐ या 7 साल दा डैनियल दे 70वें हफते दा,
 जिदे च संकट, टूटने दा समां (गैर-यहूदियां आस्तै), ते...
 बड़ी कष्ट दा.⁵⁵⁸

• **डैनियल दा 70वां हफता 7 साल दा क्यों ऐ?**

→“पवित्र संत गी इक समें, समें ते बडने तकर मसीह विरोधी दे हत्थ च दिता जाग
 समां(दान 7:25 ऐ)” ऐव्याख्या कीती जाई सकदी ऐ के “पवित्र संत मसीह दे विरोधी दे हत्थ च सौपी जांगन
 (अंत तक) तकाइक साल, साल ते आधा साल डैनियल दे 70वें हफते दा,” जो कि 7 साल दा.⁵⁵⁹

दान 9:24 ऐतुंदे लोकें ते तुंदे पवित्र नगर आस्तै सत्तर (70) हफते निर्धारित कीते गेदे न,
 उल्लंघन खत्म करने के लिये, पापें दा अंत करना, अधर्म दा प्रायश्चित करना,
 अनन्त धार्मिकता लाने के लिये, ऐ
 दर्शन ते भविष्यवाणी उपपर मुहर लाने आस्तै, अभिषेक करनापवित्र^{एच 6944} आहलापवित्र.^{एच 6944}

लेवी 25:8 ऐते तू सात (7)सब्त दे दिनआहलाबरी^{एच 8141} तेरे कोल,
 सात (7) बारी^{एच 6471} सात (7)बरी,^{एच 8141}
 ते सत्तें दा स्पेस (7)सब्त दे दिनआहलाबरी^{एच 8141}
 तेरे लेई चालीस (40 ऐ) ते नौ (९)बरी.^{एच 8141}

- 70 हफते दा: दानियल दे लोकें & पवित्र नगर आस्तै निर्धारित (दान 9:24 ऐ).
- 7सब्त दे साल = 7 साल दे 7 सब्त (7 x 7 = 49 साल दी) सारे (लेवी 25:8 ऐ).

→इस गल्ल गी दिक्खदे होई जे 7 साल दा 7 सब्त 49 साल ऐ, 1 साल दा 1 सब्त 7 साल दे बराबर ऐ,
 डैनियल दा 70वां हफता बनांदे होई (९ हफते दा) दे 1 सब्त दे बराबर 7 साल दा.⁵⁶⁰

* “[3] डैनियल दे 70 हफतें” थमां कैद कीता गेदा।

Tribulation		Great Tribulation		Armageddon
Daniel's 1st half of 70th week		Daniel's 2nd half of 70th week		
(John is partakers in Tribulation with his brethren, Rev 1:9)		Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)
1,260 days	The times of the Gentiles	250 days	790 days	250 days
Time (feast), Times (feasts), & the dividing (midst) of time (Dan 7:25, Dan 12:7)				
Feast (of Passover, Unleavened, Firstfruits)	The midst of the feast	Feasts (of Trumpet, Atonement, Tabernacles)		
3 1/2 years (Christ's 1st coming for the Gentile nations & the Jews)	The 1st rapture will occur at the end of the Tribulation (Mat 24:29-36)	3 1/2 years (The Jews & the remnants come in the name of the Lord, Mat 21:9, Rev 12:17)		

⁵⁵⁷ बारी 7 साल (दान 4:23-25 ऐ).

⁵⁵⁸वही।

⁵⁵⁹“[चित्र 13-1] 7 राज्य (दानियल दा सपना ते दर्शन)” थमां कैचर कीता गेदा ऐ।

⁵⁶⁰“[3] दानियल दे 70 हफते” दा संदर्भ लैओ।

- 3 3 जानवर राज्य: ग्रीस दा राजा, ओह बकरी
 4 4 जानवर राज्य: रोम दा राजा, छोटा सींग (मसीह विरोधी)

- ऐजियां बाबुल दे राज दे महान राजा नबूकदनेस्सर ने इक बारी यरूशलेम गी नष्ट करी ओडेया हा ते भविष्य दे नमें बाबुल राज्य (मसीह विरोधी) दे राजा यहूदा गी कैद च लेई गेया। महासंकट दे दौरान यरूशलेम गी नष्ट करी देगा 1st जानवर दा राज्य बधी गेदा हा 2 पशु राज्य (राम, दान 8:3 ऐ-4, ऐदान 8:20 ऐ), ते 3 जानवर राज्य च मजबूत होई गेआ (ओह बकरी, दान 8:8 ऐ), ते फिर 4वें जानवर राज्य च बेहद मजबूत होई गेआ जिस थमां मसीह दे विरोधी गी **चाहना** बाहर आओ (दान 7:24 ऐ).⁵⁶⁴

- पेड़: नव-बेबिलोन राज्य दा राजा नर्मी 7वीं दे राजा दा प्रतिनिधित्व करदा ऐ

बाबुल दा राजा इस चाल्ली बूहटे राजा दा प्रतिनिधित्व करदा ऐ नए 7वीं बेबिलोन दा राजजेड़ा सुर्ग दे बराबर मजबूत होग जिसदा प्रभुत्व उदे उप्पर होग धरती दे अंत च, जिसदे हेठ जानवर (मसीह विरोधी & झूठा भविष्यवक्ता) दे खेत वास करगेते मुर्गियां (शैतान) दे स्वर्ग च उंदे होंगन आवास (प्रकाशितवाक्य 13 ऐ, ऐप्रकासित 18:2 ऐ).

- समुंदर दा 1 जानवर नमें बाबुल दे 7वें राज्य च और, ते...
 जमीन दा 2 जानवर नमें रोमन राज्य (8वें दा) च और
 राज).

- ऐफिर भावना दी 1st जानवर "8वें (नमें रोमन) राज्य च कम्म करग" ते जाहर करना (मसीह दे विरोधी गी) पाप दा आदमी, ऐ जेड़ा अपने आप गी सारें कोलां उप्पर चुक्की लैग परमेसरे गी बुलाया ते उदे मंदर च पूजेआ जा, अपने आप गी इय यां दस्सदे होई ईश्वर (रथिस २:३-४ च, ऐप्रकासित 17:11 ऐ).

- ऐमसीह दे विरोधीके खिलाफ जंग बना देगा पवित्र संत गी, ते खलाफ प्रबल उनें (दान 7:21 ऐ), जदू तगर ओह दिनों का प्राचीन (मेमने दानी 721 ऐ) आ जांदा ऐ, ते इक फैसला होगाके पवित्र संतों को दी गई **the Most high** (ईश्वर), तेवक्त दा आएगा पवित्र संत लोके गी राज्य दा कब्जा करने आस्तै (दान 7:22 ऐ).

- ऐटीhen राज्य ते प्रभु, ते राज्यें दी महिमा सारा स्वर्ग हो जावेगा लोके गी दिता गेदा ऐ, परमात्मा दे संत (ईश्वर).
रब दारा जइक अनन्त राज ऐ, ते सब किश प्रभुत्व सेवा करग ते सुनग उसी (दान 7:27 ऐ).

- ऐउजाड़ दी घणित गल्ल (दानियल दे 70 हफते, दान ९:२४-२७ ऐ)

- (दान 9:2 ऐ5-27 ऐ **आरई-अनुवाद कीता गेदा**)

दान 9:25 ऐइस आस् ते जानना ते समझना।

कि यरूशलेम गी बहाल करने ते बनाने आस् ते आज्ञा दे जाने थमां लेइयै अभिषिक्त शासक तकर।

सात (7) हफ्तें दा, ते बासठ (62 ऐ) हफ्तें दा: 1।

गली फिर बनी जानी ऐ, ते खाई, पीड़ दे समें च बी।

दान 9:26 ऐते बासठ दे बाद (62 ऐ) हफ्तें दा, ऐमसीहा गी (अभिषिक्त) ^{रम4899 ऐ} कट जावेगा, पर अपने आस् ते नेई,

ते शासक दे लोक (मसीह दे विरोधी गी) जो आने आला ऐ, ओह पवित्र नगर दा नाश करग।

उदा अंत जल-प्रलय कन्ने होग, ते... उजाड़ होनेयुद्ध दे अंत तकर तय कीते गेदे ना।

दान 9:27 ऐते ओह वाचा गी मजबूत करग ^{रम1285 ऐ} कई दे नालइक (1) हफता;

ते हफते दे आधे (1/2) च बलिदान ते बलिदान गी बंद करी देगा।

के पंख पर **घणित कामें** आऊगा जो बनांदा ऐ उजाड़, ऐ

⁵⁶⁴ [चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर" दिक्खो।

जदू तकर जे अंत निर्धारित कीता गोदा ऐ, उदे उप्पर उंडेल नेई दिता जंदा।

→ दानिय्येल दा 70वां हफता (पिछला इक हफता) दानिय्येल दी भविष्यवाणी दा आखरी साल ऐ जिस च शामिल ऐ संकट (3.5 साल) दा), टूटने दा अवधि (जदू तकर उजाड़ दी घृणित चीज स्थापित नेई होई जंदी), ते महान संकट (3.5 साल) दा।⁵⁶⁵

- ऐमसीहा दा 1 हफते (या 7 साल) तकर मते सारें कन्ने वादे गी हावी होग, ते कारण बलिदान ते चढ़ावा (पुराने नियम दी) गी उंदे सूली उप्पर चढ़ाने ते जी उठने दे जरिए अपने (1/2) दे हफते दा.

- ऐवाचामतलब कटना, एच1262^र आकाश ते धरती ते मनुख पैदा करने आस्तै कटने दे अर्थ चा⁵⁶⁶ के आने के जरिए मसीहा गी, पुराने नियम दे लोक नर्मी सृष्टि बनी जांगन नए नियम दे तहत (इब्रानियों ९:११-१५), “किजोकी जित्थे वसीयत होवे, उधे वी जरूरी होवेगी दी मौत दावसीयत करने आला (इब्रानियों ९:१६).”

- ऐपुराने नियम च, ईश्वर अब्राहम ने वादा कित्ता कि ओ इक भेड़ (स्ट्रॉन्ग दी एच 7716 ऐ), ते परमेसरे अब्राहम गी इक मेढा चढ़ाया एच 352 ऐ (नर भेड़) इसहाक दी जगह होमबलि दे रूप च. में मेमना पुराने नियम (परानाओ 12:4-11 च) हामसीह, जो बन गया मेमने दादे वास्ते नवे नियम विच प्रभु दा फसह दा दिन अधर्म दा प्रायश्चित करना (१ कुरिनथियों ५:७).

→ मसीहा दा आया ते घृणित चीजें गी उजाड़ करी दिता, ते ओह उसलै तकर इयां गै करदा रौह्य युद्ध दा अंत, या दानिय्येल दे 70वें हफते दा अंत, जो लोग ते पवित्र शहर दे वास्ते निर्धारित कित्ता गया।

→ शासक दे लोक, जेड़े पवित्र नगर गी नष्ट करने आस्तै औंगन, ओहू होंगन मसीह दे विरोधी गी⁵⁶⁷ या राजा दी इक विश्व सरकार दी 1st beast (दान 7:25 ऐ, ऐप्रकासित 13:7 ऐ) जिसगी अधिकार दिता जाग निंदा करने के लिये 42 महीने दा (प्रकासित 13:5 ऐ).

➤ जमीन उप्पर यीशु दी 3.5 सेवा

यीशु लगभग 30 साल दा हा, जदुं उन् ने जमीन उप् पर सेवा शुरू कित्ती (लुका 3:23 ऐ), ते उंदे कोल 3 फसह हे:

→ (१) पैहला साल विच जहन्ना 2:13-25 ऐ, (2) दूजे साल विच जहन्ना 5:1, (3) त्रीया साल च जहन्ना 6:4 ऐ, ते (४) चौथे विच जहन्ना 12:1, जो साल दे मध्ये विच आ जांदा।

→ इस आस् ते, जमीन उप् पर यीशु दी सेवा दी कुल लंबाई 3.5 साल दे रूप च जानी जंदी ऐ⁵⁶⁸

- ऐ १, २९० दी १, ३३५ दिन दा

(दान 11:31-38 ऐ दुबारा अनुवाद कीता गोआ)

दान 11:31 ऐ सशख बल उंदे पाससे खड़ोते दे होंगन, ते ओह ताकत दे अभयारण्य गी प्रदूषित करंगन।

ते लेई जाह्य निरंतर दी^{एच 8548^र} बलिदान, ते रखेगा उजाड़ दी घृणित चीज.

→ वादे दे बिच्च (दान 9:27 ऐ) दा मतलब ऐ डैनियल दे 70वें हफते दे मझाटले हिस्से गी यानी धरती उप्पर यीशु दी सेवा दे 3.5 सालें दे बाद ते महान संकट दी शुरुआत दे बीच जेड़ा... बड़ी निकट भविष्य च रेचर घटना दे ठीक बाद होगा।

ताकत दा अभयारण्य पवित्र संत दे पवित्र स्थान (शरीर) दा मतलब है जिन्हां ने... नमें नियम च यीशु दी मौत ते जी उठना यीशु दी मौत ते जी उठना नए के

⁵⁶⁵“(3) दानिय्येल दे 70 हफते” दा संदर्भ लैओ।

⁵⁶⁶वीडियो 21. “वादा, बाहर दा खतना, अंदर दा खतना।”

www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-वादे-बाहर-खतना-अंतर-खतना/.

⁵⁶⁷“मसीह विरोधी” दे विस्तार दे वास्ते, अध्याय 3, “एफ. तुहाडे आने दा (प्रभु दे आने दा) की निशानी होग?”

⁵⁶⁸“(3) दानिय्येल दे 70 हफते” जां वीडियो 10 दा संदर्भ लैओ।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-दिन-पैहले-फसह-दे-त्योहार/.

वसीयत दाकि ले लिया निरंतर दीबलिदानपुराने नियम दा, पर एह प्रदूषित होई जाग, ते निरंतर दीबलिदानसशस्त्र बलें लेई जांगना।

- ताकत दा अभयारण्य (ओहबीमरे दे जी उठने आस्ते dy) नवे नियम दे: 1। प्रदूषित हो जाएगा।
- निरंतर बलिदान दीपुराने नियम दा: लेई जाओगे।

उजाड़ दी घृणितके लरए सेट ककमा जामेगा १,२९० दिन दा, जिस च 1,260 दिन प्लस शामिल न आरमागेडोन (1,260 + 30 = 1,290 दिन)⁵⁶⁹

दान 12:11 ऐते उस वेले तों कि रोज (लगातार)^{एच 8548} बलिदान हटया जावेगा, ऐ तेघृणित कामकि बनांदा ऐउजाड़सेट अप, ऐ इक हजार दो सौ नब्बे दिन होंगन (१,२९० दिन दा)।

→ फिर, जो इंतजार करदे ने ते आंदे ने 1,335 दिनें दा या इक अतिरिक्त 45 दिन (1,335 – 1,290 = ... 45 दिन दा) आशीर्वादित होंगन कीजे ओह इक 1000 साल च दाखल होंगना।

दान 12:12 ऐधन्न ऐ जेड़ा इंतजार करदा ऐ। ते हजार त्रै सौ पंज तीस दिनें तकर औंदा ऐ (१,३३५ दिन दा)।

मसीह विरोधी अपने आप गी सारें कोला बड्डा बधाग

दान 11:32 ऐजेडे वादे दे खिलाफ बुराई करदे न, उनें गी चापलूसी कन्ने गंदा करग।

पर ओह लोक जेके उंदे जानदे हनईश्वर ('एलोहिमा') मजबूत होग ते करग (उसदा विरोध करो)।

दान 11:33 ऐलोकें च ज्ञानी मते सारें गी समझा देग;

फिरी बी मते दिनें तकर ओह ज्वालामुखी तलवार कन्ने, कैद ते लूट कन्ने डिग्गी जांगना।

दान 11:34 ऐजदुं ओह गिरन, तां उनें गी थोहड़ी-बहुत मदद मिलनी ऐ; लेकिन मते सारे चापलूसी कन्ने उंदे कन्ने जुडी जांगना।

दान 11:35 ऐकुछ ज्ञानी गिर जांगन, तां जे ओह परिष्कृत, शुद्ध ते सफेद होई जा

अन्त दे समें तकर, कीजे अजें बी नियत समें आस् ते ऐ।

दान 11:36 ऐराजा अपनी मर्जी दे मताबक गै करग, ते अपने आप गी उच्चा करग ते अपने आप गी उच्चा करग

हर देवता (एल), देवताएं दे देवता (एल) दे खिलाफ अद्भुत गल्लां बोलग (एल), ते करगे

जदुं तकर गुस्सा पूरा नेई होई जंदा, तां तकर फलदा-फूलदा रौहओ, कीजे जे किश होई गेदा ऐ, ओह गै होई जागा।

दान 11:37 ऐओह बी नेई समझग परमातमा दा ('एलोहिमा') अपने पिताएं दी न खियां दी इच्छा दा,

ना ही देवता (ĕlôha) गी समझना; कीहके ओह अपने आप गी उंदे सारें कोलां बड्डा बनागा।

दान 11:38 ऐअपनी जागीर च, ओह ताकत दे इक परमात्मा ('ĕlôha) दा आदर करग; ते इक देवता (ĕlôha) उंदे पिता ने कीता

ना जानना; सोने, चांदी, पिछले पत्थरें ते सुखद चीजें कन्ने आदर करग।

→ प्रभु, सारे शरीर दा परमात्मा, अद्भुत कम्म करदा ऐलोगो दा, इसे बदलते हुए

रेमा दा, परमसीह दे विरोधी गीवचन दे खिलाफ बोलेगा (रेमा दा) परमात्मा दाते

सच्चे दी निंदा करोईश्वर.⁵⁷⁰ जदुं तकर गुस्सा पूरा नेई होई जंदा, तदुं तकर ओह तरक्की करग;

- कीजे जेहड़ा निर्धारित कीता गेदा ऐ, उसी गै कीता जाग (दान 11:36 ऐ)।

- ऐ 2300 शामतेसवरे सवरे (पवित्र संत 2300 दिन तक धर्मी किता जांगन)

दान 8:9 ऐते उन्दे च इक कोला निकली आया थोड़ी सी सींग, जो मोम से अत्यन्त बड्डा हो गया,

दक्षिण ते पूरब दी ओर,

ते सुखद दी तरफ ^{एच 6643} जमीन (इसाएल दी सुन्दर धरती)।

दान 8:10 ऐते सुर्ग दी सेना तकर बड्डा होई गेआ; ते

इस ने किश सेना ते तारे गी जमीन उप्पर सुडी दित्ता।^{एच 776} ऐ

⁵⁶⁹“[3] डैनियल दे 70 हफ्ते” च दित्ते गेदे चार्ट दा संदर्भ लेओ।

⁵⁷⁰वीडियो 31. “परमातमा दे वास्ते इक नासरी” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-एक-नजरी-देव-दे-सिर-के-बाल/.

ते उंदे उप्पर मुहर लगाई दिती।

दान 8:11 एहां, अने अपने आप गी सेना दे राजकुमार तकर बड़ा कित्ता।

ते उदे द्वारा रोजाना (लगातार)^{एव 854 रे} बलिदान हट गया, ऐ

ते उदे पवित्र स्थान दी जगह^{एव 4720 रे} नीचे फेंक दिया गया.

दान 8:12 ऐते उसी इक मेजबान देई दिता गेआ

दे खिलाफ रोजाना (लगातार)^{एव 8548 रे} अपराध दे कारण बलिदान, ऐ

ते ओह थल्ले सुडी दिता सच्चाई दाजमीन (धरती) ते);^{एव 776 रे} ते अमल करदा रेया, ते फलदा-फूलदा रेहा।

दान 8:13 ऐफिर मैं इक संत गी बोलदे सुनेया, ते दूए (पवित्र) संत गी^{एव 6918 रे}

उस संत गी आख्या, जेड़ा बोलदा हा।

किन्नी देर तक दर्शन दे बारे च होग ओह रोजना (लगातार) बलिदान, ऐ

ते उजाड़ दा उल्लंघन, ऐ

दोनों दे देना अभयारण्य (पवित्र संत गी)^{एव 6944 रे} ते मेजबान परें हेठ रौदना?

दान 8:14 ऐते उन मिगी आख्या, “

दो हजार त्रै सौ (२,३०० दी) दिन (शाम ते सवेरे),^{एव 6153 एव 1242 रे}

अदुपवित्र स्थल (पवित्र संत गी)^{एव 6944 रे} शूद्ध हो जाओ (बनाए दा धर्मी).^{एव 6663 रे}

(उजाड़ दा उल्लंघन)

→ छोटा सींग सेना दे राजकुमार गी बी अपने आप गी बड़ा करग, ते दी जगह गी उतारग

उंदी अभयारण्यते सच्चाई धरती गी।^{एव 776 रे}

→ निरंतर बलिदान दी, ऐ उजाड़ दा उल्लंघन, ते

दोनों दा देना पवित्र संत गी ते मेजबान दा परें थल्ले रौद दिता जाग

को **2300 शाम ते सवेरे सवेरे**;

→ अदुपवित्र संत लोग बनाई जाएगी धर्मी.

➤ 2300 दिन दी सही व्याख्या^{एव 615 रे एव 1242 रे} **2300 शाम ते सवेरे सवेरे**.^{एव 1242 रे}

उत्पत्ति 1:5 ऐते ईश्वर ज्योति कहा^{एव 216 रे} दिन, ऐ^{एव 3117 रे} ते न्हेंरे दा^{एव 2822 रे} उसने रात गी बुलाया.^{एव 3915 रे}

ते **शाम गी**^{एव 6153 रे} ते **सवेरे दी**^{एव 1242 रे} पहले दिन थे।^{एव 3117 रे}

- टीओह न्हेंरे= रात
- रोशनी दी= दिन (शाम गी+सवेरे दी)

→ **उत्पत्ति 1:5** ऐ “दिन” गी परिभाषित करदा ऐ **शाम गी ते सवेरे दी**.

- ध्यान रक्खो जे परमात्मा दे सृष्टि दे पैह्ले छह दिनें च हर इक दिन “**शाम गी ते सवेरे दी**.”

- पर भगवान दा 7वां दिन (**उत्पत्ति २:२**) दी सृष्टि दा “**बाकी+आशीर्वाद दे+पवित्र करना**”.

→ जिंयां “[चित्र 12-ख]” च दस्सेआ गेदा ऐ, “**ब'रा**(šānâ, मजबूत दा एच 8141 ऐ)” च **उत्पत्ति 1:14** ऐ बंटवारे दे तौर उप्पर इस्तेमाल कीता जंदा

वक्तु दा, समें दा माप, उग्र दा संकेत, जां जीवन दे सालें दे कन्नै-कन्नै मौसमें दे बदलाव,

जिवें बसंत, गर्मी, गिरावट, ते सर्दियां.⁵⁷¹

7 बार^{एव 5732 रे} (**डी** इक ४:२२ दा) दा मतलब ऐ डैनियल दे 70वें हफते या **7 साल** दा डैनियल दे 70वें हफते दा, जो क्लेश, ब्रेक दा समां (गैर-यहूदियां आस् ते) ते महान संकट शामिल ना⁵⁷²

2300 शाम दी ते सवेरे सवेरे (1,260 + 220 + 30 + 790 दिन) जिस च आंशिक रूप कन्नै शामिल ऐ डैनियल दे 70वें हफते दे 7 साल, निम्नलिखित “[चित्र 12-ग]” च तोड़े गेदे ना

⁵⁷¹H8141 - šānâ - मजबूत दा हिब्रू शब्दकोश (kjv)। नीले अक्षर बाइबल। अभिगमन तिथि 2 सितंबर, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h8141/kjv/wlc/0-1/> दा नां ऐ।

⁵⁷² “[चित्र 12-ख] इक समें ते समें ते (आधा समें, समें दा बंड, जां आधा) दिक्खो।”

(नोट: उस वक्त तौ 1,290 दिन है, जिस वेले लगातार बलिदान हटाया जावेगा, ते घृणित चीज जेड़ी उजाड़ करदी ऐ, उसी खड़ोती दी ऐ, लेकिन धन्य ऐ जेड़ा इंतजार करदा ऐ, ते आंदी ऐ 1,335 दिनें च, [दान 12:11 ऐ-12 वा](#)).

[चित्र 12-ग] 2,300 शाम ते सबेरे

Tribulation		Great Tribulation			Armageddon
Daniel's 1st half of 70th week		Daniel's 2nd half of 70th week			
(John is partakers in Tribulation with his brethren, Rev 1:9)		Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)		Wrath of God (Rev 16)
1,260 days	The times of the Gentiles	250 days	790 days	250 days	
Time (feast), Times (feasts), & the dividing (midst) of time (Dan 7:25, Dan 12:7)					
Feast (of Passover, Unleavened, Firstfruits)	The midst of the feast	Feasts (of Trumpet, Atonement, Tabernacles)			
3 1/2 years (Christ's 1st coming for the Gentile nations & the Jews)	The 1st rapture will occur at the end of the Tribulation (Mat 24:29-36)	3 1/2 years (The Jews & the remnants come in the name of the Lord, Mat 21:9, Rev 12:17)			Armageddon
1,260 days	The transgression of desolation (Dan 8:13)	220 days	30 days	790 days	220 days 30 Days
The continual sacrifice (Dan 8:13)		The holy saints & the host trodden under foot (Dan 8:13)			shortened

([प्रकाशितवाक्य 12:15-16 ऐ](#)) अजगर दे मुंह तौ बाहर कड़डी गेदी बाढ़ गी जमीन ने निगल लेया

[प्रकाशित 12:15 ऐ](#) ते नाग ने अपने मुंह च पानी बाढ़ (नदिया) दे समान कड़डी दिता। [4215 ऐ](#) जनानी दे बाढ़, ऐ तां जे ओह् उसी जल-प्रलय च लेई जा।
[प्रकाशित 12:16 ऐ](#) ते धरती (जमीन) [1093 ऐ](#) उस जनानी दी मदद कीती, ते धरती (जमीन) ने [1093 ऐ](#) मुंह खोला, ते अजगर ने अपने मुंह चों जेड़ा बाढ़ सुट्टी दिता हा, उसी निगल लेया।

- ☞ [प्रकाशित 12:15 ऐ](#) ते नाग ने उस जनानी दे पिच्छे बाढ़ दे समान अपने मुंह कोलां बाहर कड़डी लेया। तां जे ओह् उसी जल-प्रलय च लेई जा।
- ☞ [प्रकाशित 12:16 ऐ](#) एपर जमीन ने उस जनानी दी मदद कीती, ते जमीन ने मुंह खोली लेया ते बाढ़ गी निगल लेया जिसगी अजगर ने अपने मुंह चों कड़डी दिता।
- अजगर दे मुंह च बाढ़ मिख दे राजा फिरौन दी नदियें थमां अशुद्ध आत्माएं दा बाढ़ ऐ ([प्रकाशितवाक्य 16:13 ऐ](#)).
- अजगर दे मुंह तौ बाहर निकलने आली बाढ़ दा संबंध 6वीं सील दी महान नदी यूफ्रेटिस नाल किर्वे है [प्रकाशितवाक्य 16:12-14 ऐ](#).

([प्रकाशितवाक्य 12:17-18 ऐ](#)) गुस्से च अजगर उस जनानी दे बीज दे बचे दे बचे दे कन्ने युद्ध करने चली गेआ

[प्रकाशितवाक्य 12:17 ऐ](#) ते अजगर गुस्सा (गुस्से) हो गया। [3710 ऐ](#) जनानी दे नाल, ते अपने बीज (शुक्रा) दे बचे दे लोकें कन्ने लड़ाई करने चली गई। [4690 ऐ](#)
जेड़े परमात्मा दे हुक्में गी मनदे न, ते गवाही (गवाही) रखदे न [3141 ऐ](#) यीशु मसीह दा.

- ☞ [प्रकाशितवाक्य 12:17 ऐ](#) ते अजगर उस जनानी उप्पर गुस्सा आया। ते ओह उदे बचे दे लोकें कन्ने लड़ने आस् ते चली गया [बीज \(शुक्राणु\)](#), ऐ जो दे हुक्म गी मनदे न [ईश्वर](#) ते गवाही होवे [यीशु मसीह](#).

† उस जनानी (स्वर्गीय यरूशलेम) गी जंगल च पोशित कीता गेदा हा [इक वक्त तेवारते आधा वक्त](#) ([प्रकाशित 12:14 ऐ](#)) वादे दे बीज दी कल्पना कीती ([मसीह](#)) उसदे अवशेष च [बीज दे \(शुक्राणु\)](#), जिने के हुक्म मनदे [ईश्वर](#) के गवाह दे तौर पर [यीशु मसीह](#). बचे दे ओह गै होडन, जिनें गी अपने उद्धार आस् ते धरमी दे फल गी बघाया ऐ, ते परमेसरे उनें गी इस दौरान जंगलें च खिलाने आस् ते तैयार कित्ता ऐ [बड़ी कष्ट दा](#).

[प्रकाशित 12:18 ऐ](#) (फुटनोट्स दिक्खो: किश अनुवादें च ग्रीक मुहावरे गी जिंयां दर्शाया गेदा ऐ "ओय भैं समुंदर की रेत नय खडा था" भैं [प्रकाशितवाक्य 12:17 ऐ](#), [प्रकाशित 12:18 ऐ](#), [जां प्रकाशित 13:1 ऐ](#).) ऐ।

(प्रकाशित 13:1 ऐ) समुंदर तों बाहर 1st जानवर (7 सिर, 10 सींग, & 10 मुकुट निंदा करने आला नाम कन्ने)

प्रकाशित 13:1 ऐते मैं समुंदरे दी रेत उप्पर खड़ोते दा इक जानवर उप्पर उठदे दिक्खेआ^{#305}समुंदर दे बाहर, सात (7) सिर ते दस (10) सींग, ते ओस दे सीगें उप्पर दस (10) मुकुट (मुकुट) होंदे न,^{#1238 ऐ} ते उंदे सिरें उप्पर निंदा दा नां ऐ।

☞ प्रकाशित 13:1 ऐ टीhen मैं (यूहन्ना) समुंदरे दी रेत उप्पर खड़ोते दा हा, ते इक जानवर गी उडुदे दिक्खेआसमुंदर दा, ऐ सात होने वाले (7)सिरेंते दस (10)सींग, ते (10)मुकुटें दा उंदे सीगें उप्पर, ऐ तेइक निंदा करने आला नांउंदे सिरें उप्पर.

• 1st बीस्ट दा(समुद्र तों बाहर)

- ऐ7 सिरें: 7 ऐराजांआहला 7 पहाड़ें (राज्यें दा) जिस उप्पर बड़ी वेश्या बैठी दी ऐ (प्रकाशित 17:9 ऐ).
- 10 ऐसींग: 10 ऐराजांजो इस राज विचों उठेगा(दान 7:24 ऐ), पर उंदे कोल अजें तकर कोई राज नेई ऐ (प्रकाशित 17:12 ऐ).
- ऐ10मुकुटें दा: 10 सींग (10 राजा) कि है10 मुकुट, कन्ने उंदे सिरें उप्पर इक निंदा करने आह्ला नांऽ ऐ (प्रकाशित 13:1 ऐ).

(प्रकाशितवाक्य 13:2) समुंदर दे बाहर 1st जानवर (एक तेंदुआ, इक भालू, & इक शेर)

प्रकाशितवाक्य 13:2ते जेड़ा जानवर मैं दिक्खेआ हा, ओह तेंदुआ दे समान हा, ते ओस दे पैर भालू दे पैरें दे समान हो ते उदा मुंह शेर दे मुंह दे समान, ते अजगर ने उसी अपनी शक्ति देई दित्ती ते उदी आसन (सिंहासन)^{#2362 ऐ}ते बड्डा अधिकार।

☞ प्रकाशितवाक्य 13:2ते जेड़ा जानवर मैं (यूहन्ना) दिक् खेया हा, ओह उंवां गै हाइक तेंदुआ, ऐ उंदे पैरें दे पैरें दे समान हेइक भालू, ते उंदा मुंह दे मुंह दे समानइक शेर. अजगर दाउसे (1 जानवर) अपनी शक्ति दे दी, उंदा सिंहासन, ते बड्डा अधिकार।

• टीओह अजगर(1st) जानवर गी समुंदर थमां बाहर कड्डा दित्ताओहदाताकत, ऐगदी पर बैठे, तेबड्डा अधिकार.

- समुंदर दे 1 जानवर दे 7 राज्य (बाबुल, मादी, फारसी, यूनान सिकंदर दे अधीन महान, सिकंदर दे जनरलें दे अधीन ग्रीस, रोम, नमें बाबुल, ते नमें रोमन).⁵⁷³
- 1 जानवर बाबुल (एक शेर), मादी-फारसी (एक भालू) दे राज्यें उप्पर राज करदा ऐ,इकंद ग्रीक (एक तेंदुआ). साथ ही, इस 1st जानवर गी अजगर दी शक्ति, सिंहासन, ते बड्डा अधिकार दित्ता गेदा ऐ।⁵⁷⁴

➤ टीओह 1st जानवर(नवे बाबुल दा)

- अथाह गड्डे दा राजा जो स्वर्गदूत दा नाम हैअपोलियन ने दी, मतलब विनाश या विध्वंसक.⁵⁷⁵
- ऐटीमुर्गी, 1st जानवर जो समुंदर तों निकलेगा, धरती ते 4वें राज्य दा 4वें जानवर है, या... रोमन राज्य दा, ऐ जेड़ा बाकी सारे राज्यें कोला बक्ख ऐ, ते सारी धरती गी खाई लैग, उसी रौंदग ते तोड़ी देग इसे टुकड़े टुकड़े में (दान 7:23 ऐ).

→ टीउन्दा 1st जानवर ऐभयानक, ऐडरौना, तेबेहद मजबूत लोहे दे बड्डे-बड्डे दांत ते कांसे दे कीलें कन्ने,

⁵⁷³“[चित्र 13-3] दानिय्येल ते प्रकाशितवाक्य च जानवर।”

⁵⁷⁴वही।

⁵⁷⁵संदर्भ देनाप्रकाशितवाक्य ९:११.

होना **10 सींग** (दान 7:7 ऐ, ऐदान 7:19-20 ऐ).

- ऐमसीह दे विरोधी “नवे बाबुल” दा राजा बण जावेगा। (मसीह विरोधी दानाम निर्दिष्ट कीता गेदा ऐ

[प्रकासित 13:18 ऐ](#)).

- ऐमसीह दे विरोधी लूसिफर दा होग, ⁵⁷⁶ते बेलियाल (विनाशक, ध्रुवीय विपरीत) दा समर्थन कीता जा [आहला मसीह](#)). ⁵⁷⁷

(की खुलासा करना मसीह दे विरोधी गी ते झूठे नबी दा जरिया प्रभु यीशु मसीह दा आना हत्ये च ऐ)

[रथिस २:११](#) भ्राओ, अस तुं दे आने कन्ने विनती करने आं [प्रभु यीशु मसीह](#), ऐ
ते साड़े उदे कोल इकट्टे होने कन्ने।

[रथिस २:](#) रकि तुस्सी जल्दी ना हिल जाओ, ते ना घबरा जाओ।

ना आत्मा दे द्वारा, ना शब्द (लोगोस) दे द्वारा, ³⁰⁵⁶ना ही पत्र (पत्र) दे द्वारा ¹⁹⁹²ने क्विं साडे कोलों, ऐ
जिवें किके [दिन मसीह](#) हत्ये च ऐ.

[रथिस २:](#) कोई तुसें गी कुसै बी चाल्ली धोखा नेई दे, कीजे ओह दिन नेई औग।

सिवाय उथे इक गिरना आना ([धर्मत्याग](#)) ⁶⁴⁶पैहला, ऐ

ते कपाप दा आदमी (मसीह विरोधी) प्रगट हो जावे, ऐनाश दा पुत्र (झूठा नबी);

[रथिस २:](#) जेड़ा विरोध करदा ऐ ते अपने आप गी सारें कोलां बड्डा करदा ऐ [ईश्वर](#), या जिसदी पूजा कीती जंटी ऐ;

तां जे ओह जिना [ईश्वर](#) के मंदिर में बैठा है [ईश्वर](#), अपने आप गी दस्सदे होई जे ओह [ईश्वर](#).

[रथिस २:](#) तुसें गी याद नेई ऐ के जदुं मैं तुदे कन् ने हा, तां मैं तुसें गी एह गल् लां ग् लाया हा?

[रथिस २:](#) ते हुन तुस जानदो ओ के ओह अपने समें च प्रगट होने आस् ते केह रोकदा ऐ।

[रथिस २:](#) ऐ अधर्म दे रहस्य दे वास्ते ⁴⁵⁸

पैहलें गै कम्म करदा ऐ;

- 2 चीजां दे आने तों पहलां प्रगट होनीयां प्रभु यीशु मसीह गी

→ साडे आने दे बारे च प्रभु यीशु मसीह ते अस किस चाल्ली उंदे कोल इकट्टे होई जागे, करो

जदुं बी कोई एह ग् लांदा ऐ, तां आत् मा, लोगो ते प्रेरितें दे पत्र कन् ने परेशान नेई होओ

[मसीह दा दिन](#) हत्ये च ऐ, [बी](#) because प्रभु यीशु मसीह गी फॉलोइंग होने से न्हरे नशी आमेगा

दो (2) गल्लां प्रगट होंदियां न:

(१) ऐ. धर्मत्याग, ते

(२) ऐ. [पाप दा आदमी](#) (मसीह दे विरोधी), ऐ ⁵⁷⁸ [नाश दा पुत्र](#) (झूठा नबी, [प्रकाशितवाक्य 19:20](#)). ⁵⁷⁹

→ [मसीह दे विरोधी 1st](#) जानवर दे वास्ते ⁵⁸⁰ पाप दा आदमी है जो विरोध करदा है ते अपने आप नू सब तों उपर उच्चा करदा है

परमात्मा गी बुलाया, ते विनाश दे पुत्र (झूठे) दे जरिए जमीनी निवासियें दी पूजा कीती जा

[2nd](#) जानवर दा पैगम्बर):

- अधर्म दा एह रहस्य पैहलें गै कम्म करदा ऐ, पर जेहड़ा उसी रोकदा ऐ, ओह तदू तक गै करग, जदू तक ओह नेई होग

रास्ते से हट गया ([रथिस २:७ ऐ](#)).

(बेकायदा प्रगट हो जावेगा)

[रथिस २:](#) ते फिर ओह दुष्ट (कानूनहीन) ⁴⁵⁹ प्रगट हो जाओ,

कुसी प्रभु अपने मुंह दी आत्मा कन्ने भस्म करी देग, ऐ

ते चमक (प्रकट) नाल नाश कर देगा ²⁰¹⁵ उंदे आने दा: 1।

[रथिस २:](#) उसी भी, जिसके आना

शैतान दे कम्म करने दे बाद ऐ ⁴⁵⁶⁷ अंदर ¹⁷²² सारी ताकत ¹⁴¹¹ ते निशान ते झूठे अजूबे, ऐ

→ फिर बेकायदा (1 जानवर दा) प्रगट होवेगा, पर प्रभु उपभोग कर देगा उसी दी भावना दे नाल

⁵⁷⁶“[प्रकाशितवाक्य 6:7-8 ऐ](#) 4वीं सील दा खुलना, ऐ” ते “[चित्र १३-४] बाबुल दा बड्डा शैहरा”

⁵⁷⁷“[प्रकाशितवाक्य १८:५-८](#) बाबुल दे पापें दा न्याय प्रभु परमात्मा करदा ऐ,” ते “[चित्र 13-4] बाबुल दा बड्डा शैहरा”

⁵⁷⁸मसीह विरोधी दा नां च निर्दिष्ट कीता गेदा ऐ [प्रकासित 13:18 ऐ](#).

⁵⁷⁹संदर्भ देना [प्रकासित 17:11 ऐ](#) ते “[चित्र १३-४] बाबुल दा बड्डा शैहरा”

⁵⁸⁰“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दा संदर्भ लैओ।

उसके मुंहते उदे आने दे प्रगट कन्ने उसी नष्ट करो.

→ बेकायदा (1 जानवर दा मसीह विरोधी) दा आना⁵⁸¹ सारें च शैतान दे कम्म करने दे बाद ऐ ताकत, निशान, ते झूठे अजूबे. अजगर 1st जानवर गी अपनी शक्ति, अपना सिंहासन, ते महान देग अथार्टी (प्रकाशितवाक्य 13:2).

फिर, अजगर दी तरह बोलने आला 2 जानवर झूठे द्वारा 1 जानवर दे सारे अधिकार दा प्रयोग करग नबी, ते बड़डा करदा ऐसकेत दे, बनाना भी अगदी नज़र च सर्ग थमां जमीन उपर उतरो पुरुष (प्रकाशित 13:13 ऐ), जो जमीनी वासी गी धोखा देगा उसदे बाद ओहू जमीनी रौह्ने आहूँ गी बनाना आखग दी इक छवि (2nd) जानवरते जानवर दी निशानी पा के जानवर दी मूर्ति दी पूजा करो. नेई ते मारी दिते जाडन (प्रकाशितवाक्य 13:14-16 ऐ).

(प्रकाशित 13:3 ऐ) 7 सिरें च इक (रोमन राज्य) गी मारी दित्ता गेआ पर ठीक होई गेआ (नमां रोमन राज्य)

प्रकाशित 13:3 ऐते में उदे इक सिर गी जखमी (हत्या) दे रूप च दिक्खेआ।⁴⁹⁶⁹ मौत तक;
ते ओस दा घातक जखम (प्लेग)⁴¹²⁷ ठीक हो गया:
ते सारे संसार (जमीन वासी)¹⁰⁹³ आश्चर्यचकित (अचभित)²²⁹⁶ (फॉलो) दे बाद³⁶⁹⁴ ¹⁷²² जानवर गी.

प्रकाशित 13:3 ऐ इकंद में (यूहन्ना) ने (7) सिरें च इक गी दिक्खेआ जेड़ा उसी मारी दित्ता गेदा हा, ते उंदा घातक जखम ठीक होई गेआ।

इकंद सारे (निवासी) जमीन च आश्चर्यचकित होई गे ते (2nd) जानवर दे पिच्छे चली पो

- 1 (बेबिलोन) राज्य गी 2 (मादी-फारसी) राज्य च सौपी दित्ता गेआ
दान 5:25 ऐते एह लिखे दा हा, मेने, मेने, टेकेल, उफरसीना
दान 5:26 ऐ इस गल्ल दी व्याख्या ए ऐ।
मेने; ईश्वर ('एला')⁴²⁶ तेरे राज गी गिनिये खत्म करी ओड़ेया.
दान 5:27 ऐ तकेल दा; तू तराजू च तौलदे ओ, ते कमी (अभाव) पाईये।²⁶²⁷ ऐ
दान 5:28 ऐ पेरेस दा; तेरा राज बंटी गेदा ऐ, ते मादी ते फारसी गी दित्ता गेदा ऐ।
- दी 1 वी (बेबिलोन), 2 (मैडो-फारसी), 3 (ग्रीक), & 4 (रोमन) राज्य
बाबुल दा (1 राज्य) बंट के मादी ते फारसी (2 राज्य) गी दित्ता गेआ,
जो बाद च ग्रीस दे राजा (तीसरा राज्य, दान 8:21 ऐ), ते फिर रोमन (4वीं
राज) उसदे बाद सत्ता च आई गे⁵⁸²
- 4वीं दी (रोमन) राज्य (2 चरणें च बंडडे दा)

पैह्ने दा & रोमन राज्य दे बाद दे चरण

(दान 2:40 ऐ ते चौथा राज लोहे दे समान मजबूत होग, कीजे लोहे दे टुकड़े-टुकड़े होई जंदा ऐ ते...

सारे चीजें गी अपने वश च करदा ऐ;

पैह्ने दा चरण

→ 4वें (रोमन) राज्य दा पैह्हा चरण, जेहड़ा लोहे दे समान मजबूत ऐ दान 2:40 ऐ, पूरा होंदा ऐ,
जिसगी मान्य कीता जंदा ऐ प्रकाशित 17:10 ऐ, "सत्त (7) राजा हन: पंज (पिछले ग्रीक दे 5 राजा
राज्य) गिर चुके हन, ते इक (रोमन राज्य दा राज करदा है), ते दूआ (बाबुल दा राज) ऐ
अजे तक नहीं आया."⁵⁸³

बाद दा चरण

→ हालांकि, 4वें (नमं रोमन) राज्य दे बाद दे चरण तों... दान 2:42 ऐ ("राज्य होवेगा।")

⁵⁸¹"मसीह विरोधी" दे बारे च विस्तार कन्ने, "[चित्र 10] एफ. तुंदे आने दा (प्रभु दे आने दा) केह निशान होग?"

⁵⁸²"[चित्र 13-2] स्वर्ग दी 4 आत्माएं (दानियल 7-8) दा संदर्भ लैओ।"

⁵⁸³जही।

आंशिक रूप कन्ने मजबूत, ते आंशिक रूप कन्ने टूटी-फूटी") गीदान 2:45 ऐ("परमात्मा दा⁴²⁶ स्वर्ग दा इक राज स्थापित कीता, जिस

कदें बी नष्ट नेई होग : ते राज दूजे लोकें उपपर नेई छडी जाहग, लेकिन ओह घुसपैठ करी ओडग

टुकड़े-टुकड़े करिये इनें सारे राजें गी भसम करी ओडो, ते ओह सदा-सदा खडोग," दान 2:44 ऐ) अजे तक होना बाकी ऐ पूरा कर दिता, पर ओह सारे गै होई जाडनप्रकाशितवाक्य 18-22 ऐ.

(प्रकासित 13:3 ऐ व्याख्या कीती)

➤ बाबुल दा राज (1 राज्य) मादी ते फारसी (2 राज्य) ने गिरा, जो उस वक्त बाद च 3 राज्य दे ग्रीस दे राजा (दान 8:21 ऐ). फिर 4 रोमन राज्य दा पैह्ला चरण, सत्ता च चढ़ी गेआ (अंशतः मजबूत, दान 2:42 ऐ), पर "सिर च इक" (रोमन राज्य दा पैह्ला चरण (प्रकासित 13:3 ऐ) गी मारी दिता गेआ (प्रकासित 13:3 ऐ) या आंशिक रूप से टूटी हुई (दान 2:42 ऐ).

→ इस आंशिक रूप कन्ने टूटी गेआ जां घायल होई गेआ रोमनकिंगडम (दान 2:42 ऐ) फिर से जिंदा होंगे दे बाद दे चरण च

नए रोमन दा किंगडम (घातक जखम ठीक हो गया, प्रकासित 13:3 ऐ). फिर सारे जमीनी वासी करंगे

अचभित हो जाओ और पालन करो 2nd जानवर दा टीटोपी निकलेगी नए रोमन दा किंगडम (जमीन तों बाहर निकल के,

प्रकाशितवाक्य 17:8, ऐ प्रकासित 13:11 ऐ), ते ओह दे 1 जानवर दे सारे अधिकार दा प्रयोग करंगे नए बाबुल दा

किंगडम (प्रकासित 13:12 ऐ).

(प्रकासित 13:4 ऐ-7) अजगर ते 1st जानवर दी पूजा जमीन उपपर रौह्ने आह्ने सारें करदे न

प्रकासित 13:4 ऐ ते ओह अजगर दी पूजा करदे हे जेड़ा शक्ति (अधिकार) दिता ह्या ¹⁸⁴⁹ जानवर गी: 1।

ते ओह जानवर दी पूजा किती, ते आखया, " जानवर दे समान कुन ऐ ? कुन उदे कन्ने लड़ने च समर्थ ऐ ?

प्रकासित 13:5 ऐ ते उसी बड़ी-बड़ी गल्लां ते निंदा करने आला मुंह दिता गेआ;

ते सत्ता (अधिकार) ¹⁸⁴⁹ उसी बयालीस (42) महीने चलने दा मौका दिता गेआ।

प्रकासित 13:6 ऐ ते उदे नां ते अपने तम्बू दी निंदा करने आस्ते परमात्मा दी निंदा करने आस्ते अपना मुंह खोलेया।

ते सुर्ग च रौहने आलें गी।

प्रकासित 13:7 ऐ ते उसी संत-पवित्रें (पवित्र संत) कन्ने लड़ने दा मौका दिता गेदा ह्या ⁴⁰ ते उदे उपपर काबू पाने आस्ते;

ते सत्ता (अधिकार) ¹⁸⁴⁹ उसी सारे रिश्तेदारें (कबीले) उपपर दिता गेआ, ⁵⁴⁴³ ते भाषाएं ते राष्ट्रें ¹⁴⁸⁴ ते

☞ प्रकासित 13:4 ऐ इकंद उने अजगर दी पूजा कीती जिने (1st) जानवर गी अधिकार दिता;

ते उने (1) जानवर दी पूजा किती ते आखया।

"(1st) जानवर दे समान कौन ऐ? उदे कन्ने कुन कुन युद्ध कर सकदा ऐ?"

☞ प्रकासित 13:5 ऐ इकं ते उसी बड़डियां गल्लां बोलने ते निंदा करने दा मुंह दिता गेआ।

ते जारी रखने दा अधिकार दिता गेआ 42 महीने दा.

☞ प्रकासित 13:6 ऐ इकंद जानवर ने निंदा करदे होई अपना मुंह खोले आइंथर, ऐ

उंदी निंदा करनानां, ओहदा तम्बू, ते जेड़े सुर्ग च रौंदे न.

☞ प्रकासित 13:7 ऐ एपबित्तर संतें कन्ने लड़ने ते उदे उपपर काबू पाने आस्ते उसी दिता गेदा ह्या।

ते हर गोत्र, भाशा ते जाति उपपर उसी अधिकार दिता गेआ।

से मारे गये दुनिया दी नीह.

- ऐ 42 महीने दा ⁵⁸⁴

दान 7:23 ऐ टीथुस उसने कहा: 'चौथा (4वां) जानवर धरती ते चौथा (4वां) राज्य होवेगा,

जेड़े बाकी सारे राज्यें कोला अलग होंगना।

ते सारी धरती गी खाई लैग, उसी रौंदग ते उसी टुकड़े-टुकड़े करी देगा।

→ धरती पर चौथा (4) जानवर ऐ "रोमन राज्य दा" जो सारी धरती गी खाई लैग

⁵⁸⁴ इकं समें, डेढ़ समें (विभाजन) दे बक्ख-बक्ख अनुप्रयोगें गी समझने लेई, दिक्खो

"[चित्र 12-ख] इकं समें ते समें ते (आधा समें, समें दा बंड, जां आधा)।" थमां "(प्रकासित 12:14 ऐ)।"

जदू ओह च फिरी उठदे ननमें रोमन राज्य दा.⁵⁸⁵

दान 7:24 ऐ टीओह दस (10) सींग दस (10) राजा न जेहड़े इस राज्य थमां पैदा होंगन।

इकरन डीदआराजा उंदे पिच्छे उठी जाग; ओह पैहलें थवां बखरे होंगा।
ते त्रै (3) राजाएं गी अपने वश च करगा।

→ दी 10सींग (राजाएं) जिन्हां नेफिर भी राज होने दा "रोमन राज्य च" उठेया, " पर³आहला

उनेगी इक होर राजा (11वां राजा) अपने वश च करी लैग) नवे बाबुल राज्य दा
(कुल 8 राजा = 10 राजा - 3 राजा वश में = 7 राजा कुल + थोड़ा सींग (1, मसीह दे विरोधी गी)).⁵⁸⁶

→ 10 राजा पहले रोमन राज्य विचों उठनगे, फिर इक होर राजा (मसीह दे विरोधी गी) चाहना
उन्दे पिच्छे उठो।

दान 7:25 ऐ इक होर राजापरमात्मा ('illay) दे खिलाफ गल्लां बोलनगे,^{एच 5943 ऐ}

ते परमात्मा ('elyôn) दे पवित्र संत गी घिसाई देग,^{एच 5946 ऐ}

ते समें ते कानून गी बदलने दा इरादा होंगा।

फिर पवित्र संत उंदे हत्थ च उसलै तकर देई दित्ते जांगन^{एच 5705 ऐ}

इक वक्त तेबारतेवक्त दा बंटवारा.

→ इक होर राजा (मसीह दे विरोधी गी), दे खिलाफ निंदा करदे होई अपना मुंह खोल्लगईधर, निंदा करना
ओहदानां, ओहदातम्बू, तेओह(144,000 जो रैफ्चर हो जांदे हन)जेड़े सर्ग च रौंदे न
(प्रकासित 13:6 ऐ).

→ ओह (1 वी) दरिंदांमुंह देई जावेगा कि ओ जारी रखन (निंदा) करन लई42 महीने दा

(प्रकासित 13:5 ऐ) जदू तगरइक वक्ततेबारतेवक्त दा बंटवारा, जो कि जब तक7 दा अंत
ब'र डैनियल दे 70 हफ्ते दा।

- ऐइक समें ते समें ते समें दा बंड(7 बारजां 7 साल दा, ऐदान 4:23-25 ऐ)⁵⁸⁷

नमें बाबुल दे राज (7वें राज्य) दा राजा मनुखें कोला भगाई दिता जाग, ते ओह कन्ने रौहग

जानवरें गीखेत दा ते सात (7) बार^{एच 5732 ऐ} पास होंगा (दान 4:16 ऐ).

→ इक समां ('idān, मजबूत दा^{एच 5732 ऐ}), समें,^{एच 5732 ऐ} ते समें दा बंटवारा करना^{एच 5732 ऐ} सालाना समें सीमा गी दस्सेआ जंदा ऐ।

टीइस आस् ते, पबित्तर संत गी इक समें (साल), समें तकर मसीहा विरोधी दे हत् थें च दिता जाग
(साल), ते डैनियल दे 70वें हफ्ते दे समें (साल) दा बंड, जो सात (7) ब'र(१,२६०/३६० = ३.५ ऐ
ब'र).⁵⁸⁸

→ सात (7) बार^{एच 5732 ऐ} (दान 4:23-25 ऐ) दा मतलब ऐ डैनियल दे 70वें हफ्ते या 7 साल दाइस चाल्ली:⁵⁸⁹

- संकट: (1) फसह दे परब (मौसम), (2) अखमीरी रोटी, & (3) पैह्ले फल
- ब्रेक दा म्याद(महान कष्ट दे अंत तकर गैर-यहूदियां आस्ते): (4) दा दावत (मौसम)।
पेंटेकोस्ट दा दिन
- महान संकट: (5) तुरही दे (मौसम) दी दावत, (6) प्रायश्चित, & (7) तम्बू

→ पवित्र आलाऐप्रभु गी(यहोवा, ऐयशायाह 43:15 च)^{एच 3068 ऐ} जो जानया जाता हैमसीहनमें नियम च
(इफिसियों 3:2-6 ऐ). एह "मसीह" दे नां नाल दुनिया दी शुरुआत तों ही मौजूद है'एल्^{एच 410 ऐ}
यहोवा.^{एच 3068 ऐ}

⁵⁸⁵"रहस्य, बाबुल महान, वेश्याएं ते जमीन दी घृणित चीजें दी मां (प्रकाशितवाक्य 17:5-6)."

⁵⁸⁶"[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर" दा संदर्भ लैओ।

⁵⁸⁷"[चित्र 12-ख] इक समें ते समें ते (आधा समें, समें दा बंड, जां आधा) दिक्खो।"

⁵⁸⁸"[चित्र 13-1] समुंदरे चों बाहर निकले दा 1 जानवर (7 सिर, 10 सींग, & 10 मुकुट निंदा करने आले नां कन्ने)" थमां कैद कीता गेदा ऐ।

⁵⁸⁹"[3] दानियल दे 70 हफ्ते" दा संदर्भ लैओ।

प्रभु (यहोवा) ^{एव 3068} आहला **मेजबान**, जो दा मुक्तिदाता **हाइस्राएल दा पवित्र** ते **ĕlōhīm** पुराने नियम च सारी धरती दा या प्रभु **(यहोवा)** ^{एव 3068} के रूप में आया **यीशु मसीह ओह** नबी जीवन में नियम च ते अपने लोकें इस्राएल दे दौरें ते छुड़ाया जिय्यां **प्रभु परमात्मा** इस्राएल दा **एहनाथ**, इस्राएल दा राजा, **सेनाएं दा प्रभु**, सनातन लोकें गी नियुक्त कीता ते दस्सग आने आली ते औने आली चीजां. ⁵⁹⁰ सारे चीजें दी बहाली दे समें तकर, सुर्ग गी जरूर हासल करोइस नबी **नेयीशु मसीह (सच्चा)** जिवें **प्रभु परमात्मा**. ⁵⁹¹

→ तुहानू अपने पुरखें कोलां मिले दे नाशवान चीजें कन्ने नेई, लेकन कीमती चीजें कन्ने छुड़ाया गेदा हा **के खून मसीह**, के रूप में **इक मेमना (अम्नोस)** ^{अ० 286} बिना दाग ते धब्बे दे, या लोगो जो च पेश कीता गेदा हा शुरूआत ते साथ ही **ईश्वर**, ते थाईश्वर. **एहमेमना (अम्नोस)** ^{अ० 286} चेहे गै निर्धारित कीता गेदा हा **दुनिया दी नीह**, ते बीच इक वाचाईश्वर (**एलोहिम**) ते अब्राहम दी पुष्टि कीती गई **ईश्वर** ^{अ० 1519} **मसीह**. ⁵⁹² **एहमेमना (अम्नोस)** ^{अ० 286} तुंदे आस् ते इनें अन् त समें च प्रगत होंदा ऐ।

- **ऐ मेमने दा (अर्नियन दा)** ^{अ० 721} **यीशु**, जो होमबलि दे रूप च चढ़ाया जंदा **हाइक मेदक** ('अयिल, उत्पत्ति 22:13 ऐ) ^{एव 352} आया दुनिया च जिवें **इक मेमना** ^{अ० 286} आहला **ईश्वर (जहन्ना 1:29 ऐ)** बनी गेआ **इक मेमना (अर्नियन)** ^{अ० 721} **जामसीह (१पतरस १:१९)** जेड़ा इनें अंत समें च साढ़े आस् ते प्रगत होई गेदा हा, जिय यां के **प्रभु ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह (ईश्वर)** **सर्वशक्तिमान जी (१पतरस १:२०)**. ⁵⁹³

- ध्यान देयो किलोगो दाहाईश्वर शुरू च, ते **ĕlōhīm** ^{एव 430} था चट्टान (शुर) ^{एव 6697} के जनता को **इजराइल**, ते उच्चे ^{एव 5945} **एल** ^{एव 410} उंदा मुक्तिदाता हा, **पवित्र वर दा इस्राएल दा**, ऐजां **प्रभु गी आहला मेजबान**, **ऐपरमातमा दा (ĕlōhīm)** ^{एव 430} सारी धरती दा जो तुहाडा "बनाने आला" है जो तुसीं होनगेशादी कर दे, ऐ कु'न **ऐमेमने दा** ^{अ० 721} ^{एव 594}.

- ऐ **12 महीने दा मतलब**

दान 4:28 ऐ ए सब राजा नबूकदनेस्सर उप्पर आया।

दान 4:29 ऐ बारह दे अंत च **(12) महीने**

महल (मंदिर) विच चलदा सी ^{एव 1965} बाबुल दे राज दा.

दान 4:30 दाराजा ने बोलया।

क्या ए महान बाबुल नेई, जेड़ा मैं बनाया ऐ

मेरे शक्ति दे बल कन्ने राज दे घर आस्ते आर, ते मेरी महिमा दे इज्जत आस्ते?

दान 4:31 ऐ जबकि शब्द ^{एव 4406} राजा दे मुंह च हा, सुर्ग धवां इक आवाज आई।

हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे कन्ने आखया गेदा ऐ; राज तेरे कोला चली गेदा ऐ।

→ दानियेल दी सारी व्याख्या **12 महीने** दे अंत च बाबुल दे राजा उप्पर आई गई।

- **ऐ बारह दा (12) महीने**

"**12 महीने**" गी परिभाषित कीता गेआ **ऐ एस्ट 2:12** ऐ जिय्यां ओह दिन दा सेवक जनानी दे नियम दे मताबक राजा दे कोल लेई जाने कोला पैहले अपनी शुद्धता पूरा करदी ऐ **छे (6) महीने** गंधक दे तेल दे नाल, **छे (6) महीने** मीठी गंधों के साथ, **इक नारी** दी शुद्धि वास्ते होर चीजां नाल.

ऐ एस्ट 2:12 ऐ हुण जदों हर नौकरानी दी (कुड़ी दी, नारी नौकर) ^{एव 5291} बारी आ गया (छू) ^{एव 5060}

राजा अहशूर दे कोल जाइए, उसदे बाद ओह चली गई **ही बारां (12) महीने**, ऐ जिस तरीके कन्ने (कानून) ^{एव 1881} जनानियां दा, ऐ ^{एव 802}

⁵⁹⁰ वीडियो 48. "8 दा हनुक्का" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-दे-भोज-8-हनुक्का/.

⁵⁹¹ से कैद की गई प्रकासित 4:8 ऐ.

⁵⁹² वही।

⁵⁹³ से कैद की गई प्रकासित 6:1 ऐ.

⁵⁹⁴ संदर्भ देना प्रकासित 4:8 ऐ, ऐ प्रकासित 5:6 ऐ, ऐ प्रकासित 19:7 ऐ.

(कीजे उंदे शुद्धता दे दिन बी इय्यां गै पूरा होई गे;
मतलब छह (6) महीने गंधक दे तेल कन्ने, ते छह (6) महीने मीठी गंध कन्ने,
ते होर चीजें कन्ने जनानियें दी शुद्धता आस्तै;)

- याजक ने सवैरे इक मेमना चढ़ाया; ते दुआ मेमना शाम गी
(निष्कर्ष 29:39 ऐ), ते शाम गी चढ़ाए जाने आला मेमना प्रभु गी अग कन्ने बने दे मीठे सुगंध आस्ते होंदा ऐ (निष्कर्ष 29:41 ऐ).⁵⁹⁵

→ आध्यात्मिक रूप च, दिनें दे पैहे 6 महीने तुंदे पापें गी तोड़ने आस्ते होंदे न
धरम(प्रकाशित 6:6 ऐ, ऐदान 4:27 ऐ) मनुख दे पुतर दा मांस खाइयै, ते उंदा पीने कन्ने
प्रभु दी मेज ते खून (जह 6:53 ऐ), ते दिनें दे होर 6 महीने पेश होने आह्ने न
तुंदे शरीर गी जिंदा बलिदान दे रूप च, पवित्र ते परमात्मा गी स्वीकार्य, इक मिट्टी सुगंध कन्ने
राहें अगको प्रभु गी, जांमेमने दा, जिस नाल तुरीं (दल्हन) ब्याह करनी है.

→ इस आस् ते सारे 12 महीने गैर-यहूदियें दी पूर्णता दे बा'द दे दिनें दा इशारा करदे न
अंदर आओ, ते जदुं इस्त्राएल दे किश हिस्सें च अंधता दूर होई जा (रोम 11:25 ऐ)।"
- "12 महीने दे अंत च (एस्ट 2:12 ऐ)" दे आसन रूप दी पूर्वाभास दिंदा ऐ
"मसीह दे विरोधी गी" 7वें राज्य दे नवे बाबुल दा (दान 4:30 दा) जो होगा
परमेसरे दे फैसले कन् ने खत्म होई गया।⁵⁹⁶

यिर्मयाह 34:1 शब्द (रमा) दा^{एन 1697} जो यिर्मयाह दे कोल यहोवा (यहोवा), ऐ^{एन 3068}
जदुं बाबुल दा राजा नबूकदनेस्सर ते उदी सारी फौज
ते उदे राज दे धरती दे सारे राज ते सारे लोका
यरूशलेम दे खिलाफ लड़ाई लड़ी, ते ओस दे सारे नगरें दे खिलाफ आख्या।

यिर्मयाह 34:2 इयां आखदा ऐ प्रभु गी, ऐ^{एन 3068} परमात्मा दा^{एन 430} इस्त्राएल दा; जाओ ते सिदकियाह दे राजा कन्ने गल्ल करो
यहूदा, ते उसी दस्सो, " यहोवा ए आखदा ऐ;
दिखो, मैं इस नगर गी बाबुल दे राजा दे हत्य च देगा।
ते उसी अग कन्ने जला देगा।

→ यिर्मयाह 34 ऐउस घटना दा वर्णन करदा ऐ जिसलै बाबुल दा राजा नबूकदनेस्सर,
अपनी सारी फौज कन्ने, उदी धरती दे सारे राज्यें कन्ने यरूशलेम कन्ने लड़ेया
प्रभु, ते सारे लोका
- ए पुराना बाबुल दा राजा (नबूकदनेस्सर) बी भविष्य दे राजा कन्ने मिलदा ऐ
नए बाबुल राज्य, ऐमसीह दे विरोधी गी, ऐ⁵⁹⁷ जो आरमागेडोन दे खिलाफ शुरू करग
राजाएं दा राजा, ते प्रभुएं दा प्रभु (प्रभु यीशू मसीह)के पहाड़ पर
मेगिहो (उत्तरी इस्त्राएल च स्थित ऐ).⁵⁹⁸

(टीओह सपना दिख्खदा ऐ ते दर्शन पूरा होई जंदा ऐ)

दान 4:32 ऐते तुगी मनुखें कोलां भगाई देंगन, ते तेरा वास मैदान दे जानवरें कन्ने होगा

ओह तुगी बैल दे समान घास खाने देग, तेसात बारतरे उप्पर चली जाह्या, ऐ
जफ तक तुभ ऐवा नशीगी जानता सब तों उच्चारज करदा ऐमनुखें दे राज च, ऐ^{एन 606}
ते जिस गी चाहन्दा ऐ उसी देई दिंदा ऐ।

दान 4:33 ऐउससै समें नबूकदनेस्सर उप्पर गल्ल पूरी होई गई।

ते घास गी बैल दे समान खांदे हे, ते उदा शरीर सुर्ग दी ओस कन्ने गीला हा।
जदू तकर उंदे बाल चील दे पंखें आह्ने ते नाखून चिड़ियें दे पंजे आह्ने जेहड़े नेई होई गे।

दान 4:34 ऐते दिनें दे अंत च मैं नबूकदनेस्सर ने अपनी अक्खीं सुर्ग उप्पर चुक्की लेता।

⁵⁹⁵"(प्रकाशितवाक्य 6:5-6 ऐ) 3 सील (एक काला घोड़ा) दा खुलना।"

⁵⁹⁶संदर्भ देना प्रकाशित 17:11 ऐ.

⁵⁹⁷(12 महीने दा मतलब" दा संदर्भ लैओ (प्रकाशित 13:4 ऐ-7).

⁵⁹⁸"प्रकाशितवाक्य 16:16 ऐ" ते "प्रकाशितवाक्य 19:16 ऐ."

ते मेरी समझ मेरे कोल वापस आई गईं।
ते मैं परमेसरे गी आशीष दित्ता, ते उदी स्तुति ते आदर किती, जेका सदा-सदा जिंदा ऐ।
उदा राज अनन्त काल दा राज ऐ, ते उदा राज पीढ़ी-पीढ़ी-पीढ़ी ऐ।

[दान 4:35 ऐ](#) ते धरती दे सारे वासी⁷⁷² कुछ भी नहीं दे रूप च प्रतिष्ठित होंदे न:

ते सुर्ग दी फौज च अपनी मर्जी दे मताबक करदा ऐ।

ते धरती दे निवासियें च;

ते कोई बी उदे हल्थी गी रोकी नेई सकदा, ते नेई आखी सकदा, 'तू केह करदा ऐ?'

[दान 4:36 ऐ](#) उसी समें मेरा तर्क मेरे कोल वापस आई गोआ;

ते मेरे राज दी महिमा आस्ते, मेरी आदर ते...

चमक मेरे कोल वापस आ गई; ते मेरे सलाहकार ते मेरे स्वामी मेरे कोल खोजे;

ते अऊं अपने राज च स्थापत होई गया, ते मेरे उप्पर बड़ी महिमा बी आई गई।

[दान 4:37 ऐ](#) मैं नबूकदनेस्सर सुर्ग दे राजा दी स्तुति ते स्तुति ते आदर करना।

जिन्हां दे सारे कम्म सच्चाई हन, ते उंदे रस्ते दा न्याय;

ते जेके घमंड च चलदे न, उनेंगी उसी नीच करने च समर्थ ऐ।

→ पर जदू 7 बारी (या डैनियल दा 70वां हफ्ता, जो कि... [7 साल दा](#))⁵⁹⁹ गुजर चुके हैं, परम उच्चा होगा

राजा कोला राज दूर लेई जाओ ([मसीह दे विरोधी गी](#)), ते फिर ओह दे राज उप्पर राज करग

मनुखें गी देई ओड़ा राजा दा सपना ते दर्शन होया, ते इस चाल्ली ओह

परमात्मा दे अनन्त प्रभुत्व दी स्तुति कीती ([दान 4:34-37 ऐ](#))।

→ न सिर्फ राजा नबूकदनेस्सर गै मिलदा ऐ [मसीह दे विरोधी गी](#) जिनके नाम ना थे

दुनिया दी सृष्टि तों ही जीवन दी किताब विच लिखी गई ([प्रकाशितवाक्य 17:8](#)), पर ओह बी मिलदा ऐ

जिंदे कोल दी भावना ऐ [मसीह विरोधी](#) ([१जोह ४:३](#)), जिंदे कोला परमात्मा अपना हिस्सा कडुडी लैग

जिंदगी दी किताब ([प्रकाशितवाक्य 22:19 ऐ](#)) जेकर ओह (मसीह विरोधी आत्मा कन्ने) अपने आप गी नम्र नेई करदे,

प्रार्थना करो, उंदा मुंह दूढो, ते उंदे बुरे रस्ते कोला मुड़ो ([2Ch 7:14 ऐ](#))।

([१जोह ४:३](#) ते हर इक आत्मा जेड़ा इस गल्ल गी कबूल नेई करदी [यीशु मसीह](#) आया ऐ शरीर च नेई ऐ [ईश्वर](#): 1।

ते एह ओह आत्मा ऐ [मसीह विरोधी](#) ([ἀντιχρίστου ऐ](#), एकवचन दा).⁵⁰⁰

→ इस चाल्ली, "उसदे कोला बाहर निकलो, मेरे लोक" दा मतलब ऐ "की जमीन थमां बाहर निकलो [महान शहर](#)

[बाबुल दा](#)" धोखे से भरा शहर ([प्रकाशित 18:4 ऐ](#)), ते आओ ते पवित्र उप्पर खड़ोते दे

मदान ([प्रेरितों दे काम 7:33](#)).⁶⁰⁰

([प्रकाशितवाक्य 13:8-9](#)) 1st जानवर दी पूजा जमीन उप्पर रौह्ने आह्ने सारें करदे न

[प्रकाशित 13:8 ऐ](#) ते धरती (जमीन) उप्पर रौह्ने आले सारे [1093](#) उदी भजाई करग,

जिंदे नां मेम्ने दी जीवन दी किताब (अर्नियन) च नेई लिखे गेदे न [721](#) मारी दित्ता

दुनिया दी नींव तों।

[प्रकाशित 13:9 ऐ](#) जेकर कुसै दा कान ऐ तां सुनी लौ।

☞ [प्रकाशित 13:8 ऐ](#) इक जमीन उप्पर रौह्ने आले सारे उसी (पशु) दी पूजा करंगन,

जिन्हां दे नाम नहीं लिखे [जीवन दी किताब](#) आहलामेमेने दा ([अर्नियन दा](#)) [721](#) ऐ

दुनिया दी नींव तों।

☞ [प्रकाशित 13:9 ऐ](#) जेकर कोई कान ऐ तां सुनी लौ।

• [मेमने दा](#) ([अर्नियन](#)) [721](#) ऐ

सर्वशक्तिमान जीजो तुहानू आशीर्वाद देंदा है [यीशु](#), ते दी [यीशु कृसी ईश्वर](#) उठाया ऐ "इक उद्धारकर्ता", ऐ [4990](#) या प्रभू ([निरंकशता दा](#)) जो देंदा ऐ [एमा दा](#) ([लूका 2:29 ऐ](#)), कु'न [एमसीह](#), ऐ [प्रभू](#) ([kyrios](#)) ([लूका 2:11 ऐ](#))।

599 "[चित्र 12-ख] इक समें ते समें ते (आधा समें, समें दा बंड, जां आधा) दिक्खो।"

600 "[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर" दा संदर्भ लैओ।

- एहाथतेमुक्तिदाताऐयीशु मसीह(२पतरस १:११) ऐयीशु मसीह(मनुख दा पुत्र,लोगो दा) जो परमात्मा था ('एलोहिम).मसीहहैनांयहोवा(प्रभु गी), ऐच 3068^६ जो की नुत्रों की नुत्रों को नशी नता था पुरुषजिंदे पिता अब्राहम, इसहाक ते याकूब ना⁶⁰¹
→ सर्वशक्तिमान जी^{७७०६} संदर्भित करदा ऐ "मुक्तिदाता यीशु मसीह" जो परमात्मा हा ('एलोहिम^{७७०६}).⁶⁰²

- **मेमने दा(संसार दी नींव तों पहलां ही निर्धारित,१पतरस १:२०)**

मेमने दा(अम्मोस)^{३१२८६} परमात्मा दा (यीशु, ऐजह 1:36 ऐ), जो होमबलि दे रूप च चढ़ाया जंदा हा, ओह बनी गेआप्रभु गी(यहवा) दा^{३०६८} ऐश्वरसारे मांस दा। हो गयाइक **मेमना(अर्नियन दा)**^{३१७२१} सिंहासन दे बिच्च ते बुजुर्गे दे बिच्च चार जानवरें दे बिच्च खड़ोते दे, जिंदे च 7 सींग ते सत्त अक्कीं न, जेहड़े 7 आत्माएं नईश्वरसारी धरती च भेजी दिता।⁶⁰³

[इक मेदक^{३५२} ऐ → इक मेमना(यीशु)^{३१२८६} ऐ → इक मेमना(अर्नियन, मसीह) → नाथतेउद्धारकर्ता यीशु मसीह(ईश्वर)सर्वशक्तिमान जी]⁶⁰⁴

तुंदे पिता-पिता कोला पैदा कीती गेदी नाशवान चीजें कन्ने नेई, लेकन दे पैहे खून कन्ने लुड़ाया गेदा हामसीह, के रूप मेंइक मेमना(अम्मोस)^{३१२८६} बिना दाग ते धब्बे दे, जां लोगो, जेहड़ा शुरू च पेश कीता गेदा हा ते कन्ने गै हाईश्वर, ते थाईश्वर. एहमेमना(अम्मोस)^{३१२८६} पैहे गै निर्धारित कीता गेदा हादुनिया दी नींव, ते बीच इक वाचाईश्वर ('एलोहिम) ते अब्राहम दी पुष्टि कीती गेईईश्वर^{३१२३१६} चमसीह.⁶⁰⁵ एहमेमना(अम्मोस)^{३१२८६} तुंदे आस् ते इमें अन् त समें च प्रगत होई गेदा हा।

→ **मेमने दा(अर्नियन दा)**^{३१७२१}: 1।यीशु, जो होमबलि दे रूप च चढ़ाया जंदा हाइक मेदक('अयिल,उत्पत्ति 22:13 ऐ)^{३५२} आ गया

दुनिया दे रूप चइक मेमना^{३१२८६} आहलाईश्वर(जहन्ना 1:29 ऐ) बनी गेआइक मेमना(अर्नियन)^{३१७२१} जांमसीह(१पतरस १:११) जो बणाया गया सादे आस्ते इमें अंत समें च प्रगत होंदा ऐ, जि'यांप्रभु ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह (ईश्वर)सर्वशक्तिमान जी(१पतरस १:२०).⁶⁰⁶

→ यीशुपतरस गी आख्या के दुए दे पैर धोन (फैलायापरमात्मा दे लोगो) तां जे सुसमाचार च मजदूरें दे नां

(इजराइल दा) में होंगेजिंदगी दी किताब(पीएचएल४:३ दी), ते ओह पबित्तर धरती (इझाएल) उप् पर खड़ोई सकन पैहलेंईश्वर (जहन्ना 13:12 ऐ).⁶⁰⁷

- **परमात्मा दे नां ते उंदे सिद्धांत दा आदर करो**

तुसीं की कीमती खून नाल खरीदे गए सीमसीह(यीशुमेमने दे समान^{३१२८६} बिना दाग ते बिना दाग जो बनेमसीहसाडा फसह), ते एहाथ(निरपेक्षता दा) ही है जिसने तुहानू खरीदया (२पतर २:१). इस करिए सिर्फनाथ(निरपेक्ष) दाईश्वरऐप्रभु(क्योरिओस)^{३१२९६२} यीशु मसीह (जदे 1:4 ऐ).ओह नाथ(निरंकुशता दा) दे देरेमा दा(लुका 2:29 ऐ) ते दीअवाजलोगो दासाडे दाप्रभु यीशु मसीहते सिद्धांत गीजो उंदे दासैं गी शांति कन्ने चली जंदा ऐ (लुका 2:29 ऐ). कर्मोकक उवकीरेमाके नाम दा सम्मान करदा ऐईश्वर, उंदे सिद्धांत दी निदा नेई कीती जंदी(१तिमुथियुस ६:१-३).⁶⁰⁸

- **शाश्वत आत्मा, अनन्त राज**

प्रभु(यहवा) मिस्त्र च इझाएल दे पुत्रें दे घरें ते इझाएल दे पुत्रें दी आत्माएं गी मौत थमां बचाई लेआ। प्रभु दे फसह दे बलिदान दे जरिए, इक उद्धारकर्तामसीहसादानाथ(लुका 2:11 ऐ) सुपर्द कीता गेआआत्माओं कोइझाएल दे पुत्रें दे घरे दा, तेमसीहबनी गेआमेमने दा^{३१७२१} लेईप्रभु दा फसह(१कुरिन्थियों ५:७) में वर्णन किया गयापरानाओ 12:4-11 च, जो के माध्यम सेअनन्त आत मा, बिना दाग दे अपना खून चढ़ायाईश्वर, जिंदे दी सेवा करने आस् ते तुसैंगी अपने जमीर गी मरे दे कम् में थवां शुद्ध करने दी इजाजत दिंदा ऐईश्वर(इब्रानियों ९:१४-१५), इझाएल दे पुत्रें दी आत्मा ते आत्मा दोनों गी बचादे होई।⁶⁰⁹

दा राजईश्वरलोगो च नेई सत्ता च ऐ पर जेहड़े रखे हेलोगो दारेमा दे कई फल देने आस्ते जी उठने आली शक्तियें दी लोड़ ऐ। पर इस आस् ते के तुस उसी गै रखेयालोगो दाउंदी थोड़ी शक्ति कन्ने तुंदे लेई इक प्रवेश द्वार दी बड़ी सेवा कीती जागसनातन राज दासाडे दानाथतेउद्धारकर्ता यीशु मसीह(२पतरस १:११).⁶¹⁰

⁶⁰¹से केद की गईप्रकासित 4:8 ऐ&प्रकासित 10:7 ऐ.

⁶⁰²"सर्वशक्तिमान प्रभु,प्रकासित 1:8 ऐ& प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान,प्रकासित 4:8 ऐ."

⁶⁰³से केद की गईप्रकासित 5:6 ऐ. वीडियो 6, "प्रभु (तुंदा) परमात्मा बनी जंदा ऐ।"

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशु-इजराइल-दे-पुत्र-पीदियों-दी-पुस्तक/.

⁶⁰⁴से केद की गईप्रकासित 5:7 ऐ-10 ऐ।

⁶⁰⁵से केद की गईप्रकासित 4:8 ऐ.

⁶⁰⁶से केद की गईप्रकासित 6:1 ऐ.

⁶⁰⁷वीडियो 11. "यीशु दा कपड़ा" "फसह दी पर्व" तों पहलां।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-फसह-त्योहार-दे-पहिले-यीशु-वस्त्र/.

⁶⁰⁸से केद की गईप्रकासित 6:12 ऐ-16 ऐ.

⁶⁰⁹से केद की गईप्रकासित 6:8 ऐ.

⁶¹⁰से केद की गईप्रकासित 3:8 ऐ.

• **ईश्वरतेमेमने दा**

प्रभु (निरंकुशता दा), ऐ^{¶1203} जिने तसें गी मिस्त्र थमां खरीदी लेता ऐमसीहते साडा हो गयाईश्वर, जांप्रभु यीशु मसीह गी, उंनें लोकें गी न्याय देग जेहड़े जमीने उप्पर रौहदे न तां जे मारे गेदे आत्माएं दे खून दा बदला लैनपरमातमा दे लोगो(प्रकाशितवाक्य 6:9-10).⁶¹¹

ई। ईसुर्ग च, जमीन उप्पर, जमीन दे थल्ले, समुंदरे उप्पर ते उंदे च जे किश बी ऐ, ओह गै ग् लांदा ऐ, “आशीष ते महिमा ते प्रभु, उसी जेका सिंहासन उप् पर बैठे दा ऐ, जेका ऐईश्वर(पिता जीआहलायीशु मसीहसादानाथ), ते करने आस्तैमेमने दा^{¶721} (नाथतेउद्धारकर्ता यीशु मसीह) सदा ते सदा” (प्रकाशित 7:12 ऐ).⁶¹²

(प्रकाशित 13:10 ऐ) पवित्र संतां दा धीरज ते विश्वास (कैद च लैता & मारी दिता जा)

प्रकाशित 13:10 ऐजेड़ा अगुवाई करदा ऐ (इकट्टा करदा ऐ)^{¶4863} कैद च कैद च चली जागा

जेड़ा तलवार कन्ने मारदा ऐ (मचैरा)^{¶3162} तलवार (मचैरा) कन्ने मारना जरूरी ऐ^{¶3162} ऐ

इत्थे धीरज^{¶5281} ते विश्वास गी^{¶4102} संत (पवित्र संत) दा।^{¶40}

☞ प्रकाशित 13:10 ऐजेकर कुसे गी बंदी बनाया जा, तां ओह कैद च चली जंदा ऐ;

जेकर कुसै गी तलवार कन्ने मारी दिता जा, तां तलवार कन्ने मारी दिता जागा।
इत्थेपवित्र संत लोके दा धैर्य ते विश्वास ऐ।

→जेहड़े पवित्र संत विश्वास कन्ने धीरज रखदे न, उंनेंगी कैद करी लैता जाग ते तलवार आस्तै मारी दिता जाग
(जांपरमातमा दे लोगो). इस तरहा जो कोई वी पवित्र संत नू नाल मारदा हैपरमातमा दे लोगो, इसदे द्वारा मारे जांगना

- मारी हुई आत्माओं कीओह गवाह आहलापरमातमा दे लोगोमें वेदी के नीचे थेप्रकाशित 6:10 ऐ, रोया के नाथ (निरंकुशता दा) जमीनी बसनीके उप्पर अपने खून दा बदला लैने लेई, पर उंनेंगी दौनें तकर इंतजार करना पौग उंदे साथी दास ते उंदे भ्राएं दी गिनतरी, जेहड़े बी मारे जा करदे हे (प्रकाशितवाक्य 6:10-11 ऐ).

→परमेसरे दी कलीसिया दे सारे पबित्तर संत, जेके उंदे अपने खून कन्ने खरीदे गेदे हे (प्रेरितों दे काम 20:28), न स्वर्ग दे निवासियें गी, ते इस चाल्ली 1 जानवर (नमें बाबुल दे) दी पूजा करने थमां इन्कार करी देग राज्य) ते मारी दिता जा।

(प्रकाशित 13:11 ऐ) 2nd जानवर जमीन तों बाहर (मेमने दी तरह 2 सींग होंदे ने)

प्रकाशित 13:11 ऐते मैं इक होर जानवर गी धरती (जमीन) थवां निकलदे दिक्खेआ।^{¶1093} ऐ

ते ओस दे दो सींग हे जिवें मेमने (अर्निओन) दे समान हो।^{¶721} ते ओह अजगर दे समान बोलदा हा।

☞ प्रकाशित 13:11 ऐते मैं (यूहन्ना) इक होर (2) जानवर गी जमीन च निकलदे दिक्खेआ।

ते उंदे कोल दो (2) सींग (राजा) सनइक मेमना(अर्नियन दा) ते अजगर दी तरह बोलया।

- 2 वी जानवर दा2 सींग (2 राजा) जैसेइक मेमना और बोली जैसेइक अजगर (परमातमा दे लोकां नू धोखा देण लई).⁶¹³
- 2 सींग दामेमने दे समान: 1।2 सींग होंदे नेराजाओं कोआहलाराज दाआहलामादी लोकें गीतेफारसी लोकें गी(में कबीले बाबुल दा राज).

- जानवर कुन हन ?

➤ आकाश + महान समुंदर + धरती दे जानवर: महान लाल अजगर (प्रकाशितवाक्य 12:3).

→ जानवरों नके आध्यात्मिक प्राणीसुर्ग, ऐ जो उठते हैं सेमहान समुंदर दा ते राजा बन जाओधरती गी(ओह

⁶¹¹से कैद की गईप्रकाशितवाक्य 8:5.

⁶¹²से कैद की गई प्रकाशित 5:13 ऐ.

⁶¹³“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दिक्खो।

समुंद्र & जमीन).⁶¹⁴

- **४आत्माएं**(स्वर्ग दा,दान 7:2 ऐ), ऐ
- **४बड़े जानवर**(बड़े समुंद्र दा,दान 7:2 ऐ), ऐ
- **४राजा**(समुद्र & जमीन दा,दान 7:17 ऐ), ऐ

→महान दा 2nd जानवर**लालअजगर**, जिसने**7 सिरें**, ऐ**10 सींग**, ते**7 मुकुटें दा**उंदे सिरें उप्पर,ऐ स्वर्ग दे आध्यात्मिक प्राणियों च इक, जेहड़े बड़े समुंदरे थमां उठुदे न**इक**nd जमीन, ते राजा बनो (**समुद्र & जमीन,प्रकाशितवाक्य 12:3**).

➤ जानवर (स्वर्ग से बाहर)

- **महान अजगर**(पुराने नाग शैतान ते शैतान,प्रकाशितवाक्य 12:7-9) स्वर्ग दा जानवर है, जो था

सुर्ग थमां कड्डी ओड़ेया ते जमीन उप्पर सुट्टी दिता ते...**आरि**बाबुल महान पर eign (**प्रकाशितवाक्य 17:18 ऐ& प्रकासित 18:2 ऐ**).

- जो जानवर स्वर्ग तों जमीन उप्पर सुट्टी दिता गेदा हा, ओह ऐ**लूसिफर ने दी**(यशायाह १४:१२ दा)^{एव1966}जे 1st Beast पर बैठा है, या नवे बाबुल दा.⁶¹⁵फिर, “महान वेश्या,” जो 2 जानवर जमीन उप्पर लेई जंदा ऐ (**यशायाह १४:१२-१४ ऐ, ऐप्रकासित 17:7 ऐ**) पोप दे जरिए, सारे जमीनी निवासियों गी...**पूजा1st जानवर दा** (**इक विश्व सरकार, ऐप्रकासित 18:4 ऐ**).

- ऐपोप, कई लोकें, भीड़, राष्ट्रें, ते भाषाएं पर बैठे दा ऐ (**प्रकासित 17:15 ऐ**), ते कम्म करदा ऐ **रोमन कैथोलिक चर्च दा(वेश्याओं की माँ)**”

→ते जेड़ा बड़े शहर उप्पर बैठे दा हा, ओह “**बड़ी वेश्या**” (**प्रकासित 17:9 ऐ**) या “पोप” जो ऐ पवित्र पीठ दा सिर, जो रोमन कैथोलिक चर्च दा ऐ (**वेश्याओं की माँ**).⁶¹⁶

- ऐ**लूसिफर ने दीऐओह**(गिर गया)**सवैरे दा पुत्र**(यशायाह १४:१२ दा) जो नवे बाबुल ते बैठदा है, ते ओह (**मसीह दे विरोधी गी**) जमीन उप्पर राजा बनग जां नमें बाबुल दा राजा (**यशायाह १४:४ च**) यानी 1 जानवर दा, ते अपने सिंहासन गी परमात्मा दे तारे उप्पर उच्चा करो (**एल**)^{एव 410} (**यशायाह १४:१२-१४ ऐ, ऐप्रकाशितवाक्य 12:7-9**).

→ **लूसिफर ने दी(सवैरे दा पुत्र)**

- च यशायाह १४:१२ दा, ऐ**लूसिफर ने दी**संदर्भित करदा ऐ**सवैरे दा पुत्र**, ऐ जिसगी उस बेल्ले नमें दा राजा आखेआ जंदा ऐ **बाबुल**.

- चयशायाह १४:१६-१७ ऐ, लोक ताकतवर बाबुल दे पतन कन्ने चौंक गे, राजा दा मजाक उड़ाया **नवे बाबुल दा(जांमसीह दे विरोधी गी)** ते आख्या, “केह एह ओह मानू ऐ, जिसे धरती बनाई ऐ**एव 776** ऐ कांपना?”

- जड़ (**लूसिफर ने दी**) इस दुष्ट राजा दे (**मसीह दे विरोधी गी1st जानवर**) दी इच्छा दे वास्तेके चढ़ना है बादलें दे उच्चे थारें गी, उच्चे उप्पर जां परमात्मा दे समान होने आस्ते (**एल**)^{एव 410}(जिस दा स्वामी है **सुर्गते धरतीजांमसीह गी**, जिस विचईश्वरसारी चीजें गी हेठ पाई दिता ऐ**मसीह दापैर,१कुरिन्थियों १५:२७**).

- अथाह गड्ढे दे सुर्गदूत दा राजा अपोलियन अथाह गड्ढे कोला चढग (**प्रकाशितवाक्य ९:११, ऐ प्रकाशितवाक्य 17:8**) ते दे माध्यम कन्ने कम्म करग**झूठे नबी दा2nd जानवर** दाजो होता है महान वेश्या (पोप), जमीन दे सारे लोकें गी धोखा देने आस्ते 1st जानवर दा निशान लैने आस्ते⁶¹⁷

→इस प्रकार, बीओथ**मसीह दे विरोधी गी तेझूठे नबी दा** होगाजिन्दा-जिंदा अग्य दी झील च सुट्टी दिता

⁶¹⁴“[चित्र 13-2] स्वर्ग दी 4 आत्माएं (दानियल 7-8) दा संदर्भ लैओ।”

⁶¹⁵लूसिफर (मजबूत दा**एव1966 ऐ, hêlêl**): बाबुल दे राजा दा वर्णन करने आला ‘हेलेल’, जिसदा मतलब ऐ “प्रकाश वाहक”

⁶¹⁶“(**प्रकाशितवाक्य 17:3-6**) रहस्य, बेबिलोन महान, वेश्याएं ते जमीन दी घृणित चीजें दी मां।”

⁶¹⁷से केद की गई**प्रकासित 22:16 ऐ**.

गंधक दे नाल ([प्रकाशितवाक्य 19:20](#)) ते दिन-रात सदा-सदा तड़पाया जाह्य
([प्रकासित 20:10 ऐ](#)).⁶¹⁸

- **अपोलियन ने दी**, अथाह गड्डे दे राजा दा दूत (पृथ्वी = समुंद्र & जमीन, [प्रकाशितवाक्य ९:११](#))
- **अपोलियन ने दीधरती** (समुंद्र + धरती) ते राज दा राजा बण जांदा है। ओह इक आध्यात्मिक प्राणी ऐ
जो राजा दे जरिए कम्म करग ([झूठे नबी दा](#)) दे 2 जानवर दे बाहर जमीन ([प्रकाशितवाक्य ९:११](#), ऐ
[प्रकाशितवाक्य 17:8](#)), राजा दे जरिए कम्म करना ([मसीह दे विरोधी गी](#)) समुंद्र तों बाहर निकले 1 जानवर दा.

• **1st जानवर दा**(बाहर दा [समुंद्र दा](#))

1st जानवर, होने दे [7 सिर](#) (राज्यां दा), ऐ [10 सींग](#) (राज बिना राज दे अजे तक), ते [10 मुकुट](#) (सींगों पर) समुंदरे विचों उठ के उठ जावेगा ([प्रकासित 13:1 ऐ](#)).

• **2 वी जानवर दा**(बाहर दा [जमीन गी](#))

[वैटिकन शहर दा](#) 2 जानवर दा है, ते झूठे भविष्यवक्ता ओस दी जमीन तों निकलनगे ([प्रकासित 13:11 ऐ](#)).

→ 2nd जानवर जो जमीन तों बाहर निकलेगा, ओदे 2 सींग होंदे ने।

- [मसीह दे विरोधी 1st](#) जानवर दा अजगर दी शक्ति, सिंहासन ते बड्डा अधिकार दिता गेदा ऐ
42 महीने तक निंदा ([प्रकाशितवाक्य 13:2-5](#)).

- [झूठा नबी](#) ([प्रकाशितवाक्य 19:20](#)) दा 2 जानवर ([नमें रोमन राज्य दा](#)) इक मेमने दे च और
कपड़े ते बोलना जैसे [इक अजगर](#) धरती दे लोकें गी धोखा देना तां जे ओह जानवर दा निशान हासल करी सकन
(के निशान [दामहान अजगर](#), ऐ [प्रकासित 12:9 ऐ](#)), संकेत कम्म करदे होई ते 1 दे सारे अधिकार दा प्रयोग करिये
दरिंदा ([नवे बाबुल दा राज्य](#)) जो अजगर (लूसिफर या शैतान, [यशायाह १४:१२ दा](#), ऐ [प्रकासित 12:9 ऐ](#), ऐ
[प्रकासित 13:11-12 ऐ](#)).⁶¹⁹

→ कौन हैं [2 सींग दा धरती दा](#)?

- 1 जानवर गी जेड़ा समुंद्र थमां उट्टग (नमें बाबुल दा राज्य), अजगर
उसी अपनी शक्ति, ते उंदा सिंहासन, ते 42 महीने तक निंदा करने दा बडा अधिकार देओ ([प्रकाशितवाक्य 13:2-5](#)).

पर 1st जानवर दा सारा अधिकार 2nd जानवर गी दिता जाग जेड़ा जमीन थमां बाहर निकलग
जिसदे 2 सींग (मादी ते फारसी दे राज्यें दे राजा) [चइक मेमने दा कपड़े](#)
([प्रकासित 13:11-12 ऐ](#)) दे जरिए निशान कम्म करदे होई जमीनी निवासियें गी धोखा देना [झूठे नबी दा](#)
([प्रकाशितवाक्य 19:20](#)).

([प्रकाशितवाक्य 13:12-13 ऐ](#)) 2nd जानवर जमीन दे निवासियें गी 1st जानवर दी पूजा करने लेई मजबूर करदा ऐ

[प्रकासित 13:12 ऐ](#) ते ओह सारी शक्ति (अधिकार) दा प्रयोग करदा ऐ [1849](#) उदे कोला पैहे पैहे जानवर दा;

ते धरती (जमीन) गी पैदा करदा ऐ [1093](#)

ते जेड़े ओस च रौंदे न, ओह पैहले जानवर दी पूजा करन, जिंदे घातक जखम (प्लेग) [4127](#) ठीक हो गया।

[प्रकासित 13:13 ऐ](#) ते ओह बड़े-बड़े चमत् कार करदा ऐ [4592](#)

तां जे ओह धरती उप्पर (जमीन) उप्पर सुर्ग थमां अग उतारदा ऐ [1093](#) मनुखें दी नजर च, [444](#)

☞ [प्रकासित 13:12 ऐ](#) इक 2nd उसने (दूसरे जानवर) ने अपने सामने पैहले जानवर दे सारे अधिकार दा प्रयोग कित्ता
ते जमीन ते उदे च रौहने आलें गी पैहले जानवर दी भक्ति करांदा ऐ।
जिस दा घातक जखम ठीक हो गया.

→ 2 वी जानवर ([नमें रोमन राज्य दा](#)), 1 जानवर दा सारा अधिकार ([दी नई](#))

⁶¹⁸संदर्भ देना [प्रकाशितवाक्य 17:3-6](#).

⁶¹⁹“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दा संदर्भ लैओ।

बेबिलोन दा राज्य), सारे जमीनी निवासी (के राज्यें च इक) 1 जानवर दी पूजा करने दा कारण बनग जिसदे घातक जखम (उसदे 7सिर विचों इक विच प्रकासित 13:1 ऐजा रोमन राज्य दा पैह्ला चरण) ठीक हो गया (के बाद दे चरण विचनमें रोमन राज्य दा प्रकासित 13:3 ऐ).⁶²⁰

☞ प्रकासित 13:13 ऐ इक 2nd ओह (2nd जानवर) बड़ा करदा ऐ संकेत दे, ऐ बनाना भी अग्निसर्ग थवां जमीन उप्पर उतरमनुखों की नजर में संकेत दे।

→ जो 2nd जानवर दा है, जिसने अग्न नू स्वर्ग तों जमीन ते उतरन वास्ते बनाया सी मनुखों की नजर, है झूठा नबी (प्रकाशितवाक्य 19:20).

प्रकासित 13:14 ऐ 2nd जानवर निशान दे जरिए जमीनी निवासियें गी धोखा दिंदा ऐ

प्रकासित 13:14 ऐते धरती (जमीन) उप्पर रोहने आलें गी धोखा दिंदा ऐ संकेत दे उन चमत्कार (चिन्ह) दे जरिए संकेत दे

जिसगी उसी शक्ति (अनुदान) ही संकेत दे जानवर दी नजर च करना;

धरती (जमीन) उप्पर रोहने आलें गी आखया संकेत दे

तां जे ओह उस जानवर दी मूर्ति बनान, जिसी तलवार कन्ने जखमी हा। संकेत दे जिया ही।

☞ प्रकासित 13:14 ऐते ओह (2 जानवर, नमें रोमन राज्य दा) जमीन उप्पर रोहने आलें गी धोखा दिंदा ऐ दे राहें संकेत दे जिसगी उसी (1st) जानवर (दे) दी नजर च करने दी अनुमति दिती गेई हीनवे बाबुल दा), ऐ जभीन नय यशने वारे को कशते शैं कक उवे एक नयभात्मा की लज्जत फनामे ओह (2 वी) दरिंदा, ऐ जो तलवार से घायल हो गया संकेत दे जिया।

→ 1st जानवर दे सिर (या राज्य) विचों इक जो तलवार नाल घायल होया सी, है रोमन दा किंगडम 2 वी जानवर दा जो जमीन से बाहर निकली। 2 वी जानवर (नमें रोमन राज्य दा) जमीनी बसनीकें गी इक छवि बनाने लेई आखदा ऐ (2nd जानवर दा) जो तलवार से घायल हो गया पर जिया (प्रकासित 17:11 ऐ)।

*टीओह 2nd जानवर दी छवि

क्योंकि 2 जानवर (नवे रोमन राज्य) दा झूठा नबी जमीनी निवासी बना देगा उंदी छवि बनाने आसतै, एह संभव ऐ जे छवि च झूठे नबी, राजा दी छवि बी शामिल होई सकै चार्ल्स तृतीय, 1999।⁶²¹ संभावित उम्मीदवार दे तौर उप्पर इस गल्ल गी दिखदे होई जे उंदी मां रानी एलिजाबेथ द्वितीय बी... 1953 च राजा चार्ल्स त्रीए कोला पैह्ले राज्याभिषेक कीता गेआ, एह बी संभव ऐ जे इस छवि च मां दौऊ बी शामिल होई सकन ते पुत्रा।

प्रकाशितवाक्य 13:15 ऐ आत्मा गी बोलने आसतै जानवर दी मूर्ति गी दिता जंदा ऐ

प्रकाशितवाक्य 13:15 ऐते उदे कोल शक्ति (अनुदान) ही। संकेत दे जीवन (आत्मा) देना संकेत दे जानवर दी प्रतिरूप गी, ऐ

कि जानवर दी मूर्ति दोनों बोलन।

ते जिन्ना जानवर दी मूर्ति दी पूजा नेई करन, उन्ना गै मारी दिता जा।

☞ प्रकाशितवाक्य 13:15 ऐते उसी दिता गेआ (2nd जानवर दा) छवि गी भावना देना ओच दी (2 वी) दरिंदा, ऐ तां जे छवि दी (2 वी) दरिंदा इत्थं तगर जे बोलदा ते जिस दी मूर्ति दी पूजा नेई करदा, उसी कारण बनाओ ओह (2 वी) दरिंदा मारी जाना।

➤ 2nd जानवर दी छवि

- ऐटीओह 2nd जानवर (केनमें रोमन राज्य दा) जमीन पर रोहने आहें गी आखदा ऐ जे ओहदी छवि बनान ओह (2 वी) दरिंदा, ते आत्मा दी प्रतिरूप गी दिती जंदा ऐ ओह (2 वी) दरिंदा तां जे छवि बोलै।

⁶²⁰संदर्भ देना प्रकासित 13:18 ऐ.

⁶²¹"प्रकाशितवाक्य 16:12-14 ऐ) 6वीं शीशी दा: ओ महान नदी यूफ्रेटिस, पानी सुखदा ऐ & 3 अशुद्ध आत्माएं."

→ पवित्र संत दा सिर कट्ट दिता जाग (प्रकासित 13:10 ऐ) कीजे ओह यीशु दे गवाह न, जेका रखेया लोगो दा परमात्मा दा, ते ओह उपासना करने थमां इन्कार करी देडनदी छवि (2 वी) दरिदा.

(प्रकासित 13:16 ऐ) 2nd जानवर जमीनी बसनीके गी उंदे सज्जे हत्थ जां मत्थे पर निशान पाने लेई मजबूर करदा ऐ

प्रकासित 13:16 ऐते ओह सारें गी छोटे-बड्डे, अमीर-गरीब, आजाद ते गुलाम बनांदा ऐ
निशान पाने के लिये ^{¶5480} में (पर) ^{¶1909} उंदा सज्जा हत्थ, जा ^{¶2228} ने ^{¶1909} में (पर) ^{¶1909} उंदे मत्थे: 1।

☞ प्रकासित 13:16 ऐ और 2nd जानवर (केनमें रोमन राज्य दा)
सारें गी, छोटे-बड्डे, अमीर-गरीब, मुक्त ते बंधन दा कारण बनदा ऐ,
प्राप्त करना इक निशान उंदे सज्जे हत्थ उप्पर, जां उंदे मत्थे उप्पर।

† दो किस्म दे निशान (निशान ते मुहर) होंदे न) ^{¶5480}: 1।

(१) ऐ. निशानी जानवर दा (666 ऐ, ऐ प्रकाशितवाक्य 13:16-1 ऐ7) जो शरीर च ग्रहण कीता जंदा ऐ.
प्रेरितों दे काम 17:29 कीहके अस परमात्मा दे संतान आं;
असेंगी एह नेई सोचना चाईदा के परमेसरे सोने जां चांदी दे समान ऐ।
या पत्थर, उकेरा (चिन्ह) ^{¶5480} कला ते मनुक्ख दे यंत्र कनै.

→ क्योंकि निशान दाहिने हत्थ या मत्थे ते मिलना है, इस करके साफ है कि...

जानवर दा निशान (666 ऐ) मिल जाएगा "च मांस गी (प्रेरितों दे काम 17:29)।"

(२) ऐ. मुहर लगा दी आत्मा दा (144,000 दी, ऐ रकुरिन्थियों १:२२, ऐ प्रेरितों दे काम 17:29) जो दिल विच मिलदा है

→ पैह्ले फल (पवित्र) गी शरीर च नेई, आत्मा च मुहर लगी जाग.

(प्रकासित 13:17 ऐ) कोई बी निशान, जानवर दा नां, & उंदे नां दी नंबर दे बिना खरीदने या बेचने आला नेई

प्रकासित 13:17 ऐते किसे कोई खरीदे ते बेचे,
सिवाय जिसदे निशान या जानवर दा नां ते ओस दे नां दा नंबर हा।

☞ प्रकासित 13:17 ऐ इक 2nd कि कोई खरीदी-बेच नहीं सकदा, सिवाय जिसदे कोल ऐ
- (पशु दा) निशान, या
- जानवर दा नाम, जां
- उदे (पशु दे) नां दी नंबर।

➤ जानवर दा निशान

- नाम दा जानवर दा: "अपोलियन ने दी"
→ अथाह गड्डे दे राजा दा दूत अपोलियन (प्रकाशितवाक्य ९:११) दे माध्यम कनै कम्म करग ओह मसीह दे विरोधी⁶²²
ते 2 जानवर दे झूठे नबी गी बनाओ तां जे जमीनी निवासियें गी उंदे उप्पर निशान पाने लेई मजबूर कीता जा
दाहिने हत्थ, जां उंदे मत्थे उप्पर।
- नंबर दी अपने निशान पर अंकित जानवर दा: "666 ऐ."
→ 2019 च माइक्रोसॉफ्ट (अमेरिका च स्थित इक टेक्नोलॉजी कंपनी) ने पेटेंट दायर कीता हा
नंबर "060606," जेह् इा क्रिप्टोकरेंसी सिस्टम गी मनुक्खी शरीर पर डेटा गी प्रमाणत करने दी इजाजत दिंदा ऐ
सरगामी.⁶²³
- सबनें थमां बड्डे पैमाने पर इस्तेमाल कीती जाने आह ली भुगतान प्रणाली: "बारकोड दा"

⁶²²संदर्भ देना प्रकासित 13:18 ऐ.

⁶²³इंटरनेट पर प्रकाशन नंबर "W0/2020/060606" ते इसदी प्रकाशन की तरीक 26 मार्च 2020 गी सर्च करो।

→ अप्रैल 2023 च डिजिटल मुद्रा मौद्रिक प्राधिकरण (डीसीएमए) ने यूनिकोइन शुरू कीता, जेह् डा इक क्रिप्टो आह् ला ऐ
 केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) जेह् डी इक सार्वभौमिक मुद्रा इकाई (यूएमयू) दे रूप च कम्म करग ते...
 अंतरराष्ट्रीय सीबीडीसी, वैश्विक सरकार (संयुक्त राष्ट्र दा मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र च दिदा ऐ
 राज्यें) वैसे पर पूर्ण नियंत्रण च व्यक्तियें आसेआ कीते गेदे सीमा पार भुगतान दी निगरानी करियै
 सदस्य देशें चा⁶²⁴

बारकोड्स दा लेनदेन गी पूरा करने लेई सबनें थमां बड्डे पैमाने पर इस्तेमाल कीती जाने आह् ली भुगतान प्रणाली ऐ की जे एह्...
 दुनिया भर च व्यापार करने दा बेहतरनी साधना बारकोड दे सबतूं बाएं, केंद्र ते दूर त्रै सलाखें न
 दाएं, हर इक च अदृश्य संख्या 6, इसगी बनांदे होई **666 ऐ**.⁶²⁵

• **वैश्विक डिजिटल सेह त प्रमाणीकरण नेटवर्कया जीडीएचसीएन (वैश्विक डिजिटल पन्छान)**

→ जून 2023 च विश्व सेहत संगठन (डब्ल्यूएचओ) ते यूरोपीय आयोग ने 'ग्लोबल...
 डिजिटल सेह त प्रमाणीकरण नेटवर्क (जीडीएचसीएन)' कोविड-19 प्रमाण पत्रें लेई नेटवर्क बनाने लेई। पर एह्
 "ग्लोबल डिजिटल पहचान" 'एक दुनिया' दे मसीह विरोधी आस्तै सीबीडीसी आस्तै इक नीह् स्थापित करग
 सरकार' गी कानून लागू करने आस्तै पूरी दुनिया च हर इक गी "जानवर दा निशान" लैने आस्तै
 (संदर्भ देना [प्रकाशितवाक्य 13:17-18 ऐ](#)).⁶²⁶

• **जफ तक उबके त्रास ननशान नशी शोता, कोई बी नशी खयीद वकता औय नशी बेच वकता (शरीर च, प्रेरितों दे काम 17:29)**

→ सीबीडीसी दे लॉन्च होने कन्ने हर कुसै गी यूनिकोइन दा इस्तेमाल करियै लेनदेन (खरीद ते बिक्री) करना होग
 (पशु मौद्रिक प्रणाली)। मतलब केंद्र वैश्विक सरकार हर किसी दी निगरानी करग
 लेन-देन ते कुसै गी बी खरीदने जां बेचने दी अनुमति नेई देग, जदू तक उंदे उप्पर जानवर प्रणाली दा निशान नेई होऐ,
 जेह् डा इक निक्के तकनीकी उपकरण च लेनदेन आस्तै बारकोड दा रूप लैदा ऐ जिस पर डेटा इकट्टा कीता जाई सकदा ऐ
 मनुकखी शरीर दी गतिविधि जेह्डी सज्जे हलथ जां मल्ये उप्पर रक्खी जाग।⁶²⁷

• **ओह्सज्जे हलथ जां मल्ये उप्पर जानवर दा निशान: "माइक्रोचिप दा"**

→ माइक्रोचिप इक प्रत्यारोपित ते डेटा-कलेक्टेबल भुगतान चिप ऐ, जेह् डी इक अनाज दे आकार दे बारे च होंदी ऐ
 चावल दा, जेह्डा अंगूठे ते तर्जनी दे बिच्च पाया जाई सकदा ऐ। व्यावसायिक तौर पर एह् रेहा ऐ
 1990 दे दशक दे अंत थमां उपलब्ध ऐ ते एह् इकमात्र ऐसी तकनीक ऐ जेह् डी नियंत्रण लेई उदेशों गी पूरा करदी ऐ
 मनुकखी शरीर च भुगतान लेनदेन।⁶²⁸

आखिरकार, सीबीडीसी मुद्रा तुंदी त्वचा दे हेठ माइक्रोचिप दे रूप च वन आस्तै।⁶²⁹ प्रत्यारोपित होई जाग
 विश्व सरकार गी रियल टाइम च व्यक्तियें दी खरीद-बिक्री गतिविधियें गी नियंत्रित करने लेई।⁶²⁹

(प्रकासित 13:18 ऐ) ६६६ (पशु दी गिनती गिन, जो किसे मनुख दी गिनती है)

प्रकासित 13:18 ऐ इथे ज्ञान है। जो समझ (मन) रखदा है ^{#3563 ऐ}

गिनना ^{#5585 ऐ} जानवर दी गिनतरी:
 की वे मनुख दी गिनतरी ऐ; ^{#444 ऐ}
 ते उंदी गिनतरी छह सौ छह (666) ऐ।

☞ **प्रकासित 13:18 ऐ एच ऐरे बुद्धि ऐ।** जिसदे समझ होवे

- गिनना **जानवर दी गिनती**, ऐ
- कीजे एह् **ऐइक आदमी दी नंबर: 1।**

⁶²⁴ इंटरनेट पर, उमें देशें दी बध्दी गिनतरी गी सर्च करो जेह् डे सीबीडीसी दे पायलट ते रोलआउट लेई प्रतिबद्ध ना।

⁶²⁵ इंटरनेट पर, "ईएन/यूपीसी/जेएन बारकोड" दे चिह्न नें दे बारे च जानने लेई सर्च करो।

⁶²⁶ इंटरनेट पर, उंदे नवीनतम अपडेट दे बारे च जानने लेई कुंजी शब्द 'डब्ल्यूएचओ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेशन नेटवर्क' दर्ज करो।

⁶²⁷ इंटरनेट पर, सीबीडीसी आर्किटेक्चर ते क्रियोकॉर्सी दे बारे च सर्च करो ते जानने लेई।

⁶²⁸ इंटरनेट पर, सर्च करो ते सिक्खो जे माइक्रोचिप इम्प्लांट तुंदे हलथ कन्ने भुगतान किस चाल्ली सक्षम बनांदे ना।

⁶²⁹ इंटरनेट पर चावल दे इक छोटे दाने दे आकार कन्ने सीबीडीसी ते माइक्रोचिप इम्प्लांट दे बारे च सर्च करो ते जानने लेई।

- ऐएच है नंबर है **666** ऐ.

➤ पोप दा नंबर जिसदे कोल इस जानवर दा अधिकार ऐ “**666 ऐ**”

- एनNote कि 1st (पुराने) तम्बू दी संख्या दा मूल्य जो जोड़दा ऐ **666 ऐ** ऐ “इक त्रुटिपूर्ण नंबर।
→ मललब जे जानवर दी गिनती जो **666** हो जांदी है, ओ इक आदमी दी गिनती है, **666**, जो ए त्रुटिपूर्ण मनुख, अपने आप गी उनें सारे कोला उप्पर उच्चा करदा ऐ, जिसी परमात्मा आखदे न, अपने आप गी दस्सदे होई जे ओह परमात्मा ऐ परमेसरे दा मंदर, जिस च मसीह विरोधी आत् मा ऐ ([रथिस २:३-४ च](#)).

➤ मसीह विरोधी दा नां

- राजा, जो संयुक्त राष्ट्र दी वन वर्ल्ड सरकार दे 1st जानवर दा ऐ, जो इसदा फांसी देग **666 ऐ**, बड़ी संभावना ऐ जे बराक हुसैन ओबामा द्वितीय (मसीह दे विरोधी गी)⁶³⁰ जो 7वें “नवे बाबुल” राज्य दे दौरान राजा सी (या अमेरिका दा 44वें राष्ट्रपति), लेकिन फिर बाबुल दे महान शहर दा राजा होसी। साथ ही, नवे रोमन राज्य दा 8वां राजा या झूठा नबी, 7 राजाओं दा होवेगा ([प्रकासित 17:11 ऐ](#)).
- रोमन कैथोलिक चर्च दी सीट “वैटिकन सिटी” च ऐ जेड़ा 2 जानवर (नमें रोमन राज्य) दा ऐ जित्थें झूठा नबी इक मेमने दे कपड़े च (परमेसर दे लोके गी धोखा देने आस्तै) जमीन थमां बाहर औग ते इक... अजगर गी 1 जानवर (नमें बाबुल) दे सारे अधिकार दा प्रयोग करने लेई, जिसदे कारण जमीन दे सारे निवासियें (छोटे ते बड़डे, अमीर ते गरीब, आज्ञादे ते बंधन) गी अपने सज्जे हत्थ जां मत्थे उप्पर निशान मिलदा ऐ ते उंदी पूजा करना पौंदा ऐ 1st beast, “एक विश्व सरकार” ([प्रकाशितवाक्य 13:11-16 ऐ](#)).

- ऐ6. (इक आदमी दी नंबर)

- (सृष्टिकर्ता) परमात्मा दी सृष्टि दा 6वां दिन: मनुख⁶³¹

उत्पत्ति 1:26 ऐते परमात्मा ने आख्या, “आओ मनुख बनाओ।”^{म्व120} साडे विच बिब, साडे बाद उपमा: 1।^{म्व1823} ते समुंदरे दी मछियें उप्पर ते हवा दे पछियें उप्पर ते मच्छियें उप्पर राज करन मवेशी, ते सारी धरती उप्पर, ते धरती उप्पर रेंगेने आली हर इक रेंगेने आली जीव उप्पर।

उत्पत्ति 1:27 ऐतो परमात्मा ने मनुख बनाया^{म्व120} अपनी प्रतिरूप च, ^{म्व6754} परमात्मा दे प्रतिरूप च उसी पैदा किता; ^{म्व2145} ते मादा ^{म्व5347} बनाया उसने उन्हें।

→ शुरू च परमात्मा ने रचे दा ^{म्व853} स्वर्ग दा ^{म्व8064} ते धरती (उत्पत्ति 1:1).

- अपनी सृष्टि दे 5वें दिन भगवान ने महान व्हेल (ड्रेगन) पैदा कीतियां^{म्व8577} ते जींदे

(जीवन) ^{म्व2416} (आत्मा) ^{म्व5315} जो चलदा ऐ (जिस गी पानी ने खूब पैदा कीता हा), ते हर इक पंखों वाली मुर्गी अपनी किस्म दे बाद (उत्पत्ति १:२१).

- ऐफिर 6वें दिन परमात्मा ने इंसान बनाया^{म्व120} अपनी प्रतिरूप च (मर्द = न ^{म्व2145} ते मादा ^{म्व5347}).

⁶³⁰बराक ओबामा दी व्हाइट हाउस दी वेबसाइट ते जाओ ते बराक ओबामा ते पोप फ्रांसिस दी टिप्पणियां पढ़ो (पहचान करन लई)।

23 सितम्बर, 2015. अध्याय 13 थमां “660 (पशु दी गिनतरी)” दा बी संदर्भ लैओ।

⁶³¹वीडियो 1 थमां “[चित्र 13-क] सृष्टि दे कदम,” “सृष्टि दे शुरू च & कदम” दा संदर्भ लैओ।

www.therhemaofthelord.com/कोर्स1/पाठ1/ऐ।

Steps of Creation

Heb 11:3 records, "Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God" and there are three distinctions as to how God "framed" the heaven and the earth. According to Genesis 1, the word of God is framed into three different forms: things that were **Created**, **Made** (done), **made** and **to bring forth**.

God Created

- **Heaven & Earth** in the beginning, **God Created** the heaven and the earth.
- **Great whales (dragon)** On the 5th day of His creation, God created **great whales (dragon)** and **living** that moves (which the waters brought forth abundance), and every **winged fowl** after his kind.
- **Winged fowl** Then on the 6th day, God created **man** in His own image (**male** and **female**).
- **Male & Female**

God Made

- **The firmament** are the things that "God Made", the greater/lesser **light**, **Tree**, **making**, **fruit**.
- **The greater/lesser light** But before God created **man**, God said, "Let us make **man** in our **image**, after our **likeness**."
- **Tree** Then God created **man** in His own image (**male** and **female**) to let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing upon the earth.
- **Man** in our image, after our likeness.

These are the things that **God created and made**.

Then, **God** commanded **the earth** to **bring forth** grass, and **waters** to **bring forth** creeping things, and (as a result), **the earth** can **bring forth** **the** **(life)**.

God said, Bring forth

- **Let the Earth** bring forth **grass**, **Herb**, **yielding seed**, **Tree**, **yielding**, **fruit**.
→ **after his kind**.
- **Let Waters** bring forth **abundantly** **moving creatures**, **bring forth** **the living soul**, **cattle**, **creeping thing**, **life** of the earth.
→ **after his kind**.
- **Let the Earth** bring forth **the life**, **cattle**, **creeping thing**, **life** of the earth.

तां जे संसार विश्वास करन के तू मिंगी भेजेया ऐ (इं१७:२१ दी).

→ मेंचउनें, ते तूचमें, तां जे ओह बनाई सकन पूरणचइक; ते तां जे दुनियां गी

जान लओ कि तू मिंगी भेजेया ऐ, ते उंदे कन्ने उंदे कन्ने प्यार कित्ता ऐ, जिय्यां तू मेरे कन्ने प्यार कित्ता ऐ (इं१७:२३ ऐ).

- लिखे दा ऐ, तुस बनो पवित्र; की वे मैं हांपवित्र (1पतरस १:१६ ऐ), ऐ

→ के अनमोल खून के साथ मसीह, के रूप में इक मेमना^{१२८६} बिना दाग ते बिना दाग (१पतरस १:१९).

- ऐईश्वर ऐइक भावना (इं४:२४ ऐ) ते प्रभु परमात्मा ऐपवित्र (लेवी १९:२ ऐ), ते जेस ने तुसं गी सदेआ ऐ, ओह ऐपवित्र (१पतरस १:१५ ऐ), ते जेका बुलाया गोदा ऐ, आज्ञाद होने दे नाते, ओह ऐमसीह दानौकर (१कुरिन्थियों ७:२२).

→ ईश्वर=रुह, ऐपवित्र=मसीह

- इस तर्हा दा मतलब पवित्र आत्मा है कि दी भावना ईश्वरमें हैमसीह, ते मसीहचईश्वर जियां इक.

→ उसी तरह "मनुख गी अपनी प्रतिरूप च रचे दा" मतलब ए ऐ

"जिंदगी दायानी अपनी घरेआली दे खून कन्ने पैदा होना ऐ चमनुख दा मांस"।^{१२७}

→ कीजे जदूं थमां मनुख दे द्वारा^{१२४४} आया मौत, आदमी द्वारा^{१२४४} आया बी मरे दे जींदा होया (१कुरिन्थियों १५:२१).

- पैहला आदमी आदम गी जिंदा आत्मा बनाई दित्ता गेआ; आखरी आदम गी जीवंत आत्मा बनाई दित्ता गेया।

(१कुरिन्थियों १५:४५).

→ हालांकि, २ जानवर जमीन दे निवासियें गी १ जानवर दी पूजा करने लेई मजबूर करग (प्रकाशितवाक्य १३:१२-१३ ऐ) बी

छवि दे रूप च ओच दी (२ वी) जानवर जिसने बोलने आस्ते २ जानवर कोला आत्मा मिली ऐ (प्रकाशितवाक्य १३:१५ ऐ), मजबूर करना

उन्हें ग्रहण करने के लिये इक निशान जानवर दा (६६६ ऐ, ऐप्रकाशितवाक्य १३:१६-१ ऐ) उंदे सज्जे हत्थ जां मत्थे उप्पर, जां उंदे च

गेश्त (प्रकाशित १३:१६ ऐ).

इस चाल्ली शैतान (जिस च मौत दी ताकत ऐ) गी न सिर्फ उंदे सारें गी नष्ट करने दा अधिकार ऐ जेड़ा

की छवि की पूजा करें ओह (२ वी) दरिदा (प्रकाशितवाक्य १३:१५ ऐ), ऐपर बी होगा पीसे पवित्र आत्मा गी revent करो सील करना

उन्हें दिलों में (२कुरिन्थियों १:२२, ऐप्रेरितों दे काम १७:२९).



➤ **उपमा**

जेकर मनुक्ख थमां पसली नेई कड्डी गई तां^{एव120}जीवन मनुक्ख दे शरीर च गै रौहदा ऐ^{एव120} (उत्प 6:3) ऐ, ऐ लेकन मनुख कोला पसली कड्डने दे बाद।^{एव120} मर्द जनानी दा पति बनदा है।^{एव 376}

- ऐडकरfter आदमी पाप किता, ओह उस घरेआली दा पति नेई रेहा जेड़ा^{प्रभु परमात्मा}दे दिया।^{प्रभु परमात्मा} चमड़े दे कोट बनांदे हे, ते मर्द ते जनानी गी कपड़े लांदे हे (उत्पत्ति ३:२१). फिर, आदमी^{एव120} हव्वा को जानता था उंदी पत्नी; ते ओह गर्भवती होई गई ते कैन (मर्द जां पति) गी जन्म दित्ता^{एव 376} प्रभु कोला^{एव 3068} ते हाबिल (उत्पत्ति ४:१-२)⁶³⁷

[चित्र 13-ग] हाबिल दा कैन कोला बी मता उत्तम चढ़ावा

Cain's offering	Abel's offering
Offered the fruit of the ground ¹¹²⁷ (from the tree of knowledge of good & evil) - which God commanded on the 3rd day (not the life of the earth ¹¹²⁸)	Offered the firstlings of his flock and its fat (from a tree of life) - which God commanded on the 6th day (the fruits of righteousness by faith , Phl 1:11)
God saw it " good " before the ground was cursed (Gen 1:25 Gen 3:17). → But Cain offered his harvest of the the ground after it was cursed	God saw it " good " (Gen 1:25) → Abel offered his harvest that the earth brought forth - the harvest of the souls (Gen 1:24)
The soul of the flesh is in the blood → but Cain did not make an atonement for the soul by blood (Lev 17:11)	The soul of the flesh is in the blood → Abel made an atonement for the soul (the firstlings of his flock) unto the LORD (Lev 17:11)

नोट: प्रभु परमात्मा पसली (या जान) लेई लेया हा⁶³⁸ आदमी से^{एव120} ते उसी जनानी बनाई दित्ता।

उस बेले उस माहू ने आखेआ, "इस आस्ते इक माहू अपने पिता ते अपनी मां गी छोड़िये अपनी घरेआली कनै चिपकग वे **होंगे इक मांस**" (उत्पत्ति २:२२-२५).

- "इस कारण इक मनुख होग⁴⁴⁴ अपने पिता ते मां गी छड्डी देओ ते अपनी घरेआली (खी) कनै जुड़ी जाया।¹¹³⁵ ते ओह दोऐ गै होडन **इक मांस** (इफिसियों 5:31 ऐ)."

- इक बड्डा रहस्य (**मसीह + कलीसिया दा**)

इफिसियों 5:32 ऐ बड़ा रहस्य ऐ, लेकन मैं इस बारे च बोलना **ऐमसीह ते कलीसिया गी**.

- एक में परफेक्ट = **मसीह** (घरे-आहला⁴³⁵) ते **कलीसिया गी** (घरे-आहला¹¹³⁵).
- लेकन जेस कनै जुड़ी दी ऐ प्रभु इक आत्मा ऐ (**१ कुरिन्थियों ६:१७**).

→ दूजे शबदां विच, ओह (पुरुष & मादा, **उत्पत्ति ५:२**) या परमेसरे दी कलीसिया, जेकी जुड़ी दी ऐ प्रभु, ऐ ऐ **इक आत्मा** इसदी तर्ज पर "**ब्याह दा इक रूप**."⁶³⁹



रोम 6:5 ऐ कीहके जे अस उदी मौत दे रूप च इकडे होई गेदे आं; अस बी उदे जी उठने दे समान होगो।

रोम 8:3 ऐ कीहके व्यवस्था शरीर दे जरिए कमजोर होईये जेड़ा नेई करी सकदी ही।

ईश्वर अपने भेजते **हूऐ बेटा पाप** दे शरीर दे समान च, ते पाप दे कारण शरीर च पाप दी सजा दित्ती।

फिलिपिन्स 2:5 ऐ इह मन तेरे विच होवे, जो विच भी सी **मसीह यीशु: 1।**

फिलिपिन्स 2:6 ऐ जो, रूप में होकर **ईश्वर**, परमात्मा दे बराबर होना डकैती नेई समझेआ।

फिलिपिन्स 2:7 ऐ लेकन अपने आप गी कोई प्रतिष्ठा नेई बनाई लेआ, ते अपने उप्पर नौकर दा रूप धारण करी लेआ।

और म^{ैं} बनाया गया **ओह उपमा आहला पुरुष: 1।**⁴⁴⁴

→ मैं बनाया जा रहा है **रब दा छवि** ते उदे समान च, " ऐ **ईश्वर** साडे विच वास करदा है, ते उदा प्यार ऐ **सिद्ध कर दित्ता** च असजेकर अस इक दुए कनै प्यार करदे आं" (**१ जोह ४:१२**). साडे च जेके बपतिस् मा लेंदे हे **यीशु मसीह** हे

637 "[चित्र 13-ग] हाबिल दा कैन कोला बी मता उत्तम चढ़ावा" जां वीडियो 4. "जमीन दा फल^{एव127} ऐ बनाम दे फल दा धरमा" www.therhemaofthelord.com/course1/4-जमीन-दे-फल-बनाम-धर्म-दे-फल-अपडेट/.


638 "[चित्र 13-ख] मनुक्ख दी पसली & इक मांस" दा संदर्भ लैओ तां जे एह समझने आस्ते जे मनुक्ख दी पसली जीवन कनै किस चाल्ती जुड़ी दी ऐ।

639 वीडियो 7. "आओ, अस अपनी प्रतिरूप च मनुख गी अपनी प्रतिरूप दे मताबक बनाओ" www.therhemaofthelord.com/course2/7-आदम-से-अब्राहम-महिला-दी-पीढ़ियां-आओ-असी-अपनी-रूपता-बाद-अपनी-छवि-च-मर्द-बनाओ/.

बपतिस्मा दे जरिए उदे समान च इकट्टा कीता गेदा ऐ, ते इस चाल्ली बपतिस्मा दे द्वारा उंदे कन्ने दफनाया गेदा ऐ
मौत; पर, जिय्यां मसीह मरे दे बीचा जिंदा होई गेया, उय्यां गै अस बी जिंदा होई जागे
उदे जी उठने दे समान च मरे दे⁶⁴⁰

- पैहला आदमी^{H444} बनाया आदम आखदे हे^{H121} ते आदम दी पीढ़ियें दी कताब उस दिन शुरू होई हीईश्वर बनाया मनुख, ऐ^{H120} ते उसी अंदर बनाई
दिता **उपमा दी आहलाईश्वर** (उत्पत्ति ५:१).⁶⁴¹

[चित्र 13-घ] आदम दी पीढ़ियें दी कताब



→ जिवें 2nd जानवर विनाश विच चली जांदा है (प्रकासित 17:11 ऐ), कोई बी च लिखे दा नेई लब्भा **जीवन दी कताब**
(प्रकासित 20:15 ऐ) च डाल दिता जाग **अग दी झील** जित्थे शैतान, (1) जानवर, ते झूटा नबी
(2 वी जानवर दा) न (प्रकासित 20:10 ऐ).

- ऐ **6**. (6वें दिन दा आदमी)

- मुक्ति दा परमात्मा (प्रकाशितवाक्य 19:1) जीतने आलें गी (जिंदे पसलियां उंदे अपने मांस थमां कड्डियां गेइयां हियां
ते मसीह कन्ने जुड़ी गे)⁶⁴² अपनी शक्ति दे द्वारा (१ कुरिन्थियों ६:१४). पर **6वें दिन दा आदमी** (या जिन्दगी दा मनुख
शरीर च), जेहड़े जानवर दी मूर्ति दी पूजा करदे न ते जानवर दा निशान पांदे न (जेहड़ा इक प्रगत ऐ
नाश दा निशान, फिलिपिन्स 1:28 ऐ) उंदे शरीर च न्हरे दी तर्ज पर बनाई जांगन ते उंदे च सुट्टी दिते जांगन
अग दी झील (प्रकासित 20:15 ऐ).

- ऐ **660 ऐ** (जानवर दा नंबर)

- जानवर दा नां अपोलियन ऐ जेड़ा अथाह गड्डे दे सुर्गदूत दा राजा ऐ⁶⁴³
→ इक आदमी दा नंबर है **6**, ऐ⁶⁴⁴ ते अंग्रेजी गेमट्रिआ च जानवर दे नां "अपोलियन" दा नंबर ऐ

⁶⁴⁰video 34. "आत्मा दे अनुसार & अनुग्रह दे तहत"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-अनुग्रह दे तहत-आत्मा दे अनुसार-देवताएं-चयनित-गवाहें लेई-रेमा/.

⁶⁴¹"[चित्र 13-घ] आदम दी पीढ़ियें दी कताब," जां वीडियो 5. "आदम दा इक ज्ञानी कुंवारी च बदलना।"

www.therhemaofthelord.com/course1/5-आदम-से-दुल्हन-देव-सृष्टि दा-एक-सार-सार/.

⁶⁴²"[चित्र 13-ख] मनुख दी पसली & इक मांस" दा संदर्भ लैओ।

⁶⁴³संदर्भ देना प्रकाशितवाक्य ९:११.

⁶⁴⁴"6 (इक आदमी दी नंबर)" दा संदर्भ लैओ प्रकासित 13:18 ऐ.

660 ऐ, ऐ⁶⁴⁵औय इव तयश की नोफय क माहू (6.) यानी जानवर दा ऐजोइदा ऐ**666 ऐ**(660 ऐ+6.).

- ऐ**666 ऐ**(इक माहू दी गिनतरी जेहड़ा जानवर दा ऐ)

- दाऊद दे सिंहासन पर बैठने दी चुनौती देने आला आदमी, जेहड़ा ऐ**मसीह दागदी** पर बैठेउसी तरह होनी चाइदी जानवर दे नां दी नंबर, अपोलियन।

→नोट: जानवर दा नां “**अपोलियन ने दी**” इब्रानी च गोमात्रिया ऐ**641 ऐ**, ते मसीह विरोधी दा नां

“**बराक हुसैन ओबामा द्वितीय**” इब्रानी च गोमात्रिया बी ऐ**641 ऐ**.

➤ **जानवर दी गिनती करो**, जो हैइक आदमी दी नंबर, “**ऐ. 666 ऐ**” (प्रकासित 13:18 ऐ)

- ऐ**641 ऐ**इक मनुख दा नंबर है, **बराक ओबामा ने दी**, जो जानवर अपोलियन दा ऐ।

→हिब्रू गोमात्रिया दे वास्ते “**इक आदमी बराक ओबामा दी नंबर**” बराबर होंदा ऐ**666 ऐ**.

- ऐ**666 ऐ**(अदोनिकम)

एज़ा 2:13 ऐबच्चे (पुत्र) एच^{1121 ऐ}अदोनिकम दा, एच^{140 ऐ}छह सौ साठ (666)।

- अदोनिकम (मतलब “मेरा प्रभु उठया”) इक इस्त्राएल दे कुल दा मुखिया ऐ जेड़ा वनवास थमां वापस आया हा।

ओह दाऊद ते हमगीत दा पुत्र हा, जेका अपने पिता दे खिलाफ बगावत दा अगुवाई करदा हा।⁶⁴⁶

- अदोनिकम^{एच^{140 ऐ}}अदोनिया बी आखदे न^{एच^{138 ऐ}}चेह **10:16 ऐ**, ते **शराजा १:८ ऐ**, बगैरा.

- ऐइस्त्राएल दे लोकें गी, जिनें गी बाबुल दे राजा नबूकदनेस्सर ने बाबुल च लेई गया हा।

यरूशलेम ते यहूदा च हर इक अपने शहर च बापस आई गो। अदोनिकम दे पुत्र, नंबरिंग करदे**666 ऐ**, हे उनमें (एज़ा 2:1-2 ऐ). (परनेह **7:18 ऐ**अदोनिकम दे पुत्रों दी गिनतरी 667 दर्ज करदा ऐ)।

- ऐअदोनीकाम ने बतशेबा (सुलेमान दी मां) दी गुहार लानी कि ओ ए

इस्त्राएल लोकें आस्ते राज (शराजा २:१५), पर इस करिए की प्रभु (यहोवा) एच^{3068 ऐ}स्थापित कर दिया था सुलेमान ने दीदाऊद दे सिंहासन उप्पर बैठाने आस्ते अदोनीकाम गी मारी दिता गेआ (शराजा २:२४-२५ ऐ).

→अदोनिकम, जो अपणेह पिता दे खिलाफ बगावत दा सिर हे, मसीह विरोधी दा प्रतिनिधित्व करेंदे जो कि कोशिश किती हई

दाऊद दे सिंहासन उप्पर बैठो, जेड़ा ईश्वर दाऊद कन्ने उठने दी कसम खादी ही**मसीह**अपने पर बैठना गदी (एकट 2:30 च) जो सदा तक स्थापित हो जावेगा (२सा ७:१६ ते).

- ऐ**666 ऐ**(सुलेमान ने दी)

धरती उप्पर 1 (पुराने) तम्बू, हत्थें कन्ने बने दा⁶⁴⁷

2Ch 3:1 ऐफिरी सुलेमान ने यहोवा (यहोवा) दा घर बनाना शुरू किता।^{एच^{3068 ऐ}}यरूशलेम च

मोरिया दे पहाड़ च जित्थें प्रभु ने अपने पिता दाऊद गी प्रगट कीता हा।

जिस जगह दाऊद ने याबूसी ओर्नान दे कुटिया च तैयार किता हा।

→सुलेमान ने यरूशलेम च मोरिया पहाड़ी च प्रभु (यहोवा) दा घर बनाया।

(पवित्रतम दा पवित्र)

2Ch 3:8 ऐते उने सबतू मता कमाया^{एच^{6944 ऐ}}पवित्र^{एच^{6944 ऐ}}(पवित्रतम दा पवित्र) घर, ऐ^{एच^{1004 ऐ}}

जिसदी लंबाई घरे दी चौड़ाई दे मताबक ही।

बीस (20) हाथ ते चौड़ाई बीस (20) हाथ: 1।

ते उसी ठीक (अच्छी) कन्ने ढकया।^{एच^{2896 ऐ}}सुन्ना, छह दी रकम^{एच^{8337 ऐ}}सौ^{एच^{3967 ऐ}}प्रतिभाएं दी।

⁶⁴⁵अपोलियन अंग्रेजी च गोमट्रिआ 660 ऐ।

⁶⁴⁶“एच¹⁴⁰ - 'äðõñiqām - मजबूत दा हिब्रू शब्दकोश (kjv)” नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 26 अगस्त, 2023।[https://www.blueletterbible.org/lexicon/h140/kjv/wlc/0-1/ ऐ](https://www.blueletterbible.org/lexicon/h140/kjv/wlc/0-1/)।

⁶⁴⁷“[चित्र 13-0] धरती उप्पर पुराने तम्बू (हत्थें कन्ने बने दा पुराना यरूशलेम) दा संदर्भ लैओ।”

→ पवित्रतम दे घर दी लंबाई (2Ch 3:8 ऐ) च ओरेकल दे समान ऐश्राजा ६:२०.

इसलेई, पवित्रतम दा पवित्र हत्थें कन्नै बनाया गेदा हा (मोरिया पहाड़ च यरूशलेम च) कन्नै ओवरलेड होंदा ऐ अच्छी तरह से सुन्ना, छह सौ (600 दा) प्रतिभाएं गी
(नोट: "पवित्र दे सारे कम्मों च जेड़ा सोना कम्म करने आस्तै कब्जा कीता गेदा हा ^{पृ 6944 ऐ} जगह (दी पवित्रतम दा पवित्र), इत् थें तकर के बलिदान दा सोना बी उन्नीस (29) ताला हा, ते...
सात सौ तीस (730) शेकेल, पवित्र स्थान दे शेकेल दे बाद, निष्कर्ष ३८:२४ ऐ).

➤ मंदिर दा ओरेकल (पवित्रतम दा पवित्र)

दे मुताबिक श्राजा ६:२०, मोरिया पहाड़ च यरूशलेम च मंदर दे वचन (मंदिर दा अंदरूनी कमरा) दी लंबाई, चौड़ाई ते उंचाई बिल्कुल उतनी गै ऐ जितना कि इक सिद्ध घन, जेड़ा सर्ग च "पवित्र स्थान" कन्नै मिलदा ऐ।

→ मंदिर दा वचन (पवित्र स्थान, 1राजा 6:16 ऐ-19 ऐ), जो हत्थों के साथ तैयार की गई थी में पड़े
घर दे अंदर (1राजा 6:19 ऐ), उचाई च प्रभु दे घरे कोला 10 हाथ छोटा ऐ (श्राजा ६:२, ऐश्राजा ६:२०).

श्राजा ६:२ ते घर दाजिसदे लेई राजा सुलेमान बनाया हा प्रभु गी, ऐ

लंबाई दीउदे च साठ (60) हाथ हे, ऐ
ते उदी चौड़ाई बीस (20) हाथ ते उचाई तीस (30) हत्थ.

श्राजा ६:२ ते ओरेकल दा (पवित्र दा पवित्र, तम्बू दे मंदिर दा सबतू अंदरूनी कमरा) ^{पृ 1687 ऐ}

अग्रभाग में

बीस (20) हाथ लंबाई च,

ते बीस (20) हाथ चौड़ाई (चौड़ाई) च,

ते बीस (20) हाथ उदी उंचाई च:

ते उने उसी शुद्ध कन्नै ढकया ^{पृ 5462 ऐ} सुन्ना; ते देवदार दी वेदी गी इस चाल्ली ढक दिता।

➤ दी 1 वी (पुराने) तम्बू (पुराने यरूशलेम) & 2 (नया) तम्बू (नया यरूशलेम)

इब्रानियों 8:7 ऐकीहके जेकर ओह पैहला वाचा बेदाग होंदा।

फिर दूजे आस्ते कोई जगह नेई मंगनी चाहिदी ही।

लेवी 7:38 ऐयहोवा ने मूसा गी सीनै पहाड़ी च आज्ञा दिती।

जिस दिन उने पुत्रों गी हुक्म दिता हा ^{पृ 1121 ऐ} आहला

इजराइलसिनै दे जंगल च प्रभु गी अपने बलिदान चढ़ाने आस्ते।

गलाती 4:25 ऐकीहके ए आगर अरब दे सीनै पहाड़ ऐ, ते यरूशलेम गी जवाब दिंदा ऐ, जेड़ा हुन ऐ।

ते अपने बच्चें कन्नै दासता च ऐ ^{पृ 5043 ऐ}

गलाती 4:26 ऐलेकन यरूशलेम जेड़ा उपर ऐ, आजाद ऐ, जेड़ा साढ़े सारें दी मां ऐ.

→ की जे 1 तम्बू दा (अगर, अरब च सिनै दा पहाड़, पार्थिव यरूशलेम) त्रुटिपूर्ण था,

2 तम्बू दा (स्वर्गीय यरूशलेम) दी लोड़ ही।⁶⁴⁸

➤ 666 ऐ सोने दी टैलेंट (इक त्रुटिपूर्ण नंबर)⁶⁴⁹

2Ch 9:1 ऐते जदुं शेबा दी रानी (गोत्रें दे त्रै पैहे पूर्वजें दा नां ते इक...

इथियोपियाई जिला, दक्षिणी अरब दा इक राष्ट्र^{पृ 7614 ऐ}

सुलेमान दी प्रसिद्धि सुनी, ते यरूशलेम च सुलेमान गी कठिन सवालें कन्नै परख करने आली आई।
बड़ी बड़ड़ी संगत ते ऊंट जेड़े मसाले ते सोना दा खूब ढाला पादे हे।

⁶⁴⁸वीडियो 48. "8 दा हनुक्का" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-दे-भोज-8-हनुक्का/.

⁶⁴⁹"[चित्र 13-0] धरती उपर पुराने तम्बू (हत्थें कन्नै बने दा पुराना यरूशलेम)" दा संदर्भ लैओ।

⁶⁵⁰"H7614 - šāḥā' - मजबूत दा हिब्रू शब्दकोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 21 अगस्त, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h7614/kjv/wlc/0-1/ ऐ>

ते कीमती पत्थर बी
दिल में था।

→शेबा की रानी दक्षिणी इलाके के एक राष्ट्र के इथियोपिया के जिले के एक कबीले की ऐ

अरब ने दी। **एनोटे** कि नपुंसक बी इथियोपिया का एक आदमी था जिसके कोल कैडिस के अधीन बड़ा अधिकार था इथियोपियाई की रानी (प्रेरितों के काम 8:27). शेबा की रानी बी दासता च ही (गलाती 4:25 ए) जा कानून के तहत, इस चाल्ली शेबा की रानी ने सुलेमान की पुच्छे गेदे किस्म के सवाल सारे शा मते न संभवतः घर (प्रभु के परमात्मा के) नाल संबंधित है, जो 1 (पुराने) विच परमात्मा का लोगो है। तम्बूजेहड़ा बंधन च रौहे आहें आसते बनाया गेदा हा।

2Ch 9:2 एसुलेमान ने उसी उदे सारे सवाल दस्से, ते सुलेमान कोला किश नेई छुपाया

जिसगी उने उसी नेई आखेआ। ते उसने राजा की सौ बीस (120 ए) सोने की टैलेंट, ए ते मसाले की बड़ी मती ते कीमती पत्थरों की।

ना ही कोई मसाला हा, जिन्ना शेबा की रानी ने राजा सुलेमान की दित्ता हा।

2Ch 9:13 एहेन एक साल च सुलेमान की सोने का वजन आया

छह सौ साठ छह (666 ए)सोने की टैलेंट;

→शेबा की रानी की, सुलेमान की अति बुद्धि (2Ch 9:6 ए) के लायक 120 एसोने की टैलेंट

साथ ही भरपूर मसाले के कीमती पत्थर। पर इस करिए की 1 (पुराने) तम्बू, जो...

पृथ्वी पर था यरूशलेम त्रुटिपूर्ण था, 2 (नमा) तम्बू (स्वर्गीय यरूशलेम जो है

चमसीह, ऐड्रानियों १:११-१२) की लोड़ ही (इड्रानियों 8:7 ए). इस चाल्ली सोलोमन के कोल जेडा सोने का वजन आया हा

(त्रुटिपूर्ण तम्बू के जरिए) एक (1) साल च हा 666 एसोने की टैलेंट, दूजे शब्दां च, ए

1st (पुराने) तम्बू लायकों से पूरी बुद्धि 666 एसोने की टैलेंट, पर सारे का योग

सोने की टैलेंट, कि वजन करदा ऐ 666 ए, "एक त्रुटिपूर्ण संख्या" का मूल्य ऐ।

"इड्रानियों १:११ परमसीह आने आली भलाई के महायाजक आए।

एक बड़डा ते मता द्वारासही तम्बू, हत्ये कन्ने नेई बने दा,

मतलब इस इमारत का नेई;"

† **दी 1 की (पुराना) धरती पर तम्बू**⁶⁵¹

(नपुंसक के वास्ते - व्यवस्था के तहत) नेडे जाओ, ते इस रथ नाल जुड़ जाओ (प्रेरितों के काम 8:29)

- नपुंसक एक आदमी है ^{#435} इथियोपिया दालौट आना आराधना करने आस् ते यरूशलेम आने के बा'दा "एक आदमी का एक संदर्भ ^{#435}" जिय यां इस्राएलियों का इशारा ऐ के ओह मानू "मसीह च परमेशरे की धार्मिकता (२कुरिन्थियों ५:२१), ते पवित्र ऐ ^{#40} (मार्च 6:20 गी)।" नपुंसक, हालांकि, एक आदमी ऐ ^{#435} इथियोपिया का विदेशी रानी (बड़े अधिकार वाले विदेशी आदमी) के अधीन, ना कि इस्राएली जेडे प्रभु परमात्मा के अधीन न (इज 20:5 ए).

इत थें गै नपुंसक ने गू लाया के ओह यशायाह नबी के पबित्तर शास् तर की नेई समझी सकदा ते उसी एक खास मानू की मदद की लोड़ ऐ (प्रेरितों के काम 8:31) सुर्गदूत उं गल लें की समझने आस् ते उंनेगी समझना चाहदे हन (जे के मते सारे नबियें ते धरमी मनुखें की दिक् खना चाहदे हन, पर उंनेगी नेई दिक् खेया। मत्ती 13:17 ए). ए इशारा करदा ऐ के नपुंसक व्यवस्था के हेठ ऐ, इस आस् ते आत् मक रूप च " एक जनानी (या एक बच्चा, गलाती 4:3), " जेकी पबित्तर शास् तर की समझने आस् ते मनुख की मदद की चाहदी ही (जेकी अनुग्रह के अधीन ऐ" ("तेरी चाह तुं पति आस् ते होग, ते ओह तेरे उप् पर राज करग।" उत्पत्ति ३:१६).

फिलिप्पस (आत्मा के अगुवाई आले के बाद, प्रेरितों के काम 8:29) नपुंसक के नाल रथ विच जुड़ गए, ओह दोनों पानी विच उतर गए, मतलब नपुंसक शब्द विच भिगो गया (लोगो दा) ^{#3056} ते वचन च धोने च पवित्र होई गेआ ते शुद्ध होई गेआ (रम / दा) ^{#4487} फिलिप (इफिसियों ने दी ५:२६ ए) ते ओह "एक मांस (उत्पत्ति 2:23-24 ए)" जिवें ओह जुड़ गए प्रभू (१कुरिन्थियों ६:१७).

१कुरिन्थियों १५:४० आकाशीय पिंड ते स्थलीय पिंड बी नः

लेकन आकाशीय की महिमा एक ऐ, ते पृथ्वी की महिमा होर ऐ।"

नपुंसक व्यवस्था दा (या धरती दा) हा, इस चाल्ती उदे कोल स्थलीय शरीर हा, जदके फिलिपुस अनुग्रह दे हेट हा (सुर्ग दा, इस करी उदे कोल आकाशीय शरीर हा। "ओ पानी चों निकले" दा मतलब ऐ "ओ व्यवस्था चों निकले; इस चाल्ती पाप दा नपुंसक उपर राज नेई होग, कीजे नपुंसक हुन व्यवस्था दे अधीन नेई ऐ, पर अनुग्रह दे अधीन ऐ, इस आस् ते उंदे चा दो "इक आत् मा" च न (१कुरिन्थियों ६:१७), प्रभु नाल जुड़ गया
 → "इस आस् ते ओह दोऐ नेई हन, लेकन इक शरीर गै हन. इस आस् ते परमात्मा ने केह जोड़ेया ऐ,
 मनुख न दे⁴⁴⁴ अलग-अलग कर दे" (मत्ती 19:6 ऐ). नपुंसक दा शरीर सांसारिक कोला बदली गेआ
 (स्थलीय) स्वर्गीय (आकाशीय) तक, इस करके ओह खुश हो के अपने रास्ते चली गया (प्रितों दे काम 8:39).

+ 2 वी दी(नमां)स्वर्ग च तम्बू⁶⁵²

(फिलिपस दे वास्ते - अनुग्रह दे तहत) नेडे जा के इस रथ नाल जुड़ जाओ(प्रितों दे काम 8:29)

- **हेप्रभू दी आत्मा**फिलिपस गी जबरदस्ती लेई लेआ ते नपुंसक ने उसी हुन नेई दिक् खेया(प्रितों दे काम 8:39).

फिलिपस दे पानी च बाहर औने दे बा'द प्रभु दी आत् मा फिलिपस दे तम्बू गी लेई गेई (जिय् यां के प्रभु यीशु मसीह ने दस् सेया ऐ) रपतरस १:१४, ते अपने नीच शरीर गी बदली दिता, तां जे "ओह गौरवशाली दे समान बनाई जा

शरीर दाउद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह, (जांमेमने दा) जिस कम्म दे अनुसार ओह सारे चीजें गी अपने अधीन करी सकदा ऐ (पीएचएल३:२१ ऐ)।"

- यीशुसाडे नाल जमीन ते चलदा रेहा¹⁰⁹³ (लुका8:27 ऐ) पर उंदे पैर शापित जमीन कोला उपर हे⁵⁴⁷⁶ जदुं उसी बूटे उप् पर लटकाया गया ते सूली उप् पर चढ़ाया गया। उय्यां गै फिलिपस ते नपुंसक दोने दे पैरें बी कित्ता जदू तक ओह रथ च इकट्टे बैठे दे इक पानी च नेई पुज्जी जंदे
 (प्रितों दे काम 8:31).प्रभू जीबपतिस्मा लेई पानी च जांदे होई उंदे पैरें गी साफ रखदे हे, तां जे उंदे खड़ोते दे हे पवित्र धरती(जमीन) ते।¹⁰⁹³

+ रथ⁷¹⁶(ἄρμα, शायदथमाἄρμα ऐ¹⁴² मतलब टीअके अप, शायद साथἄλφ ऐ¹अल्फा)

- ग्रीक च रथ दा मतलब ऐ अल्फा जेहड़ा तुसेंगी उपर लेई जंदा ऐ, कीजे प्रभु अल्फा ऐ ते ओमेगा, द...

शुरूआत ते अंत(प्रकासित 1:8 ऐ), ओह् असेंगी अपने कोल उपर चुक्की लैग, ते (खुले चेहरे कन्ने दिक्खदे होई जि'यां क कांच दी महिमाप्रभू), अस सारे महिमा थमां महिमा च इक गै प्रतिरूप च बदली जागे, जि'यां...

दी आत्मा दे द्वाराप्रभू.(२कुरिन्थियों ३:१८).

- इसदे अलावा रथ दा आलंकारिक प्रतिनिधित्व ऐप्रभू, जो है, था, और आने वाला है,

"सर्वशक्तिमान दा(मुक्तिदातायीशु मसीह)" जो साडे वास्ते फिर आओगे जिवेंमेमने दा⁷²¹जानाथ ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह, ऐ साद्दाईश्वर(न्याय 16:28 ऐ).⁶⁵³


यशायाह 66:15 च की वे, दिखो, यहोवा (यहोवा)³⁰⁶साथ आ जाएगाअग, ते उंदे कन्नेथें⁴⁸¹⁸ ऐ

बवंडर की तरह, उदे गुस्से गी गुस्से कन्ने, ते उदी डांट कन्नेआग की लपटें.

⁶⁵²वही।

⁶⁵³वीडियो 33. "इस रथ च अपने आप गी जोड़ो।" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-अपने आप गी इस रथ च जोड़ो/ते video 16. "गैर-यहूदी (मसीह दा रहस्य)।" www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

[चित्र १३-०] धरती उप्पर पुराना तम्बू (हलथें कन्नै बने दा पुराना यरूशलेम)



* सुर्ग दे 2 (नवे) तम्बू दे वास्ते, “[चित्र 21-2] स्वर्ग एच नवां तम्बू & परमेश्वर दा मंदिरा”

[चित्र 13-1] 7 राज्य (दानियल दा सपना ते दर्शन)

➤ **7 राज्यें दा (दानियल 7द्वारा अनुवाद कीता गेआ)**

दान 7:1 ऐबाबुल दे राजा बेलशस्सर दे पैहले साल च दानियल ने अपने बिस्तर उप्पर अपने सिर दे बारे च इक सपने ते दर्शन दिक्खे।

फिरी उने सपना लिखेया, ते गल्लां दा योग दस्सेया।

दान 7:15 ऐमें, दानियल, अपने शरीर दे अंदर अपनी आत्मा च परेशान हा, ते मेरे सिर दे दर्शनें मिगी परेशान करदे हे।

दान 7:16 ऐमें उंदे च इक खडोते दे कोल आया ते उदे कोला इस सब दी सच्चाई पुछया। तां उन् ने मिगी ग् लाया, ते उनें गल्लें दी व्याख्या मिगी दस्सी दिती।

➤ **४आत्माएं(स्वर्ग दा), ४बड़े जानवर(महान समुंदर दा), ४राजा(धरती दा)**

दान 7:2 ऐदानियल ने बोल्या, “

मैं रातीं अपने दर्शन च दिक्खेआ, ते दिखो, **चार आत्माएं गी** ^{एव 7308 रे} **स्वर्ग दा** बड़े समुंदर उप्पर टकराया.

आसमानों की चार आत्माओं

जकरयाह 6:1 ते मैं मुड़ियै अपनी अक्खीं उप्पर चुक्की लैता ते दिखया, चार रथ आए

दो पहाड़ें दे बिच्चो-बिच्च निकली; ते पहाड़ पीतल दे पहाड़ हे।

जकरयाह 6:2 पैहे रथ च लाल घोड़े हे; ते दूए रथ च काले घोड़े;

जकरयाह 6:3 ते त्रीए रथ च सफेद घोड़े;

ते चौथे रथ च ग्रिस्लेड (दागदार, तेंदुआ) ^{एव 1261 रे} ते बे (मजबूत) ^{एव 554 रे} घोड़े.

जकरयाह 6:4 उस बेले मैं उस सुर्गदूत गी जवाब दिता, जेड़ा मेरे कन्ने गल्ल करदा हा, “हे मेरे प्रभु, ए केहड़े न?

जकरयाह 6:5ते सुर्गदूत ने मिगी आख्या, “एह ना”आकाश दी चार आत्माएं, ऐ

जेड़े प्रभु दे सामने खड़ोने थमां निकलदे न^{एव 113} सारी धरती दा.

जकरयाह 6:6ओहकाले घोड़े जेड़े उदे च न, उत्तर मुलख च चली जंदे न;

तेगारे दा उदे पिच्छे चली जाओ;

तेग्रिस्लेड दा(धब्बेदार, तेंदुआ)^{एव 1261} दक्षिण मुलख दी बखी जाओ.

जकरयाह 6:7तेखाड़ी दा(मजबूत)^{एव 554} अगो चली गया, ते जाने दी कोशश कीती तां जे ओह इत्थे-उत्थे चलन

धरती गी: 1।^{एव 776} ते उन आख्या, “तुस इत्थे जाओ, धरती उपपर इधर-उधर चली जाओ”

इस आस् ते ओह धरती उप पर इत् थें-उत्थे चलदे रेह।

→आकाश दी चार आत्माएं (लाल, काला, सफेद, ग्रिस्लेड & बे घोड़े) दा...

चार स्वर्गदूत प्रभु दे सामने खड़े^{एव 113} सारी धरती दा,^{एव 776} जो पैहे कनै मिलदा ऐ

प्रकाशितवाक्य च घोड़े दी चार मोहरप्रकासित 6:1-8.

- ऐ कालाघोड़े: उत्तर दे मुलख च जाओ जित् थें बाबुल ऐ।
- ऐ गारे दाघोड़े: काले घोड़े दे पिच्छे चलदा ऐ।
- ऐ ग्रिस्लेड दाघोड़े: तेंदुआ अपने धब्बे कोला इयां आखदे न, दक्षिण दी ओर जाओ।
- ऐ खाड़ीघोड़े: मजबूत घोड़े।

दान 7:3 ऐतेचार बड़डे-बड़डे जानवर समुंदर तों ऊपर आया, अलग^{एव 8133} इक दुए कोला.

दान 7:17 ऐ these बड़े-बड़े जानवर, जो चार (४), चार (४) राजाएं जो धरती तों उठी होवेगा।

दान 7:18 ऐपर परमात्मा दे पवित्र संत ('elyôn)^{एव 5946}

राज गी ग्रहण करग, ते राज गी युगांत ते युगांत लेई कब्जा करी लैगा।

• 4 जानवरां दे 4 राजा(आकाश, समुंदर ते धरती दे आतमक जीव)

- ऐ4 आत्माएं दीस्वर्ग दा=4 बड़े जानवरसमुंदर दा =4 राजाजेड़े धरती च पैदा होंदे न
(दान 7:17 ऐ):

- 1 बाबुल दे राज दा राजा नबूकदनेस्सरा।
- 2 फारसी राज दा राजा कोरसा।
- 3 ग्रीक राज्य दा राजा सिकंदर।
- 4 रोमन राज्य दा राजा जूलियस सीज़र।

→स्वर्ग दी 4 आत्माएं⁶⁵⁴ महान समुंदर परबनदा है 4 महान जानवर समुंदर तों।

→इसलेई, जानवरें दा न के आध्यात्मिक प्राणीसुरग जो उठता है सेमहान समुंदर दा ते राजा बन जाओ

आहलाधरती गी (टी)ओह समुंदर & जमीन, प्रकाशितवाक्य 12:3).

- धरती दा इक राजा (समुद्र दा राजा): मसीह दे विरोधी 1st जानवर दा (प्रकासित 13:1 ऐ).

- ऐधरती दा इक राजा (जमीन दा इक राजा): झूठा नबी 2 वी जानवर दा (प्रकासित 13:11 ऐ).

⁶⁵⁴स्वर्ग दी ४ आत्माएं: अजगर, ओह पुराना नाग, जो शैतान है, ते शैतान (प्रकाशितवाक्य 20:2).

# # ए.	टीओह ४ आत्माएं स्वर्ग दा (ज़ेक 6 , ऐदान 7)	दान 2 सुखना	टीओह ४ बड्डे- बड्डे जानवर(राज्य) समुंदर दा	टीउसने ४ राजा आहला धरती गी (दान 7:17 ऐ)	दानियल 7 इक सपना ते दर्शन	दानियल 8 इक दर्शन (राम, ओह बकरी, ओह बकरी, रफ बकरी, थोड़ा सींग)
1	टीउसने कालाघोड़े (जकरयाह 6:2)	जीपराना	1 वां राज दा (बाबिलोन दा)	बाबुल दा राजा (१राजा)	इक शेर(दान 7:4 ऐ) - उखाड़ चील दे पंख - ऐदे दिया इक मनुख दा दिल	दे शासनकाल दे 3वें साल च दानियल दा दर्शन राजा बेलशस्सर (दान 8:1 ऐ)
२	गोरे दाघोड़े(जकरयाह 6:2)	एसilver	टीओह 2nd किंगडम (ओह मेडो-फारसी) ऐ	राम जीसंदर्भित करदा ऐ राजा के लिए 2nd जानवर दा (प्रकाशित 13:11 ऐ) . ⁶⁵⁶ राम के 2 सींग (मीडिया ते फारस दे राजा, दान 8:20 ऐ)	इक भालू(दान 7:5 ऐ) - हाइपसलियांइसदे मुंह दे दंठें दे बिच्च मता मांस खाने आस्तौ। 3 पसलियां निम्नलिखित 3 राज्यें दा प्रतिनिधित्व करदियां न (दान 8:4 ऐ): * पश्चिम (बेबिलोन दा), * उत्तर (लिडियन दा), * दक्षिण (मिस्र दा)।	आरदपेहर पैहलें ^{म्व 352 ऐ} (दान 8:3-4 ऐ) - ऐमीडिया ते फारस दे राजा (दान 8:20 ऐ). - राम ^{म्व 352 ऐ} हारसींग (जिन्ना उच्चा होवे सिडआखरी च आया, & 3 राज्यें गी धक्का दिता: * पश्चिम (बेबिलोन दा राज्य), * उत्तर (लिडियन राज्य), * दक्षिण (मिस्र दा राज), इस आस् ते कोई बी जानवर उंदे सामने नेई खडोते (दान 8:3-4 ऐ). - ऐउने अपनी मर्जी दे मताबक कीता, ते बनी गे आमहान (दान 8:4 ऐ).
3	टीउसने गिल कर दिता (एक तेंदुआ) घोड़े (जकरयाह 6:6).	बीरोन्जे	3 वां राज दा (ग्रीक) दा	द हे बकरीसंदर्भित करदा ऐ राजा के लिए 1st जानवर दा (प्रकाशितवाक्य 13:1-2) . ⁶⁵⁷ टीउसने 1st राजा टूट गया (१राजा, सिकंदर महान)	इक तेंदुआ(दान 7:6 ऐ) - जानवर दे 4 पंख इक मुर्गी दे हे ते... ४सिर (राज्यां दा) उसगी दिता गेदा प्रभुत्व कन्ने ⁶⁵⁸	दी ओह ^{म्व 5795 ऐ} जीजड़ ^{म्व 6842 ऐ} (दान 8:5 ऐ) - पश्चिम से आया (दान 8:5 ऐ) - ऐआंखें दे बीच इक उल्लेखनीय सींग (1 राजा, दान 8:5 ऐ; 8:21 ऐ). द रफ ^{म्व 8163 ऐ} बकरी ^{म्व 6842 ऐ} (दान 8:21 ऐ) - ऐ राजा जी ग्रीस दा बकरी दा ^{म्व 6842 ऐ} ओह ^{म्व 5795 ऐ} (दान 8:8 ऐ) - ऐबकरी ने राम (दान 8:7 ऐ) - मेहे दे 2 सींग तोड़ दिते (राजा मादी-फारसी राज्य दा) ते मोम लगाया बड़ा बड़ा (दान 8:7-8 ऐ). - महान सींग दे बाद (1 राजा है भज्जे दा (दान 8:8 ऐ, ऐदान 8:22 ऐ), ऐ ४राज्यां दा उदे कोला पैदा होग राष्ट्र, पर उंदी ताकत च नेई (दान 8:22 ऐ). ४उल्लेखनीय ऐ (सींग) की 4 आत्माओं की ओर ऊपर आ गया सुरग (दान 8:8 ऐ; 8:22 ऐ).
				४राजाएं के ग्रीस दे 4 जनरलें द्वारा 4 राज्य: - टोलेमी, 1999। - कैसंडर, 1999। - सेलेउक्स, 1999। - एंटीगोन दा।		

⁶⁵⁵“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दा संदर्भ लैओ।

⁶⁵⁶राम ते दूए जानवर दे दो-दो सींग होंदे न (दान 8:3-4, 20)[प्रकाशित 13:11 ऐ](#)।

⁶⁵⁷1st जानवर दे नाल 10 सींग वेश्या (पोप) नाल नफरत करदे हन ते उस नूं जला देंगे ([प्रकाशितवाक्य 17:16 ऐ](#))।

इंयां गै हे बकरी (1st beast) राम गी मारी देग ते उंदे 2 सींग तोड़ी देग(मादी-फारसी,[दान 8:5 ऐ](#))।

⁶⁵⁸टीThe टूटे सींग दी जगह 4 सींग दे राज्य मिस्र, एशिया, मकिदुनिया, ते सीरिया हन जो कि...
रोमन किंगडम।

४	खाड़ी (मजबूत) ^{एव 554} घोड़े (जकरयाह 6:7).	मेंरोन	4वां राज दा (रोमन – पहले दा चरण)	10 सींगरोमन राज्य दा (दान 7:7 ऐ)	4 वी जानवर दा (दान 7:7 ऐ) - भयानक, भयानक, & मजबूतबेहद, बड़े लोहे दे दांत, पीतल दे कील (दान 7:19 ऐ), ऐ 10 सींग (दान 7:7 ऐ, ऐ 20-24 ऐ).	
		मेंरोन & मिठी	4 वां राज्य (रोमन - बाद दा समय, दान 8:23 ऐ). (टीओह नमें रोमन – दूआ चरण / बाबुल महान). ⁶⁵⁹	थोड़ी सी सींग (शराजा, ओह मसीह दे विरोधी) ⁶⁶⁰ दान 7:20 ऐ, ऐ प्रकासित 13:14 ऐ) टीओह झूठा नबी (शराजा, ऐ प्रकाशितवाक्य 19:20, ऐ दान 8:24 ऐ).	थोड़ी सी सींग (मसीह दे विरोधी) - ऐथोड़ी सी सींग (दान 7:20 ऐ) - वश में करना शराजा (दान 7:24 ऐ). ⁶⁶¹	थोड़ी सी सींग (दान 8:9 ऐ) - मोमबत्ती दा बेहद महान दक्षिण (मिस्र), पूर्व (सीरिया या अश्शूर) दी ओर, & सुंदर धरती (इस्राएल दा देश (दान 8:9 ऐ). - मेजबान & तारे दे कुछ गी धरती पर उतारना (दान 8:10 ऐ) उग्र चेहरे दा इक राजा - काले वाक्यें गी समझना, खड़े हो जाओ (दान 8:23 ऐ). - ऐ पराक्रमी चताकत, पर अपनी ताकत कन्ने नेई, ते अद्भुत तरीके कन्ने नाश करो, तरक्की करो, फांसी करो, ते मजबूत ते पवित्र लोकें गी नष्ट करो (दान 8:24 ऐ). - अपने हत्य च धोखे गी तरक्की देग; ते अपने दिले च अपने आप गी बड़ाई करग, ते शांति कन्ने मते सारें गी नाश करग। लेकन ओह बिना हत्ये टूटी जाह्य (दान 8:25 ऐ).

➤ **1st जानवर दा=1 वां राज**

दान 7:4 ऐ पहला ऐसा था इक शेर, ऐव 744 ऐ ते चील दे पंख हे।

में उस वेले तकर दिखदा रेआ, जदुं तकर उदे पंख उड़ी गे, ते ओह धरती थवां उड़ी गया।

ते मनुख दे समान पैरें उप्पर खड़ोता, ते मनुख दा दिल उसी देई दित्ता।

• **1st जानवर दा: पसंद इक शेर चील दे पंखें कन्ने**⁶⁶²

- ऐचील दे पंख हे जिनेगी उसदे बाद उखाड़ दित्ता जंदा हा; ते ओह धरती थवां उड़ी गया

ते मनुख दी तर्हा अपने पैरें उप्पर खड़ोते दे, ते इंसान दा दिल दित्ता।

→ 1st जानवर बाबुल दा राज्य ऐ ⁶⁶³

➤ **2 वी जानवर दा=2nd राज दा**

दान 7:5 ऐ ते दिखो इक होर जानवर, दुआ, जिसी पसंद ऐ इक भालू, ऐव 1678 ऐ ते ओह अपने आप गी इक पाससे उप्पर चुक्की लेआ, ते...

इसने थात्रैपसलिया ^{एव 5967} उदे मुंह दे ददें दे बिच्च, ते उनेगी एह ग् लाया, "उठो!

बहुत मांस खाओ।

⁶⁵⁹“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दा संदर्भ लैओ।

⁶⁶⁰वर्तमान राजा (या नेता) प्रकाशितवाक्य 13 & 17 च निर्दिष्ट कीते गेदे ना।

⁶⁶¹“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दा संदर्भ लैओ।

⁶⁶²1st जानवर दी छवि दा प्रोटोटाइप दिखने लेई इंटरनेट पर उस जानवर दी मूर्ति गी सर्च करो जिसदा नां ऐ, “गार्डियन ऑफ...

अंतर्राष्ट्रीय शांति ते सुरक्षा” जेह डी 2021 च एनवाई, यूएसए च संयुक्त राष्ट्र दे मुख्यालय च विजिटर प्लाजा च स्थापित कीती गई ही।

⁶⁶²इस मूर्ति दे उग्र रूप बारे लोकें दी शिकायतें दे बाद इसगी लोकें दी नजर थमां हटाई दित्ता गेआ।

⁶⁶³“[चित्र 13-3] दानियेल ते प्रकाशितवाक्य च जानवर।”

• **थोड़ी सी सींग (11वां राजा)**

(10 सींग- 3 सींग = 7 सींग + 1 छोटा सींग)

दान 7:19 **ऐ टीथेन** मैं चौथे (4वें) जानवर दे बारे च सच्चाई जानने दी इच्छा रखदा हा, जेड़ा सारें कोला अलग हा दूप, लोहे दे दांत ते कांसे दे कीलें कन्ने बेहतर भयानक, जेहड़े खांदे हे। टुकड़े-टुकड़े होई गे, ते अवशेषें उप्पर पैरें कन्ने मुहर लगाई दिती।

दान 7:20 **ऐ इकएन** डी दस (10)सींगजो इसदे सिर उप्पर हे, तेदजा सींग जो ऊपर आई, जिसदे सामने त्रै (3) गिर गए, उसी दा भीसिंड, जिस च अक्खीं ते इक मुंह हा जेस बड्डी गल्लां बोलदा हा, जिसदी दृष्टि अपने साथियें कोला बी बड्डी ही।

→ 10 सींग (राजा) - 3 राजा गिर गए = कुल 7 राजा + 1 छोटा सींग (1 जानवर वास्ते राजा)⁶⁶⁶

इक होर छोटा सी सींग जदू तकर दिनें दा प्राचीन नेई औंदा

दान 7:21 **ऐ** मैं दिक्खेआ, ते उसी गैसिंड, पवित्र संत दे खिलाफ लड़ाई करदा सी, ते उंदे उप्पर हावी होना।

दान 7:22 **ऐ** जदू तगरदिनें दा प्राचीन(मेमने दा(अर्नियन दा)^{जो 721 ऐ}) आया, ते इक फैसला कीता गेआ में दी गई पवित्र संतों के पक्ष में **the Most high** (ईश्वर, **दान 7:25 ऐ, ऐप्रकासित 13:6 ऐ**), ऐ ते पबितर संत लोकें दे राज च कब्जा करने दा समां आई गेआ।

4वें जानवर = धरती पर 4वां राज्य

दान 7:23 ऐ टीथुस उसने कहा: 'चौथा (4वां) जानवर धरती ते चौथा (4वां) राज्य होवेगा, जेड़े बाकी सारे राज्यें कोला अलग होंगन। ते सारी धरती गी खाई लैग, उसी रौंदग ते उसी टुकड़े-टुकड़े करी देगा।

- 4 वां जानवर (साथे 10 सींग- ऐ. ३सींग=७सींग+१थोड़ा सींग): डीपठनीय, भयानक, & बेहद मजबूत - शानदार थालोहे दे दांत, एह खांदा हा, टुकड़े-टुकड़े करदा हा, ते अवशेषें गी अपने कन्ने मुहरदा हा पैर, ओह उंदे शा पैहलें दे सारे जानवरें थवां बखरा हा, ते एह बी हा 10 सींग(दान 7:7 ऐ)।

10 सींग= रोमन राज्य दे 10 राजा + इक होर छोटा राजा = 11 राजा

दान 7:24 ऐ टीओह दस (10)सींगदस (10)राजाएंजो इस राज (रोम राज) च पैदा होग।

इकएन डीदुआ(11वां राजा, मसीह विरोधी)उंदे पिच्छे उठी जाग; ओह पैहलें थवां बखरे होग, ते त्रै (३)राजाएं.

→ 10 सींग दान 10 राजाजो से उठेगारोमन राज्य दा, ऐ⁶⁶⁷कन्ने 11वें राजा दा उंदे पिच्छे चलदे होई.

11वीं सींग या राजा: जदू तगरइक वक्ततेबारतेवक्त दा बंटवारा

दान 7:25 ऐ इक होर राजा(11वां राजा) परमात्मा ('illay) दे खिलाफ गल्लां बोलनगे, एच 5943 ऐ

ते परमात्मा ('elyōn) दे पवित्र संत गी घिसाई देग, एच 5946 ऐ
ते समें ते कानून गी बदलने दा इरादा होगा।
फिर पवित्र संत उंदे हलथ च सौपी जांगन

जदू तगर इक वक्त(ब'रा) एच 5732 ऐ तेबार(ब'र) एच 5732 ऐ ते बंटवारा करदे: एच 6387 ऐ वक्त दा(ब'रा) एच 5732 ऐ

→ एचere, इक समां ('idān, मजबूत दाएच 5732 ऐ), समें, एच 5732 ऐ ते समें दा बंटवारा करना एच 5732 ऐ सालाना दा संदर्भ दिंदा ऐ

टाइम फ्रेमटीइस आस् ते पबितर संत गी इक समें तकर मसीहा विरोधी दे हत् थें च दिता जाग (साल), समें (साल), ते दानियेल दे 70वें हफते दे समें (साल) दा बंड बीती जंदा ऐ⁶⁶⁸

⁶⁶⁶“प्रकाशितवाक्य 12:3) स्वर्ग च इक होर निशान दिक्खने गी मिलदा ऐ (इक बड्डा लाल अजगर जिसदे 7 सिर, 10 सींग, & 7 मुकूट होंदे न).”

⁶⁶⁷वही।

⁶⁶⁸इक समें, डेढ़ समें (विभाजन) दे बक्ख-बक्ख अनुप्रयोगों गी समझने लेई, दिक्खो “(चित्र 12-ख) इक समें ते समें ते...”

• **थोड़ी सी सींग (11वां राजा)**

- **ऐथाइक होर सींग (11वां राजा), थोड़ी-थोड़ी**, उन्हे बीच ऊपर आना (**रोमन दा राज**), जिसदे सामने त्रै (**३**) आहलापैहे सींगजडें से उखाड़ गए.
- इस सींग दी अक्खां मनुक्खी अक्खीं दे समान ही, ते इक मुंह बड्डी-बड्डी गल्लां बोलदा हा।

→ छोटा सींग (मसीह विरोधी) दक्षिण दी ओर बेहद बड्डा हो जावेगा (**मिस्र दा**), पूरब (**अश्शूर दा**), & सुन्दर जमीन (दी धरती **इजराइल**, **ऐदान 8:9 ऐ**), स्वर्ग दी सेना गी बी; ते उसने ढलाई सेना ते तारे दे किश गी जमीन उप्पर उतारिये उं दे उप्पर मुहर लाया (**दान 8:10 ऐ**).

- **ऐनोट:** मिस्र, अश्शूर ते इस्त्राएल ओह राष्ट्र न, जेके “परमेश्वर दे खलाफ लड़ाई च नेई शामिल होंगन” (**यशायाह 19:25 च**).⁶⁶⁹

- **ऐ अनन्त वादे आस्ते खतना दा वादा**

• **खतना दी वादा (अब्राहम दे नाल)**

उत्पत्ति 15:3 अब्राम ने आख्या, “दिखो, तू मिंगी कोई बीज नेई दित्ता।

ते दिखो, मेरे घर च पैदा होए दा मेरा वारिस ऐ।

उत्पत्ति 15:4 ऐते, दिखो, वचन (**रिमा दा**⁶⁷⁰) **प्रभु दा**³⁰⁶⁸ उं दे कोल आया ते आख्या।

ए तेरा वारिस नेई होग;

लेकिन जेड़ा तेरे आंतों विचों निकलेगा, ओह तेरे वारिस होवेगा।

रोम 4:3 ऐ की वे पवित्रशास्त्र की आखदा ऐ? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किता, ते उसी धार्मिकता दे रूप च गिनेया गोआ।

→ रेमा परमेश्वर थवां औंदा ऐ, ते अब्राम ने विश्वास किता **प्रभु दा रेमा** कि उसदा वारिस (**मसीह**, मसीहा, **गलाती 3:16 ऐ**, **ऐदान 9:25 ऐ**) अपनी आंतों से बाहर निकलेगा (**उत्पत्ति 15:4 ऐ**). **राहें विश्वास करदे ईश्वर**, अब्राम ने मिलया **वाचा दा**¹²⁸⁵ **खतना दा** (**उत्पत्ति 17:4 ऐ**) ते उं दे कई जातियों दे पिता दे रूप च अब्राहम दा नां बदली दित्ता गोआ (**उत्पत्ति 17:5 ऐ**).

→ फिरी परमात्मा ने अपना वाचा स्थापित किता¹²⁸⁵ उं दे ते अब्राहम दे बिच ते अब्राहम दे बा'द बी²²³³ **लेई इक अनन्त वाचा**, ऐ¹²⁸⁵ अब्राहम ते उं दे वंश दे लेई परमात्मा बनने आस्ते²²³³ उं दे बाद (**उत्पत्ति 17:7 ऐ**).

• **अनन्त वाचा (मसीह दे नाल)**

दान 9:25 ऐ इस आस् ते जानना ते समझना।

कि यरूशलेम गी बहाल करने ते बनाने दी हुक्म दे अगें बधने थमां

को **अभिषिक्त गी राजा**, सात (7) हफ्ते, ते बासठ (62) हफ्ते होंगन:

गली फिर बनी जानी ऐ, ते खाई, पीड़ दे समें च बी।

दान 9:26 ऐ ते बासठ दे बाद (**62 ऐ**) **हफ्तें दा**, ऐ

मसीहा गी (अभिषिक्त)⁴⁸⁹⁹ कट जावेगा, पर अपने आस्ते नेई; ते

शासक दे लोकें गी (मसीह दे विरोधी गी) जो आने आला ऐ, ओह पवित्र नगर दा नाश करग.

अंत उं दे च जल-प्रलय दे कलने होग, ते उजाड़ होने

युद्ध दे अंत तकर तय कीते गेदे ना।

(आधा वक्त, वक्त दा बंटवारा, या आधा)।”

⁶⁶⁹संदर्भ देना प्रकाशित वाक्य **19:16 ऐ** होर मती जानकारी लेई।

⁶⁷⁰वीडियो 6. “प्रभु (तुंदा) परमात्मा बनी जंदा ऐ।”

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशु-इजराइल-दे-पुत्र-पीढ़ियों-वी-पुस्तक/.

दान 9:27 ऐते ओह वाचा गी मजबूत करग¹²⁸⁵ कई दे नालइक (1)हफ्ता;

ते हफ्ते दे आधे (1/2) च बलिदान ते बलिदान गी बंद करी देग।

के पंख परघुणित कामे आऊगा जो बनांदा ऐउजाड़, ऐ

जदू तकर जे अंत निर्धारित कीता गेदा ऐ, उदे उप्पर उंडेल नेई दित्ता जंदा।

→ दानियेल दी 70 हफ्ते दी भविष्यवाणी दे मताबक, मसीहा गी 62 हफ्तें दे बाद कटौती कीती जाग

ते अभिषिक्त शासक (मसीहा गी) 1 हफ्ते लेई मते सारें कन्ने वाचा गी मजबूत करग

(या डैनियल दे 70वें हफ्ते दे 7 साल)।⁶⁷¹

- ऐदिनों का प्राचीन

दान 7:9 ऐमें (दानियल) उसलै तकर दिक्खेआ, जिसलै तकर सिंहासन नेई लाए गे, ते...दिनें दा प्राचीन (मेमने दा) बैठा था;

उदा वस्त्र बर्फ दे समान सफेद हा, ते उंदे सिर दे बाल शुद्ध ऊन दे समान हे।

उन्दा सिंहासन इक अग दा हा चलंगड़ा; इसदे पहिये इक जरदी अग।

→ दिनें दा प्राचीन दा जिक्र ऐमेमने दा.

(जिसदा वस्त्र बर्फ दे समान सफेद होवे सर्वशक्तिमान दा⁷⁷⁰⁶ (भजन संहिता 68:14), ऐमुक्तिदाता यीशू मसीह, ऐ

मेमने दा (अर्नियन दा), ऐ⁷²¹ सादानाथ तेउद्धारकर्ता यीशू मसीह, ऐप्रकासित 5:11 ऐ)।

→ सिर दे बालें दा रंग परिपक्वता दा प्रतीक ऐमसीह. जिन्ना सफेद कपड़ा होना

बर्फ इस चाल्ली तुंदे च पूरी चाल्ली परिपक्व लोगो दा प्रतिनिधित्व करदी ऐ।⁶⁷²

दान 7:10 ऐ इकअग दी नदिया बहदी ही, ते उंदे सामने थमां निकली आई ही, 1000 उप्पर 1000 ने उंदी सेवा कीती,

10,000 गुणा 10,000 उंदे सामने खड़े होए। फैसला बैठेया, ते किताबां दाखोले गए.

→ तुरही दे नाल छठे सुरगदूत दी आवाज ते (प्रकाशितवाक्य ९:१३-१४), ऐप्रभू अपने 10,000 दे कन्ने औग

पवित्र संत मैं परमात्मा दे 10,000 रथ, 200,000,000 घोड़े दी फौज ते 1,000 प्रभु दे सुरगदूत

('ădōnāy)।⁶⁷³

दान 7:11 ऐ मैंस वेले बड़ी-बड़ी गल्लां दी आवाज दे कारण दिक्खेया जेड़ा सींग दा बोलदा हा;

मैं उस वेले तकर दिक्खदा रेआ, जदू तकर ओह जानवर नेई भारी दित्ता गेआ, ते उंदा शरीर नष्ट होई गेआ ते ज्वलंत लौ गी दित्ता गेआ।

दान 7:12 ऐबाकी जानवरें दे बारे च उंदा राज खोई लेता।

फिर भी उंदी जिंदगी²⁴¹⁷ इक मौसम ते समें लेई लंबे समें तकर लम्मे होंदे हे।

दान 7:13 ऐमें रातीं दे दर्शन च दिक्खेआ, ते दिखो, इक ऐसा दर्शन मनुख दा पुत्र स्वर्ग दे बादल नाल आया,

ते आया दिनें दा प्राचीन, ते उसी उंदे सामने लेई आए।

दान 7:14 ऐफिरी उसी राज ते महिमा ते राज दित्ता गेया।

कि सारे लोकें, राष्ट्रें ते भाशाएं गी उंदी सेवा करनी चाहिदी।

उदा राज इक सनातन प्रभु ऐ, जेड़ा नेई बीती जाह्या।

ते उदा राज इक ऐसा ऐ जेड़ा नाश नेई होग।

→ मसीह दे विरोधीके खिलाफ जंग बना देगा पवित्र संत गी, ते उंदे उप्पर हावी होना (दान 7:21 ऐ), ऐ

जब तक कि इक जैसा मनुख दा पुत्र (जां प्रभु यीशू मसीह गी, ऐप्रकासित 1:12-13 ऐ) आ जांदा है, ते होवेगा

मेमने दा गुस्सा अपने गुस्से दे महान दिन (प्रकाशितवाक्य 6:16-17 ऐ)।

- ऐअनन्त राज दा

दान 7:26 ऐपर न्याय तय कीता जाग, ते उदा (दूसरे सींग दा, 11वें राजा) दा राज खोई लेता जाग।

⁶⁷¹दानियेल दे 70 हफ्तें दी समें-सीमा आस्तै, "[3] दानियेल दे 70 हफ्तें" दा संदर्भ लैओ।

⁶⁷²से केद की गई प्रकासित 1:14 ऐ.

⁶⁷³से केद की गई प्रकासित 5:11 ऐ.

उसी भस्म करना ते अंत तक नष्ट करना।

दान 7:27 ऐ टीमिगी राज्य (एकवचन) ते प्रभुत्व, ते राज्यें दी महिमा (बहुवचन)

दे हेठ सारा स्वर्ग दे संत लोकें दे लोकें गी दित्ता जाग सब तों उच्चा, ऐ एव 5946 ऐ

जिस दा राज (एकवचन) है इक सनातन राज, ते सारे प्रभु सेवा करंगन ते सुनन एव 8086 ऐ उसी.

दान 7:28 ऐ अज्ज तक इस गल्ल दा अंत ऐ। रही गल्ल मेरी डैनियल दी तां मेरी चिंतन ने मिगी बड़ा परेशान कीता।

ते मेरा चेहरा मेरे च बदली गया, लेकिन मैं इस गल्ल गी अपने दिलै च गै रखी लेआ।

→ टीतां राज ते प्रभु, ते सारे आकाश दे हेठ राजें दी महिमा होग
जनता गी दित्ता, पवित्र संत गीपरमात्मा दा (इंधर).

→ रब दाराज ऐ इक सनातन राज, ते सारे प्रभु उदी सेवा करंगन ते सुनी लैगन (दान 7:27 ऐ).

[चित्र 13-3] दानिय्येल & प्रकाशितवाक्य च जानवर

# # ए.	7 सिरें दा (७ राज्यां दा जिस उपपर बड़ी वेश्या बैठी दी ऐ (<u>प्रकाशितवाक्य 17</u> ऐ)	चार (4) जानवर (4 राजा धरती विचों उठदे हन) (<u>दानिय्येल 7</u>)	इक जानवर होना 7 सिरें (७ राजे, २. <u>प्रकाशित 17:9</u> ऐ, <u>ऐदान 7:23</u> ऐ), ऐ <u>10 सींग</u> (राजा, अजे तक बिना राज दे), ऐ <u>1० मुकुटां दा</u> (सींगों पर) (<u>प्रकाशित 13:1</u> ऐ)
1	<u>बी</u> अविलोन (<u>६ द 7०५ - ५३९</u>) ई.पू	1 (पसंद) <u>इक शेर</u> चील दे पंखें कन्नै (<u>दान 7:4</u> ऐ)	<u>टीओह</u> मुंह जानवर दा (शेर दे मुंह दे समान) (<u>प्रकाशितवाक्य 13:2</u>)
२	<u>मेडो-फारसी</u> दा (<u>५३९ - ३३१</u>) ई.पू	2 (पसंद) <u>इक भालू</u> जिसदे दांते दे बिच्च 3 पसलियां होंदियां न (<u>दान 7:5</u> ऐ)	<u>टीओह</u> पैर जानवर दा (भालू दे पैरें दे समान) (<u>प्रकाशितवाक्य 13:2</u>)
३	<u>जीreece</u> (<u>३३१ - १६८</u>) ई.पू	3 (पसंद) <u>इक तेंदुआ</u> कन्नै <u>४ पंखते ४ सिर</u> (<u>दान 7:6</u> ऐ)	<u>की नजर</u> जानवर (तेंदुआ दी तरह) है (<u>प्रकाशितवाक्य 13:2</u>)
४	<u>आरओमान</u> (168 ई.पू. - ४७६ ई.)	4 <u>डीपठनीय</u> ते भयानक, ते बेहद मजबूत + <u>बड़े लोहे दे दांत + कांसे</u> <u>दे नाखून</u> (<u>दान 7:19</u> ऐ) + <u>10 सींग</u> (<u>दान 7:7</u> ऐ). (इंसान दी अकखां जेही अकखीं, इक मुंह बड्डियां गल्लां बोलदे, <u>दान</u> <u>7:8</u> ऐ) <u>ओह 4 वी जानवर</u> होगा <u>ए 4 वी राज</u> धरती पर (<u>रोमन राज्य दा</u>), जेहड़ा बाकी सारे पिछले राज्यें थमां बकखरा होग, ते सारी धरती गी खाइये उसी रौंदाग ते उसी टुकड़े-टुकड़े करी देग (<u>दान 7:23</u> ऐ).	<u>प्रकाशित 13:1</u> ऐ 1st जानवर, जिसदे 7 सिर, 10 सींग, & 10 मुकुट होनगे, समुंदर तों बाहर उठ जावेगा (<u>मसीह विरोधी वी भावना</u> पहले ही दुनिया च ऐ, <u>१जोह ४:३</u>). आकाश + महान समुंदर + धरती दे जानवर → <u>जानवरों</u> स्वर्गदूत प्राणी हैं जो से गिर गए <u>सुरग</u> , ऐ किस से उठेगा <u>महान समुंदर दा</u> , ऐ ते राजा बन जाओ <u>धरती गी</u> (समुद्र & दी मदान, <u>प्रकाशितवाक्य 12:3</u>). - धरती दा राजा: → समुंदर दा राजा: 1 वी जानवर (<u>प्रकाशित 13:1</u> ऐ) → धरती दा राजा: 2 जानवर (<u>प्रकाशित 13:11</u> ऐ).

	<p>टीओह ४ बड्डे-बड्डे जानवर(४ राजा) से उत्पन्न होगा धरती गी(दान 7:17 ऐं).</p> <p>→ ४ राजा:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 पैहला जानवर दा राज: बाबुल दा राजा नबूकदनेस्सरा 2 जानवर राज्य: मादी-फारसी दा राजा रामा 3 जानवर राज्य: ग्रीस दा राजा, ओह बकरी। 4 जानवर राज्य: रोम दा राजा, छोटा सींग (मसीह विरोधी)। <p>- ऐं टीउसने 10सींग हैं 10राजाएं जो इस तों पैदा होवेगा (रोमन दा) राज्य (दान 7:20 ऐं, ऐदान 7:24 ऐं).</p>	<p>टीओह जनानी दा रहस्य</p> <p>1st जानवर (समुद्र तों बाहर) ऐं 7 सिर(राज्यां दा) ते 10 सींग (जां 10 राजा) कन्ने 10 मुकट उंदे सिर उप्पर (प्रकासित 17:7 ऐं):</p> <p>- ऐं 7 सिरें: 7 ऐं राजाएं आहला 7 राज्यों दा जिस उप्पर बड़ी वेश्या बैठी दी ऐं (प्रकासित 17:9 ऐं).</p> <p>- 10 ऐं सींग: 10 ऐं राजाएं रोमन राज च पैदा होग (दान 7:24 ऐं), पर उंदे कोल अजे तकर कोई राज नेई ऐं (प्रकासित 17:12 ऐं).</p> <p>- ऐं 10 मुकटें दा: 10 सींग (10 राजाएं) दे 10 मुकटें दा, उंदे सिरें उप्पर निंदा करने आला नां।</p> <p>बड़ी वेश्या(प्रकासित 17:1 ऐं, ऐंप्रकाशितवाक्य 17:18 ऐं) 7 राज्यां ते बैठदा है (1 बाबुल, ऐं 2 मीडो-फारसी, ऐं 3 ग्रीक दा, ऐं 4 रोमन दा, ऐं 5 वर्तमान बाबुल, ऐं 6 नई बाबुल, ऐं 7 नई रोमन).</p> <p>पर पंज (5) राजा गिर गए, ते इक (राजा दा रोमन राज्य दा) राज करदा ऐं।</p>
5.	<p>वर्तमान बाबुल (४७६ ई. - वर्तमान)</p> <p>- (1 राजा) 3 ग्रीक राज्य दा राजा (दान 8:21 ऐं).</p> <p>- (द्वितीय – 5वां राजा) टीओह 3 ग्रीक राज्य दे चार राजा⁶⁷⁴</p> <p>- ऐं (6वां राजा) रोमन राज दा राजा राज करदा है⁶⁷⁵</p> <p>- (7वां राजा) वर्तमान बेबिलोन राज्य (प्रकाशितवाक्य 17:8)</p> <p>- (8वां राजा) नवां रोमन राज आने आला है (प्रकासित 17:11 ऐं)</p>	<p>गैर-यहूदियां दी पूर्णता अंदर ओग (रोम 11:25 ऐं) थमां वर्तमान बाबुल दा राज्य, ते उसलै तकर चलदा रौह्य जिसलै तकर सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा दे पैर जैतून दे पहाड़ उप्पर खड़ोते दे ना</p> <p>- राजा दा बाबुल दा राज्य (मसीह दे विरोधी) जदू ओह ओग तां थोड़ी जेही जगह जारी रखग (प्रकासित 17:10 ऐं).</p>
6.	<p>एनएव बाबुल</p> <p>4 वां जानवर= धरती पर 4वां राज्य (दान 7:23 ऐं) + साथ 10 सींग सिर पर (दान 7:20-24 ऐं) - ऐं ३ सींग उखाड़ के बाहर (दान 7:24 ऐं) = ७ सींग + १ थोड़ा सींग (८ सींग कुल).</p> <p>दस (10) सींग (राजां दा) जो इसदे सिर उप्पर हे, ते दजा सींग (मसीह दे विरोधी गी), जिं दी अक्खी मनुक्खी अक्खी दे समान ही, ते बड्डी-बड्डी गल्लां बोलने आह्ला मुंह हा, ऐं जिस दा दर्शन अपने साथियें कोला बी बड्डा हा, ओह बाद च उठग 10 सींग दा (दान 7:8 ऐं, ऐदान 7:20 ऐं), ते ओह त्रै (3) राजाएं गी अपने वश च करग (दान 7:24 ऐं).</p> <p>फिर पवित्र संत उंदे (मसीह विरोधी) हल्य च उसलै तकर देई दिते जांगन इक वक्त ते वार ते वक्त दा बंटवारा (दान 7:25 ऐं).</p> <p>थोड़ी-थोड़ी सिंड पवित्र संत दे खिलाफ लड़ाई करदा हा, ते उंदे उप्पर जीत हासल करदा हा (दान 7:21 ऐं).</p>	<p>अजगर दा 1st जानवर गी अपनी शक्ति दे दित्ती, उसदा सिंहासन, ते महान अधिकार (प्रकाशितवाक्य 13:2).</p> <p>- ऐं 10 सींग (10 राजा) जिनेंगी अजे तगर कोई राज नेई थोआ ऐं, पर राजा दे तौर उप्पर अधिकार हासल कीता ऐं (10 मुकट)। १ घण्टे दा जानवर दे नाल (प्रकासित 17:12 ऐं).</p> <p>मसीह दे विरोधी अपने आप गी उनें सारें कोला बी बड्डा करी लैग जिनेंगी परमात्मा आखदे न, अपने मंदर च जमीनी रौह्ने आह्ले लोकें आसेआ उंदी पूजा कीती जाग, ते अपने आप गी इस चाल्ली दस्सेआ जाईधर (रथिस २:३-४ च, ऐंप्रकासित 17:11 ऐं).</p> <p>ओह (1st) जानवर (माध्यम से मसीह दे विरोधी गी) गी जारी रखने दा अधिकार दित्ता गेआ (निंदा) करने आस्तै 42 महीने दा (प्रकासित 13:5 ऐं).</p> <p>इसे (1st) जानवर (माध्यम से मसीह दे विरोधी गी) पवित्र संत नाल लड़ाई करन ते उन्हां ते जीत हासिल करन लई ते हर कबीले, भाशाएं ते जातियें उप्पर उसी अधिकार दित्ता गेआ (प्रकासित 13:7 ऐं).</p>


⁶⁷⁴“ (प्रकासित 17:10 ऐं) 7 विचों 5 राजा गिर गए, 6वां राजा राज करदा है, ते 7वां राजा थोड़ी जगह राज करदा है.”

⁶⁷⁵वही।

		<p><u>इक होर सींग</u>(राजा, मसीह विरोधी) परमात्मा दे खिलाफ गल्लां बोलनगे (<u>ईश्वर</u>), ते पवित्र संत गी घिसाई देग<u>परम उच्चे दा</u>, ते समें ते कानून गी बदलने दा इरादा होग (<u>दान 7:25 ऐ</u>).</p>	<p><u>ओह(1st)</u> जानवर (<u>माध्यम सेमसीह दे विरोधी गी</u>) ने निंदा करदे होई अपना मुंह खोले<u>आईश्वर</u>, उंदी निंदा करनानां, ओहदात<u>म्बू</u>, ते ओह जो<u>स्वर्ग विच रहो</u> (<u>प्रकासित 13:6 ऐ</u>).</p>
7	एनew रोमन		<p>टौओह 2nd जानवरअंदर आ जाओगे<u>नए रोमन दाराज्य</u> (<u>प्रकाशितवाक्य 17:8</u>).</p> <p>- अपोलियन, अथाह गड्डे दे राजा दा दूत (<u>प्रकाशितवाक्य ९:११</u>) जो अथाह गड्डे तों उठनगे, 2 जानवर (नवे रोमन राज्य) दे जरिए कम्म करंगन ते प्रगट करंगन<u>पाप दा आदमी</u>(मसीह दे विरोधी), <u>ऐनाश दा पुत्र</u>(झूठा नबी,<u>रथिस २:३-४ च</u>).⁶⁷⁶</p>
			<p>ओह (जमीन वासी,<u>प्रकासित 13:3 ऐ</u>) दी पूजा कीती<u>अजगर दा</u> जिसने अधिकार दे दिया<u>1st जानवर दा</u>; ते ओहनां ने (<u>1 वी</u>) दरिंदा, कशते हुए, “कौन (<u>1 वी</u>) दरिंदा?उदे कन्ने कुन कुन युद्ध कर सकदा ऐ?” (<u>प्रकासित 13:4 ऐ</u>)</p> <p><u>द न्यू(रोमन) 2nd</u> जानवर दा राज नहीं आयामें नए (<u>बाबुल दा</u>) राज्य दा, पर आ जाह्य नए दे बाद(<u>बाबुल दा</u>) राज्य दा. इस तर्हा ज़मीन ते रहन वाले, जिन्हां दे नाम नहीं लिखे<u>जीवन दी किताब</u> थमां<u>दुनिया दी नीह</u>, हैरान हो जांगन जदू ओह 2nd जानवर गी नमें दे रूप च जिंदा होदे दिक्खदे न<u>रोमनकिंगडम</u>उसके बाद नए<u>बाबुल दाकिंगडम</u>(<u>प्रकाशितवाक्य 17:8</u>).</p>
			<p>2 वी जानवर दा(झूठे नबी दे जरिए) निकलदा है<u>जमीन गी</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 वी जानवर दामें 2 सींग है<u>इक मेमने दाकपड़े</u> (जमीन वासी गी धोखा देना,<u>प्रकाशितवाक्य 19:20</u>) ते ऐसे बोलेया<u>इक अजगर</u>1 जानवर (नवे बाबुल) दे सारे अधिकार दा प्रयोग करने आस्ते, जिसदे कारण जमीन दे सारे निवासियें गी...<u>पूजा</u>1st जानवर (<u>प्रकासित 13:11-12 ऐ</u>). • 2 वी जानवर दा(झूठे नबी दे जरिए) करदा <u>ऐमहान संकेत दे</u>, बनाना भी<u>अण्णमनुखें</u> दी नजर च सुर्ग थमां जमीन उप्पर उतरो^{#444 ऐ}(<u>प्रकासित 13:13 ऐ</u>). • <u>तेसंकेत दे</u> जिसगी उसी (2 जानवर दे झूठे नबी) (1) जानवर (एक विश्व सरकार दे) दी नजर च करने दी अनुमति दिती गई ही।, ज़मीन उप्पर रोहने आलें गी धोखा देई दिता, जमीनी बसनीकें गी आखदे होई जे ओह (2) जानवर दी मूर्ति बनान जिसदा सिर (<u>नमें रोमन राज्य दाजो 2nd जानवर तों बाहर निकल के जमीन तों बाहर निकल आया</u>) तलवार से घायल हो गया^{#3162 ऐ}ते जीया (<u>प्रकासित 13:14 ऐ</u>).

⁶⁷⁶“रहस्य, बाबुल महान, वेश्याएं ते जमीन दी घृणित चीजें दी मां (प्रकाशितवाक्य 17:5-6).”

		<ul style="list-style-type: none"> • उसी (2 जानवर) गी दित्ता गेदा हा जे ओह मूर्ति गी जानवर गी आत्मा देग, तां जे ओह गल्ल बी करी सके ते जेहडा बी जानवर दी मूर्ति दी पूजा नेई करग, उसी मारी दित्ता जा (प्रकाशितवाक्य 13:15 ऐ). • ते 2nd जानवर सारें गी, छोटे-बड्डे, अमीर-गरीब, आज्ञाद ते बंधन गी हासल करने दा कारण बनदा ऐइक निशान उंदे सज्जे हत्य उप्पर, जां उंदे मत्ये उप्पर (प्रकाशित 13:16 ऐ). • इकंद कि कोई खरीदी-बेच नहीं सकदा, सिवाय जिसदे कोल ऐ - निशान, या - जानवर दा नाम, जां - उदे नां दा नंबर (प्रकाशित 13:17 ऐ). • एचऐरे बुद्धि ऐ जो समझ रखदा है, ओह जानवर दी गिनती कर लै, क्योंकि ओह मनुख दी गिनती है → एचहै नंबर है 666 ऐ (प्रकाशित 13:18 ऐ).
		<p>इत्येपवित्र संत लोकें दा धीरज ते विश्वास ऐ। जेकर कुसे गी बंदी बनाया जा, तां ओह कैद च चली जंदा ऐ; जेकर कुसै गी तलवार कन्ने मारी दित्ता जा तां तलवार कन्ने मारी दित्ता जाग (प्रकाशित 13:10 ऐ).</p>
जम्मूदgment दा	<p>थोड़ी-थोड़ीसिंड (मसीह दे विरोधी गी), पवित्र संतें दे खिलाफ लड़ाई करदा हा, ते उंदे उप्पर जीत हासल करदा हा, जदू तक दिनें दा प्राचीन (मेमने दा, ऐ अर्नियन^{#721} ऐ) आया, ते इक फैसला दे पवित्र संत दे पक्ष च कीता गेआ the Most high (ईश्वर), ते पवित्र संत दे राज दे कब्जे दा समां आया (दान 7:21-22 ऐ).</p> <p>फैसला दासेट कीता जाह्य, ते दूए राजा दा (मसीह दे विरोधी गी) डोमिनियन (एक विश्व सरकार) छीन ली जाएगी, अंत तक भस्म हो जाना और नष्ट होना (दान 7:26 ऐ).</p>	<p>जमीन पर बसे दे सारेउदी भजाई करग, जिदे च नां नेई लिखे गेदे जीवन दी किताब आहलामेमने दा (अर्नियन)^{#721} थमां दुनिया दी नीह (प्रकाशित 13:8 ऐ).</p>
8 शाश्वत राज (दान 7:27 ऐ)	<p>राज दाते प्रभु, ते सारे आकाश दे हेठ दे राज्यें दी महिमा, परमात्मा दे संत लोकें गी दित्ती जाग (ईश्वर). रब दाराजइक अनन्त राज ऐ, ते सारे प्रभु उंदी सेवा करगन ते उंदी सुनन (दान 7:27 ऐ).</p>	<p>तंतुंदे पिता-पिता कोला पैदा कीती गेदी नाशवान चीजें कन्ने नेई, लेकन दे पैहे खून कन्ने छुड़ाया गेदा हामसीह, के रूप में इक मेमना (अम्नोस)^{#286} बिना दाग ते धब्बे दे, जां लोगो, जेहडा शुरू च पेश कीता गेदा हा ते कन्ने गै हाईश्वर, ते थाईश्वर.</p> <p>एहमेमना (अम्नोस)^{#286} पैहे गै निर्धारित कीता गेदा हादुनिया दी नीह, ते बीच इक वाचा ईश्वर ('एलोहिम) ते अब्राहम दी पुष्टि कीती गेई ईश्वर^{#2316} च^{#1519} मसीह (देखो प्रकाशित 4:8 ऐ). एहमेमना (अम्नोस)^{#286} बनाया गया परतक्खइनमें अंत जमाना लेईत्⁶⁷⁷.</p>



(प्रकाशितवाक्य 14:1-5 ऐ) इक मेमना & 144,000 (बुद्धिमान कुंवारी) सिध्दोन पहाड़ उप्पर खड़ोते दे (1st rapture harvest)

प्रकाशितवाक्य 14:1 ते में दिक्खेआ, ते, दिखो, इक मेमना (अर्नियन) ^{¶721} सिध्दोन पहाड़ उप्पर खड़ोते दा हा,

ते उदे कन्ने इक लक्ख चौवालीस हजार लोक, जिंदे मत्थे उप्पर उंदे पिता दा नां लिखे दा हा।

प्रकाशितवाक्य 14:2 ते में सुर्ग थवां इक आवाज सुनी, जेड़ी मते पानी दी आवाज ते इक बड्डी गरज दी आवाज आली ऐ।

ते में वीणा बजाने आलें दी आवाज सुनी।

प्रकाशित 14:3 ऐ औय उन्शोंने नशरे (सदभनत भें) एक नमा गाना जेवे गमा ^{¶1799} सिंहासन दा,

औय नशरे बी ^{¶1799} चार जानवर (जीवित प्राणी), ^{¶2226} ते बुजुर्गे गी ^{¶4245} ऐ

ते ओह गीत गी कोई बी नेई सिक्खी सकदा हा, सिवाय इक सौ चौवालीस हजार लोकें दे अलावा।

जो धरती (जमीन) तों छुड़ाया गया ^{¶1093} ऐ

प्रकाशितवाक्य 14:4 ऐ एह ओह गै न जेह्दे जनानियें कन्ने अशुद्ध नेई हे; की वे ओह कुंवारी ना

ए ओह हेन जेडे मेमने दे पिच्छे चलदे ना

इन्हें मनुखें चों छुड़ाया गया ^{¶444} परमात्मा ते मेमने आस्ते पैहला फल होना

प्रकाशित 14:5 ऐ ते उंदे मुंह च कोई धोखा नेई लब्भा, कीजे उंदे शा पैहलें कोई दोष नेई होई गया ^{¶1799} परमात्मा दा सिंहासन.

☞ **प्रकाशितवाक्य 14:1** यूहन्ना ने दिखया ते दिखया **इक मेमना (अर्नियन दा)** ^{¶721} सिध्दोन पहाड़ उप्पर खड़ोते दे ते उंदे कन्ने **144,000 दी**, ऐ अपने होने दे **पिता जी दामत्थे** पर नाम लिखे दा.

☞ **प्रकाशितवाक्य 14:2** इक [¶] यूहन्ना ने सुर्ग थवां इक आवाज सुनी, मते सारे पानी दी आवाज दे समान, ते बडे गरजने दी आवाज दे समान। ते उसी वीणा बजाने आलें दी आवाज सुनी।

☞ **प्रकाशित 14:3 ऐ** इक [¶] उने इस चाल्ली गाया जिवें पहले (दी मौजूदगी च) इक नमां गीत हा ^{¶1799} **सिंहासन दा**, ऐ **पैहलें (दी मौजूदगी च)** ^{¶1799} चार (4) जीव-जंतुते बुजुर्गे गी; ते ओह गीत कोई बी नेई सिक् होई सकदा हा, सिवाय उनें **144,000** लोकें दे, जिनेंगी जमीन थवां छुड़ाया गेदा हा।

☞ **प्रकाशितवाक्य 14:4 ऐ** **144,000 दी** ओह गै हन, जेके जनानियें कन् ने अशुद्ध नेई होई गेदे हे, की वे ओह कुंवारी ना वे नीछे नीछे **मेमने दा** (अर्नियन दा) ^{¶721} जित्थे बी जांदा ऐ। उनेंगी मनुखें च पैहलें छुड़ाया गया **ईश्वर** ते **गीमेमने दा** (अर्नियन दा) ^{¶721} ऐ

☞ **प्रकाशित 14:5 ऐ** इक [¶] उंदे मुंह च कोई छल नेई लब्भा, कीजे ओह गै हन **बिना दोष दे पैहलें (दी मौजूदगी च)** ^{¶1799} **की गद्दी ईश्वर**.

→ ज्ञानी कुंवारी (144,000, जमीन तों छुड़ाए, मनुखां विच) पहाड़ ते खड़ी हो जांगन

सिध्दोन कन्ने इक मेमना ते फॉलो करदे **मेमने दा** जित्थें बी जांदा ऐ, उल्लें गै पैहले फल होंदे होई **ईश्वर ते मेमने दा**, ते दे सिंहासन दे सामने बेगुनाह हन **ईश्वर**.

→ **144,000 दी** की मौजूदगी च “बिना दोष” होंदे न **परमात्मा दा सिंहासन**, पर एह नेई आखदा जे ओह

असल च दी गद्दी दे सामने खड़ोते दे न **ईश्वर च प्रकाशित 14:5 ऐ**.

- ध्यान रक्खो जे कोई बी परमात्मा दी महिमा ते उंदी शक्ति कन्ने भरोचे दे मंदर च तदू तक नई दाखल होई सकदा

7 विपत्तियां पूरी होई जंदिंयां न (प्रकाशित 15:8 ऐ).

>> **1 वां रैप्चर दा** (बुद्धिमान कुंवारी आं वास्ते पहला रैप्चर): मनुख दे पुत्र दा आना

• **मनुख दा पुत्र** तुरंत बाद आ जाओगे **कष्ट दा**, या महान संकट दे शुरू च (मत्ती २४:२९ ऐ).

• **मनुख दे पुत्र दा निशान & आना (स्वर्ग च दृश्य)**

मत्ती 24:30 ते औय नशरे प्रकट शोगा **निशानी दा** ^{¶4592} **आहलामनुख दा पुत्र च** ^{¶1722} **सुरग: 1/**

ते फेर सारे कबीले **हॉगन** ^{¶5443} **धरती दा (जमीन दा)** ^{¶1093} **शोक मनाओ**, ^{¶2875} ऐ

ते ओह दिक् खी लैडन **मनुख दा पुत्र** अंदर आने आला (पर) ^{¶1909} **स्वर्ग दे बादल**

कन्ने ताकत ते बड़ी महिमा.

[मार्च 13:26](#) एते उस बेले मनुख दे पुत्र गी औदे दिखग^{च¹⁷²²} बादल देकने बड़ी शक्ति महिमा.
[लुका 21:27](#) एते उस बेले मनुख दे पुत्र गी औदे दिखग^{च¹⁷²²} इक बादल कने ताकतते बड़ी महिमा.

- निशानी आहला मनुख दा पुत्र चाहना दे सामने स्वर्ग च प्रकट होंदे नपरकट होकर मनुख दे पुत्र ते जमीन उपर सारे कबीले (मूर्ख कुंवारी ते जेड़े विश्वास नई करदे हेमसीह जियां मसीहा गी, ऐ [मत्ती 24:30](#) ते) शोक करगे, जदू ओह मनुख दे पुत्र गी औदे दिखनगे [पर¹⁹⁰⁹](#) स्वर्ग दे बादल बड़ी शक्ति ते बड़ी महिमा कने।

→ पैहली पकड़ी (हरपाजो जरिप्टस) लेई "ज्ञानी कुआरियां" होगा "च" बादल दा।

[लुका 21:36](#) ऐइस आस् ते तुस जागत रौओ, ते सदा प्रार्थना करो के

तुस इन्नें सारें गल्लें थमां बचने दे काबिल समझी सकदे ओ, ऐ ते अगें खड़ोना मनुख दा पुत्र.

[१थ 5:9](#) ऐइश्वरने सानु नियुक्त नेई कीता ऐ क्रोध, ऐ [३709](#)

पर हासल करने आस्तै मोक्ष देसाडे द्वारा प्रभु यीशु मसीह, ऐ

[१थस ५:१०](#) जो साडे वास्ते मर गया, कि, चाहे जागे (देखो) [१127](#) या सोना, [२518](#) सानू करना चाइदा इकट्टे रहोउसदे कने।

→ पैहला फल (144,000 दी) नियुक्त नेई कीते गेदे नरब दानोध (1 फसल दे जरिए), लेकन साडे द्वारा उद्धार पाने आस्तै प्रभु यीशु मसीह.

- ऐ 3 किस्म दे विर्गिन करदा ऐ (ज्ञानी, ऐमूर्ख लोग, तेदजा)

("[चित्र 21-2]" दे आरेख दा संदर्भ लैओ तां जे एह समझी सकै जे 3 कुंवारी कुत्थें फिट होंगन.) ऐ।

- एमसन्दक दे दर्शक:** वे दे खेंगे मनुख दा पुत्र औना "च¹⁷²²" बादल दा "बड़ी शक्ति" ते महिमा कने।

- बड़ी शक्ति कने, जी उठने दा प्रभु यीशु गी साक्षी होंगे (प्रेरितों दे काम ४:३३) ते पवित्र आत्मा गी चाहना

आओ उन्दे च रौहना।⁶⁷⁸ पर इस करिए की ओह चाहना पैहे रचर दे समें पवित्र आत्मा गी हासल करो

144,000 लोकें च जेहडे पैहे रैचर कोला पैहे सील कीते गेदे हे, मरकुस दे दर्शकें गी इस च सील नेई कीता जाग

पैहे रचर दे समें परमात्मा आसेआ मत्थे दा, इस करी उनेंगी अजें बी जमीने उपर गै रौहना पौंदा ऐ जि'यां "ओह

मूर्ख कुंवारी" कदम मनुख दा पुत्र अपने 144,000 गी रैचर करने आस्तै औंदा ऐ (प्रकासित 7:3 ऐ)।

→ ओह तेल दे बगैर होंगन, जदू मनुख दा पुत्र गओमेस, ते इस चाल्ली समझेआ जाग **मूर्ख कुंवारी: 1।**

[मत्ती 25:1](#) ऐ उस बेले सुर्ग दे राज दी तुलना दस कुंवारी कने कीती जाग, जिने अपने दीया लेई लेती।

ते दुल्हन कने मिलने आस्ते निकली गया।

[मत्ती 25:2](#) एते उंदे च पंज ज्ञानी हे, ते... **पंज बेवकूफ थे.**

[मत्ती 25:3](#) ऐजेड़े बेवकूफ हे, उने अपनी दीया लेई लेते **कोई तेल नहीं उंदे कने: 1।**

- लुका दे दर्शक:** मनुख दे पुत्र गी औदे दिखन "च¹⁷²²" बादल दा शक्ति ते "बड़ी महिमा" कने ने।

प्रभु दा महिमा उदे उद्धार च बड़ा ऐ ([भजन संहिता 21:5](#)) औय वे दे खेंगे मनुख दा पुत्र उंदे आस् ते मुक् ति लांदे होई। ओ मनुख दे पुत्र कू "शक्ति" नाल आंदे डेखदे हेन लेकिन मत्ती दे नाल "महान शक्ति" नाल आंदे डेखदे हेन क्योंकि ओ पहले ही दे जी उठण दा गवाह बण चुके हेन **प्रभु यीशु गी** (प्रेरितों दे काम ४:३३), तां ओह पैहलें

गै दाखल होई गेदे हन **जीवन दा जी उठना**।⁶⁷⁹ जम्मूउस्ट जियां **ज्ञानी कुंवारी**, इस करिए, ओह (मूर्ख कुंवारी) बादलें च (हरपाजो) मिलने आस्तै फसी जांगन **प्रभु** हवा मूँते सदा उदे कने रौहना।⁶⁸⁰

⁶⁷⁸वीडियो 14. "पवित्र आत्मा दा वरदाना"

www.therhemaofthelord.com/पश्चाताप-बपतिस्मा/14-पश्चाताप-बपतिस्मा-पवित्र-आत्मा/.

⁶⁷⁹वीडियो 35. "(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार दे चेलो"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शिष्य-शक्ति-अधिकार-के-साथ-

⁶⁸⁰वीडियो 45. "6. प्रायश्चित्त करो"

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशु-इजराइल-दे-पुत्र-पीढ़ियों-वी-पुस्तक/.

मत्ती 25:10 एते जदू ओह (मूर्ख) खरीदने जांदे हे, तां दुल्हन (मनुख दा पुत्र) आया;
ते जेड़े हैतैयार (बुद्धिमान कुंवारी) उंदे कन्ने ब्याह च चली गई: 1।
ते दरवाजा बंद हो गया.⁶⁸¹

- दर्शकों ने दीमती दाउसी बी शक्ति ते बड़ी महिमा कन् ने दिक् खदे न, पर ओह मनुख दे पुत्र गी बादलें उप् पर ओने आला दिक् खदे हन, ना के “**च**” बादल दाजिय्यां मरकुस ते लूका च दर्शक करदे न, एह इशारा करदा ऐ के ओह दिक् खडन मनुख दा पुत्रदूर से.

मत्ती 25:11 ऐबाद च आया भीदुजी कुंवारी, कहते हुए, प्रभु, प्रभु, सानु खोलो।

मत्ती 25:12 ऐलेकन उन ने जवाब दित्ता, “मैं तुसें गी सच्च आखना ऐं, मैं तुसें गी नेई जानना।”

मत्ती 25:13 ऐ इस करिए देखो,

की वे तोहे ना जानदे होदिन दाते नेईघड़ी दी जिसमें मनुख दा पुत्र आदी ऐ.

- † **एम Matthew' दर्शकें गी (बाकी कुआरियां):** ओह ओह गै हन, जेके दुल्हन दा इंतजार करदे होई अपने दीये ते तेल दे बगैर सुत्ते दे ते सुत्ते दे हे, ते इस चाल्ली ओह “दुजी कुंवारी” जो अनजान हैं प्रभू.

मत्ती 25:3 ऐबेवकूफ अपने दीये लेई गे, ते अपने कन्ने तेल नेई लेई गे।

मत्ती 25:11 ऐइसदे बाद दूई कुंवारी बी आई गईयांनाथ, ऐनाथ, साडे वास्ते खुला।

मत्ती 25:12 ऐलेकन उन ने जवाब दित्ता, “मैं तुसें गी सच्च आखना ऐ”, मैं तुसें गी नेई जानदा.

- † **मार्क दे दर्शक (मूर्ख कुंवारी):** हालांकि मरकुस दे दर्शक मनुख दे पुत्र गी आंदे दिक्खन “**च**” लूका दे समान बादल, “बड्डी शक्ति” (या जी उठने दे) गवाह बनने दे बाद पवित्र आत्मा दे द्वारा मुहर लाए जांगन प्रभु यीशु गी, ऐप्रेरितों दे काम ४:३३). ओह गै न जेड़े दुल्हन दे ओने दा इंतजार करदे होई अपनी दीप च तेल लाए बगैर सुत्ते दे हे ते सुत्ते दे हे, इस करी दूल्हा ओने पर तेल खरीदने गित्ते गेदे हे।

→ इस तहाँ इह अप्रस्तुत कुंवारी “मूर्ख कुंवारी”

मत्ती 25:8 ऐते मूर्खें ज्ञानी गी आखेआ, “अपना तेल असेंगी देओ; की वे साडे दीया बुझी गेदे ना।

- † **एल Luke दे दर्शक (ज्ञानी कुआरियां, ऐदुल्हनें गी):** ओह ओह न जेड़े नौद च सुत्ते दे हे पर दुल्हन दे ओने दा इंतजार करदे होई अपने बर्तन च अपने दीये ते तेल तैयार हे, जिसी इस चाल्ली आखेआ जंदा ऐ ज्ञानी कुआरियां जो हैं 144,000 दी.⁶⁸² कीजे दरवाजा बंद होने कोला पैहलें गै दुल्हन कन्ने ब्याह च जाने आस्ते तैयार होंगन, इस करी ओ “दुल्हनें गी, दी जनानी मेमने दा” (प्रकासित 21:9 ऐ).

मत्ती 25:4 ऐपरज्ञानी लोग अपने दीये कन्ने अपने बर्तन च तेल लेई लेया।

मत्ती 25:10 ऐते जदु ओह खरीदने गे, तां दुल्हन दा आया;

ते जेके तैयार हे, उदे कन्ने अंदर चली गे ब्याह दा: ते दरवाजा बंद होई गेआ।

→ 144,000 दी मनुख दे पुत्र दे आने पर सारें दी इक राष्ट्र ऐपरमातमा दे लोक⁶⁸³ कोहदा दुल्हन दा ऐ मेमने दा.⁶⁸⁴

- तेरा छुटकारा नजदीक आ जांदा ऐ

लूका 21:28 ऐते जदु एह गल् लां होने लग्गी पौंदी ऐ, तां⁶⁸¹ 1096 ऐ फिरी उप्पर दिक्खो ते अपने सिर उप्पर चुक्की लैओ;

तुहाडे छुटकारा वास्ते⁶⁸² नजदीक आ जांदा ऐ।

- जदु लूका दे श्रोता मनुख दे पुत्र गी शक्ति ते बड़ी महिमा कन् ने बादल च औंदे दिक् खो, तां ओह “**ऊपर देखो**,” ते उंदे सिर उप्पर चुक्की लैओ जियू यां उनेंगी पता लग्गी जा के उंदा मुक् ति नेड़े ऐ। कीजे ओह पबित्तर आत् मा कन् ने भरोचे दे हन, तांजे ओह उस वेले सुनी सकन, जदु आत् मा ग् लांदा ऐ के “इत् थें चली जाओ” ते हवा च (हरपाजो जां रटस) फसी जाओ।

मत्ती 24:31 ऐते ओह करग अपने सर्गादूत भेजे बड़ी आवाज (आवाज) दे नाल⁶⁸³ 5456 ऐ आहला इक तुरही, ऐ⁶⁸⁴ 4536 ऐ ओह इकड़े होई जांगन⁶⁸⁵ 1996 ने⁶⁸⁶ उसी चुने दा (चुने दा)⁶⁸⁷ 1588 ने⁶⁸⁸ चार हवाएं कोला,

⁶⁸¹वीडियो 5. “आदम दा इक ज्ञानी कुंवारी च बदलावा”

www.therhemaofthelord.com/course1/5-आदम-से-दुल्हन-देव-सृष्टि-दा-एक-सार-सार/.

⁶⁸²वीडियो 48. “हनुक्काह” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-दे-भोज-8-हनुक्का/.

⁶⁸³वीडियो 18. “3. पैहे फल (द 144,000)” www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-पहले-फल-द-144000/.

⁶⁸⁴वीडियो 48. “हनुक्काह” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-दे-भोज-8-हनुक्का/.

इक छोर तों (अंतिम हिस्सा)^{¶206} स्वर्ग दादूजे (उस दे अत्यंत भाग) नू^{¶206}, रे^{¶846}
मार्च 13:27 ऐफिरी ओह अपने सुगंदूत भेजग ते अपने चुने गी चार हवाएं कोलां इकट्ठा कराग
 धरती (जमीन) दे सिरे तों^{¶1093} स्वर्ग दे अंत तक।

→ एचाs सुगंदूत तुरही दी बड़ी आवाज कन्ने भेजे जांगन, ते अपने चुने गेदे लोकें गी चार हवाएं थमां कट्टे करदे न

- **मैथ्यू दे दर्शक:** ओह दिक् खदे हन के उदे चुनेदे (लूका दे श्रोता) सुअर्गे दे अखीरी हिस्से थवां उदे होर बी कट्टे होए जाडना उनेंगी अंत तक (1000 सालें दे अंत च बाकी मरे दे लोकें गी) टिकने लेई आखेआ जंदा ऐ⁶⁸⁵ बचाने के लिये (मत्ती २४:१३ ऐ).
- **एम्सन्दक दे दर्शक:** ओह दिक् खदे हन के उदे चुनेदे (लूका दे श्रोता) जर्मी दे अखीरी हिस्से थवां सुअर्गे दे अंत तक इकट्ठा होए जाडन, पर उनेंगी अंत तक (साथी दासें दे शहीद तक, प्रकासित 6:11 ऐ) बचाने दा (मार्च 13:13 दी).
- **एलूके दे दर्शक:** उल्लेख नहीं कीता। मत्ती ते मरकुस दे श्रोताएं दे उल्ट, लूका दे बाकी श्रोताएं गी अंत तक सहन करने आस् ते नेई गू लाया जंदा ऐ कीजे उनेंगी इस थवां बचाया जाग प्रलोभन दी घड़ी रखने के बाद परमातमा दे लोगो (प्रकासित 3:10 ऐ). दूजे शबदां विच, ओह या तां रप्चर हो जांदे हन (मत्ती २४:१३ ऐ, एमाच 13:13 दी, एलूका 21:16-17 ऐ) या पहले ही रप्चर दे वक्त उदे नाम दे वास्ते मारे गए होन (प्रकासित 6:9 ऐ).

• मनुख दा पुत्र किय यां औग ?

मत्ती २४:२६ ऐ इसे आस्ते जेकर ओह तुंदे कन्ने आखन, “ दिखो, ओह रेगिस्तान (जंगल) च ऐ; ^{¶2048} अर्गे नेई जाओ:

दिखो, ओह गुप्त कक्षें च ऐ; इस पर विश्वास ना करो।

मत्ती 24:27 ऐ कीहके जिय्यां पूब कोलां बिजली निकलदी ऐ, ते पश्चिम च बी चमकदी ऐ;

इसी तरह दा आना भी होग मनुख दा पुत्र होना.

- कीजे मनुख दे पुत्र दा आना पूब थमां निकलने आहूी बिजली दे समान होग ते पश्चिम तक सारे रस्ते च चमकने आहूा होग, इस करी झूठे मसीह ते झूठे भविष्यवक्ताएं उप्पर विश्वास नेई करो (मत्ती २४:२४ ऐ) जदू आखदे ने के ओह जंगल च ऐ जां गुप्त कक्षें च ऐ।

मत्ती २४:२८ ऐ कीजे जित्थें बी लाश (मरे दे शरीर)^{¶4430} है, उथे चील होंगे^{¶105} इकट्टे हो जाओ।

लूका 17:37 ऐ ऐउन् ने उसी जवाब दिता, “ कित्थे? नाथ? ^{¶2962} है

उन उन्दे कन्ने आखया, “ जित्थे भी लाश” ^{¶4983} है, उथे चील होंगे^{¶105} इकट्टे हो जाओ।

उन उन्दे कन्ने आखया, “ जित्थे भी लाश” ^{¶4983} है, उथे चील होंगे^{¶105} इकट्टे हो जाओ।

- प्रभु दो मनुखें च इक गी (जिस दे लोगो इस गल् ला गी स्वीकार करने आस् ते बधी गया के यीशु दा रेमा, ते इस चाल्ली यीशु गी मसीह, परमेसरे दे पुत्र दे रूप च विश्वास किता) गी खतर च (या संसार च) लेई जाग, पर दूए गी (जिसने पाने थमां इन्कार करी दिता हा पवित्र आत्मा या रेमा, ते “विश्वास” नेई करो के यीशु एमसीह गी जां मसीहा गी)। लूका 17:37 ऐ, ऐयिर्मयाह 16:4।⁶⁸⁶

- ऐटी ओह आखरी च पैहा होऐ, ऐपैहला आखरी

- रब दालोक, ऐज़राइल, जिसे परमातमा मिस्र थमां छुटकारा दिंदा ऐ, जेहडे आने आहूे समें आस्ते दाऊद दे घर दे न, ओह ना कुंवारी, ऐ⁶⁸⁷ फल परमात्मा ते मेमने गी जां 144,000, इझाएल दे पुत्रें दे सारे गोत्रें दी गिनतरी, जेहडे मुहर लाए गेदे न, जिंदे मथें उप्पर इक मेमने दे पिता दा नां लिखे दा ऐ, ते सिंहासन दे सामने इक नमां गीत गां दे न, जेडे जमीन थमां छुड़ाई गेदे ना⁶⁸⁸
 - ओमूल रूप च, मसीह दा सुसमाचारहापरमातमा दी ताकतहर इक विश्वास करने आले गी उद्धार लेई (रोम 1:16 ऐ), पर करने दा यहूदी पैहला (पैहला), ते ग्रीक या गी बी गैर-यहूदी लोकें गी (आखरी). पर, यहूदियें उंदे उप् पर गै गल् लां किती परमातमा दे लोगो ते निंदा कीती, ते इस चाल्ली उद्धार दा सुसमाचार गैर-यहूदियां दी ओर मुड़ गया (प्रेरितों दे काम 13:46). बी, परमातमा दा राजप्रधान याजकें ते फरीसियें (जेहडे यहूदी बी हे; पैहले आखरी होन) ते फल देने आली गैर-यहूदी कौम गी दिता जाग (आखरी पहले हो, ऐमत्ती 21:43 ऐ).
- हालांकि क्रम बदली गेदा ऐ, पर गैर-यहूदी राष्ट्रें (आखरी पहले हो) ते यहूदी विश्वासी (पैहला)

⁶⁸⁵ “(प्रकाशितवाक्य 20:5-6) पैहला जी उठना (4वीं घड़ी दी 3 फसल).”

⁶⁸⁶ वीडियो 38. “यीशु दे बगल च सुली च चढ़े गेदे दो चोर।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-यीशु दे सुली च चढ़ने दे दो चोरें गी यीशु दे बगल च सुली च चढ़ाया गेआ/.

⁶⁸⁷ कुंवारी दे अर्थ दे बारे च विस्तार कन्ने दिक्खो “(प्रकाशितवाक्य 2:20-23 ऐ) 3 किस्म दे कुंवारी.”

⁶⁸⁸ “[गैर-यहूदी, सारे जाति]” दा संदर्भ लैओ।

होना(अंतम) प्राप्त करगेपरमातमा दा राज: 1।

“मत्ती 20:16 ऐइसलेईआखरी होगापैहला, तेपैहला आखरी: कीजे मते सारों गी बुलाया जंदा ऐ, लेकन थोड़े चुने गेदे न.”

- यहूदी स्वभाव नाल गैर-यहूदी जाति दे पापी नहीं हन (**गलाती 2:15 ऐ**)। परमेसरे दी शक् ति च प्रगट होई जाग, तांजे ओह सारे (शरीर च खतना ते अखतना) विश् वास करदे हन। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कन्ने, सारे राष्ट्र (शरीर च खतना ते खतना नेई) गैर-यहूदी राष्ट्र हे कीजे मसीह यीशु दे पापियें गी बचाने आस्तै संसार च औने कोला पैह्ले ओह सारे पापें दे अधीन हे (**1ति 1:15 ऐ**)। उंदे च कोई फर्क नेई ऐ तेप्रभूसारों लेई इक गै ऐ, इस करी जेहड़ा बी दा नांऽ पुकारदा ऐप्रभु (क्योरिओस) **2962 ऐ** माल (चीजें जो की हैं) कन्ने बधी जागईश्वर) बचाया जाओ।⁶⁸⁹

- ऐअंजीर दे पेड़ दा इक दृष्टांत(अंजीर दा पेड़&सारे पेड़)

मत्ती 24:32 ऐहुन अंजीर दे पेड़ दा इक दृष्टांत सिखो;

जफ उनके⁸⁴⁶ब्रांच²⁷⁹⁸ने⁸हे अजे तक (अब पहले ही)^{2235 ऐ}कोमल, ते उगदा (उगदा)^{1631 ऐ}पत्ते, तुस जानदे ओ के गर्मी नेड़े ऐ।

मार्च 13:28 ऐहुन अंजीर दे पेड़ दा इक दृष्टांत सिखो;

जफ उसे⁸⁴⁶शाखा अजें बी ऐ (अब पैह्ले गै)^{2235 ऐ}कोमल, ते उगदा (उगदा)^{1631 ऐ}पत्ते, तुस जानदे ओ के गर्मी नेड़े ऐ।

लूका 21:29 ऐते उन उन्दे कन्ने इक दृष्टांत आखया; अंजीर दा पेड़ दिखो,^{4808 ऐ}ते सारे बूट्टे,^{1186 ऐ}

लूका 21:30 ऐजदू ओह हन गोली मारदे न (पत्तियां बुझादे न),^{4261 ऐ}

तुस दिक्खा करदे ओ⁹⁹¹ने⁴और जानिए^{1097 ऐ}अपने आप दा¹⁴³⁸ओह गर्मी हन नेड़े आई गेई ऐ।

- उत्पत्ति च जनानी ते उदे पत्ति^{376 ऐ}अंजीर दे पेड़ तां अंजीर दे पत्ते सिले^{8384 ऐ}इकट्टे होईये उंदी अकखीं खोलने ते उनेंगी नगे दिखने दे बाद अपने आप गी एग्रन बनाई लेआ(उत्पत्ति ३:७ ऐ)। जदू भलाई-बुरे (या कानून) दे ज्ञान दे बूट्टे थमां निकले दे फल गी खाइये बुरी चीजें गी दिक्खने आस्तै अकखीं खुल्ली जंदिंयां ना⁶⁹⁰मांस दी नंगीपन गी ढकने आस्तै अंजीर दे बूट्टे थमां बने दा करधड़ी (सिले दे अंजीर दे पत्ते) दा इस्तेमाल कीता जंदा हा।⁶⁹¹

- पर कदूयीशु(मनुख दा पुत्र) दिखाई दिंदा है, लोकें गी अपनी नग्नता गी ढकने आस्तै अंजीर दे पत्तें दी लोड़ नेई ऐ

गेश्तकीजे ओह हुन बी दे बोने आले गी दिक् खदे हन**ओह लोगो दा, ऐ डबल्यू**हो भी हैके लोगो दा ईश्वर (मत्ती १३:३७, ऐरकुरिन्थियों ९:१०)कुन दिंता**जीवन**दुनिया गी (झंङ:३३ दी)।पाप दा तुदे उप् पर राज नेई रेहया, कीजे तुस हुन थल्ले नेई ओ व्यवस्था गी लेकन अनुग्रह दे अधीन। इस आस् ते जेके किरपा दे हेठ न, उनेंगी पोषण ते संजोना चाईदा जेके हन कानून दे तहत, ठीक उसी तरहप्रभुकलीसिया (पुरुष ते जनानी) आस्तै करदा ऐ।⁶⁹²

- **एमएथेव&** मरकुस दे दर्शक अंजीर दे पेड़ दा इक दृष्टांत सिखदे न: 1।

“जदू अंजीर दे बूट्टे दी शाखा पैह्ले गै कोमल होई जंदा ऐ, ते पत्तियां उगदियां न, तां तुस जानदे ओ जे गर्मी नेड़े ऐ।”

→ **अंजीर दा पेड़** व्यवस्था दे अधीन जिंदि खतना शरीर च ऐ, उंदे आस् ते पछतावे दे मौसम दा संदर्भ दिंदा ऐ।

- **एलुके** दे दर्शकअंजीर दे पेड़ ते सारे बूट्टे दा इक दृष्टांत सिखो: 1।

“जदू अंजीर दा पेड़ ते सारे बूट्टे पत्तियां बुझागे, तां तुस अपने आप गी उस गर्मी (आने आली) गी दिक्खगे ते जानगे

दुल्हन दा, स्वर्ग दा राज, ऐमत्ती 25:1 ऐ हुण हत्थ दे नेड़े ऐ.”

→ **अंजीर दा पेड़**भलाई ते बुराई दे ज्ञान दे बूट्टे दे फल दा मतलब ऐ, जां उनें लोकें गी जेके व्यवस्था दे अधीन (या यहूदियें) दे अधीन खिलाया जंदा ऐ, जिसले **किसारे पेड़** सारे (गैर-यहूदी) राष्ट्र आस्तै बेल दे पेड़ दे फल (यीशु सच्ची बेल होने दे नाते) दा जिक्र करो जेड़े अनुग्रह दे हेठ बेल दे पेड़ कन्ने खिलादे न (या...**आध्यात्मिक यहूदियों** गी)।

“[चित्र 14]” दे अनुसार, उद्धार पाये गेदे गैर-यहूदी “अनुग्रह दे हेठ” दे दौर च ना गैर-यहूदियां दी भरमार दा दौर गर्भियें दे पर्व दे हेठ औंदा ऐ, जेका पेंटकुस्ट दी पर्व दे बाद ते तुरही दी पर्व कोला पैहले होंदा ऐ। इस चाल्ली लूका च सारे बूट्टे दे औने दे मौसम दा वर्णन करदे न**मनुख दा पुत्र**(ओह पापियें दे हत्थें च सौंपी गया, ते सुली उप्पर चढ़ाया गेआ, ते त्रीए दिन जिंदा होई गेआ।**लूका 24:7 ऐ**)। मतलब, लूका दे दर्शक दिखदे ते जानदे ने कि “**परमातमा दा राज**” हत्थे च ऐ।⁶⁹³

⁶⁸⁹वीडियो 15. “नासरत दा यीशु & नासरत दा यीशु मसीहा”www.therhemaofthelord.com/व-सुसमाचार/15/ ऐ।

⁶⁹⁰ उत्पत्ति २:९ & वीडियो 16, “गैर-यहूदी, सारे जाति (8/10)”www.therhemaofthelord.com/व-सुसमाचार/16/ ऐ।

⁶⁹¹वीडियो 28. “आत्मा दा फल”<https://therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्मा-दा-फल/>।

⁶⁹²वीडियो 32. “(एक बड़डा रहस्य) मसीह & कलीसिया 1/2।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-एक-महान-रहस्य-मसीह-चर्च-सब-चीज-परमात्मा-दी-हैं/।

⁶⁹³वीडियो 16. “गैर-यहूदी, सारे जाति (पीलुस पतरस दी प्रेरितता) 3/10।”www.therhemaofthelord.com/व-सुसमाचार/16/ ऐ।

→ जानवर (सिवाय उनें जानवरों गी जेहड़े नाश होने आस्तै पिच्छें हटी जंदे न; [इब्रानियों 10:39](#) ऐ) ओह हन जिन्हां नूं अजे तक बनाना बाकी है धर्मी पर उनेंगी डरना नेई चाहिदा कीजे चारागाह बूहटे दा फल पैदा करग, [अंजीर दा पेड़](#), ते बेल गी मजबूत करने आस्तै, जदू के ओह धर्मी रस्ते पर चलदे न ([जो 2:22](#) ऐ).⁶⁹⁴

[चित्र १४] इस्राएल दे पुत्रों आस्तै प्रभु दे सत्त पर्व⁶⁹⁵

Sin entered the world (Under the Law)					Under Grace		New Heaven & Earth (Rev 21:1)	
	4,000 BC	3000 BC	2,000 BC	1000 B.C.	0	1000 A.D.	2000 AD	3000 AD
	Creation of Adam 4,000 BC		Abraham (2,000 BC)		Christ's 1st Coming (4 BC - 29 AD)		Christ's 2nd coming (2,000 AD~)	(7000 AD) begins
Signs	An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas (Mat 12:39)							For as Jonas was 3 days & 3 nights in the whale's belly; so shall the Son of man be 3 days & 3 nights in the ground's heart (Mat 12:40)
Seasons	God's calendar (2023)	April	Late Passover	June	----- The fulness of the Gentiles -----		Sep - Oct	The 7-year Shemitah cycle (governs all human history)
	Hebrew calendar (2023)	Nisan (ABIB)	Iyar (ZIV)	Sivan (Pentecost)	Tammuz	AB	Elul	Jewish calendar (1st 7 months, begins with Nisan)
	Gregorian calendar (2023)	Mar-Apr	Apr-May	May-Jun	Jun-Jul	Jul-Aug	Aug-Sep	Sep-Oct
Days	1	2	3	4	5	6	7	6 days in God's creation + 1 day rest (Gen 1-2)
Years	1	2	3	4	5	6	7	1 day is with the Lord as a 1000 years (2 Pe 3:8)
7 Feasts of the LORD	Spring Feasts		Summer				Fall Feasts	Winter Feasts
14	Passover		Pentecost				Trumpet	1
15-21	Unleavened Bread						A Day of Atonement	10
16	Firstfruits						Tabernacles	15-21
							Solemn assembly	22
Harvests	Barley	Wheat	Wheat, early figs	First grapes	Olive	Dates, summer figs	Plowing	Heshvan (Oct-Nov), Kislev (Nov-Dec), Tevet (Dec-Jan), Adar (Feb-Mar), Adar II (Mar)

[मत्ती 24:33](#) ऐउय्यां गै तुस जदु दिखगे [जो 1492](#) ऐ सब्भे [जो 3956](#) ऐ इनें गल्लें गी, जान लओ कि ए नेड़े ऐ, [जो 1451](#) ऐ यहाँ तक कि एटदरवाजे दे.

[मार्च 13:29](#) ऐतां तुस बी इयू यां गै, जदु एह गल् लां होई गेदे दिक् खी लैगे [जो 1096](#) ऐ

जान लओ कि नेड़े ऐ, [जो 1451](#) ऐ यहाँ तक कि एटदरवाजे दे.

[लुका 21:31](#) ऐइयू यां गै तुस जदु एह गल् लां होई गेदे दिक् खदे ओ [जो 1096](#) ऐ

तुस इस गल्ल गी जानदे ओ [परमातमा दा राज](#) नेड़े ऐहत्थ च.

- **मैथ्यू दे दर्शक:** इयू यां गै जदु तुस इनें गल् लें गी "सब" दिक् खदे ओ (मनुख दे पुत्र गी औने आला "[पर 1909](#)" शक्ति ते बड़ी महिमा कन्ने सुर्ग दे बादल ते उंदे चुने गेदे लोक सुर्ग दे अंत थमां उंदे अंत च इकट्ठा कीते गेदे न), जानना जे एह ([परमातमा दा राज](#)) नेड़े ऐ, दरवाजे पर बी.

→ मत्ती दे श्रोता जमीन दे कबीले न, जेके इस आस् ते शोक करडन के उनेंगी विश्वास नेई कित्ता

[मसीह](#) जिवें उनके [मसीहा](#) ते इस चाल्ली एहसास होई गेआ जे उनेंगी धोखा दिता गेदा ऐ। वे कर देंगे [होना](#) जमीन पर जब

वे दे खते [शैमनुख दा पुत्र](#) आने आला "[पर 1909](#)" शक्ति ते बड़ी महिमा कन्ने सुर्ग दे बादल.

इसलेई, [परमातमा दा राज](#) मैथ्यू दे दर्शकें दा इंतजार करदा ऐ जेहड़ा दा नांउ पुकारदा ऐ [प्रभु](#).

- **एमसन्दूक दे दर्शक:** उय्यां गै जदु तुस इन्हें गी दिक्खदे ओ (मनुख दे पुत्र आने आला "[च 1722](#)") "बड्डी शक्ति" ते महिमा कन्ने बादल ते उंदे चुने गेदे लोकें गी जमीन दे सिरे थमां सुर्ग दे अंत तक इकट्ठा कीता गेदा ऐ) होने आह्ने, जानने आस्तै जे एह ([परमातमा दा राज](#)) नेड़े ऐ, इत्थ तक [दरवाजे पर](#).

⁶⁹⁴वीडियो 24. "तुस पवित्र यरूशलेम ओ (3/3)"

www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-देव-दे-चर-तुस-पवित्र-यरूशलेम/.

⁶⁹⁵वीडियो 8. "इस्राएल दे पुत्रों आस् ते परमेसरे दे सत्त पर्व" www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-द-सत्त-भोज-इजराइल-जीस-दे-पुरुष-बच्चे-से-तो-प्रभु/.

→ मार्क दे दर्शकें गी मिलाग **पवित्र आत्मा गी** जदुं ओह मनुख दे पुत्र गी बादलें च ओदें दिक् खदे हन, ऐ इसलेई **परमातमा दा राज** नेड़े है **दरवाजे पर** उंदे आस्तै।

- **एलुके दे दर्शक:** उय्यां गै जदुं तुस इन्हें गी दिक्खदे ओ (मनुख दे पुत्र आने आला “**च^{#1722}**” शक्ति ते “बड्डी महिमा” कनै बादल ते होने आह ले, एह जानदे ओ **परमातमा दा राज** हलथ दे नेड़े ऐ.

→ लूक दर्शक हैं **144,000 दी** (मसीह दे पैहले फल) जो की गद्दी के सामने बेदोष हैं **ईश्वर** (प्रकाशितवाक्य 14:1-5 ऐ). इसलेई, **परमातमा दा राज** ऐने **इहलथ च 144,000** दे लेई.

(प्रकाशितवाक्य 14:6-7 ऐ) स्वर्ग दे बिच्च 1 सुर्गदूत (अनन्त सुसमाचार)

प्रकाशित 14:6 ऐते में इक होर सुर्गदूत सुर्ग दे बिच्च उड़दे दिक्खेआ।

शाश्वत होने आला **#166** सुसमाचार दीधरती (जमीन) उप्पर रौहने आलें गी प्रचार करने आस्ते **#1093** ऐ

ते हर कौम, ते हर कबीले (गोत्र) गी **#5443** ते जीभ ते लोक,

प्रकाशित 14:7 ऐ उच्ची आवाज च आखया, “परमात्मा कोला डर, ते उदी महिमा करो; की वे उदे न्याय दा समा आई गेदा ऐ।

ते स्वर्ग ते धरती (जमीन) बनाने आले दी भक्ति करो **#1093** ते समुंदर ते पानी दे फव्वारे।

- ☞ प्रकाशित 14:6 ऐ इक **1st** सुर्गदूत गी स्वर्ग दे बीच उड़दे दिक्खेआ, जिसदे कोल **अनन्त सुसमाचार गी**, ऐ जमीन उप्पर रौहने आलें गी, हर जाति, कबीले, भाशा ते लोकें गी प्रचार करना।
- ☞ प्रकाशित 14:7 ऐ जोरदार आवाज च आखदे होई, “**इईश्वर** ते उसी महिमा देओ, कीजे **घडी दी** उदे फैसले दा आया ऐ; ते उदी भजन करो, जिन् ने आकाश ते धरती, समुंदर ते पानी दे फव्वारे बनाया।”

- ✦ अनन्त सुसमाचार, जमीन दे निवासियें गी सुर्गदूत आसेआ प्रचार कीता जाना, इस थमां मती संभावना ऐ “**छोटी जेही किताब**” कि यूहन्ना ने सुर्गदूत दे हलथों से ग्रहण किता ते खा गया **भविष्यवाणी करना परतियै** कई गी लोकें गी, राष्ट्र, भाषा, ते राजा. ⁶⁹⁶

(प्रकाशित 14:8 ऐ) स्वर्ग दे बिच्च 2 सुर्गदूत (बाबुल दा पतन महान शहर)

प्रकाशित 14:8 ऐते इक होर सुर्गदूत पिच्छे आया ते आखया, “बाबुल डिग्गी गेदा ऐ, ओह महान नगर ऐ।

क्योंकि ओह सारे जातियें गी अपने व्यभिचार दे गुस्से दे मदिरा पीने आली ही।

- ☞ प्रकाशित 14:8 ऐ इक **2nd** सुर्गदूत ने पीछा करदे होए आखया, “बाबुल गिर गया, गिर गया, कि **महान शहर**, ऐ की वे उसने सारे जातियें गी पीने देई दिती ऐ **गुस्से दी शराब** उसी व्यभिचार दा.”

- **महान शहर** (वैटिकन शहर) 2 जानवर दा है, ते बाबुल 1 जानवर दा है जो “**इक दुनिया सरकार**.”

→ संदर्भ देना **प्रकाशितवाक्य 17:3-6** होर मती जानकारी लेई ⁶⁹⁷

(प्रकाशित 14:9-11 ऐ) स्वर्ग दे बिच्च 3 वां सुर्गदूत (परमातमा दा गुस्सा)

प्रकाशित 14:9 ऐ ते त्रीया सुर्गदूत उन्दे पिच्छे चली गया ते जोरें-जोरें आखया।

जेकर कोई जानवर ते ओस दी मूर्ति दी पूजा करदा ऐ, ते उदे मल्ये ते उंदे हलथ च उंदा निशान लांदा ऐ, ऐ

प्रकाशित 14:10 ऐ उसी गुस्से दी मदिरा पीग **#2372** परमातमा दा, ऐ

जेहड़ा उंदे आक्रोश (क्रोध) दे प्याले च बिना कुसे मिश्रण दे उंडेल दिता जंदा ऐ; **#3709**

ते उसी अग ते गंधक कन्ने सताया जाग

पवित्र सुर्गदूतें दी मौजूदगी च, ते मेमने (अम्मोस) दी मौजूदगी च; **#721** ऐ

प्रकाशितवाक्य 14:11 ऐते उंदे तड़प दा धुंआ सदा-सदा उप्पर चढ़दा ऐ।

⁶⁹⁶संदर्भ देना **प्रकाशित 10:8 ऐ-11।**

⁶⁹⁷“**प्रकाशितवाक्य 17:5-6** रहस्य, बेबिलोन महान, वेश्याएं ते जमीन दी घृणित चीजें दी मां.”

ते ओह जानवर ते उदी मूर्ति दी पूजा करने आलें गी दिन ते रात दा आराम नेई ऐ।
ते जेका अपने नां दा निशान पांदा ऐ।

- ☞ [प्रकाशित 14:9 ऐ टीThen](#) (तीसरा, 3) सुर्गदूत उंदे पिच्छे चली गया, ते जोंरें-जोंरें आला।
“जेकर कोई जानवर ते उदी मूर्ति दी पूजा करता ऐ, ते उदे मत्थे उप्पर जां उंदे हत्थें उप्पर उंदा निशान लांदा ऐ।
 - ☞ [प्रकाशित 14:10 ऐ](#) ओह बी अपने आपै गी शराब पीग **परमातमा दा गुस्सा**, जिस च पूरी ताकत उंडेलदी ऐ
उदे गुस्से दा प्याला. उसी अग ते गंधक कन्ने सताया जाग
की मौजूदगी में **पवित्र स्वर्गदूत ते मेमने दा**.
 - ☞ [प्रकाशितवाक्य 14:11 ऐ](#) ते उंदे तड़प दा धुंआ हमेशा युग च चढ़दा ऐ; ते दिन ते रात उन्दे कोल कोई विश्राम नेई ऐ।
ओह जानवर ते ओस दी मूर्ति दी पूजा करदे न, ते जेड़ा उदे नां दा निशान पांदा ऐ।”
- की शराब की **परमातमा दा गुस्सा** (उस दे गुस्से दा प्याला)
- जो कोई बी जानवर ते उसदी मूर्ति दी पूजा करता ऐ, उंदा मतलब ऐ “जो कोई बी जानवर दा निशान पांदा ऐ (क माइक्रोचिप, ऐ [प्रकाशित 13:17 ऐ](#)) उंदे मत्थे उप्पर जां उंदे हत्थे उप्पर,” पीने दा प्याला **रब दा क्रोध**.

([प्रकाशित 14:12-13 ऐ](#)) धन्य हन ओह मरे दे जो अज्ज तों प्रभु विच मरदे हन

[प्रकाशित 14:12 ऐ](#) इत्थें संत लोकें दा धीरज ऐ: ⁴⁰

इत् थें ओह गै हन, जेके परमसरे दे हुक् म ते यीशु दे विश् वास गी मनदे हन।

[प्रकाशित 14:13 ऐ](#) ते में सुर्ग थवां इक आवाज सुनी कि, “लिखा

धन हन ओह मरे दे हन, जेके हुन थवां प्रभु च मरदे हन।

हां, आत्मा आखदा ऐ के ओह अपनी मेहनत कोला आराम करन; ते उंदे कम्म उंदे पिच्छे गै चलदे ना।

- ☞ [प्रकाशित 14:12 ऐ](#) एच ऐरे दा धीरज ऐ **पवित्र संत गी**;
इत् थें ओह गै हन, जेके आज्ञाएं गी मनदे हन **ईश्वर** ते विश्वास दा **यीशु**.
 - ☞ [प्रकाशित 14:13 ऐ](#) उस बेले में (यूहन्ना) सुर्ग थवां इक आवाज सुनी कि ओस गी आखदी ही।
“लिखो: **धन्य हैं मरे हुए** जो में मरते हैं **प्रभु (kyrios)** हुण तों बाद.” हां, आत्मा आखदा ऐ,
“किजोकी ओह (पवित्र संत) अपनी मेहनत कोला आराम करी सकदे न, ते उंदे कम्म उंदे पिच्छे चलदे ना।”
- जेके परमसरे दे हुक्में ते यीशु दे विश् वास गी मनदे हन, ओह उदे जानवर दी भजन नेई करदे
छवि, जां उंदे नां दा निशान हासल करदे न, गी “**पवित्र संत गी**.”

<प्रभु यीशु दा दिन>

[१ क्रिन्थियों ५:४](#) साडे नाम ते **प्रभु यीशु मसीह**, ऐ

जदु तुस ते मेरी आत् मा साड्डी शक्ति कन् ने इकडे होओ **प्रभु यीशु मसीह**, ऐ

[१ क्रिन्थियों ५:५](#) ऐसे गी विनाश आस्ते शैतान दे हत्थ च सौपी देना ³⁶³⁹ **मांस दा**, ऐ

तां जे आत् मा दे दिन उध्दार होई जा **प्रभु यीशु गी**.

[२ क्रिन्थियों १:१४](#) जिय्यां तुसें साहडे गी किश हद तक पछानया ऐ, जे अस तुं दे खुश करने आह्णे आं

जिय्यां तुस बी दिन च साढे ओ **प्रभु यीशु गी**.

- (पवित्र संत दे शरीर) **प्रभु यीशु** अपने पवित्र संतें दी आत्मा गी ग्रहण करदा ऐ, जिंदे शरीर गी शैतान ने नष्ट करी दिता हा, पर उंदे शरीर गी आने तक सुत्ती दिता जाग **प्रभु यीशु** ([प्रकाशितवाक्य 22:20](#)), जिसदा सबूत स्टीफन दी मौत दे जरिए मिलदा ऐ।⁶⁹⁸
- (व्यभिचार करने आले संत दे शरीर) व्यभिचार करने आले संत दे मांस दे बारे च, ([१ क्रिन्थियों ५:१](#)) ओह ओह गै हन, जिनें गी ईजेबेल दी जनानी गी इजाजत दिती ही, इस आस् ते उनें गी शरीर दे नाश आस् ते शैतान दे सामने सौपी दिता जाना चाईदा, पर जेकर ओह अपने कम्म में आस् ते पछतां दे हन तां उंदी आत् मा प्रभु यीशु दे दिन बचाई सकदे हन। लेकन जेकर ओह पछतावा नेई करन तां ओह बड़ा संकट च पाई दिता जाग ([प्रकाशितवाक्य 2:20-22 ऐ](#)).

* “[3] डैनियल दे 70 हफ्ते” थमां कैद कीता गेदा।

Abomination (AOD)	The day of the Lord Jesus (Rev 14:12-13)	The day of the Lord Wrath of God (WOG)	Day of Christ	The day of God	
2,000 years			1,000 years	∞	
0) weeks (Daniel 9:24-25)			Heavenly Jerusalem	On the ground	In heaven
Great Tribulation Daniel's 2nd half of 70th week			Armageddon	God's paradise (Rev 2:7)	New Jerusalem Holy Jerusalem
Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)	Mount Zion (Heb 12:22)		

(प्रकाशितवाक्य 14:14-16 ऐ) द हावैस्ट (3 वी घड़ी दा 2nd रैचर)

प्रकाशितवाक्य 14:14 ऐते मैं इक सफेद बादल दिखया, ते बादल उपपर इक मनुख दे पुत्र दे समान बैठे दा हा।
सिर उपपर सोने दा मुकुट, ते हत्थ च तेज हँसुआ।
प्रकासित 14:15 ऐते इक होर सुगंदूत बादल उपपर बैठे दे गी उच्चि आवाज च पुकारदे होई मंदर चों निकली आया।
तेरी हँसुआ में धकेल दे, ते फसल कट्टो:
समें (घंटे) दे वास्ते^{#5610} तेरे लेई आया ऐ; धरती (जमीन) दी फसल दे वास्ते^{#1093} पका हुआ है।
प्रकाशितवाक्य 14:16 ऐते जेड़ा बादल उपपर बैठे दा हा, ने अपनी हंसी गी धरती उपपर (जमीन) उपपर सुट्टी दिता;^{#1093}
ते धरती (जमीन)^{#1093} कटी गई।

- ☞ प्रकाशितवाक्य 14:14 ऐ **टी**hen यूहन्ना ने दिखया, ते दिखया, इक सफेद बादल, ते बादल उपपर इक समान बैठे दा ऐमनुख दा पुत्र, ऐ सिर उपपर सोने दा मुकुट, ते हत्थ च तेज हँसुआ।
- ☞ प्रकासित 14:15 ऐ **इक**nd (4वें स्वर्गदूत) बादल उपपर बैठे दे गी बड़ी आवाज कन्ने पुकारदे होई मंदर चों निकली आया।
“अपनी हंसली च धकेलिये फसल कट्टो, कीजे **घड़ी दीआ गया** हैतहाडे वास्ते फसल कटाई, ऐ लेई**फसल दाजमीन** दापका हुआ है.”
- ☞ प्रकाशितवाक्य 14:16 ऐ **एस**ओ बादल उपपर बैठे दा (**प्रभु यीशु मसीह गी**) जमीन उपपर अपनी हंसली च ठोकी दिती, ते जमीन कटी गई।

→ बादल उपर बैठा जो हैपरमातमा दा पुत्र(प्रभु यीशु मसीह).⁶⁹⁹
→ 3 वी घड़ी दी 2 वी रैचर फसल⁷⁰⁰के लिए है “**मुखं कुंवारी**.”⁷⁰¹

>> 2 वी रैचर दा (मुखं कुड़ियां दी 3मीं पहरा): प्रभु यीशु मसीह दा आना

- आध्यात्मिक रूप च यहूदी ते गैर-यहूदी दोनों गै शरीर दे हे ते उंदी महिमा कोला घट्ट हेई^{श्र}जो इक आत्मा ऐ (रोम 3:23 ऐ, ऐजहन्ना 4:24 ऐ). साढ़े शरीर दी वासना दे मताबक अस दे बच्चे हे**क्रोधस्वभाव से**, ऐ **दी इच्छाएं गी पूरा करदे होईमांस ते मन दा**, अतीत च साढ़ी अवज्ञा दे जरिए (**इफिसियों 2:3 ऐ**), ऐ पर**पवित्र संत गी** नियुक्त नेई कीते गेदे **नपरमातमा दा गुस्सा**, पर साढ़े कोला मुक्ति हासल करने आस्ते**प्रभु यीशु मसीह** (**१थ 5:9 ऐ**).⁷⁰²

- ऐ**टीओह प्रभु यीशु मसीह**हत्थ च इक तेज हँसुआ ऐ, जिसगी ओह फसल कट्टने पर जमीन उपपर सुट्टी देग दा जमीन पकदा ऐ. जो फसल उसने कटाई की, ओह ऐ**पवित्र संत गी**जो **थेकैद कर लेया**और थे **मार दीमहासंकट** दे दौरान जानवर दा निशान नेई लैने थमां (प्रकासित 13:10-16 ऐ).

(प्रकाशितवाक्य 14:17-20) जमीन दी बेल दे गुच्छे दी फसल (परमातमा दा गुस्सा)

⁶⁹⁹से कैद की गई**प्रकासित 1:12 ऐ-13 ऐ**. मनुख दा पुत्र सत्त मोमबत्ती (या कलीसियाएं) दे बिच्च ऐ, पर ध्यान देओ के शब्द

"पसंद^{#3664} मनुख दे पुत्र कन्ने मिलदा-जुलदा जां मिलदा-जुलदा दिखने आस्ते उस जीव दा वर्णन करने आस्ते इस्तेमाल कीता जंदा ऐ**प्रकासित 1:16 ऐ** उसदा वर्णन करदा ऐ जेह्दा दिखदा ऐ मनुख दे पुत्र दे समान जेके "दो धारें आली तेज तलवार" गी पकड़े दा ऐ जेकी उदे च इक ज्वालामुखी तलवार (रेमा) ऐ

मूह. क्योंकि रेमा साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे प्रेरितों दे सामने बोली गई सी (जदे 1:17 ऐ), मनुख दा पुत्र**एम**ें लिखा गया

प्रकासित 1:13 ऐप्रभु यीशु मसीह, परमात्मा दा पुत्र ऐ जेड़ा मनुख दे पुत्र कन्ने मिलदा ऐ।

⁷⁰⁰"<(3rd watch) प्रभु यीशु मसीह दे आना> दा संदर्भ लैओ।"

⁷⁰¹"[चित्र 21-1] परमेसरे दे लोक परमेसरे दे तम्बू च किय यां दाखल होडना"

⁷⁰²से कैद की गई**प्रकासित 11:4 ऐ**.

[प्रकाशितवाक्य 14:17](#) ऐते सुर्ग दे मंदर च इक होर सुर्गदूत निकली आया, उदे कोल इक तेज हंसी बी हा।
[प्रकाशित 14:18](#) ऐते इक होर सुर्गदूत वेदी चों निकल आया, जिसदे कोल शक्ति (अधिकार) ही।^{#1849} आग दे उपर;
 ते तेज हंसी रखने आले गी जोंरें कन्ने पुकारया।
 तेरी तेज हँसुआ में धकेल दे, ते धरती (जमीन) दी बेल दे गुच्छे गी इकड़ा करो,^{#1093} ऐ
 कीजे उदे अंगूर पूरी चाल्ली पक्के न.
[प्रकाशितवाक्य 14:19](#) ऐते सुर्गदूत ने अपनी हंसी गी धरती (जमीन) च सुट्टी दित्ता।^{#1093} ऐ
 ते धरती (जमीन) दी बेल कट्टी कीती।^{#1093} ऐते परमात्मा दे गुस्से दे बड्डे दाख दा बूटे च सुट्टी ओड़ेया।

- ☞ [प्रकाशितवाक्य 14:17](#) ऐफिरी (5वां) सुर्गदूत सुर्ग दे मंदर चों निकल आया, ते उदे कोल इक तेज हंस बी हा।
- ☞ [प्रकाशित 14:18](#) ऐ इकंद (6वां) सुर्गदूत वेदी तों बाहर निकल आया, जिसदे उप्पर अधिकार हा **अग**, ऐ
 ते उसी जोंरें-जोंरें पुकारया
 जिसदे कोल तेज हंसली ही (स्वर्ग दे मंदिर विचों निकल के 5वां सुर्गदूत), कहते हुए,
 “अपनी तेज हंसली च धकेलिये दे गुच्छे इकड़ा करो **जमीन दी बेल**, ऐ
 कीजे उदी अंगूर पूरी चाल्ली पक्की गेदे न।”
- ☞ [प्रकाशितवाक्य 14:19](#) ऐ एसओ (5वें) सुर्गदूत ने अपनी हंसली जमीन च पाई ते जमीन दी बेल कट्टी कीती,
 और उसे अंदर फेंक दिया **महान वाइनप्रेस दा आहला परमातमा दा गुस्सा**।

→ वेदी दा 6वां सुर्गदूत जिसदे उप्पर अधिकार ऐ **अग**, में मंदिर से 5वें सुर्गदूत गी दसदा ऐ
 तेज हँसुआ कन्ने स्वर्गजमीन दी बेल दे गुच्छे गी इकड़ा करने आस्तै जिसलै उंदी अंगूर होंदे न
 पूरी तरह पक्के.

- जमीन की बेल के गुच्छे वे शौं जो नशरे दो के फाद जभीन नय छोड जायेगे
 फसल कट्टा ऐ ते गुजारदा ऐ खून चूसने आली दाख दा दबाव जां परमात्मा दा गुस्सा।

- ऐयीशु आख्या "ओह दुखी होने दे बाद बेल दे फल गी होर नेई खाग ते नेई पीग ([लुका 22:18](#) ऐ)"

की वे बेल जमीन दी ही, उय्यां गै बेल दे गुच्छे दी ही **बेल दा** जमीन दे वी हना थ **एस**, ऐ
 जिन्होंने सुनेया **लोगो दा** पर कदें बी जमीनै उप्पर नेई मरी गेआ (जां कदें बी इस च नेई रे **आयीशु**) कदे गवाह नहीं
यीशु जो मरे विचों जी उठया, ते नतीजे च ओह जिंदा नेई करी सकदे ते ना गै उंदा फल नेई देई सकदे ([इंज 12:24](#) ऐ).

[जहन्ना 15:6](#) ऐ "जेकर कोई मेरे च नेई रेंदा, तां ओह शाखा दे समान सुट्टी दित्ता जंदा ऐ, ते सुक्की जंदा ऐ;
 ते मनुख इन्हें गी इकड़ा करिये अग च सुट्टी दिंदे न, ते जली जंदा ना।"

→ इस आस् ते उनेंगी शौहरे दे बाहर ते बड्डे-बड्डे दाख दा बूटे च सुट्टी दित्ता जंदा ऐ, जित् थें ओह...
 दबाया जावेगा **परमातमा दा गुस्सा** ([प्रकाशितवाक्य 14:20](#)).

→ "**बाकी कुंवारी**" परमेसरे दे गुस्से दे बड्डे-बड्डे दाख दा बूटे च सुट्टी दित्ता जाग ते उसी गै छोड़ी दित्ता जाग
 1000 साल दे अंत तक जमीना।

• बेल दा

यीशु अपने चेलें गी दसदा ऐ के (भौतिक) मंदर दी इमारतें दा इक पत्थर जेका उनेंगी दिक् खेया ऐ, उदे उप् पर सुट्टी दित्ता जाग
 (मत्ती २४:१-२ ऐ), ऐ एह उदे मूली उप्पर चढ़ाने ते जी उठने दे नेडे औने आली घड़ी दा संकेत ऐ, ते के चले
 उसी अपने पिता दे कोल जांदे होई उसी फी नेई दिखग ([जॉन 16:10](#) ऐ), ते कि इस संसार दे राजकुमार दा न्याय होवेगा
 ([जहन्ना 16:11](#) ऐ).

[लुका 22:15](#) ऐते ओह (**यीशु**) उन्हें आख्या,

में चाहन्दा ऐ के मैं दुखी होने कोला पहले तुंदे कन्ने ए फसह खाना: 1।

[लुका 22:16](#) ऐकीहके मैं तुसें गी आखना ऐं, मैं चाहन्दां **होर किश नेई खाओउसके**, जद तक परमेसरे दे राज च पूरा नेई होई जंदा.

[लुका 22:17](#) ऐउन प्याला लेईये धनवाद कित्ता ते आख्या, " ए लेई लैओ ते आपस च बंडो।

[लुका 22:18](#) ऐकीहके मैं तुन्दे कन्ने आखना ऐं, अऊ पीना नेई पीना **बेल दा फल**, दे राज तक ईश्वर आयेगा.

- ऐडब्ल्यूटोपीयीशुमतलब जदुं उन् ने ग् लाया हा, “भैं फी फसह नेई खाहना ते उंदे फल दा पीना नेई पीनाबेल दा है कि “ओह सादे कन्ने रोटी दा फसह नेई खाग” जेहड़ा ऐपरमात्मा दे लोगो (पुराने नियम), कीजे उसी दुखी होने दे बाद पानी (लोगो दा) शराब च बनाया जाग यारेमा दा (नया वसीयत दा) यानी परमात्मा दे राज च ऐ, जेड़ा परमात्मा दी शक्ति च होग।⁷⁰³मतलब चले अब उपासना न कर देगा बापूपहाड़ें च ते ना यरूशलेम चजियां प्रभूसर्ग तक ग्रहण कीता जाग ते पीओनमांके राज मेंईधर.⁷⁰⁴

- कदूघड़ी दी की मेज पर बैठने आया प्रभु दा फसह, चले दी हैसियत⁷⁰³ आहला यीशुप्रेरितें च बदली गेदे न⁷⁰⁴ कीजे उनेगी प्रचार करना ऐ प्रभु दामौतजिसदे कोल, जदू तक ओह नेई औग जिन्ना बार ओह इस रोटी गी खांदे न ते इस प्याले गी पींदे न (१करिनथियों ११:२६). उनेगी बरकत ऐ कीजे उनेगी... इकरे खांदे होई परमात्मा दे राज दी रोटी, ते बेल दे फल गी फिरी नेई पीओ (लोगो दा), पर ओह पींदे न नमां (रिमा दा) परमात्मा दे राज चा की जेयीशुते उदा पिता इक गै आं, अस जिनेगी महिमा दिती गेई ही यीशु मसीह दे द्वारा भी इक हो; इस आस् ते सच्चे उपासक आत् मा ते सच् चाई कन् ने पिता दी भजन करडना।⁷⁰⁵

+ प्रभु जीब्याह दे बाद मनुक्ख दे पुत्तर (1 हरपाजो) दे आने पर लीती गेदी ज्ञानी कुडियां (दुल्हनें) कन्ने वापस आँगना मनुख दे पुत्तर गी ग्रहण करने आस्ते तैयार ए नौकर (बुद्धिमान कुंवारी) धन्य ना प्रभु जीन सिर्फ उस थाह र पर वापस आँग जित्थें केदियें गी 2मीं बारी जेल च रक्खेआ जंदा ऐ (उसदे औने आस्ते तैयार ज्ञानी कुडियें आस्ते), बल्के 3मीं बारी (जमीं पर पिच्छें छोड़ी गेदी मूर्ख कुडियें आस्ते), तेपेश होनाफिर 4वीं बारी बी (दूए कुडियें आस्ते जेड़े परमात्मा दे गुस्से दे बड्डे दाख दाब च सुट्टी दिता जाग ते 1000 सालें दे अंत तक जमीन उप्पर गै छडी दिता जाग।)⁷⁰⁶

- खून दा बूटे (1,600 फरलांग) च निकली आया

प्रकाशितवाक्य 14:20 ते नगर दे बाहर दाख दा दबाव रौंदा होई गेआ।

ते घोड़े दे लाम तक खून निकली आया।

हजार दे अंतराल दे द्वारा⁷⁰⁷ ते छह सौ⁷⁰⁸ फरलांग दा.⁷⁰⁹

प्रकाशितवाक्य 14:20 इकएन डीवाइनप्रेस दा शहर दे बाहर रौंद दिता गेआ, तेलहदाख दारे च निकली आया, ऐ

घोड़े दी लगाम तक, हजार दे वास्ते⁷⁰⁷ ते छह सौ⁷⁰⁸ (1600 दी) फरलांग दा.⁷⁰⁹

→ दाख दे बूटे (शहर दे बाहर रौंदे होई) थमां निकले दा खून: 1600 फरलांग।

- ऐ 1,000 दी

• इक हजार⁷⁰⁷ & फरलांग दा⁷⁰⁹

- ऐडकहजार (मजबूत दाजी 5507) इक विशेषण ऐ, जिसदा इस्तेमाल नमें च दिनें ते सालें दी गिनतरी गी दस्सन आस्ते कीता जंदा ऐ वसीयत, सिवाय इसदे प्रकाशितवाक्य 14:20 जिसदा इस्तेमाल “जिस थाह र पर इक जगह जां दूरी जिस च...

दौड़ च मुकाबले होंदे हे, जिसने बाकी गी मात देईये पैह्ले लक्ष्य तगर पूज्जी गेआ, जिसगी...

ईनाम. इस वर्णन दे कोर्स ज्यादातर बड्डे ग्रीक शहरें च मिले हे, ते इस चाल्ली दे हे

ओलंपिया, 600 ग्रीक फुट दी लंबाई.”⁷⁰⁷

→ 1 फरलांग लगभग 185 मीटर ऐ: 1600 दी* 185 मीटर = लगभग 296 ऐकिलोमीटर दा.

- ऐ 600 दा

• छह सौ⁷⁰⁸

⁷⁰³वीडियो 26. “प्रभु दा फसह (नमां नियम)।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-द-लॉर्ड्स-पास-ओवर-द-नए-वसीयत/.

⁷⁰⁴वीडियो 16. “गैर-यहूदी, सारे जाति (प्रभु दे वफादार ते ज्ञानी भंडारी बनो) 10/10”।

www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ऐ।

⁷⁰⁵से केद की गई प्रकाशित 1:3 ऐ, या वीडियो 30. “कम्यूना” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ऐ।

⁷⁰⁶सेवकें दे बारे च इक अवलोकन लेई वीडियो 49, “मुक्ति दा सफर” दिक्खो।

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/49-मुक्ति-द-सफर-प्रस्तुति-सार-1-से-48/.

⁷⁰⁷फ्लॉग: लगभग 600 फुट (185 मीटर) दी जगह जां दूरी। “जी4712 - स्टेडियन - मजबूत दा ग्रीक कोश (kjv)” नीले चिड़ी

बाइबल। अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023। <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4712/kjv/tr/0-1/ऐ।>

- छह सौ (जी1811) छह () थमां बहुवचन क्रमबद्ध ऐ।ἕξ, जी 1803 ऐते सौ (ἑκατόν, जी 1540) ऐ।⁷⁰⁸

➤ पानी (लोगोस & रेमा)⁷⁰⁹

उत्पत्ति 1:1 शुरू च परमात्मा ने अंबर ते धरती पैदा कीती।

उत्पत्ति १:२ ते धरती बेरूप ते शून्य ही; ते गहरे दे चेहरे उप्पर न्हेंरा हा।

ते दी आत्मापरमातमा पानी दे चेहरे ते चली गया।

→ चूंकि पानी ही लोगो, क्या करदे

(१) यीशु समुंदर ते चलदा ते

(२) गहरे नीच दे चेहरे ते न्हेंरा सी?

(३) परमातमा दा आत्मा कौन है?

पानी & शब्द

उत्पत्ति 1:3 ऐते परमात्मा ने आख्या, “ उजाला होना^{ἦν216} ते उजाला हा।^{ἦν216} ऐ

उत्पत्ति 1:4 ऐते परमात्मा ने उजाला दिखया।^{ἦν216} के ओह भला हा, ते परमेसरे ने उजाले गी बंडूडी दित्ता।^{ἦν216} तेरे सो^{ἦν2822} ऐ

उत्पत्ति 1:5 ऐते परमात्मा ने उजाला बुलाया।^{ἦν216} दिन, ते न्हेंरे दा^{ἦν2822} उसने रात गी बुलाया।

ते शाम ते सवेंरे पैहला दिन हा।

(१जो 1:5 ऐतां एह संदेश ऐ जेड़ा असें उंदे बारे च सुने दा ऐ।

ते तुसें गी दसो जे परमात्मा उजाला ऐ।^{ἦν5457} ते उदे च कोई न्हेंरा नेई ऐ।)

→ “प्रकाश होन दे” मतलब “परमेसर दा रोशनी होवे” ते जो हेठ हेनख दा
लोदिन दा हो।

ज़ं८:१२ दीफी यीशु ने उन्दे कन्ने फिरी बोलया, “ अऊं उजाला आं।”^{ἦν5457} दुनिया दा: 1।

जेड़ा मेरे पिच्छे चलदा ऐ, ओह न्हेंरे च नेई चलग, लेकिन उसी उजाला मिलग।^{ἦν5457} जिंदगी दा.

२कुरिन्थियों ४:६ परमातमा दे वास्ते, जिन्हां ने उजाला दा हुक्म दित्ता।^{ἦν5457} तेरे च चमकने आस्ते साढ़े दिलें च चमकी गई ऐ।

ज्योति देना।^{ἦν5457} परमात्मा दी महिमा दे ज्ञान दायीशु मसीह दे चेहरे च.

→ ईश्वरयीशु मसीह दे चेहरे च साढ़े दिलें दे न्हेंरे च उदी रोशनी गी चमकने दा हुक्म दित्ता।

→ ए यीशु मसीह, मनुख दा पुत्र ऐ जेड़ा पानी (लोगोस) ते खून च आया हा (१जोह ५:६) दे वास्ते दुनिया गी जिंदगी दा रोशनी होनी।

उत्पत्ति १:६ ते परमात्मा ने आख्या, “ पानी दे बिच्च इक आकाश बनी जा।

ते पानी गी पानी च बंडी दे।

उत्पत्ति 1:7 ऐते परमात्मा ने आकाश बनाया ते आकाश दे हेठ आले पानी गी बंडूडी दित्ता

पानी से जो आकाश दे उपर थे: ते ऐसा ही होया।

उत्पत्ति १:८ ते परमात्मा गी आकाश आख्या।

ते शाम ते सवेंरे दुआ दिन हा।

→ पानी दामतैहत आकाश दा ऐलोगो दा जेड़ी यीशु ने तुंदे कन् ने गल् ल किती ही
जमीन गी.⁷¹⁰

→ पानी दा उप्पर आकाश दा ऐरेमा दा जेड़ी यीशु ने साढ़े कन् ने ग् लाया हा, जदुं ओह अजे बी हा

गलील च, जिसगी यीशु ने असेंगी ग् लाया हा के बा'द याद करचे मसीह मरे दे विचों उठदा है ते

चढ़ना अपने गी बापु, ते उंदे कोल ईश्वर (ज़ं२०:१७ ऐ), ऐ

→ “ओ आखदा हा, “ मनुख दे पुत्र गी पापी मनुखें दे हलथें च सौपना चाइदा ते ओना चाइदा

सूली पर चढ़ाया गया, ते तीसरे दिन फिर उठो. ते उसी उंदी गल्ल याद आई गई (रेमा)^{ἦν4487} ऐ

⁷⁰⁸जी1812 - हेक्साकोसिओई - मजबूत दा ग्रीक कोश (kjv)।" नीले अक्षर बाइबल। अभिगमन तिथि 20 अगस्त, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g1812/kjv/tr/0-1/> ऐ।

⁷⁰⁹वीडियो 25. “एक कड़ी कहावत (द लोगो) 1/2।” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-एक-कठिन-कहने-दे-लोगोस-देव-दे-कम्म/.

⁷¹⁰संदर्भ देना जं१५:३ दी, या वीडियो 1. “शुरुआत चा” www.therhemaofthelord.com/कोर्स1/पाठ1/ ऐ।

(लुका २४:६-८ च).

- आने दा **मनुख दा पुत्र** ते नूह दे दिन

उत्पत्ति 7:6 ते नूह छह साल दा हा^{८३३७}सौ (600 दा) साल दी उम्र जदुं पानी दा बाढ़ धरती उप्पर हा।

उत्पत्ति 7:7 ऐनूह ते अपने पुत्र, उदी घरेआली ते उंदे पुत्रों दी घरेआली बी जहाज च चली गो।
बाढ़ दे पानी दे कारण।

उत्पत्ति 7:11 ऐनूह दे जीवन दे छह सौवें (600वें) साल विच,
दूजे (2) महीने च, महीने दे सत्रहवें (17वें) दिन,
उसी दिन बड़े गहरे दे सारे फव्वारे टूटी गो।
ते सुर्ग दी खिड़कियां खुल्ली गेइयां।

उत्पत्ति 7:12 ऐ ते चालीस दिन चालीस रातें धरती उप्पर बरखा होई।

→ नूह 600 साल दा हा, जदुं ओह जहाज च चली गया, जदुं पानी दा बाढ़ धरती उप् पर हा।

→ च **2nd महीने दाते 600वें साल दे 17वें दिन** नूह दी जिंदगी दा, सारे फव्वारे बड़े गहरे टूटी गेई, ते सुर्ग दी खिड़कियां खुल्ली गेइयां, ते 40 दिन 40 रातें बरखा होई गेई।

- दे दिया कि पानी **मतेहत आकाश दा ऐलोगो दा** ते पानी गी **उप्पर आकाश दा ऐ रेमा दा**, करंट (1st) आकाश ते जमीन गी आग लाने आस्ते आरक्षित कीता जाग न्याय दा दिन ते **नाश हो जाना**^{६८४} अभक्त मनुखें दा (२पतरस ३:७), जिस च मसीह विरोधी ते...
झूठे नबी दा.

२पतरस ३:७ पर आकाश ते धरती (जमीन),^{१०९३} जो हुन,
उसी शब्द दे द्वारा (लोगो दा)^{३०५६} भंडार च रक्खे गेदे न, अग आस्ते आरक्षित कीते जंदे न
अभक्त मनुखें दे न्याय ते नाश दे दिन दे खिलाफ।^{४४४} ऐ

- ऐलोगोस & रेमा द्वारा भगवान दा फैसला (नूह दे दिनां दे समान)

• नूह दे दिनें च न्याय दी बरखा शुरू होई गेई **2nd महीने दाते 600वें साल दे 17वें दिन**, जो हिल्लर कैलेंडर च साल 1656 दी चेशवान दी 17 तारीख गी हा।

→ **लोगो दा** (वर्तमान आकाश ते जमीन) रखे जांगन ते आरक्षित कीते जांगन **अगखलाफ दिन दा**

न्याय दाते अभक्त मनुखें दा नाश. संभव ऐ जे टाइमलाइन (या तारीख) दी...

के भविष्य दे फैसले ईश्वर है रेमा (या परमातमा दा गुस्सा करके अग) जमीनी वासियां पर होई सकदा कनै-कनै नूह दे बाढ़ दी टाइमलाइन दी द्वारा **फैसला करना लोगो दा** (या द्वारा पानी) जो 2 तारीख गी शुरू होआ महीने ते 600वें साल दे 17वें दिन।

- ऐ **600वाँ दा क्रमिक संख्या** संदर्भित करदा ऐ **परमात्मा दे न्याय दा दिन** अभक्तों के लरए तनणमश रेते शैं जेड़े मनुख जमीन उप्पर रौंदे न, ते ओह गुजरी जांगन **परमातमा दा गुस्सा**.

→ इस तर्हा दा आना **मनुख दा पुत्र** नूह दे दिनां दे समान होवेगा (मत्ती 24:37 ऐ).

(प्रकाशितवाक्य 14:20 फिर से रंस्लेट कर दिता)

- नंबर दा **1,000 दी** संदर्भित करदा ऐ **बाकी कूआरियां**, जो हैं जमीन दी बेल दे **गुच्छे**, ऐ होना **लोगो दा** जबकि जमीन पर.⁷¹¹

- दी क्रमबद्ध संख्या **600 दा** संदर्भित करदा ऐ **परमात्मा दे न्याय दा दिन** जमीन दे वास्ते तय कीता वासी जो गुजरेगा **परमातमा दा गुस्सा**.⁷¹²

टीthus, “दाख दारें च जेड़ा खून निकलदा हा, ओह हा **1600 फरलांग दा**” दा अनुवाद इस चाल्ली कीता जाई सकदा ऐ:

⁷¹¹“(प्रकाशितवाक्य 14:17-20) जमीन दे बेल दे गुच्छे (परमातमा दा गुस्सा).”

⁷¹²“600 (छह सौ)” दा संदर्भ लैओ।

→ “बाकी कुंवारी (जमीन दी बेल दे गुच्छे)” जिन्हां ने...लोगो दाजमीन पर

(नंबर दा **1,000 दी**), महान बाबुल (प्रकाशित 18:4 ऐ) उंदे कोला पैह्नेन कास्ट कीता परमात्मा दे गुस्से दे बड्डे दाख दारें च (प्रकाशितवाक्य 14:19 ऐ).

- पर जेड़े सुर्ग दी आवाज़ गी मनदे हे जे “बड्डे बाबुल कोला बाहर निकलो”⁷¹³
उदे पापें च हिस्सा नेई लैना ऐ, ते इस चाल्ली उदी विपत्तियें गी नेई पाना ऐ, जेकी जमीन उप् पर पौनी ऐ परमात्मा दे गुस्से दे समें (संख्या 600 दापरमेसरे दे नू याय आसु ते), तो वे कर देंगे जमीनी स्तर पर **1000** साल दा प्रवेश.

→ इस करिए इन्हें नंबर दे रूप च संदर्भित कीता जंदा ऐ **1600 दी (1,000 + 600 दा)**.

अध्याय 15 दा

(प्रकाशित 15:1 ऐ) परमात्मा दा गुस्सा (7 आखरी विपत्तियां)

प्रकाशित 15:1 ऐते में सुर्ग च इक होर निशानी दिक्खेआ, जेहड़ा बड्डा ते अद्दुत ऐ, सत्त सुर्गदूत जिंदे उप्पर सत्त आखरी विपत्तियां न; कीजे उंदे च भरोची दी ऐ (खत्म) ^{¶5055} परमात्मा दा गुस्सा।

☞ प्रकाशित 15:1 ऐ टीतां यूहन्ना ने सुर्ग च इक होर निशानी दिक्खया, जेड़ा बड़ा बड्डा ते अद्दुत हा।
सात (7) सुर्गदूत जिंदे च सत्त (7) आखरी विपत्तियां न, उंदे च कीजे **परमात्मा दा गुस्सा** खत्म हो गया.

- **परमात्मा दा गुस्सा**
→ 144,000 (प्रकाशितवाक्य 14:1-5 ऐ) ते पवित्र संतें आस्ते 2nd रेप्चर फसल
(प्रकाशितवाक्य 14:14-16 ऐ) परमात्मा दा गुस्सा उडेलने कोला पैह्ने गै पूरा होई जंदे ना

(प्रकाशितवाक्य 15:2) अग्ग कन्ने घुलदे शीशे दे समुंदरे उप्पर खडोते दे ओवरकमर

प्रकाशितवाक्य 15:2ते में अग्ग कन्ने घुलदे शीशे दे समुंद्रे दे समान दिक्खेआ।
ते जिन्हां ने जीत (जीत) पाई ही। ^{¶3528} जानवर दे उपर, ऐ
ते उदी मूर्ति ते उदे निशान ते उदे नां दी गिनतरी उप्परा
कांच दे समुंदर उप्पर खडोते दे, परमात्मा दी वीणा लैदे होई.

☞ प्रकाशितवाक्य 15:2 इक 2nd में कुछ वेख्या पसंद ^{¶5613} **कांच दा इक समुंदर घुल-मिल गया कन्ने अग्ग: 1।**
ते जेड़े जानवर, ते ओस दी मूर्ति, ओस दी निशानी ते ओस दे नां दी गिनतरी उप्पर जीत पाई लेदे ना
खडे होकर कांच दा समुंदर, की वीणा होने ईश्वर.

⁷¹³ “प्रकाशित 18:4 ऐ बाबुल तों बाहर निकल आओ महान.”

• **टीओह विजयी होंदा ऐ** (महान संकट संत)

→ में परास्त करने वाले **प्रकाशितवाक्य 15:2** महासंकट दे संत (**प्रकाशितवाक्य 14:14-16 ऐ**) जो मारे गए जानवर दे निशान गी हासल करने थमां इन्कार करने थमां।

• **किश "पसंद" कांच दा समुंदर मिंट आग दे नाल ग्लेड**

→ दे मुताबिक **प्रकाशित 4:6 ऐ**, कांच दा समुंदर परमात्मा ते मेमने दे सिंहासन दे सामने ऐ (**प्रकाशित 5:6 ऐ**).

- पर इस करिए की जदू तकर 7 विपत्ति पूरी नेई होई जंदी (**प्रकाशित 15:8 ऐ**), ओह विजयी उस पल परमेसरे ते मेमने दे सिंहासन दे सामने खडोई सकदे ना।

→ ध्यान देयो कि **कांच दा समुंदर** में वर्णन किया गया **प्रकाशितवाक्य 15:2**, ऐ "कुछ **पसंद**" **कांच दा इक समुंदर** साथ घुल मिल गया **अग**, **तेदे तम्बू दा मंदिर स्वर्ग च गवाही दी** जदू तकर नेई खुलदा **प्रकाशित 15:5 ऐ**.

→ इस तर्ही कुछ **"पसंद" कांच दा समुंदर** साथ घुल मिल गया **अग** **प्रकाशितवाक्य 15:2** होई सकदा इक जेहा ना होवे **कांच दा समुंदर** यानी परमात्मा दे ते मेमने दे सिंहासन दे सामने ऐ **प्रकाशित 4:6 ऐ**.

- फिर क्या ऐ?

→ क्योंकि महान संकट दे संत सिय्योन पहाड़ उप्पर इंतजार करंगन, तां जे बाद च राज्य च दाखल होन

उनेंगी मारी दिता जंदा ऐ (**दान 12:12 ऐ**), समुंदर जो **"कांच दा समुंदर अग दे नाल घुल मिल गया"** होगा ज्यादातर

संभावना ऐ जे मॉट सिय्योन च होग, ऐजित्थें ज्ञानी कुंवारी (144,000) कन्ने खडोते दे **नइक मेमना** (**प्रकाशितवाक्य 14:1**).

(**प्रकाशित 15:3-4 ऐ**) मूसा दा गीत & मेमने दा गीत (व्यवस्था दे बगैर परमात्मा दी धार्मिकता प्रगट होंदी ऐ)

प्रकाशित 15:3 ऐ ते ओह परमात्मा दे सेवक मूसा दा गीत ते मेमने दा गीत गांदे ना ⁷²¹ कहते हुए, तेरे कम्म बड़े ते अद्भुत न, प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान; बस (सही) ¹³⁴² ते तेरे रस्ते सच्चे ना तू संतों दा राजा ⁴⁰

प्रकाशित 15:4 ऐ कौन तेरे डरना ऐ प्रभु (kyrios), ²⁹⁶² ते तेरे नां दी महिमा करो ? की वे सिर्फ तू ही पवित्र ऐ। सारे जाति दे वास्ते ¹⁴⁸⁴ आकर तेरे सामने आराधना करग; तेरे फैसले (धर्म) दे वास्ते ¹³⁴⁵ प्रगट कीते जांदे हन.

☞ **प्रकाशित 15:3 ऐ** ते ओह परमात्मा दे सेवक मूसा दा गीत ते गीत गांदे **नमेमने दा** (अर्नियन दा), ऐ ⁷²¹ कहते हुए:

"महानते तेरे कम्म च अद्भुत न, ऐ प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान!

धर्मी ते तूदे रस्ते सच्चे न, ऐ पवित्र संतों का राजा."

☞ **प्रकाशित 15:4 ऐ** जो ना डरे तेरे, ओनाथ (क्योरिओस), ते तेरे नाम दी महिमा करो? **चंया तू ही पवित्र हो**.

चंया सारे जाति तेरे सामने आकर पूजा करनगे, ऐ

चंया तेरी धार्मिकता प्रगट होई गेई ऐ," ऐ।

† व्यवस्था दे बगैर परमात्मा दी धार्मिकता दा प्रकटीकरण

रोम 3:21 ऐ पर हुन व्यवस्था दे बगैर परमात्मा दी धार्मिकता प्रगट होंदी ऐ, ऐ

व्यवस्था ते भविष्यवक्ताएं दे गवाही च;

रोम 3:22 ऐ धोड़ी परमात्मा दी धार्मिकता जो विश्वास दे जरिए ऐयीशू मसीह

सारें ते सारें विश्वासियें उप्पर: कीजे इस च कोई फर्क नेई ऐ।

रोम 3:23 ऐ कीहके सारे पाप किता, ते महिमा कोला घट्ट होई गेई धर;

रोम 3:24 ऐ अपने द्वारा आजादी से जायज ठहराना **कृपा करो** मुक्ति दे जरिए जो च ऐमसीह यीशू: 1।

रोम 3:25 ऐ कुसी ईश्वर अपने खून च विश्वास दे द्वारा प्रायश्चित करने आस ते तैयार किता ऐ, ऐ

अपनी धार्मिकता दा प्रचार करने आस्ते बीते हए पापें दी माफी आस ते, ऐ

के सहनशीलता दे जरिए ईश्वर;

रोम 3:26 ऐ मैं इस समें उदी धार्मिकता गी घोशित करने आस्ते आखना ऐ, तां जे ओह न्यायी (धर्मी) होऐ ¹³⁴²

ते जस्टिफायर दा (धार्मिक बनाओ) ¹³⁴⁴ जिसदे उप्पर विश्वास करवा ऐयीशू.

→ पौलुस एह घोशणा करदा ऐ के मसीह यीशु च सारे विश्वास करने आले धर्मी बनी गेदे हन, ते जेका बी मसीह च ऐ, ओह इक नमां सृष्टि ऐ, इस चाल्ली विश्वास करने आलें दे पुराने गल् लें (पाप) बीती गेदे हन (२कुरिन्थियों ५:१७) ते ओह 'धर्मी,' जो परमात्मा दे बिना शर्त प्रेम नाल मुफ्त विच दित्त जांदा है। पौलुस परमेश्वरे दी "कृपा (χάρις)" दा वर्णन करदा ऐ" (रोम 3:24 ऐ) उस कम्म दे रूप च जेहड़ा मनुकखता कर्दे बी पूरा नई करी सकदा।

(प्रकासित 15:5 ऐ) सुर्ग च गवाही दे तम्बू दा मंदर दा उद्घाटन

प्रकासित 15:5 ऐउदे बा'द में दिखया ते दिखया।

तम्बू दा मंदिरगवाही (गवाह) दा^{#3142} सुर्ग च खुल्ली गया।

☞ प्रकासित 15:5 ऐइन्हें गल्लें दे बाद में दिखया ते दिखया।

तम्बू दा मंदिर आहलास्वर्ग च गवाही दीखोला गया।

→ सुर्ग च गवाही दे तम्बू दा मंदर परम पवित्र ऐ।⁷¹⁴

(प्रकासित 15:6 ऐ) 7 प्लेग दा

प्रकासित 15:6 ऐते सत्त सुर्गदूत मंदर चों निकले।

सत्त विपत्तियें कन्ने शुद्ध ते सफेद (उज्ज्वल) कपड़े पाए दे^{#2986} लिनन दः, ऐ ते उंदे छाती सोने दी पट्टी कन्ने बनी दी ही।

☞ प्रकासित 15:6 ऐते सत्त (7) सुर्गदूत जेड़े सत्त (7) विपत्तियां कन्ने मन्दिर चों निकली आए।

शुद्ध चमकदार लिनन च कपड़े पाईये, ते सोने दी पट्टी कन्ने उंदे छाती च पट्टी बनी दी ही।

→ 7 विपत्ति वाले 7 सुर्गदूत दे मंदिर तों बाहर निकलनगेईश्वर.⁷¹⁵

(प्रकासित 15:7 ऐ) 7 सोने दी शीशी (परमात्मा दे गुस्से नाल भरी)

प्रकासित 15:7 ऐते चार जानवरां विचों इक^{#2226} र

सत्त सुर्गदूतें गी परमात्मा दे गुस्से कन्ने भरोचे दे सत्त सोने दे कटोरे दिते।

☞ प्रकासित 15:7 ऐ टीhen चार (4) जीवों में से एक ने दे दिया

सात (7) सुर्गदूत सात (7) जीपराने शीशीभरा दापरमात्मा दा गुस्सा जो सदा सदा जींदा ऐ।

→ 7 स्वर्गदूतें गी 7 सोने दी शीशी भरी दी दित्ती जंदी ऐपरमात्मा दा गुस्सा.

(प्रकासित 15:8 ऐ) कोई मंदिर च दाखल नई होई सकदा (जदू तक 7 सुर्गदूतें दी 7 विपत्तियां खत्म नई होई जदियां)

प्रकासित 15:8 ऐते मंदर परमात्मा दी महिमा ते उदी शक्ति दे धुंए कन्ने भरोची गया;

ते सत्त सुर्गदूतें दे सत्त विपत्ति पूरी होने तक कोई मंदर च नई जाई सकेआ^{#5055} र

☞ प्रकासित 15:8 ऐ ते मंदर च धुंआ भरोची गेआपरमात्मा दी महिमाते उंदे कोलाताकत.

एन० इक मंदिर च दाखल होई सकदा हा जदू तक सत्त (7) सुर्गदूतें दी सत्त (7) विपत्तियां खत्म नई होई गे।

→ जदू तक 7 विपत्तियां पूरी नई होई जांगन, तां तक कोई परमात्मा दे मंदर च (महिमा कन्ने भरोचे दा...

⁷¹⁴“(प्रकासित 21:16 ऐ) पवित्र यरूशलेम दा नाप (परमात्मा दे तम्बू दा पवित्रतम).”

⁷¹⁵“[चित्र 21-च] परमेश्वरे दा तम्बू।”

परमात्मा ते उंदी शक्ति, प्रकासित 15:5 ऐ) स्वर्ग चा⁷¹⁶

⁷¹⁶“[चित्र 21-2] सुर्ग च नमां तम्बू & परमेसरे दा मंदिरा”

- ☞ प्रकाशितवाक्य 16:5 ऐयूहन्ना ने पानी दे सुर्गदूत गी आखदे सुनेया।
तुसधर्मा, ऐनाथ(क्योरिओस), ऐ^{#2962}।
पवित्र आला, जेड़ा ऐ ते जेड़ा हा, ते आया ऐ, कीजे तुमें इमें गल्लें दा न्याय कित्ता ऐ।
- ☞ प्रकाशितवाक्य 16:6 कीजे उंणी बहा दित्ता ऐ पवित्र संत ते नबी दा खून, ऐ ते तुमें उंणी खून पीने आस्तै दित्ता ऐ जेहड़ा उंदा इनाम ऐ।
- ☞ प्रकाशित 16:7 ऐयूहन्ना ने इक होर गी वेदी चों जवाब देंदे सुनेया।
“इसदे बावजूद बी, प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान, तेरे फैसले सच्चे ते सच्चे हना।”

→ दा फैसला प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान

- ऐ3 वी शीशी दी: नदिया ते पानी दे फव्वारे खून बण गए, जो इनाम है उन जिन्हां दा पवित्र संत ते नबी दा खून बहा दे.

(प्रकाशितवाक्य 16:8-9) 4वीं शीशी (सूरज पर): आग च झुलसे दे आदमी

प्रकाशितवाक्य 16:8 चौथे सुर्गदूत ने अपनी कटोरी गी सूरज उपपर उंडेल दित्ता;
ते उसी (इं) मनुखें गी झुलसाने दी शक्ति दित्ती गई ही।^{#1722} अग।
प्रकाशित 16:9 ऐते मर्द^{#444} बड़ी गर्मी कन्ने झुलसी गे, ते परमात्मा दे नां दी निंदा कीती।
जिस च शक्ति (अधिकार) ऐ^{#1849} इमें विपत्तियें उपपर, ते उदी महिमा करने आस् ते पछताबा नेई कित्ता।

- ☞ प्रकाशितवाक्य 16:8 ते 4वें स्वर्गदूत ने अपनी शीशी उपपर उंडेल दित्ती सूरज दा, जिसदे कारण ऐ झुलसा दे मर्द^{#444} च अग।
- ☞ प्रकाशित 16:9 ऐते मनुख बड़ी गर्मी कन्ने झुलसी गे;
ते उने दे नां दी निंदा कीती ईश्वर इन विपत्तियें उपपर जिसी अधिकार ऐ;
ते ओह पछताबा नेई कित्ता ते उसी महिमा नेई कित्ता।

→ 4वीं शीशी दी: सूरज मनुखें गी बड़ी गर्मी कन्ने अग च जलांदा ऐ, पर उंणी दा नां निंदा कीती ईश्वर
ते पश्चाताप नेई कित्ता ते परमेसरे दी महिमा नेई कित्ती, जेका इमें विपत्तियें उप पर अधिकार रखदा ऐ।

(प्रकाशितवाक्य 16:10-11 ऐ) 5वीं शीशी (पशु दे सिंहासन ते): राज्य (इक दुनिया दा) न्हैरे नाल भरा हो गया

प्रकाशित 16:10 ऐते पंजमें सुर्गदूत ने अपनी कटोरी आसन (सिंहासन) उपपर उंडेल दित्ती।^{#2362} जानवर दा;
ते उदा राज न्हैरे कन्ने भरोचे दा हा; ते पीड़ दे कारण अपनी जीभें गी चीरदे रेह।
प्रकाशितवाक्य 16:11 ऐते सुर्ग दे परमात्मा दी निंदा कीती
उंदे पीड़ ते घाव दे कारण, ते अपने कर्मों (कर्मों) दा पछतावा नेई कित्ता।^{#2041} ऐ

- ☞ प्रकाशित 16:10 ऐफिर 5वें स्वर्गदूत ने अपनी शीशी (1) जानवर दे सिंहासन ते उंडेल दित्ती,
ते उदा राज न्हैरे कन्ने भरोचे दा होई गया; ते पीड़ दे कारण अपनी जीभें गी कटदे रेह।
- ☞ प्रकाशितवाक्य 16:11 ऐनिंदा कीती परमात्मा दा स्वर्ग दा
उंदे पीड़ ते घाव दे कारण उंदे कर्मों दा पछतावा नेई कित्ता।

→ 5वीं शीशी दी: 1st जानवर दा सिंहासन ते ओस दा राज न्हैरे कन्ने भरोचे दा होई गेआ। बजाए
अपने कर्मों दा पछतावा करदे होई उंणी निंदा कीती ईश्वर स्वर्ग दावर्द ते घाव दे कारण।

+ 1st जानवर दा सिंहासन इक विश्व सरकार ऐ (प्रकाशितवाक्य १८:१-२) कतां हसीह दे विरोधी गी अपने आप गी उच्चा करगा।

(प्रकाशितवाक्य 16:12-14 ऐ) 6वीं शीशी (महान नदी यूफ्रेटिस पर): पानी सूखदा ऐ & 3 अशुद्ध आत्माएं

प्रकाशित 16:12 ऐछठे सुर्गदूत ने अपनी कटोरी बड़ी फरात नदी उपपर सुट्टी दित्ती;
ते उदा पानी सुक्की गया।
कि पूरब दे राजाएं दा रस्ता (पूरब दा सूरज)^{#395} ^{#2246} हो सकदा है कि तैयार हो जावो।

- ☞ प्रकाशित 16:12 ऐफिरी 6वें सुर्गदूत ने अपनी कटोरी बड़ी फरात नदी उपपर उंटी दित्ती, ते उदा पानी सुक्की गया।

तां जे रस्ता दाराजाओं को पूरब तों सूरज दे उगने तों हो सकदा है कि तैयार हो जावे।

• **फरात दी बड्डी नदी सुक्की गई**

→ 6वीं शीशी दी: फरात दी बड्डी नदी दा पानी सुक्की जंदा ऐ।

• **अशुद्ध पानी च मछलियां**(अपवित्र आत्मा गी ग्रहण करो)⁷¹⁸

- मिस दे राजा फिरौन दी नदियें च मछलियां उनें लोके गी दस्सदियां न जिनें गी सूली च चढ़ाया गेदा **हामसी** हते कर्दे बी नेई **पश्चाताप कित्ता**(प्रकाशित 11:8 ऐ), इस करिए ओह भरपूर मेंढक पैदा करंगन (निष्कर्ष 8:3 ऐ) जां “अशुद्ध आत्माएं”।

- ऐफिरौन दी नदियें च सारी मछलियां अग दी अनन्त झील च सुट्टी दिती जांगना।

→ 6वीं शीशी जेहड़ी महान नदी यूफ्रेटिस उपर उंडेलग, ओहदे कन्ने सारें शा मती संभावना ऐ जे किस चाल्ती...

जमीन ने उस बाढ़ गी निगल लेया जेहड़ी अजगर दे मुंह थमां बाहर कड्डी गई हीचप्रकाशित 12:15 ऐ, जित अजगर ने उस जनानी पर गुस्सा कर दियाते उदे वंश दे बचे दे लोके कन्ने लड़ाई चली जाओ (प्रकाशितवाक्य 12:17 ऐ)।

३कोड़े दे समान अशुद्ध आत्माएं

प्रकाशितवाक्य 16:13 ऐते में अजगर दे मुंह च मेंढक आली त्रै अशुद्ध आत्माएं गी निकलदे दिक्खेआ।
ते जानवर दे मुंह ते झूठे नबी दे मुंह चा।

प्रकाशितवाक्य 16:14 ऐकी वे शैतानें दी आत्माएं न;^{जी1142 ऐ}चमत्कार (चिन्ह) करना,^{जी4592 ऐ}
जो धरती (जमीन) दे राजाओं दे कोल जादे ने^{जी1093 ऐ}ते सारे संसार दा,
उन्हें गी लड़ाई (युद्ध) च इकट्ठा करना^{जी4171 ऐ} सर्वशक्तिमान परमात्मा दे उस महान दिन दा।

☞ प्रकाशितवाक्य 16:13 ऐते में (यूहन्ना) अजगर दे मुंह च कोड़े दे समान त्रै (3) अशुद्ध आत्माएं गी निकलदे दिक्खेया।
ते जानवर दे मुंह ते झूठे नबी दे मुंह चा।

☞ प्रकाशितवाक्य 16:14 ऐकी वे ओह शैतानें दी आत्माएं न, ते चिन्हें दा कम्म करने आह्वे न;
जेड़े धरती ते सारे संसार दे राजाएं कोल जादे ना।
दे उस महान दिन दी लड़ाई च उनें गी इकट्ठा करने आस्तै सर्वशक्तिमान परमात्मा।

• **३अशुद्ध आत्माएं**(शैतान दी आत्माएं):

- शैतानों की आत्माएं के मुंह से निकलीं

- अजगर (जिसने अपनी शक्ति, अपना सिंहासन, ते बड्डा अधिकार 1 जानवर गी दित्ता),
- जानवर (1 जानवर दी इक विश्व सरकार), ते
- झूठा नबी (2 जानवर दा)।

- ऐ झूठा नबी(2nd) जानवर दा (संभावित रूप कन्ने राजा चार्ल्स तृतीय, या चार्ल्स फिलिप आर्थर होन

जार्ज ने दी)⁷¹⁹रोमन कैथोलिक चर्च गी लेई जंदा: “ऐ” (वेश्याएं ते घृणित चीजें दी मां
THE GROUND दा, ऐप्रकाशित 17:5 ऐ) जितपोप दा(महान वेश्या,प्रकाशित 17:1 ऐ) सिर है।

- इस गल्ल गी दिक्खेदे होई जे 2 जानवर विनाश च चली जाग (प्रकाशित 17:11 ऐ) ते “विनाश दा पुत्तर (रथिस २:३ ऐ)

झूठे नबी (प्रकाशितवाक्य 19:20), “ओह आदमी” जो 2 जानवर (जानवर दा आदमी) नू होंदा है, उच्चा है संभावना ऐ जे राजा चार्ल्स तृतीय होन जिंदा राज्याभिषेक 6 मई 2023 गी कीता गेआ हा।⁷²⁰

→ ओह निशानी कम्म करदे न ते जमीन ते सारे संसार दे राजाएं कोल जाइये उनें गी इकट्ठा करने आस्तै निकलदे न जंग दा(आर्मीडोन, प्रकाशितवाक्य 16:16 ऐ) दे उस महान दिन दा सर्वशक्तिमान परमात्मा।

⁷¹⁸“(प्रकाशितवाक्य 6:7-8 ऐ) 4वीं मुहर (एक हरे घोड़ा: मौत & नरक दा खुलना)”

⁷¹⁹“(प्रकाशितवाक्य 17:3-6) रहस्य, बेबिलोन महान, वेश्याएं ते जमीन दी घृणित चीजें दी मां”

⁷²⁰[चित्र 10-2] थमां “<The 3 Harvests & The 4 Watches>” दा संदर्भ लैओ।

- परमात्मा सर्वशक्तिमान दा बड़ा दिन, जां आरमागेडोन (प्रकाशितवाक्य 16:16 ऐ), बाद च शुरू होंदा ऐ 6वीं शीशी दाडाला जाता है.

(प्रकासित 16:15 ऐ) प्रभु ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह चोर दे रूप च औग

प्रकासित 16:15 ऐदिखो, मैं चोर बन के आना. धन्य ऐ जेड़ा जागदा ऐ ते अपने कपड़े रखदा ऐ।⁷²⁴
कहीं ओह नंगे चलै, ते उदी शर्म नई दिखदे।

प्रकासित 16:15 ऐदेखो, मैं (नाथते उद्धारकर्ता यीशु मसीह) चोर बन के आ रहा हं।

धन्य है जो देखदा है, ते अपने कपड़े (खून च डुबकी लिए दे कपड़े = लोगो दापरमातमा दा, प्रकाशितवाक्य 19:13 ऐ), कहीं ओह नां लै के चलन ते ओह उंदी शर्म नई दिखना

- यीशुअपने चेलें गी साफ सफेद कपड़े पाईए बुराई उप्पर काबू पाने आस्तै सुसज्जित कीता जां...के लोगो दा ईश्वर, तां जे सुसमाचार च मजदूरें दे नां (या परमेसरे दे लोक इस्त्राएल) जीवन दी कताब च होन ते परमात्मा दे सामने पवित्र धरती उप्पर खड़ोते दे।⁷²¹
- इस करिए अपने कपड़े गी आने तकर रखो प्रभुते उद्धारकर्ता यीशु मसीह.

<प्रभु दा दिन>

- ऐशुदिन प्रभु दे नाल=ए 1000 साल दा (१,००० दाबरे= 1 दिन दा)

रपतरस ३:८पर, प्रियतम, इस इक गल्ल कोला अनजान मत होओ,

कि इक (1)दिनसाथ है प्रभु²⁹⁶² जिवें हजार (1,000 दी)बरे, ते इक हजार (1,000 दी) साल इक (1)दिन.

- “इस गल्ल दा अज्ञानी नई बनो १दिन दा आहला प्रभु है जैसे 1000 साल दा, ते 1000 साल दा जियां १दिन दा. हालांकि कुछ मर्द इयां सोचदे ने प्रभुअपने वादे गी टालदा ऐ, प्रभुसादे आस्तै लंबे समें तकर दुखी ऐ ते चाहन्दा ऐ जे सारे पछतावे च औन ते नाश नई होना पर प्रभु दा दिन आएगा जैसे इक चोर (प्रकासित 16:15 ऐ) रात च, जिस च आकाश बड़ा शोर-शराबे कन्ने गुजरी जाग, ते मूलभूत चीजें गी गंभीर गर्मी कन्ने पिघलना पौग; जमीन ते उस च जेड़े कम न, दोनों ही जली जांगन” (रपतरस ३:८-१०).⁷²²

→ के शीशी के 7 प्लेग तकर परमातमा दा गुस्सा जभीन नय खत्म शो जाते शैं, कोई नहीं कर सकदा

परमेसरे दे मंदर च दाखल होओ (परमेसर दी महिमा ते उदी शक् ति कन् ने भरोचे दे, प्रकासित 15:5 ऐ) स्वर्ग विच (प्रकासित 15:8 ऐ).⁷²³

- पर परमेसरे दे सारे लोकें दी इक कौम (मरे दे लोकें च मसीह, ऐ 144,000 दी, ऐ ईकएन डी महासंकट संत) रेचर कीता जाग ते सुर्ग च “अलेलुया” उप्पर हस्ताक्षर करग, जदू तकर प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान राज करदा ऐ।

- गीबाकी क्आरियां जो जमीन पर 1000 साल दा प्रवेश करग: १दिन दाहोगा ए 1000 साल दा.⁷²⁴
- टीओज्ञानी लोग & मूर्ख कुंवारी ओह मसीह दे कने सुर्ग च 1000 साल राज करगा ए 1000 साल दाहोगा १दिन दा.

<(3 बाँच दा 2nd रेचर) प्रभु यीशु मसीह दा आना>

- प्रभु दा दिन 3 घड़ी च प्रभु दी वापसी, या दे आने दा संदर्भ दिंदा ऐ प्रभु यीशु मसीह गी.

→ की आवाज पर आखरी तुरही, नाश करने आले शरीर अविनाशी धारण करडन ते नश्वर अमरता गी धारण करडन, तां जे मरे दे जिंदा होई जाडन अविनाशी, ते अस इक पलक झपकदे गै बदली जागे (१ कुरिन्थियों १५:५२-५४).⁷²⁵

⁷²¹से केद की गई प्रकासित 2:7 ऐ.

⁷²²वीडियो 44. “(The logos & the rhema) आखरी दिनें च (2 पतरस 3) 1/2” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

⁷²³“प्रकासित 19:1-२) 1 अलेलुया (स्तुति: स्वर्ग च इक बड़डी भीड़).”

⁷²⁴“प्रकासित 20:2-3 ऐ) अजगर (पुराने नाग, शैतान, शैतान): 1000 सालें तकर अथाह गड़ढे च सीलबंद.”

⁷²⁵“प्रकासित 11:14 ऐ) 2 वी हाय दा अंत (परमात्मा दा रहस्य उस वेले पूरा होंदा है जिस वेले 7वीं तुरही बजने आली है).”

<साडे प्रभु यीशु मसीह वा दिन>

- जदों पवित्र संत पानी विचों निकलदे हन (लोगो दा), ऐप्रभु दी आत्मा गी पवित्र संत (फिलीप) दे शरीर (तम्बू) गी जबरन लेई लैग, तां जे उंदा नीच शरीर "उस चाल्ली दा फैशन बनी जा

गौरवशाली तनआहला "उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह(फिलिप्पी 3:20-21 ऐ)," कु'न ऐमेमने दा.⁷²⁶

→जिस कम्म दे अनुसार ओह सारे चीजें गी अपने अधीन करी सकदा ऐ (फिलिप्पी 3:21 ऐ), ते उन

शरीर च (नपुंसक दा) उमेंगी दिक्खग (जिंदे शरीर गी महिमामंडित शरीर आस्तै बनाया गेदा ऐ)होर ना(प्रितों दे काम 8:39)

जियांप्रभु यीशु मसीह गीदिखाया है (रपतरस १:१४).⁷²⁷

१कुरिन्थियों १:५ कि तुस हर गल्ल च उदे कन्ने, सारे बोलने च ते सारे ज्ञान च समृद्ध ओगे;

१कुरिन्थियों १:६ इत्थं तगर जे दी गवाही दे तीर उप्परमसीहतुहाडे विच पुष्टि कीती गई:

१कुरिन्थियों १:७ तां जे तुस कुसे बी दान च पिच्छें नेई जाओ; साडे आने दा इंतजार करदे प्रभु यीशु मसीह: 1।

१कुरिन्थियों १:८ कुन तुसें गी अन्त तक र पुख्ता करग।

तां जे साडे दिन च तुस निर्दोष ओई जाओ प्रभु यीशु मसीह.

१कुरिन्थियों १:९ ईश्वर ऐवफादार, जिंदे द्वारा तुस उदे पुत्र दे साझेदारी आस्ते सदे गेदे ओयीशु मसीहसादानाथ.

- तुसीं समृद्ध हो जांदे होयीशु मसीहहर गल्ल च, सारे बोलने च ते सारे ज्ञान च, जिंदी गवाही ऐमसीहतुहाडे विच पुष्टि कीती। इस चाल्ली तुसेंगी पबित्तर संत लोकें कन् ने विश्वास ते प्रेम करना ऐप्रभु यीशु गी, ए जानदे होई के तुसें गी अपना तम्बू टालना गै पौग, इत्थं तगर जे साडे प्रभु यीशु मसीहसानू दिखाया है। इस चाल्ली तुस साडे औने दा इंतजार करदे होई कुसे बी दान च पिच्छें नेई औगे प्रभु यीशु मसीह, ते साडे दिन बेदाग हो जाओ प्रभु यीशु मसीह.⁷²⁸

(प्रकाशितवाक्य 16:16 ऐ) आरमागेडोन दी शुरुआत (सर्वशक्तिमान परमात्मा दे महान दिन दी लड़ाई)

प्रकाशितवाक्य 16:16 ऐते उमेंगी इब्रानी भाशा च अरमागेडोन नां दे थाहर च इकट्टा करी ओड़ेया।⁷¹⁷

☞ प्रकाशितवाक्य 16:16 ऐ ते इब्रानी भाशा च बोलने आली जगह उप्पर इकट्टे होई गे।आरमागेडोन.

- आरमागेडोन: आरमागेडोन दी व्युत्पत्ति (स्ट्रॉन्ग दीजी 717) स्ट्रॉन्ग दा ऐएच2022 ऐ, मतलब पहाड़, ते स्ट्रॉन्ग दे कोलाएच4023 ऐ, मतलब मेगिदो या मेगिदोन (भीड़ दी जगह)।

→तां,आरमागेडोनजरिया "मेगिदो दा पहाड़."

(मेगिदो या मेगिदोन कनान दा प्राचीन शहर ऐ जेड़ा मनश्शो गी सौंपी गेदा ऐ ते एह...

एस्ट्रैलोन दे मैदान दे दक्षिणी रिम कर्मेल पहाड़ थमां ते नासरत थमां।)⁷²⁹

⁷²⁶"सर्वशक्तिमान प्रभु, प्रकासित 1:8 ऐ & प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान, प्रकासित 4:8 ऐ)"।


⁷²⁷वीडियो 33. "इस रथ च अपने आप गी जोड़ो" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-अपने-आप-गी-इस-रथ-च-जोड़ो/.

⁷²⁸वीडियो 45. "6. प्रायश्चित करो।" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-प्रभु-दे-भोज-6-प्रायश्चित/.

⁷²⁹"H4023 - m⁹gīdōn - मजबूत दा हिब्रू शब्दकोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 20 अप्रैल, 2023।

www.blueletterbible.org/lexicon/h4023/kjv/wlc/0-1/ऐ

* “[3] डैनियल दे 70 हफ्ते” थमां कैद कीता गेदा।



(प्रकाशितवाक्य 16:17-18 ऐ) 7वीं शीशी (हवा च): एहू कीता जंदा ऐ (जमीन पर इक शक्तिशाली & महान भूकंप)

प्रकाशितवाक्य 16:17 ऐते सतमें सुर्गदूत ने अपनी कटोरी हवा च उंडेल दित्ती;
ते सुर्ग दे मंदर च, सिंहासन थवां इक बड्डी आवाज आईहो जाता है।

प्रकाशितवाक्य 16:18 ऐते आवाजें ते गरजने ते बिजली दी झटका लगी; ते इक बड्डी भूचाल आया।
जैसा कि मनुखें दे बाद तों नहीं सी⁴⁴⁴ धरती (जमीन) उप्पर हे, ¹⁰⁹³ इन्ना ताकतवर भूचाल, ते इन्ना बड्डी।

- प्रकाशितवाक्य 16:17 ऐते फी सतमें (7) सुर्गदूत ने अपनी कटोरी हवा च उंडेल दित्ती।
ते सुअर्गे दे मंदर च, सिंहासन थवां इक बड्डी आवाज निकली गई, “हो जाता है!”
- प्रकाशितवाक्य 16:18 ऐते आवाजां ते गरजियां ते बिजली बी आईयां; ते इक बड्डी भूचाल आया।
इन्ना शक्तिशाली ते बड्डी भूचाल जिन्ना मनुखें दे बाद कर्दे नेई आया हा ⁴⁴⁴ जमीन त्रय थे.

• **मेंटी कीता जंदा ऐ**
→ 7वीं शीशी दी (हवा विच): सुर्ग दे मंदिर च इक बड्डी आवाज आखदी ऐ, “हो जाता है.”
- जमीन पर इक शक्तिशाली & बड़ा भूकंप

(प्रकाशितवाक्य 16:19-21 ऐ) बाबुल दा बड्डी शहर 3 हिस्सें च बड्डी दे ऐ (परमेसर दे गुस्से दी उग्रता दा शराब दा प्याला)

प्रकाशितवाक्य 16:19 ऐते महान नगर ते राष्ट्र दे नगर त्रै हिस्सें च बड्डी गे ¹⁴⁸⁴ डिगना: 1।
ते महान बाबुल परमात्मा दे सामने याद आया।
उसी उग्रता दे शराब दा प्याला देना ²³⁷² अपने गुस्से दा, ³⁷⁰⁹

प्रकाशितवाक्य 16:20 ते हर टापू ³⁵²⁰ फरार होई गे, ते पहाड़ नेई लम्भे।

प्रकाशितवाक्य 16:21 ऐते मनुखें उप्पर पेई गे ⁴⁴⁴ सुर्ग च इक बड्डी ओला निकली,
हर पत्थरइक प्रतिभा (talantiaios) दे वजन दे बारे च: ⁵⁰⁰⁶
ते मनुख ओले दी महामारी दे कारण परमात्मा दी निंदा कित्ता; की वे उदी महामारी बड़ी बड्डी ही।

- प्रकाशितवाक्य 16:19 ऐते बड्डी शहर (बाबुल) त्रै (3) हिस्सें च बड्डी गया, ते राष्ट्र दे शहर बी टुट्टी गे।
ते बड्डी बाबुल गी पैहें गे याद कीता जंदा हाईश्वर, ऐ
उसी अपनी उग्रता दा शराब दा प्याला देना क्रोध.
- प्रकाशितवाक्य 16:20 ते हर द्वीप भगाई गे, ते फ्हाड़े नेई मिले।
- प्रकाशितवाक्य 16:21 ऐते बड्डी-बड्डी ओले, हर इक दा वजन इधर-उधरइक टेलेंट, मनुखें उप्पर सुर्ग थमां डिग्गी गेआ,
ते उनेगी निन्दा कित्ता हाईश्वर ओले दी महामारी दे कारण कीजे ओह महामारी बड़ी बड्डी ही।

→ बाबुल दा बड्डी शहर: 3 हिस्सें च बड्डी दे ऐ (दी उग्रता दा शराब दा प्याला परमात्मा दा गुस्सा).
- द्वीप फरार हो गया

- नहाड अब न ज़ाते शैं
- सुर्ग थमां इक बड्डा ओला (एक टैलेंट दा वजन) मनुखें उप्पर पेई गोआ, ते उनेंगी परमात्मा दी निंदा कीती ओले दी प्लेग बेहद बड्डी ही।

+ टीओह प्रभु युद्ध दे दिन (आर्मगेडोन) च गैर-यहूदी जातिएं दे खलाफ लड़ग, मतलब **एयहोवा दा दिन** उस दिन दा संदर्भ दिंदा ऐ जिसलै प्रभु दे पैर जैतून दे पहाड़ उप्पर खड़ोंगन ते प्रभु परमात्मा (प्रभु यीशु मसीह) अपने सारे पवित्र संतें कन्ने औंगन ([जकरयाह 14:1-5](#)).

- [चित्र 16-क] ऐ 7 मुहरें दी

के खुलना 7 मुहरें दा	घोड़ा	टीओह मेमना 7 मुहरें गी खोलदा ऐ
1 ^{मै} (प्रकाशितवाक्य 6:1-2)	इक गोरा घोड़ा	धनुष कन्ने सफेद घोड़े उपर बैठे दे प्रभु दे दूत गी जीत हासल करने आस्ते मुकुट दिता जंदा ऐ (>> 144,000 दी 1 वी रैचर फसल, 2 वॉच, प्रकासित 7:9-17 ऐ).
2 ^ए (प्रकाशितवाक्य 6:3-4 ऐ)	ए लाल घोड़ा	लाल घोड़े ते बैठे प्रभु दे दूत नू इक वड्डी तलवार (परमातमा दा रेमा) दिता जंदा है।
3 ^आ (प्रकाशितवाक्य 6:5-6 ऐ)	इक काला घोड़ा	काले घोड़े उपर बैठे दे प्रभु दे सुगंदूत दे हल्य च इक जुआ ऐ के ओह धर्मी बनाम अधर्मिये गी नापदा ऐ।
4 ^म (प्रकाशितवाक्य 6:7-8 ऐ)	इक सेल्ला घोड़ा	“मौत” नां दे हेक स्वर्गदूत कू जमीन दे इक चौथाई (1/4) हिस्से (मृत्यु & नरक) उते अधिकार डीता वेदा।
5 ^थ (प्रकाशितवाक्य 6:9-11 ऐ)		परमात्मा दे लोगो दे गवाहें दी मारी गेदी आत्मा जेड़ी वेदी दे थल्ले ऐ, प्रभु यीशु मसीह गी पुकारदी ऐ। 5वीं मुहर दुनिया दे अंत दे 2वें निशान तों पहलां आंदी है।
6 ^थ (प्रकाशितवाक्य 6:12-17 ऐ, ऐप्रकासित 7:1-17 ऐ)		6वीं मुहर दा खुलना (मेमने दे गुस्से दा इक बड्डा दिन).
7 ^थ (प्रकासित 8:1-११:१९ ऐ)		7 स्वर्गदूत दे नाल 7 तुरही दी आवाज देना: सर्वशक्तिमान प्रभु परमातमा दा क्रोध आ गया।

- [चित्र 16-ख] ऐ ७ तुरही

	7 स्वर्गदूतें ने तुरही बजाई	७ तुरही बजाना (7वीं मुहर दा खुलना)
	(प्रकाशितवाक्य 8:1-5)	परमात्मा दे सामने 7 सुर्गदूतें गी 7 तुरही दिती जंदा ऐ
	(प्रकाशितवाक्य 8:6)	7 तुरही कन्ने 7 सुर्गदूत बजाने दी तैयारी करदे न
1 ^{मै}	1 ^{मै} तुरही बजाई (प्रकासित 8:7 ऐ)	ओले ते खून कन्ने घुलदी अग जमीन उपर सुट्टी दितां गे। 1/3 ऐदे बूट्टे गी जला दिता गेआ, ते कन्ने गे सारी हरियां घाहू बी जली गेइयां।
2 ^ए	2 ^ए तुरही बजाई (प्रकाशितवाक्य 8:8-9)	इक अग कन्ने जले दे बड्डे पहाड आंगर, समुंदरे च सुट्टी दिता गेआ। 1/3 समुंदर दाखून बनी गे, समुंदरे च प्राणी मरी गे, ते जहाज नष्ट होई गे।
3 ^आ	3 ^आ तुरही बजाई (प्रकाशितवाक्य 8:10-11)	स्वर्ग दा इक बड्डा तारा, दीपक (वर्मबुड) दी तर्ज पर जलदा ऐ, चएल पर 1/3 ऐनदियां दाते पानी दे फव्वारे।
4 ^म	4 ^म तुरही बजाई (प्रकाशितवाक्य 8:12-13)	1/3 ऐसूरज, चंद्रमा ते तारे दा न्हरे होई गेआ। 1/3 ऐ आहलादिन नेई चमकी, ते रात बी उं दे समान।
5 ^थ	5 ^थ तुरही बजाई (प्रकाशितवाक्य ९:१-१२)	(ओह 1 ^{मै} owe) इक तारा स्वर्ग थमां जमीन उपर डिगी गेआ ते अथाह गड्ढा खुल्ली गेआ। - ऐटी उस गड्ढे से टिड्डियां दी गई 5 महीने दाउनें मनुखें गी चोट पजाने आस्ते जिं दे मल्यें उपर परमात्मा दी मुहर नेई ऐ।
6 ^थ	6 ^थ तुरही बजाई (प्रकाशितवाक्य ९:१३-२१- ऐप्रकासित 11:14 ऐ)	(2 दा बकाया) टीओह ४ सुर्गदूत, जेड़े घड़ी, दिन, महीने ते साल आस्ते तैयार हे, उं गे मारने आस्ते छुड़ाई दिता गेआ 1/3 ऐ मनुखें दा.
7 ^थ	7 ^थ तुरही बजाई (प्रकासित 10:7 ऐ, ऐप्रकासित 11:15 ऐ)	टीओह परमात्मा दा रहस्य (उं दे सेवकें ते नबी गी घोशित कीता गेदा) पूरा होई जंदा ऐ (>> पहले पवित्र संतों दी 2 ^ए रैचर फसल प्रकासित 11:15-16 ऐ, ऐ 3 वी घड़ी दी)।

*पवित्र संत परमेसरे दे गुस्से च नेई, बल कि सादे प्रभु यीशु मसीह दे जरिये मुक् ति हासल करने आस् ते निवृक्त कीते गेदे हन (१थ 5:9 ऐ).

- [चित्र 16-ग] ऐ ७ शीशीआण

	7 स्वर्गदूत शीशियां उंडेले दे हन	7 शीशी (7वीं तुरही दा बजाना)
1 ^{मै}	1 ^{मै} फरिस्ता ने ढाल दिया (प्रकासित 15:7 ऐ- ऐप्रकाशितवाक्य 16:2)	(तीसरी बकाया) परमात्मा दा गुस्सा जानवर दी निशानी आले गी & उं दी मूर्ति दी पूजा कीती। - 1 ^{मै} शीशी: जमीन पर डाला - इक बुरा ते गंभीर घावा।
2 ^ए	2 ^ए शीशी डाल दी (प्रकासित 16:3 ऐ)	- ऐ 2 वी शीशी: समुंदर पर डाला - हर जिंदा आत्मा मर गई
3 ^आ	3 ^आ शीशी डाल दी (प्रकाशितवाक्य 16:4-7 ऐ)	- ऐ 3 वी शीशी: नदिया ते पानी दे फव्वारे उपर ढाल दिता - खून बनी गेआ
4 ^म	4 ^म शीशी डाल दी (प्रकाशितवाक्य 16:8)	- ऐ 4 वी शीशी: धूप पर डाला - आग च झुलसे दे आदमी
5 ^थ	5 ^थ शीशी डाल दी (प्रकाशितवाक्य 16:10-11 ऐ)	- ऐ 5 वी शीशी: जानवर दे सिंहासन उपर ढाल दिता गेआ - जानवर दा राज न्हरे कन्ने भरोचे दा होई गेआ
6 ^थ	6 ^थ शीशी डाल दी (प्रकासित 16:12 ऐ)	- ऐ 6 वी शीशी: महान नदी यूफ्रेटिस पर डाला - पानी सूख गया & 3 ^म शूद्र आत्माएं
7 ^थ	7 ^थ शीशी डाल दी (प्रकाशितवाक्य 16:17 ऐ)	- ऐ 7 वी शीशी: हवा च ढाल दिता गेआ: एह होई गेआ ऐ (इक बड्डा भूचाल, बाबुल 3 हिस्से च बंडेआ गेदा)

<परमातमा दा क्रोध & प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान दे क्रोध दा दिन>

- परमातमा दा गुस्सा: सफन्याह 1 च वर्णित क्रोध दी 7 शीशी
जिप 1:1 चशबद 1697 ऐ यहोवा (यहोवा) दा 3068 ऐ

जो गेदलिया दे पुत्र कुशी दे पुत्र सफनिया दे कोल आया।
यहूदा दे राजा अमोन दे पुत्र योशियाह दे जमाने च हिजकिया दे पुत्र अमरीया दा पुत्र।

[जिप 1:2](#) में जमीन (जमीन) तों सारी चीजां पूरी तरह भस्म कर देगा, [एच127](#) यहोवा आखदा ऐ।

[जिप 1:3](#) ऐं इंसान दा भस्म कर देगा [एच120](#) ते जानवर [एच929](#); में सुर्ग दे चिड़ियां ते समुंदरे दी मछलियां गी भस्म करी देगा।

ते दुष्टे कन्ने ठोकर खाईं;

ते में मनुख गी कड़ी देगा [एच120](#) जमीन (जमीन) तों दूर तों, [एच127](#) कहते हैं प्रभु गी।

→ यहोवा ने यहोवा (यहवा) दी रेमा बोली ⁷³⁰ सफनिया गी आख्या के ओह सारें गी पूरी चाल्ली भस्म करी ओइग
जमीन पर चीजें, ऐइक [एच120](#) इस गी 7 शीशियें गी अंदर ढालने कन्ने पूरा कीता जाग [प्रकाशितवाक्य 16:1](#)।

• बाल दे अवशेष कट जांगन

[जिप 1:4](#) ऐं यहूदा ते यरूशलेम दे सारे निवासियें उपर बी अपना हथ फैलाना ऐ;

ते में बाल दे बचे दे लोकें गी कड़ी देगा [एच1168](#) इस थां दा ते याजकें दे कन्ने केमारियें दा नां;

[जिप 1:5](#) ऐते जेके घेरें उपर सुर्ग दी सेना दी पूजा करदे न;

ते जेके परमेसरे दी भजन करदे न ते जेके प्रभु दी कसम खांदे न, ते मल्काम दी कसम खांदे न (राजा), [एच4428](#)

[जिप 1:6](#) ऐते जेके प्रभु कोलां मुडदे न;

ते जेके प्रभु गी नेई दूढदे न ते ना उदे लेई पुच्छे दे ना

→ बाल (मजबूत [एच1168](#) ऐ) दा मतलब ऐ “प्रभु” ते ओह इक बुरा प्राणी ऐ, जिसदी जगह इस्त्राएल दे पुत्र सेवा करदे हे
यहोवा उंदे परमात्मा ([न्याय ३:७](#) ऐ). प्रभु (यहोवा) बाल दे बचे दे लोकें गी कट देगा

• इस्त्राएल दे अवशेषजिसने बाल दी मूर्ति दे सामने घुटने नेई झुकाया

[रोम 11:4](#) ऐलेकन परमात्मा दा जवाब उसी के आखदा ऐ ? में अपने आप गी सात हजार (7,000 दी) पुरुष, ऐ

जेड़े बाल दी मूर्ति दे सामने घुटने नेई झुके। [जी 896](#)

[रोम 11:5](#) ऐइय यां गै इस वर्तमान समें च बी अनुग्रह दे चुने दे मताबक इक बचे दे ना

[रोम 11:6](#) ऐते जेकर अनुग्रह दे कारण ऐ, तां ए कम्में दा नेई, नेई तां अनुग्रह होर अनुग्रह नेई ऐ।

लेकन जेकर कम्में दा ऐ, तां के ओह अनुग्रह नेई रेया, नेई तां कम्म होर कम्म नेई ऐ।

[रोम 11:7](#) ऐफिरी केह? [इजराइल](#) जेड़ी चाहन्दा ऐ, उसी नेई हासल करी सकेआ;

[परइलेक्शन दा](#) [जी1589](#) हासिल कर लिया है, ते बाकी लोक अंधा होई गे

[रोम 11:8](#) ऐ(जिध्यां लिखे दा ऐ, “ परमात्मा ने उनें गी नींद दी आत्मा दित्ती ऐ।

आखें जो उन्हीं न दे खना चादहमे, ते कान जेड़े उनें गी नेई सुनन;) अज्ज तकर।

• किताब दा रेमा (सील कर दिया)

→ अज्ज तकर परमात्मा ने इस्त्राएल गी (यहूदियों) गी नींद दी आत्मा दित्ती ऐ तां जे उंदी अक्खीं नेई दिखना

ते कान नहीं सुणदे (इच विच भी [यशायाह 29:10](#) च). ओह अंधा होई गेदे न इस करी ओह पढी नेई सकदे [दी रेमा दा](#)

[कताब](#) अर्थात् [सील कर दिया](#) ([यशायाह २९:११](#) ऐ). पर चुनां (इस्त्राएल दे बचे दे) गी ओह गै मिलाग, जेका उनें गी

दूढो, जो कि “रेमा” कू सुणन कि हुंदे मसीह, मसीह कू डेखण कित्ते सी, जो हुंदे कित्ते काहनी पता सी

पिता (अब्राहम, इसहाक ते याकूब)।

→ प्रभु ([निरंकुशता दा](#), [ऐलुका 2:29](#) ऐ) दित्ता “रेमा दा” गीरब दा चुने गवाह जो खादा पीदा हा

कन्ने [यीशू मसीह](#) नासरत दामरे दे बीचा जी उठने दे बाद।

- पर बाल दे बाकी बचे दे लोक, जेड़े बाल दी मूर्ति जां मूर्ति दे सामने घुटने झुके दे हे

जानवर (666, 2019) दा [प्रकासित 13:16](#) ऐ) से कट जाएगा [यहोवा](#)।

→ जेके प्रभु दे कोल मुड के परमेसरे दे गुप्से दे सामने उसी दूढदे हेन, ओह कटे नेई हन, ते 1000 सालें च दाखल होई जाडना

⁷³⁰ शब्द क्यों समझने के लिये [एच1697](#) दा अनुवाद “रेमा” च कीता गेदा ऐ, वीडियो 6 गी दिखो, “प्रभु तुंदा परमेसरे बनी जंदा ऐ।”

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशू-इजराइल-दे-पुत्र-पीढ़ियों-बी-पुस्तक/

- प्रभु दा बड़ा दिन नेड़े ऐ(6वीं महर खुलने पर गुस्से दा दिन)

ज़िप 1:7 ऐप्रभू दे सामने चुप रहो^{एव 136} ईश्वर: 1।^{एव 3069} लेई यहोवा दा दिन ऐहथ च (निकट): 1।^{एव 7138} ऐ

लेई प्रभु गी इक बलिदान तैयार कीता ऐ, उसने अपने मेहमानें गी बोली लाया ऐ।

ज़िप 1:8 चते ओह अंदर होई जाग प्रभु दे बलिदान दे दिन, ऐ

कि मैं राजकुमारों ते राजा दे बच्चें (पुत्रों) गी सजा देगा।^{एव 1121} ऐ

ते सारे ऐसे जेके अजीब कपड़े पाए दे न.

ज़िप 1:9 च उसी दिन मैं दहलीज उप्पर कूदने आलें गी बी सजा देगा।

जेहड़े अपने मालिकें दे घरें च हिंसा ते घोखे कन्नै भरोचे दे ना

ज़िप 1:10 ऐते उस दिन होगा, आखदा ऐ प्रभु गी, कि उस तों इक पुकार दा शोर होवेगा

मछियें दा फाटक, ते दूए कोला इक हुंकार, ते फ्हाड़ियें थमां इक बड्डा टोकरा

ज़िप 1:11 ऐहे मकतेश दे रौह्ने आह्ने, हुंकार देओ, कीजे सारे बपारी लोकें गी कटया गेदा ऐ;

चांदी धारण करने आले सारे कट्टी गेदे ना

ज़िप 1:12 ऐते उस वेले मैं यरूशलेम दीयां कन्नै खोजी लैना।

ते जेड़े मनुख न उनेंगी सजा देओ

उन्दे लीड उप्पर बैठे दे हे, जेड़े अपने दिलै च आखदे न, “प्रभु भलाई नेई करग, ते ना बुराई करग।”

ज़िप 1:13 ऐइस आस ते उंदी संपत्ति लूट बनी जाग, ते उंदे घर उजाड़ होई जांगन, ते घर बी बनाई लैंगन।

लेकन उन्दे च नेई रौहना; ते अंगूर दे बाग लांदे न, लेकन उदे दा शराब नेई पीना

ज़िप 1:14 ऐ प्रभु दा बड़ा दिन नेड़े ऐ,^{एव 7138} नेड़े ऐ,^{एव 7138} ऐ

ते बड़ी जल्दी करदा ऐ, उंदी आवाज बी यहोवा दा दिन: पराक्रमी उथे कइवा पुकारगा

ज़िप 1:15 ऐओह दिन है गुस्से दा इक दिन, ऐमसीबत दा इक दिन ते अपगत, ऐबबांदी दा इक दिन ते उजाड़ होना, ऐ

न्हरे दा दिन ते उदासीनता, ऐबादल दा इक दिन ते मोटी अंधेरा, ऐ

→ के गुस्सा टीओह मेमना पर आणगा यहोवा दा बड़ा दिन.

टीप्रभु दा दिन क्रोध, संकट, संकट, उजाड़, उजाड़, न्हरे दा दिन होगा

उदासी, बादल, ते मोटे न्हरे, जेहड़े आंगन 6वीं सील दा खुलना.

- तुरही दा इक दिन (प्रभु दे गुस्से दा दिन)

ज़िप 1:16 ऐ तुरही दा इक दिन^{एव 7782} ते अलार्म (चिल्लाना)^{एव 8643} बाड़ वाले शहरों के खिलाफ, ते उच्चे बुर्जे दे खिलाफ।

ज़िप 1:17 ऐ ते मैं मनुखें उप्पर विपत्ति लाना ऐं के ओह अंधें दे समान चलना।

कीजे उनेंगी प्रभु दे खिलाफ पाप कित्ता ऐ।

ते उंदा खून धूड़ दे समान, ते उंदा मांस गोबर दे समान बगया जागा

ज़िप 1:18 ऐना उंदी चांदी ते ना उंदा सोना उन्हें गी सौंपी सकग प्रभु दे गुस्से दा दिन;

लेकन सारी धरती (धरती)^{एव 776} उंदी ईर्घ्या दी अग कन्नै भस्म होई जागा।

कीजे ओह देश (पृथ्वी) च रौहने आलें सारें गी जल्दी गै छुड़ाई देगा।^{एव 776} ऐ

→ के गुस्सा प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान (प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान है प्रभु जी ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह)⁷³¹ चाहना

आओ जदू 7 तुरही कन्ने 7 सुर्गदूत बजदे (प्रकासित 8:1-११:१९ ऐ).

- इस करिए, पैह्ने तुरही दा दिन आवै, बाड़ आले शहरें दे खिलाफ, ते खिलाफ चिल्लाना (चेतावनी)।

ऊंचे टावरें गी।

⁷³¹संदर्भ देना प्रकासित 4:8 ऐ.

(प्रकाशितवाक्य 17:1-2) महान वेश्या दा न्याय

प्रकाशित 17:1 ऐते सत्त सुर्गदूत च इक आया, जिंदे कोल सत्त कटोरे हे।^{#5357} ते मेरे कन्ने गल्लां करदे होई मिगी आख्या।
इत्ये आओ;^{#1204} में तुगी बड़ी वेश्या (वेश्या) दा न्याय दस्सना^{#4204} व
जेडा मते सारे पानी उप्पर बैठे दा ऐ।
प्रकाशितवाक्य 17:2 जिसदे नाल राजा^{#935} धरती (जमीन) दा^{#1093} व्यभिचार किता, ते
बासी (निवासी) दा^{#2730} धरती (जमीन) दा^{#1093} व
उदी व्यभिचार दे मदिरा कन्ने नशे च पाई दिता गेदा ऐ।

☞ **प्रकाशित 17:1** ऐफिरी उनें सत्त (7) सुर्गदूतें च इक सत्त (7) शीशियें च आईये यूहन्ना कन् ने गल् ल किता।
“आओ, में तुसैं गी दा न्याय दस्सना **बड़ी वेश्या** जो कई पानी उप्पर बैठदा ऐ.”

☞ **प्रकाशितवाक्य 17:2** किस दे नाल **धरती दे राजा** व्यभिचार कीता, ऐ
ते जमीन दे रोहने आलें गी उदी व्यभिचार दे मदिरा कन्ने नशे च पाई दिता।

→ 7 सुर्गदूतें गी दो रैचर फसल पूरी होने दे बाद 7 शीशी दिती गई ही (**प्रकाशित 15:5 ऐ**), ते इक
उन्दे च यूहन्ना दा आने आला न्याय दस्सेया **बड़ी वेश्या** जो कई पानी उप्पर बैठदा ऐ।

→ **बड़ी वेश्या**

- मते सारे पानी उप्पर बैठदा ऐ : अशुद्ध पानी जेहडा अशुद्ध आत्माएं गी पैदा करदा ऐ (**प्रकाशितवाक्य 16:12-14 ऐ**).
- ऐसाथ व्यभिचार किया **धरती दे राजा** जो खड़े हो गए **प्रभुते मसीह**.⁷³²
- ऐधरती दे वासी: जमीन उप्पर अधर्मी जिने दी आत्मा पीती **मसीह विरोधी**
(**१जोह ४:३**) ते जानवर दी पूजा कीती।⁷³³

(प्रकाशित 17:3 ऐ-4) इक लाल रंग दा जानवर (औरत)

प्रकाशित 17:3 ऐइस आस् ते उन् ने मिगी आत् मा च जंगल च लेई गया।^{#2048} व
ते में इक जनानी गी लाल रंग दे जानवर उप्पर बैठे दा दिक्खेआ, जेहडा निंदा करने आह्ने नांएं कन्ने भरोचे दा ऐ।
जिसदे सत्त सिर ते दस सींग होंदे ना।
प्रकाशित 17:4 ऐते जनानी सजदी (कपड़े) .^{#4016} बैंगनी ते लाल रंग च,
ते सोने ते कीमती पत्थरें ते मोतियें कन्ने सजाए दे।
अपने हत्थ च घृणित कटोरे ते अपनी व्यभिचार दी गंदगी कन्ने भरोचे दा सोने दा प्याला हा।

☞ **प्रकाशित 17:3** ऐउस बेले सुर्गदूत ने यूहन्ना गी आत्मा कन्ने जंगल च लेई गया, ते ओस ने दिखया
इक जनानी(महान वेश्या)पर बैठे **इक लाल रंग दा जानवर** (2 वी जानवर दा) जो के नामों से भरा था
निंदा करना, सात (7)सिरेंते दस (10)सींग.

☞ **प्रकाशित 17:4 ऐ टी**ओह जनानी (बड़ी वेश्या) ने कपड़े पाई लेया **काशनीतेलाल रंग दा**, ऐ
ते सोने ते कीमती पत्थरें ते मोतियें कन्ने सजाए दे।
उंदे हत्थ च घृणित चीजें ते अपनी व्यभिचार दी गंदगी कन्ने भरोचे दा सोने दा प्याला हा.

• **लाल रंग दा जानवर**

→हालांकि दा वर्णन **लाल रंग दा दरिंदा** 7 सिर ते 10 सींग होंदेमेल खांदा लग्गी सकदा ऐ
समुंदै थमां निकले दे पैह्ने जानवर ते जमीनै थमां निकले दे दूए जानवर गी,⁷³⁴ **प्रकाशितवाक्य 17:2** वर्णन करदा ऐ
राजाओं के जमीन गी कु'न महान वेश्या दे नाल व्यभिचार किता (**इक जनानी**), बनाना **ओह**
मदान निवास करने वाले अपनी व्यभिचार दी शराब कन्ने नशे च मस्त होना, जिसदा मतलब ऐ **लाल रंग दा जानवर** कु'न

⁷³²“(प्रकाशित 1:5 ऐ) यीशु मसीह: राजाएं दा शासक ते जमीन दे शासक.”

⁷³³“(प्रकाशितवाक्य 6:7-8 ऐ) 4वीं मूहर (एक हरे घोड़ा: मौत & नरक दा खुलना).”

⁷³⁴संदर्भ देना प्रकाशित 13:11 ऐ.

लेई जंदा ऐबड़ी वेश्या, ऐ⁷³⁵ऐ**2nd जानवर दासे बाहरजमीन गी**(प्रकासित 13:11 ऐ).

(प्रकासित 17:5 ऐ-6) रहस्य, बेबिलोन महान, वेश्याएं ते जमीन दी घृणित चीजें दी मां

प्रकासित 17:5 ऐउदे मत्थे उप्पर इक नां लिखे दा हा।

रहस्य, बाबुल महान,

वेश्याएं ते धरती दी घृणित चीजें दी मां (जमीन).¹⁰⁹³ ऐ

प्रकासित 17:6 ऐते में उस जनानी गी संत (पवित्र संत) दे खून कन्ने नशे च दिक्खेआ⁴⁰

ते शहीदों दे खून नाल (गवाह)³¹⁴⁴ ऐचीशु दा: 1।

ते जदुं में उसी दिक् खेया, तां अचंभित होई गेया²²⁹⁶ ऐबड़ी प्रशंसा के साथ।

प्रकासित 17:5 ऐ इकnd उदे मत्थे उप्पर इक नां लिखे दा हा,

पिरब, ऐबाबुल दाTHE GREAT दा, ऐवेश्याएं ते घृणित चीजें दी मांTHE GROUND दा.

प्रकासित 17:6 ऐ इकnd यूहन्ना ने उस जनानी गी दिक्खेआ (बड़ी वेश्या), पवित्र संत दे खून कन्ने नशे च ते

के गवाहों के खून के साथ^{शीशु}. जदुं यूहन्ना उसी दिक् खेया ते बड़ा अचंभित होई गेया।

➤ टीओह घृणित

- कहावतां (नीतिवचन 6:16-19) वर्णन करदा ऐघृणित काम आकड़े दे रूप च इक गर्व आह्नी अक्खीं आह्ना, इक झूठा जुवान, मासूम खून बहाने आले हत्थ, अधर्म दा दिल जेड़ा शांति बोलदा ऐ, पैर जेहड़े अंदर तेज होंदे न बुराई की ओर दौड़ना, इक झूठा गवाह जेड़ा झूठ बोलदा ऐ ते उनें भ्राएं च विवाद बोंदा ऐ जिंदा पिता परमात्मा ऐ (^{एलोहिम}).⁷³⁶

➤ टीओह रोमन राज्य

• दे मूताबिकप्रकासित 17:3 ऐ, ऐरोमन राज्य दा⁷³⁷ कपड़े पहनाया थाबैगनी ते लाल रंग च, सोने, कीमती पत्थर, मोती, हत्थ च सोने दा प्याला लेइवै, घृणित कम्मं ते उंदी व्यभिचार दी गंदगी कन्ने भरोचे दा।

→में वर्णनप्रकासित 17:4 ऐके कैथोलिक पादरियों द्वारा पहनने वाले लिटर्जिकल कपड़े कन्ने मेल खांदा ऐ

रोमन कैथोलिक चर्च दा.⁷³⁸

→के नेता जीरोमन कैथोलिक चर्च दा ऐ "पोप दा" जो रोम दा बिशप ऐ।

→पोप "पवित्र स्थल दी (या लैटिन च पवित्र कुर्सी)" जो की सार्वभौमिक सरकार है कैथोलिक चर्च दा.

- पवित्र स्थल "वैटिकन सिटी दा," जो सबतू छोटा स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य ऐ दुनिया में।

➤ टीओह (नमां)रोमन किंगडमआने के लिये(8वां राज दा)

• दा सिर "रोमन कैथोलिक चर्च दाचवैटिकन सीटाय" जांबड़ी वेश्या(पोप दा), 2वें जानवर दा है जो 8वें राज्य तों बाहर आ जावेगा। ओह "इक विश्व सरकार" तां जे दुनिया दी सारी राष्ट्र गी अपनी सरकारें दा नियंत्रण सौंपने आस्तैविश्व सरकार(नोट: शैतान दी योजना खान दी हैरब दाधरती पर लोक)।

→नोट:ओह छोटी सी सींग(मसीह विरोधी, दा राजानवे बाबुल दा राज्य) कि बाहर निकलेगा

7वें राज दा(दान 7:8 ऐ) 1st जानवर दा होग (प्रकाशितवाक्य 13:5-6), जिसगी बोलने दा मुंह दिता जाग

बड़डी-बड़डी गल्लां ते निदाते कन्ने गै इसदे लेई जारी रक्खने दा अधिकार (निदा) बी^{42 महीने दा}.⁷³⁹

⁷³⁵संदर्भ देनाप्रकासित 17:7 ऐ.

⁷³⁶ से कैद की गईप्रकासित 2:17 ऐ.

⁷³⁷प्राचीन बाबुल शहर दी स्थापना 2300 ई.पू.

⁷³⁸कैथोलिक पादरियें दे पहिने जाने आले लिटर्जिकल कपड़े दा ब्यौरा इंटरनेट उप्पर बड़ी आसानी कन्ने मिलदा ऐ।

⁷³⁹बराक ओबामा दी व्हाइट हाउस दी वेबसाइट ते जाओ ते बराक ओबामा ते पोप फ्रांसिस दी टिप्पणियां पढ़ो (पहचान करन लई)।

23 सितम्बर, 2015. अध्याय 13 थमां "660 (पशु दी गिनतरी)" दा बी संदर्भ लैओ।

- ऐरहस्य, बेबिलोन महान, ऐवेश्याएं ते जमीन दी घृणित चीजें दी मां (प्रकासित 17:5 ऐ)

→ जनानी (“महान वेश्या”): वेश्याओं की मां ऐरोमन कैथोलिक चर्च दा रोम च.
(बड़ी वेश्याऐ “पोप ने दी” वर्तमान च पोप फ्रांसिस, पवित्र पीठ दा सिर ऐ।)

→ पैहला जानवर (“नया बाबुल”): “इक विश्व सरकारसंयुक्त राष्ट्र दा” ऐ
जिसदा मुख्यालय अमरीका च ऐ (देश जित्थेमसीह दे विरोधी गीऐ).

→ 2 जानवर (“महान शहर”): वैटिकन सिटी दा च रोम.

(रोमन कैथोलिक चर्च दी सीट, जिसदा शासन पवित्र पीठ कन्ने होंदा ऐ, कुत्थें ऐझुठे नबी दा पैदा होंदा ऐ।)

→ 1 ते 2 जानवर (जमीन दी घृणित चीजां, प्रकासित 13:11 ऐ):

(१) ऐ. मसीह दे विरोधी समुंदर तों 1 जानवर दा: सबतू संभावित उम्मीदवार बराक हुसैन ओबामा द्वितीय ना⁷⁴⁰

(२) ऐ. झुटा नबी जमीन तों 2 जानवर दा: संभावित रूप कन्ने राजा चार्ल्स तृतीय (चार्ल्स फिलिप आर्थर जार्ज ने दी).⁷⁴¹

→ जित्थ्यां उपरली यरूशलेम (स्वर्गीय यरूशलेम) सारे विश्वासियें दी मां ऐ (गलाती 4:26 ऐ), ऐ
रोमन कैथोलिक चर्च, “वेश्याएं दी मां” सारें अविश्वासियें दी मां ऐ।

→ छोटी सी सींग (1 जानवर दा मसीह विरोधी) ते बड़ी वेश्या (2 जानवर दा पोप)
सामूहिक रूप कन्ने “महान शहर (आहला) बाबुल.”⁷⁴²

(प्रकासित 17:7 ऐ) जनानी दा रहस्य (2nd जानवर महान वेश्या गी लेई जंदा ऐ, 7 सिर ते 10 सींग)

- 2nd जानवर महान वेश्या (7 सिर ते 10 सींग) गी लेई जंदा ऐ

प्रकासित 17:7 ऐ ते सुर्गदूत ने मिगी आखया, “तू कीं हैरान होया ? मैं तुगी उस जनानी दा रहस्य दस्सना।
ते उस जानवर दा जेड़ा (सह) लेई जंदा ऐ।⁹⁴¹ ओहदी, जिसदे सत्त सिर ते दस सींग ना

☞ प्रकासित 17:7 ऐ बीut सुर्गदूत ने यूहन्ना गी आखया, “तुस कीं हैरान ओ?”

मैं तुहानूं उस जनानी दा रहस्य दस्सां (बड़ी वेश्या)
ते (2) जानवर दा जेड़ा उसी लेई जंदा ऐ (बड़ी वेश्या), ऐ
जिस च सत्त (7) सिरें ते दस (10) सींग.”

→ (2) जानवर (नवे रोमन राज्य दा), जो महान वेश्या (रोमन दे पोप) गी लेई जंदा ऐ
कैथोलिक चर्च ने दी), 7 सिर (या 7 राज्य) हन जो “दुनिया दे सारे राज्य” हन, प्रकासित 11:15 ऐ), ऐ
ते 10 सींग (या 10 राजा) या जमीन दे सारे राजा (प्रकासित 18:9 ऐ).

- (प्रकाशितवाक्य 17:8) 2nd जानवर (जो था, नहीं है, और आने वाला है)

प्रकाशितवाक्य 17:8 जिस जानवर गी तू दिक्खेया हा, ओह हा, ते नेई ऐ; ते अथाह गड्डे च चढियै नाश च चली जाग।
ते धरती (जमीन) उप्पर रौहने आले¹⁰⁹³ आश्चर्य (चमत्कार) कर देगा,²²⁹⁶ ऐ
जिदे नां जीवन दी किताब च नेई लिखे गेदे हेदुनिया दी नाँव तों ही,
जुदुं ओह उस जानवर गी दिक् खदे हन, जेका हा, ते नेई ऐ, ते अजे बी ऐ।

☞ प्रकाशितवाक्य 17:8 जानवर (2 वी जानवर, प्रकासित 17:7 ऐ) जो तुसें दिक्खेआ हा (इक बारी जिंदा हा),
पर हून जिंदा नेई ऐ, ते चढग (जिस चाल्ली बाहर और

⁷⁴⁰बराक ओबामा दी व्हाइट हाउस दी वेबसाइट ते जाओ ते बराक ओबामा ते पोप फ्रांसिस दी टिप्पणियां पढ़ो (पहचान करन लई)।

23 सितंबर, 2015 बी।

⁷⁴¹इंटरनेट पर “चार्ल्स त्रीए दा ताजपोशी” सर्च करो ते समझने ते दिखने लेई होर जानने लेई।

⁷⁴²“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दा संदर्भ लैओ।

“द न्यूरोमनकिंगडम”) अथाह गड्डे (अपोलियन, प्रकाशितवाक्य ९:११) ते नाश च चली जाओ: 1।
 ते जेडे जमीन उप्पर रोदे न,
 जिंदे नां ना लिखे होए सनजीवन दी किताब थमां दुनिया दी नीह, ऐ
 जदू ओह (2) जानवर गी दिक्खदे होई हैरान होंगन जेड़ा (इक बारी रोमन राज्य च जिंदा हा),
 ते नेई ऐ (पर अजे तकर नमें बाबुल दे राज च नेई आया ऐ)।
 पर (नमें च) आने आला ऐरोमनराज)।

(प्रकाशितवाक्य 17:8दुबारा अनुवाद कीता गेदा ऐ)

➤ 2 वी जानवर दा(प्रकाशित 17:7 ऐ) जो तुभने दे खा थारोमनराजजो कि इक बारी जिंदा हा, पर जिंदा नेई ऐ (इचनए बाबुल दाकिंगडम). अपोलियन, अथाह गड्डे दे राजा दा दूत (प्रकाशितवाक्य ९:११), अथाह गड्डे च निकली जाग ते 2 जानवर (नमें रोमन राज्य दा) ते खुलासा करदेपाप दा आदमी(मसीह दे विरोधी), ते झूठे नबी (नाश दा पुत्तर, बेलियाल दा, रकूरिन्थियों ६:१५).

हालांकि नई (रोमन) 2nd beast दा राज अजे आना बाकी ऐमें में नए (बाबुल दा)

किंगडम, नए (बाबुल दा) राज्य दा इकंद नाश च जाओ। जमीन
 निवास करने वाले, जिन्हें दे नाम नहीं लिखे गएजीवन दी किताब थमां दुनिया दी नीह, चाहना
 आश्चर्यचकित होंदे न जदू ओह 2 जानवर गी नमें (बाबुल दा) राज दे बाद
 ओहनमां (रोमन) राज्य दा.

→पर बाद चवेश्या दी(पोप दा) आग च जला दिता जंदा ऐ,ईश्वरअपने राज्य (वैटिकन शहर) गी देग
 (1st) जानवर (एक विश्व सरकार)⁷⁴³जदू तगरपरमातमा दा रेमापूरा होंदा ऐ (प्रकाशितवाक्य 17:17 ऐ).

(प्रकाशित 17:9 ऐ) 7 सिर (7 राज्य) = 7 पहाड़

- 7 सिर & 7 पहाड़ जिंदे उप्पर जनानी बैठी दी ऐ

प्रकाशित 17:9 ऐते इत्ये मन ही है³⁵⁶³ जिसदे च बुद्धि ऐ.

सत्त सिर सत्त पहाड़ न, जिस उप्पर जनानी बैठी जंदा ऐ।

☞ प्रकाशित 17:9 ऐ“इत्ये ओह मन ऐ जिस च बुद्धि ऐ।

सात (7)सिरेंसात (7)पहाड़ेंजिस परबड़ी वेश्याबैठा है.

→स्त्री (महान वेश्या) उप्पर बैठी दी ऐ7सिर होंदे ने7पहाड़ (७राज्यां दा, ऐदान 7:23 ऐ).

(प्रकाशित 17:10 ऐ) 7 विचों 5 राजा गिर गए, 6वां राजा राज करदा है, ते 7वां राजा थोड़ी जगह राज करदा है

प्रकाशित 17:10 ऐते सत्त (7) राजा न: पंज (5) डिग्गी गेदे न, ते इक (1) ऐ, ते दुआ अजे नेई आया ऐ;

ते जदू ओह ओग, तां उसी थोड़ी देर गै रौहना पौना ऐ।

☞ प्रकाशित 17:10 ऐते ओह सात (7)राजाएं(जिस उप्पर बड़ी वेश्या बैठी दी ऐ)प्रकाशित 13:1 ऐ, ऐप्रकाशित 17:9 ऐ), ऐ

पंज (५राजा) गिर गए हैं, ते इक (रोमन राज्य दा राजा) राज करदा ऐ, ऐ

ते दूजा (नवे बाबुल दा राजा) अजे तक नहीं आया.

पर जदू एह (नवे बाबुल दा राजा) आंदा ऐ, इसगी इक छोटी जेही जगह जारी रक्खनी चाहिदी.

→नोट: यूहन्ना ने प्रकाशितवाक्य दी कताब लिखी ही, जबकि नीरो ने रोम राज्य दे मझाटले दौर दे आसपास राज किता

60 दे दशक ई. दे अंत च. इस तहाँ उसने पिछले राज्य या यूनानी राज्य दे पतित राजाएँ दी गिनती कीती जो...

रोमन राज्य ने नष्ट कर दिता.

- ग्रीक राज्य दा पैहला राजासिकंदर महान ऐ।

⁷⁴³संदर्भ देनाप्रकाशित 11:15-16 ऐ.

(दान 8:21 ऐ खुरदुरा बकरी यूनान दा राजा ऐ, ते उंदी अक्खीं दे बिच्च जेहड़ा बड़ड़ा सींग ऐ
पेहला राजा.) ऐ।

- ऐ 9 राज्यां दा⁷⁴⁴

- 1 बाबुल दा
- 2 मादी-फारसी दा
- 3 ग्रीक दा
- 4 रोमन दा
- 5 वर्तमान बाबुल दा
- 6 नई बाबुल
- 7 नए रोमन दा

- ऐ 5 राजा गिर गए हैं

- (1 वां राजा) राजा जी आहलाब्रेसीई 3 वां राज्य दा (पेहला राजा सिकंदर महान, दान 8:21 ऐ)
- (द्वितीय - 5 वां राजा) टीउसने 3 राज्य दे ग्रीस दे चार राजा, जो चार राज्यें च बंडडे दा ऐ⁷⁴⁵

- ऐ 6 वें राजा (रोमन राज्य दा) राज करदा ऐ⁷⁴⁶

- (6 वां राजा) रोमें
→ रोम सारी धरती गी खाई लैगा⁷⁴⁷

- ऐ 7 वां राजा (वर्तमान बाबुल राज्य दा) अजे तक नहीं आया (प्रकाशितवाक्य 17:8)

- (7 वां राजा) वर्तमान बाबुल
→ 10 सींग दा = 10 राजा जिन्हों नू अजे तक राज नहीं मिलया (नए राज्य दा) अजें.

→ “वर्तमान बाबुल” आना हा, जदुं यूहन्ना ने प्रकाशितवाक्य दी कताब लिखी ही।

- कष्ट दा⁷⁴⁸ यूहन्ना बपतिस्मा देने आले दे दिनें थमां लेइयै अज्ज तकर (मत्ती 11:12 ऐ). अंधापन दा कुछ हद तक इस्राएल दे नाल होया (अंधता दा मतलब यहूदियों कू हे जो परमेश्वर दे लोगो कू नकारदे हेन) दे दौरान ओह वर्तमान बाबुल राज्य, ते जदुं तकर गैर-यहूदियें दा पूरा-पूरा नेई औग, तदू तकर चलदा रोह्या (रोम 11:25 ऐ), जो साडे दिन तक ऐ प्रभु यीशू मसीह.

- इस बीच, राजा ने दी आहलानवे बाबुल दा राज्य (छोटी सी सींग, ऐमसीह दे विरोधी गी) चाहना आओ, पर थोड़ी देर चली जाह्या.⁷⁴⁹

→ इस संसार दे राजकुमार शैतान दा नां बेलजबूब ऐ।

जॉन 12:31 ऐहुन इस संसार दा नू याय ऐ, हुन इस संसार दे राजे गी कडडी दिता जागा।

मत्ती 12:24 ऐलेकन फरीसियों ने ए गल्ल सुनी ते आखया।

ए आदमी शैताने गी नेई कडडदा, लेकन शैताने दे सरदार बेलजबूब दे जरिए कडडदा ऐ।

- ऐ 8 वां राजा (नवे रोमन राज्य दा) आना है (प्रकाशित 17:11 ऐ)

- (8 वां राजा) नए रोमन
→ “एक विश्व सरकार” नवे बाबुल राज्य ते नवे रोमन एच राज करेसी
राज, दानिय्येल दे 70 वें हफ्ते (या महान संकट) दे 2 आधे दौरान।

⁷⁴⁴“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दा संदर्भ लैओ।

⁷⁴⁵मिस्र च टोलेमी प्रथम, श्रेस ते एशिया माइनर च लाइसिमाकस, मैसिडोन च कैसंडर ते एशिया च सेलुकस।

⁷⁴⁶सिकंदर महान दी मौत ने हेलेनिस्टिक काल दी शुरुआत दा संकेत दिता, जिसने आधुनिक पश्चिमी गी जन्म दिता रोमन राज्य दे जरिए संस्कृति।

⁷⁴⁷संदर्भ देना दान 7:23 ऐ.

⁷⁴⁸“[3] दानिय्येल दे 70 हफ्ते” दा संदर्भ लैओ।

⁷⁴⁹वही।

(प्रकाशित 17:11 ऐ) 2nd जानवर, जो 8वां राजा है, 7 राजाओं दा है, & विनाश विच चली जांदा है

प्रकाशित 17:11 ऐते जेड़ा जानवर हा, ते जेड़ा नेई ऐ, ओह बी अठमां ऐ, ते सत्ते च ऐ, ते नाश च चली जंदा ऐ।⁷⁵⁰

☞ प्रकाशित 17:11 ऐते जानवर (दूसरा जानवर, प्रकाशितवाक्य 17:8) कि (इक बारी) हा (घायल होकर मौत दा, प्रकाशित 13:3 ऐ), ऐ तेनहीं है (नवे बाबुल दे राज विच अजे तक नहीं आया), ऐ इत्थू तगर जे ओह 8वें दा बी ऐ (राजा), ते 7 (राजां) दा है), ते नाश च चली जंदा ऐ।

→ नेई कि 8 दा⁷⁵⁰ राजा 7 राजाएं दा ऐ, ते नमें रोमन राज्य (आने आले) दा 8वां राजा होग 7 राजाएं च बी होन, कुल 8 राजा (7 राजा + 1 मसीह विरोधी)।

→ टीओह 2nd जानवर (नमां रोमन राज्य) नाश विच चली जांदा है (रथिस २:३, ऐप्रकाशितवाक्य 17:8), ते 1st जानवर & 2 जानवर दा झूठा नबीअग्न दी झील च जिंदा सुट्टी दिता जाग (प्रकाशितवाक्य 19:20)।

➤ टीओह 2nd जानवर, जो इक बारी जख्मी होई गई ही, नमें रोमन राज्य च जिंदा होई जाग।⁷⁵⁰

- अपोलियन ने दी, अथाह गड्डे दे राजा दा दूत (प्रकाशितवाक्य १:११), अथाह गड्डे च निकली जाग ते 2 जानवर (नमें रोमन राज्य) दे जरिए कम्म करना) ते खुलासा करदे पाप दा आदमी (मसीह दे विरोधी), ऐ ते झूठे नबीनाश दा पुत्र (बिलियाल दा, रकरिन्थियों ६:१५), ते 2nd जानवर अंदर चली जाह्य नाश हो जाना।⁷⁵¹

- ऐमसीह दे विरोधी अपने आप गी उन सारें कोला बी उच्चा करग, जिसी परमात्मा आखदे नाइक 2nd ओह जिय्यां परमात्मा दे मंदिर च बैठे दा ऐ परमात्मा, ते जमीन वासी लोकें दी पूजा कीती जा, अपने आप गी इस चाल्ली दस्सदे होई ईश्वर (रथिस २:३-४ च, ऐप्रकाशित 17:11 ऐ)।⁷⁵²

रथिस २:३ कोई तुसें गी कुसै बी चाल्ली धोखा नेई दे, कीजे ओह दिन नेई औगा।

सिवाय उथे इक गिरना आना (धर्मत्याग करना)⁷⁵³ पैहला, ऐ

ते किमाहन⁷⁵⁴ आहला पापप्रगट हो जाओ, ऐनाश दा पुत्र,⁷⁵⁵

रथिस २:४ जेड़ा विरोध करदा ऐ ते अपने आप गी सारें कोलां बड़डा करदा ऐईश्वर, या जिसदी पूजा कीती जंदा ऐ;

तां जे परमात्मा दे समान परमात्मा दे मन्दिर च बैठी दी ऐ ते अपने आप गी परमात्मा ऐ।

→ न्याय दा दिन धर्मत्याग ते प्रगट होने दे बाद औंदा ऐपाप दा आदमी (मसीह दे विरोधी), ऐनाश दा पुत्र (झूठा नबी)।

† लोगो दा भंडार च रक्खे जंदा न ते इसदे लेई आरक्षित कीते जंदा न अग्न खलाफन्याए दे दिन तेनाश हो जाना⁷⁵⁶ अभक्त मनुखें दा (२पतरस ३:७)।

→ पर जेकर तुंदा कम्म टिकदा रौहग तां तुसें गी इनाम मिलग यीश मसीह, ऐलोगो दा।⁷⁵³

(“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” तां कैद कीता गेदा)⁷⁵⁴


⁷⁵⁰वही।

⁷⁵¹“रहस्य, बाबुल महान, वेश्याएं ते जमीन दी धूणित चीजें दी मां (प्रकाशितवाक्य 17:3-6).”

⁷⁵²“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दा संदर्भ लैओ।

⁷⁵³वीडियो 44. “शास्त्र दी भविष्यवाणी (2 पतरस 1)” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-नेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

⁷⁵⁴“[चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर” दा संदर्भ लैओ।



(प्रकाशितवाक्य 17:12-13 ऐ) 10 राजां गी अजे तगर कोई राज नेई मिलेआ, पर 1 घँटे तगर राजा दे तौर उपपर अधिकार हासल कीता

प्रकासित 17:12 ऐते जेडे दस सींग तू दिखे हे, ओह दस राजा न, जिन्हें गी अजे तकर कोई राज नेई मिलेया; पर सत्ता (अधिकार) पाओ¹⁸⁴⁹ जानवर दे कन्ने इक घंटे राजा दे रूप चा।

☞ प्रकासित 17:12 ऐ टीओह दस (10)सींगजो यूहन्ना ने दस (10)राजाएँजिन्हें गी अजे तकर कोई राज नेई मिलेया। लेकन उमेंगी इक (1)घँटा(1st) जानवर दे नाला।

- दी 10सींग(10) दाराजाएँ)
 - 1st जानवर (जो समुंदर तों उड़ेगा) दे 7 सिर (7 राज्य), 10 सींग (10 राजा), ते...
 - 10 मुकूट (10 सींग दे)(प्रकासित 13:1-3 ऐ)।

→10 राजा नवे रोमन राज्य (दान 7:24 ऐ), इस तयह उन्हें न राज्य अभी तक। पर बिना राज दे 10 राजाएँ गी, राजा दे तौर उपपर अधिकार हासल होई गेआ ऐ? घण्टे दाकन्ने 1st beast (संयुक्त राष्ट्र दी इक विश्व सरकार,दान 7:24 ऐ)।

+ संदर्भ देनाप्रकाशितवाक्य १८:१०-२०दे बारे च ब्यौरे लेई "१ घण्टे दा"।

- 10 राजाओं ने अपनी शक्ति और अधिकार 1 जानवर को दे दिया

प्रकाशितवाक्य 17:13 ऐइन्हां दा इक मन (जजमेंट) है,¹¹⁰⁶ ऐते अपनी शक्ति दे देंगे¹⁴¹¹ ऐते ताकत (अधिकार)¹⁸⁴⁹ जानवर गी।

☞ प्रकाशितवाक्य 17:13 ऐइन (10 राजा) दा इक मन (1 जानवर दे नाल), ते ओह अपनी शक्ति ते अधिकार (1st) जानवर गी देई देडना।

→10 राजा अपनी शक्ति ते अधिकार 1 जानवर गी देंगे ते मेमने (arnion) कन्ने लड़ाई करंगन⁷²¹ ऐ (प्रकाशितवाक्य 17:14 ऐ)।

(प्रकाशितवाक्य 17:14 ऐ) 10 राजा 1 जानवर दे कन्ने मेमने (प्रभुएं दा प्रभु, ते राजाएं दा राजा) कन्ने लड़ाई करंगन)

प्रकाशितवाक्य 17:14 ऐ मेमने (अर्नियन) कन्ने लड़ाई करंगन, ^{श्री721 ऐ}

ते मेमने (अर्नियन) ^{श्री721 ऐ} उंदे उप्पर विजय पागा

कीजे ओह प्रभु ऐ (क्योरिओस) ^{श्री2962 ऐ} प्रभुओं दा (क्योरिओस), ^{श्री2962 ऐ} ते राजा ^{श्री935 ऐ} राजाओं दा: 1। ^{श्री935 ऐ}

ते जेके उदे कन्ने न, उन्हें गी सदेआ जंदा ऐ, ते चुने गेदे ना ^{श्री1588 ऐ} ते वफादार। ^{श्री4103 ऐ}

प्रकाशितवाक्य 17:14 ऐ इनके साथ जंग कर देंगे **मेमने दा** (अर्नियन दा), ऐ ^{श्री721 ऐ} ते **दीमेमने दा** (अर्नियन दा) ^{श्री721 ऐ} उन्हें पर काबू पा देगा,

कीजे ओह गै ऐ **नाथ** (क्योरिओस) ^{श्री2962 ऐ} आहला **लॉर्ड्स जी** (क्योरिओस), ^{श्री2962 ऐ} ते **राजा आहलाराजाएं**;

ते जेडे उदे कन्ने न, उमेंगी बुलाया जंदा ऐ **चुने**, **तेवफादार**.

• प्रभुओं दा स्वामी, ते राजाओं दा राजा = **मेमने दा** (अर्नियन दा) ^{श्री721 ऐ}

→ जो साथ है **मेमने दा** आखदे न **चुने** (महान कष्ट संत, **मार्च 13:20** दी), **तेवफादार**.

→ (1st) जानवर दे नाल 10 राजा लड़नगे **मेमने दा**, पर **ओह** उन पर काबू पा देगा।

(प्रकाशित 17:15 ऐ) वेश्या बैठे दे पानी (लोग, भीड़, राष्ट्र, & भाषा)

प्रकाशित 17:15 ऐ ते उन मीगी आखया, “ ओह पानी जो तू दिखेया, जिल्ये वेश्या (वेश्या) ^{श्री4204 ऐ} बैठे दा, ऐ

लोक होंदे न, ^{श्री2992 ऐ} ते भीड़, ^{श्री3793 ऐ} ते राष्ट्र, ^{श्री1484 ऐ} ते जीभों ^{श्री1100 ऐ} नं

प्रकाशित 17:15 ऐ फिरी उन यूहन्ना गी आखया।

पानी दाजो तुभने दे खा, कशा वेश्या दी बैठा है, लोक, भीड़, राष्ट्र ते भाषाएं ना

→ जिल्ये वेश्या बैठी दी ऐ, ओह पानी दुनिया दे लोक (लोक, भीड़, जाति, ते भाषाएं) ना

→ संसार दे लोकें, भीड़, जाति ते भाषाएं दा मतलब सारे गैर-यहूदी जातियें गी ऐ।⁷⁵⁵

(प्रकाशितवाक्य 17:16 ऐ) (1st) जानवर पर 10 सींगें वेश्या गी जला दित्ता

प्रकाशितवाक्य 17:16 ऐ ते जेडे दस सींग तू जानवर उप्पर दिक्खे हे, ओह वेश्या (वेश्या) कन्ने नफरत करंगन। ^{श्री4204 ऐ}

ते उसी उजाड़ ते नंगी बनाई देग, ते ओस दा मांस खग ते उसी जला देग (ई) ^{श्री1722 ऐ} अग्ग।

प्रकाशितवाक्य 17:16 ऐ इकफन डी दस सींग (10 राजा) जिस पर यूहन्ना ने दिक्खे **आजानवर गी**, वेश्या से नफरत करगे,

ते उसी उजाड़ ते नंगी करी देग, ते उदा मांस खाइवै उसी अग्ग च सुट्टी देग।

→ (1st) जानवर दे 10 राजा वेश्या (पोप, आध्यात्मिक वेश्या) कन्ने नफरत करंगन, इस करी ओह जली जांगन उसे आग में ऊपरा

(प्रकाशितवाक्य 17:17 ऐ) (1) जानवर लोकें, भीड़, राष्ट्र, ते भाषाएं दा राज्य लेई जंदा ऐ

प्रकाशितवाक्य 17:17 ऐ क्योंकि परमात्मा ने उंदे दिलें च पूरा करने (करने) लेई रखे दा ऐ। ^{श्री4160 ऐ} उसी दी मर्जी (न्याय), ऐ ^{श्री1106 ऐ}

ते सहमत होना (इक फैसला करना), ^{श्री4160 ऐ} ^{श्री3391 ऐ} ^{श्री1106 ऐ}

ते उंदा राज जानवर गी देई ओइना, जदू तकर जे शब्द (रिमा) नेई ^{श्री4487 ऐ} परमातमा दापूरा हो जावेगा। ^{श्री5055 ऐ}

प्रकाशितवाक्य 17:17 ऐ चंजाईश्वर उसी उंदे दिलें च पाई दित्ता ऐ के ओह उसी फैसला करन, ऐ

ते अपने राज गी जानवर गी देईये इक न्याय करन, जदू तकर **रेमा दा आहलाईश्वर** पूरा होंदे न.

→ वेश्या गी आग च फूकने दे बाद परमात्मा उसी राज्य (वैटिकन शहर) (1st) जानवर (इक) गी देग

⁷⁵⁵वीडियो 16. “गैर-यहूदी, सारे जाति (फौलस ते पतरस दी प्रेरितता) 3/10” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

विश्व सरकार⁷⁵⁶ जदू तगर **परमातमा दा रेमापूरा** होंदा ऐ.

→ जनानी (वेश्या) गी 1 जानवर क्यो नही ढोया जांदा?

- 2 जानवर, जो “नमे रोमन राज्य” दा है, रोमन कैथोलिक दे मुख्यालय दा है चर्च, जित्थे वेश्या (पोप) ऐ। इस वेश्या (पोप) कनै नफरत होंदी ऐ ते 10एं आसेआ अग च मारी दिती जंदी ऐ राजा ([प्रकाशितवाक्य 17:16 ऐ](#)).

- ऐनए रोमन राज्य, जिस पर वेश्या बैठी ([प्रकाशित 17:15 ऐ](#)), तक 1st जानवर गी दिता जाग **परमातमा दा रेमापूरा** होंदा ऐ ([प्रकाशितवाक्य 17:17 ऐ](#)), जां जदू तकर राज गी सोंपेआ नेई जंदा **परमातमा दे लोकउंदे आस्ते सनातन सम्पत्ति** ([उत्पत्ति 17:3-8](#)).

[\(प्रकाशितवाक्य 17:18 ऐ\)](#) नारी (बड़ी वेश्या) = महान शहर

[प्रकाशितवाक्य 17:18 ऐ](#) ते जिस जनानी गी तू दिखया हा, ओह बड़ा शहर ऐ।

जो राज करदा है (राज्य है) ^{कै2192 कै932} धरती (जमीन) दे राजाएं उप्पर. ^{कै1093 ऐ}

☞ [प्रकाशितवाक्य 17:18 ऐ](#) ते जनानी (**बड़ी वेश्या**, ऐ [प्रकाशित 17:1 ऐ](#)) जिसगी तुसें (यूहन्ना) दिक्खेआ **हामहान शहर**, ऐ जिसदे जमीन दे राजाएं उप्पर राज ऐ।

→ जनानी (रोमन कैथोलिक चर्च दी महान वेश्या, वेश्याओं दी मां) पोप हे जो हे पवित्र पीठ दा सिरा

- महान वेश्या (पोप, रोमन कैथोलिक चर्च दा प्रधान) महान शहर (द...

वैटिकन सिटी) जित्थे रोमन कैथोलिक चर्च दी सीट ऐ, ते 2 जानवर या झूठा नबी उठेगा.

- महान वेश्या (पोप) दा राज हा ते ओह सारे गैर-यहूदी राष्ट्र (लोक, भीड़, राष्ट्र, ते भाषाएं, [प्रकाशित 17:15 ऐ](#)) पर उसने अपना राज 1 जानवर कोला खोई लेया हा जेड़ा वन वर्ल्ड पर राज करदा ऐ **सरकार**, जो जमीन दे राजा (10 मुकुट या अधिकार वाले 10 राजा) ने अपने... सत्ता ते अधिकार गी।

[\(प्रकाशितवाक्य 17:18 ऐ अनुवाद कीता\)](#)

→ वैटिकन सिटी च मुख्यालय आह्ने रोमन कैथोलिक चर्च दी प्रधान महिला (पोप),

ओह बड़ा शहर ऐ जेड़ा जमीन दे राजाएं उप्पर राज रखदा ऐ, ते सारे गैर-यहूदी जातिएं उप्पर राज करदा ऐ।

- पर जनानी अपना राज उस 1 जानवर कोला खो देग जेड़ा “एक विश्व सरकार” (द...

नए बाबूल राज्य), जिसगी 10 राजाएं अपनी शक्ति ते अधिकार दिते ना।

(प्रकाशितवाक्य १८:१-२) बाबुल दा पतन महान

प्रकासित 18:1 ऐते इनें गल्लें दे बाद मैं इक होर सुर्गदूत गी सुर्ग थमां उतरदे दिक्खेआ, जिसदे कोल बड़ी शक्ति ही; ^{¶1849}

ते धरती (जमीन) ^{¶1093} हल्की हो गई (प्रकाश दे) ^{¶5461} (दे) दे नाल ^{¶1537} उसी दी महिमा।

प्रकासित 18:2 ऐते उन जोरदार आवाज कन्ने चिल्लाया, “बड़डा बाबुल डिगी गेदा ऐ, पतित होई गेदा ऐ।

ते शैतानें दा आवास बनी गेदा ऐ, ^{¶1142} ते होल्ड (जेल) ^{¶5438} हर गंदे (अशुद्ध) दा ^{¶169} रह,

ते इक पिंजरे(जेल) ^{¶5438} हर अशुद्ध ते घृणित पंछी (मुर्गी) दा ^{¶3732}

☞ **प्रकासित 18:1** ऐ इक इनें गल्लें दे बाद यूहन्ना ने इक होर सुर्गदूत गी सुर्ग थमां उतरदे दिक्खेआ।

ते जमीन उदी महिमःा कन्ने रोशन होई गई।

☞ **प्रकासित 18:2** ऐ इक ओह बड़ी आवाज च जोरें कन्ने चिल्लाया।

“**बाबुल महान** गिरा है, गिर गया है, ते दा आवास बनी गेदा ऐ **शैतान**, ऐ

सारे अशुद्ध आत्मा आस्ते जेल, ते सारे अशुद्ध ते घृणित मुर्गियें आस्ते जेला।

- **बाबुल:** 111 जानवर (नया बाबुल) दा इक विश्व सरकार दा राजा) दी बड़ी संभावना होग बराक ओबामा ने दी. ⁷⁵⁷
- **महानशहर:** वैटिकन शहर च रोमन कैथोलिक चर्च दी सीट, जित्थें झूठा नबी (राजा चार्ल्स तृतीय) ⁷⁵⁸ 2nd जानवर दा उठदा है।
- **महानवेश्या:** पोप (महान वेश्या, वर्तमान च पोप फ्रांसिस) रोमन दी पवित्र पीठ दा सिर ऐ कैथोलिक चर्च (वेश्याओं दी मां).

(**प्रकासित 18:2** ऐ अनुवाद कीता)

→ 1 जानवर दी इक विश्व सरकार दा राजा (बाबुल दा राजा बराक ओबामा), ते 2...

जानवर दा झूठा भविष्यवक्ता (राजा चार्ल्स तृतीय) वैटिकन शहर दा पोप (या पोप फ्रांसिस) द्वारा शासित जो

रोमन कैथोलिक चर्च दी पवित्र पीठ दा सिर ऐ (वेश्याएं दी मां), कुल मिलाइयै न

“**बाबुल महान**,” शैतानें दा आवास, ते सारे अशुद्ध ते नफरत करने आले मुर्गियें आस्ते जेला।

(**प्रकासित 18:3** ऐ) सारे जाति, राजा ते जमीन दे बपारी उदी व्यभिचार दे गुस्से दी शराब पी चुके न

प्रकासित 18:3 ऐ(उस) दे वास्ते ^{¶3754} सारे राष्ट्र (बहुवचन रूप) ^{¶1484} उदी व्यभिचार दे गुस्से दी शराब पीती ऐ।

ते धरती (जमीन) दे राजा ^{¶1093} उदे कन्ने व्यभिचार कित्ता,

ते बपारी वी ^{¶1713} धरती दा (जमीन दा) ^{¶1093} भोम अमीर होंदे न ^{¶4147}

प्रचुरता (शक्ति) दे जरिए ^{¶1411} उसी स्वादिष्ट चीजें (अत्यधिक ताकत, विलासिता) दा ^{¶4764}

☞ **प्रकासित 18:3** ऐकी सारी जातियां उदी व्यभिचार दे गुस्से दी शराब पीती ना

धरती दे राजा उदे कन्ने व्यभिचार कित्ता ऐ, ऐ

ते **बपारी गीजमीन** दा उवकी अचधक आलीशान की ताकत के जरिए अमीर शो गमे शौं।

+ **बपारी लोग**

स्वर्ग दा राजखेतर (या दुनिया च छिपे दे खजाने दे समान ऐ, **मत्ती 13:44** ऐ), जो अच्छे बीज दा फल है (**रमा दा**) जो मूल रूप च खेतर च बोया गेदा हा (**परमातमा दे**

लोगो) मनुख दे पुत्र दे द्वारा, जो खुद ही है **लोगो दा** (**मत्ती 13:24** ऐ). पर सिर्फ आज्ञाकारी विश्वासी गै सुर्ग दे राज दा अनमोल खजाना दूढे न (**रमा दा**) मरने

करके **लोगो दा उनमें** (**मनुख दा पुत्र**), **अदूचढेआ** (**कनैमसीह**) दे फल विच उगना **परमातमा दे लोगो** (**रमा दा**). ⁷⁵⁹

⁷⁵⁷“(प्रकासित 13:18 ऐ) ६६६ (पशु वी गिनती गिन, जो किस े मनुख वी गिनती है).”

⁷⁵⁸“(प्रकाशितवाक्य 17:3-6) रहस्य, बेबिलोन महान, वेश्याएं ते जमीन वी घृणित चीजें दी मां.”

⁷⁵⁹से “कणक” दा संदर्भ लैओप्रकासित 6:6 ऐ.

इक बपारी(मती 13:45 ऐ) “आज्ञाकारी विश्वासी” दा संदर्भ दिंदा ऐ कीजे ओह इस कीमती खजाने (या अच्छे मोती) गी तुप्पदा ऐ जेड़ा रेमा ऐ। उल्टा, जमीन दे बपारी “आज्ञाकारी विश्वासियें” दा संदर्भ दिंदा न जेड़ा: जमीन दे आलीशान माल (पैसे) दे खजाने दी तलाश ते प्यार करदे न जेड़े कैसर (या बाबुल, [मार्च 12:17 ऐ](#)).

→लेकिन जमीन दे बपारी जमीन दे पैसे दी तलाश करदे हे, जेड़ा बाबुल दा जड़ ऐ

सारी बुराई: “लेईपैसे दा प्यारऐसारी बुराई दी जड़: जिसदे बाद किश लोकें दी लालसा होंदी ही, तां अने गलती कीती ऐ विश्वास से, ते कई दुखां नाल अपने आप नू छेद दिता” ([1ती 6:10 ऐ](#)).

[\(प्रकासित 18:4 ऐ\)](#) बाबुल तों बाहर निकल आओ महान

[प्रकासित 18:4 ऐ](#) ऐते में सुर्ग थवां इक होर आवाज सुनी।

हे मेरे लोक, उदे चों निकलो, तां जे तुस हिस्सा नेई बनो⁴⁷⁹⁰ उदे पापें दे बारे च, ते तुस उदे विपत्तियें कोलां नेई पाओ।

☞ [प्रकासित 18:4 ऐ](#) इकंद में (यूहन्ना) सुर्ग थवां इक होर आवाज सुनी।

“उसदे कोला बाहर निकलो (“[बाबुल महान](#)” ([प्रकासित 18:2 ऐ](#)), ऐमेरे लोक, ऐ तां जे तुस उदे पापें च हिस्सा नेई बनो ते उदे विपत्तियें गी नेई पागे”

[\(प्रकासित 18:4 ऐ\)](#)दुबारा अनुवाद कीता गेआ

→के धोखे से बाहर आओ [बाबुल महान](#), जो कि वन वर्ल्ड सरकार दी

संयुक्त राष्ट्र (1st जानवर दा) जिसने दा राज जीत लिया [बड़ी वेश्या](#) (रोमन दा

वैटिकन शहर च कैथोलिक चर्च, या [महान शहर](#)), जिस थमां 2 जानवर ([झूठे नबी दा](#))

से बाहर आ गया [जमीन गी चमेमने दा कपड़े](#) (परमातमा दे लोकें गी धोखा देने आस्तै) ते ऐसे बोलेया [इक अजगरगी](#)

1st जानवर दे सारे अधिकार दा प्रयोग करो ([इक विश्व सरकार](#)), जिसदे कारण सारे जमीनी निवासी...

[पूजा](#) 1st जानवर ([इक विश्व सरकार](#)), ऐ⁷⁶⁰ जो अगुवाई करदा है [बाबुल महान](#) (जिस गी 10

राजाएं अपनी शक्ति ते अधिकार 1st जानवर गी देई दिते न) दे खिलाफ जंग बनाना [मेमने दा](#)

[\(प्रकाशितवाक्य 17:14 ऐ\)](#).⁷⁶¹

[\(प्रकाशितवाक्य १८:५-८\)](#) बाबुल दे पापें दा न्याय प्रभु परमात्मा करदा ऐ

[प्रकासित 18:5 ऐ](#) की वे उदे पाप सुर्ग तकर पुज्जी गेदे न, ते परमात्मा उदे पापें गी याद किता ऐ।

[प्रकासित 18:6 ऐ](#) ऐइनाम (भुगतान)⁵⁹¹ उसी इनाम (भुगतान) दे रूप च बी⁵⁹¹ तुस, ते उदे कर्मों दे मताबक उसी दोगुना करो।

जिस प्याले गी ओह भरे दा ऐ, उसी दोगुना भरो।

[प्रकासित 18:7 ऐ](#) ऐकिन्ना अपनी महिमा कीती ऐ, ते स्वादिष्ट (आलीशान) जींदी ऐ,⁴⁷⁶³

इन्ना तड़प ते दुख उसी देओ।

कीजे ओह अपने मन च आखदी ऐ, “में रानी बैठी दी ऐं, ते कोई विधवा नेई ऐं, ते कोई दुख नेई दिक्खना।”

[प्रकासित 18:8 ऐ](#) ऐइस करिए उदी विपत्तियां इक दिन च, मौत ते शोक (दुख) औगना³⁹⁹⁷ ते अकाल ते अकाल;

ते ओह अग कन् ने पूरी चाल्ली जली जाग, कीजे मजबूत (शक्तिशाली)²⁴⁷⁸ उसी न्याय करने आला प्रभु परमात्मा ऐ।

☞ [प्रकासित 18:5 ऐ](#) ते पाप (बड़डे बाबुल दे) सुर्ग तकर पुज्जी गेदे न ते...[ईश्वर ऐयाद आया](#) उसी अधर्म.

☞ [प्रकासित 18:6 ऐ](#) [पीअय उसकी पीठ](#) उसी तरह जिवें उसने भुगतान कीता है, ते [उसी दोगुना वापस देना](#) उदे कर्मों दे मताबक;

[प्याले में](#) जो उसने भरी है, उसे दोगुना भर दे।

☞ [प्रकासित 18:7 ऐ](#) इकंS ज्यादा उसने अपने आप गी महिमामंडित कीता ते आलीशान तरीके कन्ने जीया, उसी इन्ना तड़प ते दुख देओ;³⁹⁹⁷

कीजे ओह अपने मन च ग् लांदी ऐ, 'में रानी दे रूप च बैठी दी ऐं, ते कोई विधवा नेई ऐं, ते दुख नेई दिक् खना।'

☞ [प्रकासित 18:8 ऐ](#) ऐइस करिए उदी विपत्तियां इक (1) दिन: मौत, दुख, ते अकाल।

ते ओह अग च पूरी चाल्ली जली जाह्य, कीजे पराक्रमी ऐ [प्रभु परमात्मा](#) जो उसदा न्याय करदा ऐ

• ([ईश्वर याद करदा ऐ](#) बाबुल दे अधर्म)

⁷⁶⁰“[चित्र 13-3] दानिय्येल ते प्रकाशितवाक्य च जानवर,” [प्रकासित 13:11-12 ऐ](#).

⁷⁶¹“रहस्य, बाबुल महान, वेश्याएं: ते जमीन दी घृणित चीजें दी मां ([प्रकाशितवाक्य 17:3-6](#)).”

- **1/10** ऐजू दे आटे दे आटे दे इक एफाह दामे नापया गया प्रकासित 6:6 ऐअधर्म गी लाने आस्तै इक प्रसाद आस्तै हा याद उस वक्त जब 3 सील खोली गई

- **(ईश्वर वापसी करता ऐ)** अपने कर्म आस्तै उसी दोगुना
- ऐईश्वर दे अधर्म गी याद कीता ऐ “बाबुल महान (प्रकासित 18:4 ऐ)” इस आस् ते ओह उसी उदे कर्म दा दोगुना मुआवजा दिंदा ऐ (प्रकासित 18:8 ऐ).
- **(मसीह बनाम बेलियाल दा)**
- किसी भी द्वारा प्राप्त प्रभु (प्रभु जी ते उद्धारकर्ता), उदे द्वारा ग्रहण कीता जाग बापु (ईश्वर) जिवें उहदा लोक

रोम 7:4 ऐ इस आस् ते हे मेरे प्राओ, तुस बी व्यवस्था दे आस् ते मरी गेदे ओ मसीह;

कि तुहानू ब्याह होवे (ज्वाइन कर दिया) ¹⁰⁹⁶ दूजे गी, ऐ
इत् थें तकर के ओह मेरे दे चा जिंदा होई गेदा ऐ (मसीह, एरोम 6:9 ऐ), ऐ
तां जे अस फल देचे ईश्वर.

→ जेकर तुस व्यवस्था दे सामने मेरे दे ओ प्रभु दे शरीर दे रूप च तूसें गी ग्रहण करग मसीह, ऐ
तां जे तुस होओ ज्वाइन कर दिया गी मसीह, जो मेरे दे विचों जिंदा हो जांदा है, फल पैदा करने के लिये ईश्वर, ऐ
टीमुर्गा ईश्वर होगा तेरा बापु, ते तुस उदे (रब दा) पुत्र ते बेटियां.

- (बच्चे गी इक जोड़ी बैलेंस कनै नापया जंदा ऐ)⁷⁶²
- जफ 3 वी सील खोली गई इक जोड़ी संतुलन (जांजुआ) ने “मुक्त बनाम बंधन” दे बच्चें गी नापया।
(स्वर्ग बनाम जमीन दे संतान दे मामले विच)।
 - “मुसलमान बनाम अविश्वासी”
 - “धरम बनाम अधर्म”
 - “लो बनाम अंधेरा”

२ कुरिन्थियों ६:१४ तुस अविश्वासियें कनै बराबर जुआ नेई बन्नी जाओ ⁵⁷¹ 1।

कीहके धार्मिकताएं च केस साझेदारी ऐ ¹³⁴³ अधर्म दे नाल? ⁴⁵⁸
ते किस साझेदारी च रोशनी ऐ ⁵⁴⁵⁷ न्हरे दे नाल ⁴⁶⁵⁵ ?

२ कुरिन्थियों ६:१५ ते केह मेल-मिलाप ऐ मसीह ⁵⁵⁴⁷ कनै बेलियाल (विनाश दा मतलब इक नाम, एव 1100) ⁹⁵⁵ ?

जां विश्वास करने आलें दा केह हिस्सा ऐ ⁴¹⁰³ इक काफिर (काफिर) दे नाल ⁵⁷¹ ?

२ कुरिन्थियों ६:१६ ते मंदर दा किस समझौते दा ऐ ईश्वर ²³¹⁶ मूर्तियां दे नाल?

की वे तुस जिंदा दा मंदर ओ ईश्वर; ²³¹⁶ जियां ईश्वर ²³¹⁶ आख्या ऐ,
मैं उदे च रौहना ते उदे च चलना; ते मैं उन्दा होवांगा ईश्वर, ऐ ²³¹⁶ ते ओह मेरे लोक होंगना।

व्यवस्था 13:13 ऐकुछ मर्द, बच्चे (पुत्र) ¹¹²¹ आहला बेलियाल, ऐ ¹¹⁰⁰ तेरे बीचा निकली गेदे न,
ते अपने नगर दे निवासियें गी ए आखदे होई वापस करी लेता ऐ।

आओ अस जाइयै दुए देवतें दी सेवा करचे, जिनें गी तुस नेई जानदे ओ;

१सा २:१२ ऐहन एली दे पुत्र उदे पुत्र हे बेलियाल; ¹¹⁰⁰ उनें गी नेई पता हा प्रभु गी (यहोवा), ³⁰⁶⁸

अथ्यूब 34:18 चक्या राजा गी आखना ठीक ऐ, तू दुष्ट (बेलियाल)? ¹¹⁰⁰ ते राजकुमारें गी, “तुस अभक्त ओ ?

मत्ती २४:२४ ऐ की वे उथे पैदा होवेगा झूठे मसीह, ते झूठे नबी, ऐ

ते बड्डे-बड्डे चिन्हें ते चमत्कारें गी दिखग;

इय यां के जेकर होई सकदा तां ओह चुने गेदे लोकें गी गै धोखा देई ओइना।

→ बेलियाल दा पुत्र (इक नाम दा मतलब विनाश, ¹¹⁰⁰) ऐ झूठा नबी (अथ्यूब 34:18 च, ऐ

मत्ती २४:२४ ऐ) जेके परमेसरे दे चुने दे लोकें गी धोखा देने आस् ते बड्डे-बड्डे निशान ते अचंभनें दा प्रदर्शन करडन
(मत्ती २४:२४ ऐ).

→ बेलियाल दे पुत्र हन झूठे मसीह ते झूठे नबी जो न जाने प्रभु गी जांय होवा.

⁷⁶²से कैद की गई प्रकासित 6:5 ऐ.

→ तुसीं, जो हो **धर्मी बनाया** ते उजाले कन्ने साझेदारी करो, ते जुआ कन्ने नेई बन्नी जाना चाहिदा

अविश्वासी.

- की जे **मसीह** बेलियाल कन्ने कोई समझौता नेई ऐ, ऐ **आस्तिक** अविश्वासियें कन्ने अलग नेई होई सकदा.

- दा मंदिर **ईश्वर** मूर्तियां कन्ने कोई समझौता नेई ऐ ते तुस जिंदे दा मंदिर **ओईश्वर**.

"में (**ईश्वर**) उंदे च रौहग, ते उंदे च चलग;

ते मैं उन्दा होवांगा **ईश्वर**, ते ओह मेरे लोक होनगे." ⁷⁶³

२कुरिन्थियों ६:१७ इस करिए बिच्चो-बिच्चो निकलो ³³¹⁹ उन्हें गी, ते तुस अलग हो जाओ, ऐ

प्रभु कहंदा है (**kyrios**), ऐ ²⁹⁶² ते अशुद्ध चीज गी नेई छुओ; ते मैं **तुगी ग्रहण करगा**, ऐ

→ इस करिए, **प्रभु** (क्योरिओस) कहंदा है,

"**बाहर आओ उंदे च** (बाबुल दे महान दा), अलग हो जाओ (**अविश्वासियों से**), ऐ

ते अशुद्ध चीज गी नेई छुओ (**अशुद्ध आत्मा दी चीजां**); ते मैं करगा **हासल करोतुं**, ऐ"

२कुरिन्थियों ६:१८ औय शोगा **इक पिता** ³⁹⁶² तुन्दे कोल, ते तुस मेरे पुत्र ओगे ⁵²⁰⁷ ते धीयां, ऐ ²³⁶⁴

कहते हैं **प्रभु** ²⁹⁶² **सर्वशक्तिमान जी** (पंटोक्रातोर) दा. ³⁸⁴¹

→ इस करिए, "**शामल होनागी मसीह**, ते च उगना **प्रभु**, तां जे अंदर **इक प्रभु**, ऐ" ⁷⁶⁴

उंदे पिता जी (ईश्वर) तेरा पिता बण जांदा है."

→ **प्रभु जी** (क्योरिओस) **सर्वशक्तिमान जी** (जां प्रभु ते **मुक्तिदाता ईश्वर**) कहंदा है,

"मैं तुहाडा हो जावांगा **बापु**, ते तू मेरा हो जाओगे **पुत्र ते बेटियां**."

(**प्रकाशित 18:9 ऐ**) धरती दे राजाएं बाबुल कन्ने व्यभिचार किता

प्रकाशित 18:9 ऐ ते राजाएं गी ⁹³⁵ धरती (जमीन) दा, ¹⁰⁹³

जो व्यभिचार किता ते स्वादिष्ट (आलीशान) जींदे हन ⁴⁷⁶³ उंदे कन्ने,

विलाप करग (रोना) ²⁷⁹⁹ ते उंदे लेई विलाप करन, जदुं ओह उसी जले दे धुंए गी दिक् खडना

☞ **प्रकाशित 18:9 ऐ इक** धरती दे राजा जेड़े व्यभिचार किते न

ते उंदे कन्ने आलीशानता कन्ने रौंदे हे, जदुं उंदे जले दे धुंए गी दिक् खदे न, तां उंदे आस् ते रौंदे ते विलाप करदे न।

→ राजाओं ने ⁹³⁵ जमीन दाजेस प्रभु ते मसीह दे खलाफ खड़ोते दे हे ⁷⁶⁵ ओह **10 राजा (10 सींग)**

जिने कन्ने राजा दे तौर उप्पर अधिकार हासल कीता **ओह (1st) जानवर** दालेई **घण्टे दा** गी अपनी शक्ति ते अधिकार देइवै

इक मन दा (1st) जानवर (प्रकाशितवाक्य 17:12-13 ऐ).

(**प्रकाशितवाक्य १८:१०-२०**) **1 घंटे** च महान शहर बाबुल पर न्याय

प्रकाशित 18:10 ऐ दूर खड़ोते हुए अपने तड़प दे डर दे कारण, अफसोस (हाय) ³⁷⁵⁹ अफसोस (हाय), ³⁷⁵⁹

ओह महान शहर बाबुल, ओह पराक्रमी शहर! कीहके इक घड़ी च तेरा न्याय आया ऐ।

प्रकाशित 18:11 ऐ ते धरती (जमीन) दे बपारी, ¹⁰⁹³ रोना ते शोक करगे;

कीहके हुन कोई उन्दा बपारी नेई खरीददा।

प्रकाशित 18:12 ऐ सोने, चांदी, कीमती पत्थर, मोती, महीन लिनन, बैंगनी ते रेशम दा माल।

ते लाल ते तेरी सारी लकड़ी (रुख) ³⁵⁸⁶ ते हाथी दांत दे हर चाल्ली दे बर्तन,

ते हर किस्म दे बर्तन बहुं कीमती लकड़ी (रुख) दे बर्तन, ³⁵⁸⁶ ते पीतल ते लोहे ते संगमरमर दे।

प्रकाशित 18:13 ऐ ते दालचीनी, ते गंध (धूप), ²³⁶⁸ ते मरहम ते लोबान, ते शराब, ते तेल ते महीन आटा।

ते कणक, ते जानवर, ते भेड़ें, ते घोड़े, ते रथ, ते गुलाम (शरीर) ⁴⁹⁸³ ते मनुखें दी आत्माएं गी ⁴⁴⁴

⁷⁶³संदर्भ देना **प्रकाशित 18:4 ऐ**.

⁷⁶⁴संदर्भ देना **प्रकाशितवाक्य 19:11-14 ऐ**.

⁷⁶⁵"(**प्रकाशित 1:5 ऐ**) **यीशु मसीह: राजाएं दा शासक ते जमीन दे शासक.**"

प्रकासित 18:14 एते जेड़े फल तेरे प्राणी चाहदे हे, ओह चली गे (चली गए) ^{¶565} तेरे कोलां, ते सब्भे चीजां जेड़े मजेदार हे

ते भला (उज्ज्वल) ^{¶2986} तेरे कोलां चली गेदे न, ते तू उनेंगी फिरी नेई पाना।

प्रकासित 18:15 ऐड'नें चीजें दे बपारी, जेके उदे द्वारा अमीर होई गे हे;

अपनी तड़प दे डर कनै दूर खडोग, रोंदे होई ते रोंदे होई (शोक) ^{¶3996}

प्रकासित 18:16 एते आख्या, "हाय" ^{¶3759} अफसोस (हाय), ^{¶3759} उस महान शहर गी,

जेड़ा महीन लिनन, बैंगनी ते लाल रंग दे कपड़े च हा, ते सोने, कीमती पत्थरें ते मोती कन्ने सजाया गेदा हा!

प्रकासित 18:17 ऐक्योकि इक घंटे च इतनी बड़्डी धन-दौलत बेकार होई गई ऐ (उजाड़ च लेई आओ) ^{¶2049} ते हर जहाज दा मालिक, ते...

जहाजें च सारी संगत, ते नाविक (जहाज चलाने आला), ^{¶3492} ते जिन्ना बपार (काम) ^{¶2038} समुंदर दे किनारे, दूर खड़े हो गए,

प्रकासित 18:18 एते उदे धुंए गी जले दे धूँए गी दिखिये पुकारे लगी पेया, " इस महान शहर दा केहड़ा शहर ऐ!"

प्रकासित 18:19 एते उंदे सिरें उप्पर धूड़ पाई, ते रोंदे-रोंदे ते विलाप करदे होई चिल्लादे रेहा ^{¶2799} कहते हुए,

अफसोस (हाय), ऐ ^{¶3759} अफसोस (हाय), ^{¶3759} ओह महान नगर, जिदे च अमीर होई गे

उन सब कुछ जो उदी महंगे दे कारण समुंदरे च जहाज हे! की वे इक घड़ी च ओह उजाड़ होई जंदी ऐ।

प्रकासित 18:20 एहे सुर्ग, ते पवित्र प्रेरित ते भविष्यवक्ता, उदे उप्पर खुश होओ;

कीजे परमात्मा ने बदला लेता ऐ (न्याय) ^{¶2917} ^{¶2919} तुसीं उसदे उप्परा

☞ **प्रकासित 18:10** ऐदूर खड़ोते हुए अपने तड़प दे डर से, कहते हुए।

'हाय, हाय, **महान शहर**, **ऐबाबुल**, पराक्रमी शहर। में के लिए **इक (1) घंटा** तेरा फैसला आ गया।'

→ न्याय (संसार दे राज) ते आ गया,

- (1) महान शहर (2) जानवर दा वैटिकन शहर, पोप (या पोप फ्रांसिस, द...

बड़ी वेश्या), ते

- (2) बाबुल (1) जानवर दी संयुक्त राष्ट्र दी इक विश्व सरकार), च न्याय कीता जाग

इक (१) घण्टे दा ⁷⁶⁶

→ इक (1) घंटे च महान शहर बाबुल दा न्याय दा मतलब ऐ के ओह दौरान गिर जांगन

1 घंटे, या दानियेल दे 70वें हफ्ते (या महान संकट) दे दुए हिस्से दे दौरान ⁷⁶⁷

☞ **प्रकासित 18:11** ऐजमीन दे बपारी (पैसे दे प्रेमी जिन्हां दी जड़ सारी बुराई दी है, **प्रकासित 18:3 ऐ**), ऐ

रोहग ते शोक करग, कीजे हुन कोई बी उंदा माल नेई खरीददा।

☞ **प्रकासित 18:12** ऐसोने ते चांदी, कीमती पत्थर ते मोती, महीन लिनन, ते बैंगनी, रेशम ते लाल रंग दा माला

थिइन दे हर तरह दे बर्तन ⁷⁶⁸ पेड़, हाथी दांत, ते सब तों कीमती पेड़, पीतल, लोहा, ते संगमरमर।

☞ **प्रकासित 18:13 ऐ इक**nd दालचीनी ते धूप, मरहम, लोबान, शराब, तेल, ठीक आटा, गेहूं, जानवर, भेड़ें, घोड़े,

रथें, तन, ते मनुखें दी आत्मा ^{¶444}

☞ **प्रकासित 18:14 ऐ टीओह फल दिदा ऐ जिदे च तुंदी आत्मा दी लालसा** हीतुं दे कोलां चली गेदे न, ते सारी चीजां जेड़ी मस्त ते उज्ज्वल ही

चले गए हैंतुं दे कोलां, ते तुसंगी उनेंगी फी नेई मिलगा।

☞ **प्रकासित 18:15 ऐ टीओह बपारी** इन्हें चीजें दा जेड़ा उदे कन्ने अमीर होई गेआ।

उसी तड़प, रोने ते शोक दे डर कनै दूर खडोग।

☞ **प्रकासित 18:16 ऐ इक**nd आख्या, 'हाय, हाय, ओह महान शहर जेड़ा महीन लिनन, बैंगनी ते लाल रंग दे कपड़े लाए दे हे।

ते सोने ते कीमती पत्थरें ते मोतियें कन्ने सजाया गेदा हा।

☞ **प्रकासित 18:17 ऐ चया में इक (1) घंटा** ऐसी बड़ी धन उजाड़ हो गई। हर जहाज मालिक,

जहाज ते जहाज चलाने आले सारे संगत, ते जिन्ना समुंदरे उप्पर काम करदे हे, दूर खड़ोते दे हे।

☞ **प्रकासित 18:18 ऐ इक**nd उदे धुंए गी जले दा दिखिये चिल्लाया ते आख्या, 'इस बड़्ड़ा शहर कीह ऐ?'

☞ **प्रकासित 18:19 ऐ टीहे** उंदे सिर उप्पर धूड़ पाई ते रोंदे ते शोक करदे होई चिल्लादे होई आखदे हे, 'हाय, हाय, कि।'

⁷⁶⁶संदर्भ देना **प्रकासित 18:2 ऐ**.

⁷⁶⁷"(**प्रकासित 18:10 ऐ**) 1 घंटे च महान शहर बाबुल उप्पर न्याय आया ऐ."

⁷⁶⁸थाइन: खट्टे, इक बदबूदार उत्तरी अफ्रीकी पेड़ ऐ जिसदा इस्तेमाल धूप दे रूप च कीता जंदा हा, जिसगी प्राचीन यूनानियें ते रोमन दे हिसाब कन्ने कीमत दिती जंदी ही

बकख-बकख सजावटी मकसदें आस्ते इसदी लकड़ी दी सुंदरता दा। "जी2367 - थुइसोस - मजबूत दा ग्रीक कोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 15 अप्रैल,

2023। <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2367/kjv/tr/0-1/श>.

महान शहर, जिस च समुंदरे उपपर जहाजे आह्ने सारे उंदी महंगी चीजे कनै अमीर होई गो। क्योकि इक घंटे च ओह उजाड़ बनाई दिता जंदा ऐ।'

☞ प्रकासित 18:20 ऐहे सुर्ग, ते पवित्र प्रेरित ते भविष्यवक्ता, उदे उपपर खुश होओ।
लेईईश्वर उदे उपपर तुंदे फैसले दा फैसला कीता ऐ।

- मतलब "इक(1)घंटा"

(१) ऐ.इक(1)घंटा: मसीह च आखरी मजदूर 11मीं थमां 12मीं घंटे तक

मत्ती 20:12 ऐकहते हुए, ये आखरी ^{मत्ती 20:78} गढ़ा है परइक घंटे दा, ते तू उनेगी सादे बराबर बनाई लेदा ऐ।
जिन्हां ने दिन दा बोझ ते गर्मी उठाया है।

मत्ती 20:13 ऐलेकन उन उंदे च इक गी जवाब दिता, ते आखया।

दोस्त, मैं तुहाडे नाल कोई गलती नहीं करदा: क्या तू मेरे नाल इक पैसे (एक डीनारिओन) वास्ते सहमत नहीं सी^{मत्ती 12:20} नेदी?

मत्ती 20:14 ऐजेड़ा अपना ऐ उसी लेई लै, ते चली जा, मैं इस आखरी गी देगा, जिय्यां तुगी देगा।

मत्ती 20:15 ऐकेह मेरे आस् ते जेका चाहना ऐ, उदे कन् ने करना उचित नेई ऐ? की तेरी अक्खीं बुरी ऐ, की के अऊं भला हां?

मत्ती 20:16 ऐइस आस् ते आखरी गी पैहलें ते पैहलें आखरी होन, कीजे मते सारे सदे गेदे हन, लेकन थोडे चुने गेदे हना।

→ "इक घंटे" (मत्ती 20 च) इस संदर्भ च "अंतिम मजदूरों गी संदर्भित करदा ऐ जेहडे उंदे च आए हे
11वें घंटे दा अंगूर दी बाग" (मत्ती 20:8-12 ऐ)।

- जिन्हां ने दिन दा बोझ ते गर्मी उठाया है, ते 3 घंटे, 6 घंटे तों कम्म कीता है
ते 9वें घंटे (मत्ती 20:3-5 ऐ), "पैहले मजदूर" न जेहडे कुदरती शाखाएं न
(रोम 11:21 ऐ) या यहूदियां गी।

- जो "इक घंटे दा" (11वीं से 12वें घंटे तक) शाम आने कोला पैहले होंदे न
"अंतिम मजदूर" जेके "कलम कीती गेदी शाखा" या गैर-यहूदी जाति न जिनेगी सुसमाचार सुसमाचार दिता जंदा ऐ
मुक्ति दा मुड़ गया है (प्रेरितों दे काम 13:46)।

→ आखरी मजदूर (गैर-यहूदी जाति, संकट संत लोग) जो अपने अंगूर दे बाग च आया
(कूमसीह) दिन दे समें गी दिक्खदे होई ते प्रार्थना करदे होई परमात्मा दे कम्में गी कम्म करदे हे, ते इस चाल्ली
राज्य च दाखल होने आह्ने पैहले बनी गे, जिसलै के पैहले मजदूर (यहूदी) दाखल होने आह्ने आखरी होई गे
राज दा।

→ पाप दी मजदूरी (एक डीनारिओन) ऐबराबर ही भूगतान कीता ते माफ कीता गेआ उनें सारें गी जेहडे अंदर नमसीहकी जेओह
परमात्मा दा धर्म जो विश्वास दे जरिए ऐयीशु मसीह सारें ते सारें गी विश्वास करने आलें गी
ते यहूदी ते यूनानी/गैर-यहूदियें च (या पैहलें दे च कोई फर्क नेई ऐ
ते आखरी मजदूर): उसी लेईनाथकुल मलाइयेउसी पुकारने आलें सारें लेई अमीर ऐ (रोम 3:22 ऐ, ऐ
रोम 10:12 ऐ)। सो, प्रभु "पैहले मजदूरों" दी मजदूरी गी "अंतिम मजदूरों" दे बराबर करी दिता
मजदूर, ऐ" पर जेके अंधा (या लोगो दी कमी ऐ, कानून दे तैह त) ओह इस गल् ला गी भुल्लती गेदे न
उंदे पुराने पापें गी शुद्ध करी दिता गेआ (२पतरस १:१०)।

➤ इसलेई, "इक घंटे दा" संकट दे संत लोकें आस्तैमतलब उनें लोकें गी दस्सेआ जंदा ऐ जेहडे प्रलोभन दी घड़ी शुरू होने कोला पैहलें गै दिक्खदे हे ते प्रार्थना करदे
हे (प्रकासित 3:10 ऐ) या जब तकमनुख दे पुतर दा आना, इस आस् ते ओह महासंकट शुरू होने थवां पैहलें गै होई गेदे हना।

(२) ऐ.इक(1)घंटा: 1। प्रलोभन की घड़ीपहले देखना & प्रार्थना करना प्रभु दा बड़डा ते उल्लेखनीय दिन
(परमात्मा दा गुस्सा)।

लुका 4:13 ऐजदुं शैतान ने सारी परीक्षा गी खत्म करी ओड़ेया, तां ओह थोहडे समें आस् ते उदे शा चली गया (इक वक्त)।

→ शैतान यीशु कोला "इक वक्त" जदुं ओह उसी प्रलोभन देने च असफल होई गया। वही शैतान आता है
तां जे संसार च होने आह्ने भ्राएंगी दुखी करन, ते उनें गी खाने दी कोशश करदे न (१पतरस ५:८-९) जो काम करदे ने
परमात्मा दे कम्मेंजबकि दिन ऐ, ते जेड़े रात च दुनिया च बचे दे न (जहन्ना ९:४)।

१पतरस ५:८ सोझ रहो, सतर्क रहो; क्योंकि तेरा दुश्मन शैतान ऐ^{॥1228॥}जदि शेर दे समान,
घुमदा रेहंदा ऐ, जिसे खाई सकै, उसी ढूँढदा ऐ।
१पतरस ५:९ उदे विश्वास च अडिग रौओ, ए जानदे होई के उसी दुखे (दुख)^{॥3804॥}
तुं दे पराए च जेड़े संसार च न, उं दे च पूरा होंदे न।

मत्ती 26:39 ऐते थोड़ी अगो चली गया ते मुंह उप्पर खड़ोईये प्रार्थना कित्ता।

ओ मेरेबापू, जेकर होई सकदा ऐ तां

इस प्याले गी मेरे कोलां चली जा, पर जिय्यां मैं चाहन्ना, उय्यां गै नेई; लेकन जिय्यां तू चाहन्दे ओ।

मत्ती 26:40 ऐते ओह चेलें दे कोल आया ते उन्हें गी सुत्ते दे पाया, ते पतरस गी आखया।

क्या, तुस नेई देख सकदे हे^{॥1127॥} मेरे कन्नेइक घटे दा?

मत्ती २६:४१ ऐदिकखो^{॥1127॥} ते प्रार्थना करो, तां जे तुस उस च नेई जाओ^{प्रलोभन दे: 1}^{॥3986॥}

भावना गीवाकई इच्छुक ऐ, पर शरीर कमजोर ऐ।

→ “इक घण्टे” इस संदर्भ च “प्रलोभन दी घड़ी” कि साकुं “देखना ते प्रार्थना” करनी चाइदी

2nd जानवर जमीनी निवासिये गी मजबूर करने कोला पैहे दे समे दौरान प्रलोभन च नेई औना

इक निशान पाओउं दे सज्जे हल्थ जां मत्थे उप्पर, नेई ते उं गी मारी दिता जाग (प्रकाशितवाक्य 13:15-18 ऐ).

प्रलोभन दा घड़ी आने तकर चलदी रौत्ता प्रभु यीशु मसीह गीते

प्रभु दा बड़डा ते उल्लेखनीय दिन (परमात्मा दा गुस्सा).

लुका 8:15 ऐ लेकन भलाई जमीन उप्पर ओह ऐन, जेड़े ईमानदार ते भले दिल कन्ने।

वचन सुन के (लोगो दा), ऐ^{॥3056॥} रखो, ते धीरज कन्ने फल देओ।

→ जेड़े अच्छी जमीन उप्पर डिगो दे हे ओह गै न जेड़े वचन सुनिये (ओह

लोगो दा)^{॥3056॥} उदात्त ते नेक दिल कन्ने रखो ते धीरज कन्ने फल देओ

(लुका 8:15 ऐ) ते इस चाल्ली प्रभु दे बड़डे ते उल्लेखनीय दिन कोला पैहे उद्धार (रिप्चर) होई जा।

लुका 8:13 ऐ चड्डान उप्पर ओह गै न, जेहड़े सुनदे गै

वचन ग्रहण (लोगो दा)^{॥3056॥} खुशी दे नाल; ते इन्हें गी कोई जड़ नेई,

जो थोड़ी देर वास्ते विश्वास करदे हन, ते विच समांप्रलोभन दा दूर गिर जाओ.

→ लेकन जिन्हां दा बीज पत्थर उप्पर लाया गेदा ऐ, ओह ओह गै न, जेड़े सुनदे गै

वचन ग्रहण (लोगो दा)^{॥3056॥} खुशी दे नाल; ते इन्हें गी कोई जड़ नेई ऐ, जेहड़े ए

जबकि ते में प्रलोभन दा वक्त दूर गिर जाओ.

जहन्ना ९:४ मैं उं दे कम्मों गी कम्म करना गै पौग (ईश्वर) जिसने मिगी भेजेया, जदू तकर दिन ऐ।

रात गी आंदी ऐ, जदुं कोई कम्म नेई करी सकदा।

→ “रात दी” इस संदर्भ च संदर्भ दिदा ऐ प्रलोभन दी घड़ी भें दे लेई, जेके संसार च न

जबकि रात ऐ (मसीह विरोधी दे शासन च)। जो नीछे छोड जाते शैं (महान नयों नया

संत लोग) गी पैहे प्रलोभन दी घड़ी दा सामना करना पौग प्रभु दा बड़डा ते उल्लेखनीय दिन, पर

जो कोई दा नां पुकारे प्रभु होगा बचाया (प्रितों दे काम २:२१).⁷⁶⁹

- “इक घण्टे” कीजे महान संकट संत लोकें दा मतलब ऐ उं लोकें गी, जेके जदुं तकर दिक् खदे रौहन ते पराथना करडन प्रभु यीशु मसीह दे आने दा. पवित्र संत जो परमात्मा दे कम्मों गी कम्म करदे नविश्वास करदे मनुख दा पुत्र (परमात्मा दे लोगोकुसीईश्वर भेज दी है) ते दा नां पुकारे प्रभु पैहलें टीओह प्रभु दा बड़ा ते उल्लेखनीय दिन (परमात्मा दा गुस्सा)⁷⁷⁰ होगा बचाया ते आखरी दिन जिंदा हो जाओ।

⁷⁶⁹“[चित्र 18-क],” या वीडियो 40. “4. पेंटेकोस्ट” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-प्रभु-दे-त्वौहार-4-पेंटेकोस्ट/

⁷⁷⁰“[चित्र 18-क],” जां “[2] प्रकाशितवाक्य दी भविष्यवाणी दी समे-सीमा” दा संदर्भ लैओ।

Peter's Rhema

- Act 2:14** But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice, and said unto them, Ye men of Judaea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words(**rhema**):^{G4487}
- Act 2:15** For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is *but* the third hour of the day.
- Act 2:16** But this is that which was spoken by the prophet Joel;
- Act 2:17** And it shall come to pass **in the last days**, saith **God**, I will pour out of **my Spirit** upon all flesh; and your sons and your daughters shall **prophecy**, and your young men shall see **visions**, and your old men shall dream **dreams**;
- Act 2:18** And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of **my Spirit**; and they shall **prophecy**;
- Act 2:19** And I will shew **wonders** in heaven above, and **signs in the earth (the ground)**^{G1093} beneath; blood, and fire, and vapour of smoke:
- Act 2:20** The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood,
before that great and notable day of the Lord come:
- Act 2:21** And it shall come to pass, *that* **whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.**

➤ बाकी कुंवारीजभीन नय छोडकय एक 1000 वर्षों में दाखखल शोगा।

*"[3] डैनियल दे 70 हफ्तें" थमां कैद कीता गेदा ऐ।

Great Tribulation		Armageddon
Daniel's 2nd half of 70th week		
Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)
250 days	790 days	250 days
The hour of temptation		(1 Hour)
The 7th trumpet (3rd owe) (The 7 vials: The wrath of God)		The Wrath of God (Rev 15-16)
→ The pouring of the 1st - 5th vial		
→ The pouring of the 6th vial (Armageddon starts)		Armageddon
The coming of the Lord Jesus Christ		
→ The pouring of the 7th vial		
The great city Babylon is destroyed (Rev 18:21-24)		

← The wrath of God
The great and notable day of the Lord

(प्रकासित 18:21-24 ऐ) महान शहर बाबुल (अब न मिलदा)

प्रकासित 18:21 ऐते इक (इक)^{#1520} पराक्रमी स्वर्गदूत ने इक बड्डा चक्की दे पत्थर आला पत्थर चक्की लेया, ऐ^{#3458} ते उसी समुंदरे च सुट्टी दिता।

इस चाल्ली ओह महान नगर बाबुल गी हिंसा कन्ने उड़ाई दिता जाग, ते फिरी कदं बी नेई लब्भग।

प्रकासित 18:22 ऐते वीणा बजाने आलें ते तुरही बजाने आलें ते तुरही बजाने आलें दी आवाज तेरे च फिरी नेई सुनी जाग।

ते तेरे च कोई बी कारीगर, चाहे ओ किसे बी कारीगरी दा होवे;

ते चक्की दे पत्थर दी आवाज^{#3458} तेरे च फी नेई सुनेआ जाग;

प्रकासित 18:23 ऐते रौशनी^{#5457} इक मोमबत्ती दा, ऐ^{#3088} तेरे च फी नेई चमकग;

ते दुल्हन ते दुल्हन दी आवाज तेरे च फिरी नेई सुनी जाग।

कीजे तेरे बपारी धरती दे (जमीन) दे बड्डे-बड्डे लोक हे,^{#1093}

की वे तेरे जादू टोने दे द्वारा सारे जाति (गैर-यहूदी)^{#1484} घोखा दे दिया।

प्रकासित 18:24 ऐते उदे च नबी ते संत (पवित्र संत) दःा खून पाया गया।^{#40}

ते धरती (जमीन) उप्पर मारे गेदे सारें दा।^{#1093}

☞ प्रकासित 18:21 ऐ टीhen इक शक्तिशाली स्वर्गदूत ने इक पत्थर उठाया जैसेइक महानचक्की दा पत्थर, ऐ^{#3458} ते समुंदरे च सुट्टी दिता, तःे आखया।

“इस चाल्ली हिंसा कन्नेमहान शहर बाबुलसुट्टी दिता जाग, ते हुन नेई मिलग।”

➔ **बडा नगर बाबुल**

- महान शहर (2 जानवर दा वैटिकन शहर) ते बेबिलोन (1 दी इक विश्व सरकार दरिंदा) थल्ले फेंक दिता जाग ते हुन नेई लब्भग।

• **चक्की दा पत्थर⁷⁷¹**

† चक्की दा जड़ शब्द (स्ट्रॉंग दाजी3459 ऐ) चक्की दा पत्थर (स्ट्रॉंग दाजी3458 ऐ):

“इक बड्डी चक्की च दो पत्थर होंदे हे, इक उपपरा ते इक थल्ले; निचले पत्थर दा था स्थिर, पर उपरले गी गधे ने चुमाया हा।”⁷⁷²

टीओह परमात्मा दी इमारत दी नीह् ऐयीशु मसीह(१कुरिन्थियों ३:१-११) जो निचले स्थिर पत्थर (लोगो दा), ते ऊपर दा पत्थर जेड़ा जिंदा पत्थर च बदली जंदा ऐरेमा दा. जेड़ा इस्राएल दे समान व्यवस्था दे कम्मों गी तुप्पदा ऐ जेड़ा विश्वास च नेई ऐ, ओह उस ठोकर दे पत्थर उपपर ठोकर खाग, पर जेड़ा विश्वास दे धार्मिकता दे नियम दे कम्मों दी तलाश करता ऐ, ओह धार्मिकता गी हासल कराग।⁷⁷³

† पत्थर दाकि इक शक्तिशाली सुर्गदूत ने लेई लेया ऐ “लोगो दा& टीओह रेमा” ते पानी च सुट्टी दिता जंदा ऐ जित्थें वेश्या बैठी दी ऐ ते जित्थें लोक, भीड़, राष्ट्र ते भाषाएं न (प्रकासित 17:15 ऐ)।⁷⁷⁴

☞ प्रकासित 18:22 ऐ टीओह वीणा बजाने आह्ने, संगीतकारें, पाइपें, तुरही बजाने आह्ने दी आवाज तुंदे च हून नेई सुनी जागा। तुहाडे विच हुण किसे शिल्प दा कोई कारीगर नहीं मिलदा, ते दी आवाजइक चक्की दा पत्थर^{3458 ऐ}(परमात्मा दे लोगो) तुहाडे विच हुण नहीं सुणानगे।

→ लोगो दा (इक चक्की दा पत्थर) अभक्त मनुखें दे न्याय ते नाश दे दिन तकर भंडार च रखेया गोदा हा। फिरी ओस ने बड़े शहर बाबुल गी उतार दिता १ घण्टे दापरप्रभु दा बड्डा ते उल्लेखनीय दिन (रेमा दा)।⁷⁷⁵

☞ प्रकासित 18:23 ऐ टीओह रोशनी करता ऐ^{5457 ऐ}आह्लाइक मोमबत्ती^{3088 ऐ}तेरे च हून नेई चमकाग, तेदुल्हन ते दुल्हन दी आवाज तुन्दे च हून नेई सुनी जागा की वे तेरे बपारी ज़मीन दे महान मनुख हे। कीहके तेरे जादू टोने कन्ने सारे जाति धोखा देई गे।
→ ईश्वरऐ “उजाला दा(मजबूत दाजी5457 ऐ)” तेमेमने दा^{721 ऐ}(प्रकासित 21:23 ऐ) ऐइक मोमबत्ती^{3088 ऐ}
- परमात्मा दा उजाला जो मेमने (रेमा) दे जरिए बोलदा हा⁷⁷⁶अब न चमकेगा।
- मेमने दा ब्याह सुर्ग च आया ऐ,⁷⁷⁷तां दुल्हन ते दुल्हन दी आवाज नेई होग ज़मीन उपपर गैर-यहूदी जातिएं गी हून सुनेया।

☞ प्रकासित 18:24 ऐ इकएनडी उसमें पाया गया**बिचें दा खूनते पवित्र संत**, ते ज़मीन उपपर मारे गेदे सारें दा।

→ नबी ते पवित्र संत दा खून बड्डे नगर च पाया, बाबुल दा बदला लेता ऐ,
पूरा करदे प्रकासित 6:10 ऐ.

प्रकासित 6:10 ऐते ओह जोरें-जोरें कन् ने पुकारे लगी पेया, “किन्नी देर तकर, ओनाथ (निरंकुशता दा), ऐ^{1203 ऐ}पवित्रतेसच्च, ऐ तुस उंदे उपपर न्याय नेई करदे ते सादे खून दा बदला नेई लैदे जो धरती (जमीन) ते रहदे ने^{1093 ऐ}?”

⁷⁷¹“प्रकासित 6:10 ऐ.”

⁷⁷²“ G3458 - mylos - मजबूत दा ग्रीक शब्दकोश (kjv)।” नीले अक्षर बाइबल। अभिगमन तिथि 9 मार्च, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3458/kjv/tr/0-1/ ऐ>

⁷⁷³वीडियो 41. “परमेसर गी स्वीकार्य होने आस्तै प्रभु च बधों”, & वीडियो 47, “7. तम्बू”),www.theRhemaOfTheLord.com पर ऐ.

⁷⁷⁴से केद की गईप्रकासित 2:23 ऐ.

⁷⁷⁵वीडियो 44. “(The logos & the rhema) आखरी दिनें च (2 पतरस 3) 1/2।”www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

⁷⁷⁶वीडियो 44. “शास्त्र दी भविष्यवाणी 2 पतरस 1) 2/2।”www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

⁷⁷⁷“प्रकाशितवाक्य 19:6-7 ऐ) प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान राज करता ऐ & मेमने दा ब्याह आई गोदा ऐ.”

(प्रकाशित 19:1-२) 1 अलेलुया (स्तुति: स्वर्ग च इक बड्डी भीड़)

प्रकाशितवाक्य 19:1 ते इन्हां गल्लां दे बाद

मैं इक बड्डी (एमुखर) ³¹⁷³ की आवाज़ बहुत (एक बड़ा) ⁴¹⁸³ लोक (बहुबता) ³⁷⁹³ स्वर्ग च, कहते हुए,
एलेलुइया; उद्धार, ते महिमा, ते आदर ते शक्ति, प्रभु (kyrios) गी ²⁹⁶² सादा परमात्मा: 1।

प्रकाशितवाक्य 19:2 की वे उदे न्याय सच्चे ते धर्मी न;

की वे उसने बड़ी वेश्या (वेश्या) दा न्याय किता ⁴²⁰⁴

जिसने धरती (जमीन) को भ्रष्ट कर दिया ¹⁰⁹³ उदे व्यभिचार कन्ने,
ते उदे हत्ये च अपने दासं दे खून दा बदला लेता ऐ।

☞ प्रकाशितवाक्य 19:1 इक nd इनें गल्लें दे बाद मैं इक जोरदार आवाज़ सुनी इक महान ⁴¹⁸³ भीड़ ³⁷⁹³ स्वर्ग च, कहते हुए,
“एलेलुइया! ²³⁹ मुक्ति, महिमा, इज्जत, ते शक्तिके हो प्रभुसादा ईश्वर.”

☞ प्रकाशितवाक्य 19:2 च्या उदे फैसले सच्चे ते धर्मी न,

क्योंकि ओस ने उस महान वेश्या दा न्याय किता, जेड़ी जमीन गी भ्रष्ट करदी ही
उदे व्यभिचार कन्ने; ते उदे हत्ये च अपने दासं दे खून दा बदला उसी लेई लेता ऐ।

- इन्हां गल्लां दे बाद मतलब “गुस्से दी 7 शीशी दे बाद (प्रकाशितवाक्य 16 ऐ), महान वेश्या दे फैसले दे बाद (प्रकाशितवाक्य 17:1-2), ते बड्डे शहर बाबुल दा पतन (प्रकाशित 18:10-25) जेड़े महान वेश्या कन्ने व्यभिचार किते न (प्रकाशितवाक्य 17:1-2), जिं दे च नबी ते पवित्र संत दा खून पाया गोआ, पर बदला लेता जंदा ऐ ते पूरा करदा ऐ प्रकाशित 6:10 ऐ।

(इक स्वर्ग च बड़ी भीड़) स्वर्ग च

→ स्वर्ग च बड़ी भीड़ दी जोरदार आवाज़ ⁷⁷⁸ की मारी हुई आत्माएं हैं ओह गवाह आहलाके लोगो दा

ईश्वर (प्रकाशित 6:10 ऐ) जो में मरे हुए हैं मसीह (सभी समेत मसीह दे पहले फलजां 144,000 दी, ऐ
१ कुरिनथियों १५:२०), ते कन्ने गै उंदे साथी नौकर ते उंदे भाइयो जो लेने से इनकार कयने के लए मारे जाते शैं
जानवर दा निशानया उंदी मूर्ति दी पूजा करना। (प्रकाशित 6:11 ऐ, ऐ प्रकाशित 13:10 ऐ). साथी नौकर हैं
सफेद वस्त्र पहिरे, सिंहासन दी मौजूदगी च हत्ये च हथेलियां पकड़े ते... ओहमेमना
(अर्नियन दा), ऐ ⁷²¹ जों कन्ने रोना,
→ “एलेलुइया; मुक्ति, ते महिमा, ते सनमान, ते ताकत, को प्रभु”

➤ 1st एलेलुइया दा (स्वर्ग च बड़ी भीड़) मुक्ति

- पौलुस दे पत्रें दे मताबक साढ़े दी लम्मी-लम्मी धीरजनाथके लिये हैमोक्ष दे. पर कुछ खास गल्लां वास्ते कि...

पौलुस दे पत्रें थमां समझना मुश्कल ऐ, अशिक्षित ते अस्थिर व्यक्तियें गी मरोड़ दिता ऐ
पवित्रशास्त्र अपने बिनाश तक। इस आस् ते तुसंगी एह सावधान रौहना पौना ऐ के तुस गलती कन् ने भटकदे नेई ओ
दुष्टें दा ते अपनी अडिगता कोला डिगी जाओ, लेकन साढ़े अनुग्रह ते ज्ञान च बधने आस्ते नाथ
ते मुक् तिदाता यीशु मसीह (2 पतरस 3:15-18 ऐ). ⁷⁷⁹

- इकल्ले लुइया (मजबूत दा जी 239): जरिया "प्रभु दी स्तुति करो" ⁷⁸⁰ ते मारे गेदे प्राणी अपने परमात्मा दी स्तुति करदे ना

(प्रकाशितवाक्य 19:3) 2 अलेलुया (स्तुति: स्वर्ग च इक बड्डी भीड़) स्वर्ग च

प्रकाशितवाक्य 19:3 ते फिर (दूसरा) ¹²⁰⁸ ने ⁴ उने आख्या, “अलेलुइया” ते उसी द्ा धुआं ²⁵⁸⁶ उठया सदा-सदा।

⁷⁷⁸ “(प्रकाशित 7:9-12 ऐ) इक बड्डी अनगिनत भीड़ (सब राष्ट्र, कबीले, लोक, ते भाशाएं च).”

⁷⁷⁹ कीडियो 44. “(The logos & the rhema) आखरी दिनें च (2 पतरस 3) 1/2। www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

⁷⁸⁰ जी 239 - hallélouia - मजबूत द्ा ग्रीक शब्दकोश (kiv)। नीले अक्षर बाइबल। अभिगमन तिथि 4 अक्टूबर, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g239/kiv/tr/0-1/> ऐ.

☞ प्रकाशितवाक्य 19:3 ते दूर्ई (2) बारी उने आखेआ, “एलेलुइया! ओहदीधु^{#2586} उठदा है सदा सदा.

- धुं: जेडे जानवर ते ओस दी मूर्ति दी पूजा करदे हे, ते ओस दे मत्थे या ओस दे हत्थ च ओस दा निशान पांवे हे (प्रकाशित 14:9 ऐ), परमात्मा दे गुस्से दी शराब पींवे न तां जे हुन पवित्र सुर्गदूतें दे सामने, ते मेमने दे सामने अग ते गंधक कन्ने तइपदे न (प्रकाशित 14:10 ऐ), ते उंवे तइप दा धुंआ सदा-सदा चली जंदा ऐ, ते उंवे कोल दिन ते रात नेई आराम होदा ऐ
(प्रकाशितवाक्य 14:11 ऐ).
- **2 एलेलुइया दा** (स्वर्ग विच बड़ी भीड़)
 - परमेसरे दे हुकमें गी मनने आलें संत दा धीरज, ते यीशु दा विश्वास, हुन इस थवां विश्राम ऐ उंदी मेहनत; ते उंवे कर्ममें उंवे पिच्छे चलदे न (प्रकाशित 14:12-13 ऐ).

(प्रकाशित 19:4 ऐ-5) 3rd Alleluia (प्रशंसा: 24 बुजुर्ग & 4 जीव)

प्रकाशित 19:4 ऐ ते चार बीस बुजुर्ग ते चार जीव-जंतु^{#2226} गिर गया

ते सिंहासन उपर बैठे दे परमात्मा दी अराधना किता ते आखया, “आमीन,^{#281} एलेलुइया.^{#239}”

प्रकाशितवाक्य 19:5 ऐ उस बेले सिंहासन चों इक आवाज आई

साडे परमात्मा दी स्तुति करो, तुस उदे सारे दास, ते तुस उदे कोला डरने आले, छोटे-बड़े

☞ प्रकाशित 19:4 ऐ इक 24 बुजुर्ग ते 4 जीव गिर के पूजा कीती ईश्वर जो सिंहासन पर बैठे, ऐ आखदे होई, “आमीन! एलेलुइया!”

☞ प्रकाशितवाक्य 19:5 ऐ टीमूर्गी सिंहासन थमा इक आवाज आई

“तरीफसाडा परमात्मा, ऐतुस सारे उंवे सेवक, ऐ^{#1401} ते उंवे कोला डरने आलें गी, ऐछोटे-बड़े दोनों!”

➤ **3 वां एलेलुइया** (24 बुजुर्गों & 4 जीवों द्वारा)

- 24 बुजुर्ग ते 4 जीव पूजा करदे नईश्वर जेस सिंहासन उपर बैठे दा हा ते आखदा हा, “आमीन,^{#281} एलेलुइया.”

• **आमीन** (मजबूत दाजी²⁸¹): जरिया “सचमुच”.

• **इकल्लेइया** (मजबूत दाजी²³⁹): मारी गेदी आत्माएं प्रभु परमात्मा दी स्तुति कीती, फिर 24 बुजुर्ग ते 4 जीव पूजा ते स्तुति करदे नईश्वर जो सिंहासन पर बैठे उंवे आस्तै लोगो दा औनासच्च.

(प्रकाशितवाक्य 19:6) चौथा अलेलुया (सब स्वर्ग च: प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान राज करदा ऐ)

प्रकाशितवाक्य 19:6 ते मैं इक बड़े दी आवाज दे समान सुनी^{#4183} भीड़, ऐ^{#3793} ते मते सारे पानी दी आवाज दे समान

ते जोरदार गरजने दी आवाज दे समान, ए आखदे होई, “अलेलुया,^{#3841} राज करदा ऐ”

☞ प्रकाशितवाक्य 19:6 इक मैं सुनी, मानो, दी आवाज इक महान^{#4183} भीड़, ऐ^{#3793}

जिवें कई पानी दी आवाज ते जोरदार गरजने दी आवाज दे समान

आखदे होई, “एलेलुइया!^{#239} लेई प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान राज करदा ऐ!”

➤ **4 वीं एलेलुइया:** स्वर्ग च सारें दे द्वारा

मसीह च मरे दे लोकें दी आवाज, 144,000, महान संकट संत, 24 बुजुर्ग, 4 जीव ते स्वर्गदूत (प्रकाशित 10:1-4 ऐ), कह रहे हैं,

→ एलेलुइया! लेई प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान राज करदा ऐ !

➤ **प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान**

→ प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान पवित्र ऐ जेड़ा हा, ते ऐ, ते आने आला ऐ (प्रकाशित 4:8 ऐ), ते ईश्वर (कन

“हा” च मसीह, ऐ रकरिन्थियों ५:१९) “ऐ” साडे नाल दे जरिए प्रभु ते मुक्तिदाता यीशु मसीह (जिस ने मिगी दिखया ऐ

पिता गी दिखेआ ऐ, यूहन्ना 14:9) जां ओह मेमना, जिस विच ईश्वर “चाहना” आओ ते साडे कन ने रौहओ, ते अस बी

होंगे उदे लोक (प्रकासित 21:3 ऐ).

→ ते एहमेमनाराज कर दिता ऐ.⁷⁸¹

(प्रकासित 19:7 ऐ) मेमने दा ब्याह आ गया

प्रकासित 19:7 ऐ आओ खुश होन (खुश होन) ^{¶5463} ते खुश होओ (बहुत खुश होओ), ^{¶21} और आदर (महिमा) दे ^{¶1391} उसी;
ब्याह दे वास्ते ^{¶1062} मेमने दा (अर्नियन) ^{¶721} आ गया है,
ते उदी घरेआली ने (तैयार) कीता ऐ ^{¶2090} खुद तैयार (तैयार) कर दे ^{¶2090}

☞ प्रकासित 19:7 ऐ आओ अस खुश होचे ते बड़ा खुश होचे, ते उसी महिमा देचे।

लेई मेमने दा ब्याह (अर्नियन दा) ^{¶721} आई गई ऐ, ते उंदी पत्नी (औरत) ^{¶1135} अपने आप गी तैयार करी लेया ऐ।

- मेमने दा ब्याह आई गई ऐ ते उंदी जनानी (जल्दी गै पत्नी बनने आली) तैयार ऐ।

→ दुल्हन ते जनानी दे बिच ए ब्याह मसीह ते उदी कलीसिया ऐ।

→ ब्याह दे कपड़े दे बगैर मंदर दे बाहरले न्हरे च सुट्टी दिता जागा

जो दरबार (प्रकाशितवाक्य 11:2).⁷⁸²

- इक ब्याह दे दृष्टांत

मत्ती 22:1 ऐयीशु ने उन्दे कन्ने फिरी दृष्टान्तें कन्ने बोलया, ते आखया।

मत्ती 22:2 ऐसुर्ग दा राज किसे राजा दे समान ऐ, जिसने ब्याह किता ^{¶1062} अपने पुत्तर आस्ते, ऐ

मत्ती 22:11 ऐते जदु राजा मेहमानें गी दिक् खीए अंदर आया। ^{¶345}

उन उलथें इक मानू दिखया जेड़ा ब्याह दा कपड़ा नेई पहिरे दा हा।

मत्ती 22:12 ऐ ओस ने उसी आखया, “ दोस्त, ब्याह दा कपड़ा नेई लेइयै इलथै किय यां आया ?
ते ओह बेजुबान होई गया।

मत्ती 22:13 ऐ उस बेले राजा ने नौकरें गी आखया, “उस दे हलथ ते पैर बन्नी लैओ।

ते उसी अंदर सुट्टी दिता बाहरी ^{¶1857} अंधेरा, ^{¶4655} उथे रोना ते दांत चीरना होगा।

मत्ती 22:14 ऐ कीजे मते सारें गी सदेआ जंदा ऐ, लेकन थोड़े गै चुने गेदे ना।

→ परमात्मा दे पुत्तर दा ब्याह ते ब्याह दा कपड़ा लाने आलें दा ब्याह इस...

स्वर्ग दा राजा ब्याह च मते सारें गी सदेआ जंदा ऐ, पर किश गै चुने जांगन
ब्याह दा कपड़ा पहिन के मांस ते बैठो।

→ बिना ब्याह दे कपड़े (मत्ती 22:11 ऐ) दे बाहरले न्हरे च पाई दिता जागा

मंदर, जो कि दरबार (प्रकाशितवाक्य 11:2).⁷⁸³

- बाहरी न्हरे

- बेफायदा नौकर (जिसने अपनी प्रतिभा गी जमीन च छुपाई लेया, ऐ मत्ती 25:25 ऐ) बाहरी च ढलाई दिते जंदे न

अंधेरा: रोना ते दांत कटना होगा (मत्ती 25:30 ते).

- राज दे पुत्तर (जैतून दा पेड़ जिसदी कुदरती शाखाएं होंदियां न, जेड़ी परमात्मा दी भलाई दी ऐ;

या यहूदियों गी ⁷⁸⁴) बाहरले न्हरे च सुट्टी दिता जागा जिलथें रोना ते चीख-पुकार होगा

दंद (मत्ती 8:12 ऐ).

⁷⁸¹से कैद की गई प्रकासित 4:8 ऐ.

नाथ ^{¶2962} ईश्वर ^{¶2316} सर्वशक्तिमान जी ^{¶3841} जरियायीशु जो बुलाया जाता है मसीह जा प्रभु गी (यहोवा), ऐ ^{¶3068} ऐ "प्रभु (मुक्तिदाता) यीशु मसीह, ऐ
थुआदाईश्वर, कु'न ऐ मेमने दा (अर्नियन दा), ऐ ^{¶721} ते ईश्वर, जो में थामसीह (रुकरिन्थियों ५:१९), के माध्यम से फिर आ जाएगा
प्रभु ते मुक् तिदाता यीशु मसीह, ऐ ओह मेमना.

⁷⁸² दरबार दे बारे च, "[चित्र 21-2] स्वर्ग च नमां तम्बू & परमेसरे दा मंदर" दिक्खो।

⁷⁸³ वही।

⁷⁸⁴ "(प्रकासित 11:3-4 ऐ) दो (2) गवाह."

(प्रकाशित 19:8 ऐ) मेमने दी जनानी = पवित्र संत दा धर्म

प्रकाशित 19:8 ऐ ते उसी सजना (कपड़े) लाने दी मंजूरी दिती गई ही।⁴⁰¹⁶ महीन लिनन च,¹⁰³⁹ साफ ते सफेद (उज्ज्वल)²⁹⁸⁶: 1।
की वे महीन लिनन पवित्र लोकें दा धर्म ऐ।⁴⁰

☞ प्रकाशित 19:8 ऐ इकएन डी उसे (मेमने दी जनानी) इसगी महीन लिनन, साफ ते चमकदार कपड़े पाने दी अनुमति दिती गई ही,
लेई महीन लिनन दा ऐपवित्र संतों की धार्मिकता।

→ मेमने दी जनानी महीन लिनन (पवित्र संत दी धार्मिकता), साफ ते...

चमकीला।

(प्रकाशित 19:9 ऐ) परमात्मा दा सच्चे लोगो (मेमने दा ब्याह दा भोज)

प्रकाशित 19:9 ऐ उन मिगी आख्या, "लिखा।

धन हन, जेके ब्याह च सदे गेदे हन¹⁰⁶² मेमने दा रात्रिभोज (अर्नियन)⁷²¹ ऐ

ते उन मिगी आख्या, " ए सच्चियां गल्लां न (천하기를 기록하라 어린 양의 혼인 잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다
고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로)³⁰⁵⁶ परमात्मा दा।

☞ प्रकाशित 19:9 ऐ टीमूर्गी उने यूहन्ना गी आख्या।

"लिखो: 'धन्य हेन जो किसे गी सदे गेदे ना' शादी दा रात दा खाना आहलामेमने दा (अर्नियन दा)!"

ते उने मिगी आखेआ, "एहू गै न परमात्मा दे सच्चे लोगो."

→ मेमने दा ब्याह दा भोज परमात्मा दे गुस्से दे 7 शीशियें गी उंडेलने कोला पैहे शुरू होंदा ऐ⁷⁸⁵

→ ("प्रकाशितवाक्य 19:17-18 ऐ) महान परमात्मा दा भोज" होरे मती जानकारी आस्तै।)

(प्रकाशितवाक्य 19:10) यीशू दी गवाही = भविष्यवाणी दी भावना

प्रकाशितवाक्य 19:10 ते मैं उदी आराधना करने आस् ते उंदे पैरें च पेई गेया। उन मीगी आख्या, " दिखो तू ए नेई करो;

मैं तेरे साथी दास आं, ते तेरे भ्राएं दा जेड़े गवाही (गवाही) रखे न³¹⁴¹ यीशू दा: 1।

परमात्मा दी पूजा करो: गवाही (गवाही) दे वास्ते³¹⁴¹ यीशू दी भविष्यवाणी दी भावना ऐ।

☞ प्रकाशितवाक्य 19:10 टी then यूहन्ना उदी आराधना करने आस् ते उंदे पैरें च पेई गेया, पर उन् ने ग् लाया, "नहीं, मेरी भजन नेई करो।

मैं तेरे साथी दास हां, ते तेरे भ्राएं दा, जिन्हां दी गवाही ऐ यीशू.

पूजा ईश्वर! लेई यीशू दी गवाही ऐ भविष्यवाणी दी भावना."

- ऐ यीशू मसीह दा प्रगटीकरण⁷⁸⁶

१ पतरस १:३ धन्य हो परमात्मा दा ते बापसाडे दा प्रभु यीशू मसीह, ऐ

जेस उदी दया दे मताबक असेंगी फिरी पैदा कित्ता ऐ

दे जी उठने दे द्वारा इक जीवंत आशा गी यीशू मसीह मरे दे विचों, ऐ

1 पतरस 1:4 ऐ अविनाशी ते अशुद्ध, ते फीकी नेई होने आली विरासत गी।

तुंदे आस्तै सुर्ग च आरक्षित ऐ, ऐ

१ पतरस १:५ जिन्हें शक्ति द्वारा रखे जांदे हैं¹⁴¹¹ आहला ईश्वर विश्वास दे जरिए उद्धार च

प्रकट होने के लए तैमाय आखरी बारी च.

१ पतरस १:६ तुस इस गल्लै कन्नै बड़ा खुश ओ, भले आं हून किश समें आस्तै, जरूरत पौने परा

तुस मते सारे परीक्षाएं च भारी पेदे ओ।

१ पतरस १:७ ऐ कि तुंदे विश्वास दी परीक्षा नष्ट होने आले सोने कोला बी मती कीमती ऐ।

भले ही अग कन्ने परखया जा, पर स्तुति ते आदर ते महिमा आस्ते पाया जा

⁷⁸⁵ "[2] प्रकाशितवाक्य दी भविष्यवाणी दी टाइमलाइन" दा संदर्भ लैओ।

⁷⁸⁶ "[चित्र 19-क]," जां वीडियो 43. "(आत्मा दे नेतृत्व च) परमेसरे दे पुत्र।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-आत्मा-भगवान-दे-पुत्र-अगुवाई-दे/

के प्रकट होने पर **यीशु मसीह: 1**

१पतरस १:८ तुस जिसी नेई दिखदे ओ ते प्यार करदे ओ; उदे च, हालांकि हुन तुस उसी नेई दिखदे ओ, फिरी बी विश्वास करदे ओ। तुस अकथनीय ते महिमा कन्ने भरोचे दे आनन्द कन्ने खुश ओदे ओ।

→ **भगवान दातेबापसाडे दाप्रभु यीशु मसीह**, ने सानु इक जीवंत आशा च फिर पैदा कीता ऐ **के जी उठनायीशु मसीहमरे दे विचों**, साढ़े आस्ते उंने चीजें दा वारिस ऐ जेहिइयां अविनाशी न ते... अशुद्ध, जेहडे तुं दे आस्ते सुर्ग च आरक्षित ना एह विश्वास दे जरिए परमात्मा दी शक्ति कन्ने रखेआ गेदा हा उद्धार आस्ते, लेकन हुन इस अंत दे समें च तुं दे उपपर प्रगट होई गेदा ऐ। तैरे विश्वास दी परख कन् ने परख कीती गेई अग तां जे ओह प्रगट होने पर स्तुति ते आदर ते महिमा आस्ते पाई जा **यीशु मसीह**, ऐ जिसी तुसीं प्यार करदे हो।

(मसीह दे दुख ते बाद दी महिमा)

१पतरस १:९ अपने विश्वास दा अंत पां दे होई, इत्थू तकरमुक्ति दातेरी रूह दा. ^{॥ 5590}

१पतरस १:१० जिस मुक् ति दे बारे च नबियें ने बड़ी मेहनत कन्ने पुच्छ-गिच्छ कीती ऐ। जेस ने तुं दे उपपर औने आली अनुग्रह दे बारे च भविष्यवाणी कीती ही।

१पतरस १:११ क्या, या किस तरह दे समें दी आत्मा दी खोज करना **मसीह** जो था **उनमेंकिया संकेत दे**, ऐ जदू इसनें पैहें गे दे दुखें दी गवाही दित्ती **हीमसीह**, ते **महिमाएं गी** ^{॥ 1391} कि पालन करना चाइदा।

(प्रेरितों दे काम ३:१८ पर उन गल्लां, जिन्हां ईश्वर पैहलें अपने सारे नबियें दे मुंह कन् ने एह दस् सेया हा। ओह **मसीह** दुखी होना चाहिये, उसने इन्ना पूरा कीता ऐ।)

→ अकथनीय आनन्द कन्ने ते महिमा कन्ने भरोचे दे आनन्द कन्ने तुसें गी मिलगतेरे दा उद्धार **आत्माओं को** अपने विश्वास दे अंत च। इस उद्धार गी नबी ने बड़ी मेहनत कन्ने खोजी लेता जिनेंगी... तुं दे उपपर औने आली अनुग्रह दे बारे च भविष्यवाणी कीती ही, जेडे जानने दी कोशश करदे हे के कुस व्यक्ति जां समें गी **दी आत्मा दा मसीह** उं दे अंदर इशारा करदा हा जिय्यां उने दे दुखें दी भविष्यवाणी कीती **हीमसीह** ते **महिमाएं गी** कि इसदे बाद होंदा।

(पैहले जेल विच आत्माएं ओह ही हन जिन्हां नूं नूह दे दिनां विच विश्वास नहीं सी, जबकि...

जहाज बणाया जा रिहा सी, ते सिर्फ अट्ट आत्माएं गी गै पानी कन्ने बचाया गेआ। एह बपतिस्मा बी इसी चाल्ली दा आकृति ऐ जेडा हुन साढ़े जींदा होने कन् ने बचांदा ऐ **यीशु मसीह**, जो सुर्ग च चली गेदा ऐ, ते उपपर ऐ **दाहिने हाथ दा ईश्वर**, सुर्गदूतें, अधिकारियें ते शक्तियें गी उं दे अधीन करी ओड़ेया।)⁷⁸⁷

→ दी आत्मा **दीमसीह** नबियें च चली गे ते गवाही दित्ती **मसीह दा** दुख ते महिमा पहले ही।

१पतरस १:१२ जिन्दे उपपर प्रगट कित्ता गया, तां जे अपने आप गी नेईं

लेकन उने साड़े दी सेवा कित्ती।

जेडे तुसें गी सुसमाचार सुनाने आले आस्सेआ तुसें गी सुनेया ऐ

सुर्ग थवां उतरे गेदे पबित्तर आत् मा दे कन् ने; जिन्दे च सुर्गदूत दिखना चाहंदे ना।

१पतरस १:१३ इस आस् ते अपने मन दी कमर गी कड़ी बन्नी लैओ, ते सोझ रवो, ते अन्त तकर अनुग्रह दी आशा रखो

जेडा तुं दे कोल लेई आना ऐके खुलासे पर **यीशु मसीह**;

→ पर सुसमाचार **दीयीशु मसीह**, जो दुनिया शुरू होने दे बाद थमां गै गुप्त रखे दा हा, हुन बनी गेदा ऐ सादे सेवा करने आलें (प्रेरितें,

रोम 16:25 ऐ- ऐ26), ते कृपा तुं दे उपपर प्रगट होने दे समें गै लेई आई जाग **यीशु मसीह**।

⁷⁸⁷वीडियो 41. “परमेसर गी स्वीकार करने आस् ते प्रभु च बधी जाओ।”

(प्रकाशितवाक्य 19:11 ऐ) स्वर्ग खुला (गोरे घोड़े ते बैठे दा)

प्रकाशितवाक्य 19:11 ऐते में दिखया जे सुर्ग खुल्ली गेदा ऐ, ते दिखो इक सफेद घोड़ा;
ते जेका उदे उप्पर बैठे दा हा, उसी वफादार ते सच्चा आखया जंदा हा, ते धार्मिकता च न्याय करदा ऐ ते युद्ध करदा ऐ।

☞ प्रकाशितवाक्य 19:11 ऐयूहना ने सुर्ग गी खुल्ली दिखया, ते दिखया। **इक सफेद घोड़ा.**

ते जेका उदे उप्पर बैठे दा हा, उसी वफादार ते सच्चा आखदे हे, ते धार्मिकता च न्याय करदा ऐ ते युद्ध करदा ऐ।

➤ जो गोरे घोड़े पर बैठे?

- ऐ प्रभु आदाईश्वर, ऐप्रभु यीशु मसीह गी.⁷⁸⁹

➔ प्रभु ऐइक सच्चाते वफादारगुआह, तेईश्वर ऐजेड़ा सच्चा ऐ, ते उदी सच्चाई उदे पुत्र च ऐ, ऐ
यीशु मसीह, कु'न ऐनाथसब दा.⁷⁹⁰

(यिर्मयाह 42:5 फिरी उने यिर्मयाह गी आखया। प्रभु (यहवा)^{एच 3068} ऐ

जेकर अस सारें चीजें दे मताबक नेई करचे तां साढ़े बिच सच्चे ते वफादार गवाह बनो

जिसदे वास्ते प्रभु गी तेराईश्वरतुझे साडे कोल भेज देगा।)

(प्रकाशितवाक्य 19:12-14 ऐ) आरमागेडोन (परमेसर दा लोगोस & स्वर्ग च सेना ऐ)

प्रकाशित 19:12 ऐउंदी अकहीं अग दी लौ दे समान ही, ते उंदे सिर उप्पर मते सारे मुकुट (मुकुट) हे; ¹²³⁸ ऐ

ते उदे च इक नां लिखे दा हा, जेका कोई नेई जानदा हा, सिवाय उसी।

प्रकाशितवाक्य 19:13 ऐते ओह इक वस्त्र (वस्त्र) दा कपड़ा लाए दे हे। ²⁴⁴⁰ खून में डुबकी लगा: ते उदा नां द वर्ड (लोगोस) ऐ। ³⁰⁵⁶ परमातमा दा.

प्रकाशितवाक्य 19:14 ऐते सुअर्ग च सेना सफेद घोड़े: उप्पर सवार होईये उदे पिच्छे चलदी रेई।

☞ प्रकाशित 19:12 ऐ एच है आंखें जैसे थे अग दी लौ, ते उंदे सिर उप्पर मते सारे मुकुट (मुकुट) हे। ¹²³⁸ ऐ

एच ई था इक नाम लिखित कि अपने सिवाय कोई नहीं जानदा.

☞ प्रकाशितवाक्य 19:13 ऐ एच ई खून च डुबोए दा कपड़ा पहिरे दा हा, ते उंदा नां "परमातमा दा लोगो."

☞ प्रकाशितवाक्य 19:14 ऐते स्वर्ग च फौजें गी, महीन लिनन दे कपड़े, सफेद ते साफ, सफेद घोड़े उप्पर सवार होईये उंदे पिच्छे चलदे रेहा।

➔ सनी दा कपड़ा उस कन्न च बिछाया गेदा हा जित्थें यीशु गी रखेया गेदा हा, ते उंदे खून च डुबोया गेदा कपड़ा बी ऐ
सदेआ, परमातमा दे लोगो, जिन्हें गी सुर्ग च फौजी कपड़े पाए दे, सफेद ते साफ-सुथरे ना⁷⁹¹

✦ मेमने दे ब्याह दे बाद, स्वर्ग खुलदा ऐ, ते प्रभु यीशु मसीह गी सुर्ग च फौजें दे कनै औगा।

(प्रकाशित 19:15 ऐ) टीओह सर्वशक्तिमान परमात्मा दी उग्रता ते गुस्से दी दाख दा चूसदा ऐ

प्रकाशित 19:15 ऐते उदे मुंह च इक तेज तलवार निकलदी ऐ। ⁴⁵⁰¹ कि उदे कन्ने ओह राष्ट्रें गी मारी दे। ¹⁴⁸⁴ ऐ

ते लोहे दी छड़ी कन्ने उंदे उप्पर राज करगा।

ते ओह उग्रता दे दाख दारें गी रौंददा ऐ ते क्रोध ³⁷⁰⁹ सर्वशक्तिमान परमात्मा दा.

☞ प्रकाशित 19:15 ऐते उंदे मुंह च इक तेज निकलदा ऐ तलवार, ऐ ⁴⁵⁰¹ कि इसदे कन्ने गै उसी चाहिदा मार दे राष्ट्रें गी।

इक ओह खुद लोहे दी छड़ी कन्ने उंदे उप्पर राज करगा।

⁷⁸⁹ (प्रकाशितवाक्य 6:7-8 ऐ) 4वीं महर (एक हरे घोड़ा: मौत & नरक दा खुलना)। "प्रभु परमात्मा (देऊ 30:20 दे)

तुंदी जिनगी ऐ जिसदे कन्ने तुसंगी चिपकना पौगा मसीह है साडी जिनगी (कलुस 3:4 ऐ) कु'न ऐ प्रभु (क्योरिओस) ²⁹⁶² स्वर्ग तों, सिर्फ नाथ

(निरपेक्ष) दाईश्वर जो साडा है प्रभु यीशु मसीह (जं दे 1:4 ऐ) टी इस करिए, चुनो जीवन (मसीह) उंदी आवाज गी मनदे होई ते उंदे कन्ने चिपकने कन्ने.

⁷⁹⁰ से कैद की गई प्रकाशित 3:14 ऐ.

⁷⁹¹ वीडियो 43. "(आत्मा दे नेतृत्व च) परमात्मा दे पुत्र" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-आत्मा-भगवान-दे-पुत्र-अगुवाई-दे/.

ते ओह अपने आप गै दाखें दे उग्रता ते गुस्से दे सूत गी सुट्टदा ऐसर्वशक्तिमान परमात्मा.

→के मुंह से बाहरप्रभु यीशु मसीह गीजांदा इक तेज तलवार (रमा)⁷⁹²गैर-यहूदी जातिएं गी मारने आस्तै

→विजयी लोहे दी छड़ी कन्ने बी उंदे उपपर राज करंगन⁷⁹³ते कन्ने राज करगमसीहहजार साल तक.⁷⁹⁴

(प्रकाशितवाक्य 19:16 ऐ) आरमागेडोन (राजां दा राजा, ते प्रभुएं दा प्रभु)

प्रकाशितवाक्य 19:16 ऐते ओस ने अपनी वस्त्र पहिरे दा ऐ (एक वस्त्र)⁷⁹⁴ते उदी जांघ उपपर इक नां लिखे दा ऐ
राजाओं दा राजा, ते प्रभुओं दा प्रभु.

प्रकाशितवाक्य 19:16 ऐ इकंद उदे कपड़े ते जांघ उपपर इक नां लिखे दा ऐ राजाओं दा राजा, ते प्रभुओं दा प्रभु.

→ मेमने दा (अर्नियन दा)⁷²¹ ऐनाथ ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह (ईश्वर)सर्वशक्तिमान जी
हूँ, "राजाओं दा राजा, ते प्रभुओं दा प्रभु(जांप्रभु यीशु मसीह)," ऐ
तुसीं ओह होईश्वर (सर्वशक्तिमान जी, कुंन ऐमेमने दा (अर्नियन)⁷²¹) ते तुहाड़ेमा सच्चा हो.⁷⁹⁵

- आरमागेडोन (जिंदे च गोग & मागोग & प्रभु यीशु मसीह दा आना बी शामिल ऐ भजन संहिता 83)

(सब श्लोक विचइज 38:1-11 ऐदुबारा अनुवाद कीते गेदे न)

इज 38:1 ऐ प्रभु दा रेमाइजकिएल गी आखया।

इज 38:2 ऐमनुख दे पुत्र, गोग (मागोग दा राजा), ऐ

मागोग दी धरती (सारे जो रूसी नेता होने दे नाल भगवान दे खिलाफ लड़ाई लड़दे हन), ऐ

मेशेक (रूस दे दक्षिण-पश्चिम च देश, या...टर्की)

ते तुबल (रूस दे दक्षिण-पूर्व च देश, जाईरान), ऐ ते उदे खिलाफ भविष्यवाणी करो।

• जारी सशस्त्र संघर्ष & युद्ध

जारी "रूस-यूक्रेन युद्ध" दी शुरुआत उसलै होई ही जिसलै रूस ने 24 फरवरी 2022 गी यूक्रेन पर हमला कीता हा। एह जारी लड़ाई 2014 च रूसी संघ आसेआ क्रीमिया गी गैरकानूनी तौर उपपर विलय करने थमां शुरू होआ ऐ (20 फरवरी, 2014 - 21 मार्च, 2014)। मतलब फरवरी 2014 दे बाद समें कन्ने लड़ाई बधी गेई ऐ, ते रूस ने 24 फरवरी 2022 गी यूक्रेन पर हमला कीता हा, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून दे तैह रूसी महासंघ आसेआ क्रीमिया गी विलय करना गैरकानूनी हा, पर बराक हुसैन ओबामा द्वितीय, जेहडे अमरीका दे राष्ट्रपति हे 2009 थमां 2017 तगर, ने आखेआ (22 जून 2023 गी सीएनएन कन्ने अपने साक्षात्कार दे राएँ) जे 2014 च रूस दा क्रीमिया गी विलय करना 'कानूनी ते जायज' हा।

यूक्रेन दे नजरिये कन्ने ओबामा दा एह बयान 2014 च क्रीमिया गी विलय करने पर हस्तक्षेप नेई करने दा बहाना ऐ, जेकर ओबामा ने परदे दे पिच्छें थमां गै लड़ाई शुरू कीती तां यूक्रेन सही ऐ।

→ 20 फरवरी 2014 थमां लेइयै अज्ज तगर एह लड़ाई उस युद्ध च बदली गेई ऐ जेहडी "गोग ते...

मगोग". ज्यादातर लोग गोग कू वर्तमान रूस दे राजा व्लादिमीर पुतिन, लेकिन असली सिर मनदे हन

जिसने रूस-यूक्रेन दी लड़ाई शुरू कीती ही, ओहदे च बराक ओबामा दी बड़ी संभावना ऐ ते इस चाल्ली ओह "गोग (दे राजा...

नमें बाबूल राज्य, ते मसीह विरोधी गी आरमागेडोन आस्ते लड़ने आस्ते)," जो लीडर होग

मगोग दे (परमातमा दे खिलाफ लड़ाई लड़ने आले) असली "गोग ते मागोग युद्ध" आस्ते जेड़ा जल्द गै होग

हो जाओ⁷⁹⁶

(गोग दे खिलाफ भविष्यवाणी करो, प्रभु परमात्मा आखदा ऐ)

⁷⁹²वीडियो 20. "म्यान, तलवार, & दोधारी तलवारा" www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

⁷⁹³लोहे दी छड़ी: जेडे विजयी परमात्मा दे पुत्र दे कम्मं गी अंत तक रखदे न, उनेंगी गैर-यहूदी उपपर अधिकार दिता जाग

राष्ट्रों गी ते उंदे उपपर लोहे दी छड़ी कन्ने राज करग जि'यां कुम्हार दे टुकड़े-टुकड़े कीते गेदे बर्तनें दे समान जि'यां उसी हासल होई गेदा ऐ
उंदे पिता जी (प्रकासित 2:26 ऐ-27 ऐ).

⁷⁹⁴संदर्भ देना प्रकासित 20:4 ऐ.

⁷⁹⁵से केद की गई प्रकासित 5:6 ऐ.

⁷⁹⁶मसीह विरोधी दे विस्तार दे वास्ते " (प्रकासित 13:18 ऐ) 666 उस आदमी दी नंबर है जो जानवर दे सारे अधिकार दा प्रयोग करदा है."

अशूर, मिश्र, ते पथरोस, कुश ते एलाम थमां
ते शिनार ते हमत ते समुंदरे दे द्वीपें थमां

यशायाह ११:१२ दाते ओह राष्ट्रें आस्ते इक झंडा खडोग, ते इस्राएल दे बहिष्कृत लोकें गी इकट्टा करग
ते यहूदा दे बिखरे दे लोकें गी धरती दे चारों कोने थमां इकट्टा करो।

→ पैहली गोग ते मगोग दी लड़ाई दे बा'द अरमागेडोन होग, जेका प्रभु आस् ते समां होंग
अपने लोकें दे बचे दे लोकें गी (इस्राएल दे, यशायाह ११:१२ दा)
जो बचेगा अशूर, ते मिश्र, पथरोस, कुश, एलाम, शिनार, हमत ते द्वीपें थमां
समुंदर (यशायाह ११:११ दा).⁷⁹⁹

- ऐटी ओह कनान दी धरती (इस्राएल दी धरती)

यहोसा 22:9 ऐते बच्चे (पुतर) ^{एव 1121} केरुबेन ते बच्चें (पुतरें) दा ^{एव 1121} गेद दा

ते मनशे दा आधा गोत्र वापस आया ते बच्चें (पुतरें) कोल ंः चली गेआ ^{एव 1121} के इस्राएल दा
से बाहर शिलोह, जो जमीन विच है (धरती गी) ^{एव 776} के आहला कनान, दे देश च जाना गिलियद, ऐ
जमीन गी (धरती गी) ^{एव 776} के उनके कब्जा, जिसदे उप्पर उंदे उप्पर कब्जा हा;
दे मुताबिक शब्द दा (मूंह) ^{एव 6310} आहला प्रभु गी मूसा दे हत्थे कन् े।

➤ कनान दी धरती कित्थे है?

- शिलोह पश्चिमी तट पर, यरूशलेम दे उत्तर च, आधुनिक इजराइली बस्ती दे कस्बे शिलो दे पश्चिम च ते फिलिस्तीनी कस्बे तुर्मस आया दे उत्तर च स्थित ऐ।⁸⁰⁰
- गिलियद यरदन नदी दे पूर्व च पूरे इलाके गी दस्सेआ जंदा ऐ।⁸⁰¹

→ कनान दी धरती इजराइल, फिलिस्तीन, पश्चिमी तट समेत यरूशलेम च शामिल ऐ,
ते यरदन नदी।

- प्रभु जी ^{एव 136} के ईश्वर ^{एव 3069} में वादा किता इज 37:12 ऐ, कि ओह सारे घर दी कन्न खोल देग

इस्राएल दाते उमेंगी अपनी कबरें चों कड्डी लैओ ते उमेंगी अंदर लेई आओ इस्राएल दी जमीन।

- गोग (मसीह विरोधी) दे खिलाफ औग इस्राएल दी जमीन (इज 38:18 ऐ) की जेईश्वरे
इस्राएल दे घराना कन्ने देने दा वादा किता इस्राएल दी धरती दी जमीन लेई इक सनातन
कब्जा, ऐ पर उसी मारी दिता जाग प्रभु आरमागेडोन दी लड़ाई चा।

[चित्र 19-1] दो गोग ते मगोग युद्ध & आरमागेडोन

जीओजी& मगोग में	इकमगेडोन	जीओजी एंड मगोग द्वितीय
ई। ईजकीएल (<u>इजे 38-39</u> च)	आर Revelation (<u>प्रकाशितवाक्य 16</u> <u>ऐ</u> & <u>प्रकाशितवाक्य 19</u> ऐ) & इजकीएल (<u>इजे 38-39</u> च)	आर Revelation (<u>रेव 20</u> ऐ)

⁷⁹⁹ आरमागेडोन दे बारे च होर मती जानकारी आस्ते दिक्खो “(प्रकाशितवाक्य 16:16 ऐ) आरमागेडोन दी शुरुआत, ऐते (प्रकाशितवाक्य 19:15-16 ऐ)।”

⁸⁰⁰ विकिपीडिया। शिलोह। (2023, 12 सितंबर) दी।

[https://hi.wikipedia.org/wiki/Shiloh_\(biblical_city\)#:~:text=शिलोह%20हार्ई%20सकारात्मक%20पहचान%20कीती%20गई](https://hi.wikipedia.org/wiki/Shiloh_(biblical_city)#:~:text=शिलोह%20हार्ई%20सकारात्मक%20पहचान%20कीती%20गई)

ऐ. फिलिस्तीनी%20कस्बा%20के%20तुर्मस%20अय्या।

⁸⁰¹ विकिपीडिया। गिलियद। (2023, 1 अगस्त) दी।

<https://hi.wikipedia.org/wiki/Gilead#:~:text=गिलियड%20is%20istuated%20in%20modern,Ajloun%2C%20Jerash%20and%20Balka%20Governorates.&text=गिलियड%20is%20is%20the%20नाम,पुरुष%20में%20आधुनिक%20दिन%20इजराइल.>

टीइमेलान	बीefore महान संकट शुरू होंदा ऐ (इज 38:1-7 ऐ)	6वीं शीशी डालने के बाद (प्रकाशितवाक्य 16:16 ऐ)	इफter 1,000-साल समप्त होंदा ऐ (प्रकासित 20:7 ऐ)
जीओजी	जीओग दा मगोग (टीओह जेड़ा मसीह दे विरोधी बनग) 802	नवे बाबुल राज्य दा राजा, मसीह विरोधी.	मगोग दी धरती दा राजा (प्रकासित 20:8 ऐ)
एमअगोग	गैर-यहूदी जाति जेड़े परमात्मा दे खलाफ लड़ाई लड़दे ना ⁸⁰³	सारी दुनिया दी जमीन दे सारे राजा, अजगर, 1st जानवर & झूठे नबी (प्रकाशितवाक्य 16:13-14 ऐ).	राष्ट्र (जमीन दे 4 कोने) शैतान दे धोखा दे (उंदी गिनतरी समुंदरे दे रेत दे समान ऐ, प्रकासित 20:8 ऐ)
युद्ध दा मैदान	पहाड़ें (इज 39:17 ऐ) दी जमीन उपपर ⁸⁰⁴ झसाएल (इज 38 ऐ).	मेगिदो दा पहाड़ ⁸⁰⁴	पवित्र संत ते प्रिय नगर दा डेरा (प्रकासित 20:9 ऐ)
लड़ाई (युद्ध)	प्रभु जी ('vedōnay) दा ^{136 ऐ} भगवान दा (y ^{hōvā}) ^{3069 ऐ} क्रोध उंदे गुस्से च उसले बधी जाग जिसले गोग झसाएल दे धरती उपपर औग (इज 38:18 ऐ).	प्रभु(यहवा) भेज देगा इक आग परमगोगते ओह जानन गे के ओह गै ऐयहोवा दा (इज 39:6 ऐ). टीओह सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने मुंह थमां निकलने आही तेज तलवार कन्ने राष्ट्रों गी मारग (प्रकाशितवाक्य 19:12-14 ऐ).	परमेसरे थवां अग सुअर्गे थवां उतरी औग, ते उनेंगी भाग (प्रकासित 20:9 ऐ).
नतीजा	(सर्वशक्तिमान परमात्मा चाहना सारे राष्ट्रों गी इकट्टा करो यरूशलेम दे खलाफ लड़ने आस्ते, ते ओह बाहर चली जाहा ते उंदे कन्ने लड़ना आरमागेडोन दी लड़ाई, ऐ इज 38:4 ऐ, ऐ प्रकाशितवाक्य 16:16 ऐ).	झसाएल दी जमीन च इक बड़डा हिलना-डुलना। जमीन उपपर बैठे दे सारे मनुख प्रभु यीशु मसीह दी मौजूदगी (आने) कन्ने हिल जांगन (इज 38:19-20 ऐ).	जेड़ा शैतान उनेंगी धोखा दिंदा हा (उन्हें जातियें गी धोखा दिता गेदा हा) उसी अग ते गंधक दी झील च सुट्टी दिता गेआ ते दिन-रात हमेशा लेई सताया गेआ (प्रकासित 20:10 ऐ).
जम्मूdgment दा		7 महीने तक झसाएल दा घर गोग (मसीह विरोधी) गी झसाएल च अपनी भीड़ कन्ने हमोगोग दी घाटी च कन्न च दफनाई देग (इज 39:11-16 ऐ). झसाएल दे शैहें च रौहे आह्ने अपने हथियारों कन्ने आग लाई देंगन ते उनेंगी 7 साल तगर जला देंग (इज 39:9-10 ऐ).	जो च नेई लिखे गेदे न जिंदगी दी किताबअग दी झील च सुट्टी दिता जाग (प्रकासित 20:15 ऐ).

(गोग इक बुरी योजना बनांदा ऐ)

इज 38:7 ऐ तू होतेयार, तेतेयार होनाक्योंकि अपने, तू ते तेरी सारी दल जेड़ी तेरे कन्ने इकट्टी ऐ, ऐ ते तू उंदे आस् ते पहरेदार बनो।

→ क्योंकि इस्राइल बिना दीवारों दे ग्राएं च सुरक्षित रौहने दा इकमात्र समां 1000 सालें दे दौरान होग, इजकिएल 38 ऐ 1000 सालें दे दौरान इक समें दा वर्णन करदा लब्बदा ऐ, पर असल च एह समें दा वर्णन करदा ऐ महासंकट कोला पैहे। इस करिए एह समझना जरूरी ऐ जे इजराइली दा किस चाल्ली ते किस कारण ऐ बाधाएं (दीवारें) बनाईयां गेइयां, ते कन्ने गै भविक्ख दी स्थिति केहू होग।

⁸⁰²“(प्रकाशितवाक्य 19:16) आरमागेडोन (राजाओं दा राजा, ते प्रभुओं दा प्रभु)।

⁸⁰³देशों की सूची मगोग में सूचीबद्ध है इज 38:3-6 ऐ. इजराइल दे निम्नलिखित आसपास दे मुलखें गी फौजी गठबंधन कीता जाग

इजराइल पर हमला करना: ईरान, सूडान, लीबिया, तुर्की दा मध्य एशिया, तुर्की दा पूर्वी एशिया, ते रूस, गोग ते मगोग दी लड़ाई शुरू करने लेई।

⁸⁰⁴आरमागेडोन दा मतलब ऐ “मेगिदो दा पहाड़”। “(प्रकाशितवाक्य 16:16 ऐ) आरमागेडोन दी शुरूआत” होर मती जानकारी आस्ते।


[चित्र 19-2] इजराइली पश्चिमी तट दी बाधा

- इजराइली सरकार ने जून 2002 च सुरक्षा उपाय दे तौर उप्पर पश्चिमी तट दे बैरियर वा निर्माण शुरू कीता हा अपने नागरिकें गी फिलिस्तीनी आत्मघाती हमले थमां बचाना।⁸⁰⁵ इस इजरायली पश्चिमी तट दी बाधा, जिस च पश्चिम शामिल न बैंक दी दीवार ते पश्चिमी तट दी बाड़, इक बक्ख-बक्ख बाधा ऐ जिसदी कुल लंबाई 708 किलोमीटर (440 मील) ऐ ते ए कंक्रीट दी दीवार 9 मीटर ऊंची, इजराइल ने ग्रीन लाइन दे कन्ने-कन्ने ते पश्चिमी तट दे किश हिस्से दे अंदर बनाया हा।

→ पर इजराइल-फिलिस्तीनी टकराव च एह इक विवादित तत्व रेहा ऐ। इजराइल इसगी इक जरूरी सुरक्षा दे तौर उप्पर दिक्खदा ऐ फिलिस्तीनी राजनीतिक हिंसा दे खिलाफ बाधा, जदके फिलिस्तीनी इसगी नस्लीय अलगाव ते ए इजरायली रंगभेद वा प्रतिनिधित्व।⁸⁰⁶

पश्चिमी तट दे बाधाएं दे प्रकार⁸⁰⁷

- नश्रभ तट के त्रास तकरीफन 705 स्थाई बाधाएँ हैं जो नेलेस्टाइन त्रय रोक यखती हैं मा ननमोत्रण कयते हैं वाहन, ते किश मामलें च पैदल चलने आह्ने, आंदोलन बाधाएं च 140 पूरी चाल्ली जां कर्दे-कर्दे स्टाफ बी शामिल न नाके, 165 बिना स्टाफ दे सड़क गेट (जिदे चा लगभग आधे सामान्य तौर उप्पर बंद न), 149 मिट्टी दे टीले ते 251 होर बिना स्टाफ दे बाधाएं (सड़क दे रुकावट, खाई, मिट्टी दी दीवारें बगैरा)।



*स्रोत ने दी: मानवीय मामलें दे समन्वय आस्ते संयुक्त राष्ट्र वा दफतर (कब्जा कीता गेदा फिलिस्तीनी इलाका)

- प्रभु ('ādōnay) दा¹³⁶ ईश्वर (y'hōvâ)³⁰⁶⁹ ऐ (इज 38:10 ऐ) तन्बीह् करना एसगोग (मसीह दे विरोधी, इज 38:3 ऐ) इकट्टा करने आस्ते अपनी कंपनी कन्ने "निरंतर तैयारी" करना (इज 38:7 ऐ). एह् गोग वा वर्णन ऐ जेहड़ा प्रभु दे खलाफ आरमागेडोन दी लड़ाई दी तैयारी करदा ऐ। इस बीच, जेके तलवार थवां कड़डे गेदे हे, उमेंगी इस्राएल दे पहाड़ें उप् पर धरती उप् पर कट्टे किता गेदा ऐ, जेके लगातार उजाड़ रेहंदे हे।

- की भूमिका पर विचार करदे हुए संयुक्त राष्ट्र ने दी ते इसदी रूचि कन्ने 666 ऐ च प्रकासित 13:17 ऐ, अंश इशारा करदा ऐ

⁸⁰⁵मानवीय मामलें दे समन्वय आस्ते संयुक्त राष्ट्र वा दफतर। अप्रैल 2004 दी अपडेट रिपोर्ट। इजराइल दे जुदाई वा असर

प्रभावित पश्चिमी तट दे समुदायें पर बाधा - फिलिस्तीन वा सवाल. 12 मार्च, 2019 दी <https://www.un.org/unispal/dस्तावेज/ऑटो-इंसर्ट-199846/> वा.

⁸⁰⁶विकिपीडिया। इजरायली पश्चिमी तट दी बाधा, 29 जुलाई, 2023। https://en.wikipedia.org/wiki/इजराइली_वेस्ट_बैंक_बैरियर.

⁸⁰⁷मानवीय मामलें दे समन्वय आस्ते संयुक्त राष्ट्र वा दफतर - कब्जा कीता गेदा फिलिस्तीनी इलाका | 700 तों वी वद्ध रोड

पश्चिमी तट दे अंदर फिलिस्तीनी आंदोलन गी नियंत्रित करने आह्लियां बाधाएं. 8 अक्टूबर, 2018 दी।

<https://www.ochaopt.org/content/700-ओवर-सड़क-बाधा-नियंत्रण-फिलिस्तीनी-आन्दोलन-पश्चिम-बैंक-भीतर#:~:text=पश्चिम%20बैंक%20बाधा%20प्रकार,%2C%20पृथ्वी%20दीवारें%20सी%20आदि>

शैतान दे राज च न्हें दे दिन या महान संकट दे दिन दे आने तक प्रभु यीशु मसीह गी.

→ पर महासंकट दे दौरान ओह किस चाल्ली सुरक्षित जी सकदे न (इज्जेज 38:8 च)?

- वर्तमान युद्ध & शांति ते सुरक्षा

- संयुक्त राष्ट्र ने दी अपने मानव विकास एजेंडे पर कम्म करा करदा ऐ जिसदा शीर्षक ऐ, “शांति ते सुरक्षा”,⁸⁰⁸ ते 18-19 सितंबर, 2023 गी आयोजित “संयुक्त राष्ट्र दे ‘स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी)’ शिखर सम्मेलन” दौरान उने आक्खेआ इजराइल शांति योजना अपने 7 साल दे एसडीजी एजेंडे गी. 19 सितंबर 2023 गी अमरीका दे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र च अपनी गल्ल आक्खी ही जे “इजराइल-फिलिस्तीनी टकराव दा दो राज्यें दा हल हासल करने लेई इजराइल दी धरती गी बंडना लोडचदा ऐ.” फिर 22 सितंबर 2023 गी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कीता जे “इजराइल सऊदी अरब कन्नै ऐतिहासिक शांति दे कगार पर ऐ.”⁸⁰⁹

→ फिर 7 अक्तूबर 2023 गी, तम्बू दे पर्व (सुककोत) दे आखरी दिन, बेंजामिन नेतन्याहू ने घोशणा कीती

गाजा च फिलिस्तीनी आतंकवादि एं इजराइली इलाके च हजारों रॉकेटों गी लाने दे बाद हमारा कन्नै लड़ाई लड़ी गई ही, जिस च जानलेवा...

ते हजारों गी घायल करदे होई ए लड़ाई, जेड़ी भजन संहिता 83 दी भविष्यवाणी दी पूर्ति प्रतीत होंदी ऐ, 50 साल होई ही

सालें बाद “योम किप्पर युद्ध” जो 6 अक्तूबर, 1973 गी शुरू होआ हा (नोट: यम किप्पर दा मतलब ऐ “दे दिन दा...

प्रायश्चित करना”)।

नोट: तुरही दी पर्व दो दिनें च मनाया जंदा ऐ कीजे अमावस्या कुसै बी दिन दिक्खी सकदा ऐ

कि कोई वी नहीं जानदा, जिसदा मतलब ए हो सकदा है कि मनुख दे पुत्र दा आना (पैहला रेप्पर) हो सकदा है

तुरही दी पर्व कन्नै जुड़े दा। पर ऐतिहासिक युद्ध दी टाइमलाइन दे मुताबिक, पैहला रेप्पर करी सकदा हा

प्रायश्चित दे दिन दी पर्व (योम किप्पर युद्ध), या तम्बू दे पर्व (इस्त्राएल-

सुककोत पर हमारा जंग). दूजे शब्दां एच, पैहला रेप्पर “कदे वी” हो सग्दे ते किसे कूं पता काहनी किता वेंदे

उदा दिन ते घड़ी पर सुर्गा च पिता।

(मत्ती 24:36 ऐ “मनुख दे पुत्र दे आने दा दिन ते घड़ी सुअगें च पिता दे अलावा कोई वी नेई जानदा”)

- अचानक विनाश चोर दे रूप च ओग न्हें समें च

१थ 5:3 ऐ कीजे जदुं ओह ग् लाडन, रमान¹⁵¹⁵ ते सुरक्खेआ (दुश्मनें ते खतरे थमां सुरक्षा),⁸⁰³

अदुं अचानक तवाही³⁶³⁹ उदे उप्पर औंदा ऐ, जिय्यां गर्भवती जनानी गी प्रसव करना;
ते ओह नेई बचन।

१थ 5:4 ऐ लेकन हे प्राओ, तुस न्हेंरे च नेई ओ, तां जे ओह दिन तुसें गी चोर दे समान ढूढना

१थ 5:5 ऐ तुस सारे बच्चे (पुत्र) ओ⁵²⁰⁷ रोशनी दा, ऐ⁵⁴⁵⁷ ते बच्चे (पुत्र) दिन दा: 1।

अस रात दे नेई आं, ना न्हेंरे दे।

→ जेकर उंदी “इजराइल शांति योजना” दा सरबंध ऐ “शांति ते सुरक्षा” च वर्णन कीता गेदा ऐ १थ 5:3 ऐ, फिर अचानक विनाश (जो शैतान दा ऐ, १कुरिन्थियों ५:५) न्हेंरे च औने आहें उप्पर औगा। इस आयोजन दी शुरुआत बड़ी संभावना ऐ बड़ी कष्ट दा.

- दूजे शब्दां च, “शांति ते सुरक्षा” गी हून थमां साल दी कुसै बी सर्दियें च घोशित कीता जाई सकदा ऐ, जेहड़ा इस करी मता महत्वे आह्ना ऐ मत्ती २४:२०-२१ ऐ:
1।

मत्ती 24:20 ऐ पर तुस प्रार्थना करो के तुंदी पलायन (पलायन) नेई होऐ जाड़ा दा, ना ही परसब दे दिन: 1।

मत्ती 24:21 ऐ कीजे तदू गै होग बड़ी कष्ट, ऐ

जेड़ा संसार दे शुरू थमां लेइयै अज्ज तक नेई हा, ना ते कदें बी नेई होग।

- एहदे अलावा, 2030 तगर उंदी 7 एं बरें दी योजना दा ब्यौरा “2023 संयुक्त राष्ट्र ढांचे च दिता गेआ ऐजलवायु परिवर्तन पर कन्वेनन (सीओपी28),” जेह् दी यूएनएफसीसीसी दी पार्टियें दा इक सम्मेलन ऐ जेह् डा 30 नवंबर थमां 12 दिसंबर, 2023 तगर होग (ब्यौरा संयुक्त राष्ट्र दी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ऐ)।
- जंग दा कारण (लूट लैना)

⁸⁰⁸ इंटरनेट पर संयुक्त राष्ट्र दी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध शांति ते सुरक्षा आलेखें दी तलाश करो।

⁸⁰⁹ सऊदी अरब कन्नै ऐतिहासिक शांति दे कगार पर इजराइल, नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र च घोशणा कीती। (2023, 22 सितंबर) दी। संयुक्त राष्ट्र समाचार।

इजेज 38:8 च कई दिन बादतुसैं गी बुलाया जाग. आखरी सालें च तुस उनें दी धरती उपर औगे तलवार से वापस लायाते इस्त्राएल दे फ्हाड़ें उप पर मते सारे लोकें थवां कट्टे होए। जेड़ा लगातार उजाड़ रेहा हा; उनेंगी लोकें च बाहर कड्डी लेता गया ते हुन ओह सारे सलाम रौंदे हन।

→गोग अंत दे सालें च इस्त्राएल पर आक्रमण करग, जेहड़ा आरमागेडोन दी लड़ाई कोला पैह्ले ऐ, जिसदी अगुवाई गोग ने कीती ऐ, जेहड़ा... बकख-बकख युद्धें च शामिल हे जिसलै ओह अमरीका दे 44में राष्ट्रपति (रूस-यूक्रेन युद्ध)। भविष्य च गोग ते मगोग दी लड़ाई शुरू करने आस्तै उसी गोग दे रूप च संदर्भित कीता जंदा ऐ, ते प्रकट होग मसीह दे विरोधी दे रूप च आरमागेडोन दी लड़ाई आस्ते जेड़ी इसदे बाद होग।

इज 38:9 ऐतुस उपर चली जाओगे, तूफान दे समान आओगे, धरती गी बादल दे समान ढकदे ओ, तुस ते तुंदी सारी पट्टी, ते तुंदे कन्ने मते सारे लोका।

इज 38:10 ऐइस तरह कहते हैंप्रभु((’ādōnay) दा¹³⁶ ईश्वर(y’hōvâ):^{एव 3069} “उस दिन ऐसा होग जे तुंदे दिलै च विचार औगना।

ते तुस करगे**बुरी योजना बनाओ: 1।**

इज 38:11 ऐते तुस आखगे, मैं दी धरती दे खिलाफ जाहंगा**बिना दीवारें दे प्रां; मैं उन लोकें दे खिलाफ जाहंगा जेड़े आराम च न, जो सुरक्षित रहंदे ने, सारे निवास करदेबिना दीवारें दे, ते होने दाना ही बारते नेईदरवाजे.**

इज 38:12 ऐलूट लैना ते शिकार लैना,

उजाड़ थाहरें उपर हत्थ घुमाने आस्तै जित्थें हन लोक रौंदे न, ऐ ते राष्ट्रें च कट्टे होए दे लोकें दे खिलाफ। जिन्हां नूं मवेशी ते माल मिलया है, जो धरती दे बिच्च रहंदे हन।

→हासिल करने दे मकसद कन्ने बड्डी वैश्विक बैठकें दे माध्यम कन्ने **“शांति त े सुरक्षा,”** शैतान बड़ी संभावना ऐ सारे राष्ट्रें गी घोखा देइयै उंदी झूठी ते बुरी शांति योजना (जि'यां घोशणा द्वारा... प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 18-19 सितंबर, 2023 गी)। शायद इस कन्ने इस्त्राएल गी धकेल दिता जाग पश्चिमी तट दे पार बाधाएं गी दूर करो, जिसदे कन्ने एह ए निश्चित समें दी अवधि⁸¹⁰

- ऐजबकि नेता झूठी शांति, अचानक तबाही (**१थ 5:3 ऐ**) या युद्ध होने दी बड़ी संभावना ऐ ब्रेक आउट, ते मसीह विरोधी कूं दृश्य उते प्रगट करण किते हेक सही पल होसी।

इज 38:13 ऐशेबा,⁸¹¹देदान,⁸¹²(या सऊदी अरब दा)

ते तरशीशा (अमेरिका, पश्चिमी यूरोप) दे बपारी,⁸¹³ ते उंदे सारे शेर तुसैं गी आखडना

'लूट लेने आए हो?क्या तुसैं अपनी कंपनी इक शिकार लेई लेई ऐ, ऐ

चांदी ते सोना गी लेई जाने आस्तै, ऐमवेशी ते माल छीनना, ऐबड़ी लूट लेने के लिये?'

- इजराइल दे सहयोगियें (अमेरिका, ते पश्चिमी यूरोप) आस्तै, इन्हें भरपूर संसाधनं गी गोग ते मागोग दे इजराइल पर हमले दा कारण समझेआ जंदा ऐ।

→अक्तूबर 2015 च गोलान हाइट्स च तेल दी इक बड्डी भंडार दी खोज कीती गई ही, ते 2020 थमां,

इजराइल नै मिस्त्र कन्ने कुदरती गैस गी मिस्त्र च निर्यात करने लेई 15 अरब डालर दे सौदे पर सहमति जताई ऐ, जित्थै थमां ओह... यूरोपीय देशें च भेजेआ जंदा ऐ। फिर 2023 च इजराइल ने अपनी प्राकृतिक गैस गी बधाने पर सहमति जताई ऐ मिस्त्र च निर्यात करदा ऐ।

⁸¹⁰“[चित्र 19-2] इजराइली पश्चिमी तट दी बाधा” दा संदर्भ लैओ।

⁸¹¹दक्षिणी अरब दा इक कौमा

⁸¹²दक्षिण अरब दी इक जगहा

⁸¹³साइट अनजान पर शायद साइप्रस या स्पेन चा

→ यूक्रेन च यूरोप दा दूआ बड्डा ज्ञात गैस भंडार ऐ ते कीमती दा बड्डा निर्यातक ऐ
धातुएं जि'यां लिथियम, ते कन्नै गै वैश्विक खाद्य पदार्थ जि'यां मकई ते कणका जिवें इजराइल वास्ते हे, असली
2014 थमां रूस दे क्रीमिया गी गैरकानूनी तौर उप्पर विलय करने दे पिच्छें कारण जेहड़ा रूस च बधी गेआ
2022 च यूक्रेन पर आक्रमण, विशाल प्राकृतिक संसाधनें (ऊर्जा, कीमती धातुएं,
ते खेतीबाड़ी) यूक्रेन च उपलब्ध ऐ।

- रूस दे हमले दा इक होर कारण यूक्रेन दी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) च शामिल होने दी इच्छा कन्नै जुड़े दा ऐ⁸¹⁴साथ ही यूरोपीय संघ (ईयू) दा⁸¹⁵थमां आरुस्सिया नाटो विस्तार दा विरोध करदा ऐ।

→ कीजे यूक्रेन नाटो दा इक करीबी साझेदार ऐ, इस करी नाटो ने रूस दे अमानवीय हमले दी निंदा कीती ऐ
यूक्रेन। अपनी फौजी क्षमताएं गी दिक्खदे होई अमरीका (अमेरिका) ने इक बड्डा भूमिका निभाई ऐ^च
1949 च संगठन दी शुरूआत थमां गै नाटो दी फौजी शक्ति स्थापित करना।

- ऐसदोम ते अमोरा प्रभू दे दिन तों पहलां (परमात्मा दा संदेश इक सेवक नू)

- सितंबर 1984 च, रोमानियाई पादरी डुमित्रु दुदुमन गी बेबिलोन (अमेरिका) दे फेसले दे बारे च परमात्मा थमां इस चाल्ली दा संदेश मिलेआ:⁸¹⁶

(१) ऐ.	इस पर चढ़ जाओ। मैं उंदे बगल च कुसै चीजे पर चढ़ी गेआ। पता नहीं क्या था। भैं बी जानता शू कक भैं सोया नशी था। कोई सपना नहीं था। एह् कोई दर्शन नैई हा। मैं उर्वे ही जागदा सी जिवें हुण हा।
-----------	--

(१) आखरी दिनां विच, ईश्वर शरीर च रौहे आहें गी अपनी आत्मा उंडेला, पैहलेंदा महान ते उल्लेखनीय दिन
प्रभू.

प्रेरितों दे काम २:१७ ते आखरी दिनें च होग ईश्वर, ऐ

मैं अपने से उझिल देगा रुहसारे शरीर उप्पर: 1।

ते तुदे पुत्तर ते धीयां भविष्यवाणी करंगन, ते तुदे जवान दर्शनें गी दिक्खन।
ते तुदे बुजुर्ग सपने दिखडन।

प्रेरितों दे काम २:१८ और मेरे परनौकर ते मेरे उप्परनौकरानी मैं उन दिनां च उंडेलना अपने रुह;

ते ओह गै करडन भविष्यवाणी करना: 1।

प्रेरितों दे काम २:१९ ते मैं उपर सुर्ग च चमत्कार ते थल्ले धरती उप्पर चिन्नें दा प्रदर्शन करगा;

खून, ते अग्ग, ते धुए दा वाष्प;

प्रेरितों दे काम २:२० सूरज न्हरे च, ते चंद्रमा खून च बदली जागा।

उसदे कोला पैहें प्रभू दा बड़ा ते उल्लेखनीय दिन आओ: 1।

(२) ऐ.	उने मिगी सारा कैलिफोर्निया दस्सेया ते गू लाया, "एह सदोम ते अमोरा ऐ! एह सब किश, इक दिन च गै जली जाहू ग! एह पाप पबित्तर दे कश चली गेदा ऐ।" फिर उसने मिगी लास वेगास लेई गेया। "ए सदोम ते अमोरा ऐ। इक दिन च गै जली जागा।" फिर उसने न्यूयार्क दा राज्य दस्सेया। "तुभ जानते शो कक मश क्मा शै ?" उसने पुच्छया। मैं आख्या, "नहीं।" उनें आखेआ "एह न्यूयार्क ऐ। एह सदोम ते अमोरा ऐ! इक दिन च एह जली जागा।" फिर उसने मिगी सारा फ्लोरिडा दस्सेआ, "एह फ्लोरिडा ऐ।" उसने कहा। "ए सदोम ते अमोरा ऐ! इक दिन च गै जली जागा।" फिरी ओह मिगी उस चट्टान पर वापस घर लेई गेआ जित्थें अस शुरू कीते हे। "च <u>इक दिन</u> जल जाह्या! ए सब मैं तुसें गी दस्सेआ ऐ" - मैं आखेआ, "एह किस चाल्ली जली जाग?" उनें आखेआ, "याद रक्खो जे मैं तुसें गी केहू आखना ऐ, कीजे तुस टेलीविजन, रेडियो ते कलीसियाएं च जाओगे। तुसें गी जोरदार आवाज च चिल्लाना पौगा मत डरना, कीजे मैं तुदे कन्ने रौंटागा।" मैं आखेआ, "मैं किस चाल्ली जाई सकना ऐ? इत्थें अमरीका च मिगी कुन जानदा ऐ? इत्थें मैं किसे नू
-----------	---

⁸¹⁴सितंबर 2023 तगर नाटो दे सदस्य देशें दी सूची: अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, नार्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, मैसिडोनिया गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, संयुक्त किंगडम ते संयुक्त राज्य अमेरिका।

⁸¹⁵सितंबर 2023 तगर यूरोपीय संघ (ईयू) दी इक सूची: आस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस गणराज्य, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन ते स्वीडन।

⁸¹⁶मदद मंत्रालयें दा हत्य, अमेरिका आस्ते संदेश, https://www.handofhelp.com/vision_1.php

<p>नहीं जानदा" उसने आख्या, "अपने आप गी चिंता नेई करो मैं तेरे अगो जाऊंगा मैं अमेरिकी कलीसियाएं च मती चंगाई करगा ते तुदे आस्तै दरवाजे खोल्लना ऐ। लेकन जो मैं तुहानूं दसदा हां, ओदे अलावा होर कुछ ना बोलो। एह् मुख् जली जाह्य।"</p> <p>मैं आख्या, "तुस कलीसिया कन् ने के करगे?" उन् ने ग् लाया, "मैं कलीसिया गी बचाना चांहदा ऐ, पर कलीसियाएं मिगी छड्डी ओडेया ऐ।" मैं आख्या, "उन्हें तुसेंगी किस चाल्ली छड्डी दिता?" उन् ने ग् लाया, "लोग अपने आप गी स्तुति करदे ना जेका इज्जत लोकें गी यीशु मसीह गी देना चाईदा ऐ, ओह अपने आप गी लेई लैंदे ना कलीसियाएं च तलाक होंदा ऐ। कलीसियाएं च व्यभिचार होंदा ऐ। कलीसियाएं च समलैंगिक बी ऐ। गर्भपात बी होंदा ऐ।" कलीसियाएं च ते बाकी सारे पापें च जेह्डे संभव ना।</p> <p>सारे पापें दे कारण मैं किश कलीसियाएं गी छड्डी दिता ऐ। तुसें गी जोरदार आवाज च चिल्लाना पौना ऐ के उनेंगी अपने पापें दा अंत करना पौना ऐ। उनेंगी प्रभु दी ओर मुडना गै पौना ऐ। प्रभू कदे माफ कर के थकदा नहीं। उनेंगी प्रभु दे नेडे औना चाइदा, ते साफ-सुथरे जीवन जीना चाइदा। जेकर ओह हुन तक पाप किता ऐ, तां उनेंगी इस गल् ला गी खत्म करना पौना ऐ, ते इक नर्मी जिंदगी शुरू करना पौना ऐ जिय् यां बाइबल उनेंगी जीने आस् ते आखदी ऐ।"</p> <p>मैं आख्या, "अमेरिका किस चाल्ली जली जाग?" अमेरिका इस दुनिया दा सब तों ताकतवर देश ऐ। तुसीं सानु इत्ये क्यो लाया कि जले? तुसीं कम से कम सानू मरन क्यो नहीं दिता जित्ये ALL Dudumans मर चुके ने?"</p>
--

(2) दुनिया दा सब तों ताकतवर मुल्क अमेरिका जली जावेगा।

- ऐईश्वर उखाड़ देगा **बाबुल** सदोम ते अमोरा दे समान।

यशायाह 13:19 ऐते बाबुल, राज्यों दी महिमा, कसदी दी उमंग दी सुंदरता,

जफ कफ बी शोगाईश्वर^{एव430} उखाड़ फेंक दी **सदोम ते अमोरा**।

- ऐईश्वरने "बड्डे बाबुल (प्रकासित 18:4 ऐ)" तां उंदी विपत्तियां अंदर औगन

1 दिन: मौत, दुख, ते अकाला उसी उदे कम्मों दा दोगुना मुआवजा देगा⁸¹⁷

- ऐमसीहा दा आया ते दानिय्येल दे 70वें हफ्ते दे 1/2 च घृणित चीजें गी उजाड़ करी दिता, ते उने

युद्ध दे अंत तक ऐसा करदे रौहग, जेड़ा दानिय्येल दे 70वें हफ्ते दा अंत ऐ,

लोकें ते पवित्र नगर आस्तै निर्धारित कीता गेदा ऐ।⁸¹⁸

(३) ऐ.	<p>उनें आकखेआ, "एह् याद रखो, डुमिन्ना रूसी जासूसें गी पता लगगी गेआ ऐ जे अमरीका च परमाणु गोदाम कुल्लें ना जदूँ अमरीकी सोचनगे जे एह् शांति ते सुरक्षा ऐ - मुख् दे बिच्चो-बिच्चो-बिच्चो-बिच्चो-बिच्चो लोकें दे खलाफ लडना शुरू करी देंगन सरकारासरकार आंतरिक समस्याएं च व्यस्त रौहगाफिर समुंद्र थमां, क्यूबा, निकारागुआ, मैक्सिको थमां..." (उसने दो होर मुख् दस्से, पर मिगोी याद नेई आया जे ओह केह् हे।) "... परमाणु गोदामें पर बमबारी कर देंगे। जदूँ ओह फट जागन तां अमेरिका जली जावेगा!"</p> <p>"तुस की करगे।" प्रभु दी कलीसिया? जेडे तुदे आस् ते मुडन, उनेंगी तुस किय् यां बचागे?" तरीका मैं करां बचाओ उनें."</p> <p>प्रभु दे सुर्गादूत ने ऐ बी आख्या, "मैं इस मुख् गी इस मुख् च जेडे यहूदी लोकें दे कारण आशीष दिती ऐ। इस मुख् च मेरे कोल सत्त लख यहूदी न, पर ओह प्रभु गी पछानना नेई चांहदा ओह नेई चांहदा हे।" इस मुख् च उनेंगी मिले दे आशीष दे आस् ते परमेसरे दा धनवाद करने आस् ते इसराइल यीशु मसीह गी पछानना नेई चांहदा, उनेंगी अपना विश् वास अमरीका च यहूदी लोकें उप् पर रखेया।</p>
-----------	---

(3) जदके अमेरिकी ग्लोबलिस्ट दे "शांति ते सुरक्षा (पृष्ठ 320 दिक्खो)" दे विचार कन्ने धोखा होआ करदे न, ओहदेश'स दापरमाणु गोदामें पर रूसी बमबारी होग ते अमरीका जली जाह्य, पर...

प्रभु दी कलीसिया होगा बचाया।

→ इस भविष्यवाणी दे मताबक **144,000 दा (1st) रैप्चर** होने दी संभावना ऐ जिसलै अमरीका जला जाता है।

• कीजे राज दे पुत्र रोशनी ते दिन दे पुत्र न, इस करी एह् हमले उनेंगी उससे चाल्लीं चोट नेई पुजाई सकदे जि'यां अग दी भट्टी थमां त्रै जवानें गी **दानिय्येल 3**।

→ याकूब, इक शारीरिक मनुख, "अंधेरे (या रात)" च हा, जेड़ा पट्टेदार रोशनी (**उत्पत्ति 1**)।

च **उत्पत्ति ३२:२४ ऐ**, ऐयाकूब ने इक आदमी कन्ने कुशती कीती^{एव 376 ऐ}, जिसी ओह **"ईश्वर"**^{एव 430 ऐ} च **उत्पत्ति 32:30 ऐ**।

इक आदमी (स्ट्रॉन्ग दा एच 376) "पति, या **"जिंदगी दारूह दा"**। इस चाल्ली याकूब गी जीत हासल करने आस्तै

⁸¹⁷"(प्रकाशितवाक्य १८:५-८) बाबुल दे पापें दा न्याय प्रभु परमात्मा करदा ऐ।"

⁸¹⁸"उजाड़ दी घृणित चीज (दानियल दे 70 हफ्ते, **दान ९:२४-२७ ऐ**)" अध्याय 12 दे।

बिच्चईश्वर (रुह, [झं४:२४ ऐ](#)) ते मनुख (मांस) दा मतलब याकूब दा [जीवन](#) उदे शरीर च मुक्ति मिलदा ऐ [एच 5337 ऐ](#) गी उसी दी आत्मा, ते मतलब “प्रबल होई गेआ” [एच 3201 ऐ](#) “जीत करने आस् ते सहन करना।” याकूब ने परमेश्वर दी गुहार लाया उसगी घट्ट रोशनी कन्ने शासित होने थमां बड्डे रोशनी च छुड़ाने आस्तै, जिसदा स्रोत ऐ [ऐईश्वर](#) (“प्रकाश होवे” [उत्पत्ति 1:3 ऐ](#)). जेकर याकूब परमेश्वर गी आमने-सामने दिक् खेदा तां मरदा जबकि घट्ट रोशनी (कानून दे तहत) दा राज हा, पर उंदी जिंदगी बचाई गई कीजे ओह जीत हासल करी चुके दा हा बड्डे उजाले दे हेठ (परमात्मा दी रोशनी दे हेठ, या परमात्मा दी कृपा दे हेठ, [उत्पत्ति 32:30 ऐ](#)).⁸¹⁹

(४) ऐ.	पर, जदों अमेरिका जली जावेगा, तां प्रभु चीन, जापान, अते डूझे कौम कू रूस दे खिलाफ वजण वास्ते उभारा डेसी। रूसियों को हरा के पेरिस दे गेट तक धकेल देंगे। उथे ओह इक संधि करंगन, ते रूसियां नूं अपने नेता बनानगे। उसदे बाद ओह इस्त्राएल दे खिलाफ इकजुट होंगन।
--------	--

- (4) रूस इजराइल ते हमला करन लई गैर-यहूदी राष्ट्रों नू इकजुट करन वास्ते नेता बणनगे।
- ध्यान रक्खो जे रूसी मागो (सभनें जेहडे परमात्मा दे खिलाफ लड़ाई लड़दे न जिंदे च रूसी नेता होंदे न) गी इस्त्राएल पर हमला करने लेई अगुवाई करडन, परगो मागो दा राजा होग।⁸²⁰

(५) ऐ.	जदू इस्त्राएल गी एहसास होग जे उंदे पिच्छे अमरीका दी ताकत नेई ऐ तां ओह डरी जाग. तभी तो लश देगी मसीहा दे कोल मुड़ जाओ मुक्ति दे वास्ते.
--------	--

- (5) जफ अमेरिकाका मदद कयने भें असमर्थ शोता शै, [इजराइल](#) की ओर मुड़ जाएगा [मसीहा](#) गी मुक्ति दे वास्ते।

[प्रेरितों दे काम २:२०](#) ते जेका कोई प्रभु दा नां पुकारग, उसी उद्धार होई जाग।

[प्रेरितों दे काम २:२१](#) ते ऐसा होवेगा।

कि जो कोई पुकारे [प्रभु दा नाम](#) उद्धार होवेगा।

- यीशु यहूदियें (शाखियें ते फरीसियें) गी पाखंडी, नाग ते सांपें दी इक पीढ़ी आखदा ऐ कीजे ओह नबियें गी मारने आलें दे पुत्र हन, पर ओह नबियें दी कबरें गी बनांदे हन, ते...
धर्मी लोकें दी कन्न गी सजाओ। यीशु उनें गी ग् लांदा ऐ के यहूदियें यीशु गी नेई दिक् खेडन, जदुं तकर ओह नेई ग् लांदा हन, “[धन्य ऐ ओह जेड़ा प्रभु दे नां कन्ने आवै](#),” जिसदा मतलब ऐ के ओह (इस्त्राएल) यीशु गी उसलै तकर नेई दिक् खेडन, जदुं तकर ओह साढ़े प्रभु ते मुक् तिदाता यीशु मसीह दे ज्ञान च अनुग्रह च बधदे न ते स्वीकार करदे न
[प्रभु उंदे मुक् तिदाता दे रूप चा](#)⁸²¹
- जेड़े प्रभु (यहवा) दे नां कन्ने आंदे न [एच 3068 ऐ](#) प्रभु दे घर च आशीष पांदे न ([भजन संहिता 118:26](#))। ज़मीन दे पैहले फल गी प्रभु परमात्मा दे घर च लेई आए जंदे न जेड़ा तुंदी जान ऐ जां... [मसीह \(देयू 30:20 ऐ, ऐकलुस 3:4 ऐ\)](#)। साढ़ानाथ ते उंदी [मसीह 7](#) वें स्वर्गदूत दे तुरही बजाने दे बाद दुनिया दा राज बहाल कर देगा ([प्रकाशित 11:15-16 ऐ](#)) जिय्यां संसार दे राज (या महान शहर बाबुल) उप्पर न्याय औग, जेड़ा इक घंटे च पौग ([प्रकाशितवाक्य १८:१०-२०](#))।
ओह दिन औग जिसलै विजयी (पैह्ले फल, पवित्र संत, ते बचे दे जेहडे [नमसीह दादी](#) सारी चीजां वारिस हो जांगन [ईश्वर \(प्रकाशित 21:7 ऐ\)](#))। इस आस् ते उनें गी राज ते राज दा आशीर्वाद मिलग, ते सारे सुअर्गे दे हेठ राज दी महानता परमेश्वर दे संत लोकें दे लोकें गी दिती जाग, जिंदा राज इक सनातन राज ऐ, ते सारे राज सेवा करडन ते आज्ञा मनडन उसी ([दान 7:27 ऐ](#))।⁸²²

(६) ऐ.	तभी तो मसीहा आ जावेगा . अदू, कलीसिया हवा च यीशु कन्ने मिलग, ऐ
--------	---

- (६) मसीह दे आण वेले कलीसिया हवा विच प्रभु नाल मिलसे।

⁸¹⁹वीडियो 6. “इस्त्राएल & इस्त्राएल दे पुत्र”

www.therhemaofthelord.com/course2/6-आदम-से-यीशु-इजराइल-दे-पुत्र-पीढ़ियों-दी-पुस्तक/.

⁸²⁰“आर्मगोडोन (जिंदे च गोग & मागो & प्रभु यीशु मसीह दे अंदर आना बी शामिल ऐ) थमां कैद कीता गेदा ऐ [भजन संहिता 83](#)” अध्याय 19 थमां

⁸²¹“[अंतिम संदेश] मसीह दे रहस्य (गैर-यहूदी, सारे राष्ट्र)” या...

वीडियो 16. गैर-यहूदी, सारे राष्ट्र 7/10! www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ ऐ.

⁸²²कैचर कीता गेदा “(1) उस दिन दा आना जिसलै पाखंडी आखडन “धन्य ऐ ओह जेड़ा प्रभु दे नां कन्ने औदा ऐ” थमां

अध्याय 10 दा

→ महासंकट दे संत लोके आस्ते दूआ रैप्चर उस वेले होग, जदुं इसाएल प्रभु दे कश मुडग

(जो होवेगा नहरेद्वारना 7 शीशी दा)

- जदुं आखरी तुरही बजदी ऐ (7वीं तुरही), ऐ⁸²³ प्रभूमहादूत दी आवाज कन्ने ते तुरही कन्ने उतरगईश्वर, ते मेरे दे विचमसीह(जिन्हां विच सोया सीमसीहखून दे खेतर च जिसगी उने अपने खून कन्ने खरीदे दा हा) पैहले उठगा। पवित्र संत दे शरीर जो जिंदा हेन, ते सुत्ते दे लोगे दे नाल मिल के बादलों एच (रैप्चर) किता वेसी प्रभुहवा में, ते अस हमेशा कन्ने गै रौंणो प्रभु.⁸²⁴

(७)	ते ओह उन्हे गी अपने कन्ने जैतून दे पहाड़ उप्पर लेई औगा
ऐ.	उस वक्त, <u>आरमागेडोन दी लड़ाई</u> लड़ेगा."

(७) प्रभु अपने सारे संत नूं सुर्ग तों जैतून दे पहाड़ ते लावेगा, जिस विच लड़ाई शुरू हो जावेगी
आरमागेडोन.

- जैतून दा पहाड़ ओ जगह हे जिथांह प्रभु यीशु मसीह अपणेह सारे संतों नाल स्वर्ग कलों उतरेसी, ताकि ओ अपणेह बचे दे लोगे दे वास्ते लड़ सग्दे
- इक तेज तलवार (रमा)⁸²⁵ उदे मुंह थवां निकली जाह ग, जिस कन् ने जातिएं गी मारी ओइग, ते ओह अपने आपै गी लोहे दी छड़ी कन्ने उंदे उप्पर राज करग ते उग्रता ते गुस्से दे दाख दा रस गी रौंदग सर्वशक्तिमान परमात्मा दा.
- जदुं प्रभु (यहवा) दा दिन औंदा ऐ, तां पैरे दे... प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान पर खड़े होंगे माउंट की जैतून दा, जेड़ा यरूशलेम दे सामने पूरब च ऐ, ते पहाड़ आधे च बंडूडी जाग पूरब थमां पश्चिम बड़ी बंडूडी घाटी बनांदी ऐ, जिसदे कन्ने आधा पहाड़ उत्तर ते आधा हिस्सा चली जंदा ऐ दक्षिण च (जकरयाह 14:4).
- सारे कौम देखनगे प्रभु गी (यहवा) उंदी कुदरती अक्खीं कन्ने जदुं उंदे पैरे दे पहाड़ उप्पर खड़ोते दे नजैतून दाके दिन प्रभु गी, ते उनेंगी एह पता गै लगगी जाग प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान ओह गै ऐ, जेका गैर-यहूदी जातिये दे खलाफ ए आरमागेडोन दी लड़ाई.
- ऐफैसला तय कीता जाह्ग, ते मसीह विरोधी दा dominion (एक विश्व सरकार) लेई लैता जाग छिंडे, अंत तक भस्म हो जाना और नष्ट होना (दान 7:26 ऐ).

(8)	जदुं मैं एह सब सुनेया तां मैं ग् लाया, "जेकर तुस सच् चाई च प्रभु दे सुर्गदूत ओ, ते तुसंगी जे किश बी ग् लाया ऐ, ओह सच् चाई ऐ, तां तुसंगी जे किश बी ग् लाया ऐ, ओह बाइबल च गै लिखे दा ऐ।" उवने कशा-सफ को कशना कक वे नहें यिर्मयाह <u>51:8-15 च</u> , ऐ प्रकाशितवाक्य अध्याय <u>18 च</u> , ते <u>जकरयाह अध्याय 14 च</u> , जित् थें मसीह उनें लोके कन् ने लड़दा ऐ, जेके धरती दे कब्जे च रखदे ना <u>उंदे बाद उंदे जीत</u> ," सुर्गदूत ने आखेआ, "इक गै होग <u>झुंडते इकरवाहा</u> ."
-----	--

(८) उहदी जीत दे बाद इक होवेगा झुंडते इकरवाहा.

- थोड़ी-थोड़ी सिंड (मसीह दे विरोधी गी) पवित्र संतों कन्ने लड़ाई करग, ते उंदे उप्पर तदू तक जीत हासल करग दिनें दा प्राचीन स्वर्ग च फौजे कन्ने औंदा ऐ जेड़ी सफेद घोड़े उप्पर सवार होईये उंदे पिच्छे चलग, महीन लिनन, सफेद ते साफ कपड़े पाईये (प्रकाशितवाक्य 19:14 ऐ). जिस दा कपड़ा बर्फ दे समान सफेद होंदा ऐ सर्वशक्तिमान दा^{एव 7706 ऐ} (भजन संहिता 68:14), ऐ मुक्तिदाता यीशु मसीह, ऐ मेमने दा (अर्नियन दा), ऐ सादानाथ ते उद्वारकर्ता यीशु मसीह (प्रकाशित 5:11 ऐ).⁸²⁶
- जो "बड़ी मसीबत" च सरणीबद्ध होंदे नसफेद वख, धोया अपने बागे, ते बनाया चिट्टा के खून मेमने दा (अर्नियन दा).⁸²⁷ एहो मेमना (अर्नियन दा), जो दे सिंहासन दे बिच्च ईश्वर, हो जांदा है उनके चरवाहा, ऐ खिलाना उन्हे ते अगवाइ करदे उनेंगी पानी दे जिंदि फव्वारे चा तेईश्वर उंदी अक्खीं दे सारे आंसू पोंछी लैगा.⁸²⁸

⁸²³संदर्भ देना 1थु 4:16 ऐ & १करिन्थियों १५:५२.

⁸²⁴"[चित्र 1-ग]" जां वीडियो 45. "6. प्रायश्चित करो।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-प्रभु-दे-भोज-6-प्रायश्चित/.

⁸²⁵वीडियो 20. "(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवार।"

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

⁸²⁶अध्याय 13 थमां "दिनें दा प्राचीन" दिखो।

⁸²⁷"(प्रकाशितवाक्य 7:13-15 ऐ) जो महासंकट तों बाहर निकलदे हन ओह सफेद वस्त्रां विच सजदे हन."

⁸²⁸"(प्रकाशितवाक्य 7:16-17 ऐ) मेमना उनेंगी पानी दे जिंदि फव्वारे च खिलाग & लेई जाग."

- **इक फैसला बनाया गया** में दी गई पवित्र संतों के पक्ष में **the Most high (ईश्वर)**, ते वक्त आ जावेगा **पवित्र संत गीकब्जा करना राज दा** (दान 7:21-22 ऐ).

→ **राज दाते प्रभुत्व, तेरा ज्यां दी महिमा सारे आकाश दे हेठ होगा**

जनता को दे दिया आहला **संत लोग** आहला परम उच्चे दा (ईश्वर). **रब दा** राज इक सनातन राज ऐ, ते सारे प्रभु उदी सेवा करंगन ते सुनी लैंगन (दान 7:27 ऐ).

(९)	रोशनी दी कोई लोड़ नेई होगा परमातमा दा मेमना होगा उजाला दा . ना बीमारी, ना आंसू, ना मौता सिर्फ शाश्वत आनन्द ते... ईश्वर होगा शासक दा . इक गै भाशा ऐ. होगा सिर्फ इक गीता ते अनुवादक दी लोड़ नेई ऐ!
-----	--

(९) होवेगा ही होवेगा **सनातनी** नंदजित्ये परमात्मा दा मेमना उजाला ऐ

- **शाश्वत राज**⁸²⁹

- ऐमेने दी घरे आली सुअर्गे च इक बड्डे ते उच्चे फाड़ उप् पर ऐ, जेका उदे पैहलें दा बड्डा शैहर ऐ, ऐ **पवित्र यरूशलेम**, ऐ⁸³⁰ कतां **प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान** (प्रभु ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह) **तेमेने दा** (परमातमा दी महिमा नाल जला दी मोमबत्ती) मंदिर हन.⁸³¹

- ऐ **आरमागेडोन दी लड़ाई**

(**हिब्रू शब्दकोश** दे मताबक द्वारा अनुवाद कीता गेआ)

इज 38:14 ऐ "इस आस् ते हे मनुख दे पुत्र, भविखवानी कर ते ग् लाओ **गोग**, ऐ
इस तर्हा कहांदा है **प्रभु ('ăḏōnāy)** दा ¹³⁶ **ईश्वर (y'phōvā)**.³⁰⁶⁹ र

"उस दिन जदु मेरा प्रजा इस्राएल सलाम रौहग, तां तुस नेई जानगे?"

इज 38:15 ऐ "फिर तुस अपने थाहर थवां उत्तर पासे थवां निकली जाओगे, तुस ते तुंदे कन्ने मते सारे लोका
सारे घोड़े पर सवार होंदे, इक बड्डी कम्पनी ते इक विशाल फौजा"

इज 38:16 ऐ "तुस मेरे लोकें दे खिलाफ ओगे **इजराइल** बादल दे समान, धरती गी ढकना।

आखरी दिनें च मैं तुसें गी अपनी धरती उप्पर लेई औगा, तां जे राष्ट्र मिगी जानना

जदू मैं तेरे विच पवित्र हो जांदा हां, ओ **गोग**, उंदी अक्खीं दे सामने"

→ **प्रभु परमातमा** अन्त दे दिनें च गोग गी अपनी धरती दे खिलाफ लेई औगा।

- आरमागेडोन दी लड़ाई (जकरयाह 14:1-5)

(**प्रभु दा दिन**)

जकरयाह 14:1 दिखो, **यहोवा दा दिन** आ रहा है, ऐ

ते तेरी लूट (तुंदे कोला लेई गेदी) तेरे बीच बंडूडी जागा।

जकरयाह 14:2 कीजे मैं सारे (गैर-यहूदी) जातियें गी कड्डा करगा, ताजे उंदे कन् ने लड़ना ऐ **यरूशलेम**;

ते शैहर गी पकड़ी लैता जाग, ते घरें गी राइफलें कन्ने मारी दिता जाग, ते जनानियें गी लूटया जागा।

ते नगर दा आधा हिस्सा कैद च चली जागा।

लेकन लोकें दे बचे दे लोकें गी शैहर थमां नेई कड्डी दिता जागा।

→ आरमागेडोन दी लड़ाई, जेड़ी गैर-यहूदी जाति (मागोग) यरूशलेम दे खिलाफ लड़नगे

प्रभु दे दिन शुरू हो। हालांकि शहर, घर, ते जनानियां लेई जांगन, ते

आधा शहर कैद च चली गेया, लोकें दे बचे दे लोकें गी नगर थमां नेई कड्डी दिता जागा।

⁸²⁹समझो "[चित्र 21-2] सुर्ग च नमां तम्बू & परमेसरे दा मंदरा"

⁸³⁰ मंदरे च बख-बख महिमाएं गी किय् यां लाया जंदा ऐ, एह समझने आस् ते "परमेसर दे लोक दे तम्बू च दाखल होइत

परमातमा, अलग-अलग महिमा लांदि होए" ते "नीच संपत्ति दे शरीर तों महिमामंडित शरीर तक" तों "**प्रकाशितवाक्य 21:27 ऐ** में लिखे हुए **मेमने दी जिंदगी दी किताब, ऐ**" फिर "[चित्र 21-2]" दे आरेख गी समझो।

⁸³¹"**प्रकाशित 21:23 ऐ** परमातमा दी महिमा (महान शहर विच)."

जकरयाह 14:3 फिर कर देगा प्रभु गी आगे जाओ, ते उन राष्ट्रों कन्ने लड़ना, जिय्यां ओह लड़ाई दे दिन लड़दा हा।

जकरयाह 14:4 ते उस दिन उदे पैर खड़े होंगन जैतून दा पहाड़, जो नशरे शै यरूशलेम पूरब दी तरफ, ऐ ते जैतून दा पहाड़ सदे बिच्च पूरब ते पश्चिम बक्खी फट्टी जाह्य।

ते इक बड़ी बड़ड़ी घाटी होग;

ते आधा पहाड़ उत्तर च, ते आधा दक्खन पास्से चली जाह्य।

जकरयाह 14:5 ते तुस पहाड़ें दी घाटी च भागी जाओगे; की वे पहाड़ें दी घाटी अजाल तकर पुज्जी जाग।

हा, तुस फरार होगे, जिय्यां तुस यहूदा दे राजा उज्जया दे समें च भूचाल दे पैहलें भेज् जे गेदे हे।

ते प्रभु गी (यहवा) दा ^{सब 3068 रे} मेराईश्वर ('ēlōhîm) दा ^{सब 430 रे} आओगे, ते सारे (पवित्र) संत तेरे कन्ने।

→ प्रभु सारे जातियें गी यरूशलेम कन्ने लड़ने आस्ते इकट्ठा करग, ते ओह बाहर जाइयै लड़ग उदे खिलाफ, जेड़ी आरमागेडोन दी लड़ाई ऐ (प्रकाशितवाक्य 16:16 ऐ)।

→ के दिन में प्रभु गी (यहवा), पैरे दे प्रभु गी खड़े हो जाओगे जैतून दा पहाड़, ते प्रभु गी (यहवा) दा ^{सब 3068 रे} मेराईश्वर ('ēlōhîm) दा ^{सब 430 रे} जां (प्रभु यीशु मसीह गी) अपने सारे अपने कन्ने आएगा पवित्र संत जी।

➤ सो, प्रभु यीशु मसीह गी ⁸³² अंदर आ जाओगे यहोवा दा दिन ते आरमागेडोन दी लड़ाई आस्ते लड़ग।

- युद्धें, जिंदे च गोग एंड मैगोग बी शामिल न

भजन संहिता 83:1 [आसाफ दा इक गीत या भजन] तू चुप्प नेई रखो, ओईश्वर: 1। ^{सब 430 रे}

चुप नेई रे, तेहे परमात्मा ('एल)। ^{सब 410}

भजन संहिता 83:2 कीहके दिखो, तेरे दुश् मन उधम मचांदे न, ते तेरे कन्ने नफरत करने आलें सिर उप्पर चुक्की लेंदे ना।

भजन संहिता 83:3 उने तेरे लोकें दे खिलाफ चालबाजी कीती ऐ, ते तेरे छिपे दे लोकें दे खिलाफ सलाह-मशवरा कीती ऐ।

भजन संहिता 83:4 उनें गू लाया ऐ के आओ, अस उनेंगी कौम होने थवां कट्टी देचे। ^{सब 1471 रे}

तां जे इस्त्राएल दा नां हुन याद च नेई रैया जा।

भजन संहिता 83:5 कीहके अने इक सहमति कन्ने मलाटी कीती ऐ;

→ परमेसरे दे दुश् मन इक-दुऐ कन् ने गठजोड़ करदे हन, तांजे ओह धरती उप् पर परमेसरे दे लोकें ते कौम गी कट्टी सकना।

- युद्ध च शामिल होने आह्ले राष्ट्रों दी सूची

भजन संहिता 83:6 एदोम दे तम्बू ते इस्माइली; मोआब ते हगारी दे;

भजन संहिता 83:7 गेबल, अम्मोन ते अमालेक; पलिस्ती सूर दे निवासियें कन्ने;

भजन संहिता 83:8 अस्सूर बी उंदे कन्ने जुड़ी गेदा ऐ: उने बच्चें (पुत्तरें) गी होलप कीता ऐ। ^{सब 1121 रे} लूत दा. सेलाह।

भजन संहिता 83:9 उन्दे कन्ने भी उं'दे समान करो जिय्यां मिद्यानी दे कन्ने करदे ओ; जिय्यां सीसेरा, जिय्यां किसोन दी धार च याबीन दे बारे च।

भजन संहिता 83:10 जो एन्डोर च नष्ट होई गई: ओह धरती (जमीन) आस्ते गोबर दे समान बनी गो। ^{सब 127 रे}

→ मिस्र, अशूर ते इस्त्राएल गैर-यहूदी राष्ट्रों दी सूची च शामिल नेई न, जेके युद्ध च शामिल होंगन, इस आस् ते ओह धन्य हन।

यशायाह 19:24 च उस दिन होगा इजराइल साथ तीसरा होमिस्र दाते नाल अशूर दा, ऐ

इत्थूं तकर के ज़मीन (पृथ्वी) दे बिच्च इक बरकत बी ऐ: ^{सब 776 रे}

यशायाह 19:25 च कुसी सेनाएं दा प्रभु आशीष देगा, कह के।

धन्य हो मिस्र दामेरे लोक, ते अशूर दामेरे हत्थ दा कम्म, ते इजराइल मेरी विरासत।

- आरमागेडोन दी लड़ाई (भजन संहिता 83:11-18)

भजन संहिता 83:11 उंदे कुलीन लोकें गी ओरेब ते जीब दे समान बनाओ;

भजन संहिता 83:12 जिसने आख्या, आओ अपने आप गी लेंई लैचे परमातमा दे घर कब्जे में।

⁸³² "2 घड़ी, 3 घड़ी, & 4 घड़ी" थमां कैचर कीता गेदा ऐ। तुस उंदे दिन दे बारे च अंदाजा ला सकगे "लोगोस ते रेमा दे द्वारा प्रकाशितवाक्य दी व्याख्या" दे अध्ययन दे बाद प्रकट होने आले।

भजन संहिता 83:13ओ मेरेईश्वर, ऐ^{एव430}उनेंगी चक्के दे समान बनाओ; हवा दे सामने टूट दे समान।
भजन संहिता 83:14जियांअग दीलकड़ी जलादी ऐ, ते जियां लौ पहाईं गी आग लादी ऐ;
भजन संहिता 83:15इस आस् ते उनेंगी अपने तूफान कन् ने सताओ, ते उनेंगी अपने तूफान कन् ने डराओ।
भजन संहिता 83:16उदे चेहे गी शर्म कनै भरो; तां जे ओह तेरा नां बूढन, हे प्रभु (यहोवा)।^{एव 3068}
भजन संहिता 83:17उनेंगी सदा-सदा उलझन ते परेशान रौहना; हां, ओह शर्मिदा होन ते नाश होना।
भजन संहिता 83:18तां जे मनुख जानन के तू,
जिनका अकेला नाम हैयहोवा ने दी(यहोवा), ऐ^{एव 3068}कलासब तों उच्चा^{एव 5945}सारी धरती उप्पर.

→दुश्मनें दे खिलाफईश्वरते एल, औय वे लेने की योजना यख यशे शैपरमातमा दे घर.
कमोंकक इस जोग से नाभ नता चरेगायहोवा, ऐसब तों उच्चासारी धरती उप्पर, ऐभजन संहिता 83:11-18संदर्भित करदा ऐ
की लड़ाई कोआरमागेडोन, जितप्रभु गी(यहवा) भेज देगाइक आगपरमगोगते ओह जानन गे
कि ओह ऐयहोवा दा(इज 39:6 ऐ).

- आरमागेडोन दी लड़ाई (इज 38:19-20 ऐ)

इज 38:19 ऐ“कीजे मैं अपनी ईश्यां ते अपने गुप्से दी अग च आखया ऐ।
उस दिन इस्राएल दी जमीन च बड़ा हिलना पौगा”
इज 38:20 ऐसमुंदरे दी मछलियां, सुर्ग दे मुर्गियां, खेत दी जिंदगी,
जमीन उप्पर रेंगे आहियां सारी रेंगे आहियां चीजां, ऐ
ते सारे मनुख^{एव 120}जो जमीन दे मुंह ते हन, मेरी मौजूदगी पर हिल जाह्य,
पहाईं गी सुट्टी दिता जाग, खड़ी थाहें गी डिग्गी जाग, ते हर दीवार धरती उप्पर डिग्गी जाग।

→दे मुताबिकउत्पत्ति 1, ये प्राणी हैं जोईश्वरशुरू च पैदा कीता गेदा हा।⁸³³

→इस्राएल दी जमीन ओह पबित्तर जमीन ऐ, जेकी परमेसरे शुरू च गै बनाई ही।
(प्रकाशितवाक्य 19 थमां कैद कीता गेदा ऐ, “यीशू दी सुर्ग च अपने पिता गी प्रार्थना”)
जमीन^{एव 127}द्वारा गारी दी गईप्रभु गी^{एव 3068}ईश्वर^{एव 430} (उत्पत्ति ३:१७), धरती दा^{एव 776}धुंध खो दी है^{एव 108}
ते पाप संसार च दाखल होई गेया (रोम 5:12 ऐ). क्योंकि पाप शापित दे जरिए प्रवेश करदा हा
सूखी धरती दी जमीन, मसीह यीशुपार्षीं गी बचाने आस्ते दुनिया च आया (1ति 1:15 ऐ) से
शापित जमीन (या गड्ढे दे बगल च कन्न, इज 32:23 ऐ).⁸³⁴

→प्रभु ('ādōnay)^{एव 136}ईश्वर (y^hōvā)^{एव 3069}पार्षीं गी अपनी कन्न थमां बाहर निकलने दा कारण बनया ते...
आहनेरब दालोक इस्राएल(रसा ७:२३ ऐ) इस्राएल दे पवित्र भूमि च (इज 37:12 ऐ).

- आरमागेडोन दी लड़ाई (जकरयाह 12:10)

जकरयाह 12:10ते मैं दाऊद दे घराना ते यरूशलेम दे निवासियें उप्पर पानी पाई देगा।
अनुग्रह ते विनती दी आत्मा, ते ओह मिगी दिखग, जिसी उनेंगी छेदया ऐ।
ते उदे लेई शोक करंगन, जियां कोई अपने इकलौत ैपुत्र दा शोक करदा ऐ, ते उदे लेई कड़वा होगा
जियां अपने पैह्ले पुत्र आस्ते कड़वाहट च ऐ।

→यरूशलेम दे रौहने आले दिखडनप्रभु यीशू मसीह दे आने दाकी लड़ाई के दौरान
आरमागेडोन. जमीन दे सारे कबीले शोक करनगे क्योंकि ओह देखनगेओह मसीह, जिन्हें वे
छेदा, वाकई उंदी ऐमसीहाते एहसास करदे न के उनेंगी धोखा दिता गेदा हा।⁸³⁵

- आरमागेडोन दा अंत (इज 39:1-5 ऐ)

इज 39:1 ऐइस आस् ते हे मनुख दे पुत्र, गोग दे खलाफ भविष्यवानी कर, ते ग् लाओ।
इयां आखदा ऐप्रभु ('ādōnay) दा^{एव 136}ईश्वर (y^hōvā);^{एव 3069}
हे गोग, मेशोक ते तुबल दे प्रधान सरदार, मैं तेरे खिलाफ ऐं।

⁸³³वीडियो 1. “शुरूआत चा” www.therhemaofthelord.com/कॉर्स1/पाठ1/ ऐ.

⁸³⁴वीडियो 19. “पृथ्वी & जमीन” www.therhemaofthelord.com/course1/पृथ्वी-जमीन/.

⁸³⁵“[3] दानियेल दे 70 हफ्ते” दा संदर्भ लैओ।

[इज 39:2](#) ते मैं तुसें गी मुड़ियै उत्तर पाससे थमां नमकीन बनाइयै तुसें गी अगों बधाना ऐ।
ते तुसें इस्त्राएल दे पहाड़ें दे खलाफ लेई आओ।

[इज 39:3](#) ऐते मैं तेरे धनुष गी तेरे बाएं हथै थमां कड्डी देगा, ते तेरे सज्जे हथ थमां तेरे बाण गी खड्डोना ऐ।

→ धनुष परमेसरे ते धरती दे बिच इक वादे (परमेसर दी धार्मिकता गी प्रगट करने आस् ते) दा निशान ऐ।
तीर इशारा करदे नप्रभू(तीरंदाज दे तीर उप्पर) उनें लोके आस्ते युद्ध च धनुष चलाना जेहडे "निशान" जां द...
पवित्र संत जो "पवित्र आत्मा कन्ने मुहर लाए गेदे ना"⁸³⁶ टीthus, परमात्मा गी गोग गी मारने ते उंदे तीरं गी गिराने आस्ते
आउट दा मतलब ए बी ऐ के परमेसरे दा न्याय उंदे दुश् मनें उप् पर पौग, जेका उदी धार्मिकता गी प्रगट करग
उंदे पवित्र संता!

• [प्रभू दा पता हो जावेगा](#)

[इज 39:4](#) ऐतू इस्त्राएल दे पहाड़ें उप्पर डिग्गी जागे, ते अपनी सारी दल ते तेरे कन्ने ऐ।

मैं तुगी पंछी (पक्षी) दे देगा [6833](#) शिकार दा [5861](#) हर किस्म दे (पंखें आला), [3671](#)

ते जिंदगी गी [2416](#) खेत दाउंदे मांस आस्ते [402](#)

[इज 39:5](#) ऐतू खुल्ले मैदान उप्पर डिग्गी जागे, कीजे मैं आखदा ऐप्रभू('ădōnay) दा [136](#) ईश्वर(y'hōvâ). [3069](#)

→ [इज 39:1-5](#) ऐवर्णन करदा ऐ के किस चाल्ली गोग (ओह नेता जेड़ा परमात्मा दे खिलाफ ऐ) पंखें आह्ने मुर्गियें दा मांस बनी जाग
ते मैदान दा जीवन, जेड़ा च अरमागेडोन दी लड़ाई दा संदर्भ दिंदा ऐप्रकाशितवाक्य [19:15-18](#) ऐ.

[इज 39:6](#) ऐते मैं इक आग भेजी देगा [मगोग](#), ते उनें लोके च जेहडे सुरक्षित रौहदे न [983](#) द्वीपें च:

ते ओह जानन गे के अऊं गै ऐप्रभू गी(यहवा). [3068](#)

[इज 39:7](#) ऐइय्यां गै मैं अपने लोक इस्त्राएल दे बीच अपना पवित्र नां प्रगट करगा;

ते मैं उनेंगी अपने पवित्र नां गी होर गंदा नेई करने देगा।

ते राष्ट्र गी [1471](#) जान जाएगा कि मैं हांप्रभू गी(यहवा), ऐ [3068](#) पवित्र गीइक इस्त्राएल च.

[इज 39:8](#) ऐदिखो, आया, ते होई गया, आखदा ऐप्रभू('ădōnay) दा [136](#) ईश्वर(y'hōvâ), [3069](#)

एह ओह दिन ऐ जिसदी मैं गल्ल कीती ऐ।

[इज 38:21](#) ऐमैं तलवार दा आह्वान करा [2719](#) मेरे सारे पहाड़ें च उंदे (गोग) दे खिलाफ,

"कहंदा हैप्रभू('ădōnay) दा [136](#) ईश्वर(y'hōvâ). [3069](#)

हर मर्द दा [376](#) तलवार [2719](#) अपने भ्राउ दे खिलाफ होगा।

[इज 38:22](#) ऐमैं महामारी ते खून कन्ने उसी न्याय देई देगा;

ते मैं उंदे उप्पर ते उंदे दलें उप्पर ते उंदे कन्ने होने आले मते सारे लोके उप्पर बरखा करगा।

उफनदी बरखा, ते बड्डे-बड्डे ओले, अग ते गंधक।

[इज 38:23](#) ऐइस चाल्ली मैं अपने आप गी बड़ाई करगा ते अपने आप गी पवित्र करगा,

तेमैं कई राष्ट्रां दी नजर विच जानया जावांगा.

तफ उन्शें नता चरेगा कक भैं शूप्रभू गी(यहवा). [3068](#)

• [टीओह प्रभू\(यहोवा\)](#) [3068](#) कई राष्ट्रां दी नजर विच जानी जावेगा: 1।

→ नमें नियम च, टीओह प्रभूके रूप में आयायीशु मसीहनबी ने दीते दौरा लाया ते

छुड़ायाउंदे लोके दे रूप च प्रभू(क्योरिओस) [2962](#) ईश्वर [2316](#) इस्त्राएल दा. ⁸³⁷

- 7 साल तक हथियारों को आग लगा दे ([इज 39:9-10](#) ऐ)

[इज 39:9](#) ऐइस्त्राएल दे शैहें च रौहने आले बाहर निकली जांगना।

ते सेट (सेट, जला) देगा [1197](#) आग लगाईते जला दे (किडल) [5400](#) हथियारां दा, ऐ

ढाल ते बकरी, धनुष ते तीर, ते हथ्य दे डंडे ते भाले।

⁸³⁶धनुष: परमात्मा ते धरती दे बीच इक वादे दा निशान, ते धनुष दे इब्रानी शब्द (Strong's H7198) दा मतलब ऐ गोली मारना ए युद्ध च धनुष" ते इस चाल्ली "तीरंदाज" गी संदर्भित करदा ऐ जेहड़ा "निशान गी मारदा ऐ"। "धनुष" दा प्रतीकात्मक अर्थ "परमेसर दी धार्मिकता" दा ऐ। ते "निशान गी मारना" दा मतलब ऐ "(पवित्र संत) उप् पर आत् मा कन् ने मुहर लाना"। वीडियो 21. "वादा, बाहर दा खतना, अंदर दा खतना करना." www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-वादे-बाहर-खतना-अंदर-खतना/.

⁸³⁷ मार्च 12:29 ऐ, ऐलूका 1:16 ऐ, ऐप्रेरितों दे काम २:३६, ऐप्रेरितों दे काम 7:37, ऐप्रेरितों दे काम 10:36, ऐइब्रानियों 8:10 जां वीडियो 12. "यीशु मसीह दी पीढी" www.therhemaofthelord.com/अनश्रेणीबद्ध/12/ऐ.

ते जला (सेट, जला)^{एच1197} उन्हे अग दे नाल (अग दा एकवचन रूप)सात (7)बरी: 1।
इज 39:10 एतां जे ओह कोई रुख नेई लैन^{एच 6086} खेत दे बाहर, ना गै जंगलें च कुसै गी बी कडना;
 क्योंकि ओह जले (सेट, जला दे)^{एच1197} अग दे हथियार (आग दा एकवचन रूप): 1।^{एच 784}
 ते लूटने आले ंगी लूटग, ते लूटने आलें गी लूटग।
 कहते हैं प्रभु ('ādōnay) दा^{एच136} ईश्वर (y^hōvâ).^{एच 3069}

→ इस्राएल दे शैहें च रौहे आह्ले लोक करडन अपने हथियारों गी आग लाओ, ते उनेंगी अग कनै जला देडन
 लेई 7 साल दा,⁸³⁸ जे उनेंगी खेतें थमां बूटे नेई लैना पौए, जां जंगलें च कडने दी लोड़ नेई होऐए
 - लूटने आलें गी लूट लैंगन, ते लूटने आलें गी लूट लैंगन, जिय्यां प्रभु इक भेजग
 मगोग पर आग लगी (इज 39:6 ऐ).

- गोग (मसीह विरोधी) & उंदी भीड़ करग बीई हमोंग दी घाटी च दफनाया (इज 39:11-16 ऐ)

इज 39:11 ऐते उस दिन होंगे कि मैं उसी देगागोग इस्राएल च कबरें दी इक जगह, ऐ
 समुंद्र दे पूरब च यात्रियें दी घाटी, ते यात्रियें दी नाक गी रोकग।
 ते उत्थें गै दफनाई जांगन गोग ते सारे उंदे भीड़: 1।
 ते उसी आखना ऐ हमोंग दी घाटी.^{एच1996}

इज 39:12 ऐ और सात (7) महीने होंगे इस्राएल दा घर उन्हे दफनाओ, ऐ
 तां जे ओह धरती गी साफ करना।^{एच 776}

इज 39:13 ऐहां, धरती दे सारे लोक^{एच 776} उनेंगी दफनाई देग; ते ओह दिन उन्दे लेई इक ख्याति होग
 कि मैं होवांगा सम्मानित किया गया, ऐ^{एच 3513} कहते हैं प्रभु ('ādōnay) दा^{एच136} ईश्वर (y^hōvâ).^{एच 3069}

इज 39:14 ऐते ओह मनुखें गी अलग करी ओड़न, जेके लगातार धरती उप पर चली जाडन^{एच 776} ते उन लाशें गी दफनाओ
 धरती पर रहना, इसगी साफ करने आस्तै: सात (7) महीने दे अंत दे बाद ओह खोज करडन।

इज 39:15 ऐ ओह धरती च गुजरी जांगन,^{एच 776} ते जदुं कोई मनुख दी हड्डी दिखदा ऐ,

फिरी ओह इक निशान लाना ऐ^{एच 6725} इसके द्वारा, जदुं तकर दफनाने आलें ने इसगी अंदर नेई दफनाई दिता हमोंग दी घाटी.

इज 39:16 ऐते नगर दा नां बी होग हमोनाह.⁸³⁹ इस चाल्ली ओह धरती गी शुद्ध करंगन।^{एच 776}

→ 7 महीने तक इस्राएल दे घर (पृथ्वी दे सारे लोक) दफन होंगन गोग (मसीह विरोधी) कबरें च
 इस्राएल च अपने कन्ने भीड़-भाड़ की घाटी में हमोंगोग.

इज 39:17 ऐते हे मनुख दे पुतर, ए आखना ऐ प्रभु ('ādōnay) दा^{एच136} ईश्वर (y^hōvâ).^{एच 3069}

हर पंख वाले कन्ने बोलो^{एच 3671} पकवरू, ऐ^{एच 6833} ते हर जिंदगी गी^{एच2416} खेत दा, अपने आप गी इकडा करो, ते
 आओ; हर पासे मेरे बलिदान च इकडा होओ, जेड़ा मैं तुदे आस्ते बलिदान करदा हां।
 इस्राएल दे पहाड़ें उपपर इक बड्डा बलिदान बी ऐ, तां जे तुस मांस खाओ ते खून पीओ।

इज 39:18 ऐ तुस ताकतवरें दा मांस खाओगे, ते धरती दे सरदारें दा खून पीगे।

मेदे, मेदे, ते बकरी, बैल, सारे बाशान दे मोटे बच्चे।

इज 39:19 ऐते पेट भरने तकर मोटी खाओ, ते नशे च खून पीओ।

मेरे बलिदान दा जेड़ा मैं तुदे आस्ते कुर्बानी दिता ऐ।

इज 39:20 ऐ इस चाल्ली तुस मेरी मेज पर घोड़े ते रथें कन्ने भरोचे दे ओ।

पराक्रमी मनुखें कन्ने ते सारे मनुखें कन्ने^{एच 376} युद्ध दा, कहते हैं प्रभु ('ādōnay) दा^{एच136} ईश्वर (y^hōvâ).^{एच 3069}

→ प्रभु जी ('ādōnay) दा^{एच136} ईश्वर (y^hōvâ)^{एच 3069} तैयारी कर दी है इक बड़ा बलिदान ओहके पहाड़ों पर
 इस्राएल, ते तुस मांस खागे ते खून पीगे।

- सारे राष्ट्र प्रभु परमात्मा गी उंदे न्याय दे बाद जानन

इज 39:21 ऐ और मैं अपना सेट कर देगा महिमा^{एच 3519} राष्ट्रां दे बीच, ऐ^{एच1471}

⁸³⁸“[चित्र 10-2] दो गोग ते मगोग युद्ध & आरमागेडोन” दा संदर्भ लैओ।

⁸³⁹“हमोना (मजबूत दा^{एच1997} च)” दा मतलब ऐ ““बहुसंख्यक”, गोग दी हार दी याद च स्थापित कीते जाने आले शैहर दा नां।

“एच1997 - hāmōnâ - मजबूत दा हिब्रू शब्दकोश (kjv)” नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 24 अप्रैल, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h1997/kjv/wlc/0-1/> ऐ.

ते सारी जातियाँ¹⁴⁷¹ मेरे फैसले की दिक्ख जेड़ा मैं पूरा कीता ऐ, ऐ
ते मेरा हत्थ जेड़ा मैं उंदे उप्पर लाया ऐ।

इज 39:22 ऐ इसलेई **इसाएल दा घर** जान जाएगा कि

मैं ओ **प्रभु गी (यहवा)** दा³⁰⁶⁸ उं 'दाईश्वर ('एलोहिमा')'⁴³⁰ उस दिन से अगो।

इज 39:23 ऐ ते राष्ट्रं दा¹⁴⁷¹ जान जाएगा कि **इसाएल दा घर** उंदे अधर्म दे कारण कैद च चली गे: 1।

कीजे उने मेरे उप्पर अपराध किता, इस आस् ते मैं उंदे कोला अपना मुंह छुपाई लेया।

ते उन्हें अपने दुश्मनों दे हत्थ च देई दिता, ते सारे तलवार कन्ने डिग्गी गो।²⁷¹⁹

इज 39:24 ऐ उंदी अशुद्धता ते उंदे अपराध दे मताबक मैं उंदे कन्ने किता।

ते मेरा मुंह उंदे कोला छुपाई लेया।

→ **टीओह इसाएल दा घर** (सब परमात्मा दी महिमा तों घट हो गए हन **रोम 3:23 ऐ**), जिसदे द्वारा यीशू गी क्रूस उप्पर चढ़ाया गेआ।

प्रेरितों दे काम २:३६), दा फैसला देखेगा **प्रभु परमात्मा** आरामगोडोन दी लड़ाई चा

(प्रकाशितवाक्य 19:17-18 ऐ) महान परमात्मा दा भोज

प्रकाशितवाक्य 19:17 ऐ ते मैं इक सुगंदूत गी सूज च खड़ोते दे दिक्खेआ;

ते उन उच्चवी आवाज च सुगं दे बिच्च उड़ने आले सारे चिड़ियें गी आखया।

आओ ते अपने आप गी बड्डे परमात्मा दे भोज च इकट्टा करो;

प्रकाशितवाक्य 19:18 ऐ तां जे तुस राजाएं दा मांस, सरदारों दा मांस, ते पराक्रमी लोकें दा मांस ते उंदा मांस खाओ

घोड़े, ते दे जेड़े उंदे उप्पर बैठे दे न, ते सारे मनुखें दा मांस, मुक्त ते दास, छोटे ते बड्डे।

☞ **प्रकाशितवाक्य 19:17 ऐ टी**hen मैं इक सुगंदूत गी धूप च खड़ोते दे दिक्खेआ;

ते ओह बड़ी आवाज कन् ने सारों गी लाया **मुर्गी गी**³⁷³² जो स्वर्ग दे बिच्च उड़दे न, ऐ

“आओ ते इकट्टे होओ के लिए **महान परमात्मा दा भोज**.”

☞ **प्रकाशितवाक्य 19:18 ऐ टी**ओपी तुस राजाएं दा मांस, कप्तान दा मांस, ताकतवरें दा मांस, घोड़े दा मांस खा सकदे ओ।

ते उंदे उप्पर बैठने आहें ते सारों दे मांस, मुक्त ते गुलाम, छोटे-बड्डे।

- जो सारे हैं **मुर्गी गी** स्वर्ग दे बिच्च उड़दे?

स्वर्ग दा राजसरसों दे दाने दे समान ऐ जेड़ा इक माहू (मनुक्ख दे पुतर) ने लेईये राज दे पुतरें दे दिमाग च बोया। हालांकि एह सारे बीएं थमां घट्ट ऐ, पर बीज दा... **मसीह** धरती च बोए गेदे सबतू बड्डी जड़ी-बूटी तकर उगदा ऐ ते जीवन देने आह्ला बूट्टा बनी जंदा ऐ (जां जीवन दा बूट्टा), तां जे मनुक्ख दी आत्मा दा जीवन (जिसी आध्यात्मिक तौर उप्पर सुगं दे बिच्च उड़ने आह्ले मुर्गी दे रूप च वर्णत कीता गेदा ऐ, जां... धरती दा आकाश) आओ ते उसदी शाखाएं च ठहरना (**मती 13:32 ऐ, ऐ जहन्ना 15:5 ऐ**)⁸⁴⁰

अर्द, प्रभु दी आत्मा गी उन (आकाश दे मुर्गी) उप्पर आराम करग) जो में निवास करदे हैं **यीशू मसीह**, ते उंनेगी बुद्धि ते समझ, सलाह ते पराक्रम, ज्ञान ते प्रभु दे डर दी आत्मा कन्ने भरो (**यशायाह ११:२**).

→ इस तर्हा, जो जीवां विच निवास करदे हन **यीशू मसीह** ते उदी आत्मा च, सुगं दे बिच्च उड़दे आत् मक रूप च न

मुर्गी दे रूप च वर्णिता स्वर्ग दे बिच्च विश्राम करने आलें दी आत्मा मांस दा भस्म कर देगा

सारें मनुखें दा जेड़े बड्डे परमात्मा कन्ने लड़ाई करने आस्ते इकट्टे होंग (**प्रकाशित 19:19 ऐ**).

(प्रकाशित 19:19 ऐ) जानवर, जमीन दे राजा, & उंदी फौज परमात्मा कन्ने लड़ाई लड़दी ऐ

प्रकाशित 19:19 ऐ ते मैं जानवर ते धरती दे राजाएं गी दिक्खेआ।¹⁰⁹³ ते उंदी फौज,

घोड़े उप्पर बैठे दे ते उदी फौज कन्ने लड़ने आस्ते इकट्टे होए।

☞ **प्रकाशित 19:19 ऐ इक**nd मैं उस जानवर गी, धरती दे राजाएं ते उंदी फौज गी दिक्खेआ।

घोड़े उप्पर बैठे दे उंदे कन्ने ते उदी फौज कन्ने लड़ने आस्ते इकट्टे होए।

→ जानवर, जमीन दे राजा, & उंदी फौज परमात्मा कन्ने लड़ाई करने आस्ते इकट्टी होई जागा

⁸⁴⁰वीडियो 28. “आत्मा दा फला” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्मा-दा-फला/.

प्रकाशितवाक्य 19:20 1st beast & झूठे नबी गी जिंदा अग्न दी झील च सुट्टी दिता जंदा ऐ

प्रकाशितवाक्य 19:20 ते उस जानवर गी लेई गया, ते उं दे कन्ने चमत्कार (चिन्हें) करने आला झूठे नबी गी बी पकड़ी लेता गेआ ^{#4592} उं दे सामने,
अंदर ^{#1722} उन उं जानवरों दी निशानी पाने आलें गी धोखा दिता।
ते उदी मूर्ति दी पूजा करने आले भी। एह दवें जिंदा गंधक कन्ने जली दी अग्न दी झील च सुट्टी दिते गो।

☞ प्रकाशितवाक्य 19:20 अद ओह (1 वी) दरिंदा (बाबूल दा) लेई गया, ऐ
ते उं दे कन्ने झूठे नबी गी (2 वी जानवर दा) जिन्हां ने उस तों पहलां निशानी कम्म कीता,
जिस च ओह "जानवर दा निशान" ते उदी पूजा करने आले बिंब.
टी these दो जिं दे गै गंधक कन्ने जली दी अग्न दी झील च सुट्टी दिते गो।

• **अग्न दी झील**

→ 1 जानवर, ते 2 जानवर दे झूठे नबी गी जिंदा अग्न दी झील च सुट्टी दिता जंदा ऐ।

प्रकाशितवाक्य 19:21 ऐ प्रभु यीशु मसीह दी तलवार (रिमा) बचे दे लोकें गी मारदी ऐ

प्रकाशितवाक्य 19:21 ऐ ते बचे दे लोकें गी मारी दिता गेआ (मार दिता गेआ) ^{#615} घोड़े उपर बैठे दे दी तलवार कन्ने;
जो तलवार ^{#4501} उं दे मुंह च निकली गया, ते सारे पंछी अपने मांस कन्ने भरोचे दे हे।

☞ प्रकाशितवाक्य 19:21 ऐ इकंद अवशेषों के साथ मार दिया गया तलवार दा ^{#4501} (जित ज्वालामुखी तलवार है आहलारेमा दा) ⁸⁴¹
जो उस दे मुंह तों निकली (प्रभु यीशु मसीह गी) जो घोड़े पर बैठे.
इकंद सारे मुर्गे अपने मांस कन्ने भरोचे दे हे।

→ तलवार (रिमा) दा ⁸⁴² प्रभु यीशु मसीह दा बचे दे गी मार देगा।

✦ **नवे नियम दे शब्दसाडे द्वारा बोली गई नाथ "रिमा" ऐ, जेहड़ा लपटें कन्ने औंदा ऐ ³⁸⁵¹ आग्न दा ⁷⁸⁴ ते तलवार ²⁷¹⁹ ऐ आहला प्रभु सारे शरीर गी। ते प्रभु उं लोकें गी मारी ओइग जिं दे कम्में ते विचारों गी भलाई-बुरे दे ज्ञान दे बूट्टे कन्ने पवित्र ते शुद्ध कीता गेदा ऐ (यशायाह 66:15-16 च).**

- ऐ प्रभु परमात्मा शुरू च धरती ते आकाश बनाई लेदा हा, पर प्रभु गी भी बना देगा ओह
नए आकाश ते नई धरती इस्पाएल दे पुत्तरें आस ते, तां जे उंदा बीज ते उंदा नांउ उर्थें गै खड़ोते दा होऐ।
सारे जाति ते भाशा च पराएंग गी बलिदान दे रूप च लेई औन प्रभु गी सारे राष्ट्रों चाँ बाहर निकल के
यहोवा दा पवित्र पहाड़ यरूशलेमा।

• **अधर्मों को लानत होगा**

रथिस २:१० ते नाश होने आलें च अधर्म दे सारे धोखे कन्ने;

की वे उन्हें सच्चाई दा प्रेम नेई किता, तां जे उंन्दे उद्धार होना।

रथिस २:११ ते इस कारण ईश्वर उन्हें प्रबल भ्रम भेज देगा, तां जे ओह इक झूठ उपर विश्वास करना।

रथिस २:१२ तां जे ओह सारे सच्चाई उप् पर विश्वास नेई करदे, लेकन अधर्म उप् पर खुश होई जं दे हना।

→ जेड़े जानवर दी निशानी लेईये जानवर दी मूर्ति दी पूजा करदे न, ओह सारें कन्ने नाश होई जांगन।

उं दे च अधर्म दी धोखा। उहनां नू बचाया जांदा, जे उहनां नू प्यार मिलदा।

सच्चाई दा, लेकन ओह झूठे उपर विश्वास करदे हे, जिसदे उपर कोई सच्चाई नेई ही (१योह २:४), ते इस चाल्ली उंनेगी लानत दिता गेआ।

• **परमेश्वर तुसें गी शुरू थवां गै उद्धार आस ते चुनेया ऐ**

रथिस २:१३ पर अस हमेशा धन्यवाद करना लाजमी आईश्वर तुं दे आस ते, हे प्रेयो प्रभु, की जे

⁸⁴¹ संदर्भ देना प्रकाशित 1:12 ऐ-13 ऐ.

⁸⁴² वीडियो 20. "(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवार।"

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

ईश्वरशुरू थवां गै तुसैं गी उद्धार लेईं चुनेया ऐ

दे राहें आत्मा दा पवित्रीकरणते सच्चाई दा विश्वास: 1।

रथिस २:१४ उन साहडे सुसमाचार दे जरिए तुसैं गी सहेया, तां जे साडी महिमा हासल कीती जा प्रभु यीशु मसीह.

रथिस २:१५ इस आस् ते ऐ भ्राओ, खड़ोते दे रौओ, ते जेड़ी परंपराएं गी तुसैं सिखाया ऐ, उसी पकड़ी लैओ।

चाहे शब्द दे द्वारा (लोगो दा), ऐ³⁰⁵⁶ या साडापत्र.¹⁹⁹² ने ऐ

रथिस २:१६ अब हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने आप गी, ते ईश्वर, इत्थू तगर जे साढे बापू, जिसने साडे कन्ने प्यार कित्ता; ते अनुग्रह दे जरिए असैंगी अनन्त दिलासा ते भलाई आशा दिती ऐ।

रथिस २:१७ अपने दिलें गी दिलासा देओ, ते हर भलाई च तुसैं गी स्थिर करो (लोगो दा)³⁰⁵⁶ ते कम्म करना.

→ तुसैं जानवर दी मूर्ति दी पूजा नेईं कीती ते जानवर दा निशान नेईं लेता कीजे ईश्वर ऐ

शुरू थवां गै तुसैंगी मूक ति आस् ते चुनेया ऐ आत्मा दे पवित्रीकरण ते सच्चाई दे विश्वास दे जरिए, मतलब तुसैं प्यारे हो चुके हो प्रभु. इस आस् ते असैंगी पबित्तर ते शुद्ध कित्ता जाना ऐ

पानी धोना (लोगो दा) च ओह रेमा, साढे पेट च जिदे पानी दी नदियें दा प्रवाह होना (इं७:३८ दा).

दे राहें यीशु दा आज्ञा मनना, अब्बा पिता जीसब कुछ मुमकिन कर दिता (मार्च 14:36 दी) ते इक रस्ता बनाई लिया "अनन्त जीवन" साडे वास्ते (१योह २:२५).

इस करिए बढदा जा करदा लोगो दा आहला ईश्वर च तुसैं गी अपने मूल दी धरती गी पवित्र करने आस्ते, ते हमेशा लेईं बनाने आस्ते

तुं दे शरीर गी पवित्र धरती उपर गै रौहना चाहिदा तां जे तुस फलदार होई सकदे ओरेमा दा आहला प्रभु, ऐ

केहू यीशु जिसगी "इनें कोला बी बड़डे कम्म करडनतें करो (जहन्ना 14:12 ऐ)"⁸⁴³

इस चाल्ती तुस दी छवि ते उपमा च इक नमां प्राणी बनी जं दे ओ प्रभु परमात्मा, जो परमात्मा ने बनाया शुरू च गै।"

मरे हुए अपने मरे दफनाने दे⁸⁴⁴

→ जदुं यीशु ने गू लाया, "मरे पिच्छे चलो" तां एदा मतलब ऐ के उनेंगी परमेसरे दे राज दा प्रचार करना ऐ, ते ओह पिच्छें नेईं जाई सकदे अपनी जमीन पर अपने परंपरागत कानून दा पालन करने आस्ते, उदाहरण दे तौर पर अपने पिता गी दफनाना (लुका ९:५९-६० दा).

→ जेकर यीशु मसीह तुं दे कन् ने ऐ, परंपरागत नियम तुसैंगी हुन नेईं बन्नी दिदा कीजे तुस मसीह च आज्ञाद ओ विश्वास दे जरिए जेड़ा प्रेम कन्ने कम्म करदा ऐ (गलाती 5:6 ऐ) में के लिए यीशु मसीहना खतना दा कोई फायदा होंदा ऐ; ना गै खतना नेईं, लेकन विश्वास जो प्रेम कन्ने कम्म करदा ऐ।"

➤ प्रभु जी तुं दे दिलें गी पैहे पवित्रता च निर्दोष स्थापित करग ईश्वर, इत्थू तगर जे साढे बापू, साडे आने पर प्रभु यीशु मसीह अपने सारे पवित्र संत (१थूथ ३:१३, ऐजदे 1:14 ऐ).

१थूथ ३:१३ अन्त तक ओह तुं दे दिलें गी पवित्रता च निर्दोष रूप च स्थिर करी सकै, जेड़ा साढे पिता परमात्मा दे सामने ऐ।

पर आने दा साडे दा प्रभु यीशु मसीह अपने सारे कन्ने संत लोग.

जदे 1:14 ऐ आदम दे सतमें हनोक ने भी इन्हें दी भविष्यवाणी कित्ती।

दिखो, प्रभु आंदी ऐदस हजारों नाल उस दे संत लोग, ऐ

- ऐ मसीह दा दिन साडे बाद आ जावेगा प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र संत दे नाल आन्दा हैते गोग पर काबू पाओ ते मगोग द्वितीय 1000 सालें दे बाद खत्म होई जं दे न (प्रकासित 20:7-10).

⁸⁴³वीडियो 13. "शब्द (लोगोस & rhēma)" www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-पवित्र-आत्मा-दा-वरदान/.

⁸⁴⁴वीडियो 36. "[36] दृशंत स्वर्ग दा राज & परमात्मा दा राज्य।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-द-दृशन्त-स्वर्ग-दा-राज्य-देव-दे-राज्य/.

(प्रकासित 20:1 ऐ) अथाह गड्डे दी कुंजी & इक महान श्रृंखला

प्रकासित 20:1 ऐते मैं इक सुर्गदूत गी सुर्ग थमां उतरदे दिक्खेआ, जिसदे हत्थे च अथाह गड्डे दी चाबी ते इक बड्डी जंजीर ही।

☞ प्रकासित 20:1 ऐते मैं इक सुर्गदूत गी सुर्ग थवां उतरदे दिक्खेआ।
अथाह गड्डे दी चाबी ते हत्थे च इक बड्डी जंजीर रखदे होई।

- अथाह गड्डे दी कुंजी & इक बड्डी जंजीर
→ अजगर गी 1000 साल तकर अथाह गड्डे च सुट्टना (प्रकासित 20:2-3 ऐ).

(प्रकासित 20:2-3 ऐ) अजगर (पुराने नाग, शैतान, शैतान): 1000 सालें तकर अथाह गड्डे च सीलबंद

प्रकाशितवाक्य 20:2 उन अजगर गी, उस बुजुर्ग नाग गी, जेड़ा शैतान ते शैतान गी पकड़ी लेता।

ते उसी बन्नी लेता **हजार साल दा**, ऐ

प्रकासित 20:3 ऐते उसी अथाह गड्डे च सुट्टी दित्ता, ते उसी बंद करी ओड़ेया ते मुहर लाया ⁴⁹⁷² उस पर, ऐ

कि ओह राष्ट्र गी धोखा दे ¹⁴⁸⁴ हजार साल पूरा होने तकर ना।

ते उसदे बाद उसी थोड़ा मौसम (समय) ढीला होना चाहिदा ⁵⁵⁵⁰

☞ प्रकाशितवाक्य 20:2 इक **उसने** अजगर गी, उस पुराने नाग गी, जेड़ा शैतान ते शैतान ऐ, गी पकड़ी लेता।

ते उसी बन्नी लेता **ए 1000 साल दा**.

☞ प्रकासित 20:3 ऐ इक **उसने** उसी अथाह गड्डे च सुट्टी दित्ता ते उसी बंद करी ओड़ेया ते बैठी गया **इक मुहर** उस पर, ऐ

तां जे ओह 1000 सालें दे खत्म होने तकर राष्ट्र गी होर धोखा नेई देगा।

बीut इनें गल्लें दे बाद उसी थोह् डी चिरे आस्ते छड्डना गै पौगा।

→ अजगर महान अजगर, बुजुर्ग नाग, शैतान, ते शैतान ऐ जेड़ा सुर्ग थमां बाहर कड्डी दित्ता गेदा हा जमीन (प्रकासित 12:9 ऐ).⁸⁴⁵

- ऐ **1000 साल दे दौरान धरती दे परिवारों दी उम्र**

- शैतान दाजिसदे च मौत दी ताकत ऐ (इब्रानियों 2:14 ऐ) गी 1000 साल तगर अथाह गड्डे च सील कीता जाग। यानी शैतान कू राष्ट्रं (या धरती दे परिवारं) वास्ते मौत दी कोई ताकत कैनी होसी (जकरयाह 14:17) 1000 सालें दे दौरान, ते नतीजे च उंदी उम्र बीचाहना नूह दे जमाने दी तरह विस्तार होवे, जो 950 साल तक जीया (उत्पत्ति ९:२९).

- ऐटी **उसने** इक 1,000 साल दी शुरुआत (अदन दा बाग)

(इज 36:33-36 ऐदुबारा अनुवाद कीता गेआ)

इज 36:33 ऐइयां आखदा ऐप्रभु ('*ādōnāy*) दा ¹³⁶ ईश्वर (*y^hōvā*); ³⁰⁶⁹

दिन में कि मैं तुगी तेरे सारे पापों कोलां शूद्ध करी ओड़ना ऐ

मैं तुसें गी शैहें च बी रोहगा, ते उजाड़ बी बनी जाग।

इज 36:34 ऐते उजाड़ धरती ⁷⁷⁶ जोत कीती जानी ऐ, जदके ओह सारे गुजरने आलें दी नजर च उजाड़ पेदा हा।

इज 36:35 ऐते बोलनगे, "ए धरती!" ⁷⁷⁶ जो उजाड़ था, ऐसा बन गया **अदन दा बाग**;

ते उजाड़ ते उजाड़ ते बर्बाद शैहें च बाड़ लगी गेदे न, ते लोकें च रौहदे ना।

इज 36:36 ऐफिर गैर-यहूदी कौम ¹⁴⁷¹ जो तहाडे चारों पासे बचे होए हनजान जाएगा कि

में ओह नाथखंडहर जगहां बनाओ, ते जेड़ा उजाड़ हा उसी रोपना।

में प्रभु गी बोलेया ऐ, ते मैं करगा।

इज 36:37 ऐइयां आखदा ऐप्रभु ('*ādōnāy*) दा ¹³⁶ ईश्वर (*y^hōvā*); ³⁰⁶⁹

मैं अजें बी इस्राएल दे घरे थमां इस गल्लै गी पुच्छी लैना ऐं जे उंदे आस्ते एह कम्म करी सकां;

⁸⁴⁵ [चित्र 13-4] बाबुल दा महान शहर" दा संदर्भ लैओ।

मैं गुणा करगा^{एच 7235} उनेंगी मनुखें कन् ने^{एच 120} झुंड दे समान.

इज 36:38 ऐजियापवित्र झुंड गी, जिय्यां यरुशलेम दे भेड़ें गी उंदी गंभीर भोज च;

इस चाल्ली उजाड़ शैहर मनुखें दे झुंडें कन्ने भरोची जांगन, ते ओह जानन जे मैं हांप्रभु गी.

→ जिस दिन ओह अपने सारे अधमें कोला शुद्ध होंगन, उस दिन उजाड़, उजाड़, बर्बाद शैहर होंगन

बाड़ ते आबाद हो जाओ, ते उजाड़ धरती दे समान हो जावेगी **अदन दा बाग**.

प्रभु जी ('ădōnay) दा ^{एच 136} ईश्वर (**y^hōvâ**) ^{एच 3069} झुंड दे समान मनुखें गी बघाग, जिय्यांपवित्र झुंड गी आहला

यरुशलेम अपनी गंभीर भोज च, तां जे ओह जानन के ओह ऐप्रभु गी.

- इस्राएल दा सारा घर (स्वर्गीय यरुशलेम च इकट्टा होई गेदा ऐ)

इज 39:25 ऐइस आस ते एह ग् लाया **प्रभु ('ădōnay)** दा ^{एच 136} ईश्वर (**y^hōvâ**), ^{एच 3069}

अब फिर लाना **याकूब दी बंदी**, ते सारे उप्पर दया करो **इस्राएल दा घर**, ऐ

ते मेरे पवित्र नां आस्ते ईर्ष्या करा;

इज 39:26 ऐउसदे बाद उने अपनी शर्म गी सहन कीता ऐ,

ते उंदे सारे अपराध जिंदे कन्ने उने मेरे उप्पर अपराध किता ऐ।

जदुं ओह अपनी जमीन च सुरक्षित रौंदे हे, ^{एच 127} ते किसे ने उनेंगी डरा नेई दिता।

इज 39:27 ऐजदुं मैं उन्हे गी लोके कोलां फिरी लेई आया ऐं,

ते उनेंगी अपने दुश्मनें दी धरती च कट्टा करी लेता। ^{एच 776}

ते मते सारे जातियें दे सामने उंदे च पवित्र होई गेदा ऐं, ^{एच 1471}

इज 39:28 ऐतफ उन्हे नता चरेगा कक भैं शौनाथ (यहवा) दा ^{एच 3068} उंदाईश्वर ('एलोहिमा'), ऐ ^{एच 430}

जिसदे कारण उनेंगी गैर-यहूदी जातिएं च कैद करी दिता गेआ।

परमैं उनेंगी उंदे अपने च इकट्टा करी लेआ ऐमदान, ऐ ^{एच 127} ते उंदे चा कुसे गी बी उर्थें नेई छड्डेया।

इज 39:29 ऐते ना गै मैं उंदे कोला अपना मुंह छुपाना ऐ।

कीहके मैं अपनी आत्मा गी उछाल दिता ऐ **इस्राएल दा घर**, ऐ

कहते हैं **प्रभु ('ădōnay)** दा ^{एच 136} ईश्वर (**y^hōvâ**). ^{एच 3069}

→ **प्रभु जी ('ădōnay)** दा ^{एच 136} ईश्वर (**y^hōvâ**) दा ^{एच 3069} याकूब (जो चाहदे ने) दी बंदी गी फिरी लेई और

दानियेल दे 70वें हफ्ते दे 2 आधे तों बाहर आओ, यानी महान संकट, ऐयिर्मयाह 30:7 ऐ) बाहर अपने

दुश्मनें दी धरती ते उनेंगी अपनी जमीन (अदन दे बाग च) इकट्टा करो। **प्रकाशितवाक्य 19:15-18 ऐ**), जित

परमातमा दा जन्त है, **टीओहमदान** स्वर्गीय यरुशलेम दी धरती दा (**प्रकाशितवाक्य 22:14 ऐ**).

- परमातमा दा जन्त

यशायाह 65:18 चलेकन मैं जेड़ी पैदा करदा हां, उदे उप्पर तुस हमेशा खुश रौओ।

की वे, दिखो, मैं पैदा करदा हां **यरुशलेम** इक खुशहाल, ते ओस दे लोक आनंद।

यशायाह 65:19 चते मैं खुश होवांग **यरुशलेम**, ते मेरे लोके च खुशी: 1।

ते ना गै उदे च रोने दी आवाज सुनी जाग ते ना गै रोने दी आवाज।

यशायाह 65:20 चउत्थं दा कोई दिन दा शिशु ना होवेगा।

ना कोई बूजूर्ग (बड्डा) ^{एच 2205} जेस ने अपने दिनें गी नेई भरया: 1।

बच्चे (एक मुंडा) दे वास्ते ^{एच 5288} सौ साल दी उम्र च मर जाह्य;

लेकन पापी सौ साल दी उम्र च शापित होई जाग।

यशायाह 65:21 चते घर बनान ते उंदे च रौहग; ते अंगूर दे बाग लानगे।

ते उंदे फल खाओ।

यशायाह 65:22 चओह नेई बनान, ते दुऐ गै रौहग; ओह रोपना नेई करन, ते दुआ खाग;

की वे जिय्यां बूहटे दे दिन मेरे लोकें दे दिन होंदे ना

ते मेरे चुने गेदे लोक लंबे समें तकर अपने हर्थें दे कम्में दा मजा लौगन।

यशायाह 65:23 चओह बेकार मेहनत नेई करंगन, ते ना मुसीबत पैदा करंगन;

कीजे ओह गै **हनबीज गी** ^{एच 2233} के आशीर्वादित दा **प्रभु गी**, ते उंदी संतान बी उंदे कन्ने।

यशायाह 65:24 चते ऐसा होवेगा कि उन्दे पुकारने कोला पैहले मैं जवाब देगा;

ते जदुं ओह ग् लांदे हन, तां अऊं सुनी लैना।

यशायाह 65:25 चभेड़िया ^{एच 2061} तेमेमने दा (होमा बलिदान दे वास्ते) ^{एच 2924} करगखलाओकिडे, ऐ

ते शेर बैल दे समान भूसा खाग, ते धूड नाग दा खाना होग।

मरे सारे पवित्र पहाड़ च ओह ना चोट करंगन ते नाश करंगन, आखदा ऐप्रभु गी. [एच 3068](#) रे

→ यरूशलेम च परमसरे दे लोकें दा खुशी, जिय् यां के वर्णन यशायाह [65:18-25](#) चमें होंगेरब दा **सुरग दरम्यान मसीह दा 1000** दा राज।⁸⁴⁶

➤ **स्वर्ग च: 1** ज्ञानी ते मूर्ख कुंवारी⁸⁴⁷ जिंदा हो जाह्या ते कन्नै राज करग मसीह लेईए **1000 साल दा**.⁸⁴⁸

(१) ऐ. **ज्ञानी कुंवारी** (जिस गद्दी ते बैठे): मेमने दी घरेआली ओह गै हन, जिनेंगी न् याय दित्ता जंदा हा दी गई [\(प्रकासित 20:4 ऐ\)](#).

(२) ऐ. **मूर्ख कुंवारी** (पल्ल करने वाले **उन्** अंत तक, [प्रकासित 2:26 ऐ](#)): महासंकट संत जो जानवर दे निशान गी हासल करने थमां इन्कार करने दे कारण सिर कट्टे गे हे।

→ उनेंगी राष्ट्रें उपपर अधिकार दित्ता जाग ते उनेंगी लोहे दी छड़ी कन्नै खिलाया जाग [\(प्रकाशितवाक्य 2:26-27 ऐ\)](#).

➤ **धरती दी जमीन**: धरती दे खानदानें गी जमीन उपपर गै छोड़ी दित्ता जागए **1000 साल दा**.

- ना रोना ना रोना,
- फिर कदें बी कोई शिशु नेई होग जेहड़ा किश दिनें दे अलावा जिंदा रौह्या, जां इक... **इडेर** पूरी जिंदगी जीने तां पहलां मर जांदे ने,
- इक लौंडा (दासी दा पैदा होया पुत्र)⁸⁴⁹ सौ साल दी उम्र च मरग, लेकन सौ साल दी उम्र च मरने आला पापी शापित होगा।
- उंदे कोल प्रभु दे आशीषी दा बीज (रमा) ते उंदी संतान बी उंदे कन्ने ऐ।
- **भेडियाते मेमने गीकी** वे होमबलि इकट्टे चरागा।
- शेर बैल दी तर्हा भूसा खावेगा,
- धूड नाग दा मांस होग (ओह सारे प्रभु दे पवित्र पहाड़ च चोट नेई करंगन ते नाश करंगन)।

→ **जिंदगी दा पेड़** अदन दे बाग दे बिच्च ऐ [\(उत्पत्ति २:९-१५\)](#), जो च ऐपरमातमा दा जन्त.⁸⁵⁰

- **ऐ** पर कीजे अदन दे बाग च बी ऐ **भलाई-बुरे दे ज्ञान दा पेड़**, भेडिया होगा साथ मिलकर खिला **मेमने दा चपरमातमा दा जन्त** [\(यशायाह 65:25 च\)](#).

[उत्पत्ति २:९](#) औय जभीन वे फनामा **प्रभु परमात्मा**

हर इक बूट्टे गी उगाना जेहड़ा दिक्खने च सुखद होऐ, ऐ
ते खाने आस्ते बी भला; **जिंदगी दा पेड़** बाग दे बिच्च बी,
ते **भलाई-बुरे दे ज्ञान दा पेड़**.

→ क्योकि धर्मी दा फल [\(फल दा आहलायीशु मसीह, ऐशयोह २:१\)](#) ऐ जिंदगी दा इक पेड़ [\(प्रो 11:30 ऐ\)](#), ऐ ज्ञानी खाने दा फैसला करंगन **जिंदगी दा पेड़**, ते रूह जीत [\(1ति 1:17 ऐ\)](#), ते जीना **उक्का** [\(उत्पत्ति २:९\)](#).

[उत्पत्ति ३:२२](#) ते परमातमा ने आख्या, “दिखो, मनुख साढ़े च इक दे समान होई गेदा ऐ।

भलाई-बुराई गी जानने आस्ते, ते हुन तां जे ओह हत्थ नेई बधागा।

और ले भी के **जिंदगी दा पेड़**, ते खाओ, **तेसदा जीओ: 1!**

[प्रो 11:30](#) ऐ धर्मी दा फल है **जिंदगी दा इक पेड़**; ते जेड़ा प्राणें गी जित्ता ऐ, ओह ज्ञानी ऐ।

[\(प्रकासित 20:4 ऐ\)](#) 144,000 ते महान संकट संत मसीह दे नाल 1,000 साल तक राज करन

⁸⁴⁶“[3] दानिय्येल दे 70 हफते” दा संदर्भ लैओ।

⁸⁴⁷संदर्भ देना [प्रकासित 2:26 ऐ](#).

⁸⁴⁸से कैद की गई [प्रकासित 20:4 ऐ](#).

⁸⁴⁹“[प्रकासित 10:8-11 ऐ](#) छोटी किताब (Receive & devour to prophesy again).”

⁸⁵⁰“[3] दानिय्येल दे 70 हफते” दा संदर्भ लैओ।

प्रकासित 20:4 एते में सिंहासन दिक्खे, ते उंदे उप्पर बैठे दे हे, ते उंदे उप्पर न्याय दिता गेआ।

ते में उंनें लोकें दे प्राणें गी दिक् खेया, जिनें गी यीशु दी गवाही आस् ते सिर कट्टेया गेदा हा।
ते शब्द (लोगो) दे वास्ते³⁰⁵⁶ परमात्मा दा, ते जो ना ते उस जानवर दी पूजा कीती ही, ना उदी मूर्ति दी।
न ही (पर) पर अपना निशान पाया हा।¹⁹⁰⁹ उंदे मत्थे, या (पर) च¹⁹⁰⁹ उंदे हत्थे;
ते ओह मसीह दे कन्ने इक हजार साल जिंदे ते राज किता।

☞ प्रकासित 20:4 एते में (यूहन्ना) सिंहासन दिक्खे, ते उंदे उप्पर बैठे दे हे, ते उंदे उप्पर न्याय सौंपेआ गेआ।
फिर में उंनें लोकें दी आत्माएं गी दिक्खेआ जेहडे उंदे आस्ते सिर कट्टे गेदे हेगुआह्मीयीशु
ते लेईलोगो दाआहलाईधर, ते जिस ने जानवर ते उदी मूर्ति दी पूजा नेई किती ही।
ते उंदे मत्थे उप्पर ते उंदे हत्थे उप्पर उंदा निशान नेई लाया हा।
ते ओह जिंदे रेह ते उंदे कन् ने राज करदे रेहमसीहलेईए 1000 साल दा.

<मसीह दा दिन>

- **इक दिन** जानने के लिये प्रभु गी, होंगेलोशाम गी

जकरयाह 14:6 ते उस दिन कोई उजाला नेई होग; रोशनी कम हो जांदी ऐ।

जकरयाह 14:7 पर एह गै होग **इक दिन** जो जता चरेगा प्रभु गी (यहोवा), ऐ³⁰⁶⁸ ना दिन ते ना राता।

लेकन शाम दे समें होगलो.²¹⁶

जकरयाह 14:8 ते उस दिन गै होग, जे जिंदगी के पानीसे बाहर निकल जाएगा यरूशलेम;

आधा पूर्वी समुंदर दी ओर, ते आधा पश्चिमी समुंदर दे बक्खी;

गर्मियें ते सर्दियें च होग.

- हो जाएगा परमात्मा दी रोशनी शाम दे बाद प्रभु यीशु मसीह दा औना, जो 4 वीं घड़ी है, जिस विच प्रभु (मसीह) चाहना प्रकट हो (देखे) ³⁷⁰⁰ 1537

जियां इकरुह रात गी ³⁵⁷¹ (मार्च 6:48 गी).

→ जिंदगी के पानी, जेडे यरूशलेम थवां निकली गे ते जमीन गी शुद्ध किता।

→ 4 वीं घड़ी "**बाकी कआरियां**" जो इस दौरान जमीन पर होंगे ओह 1000 साल दा. ओह

आ जाओगे **जीवन** 1000 सालें दे खत्म होने दे बाद, ते इस चाल्ली उंदे च हिस्सा लैने दा आशीर्वाद मिलदा ऐपेहला
जी उठना.

→ टीओहदा "**इक दिन**" जानने दायहोवाऐ दिन ऐ जे "**मसीह**" "दिक्खे" जाडना **2 वी बार बिजन**
पापकोमोक्ष दे.

इब्रानियां १:२८ दाइसलेई मसीह इक बारी मते सारें दे पापें गी सहन करने आस्ते चढ़ाया गेदा हा; ते उंनें गी जे...

उसी दूहोक्का ओह दूजा (**2 वी**) समाबिना पाप देकोमोक्ष दे.

- ज्ञानी कुंवारी & मूर्ख कुंवारी दी फसल

(१) (१) (ज्ञानी कुंवारी) सिंहासन पर बैठे: 1।

- मेम्ने दी घरेआली ओह गै हन, जिनें गी न् याय दिता गेदा हा।

→ **144,000** दी परमेसरे दे मंदर च (पवित्र यरूशलेम च, पवित्रर दे...

पवित्रतम), ते ओह होर बाहर नेई जांगना⁸⁵¹

→ ओह सारे गैर-यहूदी जातिएं गी खिलाना लोहे दी इक छड़ी.⁸⁵²

(२) (२) (मूर्ख कुंवारी) मारी दी आत्माएं गी: 1।

- पवित्र संत जिन्हां दे सिर कट्टे गए कि जानवर दा निशान नहीं मिलया।

- **7 कलीसियाएं दे विजयी** (144,000 & पवित्र संत) जीना ते राज करगे मसीहलेईए 1000 साल दा.⁸⁵³

⁸⁵¹ "प्रकासित 3:12 ऐ."

⁸⁵² "प्रकाशितवाक्य 12:4-5 इक जनानी (स्वर्गीय यरूशलेम) ने इक पुरुष पुत्र पैदा किता (The 144,000)."

⁸⁵³ "प्रकाशितवाक्य 5:7-14 ऐ" पवित्र संत गी परमात्मा दे राजा ते पुजारी बनाया जंदा ऐ."

- ऐजीतने आलें गी मसीह दे कन् ने 1000 सालें तकर जीना ते राज करना⁸⁵⁴

जकरयाह 14:9ते प्रभु गीसारे धरती उपर राजा होगाउस दिन इक गै होगनाथ, ते उदा नां इका

→ प्रभु (यहोवा) सारी धरती उपर राजा होग, ते इक गै होगनाथ, ते उदा नां इका

→ इक प्रभु⁸⁵⁵मतलब किईश्वरदा पिता हैमसीह, ते दामसीह दे पैहले फल.⁸⁵⁶

रकरिन्थियों ६:१८औय शोगाइक पिता^{#3962} तुन्दे कोल, ते तुस मेरे पुत्र ओगे^{#5207} ते धीयां, ऐ^{#2364} कहते हैं प्रभु^{#2962} सर्वशक्तिमान जी (पटोक्रतोर) दा.^{#3841}

→ शामिल होनागीमसीह, ते च उगनाप्रभु, तां जे अंदरइक प्रभु, ऐ⁸⁵⁷उदे पिता (ईश्वर) तेरा पिता बण जांदा है.

→ प्रभु जी (क्योरिओस) सर्वशक्तिमान जी (जां प्रभुते मुक्तिदाताईश्वरकहंदा है, "मैं तुहाडा हो जावांगाबापु, ते तू मेरा हो जाओगेपुत्रतेवेटियां."

• परमातमा दे पुत्र

फिलिप्पी 1:9 ऐते मैं ए प्रार्थना करना के तुन्दा प्रेम ज्ञान ते सारे न्याय च होर बी मता जादा होऐ;

Phi 1:10 ऐ तां जे तुस उत्तम चीजें गी मंजूर करी सकदे ओ; तां जे तुस सच्चे ते बेगुनाह होओ

तकमसीह दा दिन;

फिलिप्पी 1:11 ऐधर्म दे फल कन्ने भरोचे दे होन, जेड़े द्वारा होंदे नयीशु मसीह, ऐ

दी महिमा ते स्तुति आस्तेईश्वर.

फिलिपिन्स 2:14 ऐबिना कुसै गुनगुनाए ते विवाद दे सारे कम्म करो;

फिलिपिन्स 2:15 ऐओहोनिर्वोष ते हानिरहित हो सकदा ऐ, परमातमा दे पुत्र, बिना डांट दे,

इक टेढ़ी ते विकृत कौम दे बिच्च, जिंदे बीच तुस रोशनी दे रूप च चमकदे ओ^{#5458} दुनिया च;

फिलिपिन्स 2:16 ऐशब्द (लोगोस) गी अमों बधाना^{#3056} जिंदगी दा; तां जे मैं खुश होई सकांमसीह दा दिन, ऐ

कि मैं बेकार च नेई दौड़या ते ना गै बेकार मेहनत कीती।

→ अपने आप गी धर्म दे फल कन्ने भरोचे दे, बिना डांट दे निर्दोष, लेकन च चमको

दुनियाकन्ने भगवान दी रोशनीजेडा तुंदे च ऐ, ते पकड़ो जिंदगी दे लोगो, तां जे तुस खुश होओच

मसीह दा दिन होआ करदापरमातमा दे पुत्र, ऐ⁸⁵⁸ए जानदे होई के तुस बेकार नेई दौड़े, ते ना गै

व्यर्थ मेहनत कीती (फिलिपिन्स 2:16 ऐ).

* "[3] डैनियल दे 70 हफतें" थमां कैद कीता गेदा।



• यरूशलेम च सुरक्षित रौह्वा

जकरयाह 14:10सारी धरती गेबा थमां रिम्मोन तकर दे दक्षिण च मैदान दे रूप च बदली जागयरूशलेम: ते

उसी उपर चुक्की लैता जाग ते उदे थाहै पर बिन्यामीन दे फाटक थमां लेइयै पैह्ले फाटक दे थाहै तकर रौह्वा।

कोने दे फाटक तकर, ते हनानी दे बुर्ज थमां लेइयैराजा दे मदिरा दस्तें.

जकरयाह 14:11लोक ओस च रौहग, ते फिरी कोई विनाश नेई होग;

⁸⁵⁴"[3] दानियेल दे 70 हफते" दा संदर्भ लैओ, ते...जकरयाह 14:9-19.

⁸⁵⁵वीडियो 46. "जीवन दा जी उठना"www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-जीवन-दा-पुनरुत्थान/.

⁸⁵⁶"(प्रकाशितवाक्य 19:12-14 ऐ) परमात्मा दा लोगो" होर मती जानकारी लेई।

⁸⁵⁷संदर्भ देनाप्रकाशितवाक्य 19:11-14 ऐ.

⁸⁵⁸"(प्रकाशित 21:7 ऐ) विजयी (परमातमा दे पुत्र)" होर मती जानकारी आस्तै।

परयरुशलेम सुरक्षित रूप कन्नै आबाद होग.

जकरयाह 14:12 ते एह विपत्ति होग प्रभु गीउन सारे लोकें गी मारी देग जिनेंगी खिलाफ लड़ाई लड़ी ऐ

यरुशलेम; उंदे घेरें उप्पर खड़ोते दे उंदे शरीर दा भस्म होई जाग, ते...

उंदी अकखीं उंदे छेद च भस्म होई जांगन, ते उंदी जीभ उंदे मुंह च खत्म होई जांगन.

जकरयाह 14:13 ते उस दिन इक बड़डा विनाश होग प्रभु गीउंदे च बी होग;

ते हर इक गी अपने पड़ोसी दे हत्थै च पकड़ी लैग।

ते उदा हत्थ अपने पड़ोसी दे हत्थ उप्पर उठी जाग।

जकरयाह 14:14 ते यहूदा बी यरुशलेम च लड़ग; ते चारों पासे दे सारे गैर-यहूदी दी दौलत

सोना, चांदी ते वस्त्र बड़ी मती मात्रा च इकट्टा कीता जाग।

जकरयाह 14:15 ते घोड़े, खच्चर, ऊंट ते गधे दी बीमारी बी इयां गै होग।

ते इनें तम्बूए च होने आले सारे जानवरें दे बारे च इस महामारी दे समान।

जकरयाह 14:16 ते सारे जातिएं च जेड़ा बचे दा ऐ

जेड़ा यरुशलेम दे खिलाफ आया हा, ओह साल दर साल चली जाह्य

पूजा करना राजा दा, ऐसेनाएं दा प्रभु, ते रखना तम्बू दी पर्व.

→ सेनाएं दा प्रभु: 1: ělöhîm सारी धरती दाजां प्रभु परमात्मा इस्राएल दा, जेड़ा इक ऐनाथ.⁸⁵⁹

• धरती दे परिवार

जकरयाह 14:17 ते ओह गै होग, जेके धरती दे कुलें च नेई औन यरुशलेम

राजा दी पूजा करना, सेनाएं दा प्रभु, उंदे उप्पर बी बरखा नेई होग।

जकरयाह 14:18 ते जे मिस्र दा कुल नेई चली जा ते नेई आया, तां उदे च बरखा नेई होंदी; उथे महामारी होनी ऐ।

जिसदे नाल प्रभु गी गैर-यहूदी जातिएं गी मारी देग जेके ऊपर नेई औंदे

गीरकखो तम्बू दी पर्व.

→ धरती दे परिवार ओह होंगन जो 1000 साल च दाखल होंगना इस तर्हा जो नहीं करदे आजा मनदे ओ जिवें “पृथ्वी दे परिवार” गैर-यहूदी जाति हन।

• तम्बू दा पर्व मनाओ

जकरयाह 14:19 मिस्र दी सजा ते सारे गैर-यहूदी जातियें दी सजा ए गै होग

कि रखने के लिए ऊपर नहीं आते तम्बू दी पर्व.

जकरयाह 14:20 उस दिन घोड़े दी घंटी बजग। पवित्रता तक दीनाथ;

और घड़े में प्रभु दा घर वेदी दे सामने कटोरे दे समान होग.

जकरयाह 14:21 हां, हर घड़ा च यरुशलेम और में यहूदा होग पवित्रता को सेनाएं दा प्रभु.

बलिदान करने आला हर कोई आ के उन्हें लेई लेग ते उंदे च खाना बनाग।

उस दिन च कनान दा कोई बी नेई रौह्य सेनाएं दे प्रभु दा घर.

→ उथे मिस्र ते सारे गैर-यहूदी जातियें गी सजा मिलग जेके पालन करने आस् ते नेई औंदे दावत तम्बू दा. प्रभु दे घर दे घड़े वेदी दे सामने दे कटोरे ते हर घड़े दे समान होंगन यरुशलेम ते यहूदा च सेनाएं दे परमेसरे जां इक गी पवित्रता होगनाथ.

→ कनान ओह धरती हा, जित् थें अब्राहम ते उदी वंशज परदेसी दे रूप च रौंदे होई धर देने दा वादा कीता

कनान दी धरती उन्हें गी लेई इक सनातन संपत्ति ते ओह उंदा गै होग ईश्वर.

उत्पत्ति 17:8 चते में (परमातमा) तुगी (अब्राहम) ते तेरे बाद दे वंश गी देगा।

जिस धरती च तू परदेसी ओ, कनान दी सारी धरती,

लेई इक सनातन संपत्ति; ते में उंदा होवांगा ईश्वर.

→ पर उस दिन इक कनान दा घरे च नेई रौह्य सेनाएं दा प्रभु जिवें ओह करंगन

कनान दे धरती उप्पर नेई रौह्य जित्थें ओह परदेसी हे, लेकन ओह इक बेहतर शौहर च रौह्ये ,

⁸⁵⁹संदर्भ देना प्रकासित 4:8 ऐ.

जिंदे परमात्मा दा नगर च स्वर्गीय यरूशलेम दा सिव्योन पहाड़ उप्पर.⁸⁶⁰

इब्रानियों 11:16 ऐपर हुन ओह इक बेहतर मुल्ख दी चाह करदे न, यानी इक स्वर्गीय: इस करिए

ईश्वर शर्म नहीं आंदी कि उहनां दा आख्या जावे ईश्वर: कीजे उमेंगी उंदे आस् ते इक नगर तैयार करी ओड़ेया ऐ।

इब्रानियों 12:22 ऐलेकन तुस सियोन दे पहाड़ ते आए ओ जिंदे परमात्मा दा नगर, ऐ

सर्गीय यरूशलेम गी, ते सुर्गदूतों दी अनगिनत दल गी;

(प्रकाशितवाक्य 20:5-6) पैहला जी उठना (4वीं घड़ी दी 3 फसल)

प्रकाशित 20:5 ऐलेकन बाकी मरे दे लोक उसलै तकर जिंदे नेई रेई गे, जुदुं तकर हजार साल नेई होई गया। ए पैहला जी उठना ऐ।

प्रकाशित 20:6 ऐधन्य ते पवित्र ऐ जेड़ा पैले जी उठने च हिस्सा लैंदा ऐ।

ऐसे पर दूजी मौत दा कोई शक्ति (अधिकार) नेई ऐ, ^{¶1849}

लेकन ओह परमात्मा ते मसीह दे याजक होंगन, ते उंदे कन्ने हजार साल राज करंगन।

☞ प्रकाशित 20:5 ऐपर बाकी मरे दे लोग उस वेले तकर जिंदा नेई होई गे, जुदुं तकर 1000 साल नेई होई गे।

टीउसी दा ऐ पैहला जी उठना.

☞ प्रकाशित 20:6 ऐधन्य ते पवित्र ओह ऐ, जेका पैहलें पुनरुत्थान च हिस्सा लैंदा ऐ।

ऐसे उप्पर दूई मौत दा कोई अधिकार नेई ऐ, ऐ

लेकन ओह होनगे पुजारी जी आहला ईश्वर ते दी मसीह, ते उंदे कन्ने राज करगए 1000 साल दा.

→ बाकी मरे (जो ज़मीन ते बचे दे हन) तकर नहीं आए जीवन 1000 साल दे अंत तक।

पर वे आ गए जीवन 1000 साल खत्म होने दे बाद, यानी पैहला जी उठना (दी फसल दी

बाकी मरे दे लोकें लेई 4मीं पहरा)।

>>> 3 वी फसल दाके 4 वीं वॉच के लिए बाकी कआरियां

- बाकी मरे दे जेके पैले जी उठने च हिस्सा लैंगन; बाकी मरे दे (“दूजी कुड़िया”) यीशु मसीह च ते उदी मौत च बपतिस्मा लैंदे न (रोम 6:3 ऐ) ते 1000 साल दे अंत दे बाद जिंदा होई जंदे ना।

- ऐइका हालांके पैहली मौत दा अधिकार बाकी मरे दे लोकें उप् पर हा, जिनेंगी मौत दा अनुभव होया ऐ, पर 1000 सालें दे खत्म होने दे बाद ओह जिंदा होई जाडना। उमेंगी आशीर्वाद ऐ कीजे दूई मौत गी बी होग।

उंदे उप्पर कोई अधिकार नेई.

(प्रकाशित 20:7-8 ऐ) 1000 साल खत्म होए (गोग ते मगोग)

प्रकाशित 20:7 ऐते जदों हजार साल समाप्त हो जांदे हन (समाप्त हो जांदे हन), ^{¶5055} शैतान गी अपनी जेल च छड्डी दिता जागा।

प्रकाशित 20:8 ऐते राष्ट्रों गी धोखा देने आस् ते निकलग ^{¶1484} जो चार चौथाई (कोने) च होंदे न ^{¶1137} आहला

धरती (जमीन)), ऐ ^{¶1093} मगोग ^{¶1136} ते मगोग, ऐ ^{¶3098} उमेंगी लड़ाई (युद्ध) च इकट्टा करना: ^{¶4171}

जिसदी गिनतरी समुंदर दी रेत दे समान ऐ।

☞ प्रकाशित 20:7 ऐ औय कफ 1000 साल दा खत्म हो जांदे ने, शैतान गी अपनी जेल च ढीला करी दिता जागा।

☞ प्रकाशित 20:8 ऐ इक द उमें राष्ट्रों गी धोखा देने आस्ते निकलग जेहड़े जमीन दे चार (4) कोने च ना।

गोग ते मगोग, उमेंगी युद्ध च इकट्टा करने आस्ते, जिंदी गिनतरी समुंदरे दी रेत दे समान ऐ।

- गोग

- 1000 साल दे बाद, जीओजी, ऐ राजा ने दीमगोग दी धरती दा, उत्तर से आकर के धरती पर हमला कर देंगे।

⁸⁶⁰ इब्रानियों 11:16 ऐ, ऐइब्रानियों 12:22 ऐ.

• **मगोग**

- ऐमगोग जमीन दे 4 कोने च गैर-यहूदी राष्ट्रों की दस्सेआ जंदा ऐ जेह्दे धोखा च फसे दे होंगन ते इकठ्ठे कीते जांगन **शैतान** खिलाफ जंग लड़ना ईश्वर 1000 साल दे बाद खत्म होंदे न (प्रकासित 20:8 ऐ). वे अनगिनत नंबर दे हन लोकें की समुंदर दी रेत दे रूप चा

➤ की आक्रमण **जीओजी** ते मगोग इस्त्राएल की जमीन दे खिलाफ च प्रकासित 20:8 ऐ इक ऐसी लड़ाई ऐ जेड़ी उसलै होग जिसलै शैतान की अपनी जेल थमां बाहर कड्डी दिता जाग जिसलै... **1000 साल दा** एक्सपायरी होंदे न (प्रकासित 20:7 ऐ) जो 1000 वर्षों के फाद अंतर्भ फैसले से नहरे शै। धरती पर परमात्मा की सारी सृष्टि दा जीवन हिल जावेगा (इज 38:20 ऐ) ते सारे पहाड़ ते दीवारें धरती उप्पर डिंगी जांगन (इज 38:19-20 ऐ).

(प्रकाशितवाक्य 20:9-10) शैतान की अग & गंधक की झील च सुट्टी दिता गेआ

प्रकासित 20:9 ऐ ते ओह धरती (जमीन) की चौड़ाई उप्पर चली गे ¹⁰⁹³ ते संत लोकें दे डेरे की घेर लेया ⁴⁰ तकरीबन, ऐ ते प्यारे नगर की, ते परमात्मा कोलां अग सुर्ग थमा उतरी गई ते उनेंगी भस्म करी ओड़ेया।
प्रकासित 20:10 ऐ ते जेड़ा शैतान उनेंगी धोखा करदा हा, उसी अग ते गंधक की झील च सुट्टी दिता गेआ।
जित्थें जानवर ते झूठा भविष्यवक्ता न, ते दिन-रात सदा-सदा तड़पाए जांगन।

☞ प्रकासित 20:9 ऐ इक ओह जमीन की चौड़ाई उप्पर चली गे ते पवित्र संत लोकें दे डेरे की घेर लेंदे हे ते लाडले नगरा इक एन डी अग से उतरी आया ईश्वर सुर्ग थवां निकली गया ते उनेंगी खाई लेता।

☞ प्रकासित 20:10 ऐ अद शैतान दा जिसने उनेंगी धोखा दिता हा, उसी अंदर सुट्टी दिता गेआ अग की झील ते गंधक दा, ऐ जित्थें जानवर ते झूठा भविष्यवक्ता न, ते दिन-रात सदा-सदा तड़पाए जांगन।

→ शैतान, (1) जानवर, ते झूठा नबी (2) जानवर दा) सारें की अग की झील च सुट्टी दिता जंदा ऐ।

(प्रकासित 20:11 ऐ) इक बड्डा सफेद सिंहासन

प्रकासित 20:11 ऐ ते मैं इक बड्डा सफेद सिंहासन ते उस उप्पर बैठे दे की दिक्खेआ, जिसदे मुंह थमां धरती (जमीन) ऐ ¹⁰⁹³ ते सुर्ग भागी गया; ते उंदे आस् ते कोई जगह नेई मिली।

☞ प्रकासित 20:11 ऐ टी मुर्गी मैं दिक्खी इक बड्डा सफेद सिंहासन ते जिस पर बैठे हुए, ऐ जिसदे चेहरे थवां जमीन ते आकाश भागी गे। ते उंदे आस् ते कोई जगह नेई मिली।

➤ एचिम जो महान सफेद सिंहासन पर बैठा था ईश्वर (प्रकासित 20:12 ऐ)
→ धरती ते आकाश भागी गे।

(प्रकासित 20:12 ऐ) परमात्मा दे सामने दो किताबां खोलियां: (1) किताबां, (2) जीवन की किताब

प्रकासित 20:12 ऐ ते मैं मरे दे, छोटे-बड्डे, परमात्मा दे सामने खड्डोते दे दिखे; ते किताबां खोली गेइयां।
ते इक होर किताब खोली गई, जेड़ी जीवन की किताब ऐ।
ते मरे दे लोकें दा न्याय उन गल्लें च गै कीता जंदा हा
किताबां विच, उंदे कम्मं दे मताबका।

⁸⁶¹ मगोग ¹¹³⁶ ऐ: मगोग की धरती दा राजा जेड़ा उत्तर कोलां आईये इस्त्राएल की धरती उप्पर हमला करग।⁸⁶¹

इब्रानी मूल दा ¹¹³⁶ ऐ, "पहाड़" (समैया दा पुत्र, इज 38 ऐ).

→ मगोग ³⁰⁹⁸ ऐ: इस्त्राएल दे उत्तर च इक धरती जित्थे थमां मगोग दा राजा इस्त्राएल पर हमला करने आस्ते औग।⁸⁶¹

इब्रानी मूल दा ⁴⁰³¹ ऐ मतलब,

- मगोग की धरती

- याफेत दा 2nd पुत्र, नूह दा पोता, & इस्त्राएल थमां उत्तर च केई गोत्रे दा पूर्वज।

- कप्पडोसिया & मीडिया दे बीच दा पहाड़ी इलाका, मगोग दे वंशज दा निवास।

☞ [प्रकाशित 20:12](#) **ऐ इकंद** मैं मरे दे, छोटे ते बड़े, सामने खड़े दिक्खेईश्वर, तेकिताबेंखोले गए.

इकएन डीडक होर किताब खोला गया, जो कि **की किताबजीवन**.

ते मरे दे कम्मं दे मताबक उंदे च लिखे दे गल् लें दे मताबक न्याय किता जंदा हाकिताबां दी.

→ दो (2) किताबां जो पहले खोली जांगनईश्वर: (१) ऐ.किताबें दी, (2) ऐ.जीवन दी किताब

(१) ऐ.किताबें दी: क्या मरे हुवे दा नां हे जो “न्याय दे वास्ते जी उठन” ([जहन्ना 5:29](#) ऐ).⁸⁶²

- टीनली जो “किताबें” च लिखी गेदी ऐ, ओह मरे दे न जिनेगी बिना पाये पैहली मौत दा स्वाद चखयायीशुजबकि जमीन परबुरे दे पुत्तर ([मत्ती 13:38](#) ऐ), ते इस चाल्ली उनेंगी कदें बी जिंदा नेई कीता गेआजीवन.⁸⁶³इस तर्हा बुरे दे पुत्तर ([मत्ती 13:38](#) ऐ) दा न्याय उंदे कम्मं दे मताबक कीता जाना चाहिदा जेहड़े “किताबां दी.”
- कीजे मरे दे (जमीन दे रौहे आह्ले) ने स्वीकार करने थमां इन्कार करी दितायीशुजिवें उनकेमुक्तिदाताजबकि जमीन पर, उनेंगी पबित्तर धरती उप्पर नेई लेई जाया जाग, पर उंदे बाएं हल्थ च रक्खेआ जागपरमातमा दा पुत्तर, फिर शैतान ते उंदे सुर्गदूतें आस्तै तैयार कीती गेदी अनन्त अग च सुट्टी दिता जा ते शाप दिता जा ([मत्ती 25:41](#) ऐ).
- क्मोंकक उन्शोंने कबी बी नशीी स्वीकार ककमायीशु, उंदे नां कदें बी नेई लिखे गेजीवन दी किताब दुनिया दी नींव तों ([प्रकाशितवाक्य 17:8](#)).
- जेकर बाकी मरे दे लोग स्वीकार कर लेंदेयीशुजिय्यां उंदे मरने शा पैहलें उंदे मुक् तिदाता दे रूप च उनेंगी दाएं पाससे रखेया जागआहलापरमातमा दा पुत्तर संसार दी सृष्टि थमा उंदे आस्तै तैयार कीते गेदे राज दा वारिस हासल करने आस्तै ([मत्ती 25:32-34](#) ऐ), जो किअदन दा बाग, ऐपरमातमा दा जन्मत([प्रकाशित 2:7](#) ऐ)इकंद अनन्त जीवन च प्रवेश करो।⁸⁶⁴

(२) ऐ.जिंदगी दी किताब: दा नां ऐ “जी उठने दे पुत्तर ([लुका 20:36](#) ऐ)” ऐ।⁸⁶⁵जो बाहर आ गया तो “जीवन दा जी उठना” ([जहन्ना 5:29](#) ऐ).⁸⁶⁶

- राज्य दे पुत्तरें दे नां (स्वर्ग वासी,[मत्ती 13:38](#) ऐ) च लिखे गेदे नजीवन दी किताब.
- उनेंगी जमीन उप्पर रौंदे होई पबित्तर आत् मा कन् ने & अग कन् ने बपतिस् मा लेता हा, इस आस् ते उनेंगी मौत दा अनुभव नेई किता जित् थें ओह करी सकदे हेकदें बी नेई मरना([जॉन 11:26](#) ऐ). मतलब भला किता ते आएजीवन दा जी उठनाइस आस् ते उनेंगी न् याय आस् ते जिंदे होने आस् ते नेई नियुक्त किता गेदा ऐ ([जहन्ना 5:29](#) ऐ).⁸⁶⁷

([प्रकाशित 20:13](#) ऐ) समुंदर ते मौत & नरक ने अपने फैसले आस्ते मरे दे लोकें गी त्याग दिता

[प्रकाशित 20:13](#) ऐऔर समुंदर ने हार मान ली⁸⁶²उंदे च जेड़े मरे दे हे;
ते मौत ते नरक गी सौंप दिता (त्याग)⁸⁶³उंदे च जेड़े मरे दे हे;
ते हर इक माहू उंदे कम्मंे दे मताबक न्याय कीता जंदा हा।

☞ [प्रकाशित 20:13](#) **ऐ इकंद** समुंदर ने उंदे च मरे दे लोकें गी छोड़ी दिता, ते मौत ते नरक ने उंदे च मरे दे लोकें गी सौंपी दिता।
ते हर इक अपने कम्मं दे मताबक उंदे उप्पर न्याय कीता गेआ।

- **टीओह समुंदर**
- ऐएचजिवें कि जिन्हं ने (1st) जानवर दा निशान पाया ([प्रकाशित 13:16](#) ऐ), ते उदी मूर्ति दी पूजा करने आलें गी (दूसरा जानवर,[प्रकाशित 13:14](#) ऐ).
- **गड्डा**^{म्व953} ऐ

⁸⁶²“([प्रकाशितवाक्य 6:7-8](#) ऐ) 4वीं मुहर (एक हरे घोड़ा: मौत & नरक दा खुलना).”

⁸⁶³“([प्रकाशितवाक्य 20:5-6](#)) पैहला जी उठना.”

⁸⁶⁴“[चित्र 21-2] सुर्ग च नमां तम्बू & परमेसरे दा मंदिर।”

⁸⁶⁵जी उठने दे पुत्तरें दे बारे च “[प्रकाशित 5:11](#) ऐ.”

⁸⁶⁶“([प्रकाशितवाक्य 6:7-8](#) ऐ) 4वीं मुहर (एक हरे घोड़ा: मौत & नरक दा खुलना).”

⁸⁶⁷वही।

- ऐगड्ढा ओ जगह हे जिथां फिरौन दे पहले बच्चे (पहले फल) तों ले के कैदियों दे पहले बच्चे (फल) तक जेल विच रखे जांदे हन ([निष्कर्ष 12:29 ऐ](#)).
- **नर्क** (शीओल दा) [पृ 7585](#) गड्ढे दा सबतू निचला हिस्सा ऐ जिल्थें लूसिफर ते अपवित्र आत्माएं न ([भजन संहिता 16:10](#), [ऐयशायाह १४:१२-१५ ऐ](#)).
- ऐ **मसीह** आत्माएं ते उंदी आत्मा गी बचाने आस्तै औदा ऐ **पैहे फल**, पर मौत ते नरक ([प्रकाशित 6:8 ऐ](#)) दा पालन करग **मिस्र दे फिरौन दे पैहे फल** ([निष्कर्ष 18:10 च](#)).⁸⁶⁸
- ऐ **महान अजगरजेड़ा** सुर्ग थवां जमीन उप्पर सुट्टी दिता गेदा हा, ओह लूसिफर ऐ⁸⁶⁹ जो **“दी एंटी-मसीह”** जमीन उप्पर⁸⁷⁰ **एह मसीह दे विरोधी** समुंदर च उट्टे दे 1 जानवर दे माध्यम कनै कम्म कीता ([प्रकाशित 13:1 ऐ](#)), इस चाल्ली समुंद्र मेरे दे गी त्यागने दा मतलब ऐ उनें लोकें गी जेहड़े समुंदरे थमां बाहर 1 जानवर दी पूजा करदे हे ते... मौत ते नरक दा सामना कीता।
- **महान अजगरजेड़ा** सुर्ग थवां धरती उप्पर सुट्टी दिता गेया ([प्रकाशित 12:9 ऐ](#)) लूसिफर ऐ जेड़ा अपवित्र आत्माएं कनै नरक च ऐ

([प्रकाशित 20:14 ऐ](#)) दूजी मौत = मौत ते नरक

[प्रकाशित 20:14 ऐ](#) ऐते मौत ते नरक गी अगग दी झील च सुट्टी दिता गेआ। एह दूई मौत ऐ।

☞ [प्रकाशित 20:14 ऐ](#) टीमुर्गी **मौत ते नरक** में डाल दिया गया **अगग दी झील**. एह **ऐदूजी मौत**.

→ बाकी मेरे हुवे जो 1000 वर्षों भें से ननकर आमे औय जीत गमे होंगे **पैहला जी उठना**
इस करिए दूई मौत दा उदे उप्पर कोई अधिकार नेई ऐ ([प्रकाशित 20:6 ऐ](#)).⁸⁷¹

→ **दूजी मौत** मेरे दे लोकें आस् ते औदा ऐ जेके 1000 सालें दे बा'द शैतान कनै जुडी गो। कर्मोकक वे कबी बी नशीी
जिंदा जिंदा होई गेआ, वे कर देंगे होना न्याय दे बाद अगग दी झील च सुट्टी दिता गेआ।⁸⁷²

- **टीउसने गड्ढा** (मेरे दे वास्ते, [भजन संहिता 30:3](#)) → नरक (अपवित्र आत्माओं दे वास्ते)
→ “मौत” दा सामना करने आलें दी आत्मा “नरक” च ऐ ते उनें गी अगग दी झील च सुट्टी दिता जाग

[भजन संहिता 30:3](#) हे प्रभु (यहोवा) [पृ 3068](#) तू मेरी आत्मा गी कबर (नरक) थमां उप्पर चुक्की लेआ ऐ। [पृ 7585](#) ऐ
तू मिंगी जिंदा रखेया ऐ के मैं खड्डे च नेई उतरना।

([प्रकाशित 20:15 ऐ](#)) जिंदा नां जीवन दी किताब विच नहीं लिखे = अगग दी झील

[प्रकाशित 20:15 ऐ](#) ऐते जेका जीवन दी किताब च लिखे दा नेई लब्धा, उसी अगग दी झील च सुट्टी दिता गेआ।

☞ [प्रकाशित 20:15 ऐ](#) इफ्कंद कोई भी में लिखा नहीं पाया **जीवन दी किताब** में डाल दिया गया **अगग दी झील**.

- **ऐफैसले दा क्रम**

(1) (1) जानवर, ते झूठे नबी गी जिंदा अगग दी झील च सुट्टी दिता जंदा ऐ ([प्रकाशितवाक्य 19:20](#)).

→ अजगर (पुराने नाग, शैतान, ते शैतान) गी 1000 साल ([प्रकाशितवाक्य 20:2](#)), फिर शैतान था
अपनी जेल च छडुडी दिता जिसलै 1000 साल खतम होई गे ([प्रकाशित 20:7 ऐ](#)).

⁸⁶⁸वही।

⁸⁶⁹संदर्भ देना [प्रकाशितवाक्य 12:3](#).

⁸⁷⁰“[प्रकाशितवाक्य 12:7-9](#) स्वर्ग विच जंग (महा अजगर ते ओस दे सुर्गदूत सुर्ग तों कड्डे गए)।”

⁸⁷¹“[प्रकाशितवाक्य 6:7-8 ऐ](#) 4वीं मुहर (एक हरे घोड़ा: मौत & नरक दा खुलना)।”

⁸⁷²वीडियो 11. “फसह दी पर्व” दे पैहलें यीशु दा कपड़ा।

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-फसह-त्योहार-दे-पहिले-यीशु-वस्त्र/.

(२) शैतान जिन्दा अग्न दी झील विच सुट्टी दिता जांदा है (प्रकासित 20:10 ऐ).

(3) गड्ढा ओह जगह है जित्थे फिरौन दा पैहला फल (निष्कर्ष 12:29 ऐ) न. साथ ही, गड्ढे दा सबतू निचला हिस्सा जित्थे उर्थे ऐ
अपवित्र आत्माएं गी जेल च पाई दिता जंदा ऐ (भजन संहिता 16:10, ऐयशायाह १४:१२-१५ ऐ) जिंदे च जानवर दा निशान हासल होने आह्ने बी शामिल न
ते उसदी मूर्ति दी पूजा कीती (प्रकासित 20:13 ऐ) ते जो 1000 साल दे दौरान धोखा खांदे हन (प्रकासित 20:8 ऐ).

(४) जो कोई जिन्दगी दी किताब विच लिखे नःा मिलदा है, उह अग्न दी झील विच सुट्टी दिता जांदा है (प्रकासित 20:15 ऐ)

→ मरे दे सारे (मौतते नरक) च प्रकासित 20:13 ऐ में डालेंगे अग्न दी झील, ऐदुजी मौत.

अध्याय 21 दा

(प्रकाशित 21:1 ऐ) इक नमां स्वर्ग ते इक नर्मी जमीन

प्रकाशित 21:1 ऐते मैं इक नमां स्वर्ग (एकवचन) दिक्खेआ^{ः3772} ते इक नर्मी धरती (जमीन, एकवचन):^{ः1093} ऐ
क्योंकि पैहला आकाश ते पैहली धरती (जमीन)^{ः1093} गुजर गए थे; ते समुंदर नेई रेया।

☞ प्रकाशित 21:1 ऐ टीमुर्गी जॉन ने दे खा **इक नमां स्वर्ग ते नई जमीन**, ऐ
की वे पैला सुर्ग ते पैहली जमीन बीती गई ही। साथ ही होर कोई समुंदर नेई हा।

• **इक नया स्वर्ग:** 1। मैं एन प्रकाशित 12:9 ऐ, महान अजगर (शैतान, जदे १:६-९ च) गी सुर्ग थमां कड्डी दिता गेआ जमीन पर।

• **इक नई जमीन:** सारे दे **ब दा** प्राणी “पृथ्वी, समुंद्र ते उंदी सारी सेना, प्रेरितों दे काम ४:२४), ऐ”
कि उसने शुरू विच पैदा कीता, धरती ते गिर गया (इज 38:20 ऐ) ते उंदे कोल गै गुजरी गे
1000 साल दे बाद फैसला।

• **नए आकाश ते इक नर्मी धरती**

यशायाह 65:17 चकी वे, दिखो, मैं (प्रभु, यहोवा, **यशायाह 65:25** च) नए स्वर्ग पैदा करना (बहुवचन)^{ः8064} ते इक नर्मी धरती
(एकवचन दा):^{ः776} ते पैहले गी याद नेई कीता जाग, ते ना गै दिमाग च औगा।

→ प्रभु नमं आकाश ते इक नर्मी धरती पैदा करदा ऐ। नए आकाश बहुवचन हैं क्योंकि स्वर्ग में
सुर्गीय यरूशलेम गी परमात्मा दे तम्बू च सुर्ग दे अलावा।⁸⁷³

* नर्मी धरती इकलौता ऐ कीजे एह जमीन ही, ना के धरती, जिसदे कोला शाप दिता गेआ हा **प्रभु परमात्मा**
इक आदमी दे बाद^{ः120} जेड़ा फल परमेसरे ने नेई खाने दा हुकम दिता हा, उसी खादा हा, जिस कारण ओह सिर्फ रोटी गै खा सकदा हा
(जो धरती तों निकलया सी^{ः776}) चेहरे दे पसीने कन्ने, जदू तकर ओह जमीन उपर नेई लौटी जंदा
(उत्पत्ति १:११)।

* पुराने आकाश ते जमीन बीती जांदी ऐ, पर उंदा नेई **लोगो दा** (मत्ती 24:35 ऐ)⁸⁷⁴

मत्ती 24:35 ऐ स्वर्ग (एकवचन)^{ः3772} ते धरती (एकवचन)^{ः1093} बीती जाहा,
पर मेरे वचन (**लोगो दा**)^{ः3056} ना गुजरेगा।

• **इक नमां स्वर्ग ते इक नई जमीन**

→ वर्तमान आकाश ते जमीन दे गुजरने दे बाद (लोगो नहीं), होंगे **इक नमां स्वर्ग ते**
इक नर्मी जमीन (या पवित्र धरती **दी लोगो दा तेरेमा दा**) लेई **रब** दामें लोग परमात्मा दा तम्बू.

(प्रकाशितवाक्य 21:2-3) नमां यरूशलेम (परमेसर दे तम्बू दे मंदर दा पबित्तर नगर)

प्रकाशितवाक्य 21:2 ते मैं यूहन्ना पवित्र गी दिखया^{ः40} शैहर, नवे यरूशलेम, उतरदे (उतरदे)^{ः2597} परमेसरे थवां सुर्ग थवां निकली गया,
दुल्हन दे तौर पर तैयार कीता अपने पति दे वास्ते सजदी।^{ः435}

प्रकाशित 21:3 ऐते मैं सुर्ग थवां इक बड्डी आवाज सुनी।

दिखो, परमात्मा दा तम्बू मनुखें कन्ने ऐ।^{ः444} ते ओह उंदे कन् ने रौहग, ते ओह उदी लोक हना
ते परमात्मा अपने आप उंदे कन्ने होंगे ते उंदा परमात्मा होंगे।

☞ प्रकाशितवाक्य 21:2 इक नमं मैं, जॉन, दिक्खेआ **पवित्र नगर दा**, एनए **यरूशलेम**, स्वर्ग तों उतरदे होएई **श्वर**, ऐ
अपने पति आस्ते सजी दुल्हन दे रूप च तैयार कीती गई।

⁸⁷³ [3] दानिय्येल दे 70 हफ्ते” दा संदर्भ लैओ।

⁸⁷⁴ [चित्र 21-2] सुर्ग च नमां तम्बू & परमेसरे दा मंदिर।

☞ प्रकाशित 21:3 एते मैं सुर्ग थवां इक बड्डी आवाज़ सुनी, “दिखो, **परमात्मा दा तम्बू** मर्दा दे नाल है, ऐ⁴⁴⁴ ३

ते ओह उंदे कन् ने रौहग, ते ओह उदी लोक हना

तेईश्वरखुद ही उन्दे कन्ने होग, ते उंदे बनोईश्वर.”

→ नोट: पवित्र शहर, नवे यरूशलेम दा वर्णन “**पवित्र नगर दा आहला मंदिर दा आहला परमात्मा दा तम्बू.**”

➤ पवित्र नगर, प्रभु (यहोवा) दे घर च नमां यरूशलेम)

→ यहोवा (यहोवा, **मसीह**)⁸⁷⁵ सुर्ग च नमां यरूशलेम ऐ⁸⁷⁶

श्राजा ६:२ ते ओह घर जेड़ा राजा सुलेमान बनाया हा **प्रभु गी**, ऐ^{३०६८} उंदी लंबाई असठे ही

(६०) हाथ दा, ते उदी चौड़ाई बीस (20) हाथ ते उचाई तीस (30) हाथ.

- तुसीं (यरूशलेम) जेहड़े इक पुराने यरूशलेम दे हे, पर इक नमां यरूशलेम बनी गो
- पापों दी माफी दा प्रचार सिर्फ यहूदियें तक र गै नेई, बल् कि गैर-यहूदियें तक र बी ऐ.⁸⁷⁷
 - भा **गैर-यहूदी लोकें गी** पैह्ले परमात्मा दे लोक नेई हे, उनें गी बुलाया जाग **जिंदे परमात्मा दे पुत्र**.⁸⁷⁸

† **पवित्र संत = इक शहर**

- वाई **ओउन परमात्मा दी रोशनी** दुनिया दा, ते **इक शहर** बिछाया **इक पहाड़ दा इक ग्रां** जो छुपाया नहीं जा सकदा.⁸⁷⁹

→ जानकर कि इक ग्रां इक ऐसी जगह दा मतलब ऐ जित्थें सुसमाचार दा प्रचार कीता जंदा ऐ (मांस देख्यै जां... **लोगो दा**

परमात्मा दा जनता दे वास्ते) ते चंगाई होंदी ऐ (**मत्ती 14:15 ऐ**), ऐ⁸⁸⁰ तुसीं बनना है **इक शहर माउंट पर**

सिध्दोन जो लाता है परमात्मा दी रोशनी (लोगो दा) दुनिया गी, जेहड़ा छुपाया नेई जाई सकदा।

मत्ती 5:14 ऐ ऐये हो **उजाला दा**⁵⁴⁵⁷ दुनिया (या खेतर) दा।

इक शहर⁴¹⁷² कि सेट (बिछाया गया **इक ग्रां**) **जी 2749 ऐ** **इक पहाड़ी पर (एक दा पहाड़)** **जी 3735 ऐ** छुपाया नहीं जा सकदा।

† **इक शहर = यरूशलेम** → पवित्र शहर = नए यरूशलेम

- यरूशलेम दा (ओह शहर जित्थे इम्राएल दा परमात्मा यहोवा अपना नाम रखेगा; **श्राजा २१:४**) आखदे न

पवित्र नगर दा (यशायाह 52:1 च) या नई यरूशलेम (प्रकाशितवाक्य 21:2).

→ शहर (या तुसीं, **मत्ती 5:14 ऐ**) जो पवित्र ऐ⁴⁰ है “पवित्र संत⁴⁰ (शहर, प्रकाशित 5:8 ऐ)” सदे आ, **नए यरूशलेम**.

† **पवित्र संत जी**

- **इक शहर** जो ना छोडया जांदागी “पवित्र लोक जां पवित्र संत” (यशायाह 62:12 च), ते एह पवित्र

लोक सिध्दोन पहाड़ ते जिंदे परमात्मा दे नगर, सुर्गीय यरूशलेम च आओ

(इब्रानियों 12:22 ऐ).

➤ जित्थ्यां तुसें (मेमने दी जनानी, दुल्हन) दा धर्म बनाई दिता गेदा ऐ **ईश्वर च मसीह**

(**२ कुरिन्थियों ५:२१**) ते उगाए गेदे न **प्रभु ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह**, तुस पवित्र लोक बनी गेदे ओ (**यशायाह 62:12 च**), ते सिध्दोन दे पहाड़ उप्पर, जिंदे

परमात्मा दे नगर च आई गेदे न, जेड़ा ऐ

सुर्गीय यरूशलेम गी, ते पहुंचेगा **पवित्र नगर दा**, ऐ **नए यरूशलेम**, च दाखल होने दे क्रम च

पवित्रतम दा पवित्र, ऐ पवित्र यरूशलेम गी.

† **मंदिर**³⁴⁸⁵ ऐ

⁸⁷⁵ इफिसियों 3:2-5 ऐ, ऐनिष्कर्ष 6:3 ऐ.

⁸⁷⁶ [चित्र 21-2] सुर्ग च नमां तम्बू & परमेसरे दा मंदिर।

⁸⁷⁷ वीडियो 37. “खून दा खेत (एक कब्जा)।”

<https://therhemaofthelord.com/uncategorized/37-खून-दा-खेत-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हो/>

⁸⁷⁸ वीडियो 48. “8 दा हनुक्का।” www.theRhemaOfTheLord.com पर ऐ.

⁸⁷⁹ रोम ९:२१-२६, जां वीडियो 35. “(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार दे चले।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शिव्य-शक्ति-अधिकार-के-साथ-

⁸⁸⁰ [चित्र 1-ग], जां वीडियो 35. “(प्रेरित) शक्ति ते अधिकार कन्ने चेलो।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शिव्य-शक्ति-अधिकार-के-साथ-

यीशु ने आख्या, "मैं इस मंदर गी नष्ट करगा^{#3485} जो हत्ये कन्ने बनी दी ऐ, ते त्रै (3) दिनें दे अंदर मैं इक होर बिना हत्ये दे बनाना, जेड़ा मंदिर ऐ^{#3485} परमात्मा दा (मत्ती २६:६१ ऐ, ऐमत्ती 27:40 ऐ).

- हत्ये कन्ने बने दा इक मंदिर = यरूशलेम उस जमीन उप्पर जित्थे परमात्मा अपना नां रखग, राजा २१:४.
- इक मंदिर बिना हत्ये बनाया = परमात्मा दा मन्दिर स्वर्ग च, ऐपवित्र यरूशलेम गी.

→ जदु यीशु ने ग् लाया, "इस मंदर गी नष्ट करो" तां उंदा मतलब हा के "उस दे शरीर दे मंदर गी नष्ट करो (जहन्ना 2:21 ऐ),"

पर यहूदिये मंदर गी इक इमारत दे रूप च समझेया, जिसी बनाने च 46 साल लागदे हे। यीशु दा लोगो दाको चले एह हा के ओह त्रै दिनें च मरे दे चा जिंदा होई जा। चले "मान लिया" ओह शास्त्र ते लोगो दाजेका यीशु ने ग् लाया हा. क्योंकि चले मान लिया, लोगो दा उनमें में बदल जाता हैरमा दा.⁸⁸¹

(प्रकासित 21:4 ऐ) पैहला आदम (पैहले तुस, गुजरी जांगन)

प्रकासित 21:4 ऐते परमात्मा उंदे अक्खीं दे सारे आंसू पोंछी लैग; ते ना मौत होग, ना दुख, ना रोना।

ते ना गै कोई पीड़ होग;^{#4413} गुजर गए हैं।

☞ प्रकासित 21:4 ऐते ईश्वर उंदी अक्खीं दे सारे आंसू पोंछी लैग; ना मौत, ना दुख, ना रोना।

टीइत्थे होर पीड़ नेई होग, कीजे पैहे (सुरगते मदान, पैहे दा तुस) गुजरी गेदे ओ.

- दुनियाँ (सुरगते मदान, पैहला आदम या तुस, १ कुरिन्थियों १५:४५) जो असी हुण वेखदे हां लोगो दा, जेड़ा प्रगट होने आली चीजे कन्ने नेई बनाया गेदा हा, लेकन अभक्त मनुखे दे न्याय ते नाश दे दिन अग आस्ते सुरक्षित रखेया गेदा हा (२ पतरस ३:७).
- न्याय दे दिन पापी जिन्हें ने पछतावा नहीं किता या ना ही बपतिस्मा लेया यीशु मसीह, माफ नेई किता गेदा जिय् यां उंदे कन् ने सुली उप् पर नेई चढ़ाया गया हा मसीह, पर दुनिया दे मूलभूत चीजे दे अधीन होंदे न जां "पैहे" तुस (गलाती 4:3) कि होगा गुजर जाओ. पर जिन्हें ने... परमात्मा दे लोगो अपने आप गी सुली च चढ़ाया गै मसीह, फिरी अपने आध्यात्मिक पति कन्ने ब्याह किता, मसीह (२ कुरिन्थियों ११:२) ते सामने लाया आध्यात्मिक फलको ईश्वर (परमात्मा दा रेमा), ते इस चाल्ली ओह बनाई जंदे न पूरण.⁸⁸²
- † पवित्र संत दे शरीर, जिन्हें ने अपना विश्वास रखेया है प्रभु यीशु गी, सुर्ग दे न, ते इस चाल्ली ओह शापित जमीन उप्पर परदेसी न जेहडे कुम्हार दे खेतर च दब्बे दे न⁸⁸³ मनुख दे मांस (मांस + आत्मा) दी आत्मा दे खून च ऐयीशु, जिय्यां उंदा मांस ते आत्मा दे खून च ऐयीशु (मांस + आत्मा = खून दा). भले ही उंदा आत्मा कबर च ही, प्रभु पवित्र लोकें दी आत्माएं गी जिंदा रखेआ, तां जे ओह खड्डे च नेई उतरना
- † यीशु मसीह (जिंदा रोटी जेड़ी सुर्ग थवां उतरी आई ही; जह 6:51 ऐ), कुसी ईश्वर ऐसील कर दिया मनुख दे पुत्र गी अंत समें तक (जहन्ना 6:27 ऐ), ओह ऐ जेहड़ा दुनिया च शांति लैने आस्ते आया हा जमीन गी, ऐया शांति लेने के लिये तेरे कुदरती मांस दी शापित जमीन.

रोटी दा बीज मनुख दे पुत्र दा शरीर ऐ, जेड़ा ऐलोगो दा. जीवन पाने आस्ते तुसें गी उंदा मांस खाना ऐ, जेड़ा ऐ आध्यात्मिक मांस दा, ते उदा खून पीओ जेड़ा ऐ आध्यात्मिक पेय दा.⁸⁸⁴ परमात्मा दे लोगो जो जिंदा पत्थर च बदली गेआ ऐ प्रभु दा अविनाशी शरीर, ते जिसदे कोल बड़ी तलवार ऐ जेड़ी घुमदी ऐ परमात्मा दे लोगो तुझे में परमात्मा दा रेमा ऐ यीशु मसीह सादानाथ.⁸⁸⁵

(प्रकाशितवाक्य 21:5-6) सारी चीजां नईयां होंदियां ने (टीरुए & faithful logos: एह कीता गेदा ऐ)

प्रकासित 21:5 ऐते जेड़ा सिंहासन उप्पर बैठे दा हा, ओह आख्या।

दिखो, मैं सारी चीजे गी नमें बनाना ऐ। ते उन मिगी आख्या, "लिखो;^{#3056} सच्चे ते वफादार होंदे ना

⁸⁸¹वीडियो 47. "7 दा तम्बू" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-प्रभु-दे-भोज-7-तम्बू/.

⁸⁸²वीडियो 44. "(The logos & the rhema) आखरी दिनें च (2 पतरस 3) 1/2" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-रेमा-अंतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/.

⁸⁸³वीडियो 37. "तुस इक कीमत (इक इज्जत) कन्ने खरीदे गेदे ओ" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-खून-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हैं/.

⁸⁸⁴वीडियो 26. "प्रभु दा फसह (नया नियम)", www.theRhemaOfTheLord.com पर ऐ.

⁸⁸⁵से केद की गई प्रकासित 6:4 ऐ.

प्रकाशितवाक्य 21:6 उन मीगी आख्या, “ हो गया।” मैं अल्फा ते ओमेगा हां, शुरू ते अंता जेके प्यासे गी मैं उदे गी जीवन दे पानी दे झरने दा मुफ्त देगा।

(सारे लोगो नए बनाये गये हैं)

☞ प्रकाशित 21:5 ऐ टीhen जेड़ा सिंहासन ते बैठा (मेमने दा⁷²¹) आकखेआ,

“देखो मैं बनांदा हां सारी चीजां नईयां.” ते उन यूहन्ना गी आख्या, “इने आस्ते लिखो लोगो दा नसच्चतेवफादार.”

➤ डबल्यूहो गद्दी पर बैठा?

- प्रभु जी (मुक्तिदाता) यीशु मसीह तेरा परमातमा, कु'न ऐमेमने दा (अर्नियन दा)⁷²¹ 886

(हो जाता है)

☞ प्रकाशितवाक्य 21:6 इकंद अने मीगी आखेआ, “हो जाता है! मैं आं अल्फा दा ते ओमेगा दा, ऐशुरुआत दी ते अंत दा.

दे फव्वारे दा जिंदगी दा पानी प्यासे गी आज्ञादी कन्ने.”

➤ लोगो दा कि साथ ही थाईशुरु थमां गै ते राज दे पुत्तरे गी प्रचार कीता गेदा हा, हून ऐसचमुचतेवफादारी सेपूरा कर दिता। तेवादे दे बच्चे (रोम 9:8 ऐ) हुण परमात्मा दे मंदर च जीवन दे पानी दा फव्वारा मुफ्त च पाओ⁸⁸⁷

➤ सारी चीजे द े बहाली दे समें तकर यीशु मसीह सादा प्रभु परमेसरे की ऐ? (ज़१:१ ऐ दोबारा व्याख्या कीती)⁸⁸⁸

- शुरू में था ओह लोगो दा, ऐ³⁰⁵⁶ तेलोगो दा साथ थाईशर, ते ओह लोगो दा हाईशर (ज़१:१ ऐ).
- शुरू में थालोगो दा (यहोवा), ते यहोवा परमातमा दे नाल सी, ते यहोवा भगवान था (ज़१:१ ऐ).
- शुरू में था मसीह, ते मसीह परमातमा दे नाल सी, ते मसीह हाईशर (इफिसियों 3:2) सारी धरती दा

→ यीशु मसीह ऐनाथसादाईशर (मसीह, ऐदेय 30:20 ऐ, ऐकलुस 3:4 ऐ) सारे चीजे दी बहाली दे समें तकर की जे मसीह ऐ परमातमा दा सारी धरती दा (यशायाह 54:5 च).

(प्रकाशित 21:7 ऐ) विजयी (परमातमा दे पुत्तर)

प्रकाशित 21:7 ऐ जेड़ा जीत हासिल करदा ऐ, ओह सब किश दा वारिस होग; ³⁹⁵⁶ ते मैं उदा परमात्मा होग, ते ओह मेरा पुत्तर होग।

☞ प्रकाशित 21:7 ऐ एचई जो जीत लेंदा ऐ, उसी विरासत च मिलग सारी चीजां (आहलाईशर), ते मैं उहदा परमातमा होवांगा ते ओह मेरा पुत्तर होग.

→ जेकर तुस परास्त करो तां सारी चीजां परमातमा दा तेरे हैं क्योंकि तुसी हो मसीह दा ते मसीह ऐ रेब दा.

उं'आं गै, ईशर होगा तेरा परमातमा ते तू होगा उसी दा पुत्तर.

(१ करिन्थियों ३:२१-३) इस आस् ते कोई मनुखें दा घमंड नेई करा ⁴⁴⁴ की वे सब किश तेरे गै न;

चाहे पौलुस, जां अपोलोस, या कफा, जां संसार, जां जीवन, जां मौत, जां मौजूदा चीजां;

या आने आली चीजां; सारे तेरे गै न; ते येन मसीह दा; ते मसीह ऐ रेब दा.

† सारी चीजां दे हन ईशर⁸⁸⁹

- आत्मक रूज वे स्त्री नुत्र फन जाती शै, औय इसाएल दे पुत्तर (पति दा ³⁷⁶ ते जनानी = या “द चर्च”), जिन्हें अपने आप गी अलग करी दिता ऐ प्रभु गी के क्रम में प्रभु गी (सारे शरीर दा परमात्मा), ऐ दे माध्यम कन्ने अद्भुत कम्म करना लोगो दा की जे लोगो दा उनमें बदल जाएगारेमा दा.⁸⁹⁰ ओह

⁸⁸⁶ “सर्वशक्तिमान प्रभु” (प्रकाशित 1:8 ऐ), ते “सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा” (प्रकाशित 4:8 ऐ).

⁸⁸⁷ “[चित्र 21-2] सुर्ग च नमां तम्बू & परमेसरे दा मंदिर।”

⁸⁸⁸ “(प्रकाशित 4:8 ऐ) प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान (जो हा, ते ऐ, ते आने आला ऐ).”

⁸⁸⁹ “[चित्र 21-क] (एक बड़दा रहस्य) मसीह ते कलीसिया 1/2,” “[चित्र 21-ख] (एक बड़ा रहस्य) मसीह ते कलीसिया 2/2,” दा संदर्भ लैओ।

ते “[चित्र 21-ग] सारी चीजां परमात्मा दी न” जां

वीडियो 32 ऐ www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-एक-महान-रहस्य-मसीह-चर्च-सब-चीज-परमात्मा-दी-हैं/.

⁸⁹⁰ “[चित्र 2-ग],” या वीडियो 31. “परमेसर (सिर दे बाल) दे वास्ते इक नासरी।”

Woman – Under the law & a servant of the rudiments of the world

Gal 4:1 Now I say, That the heir (Gal 4:1) as long as he is a child (Gal 4:2) differeth nothing from a servant (Gal 4:1) though he be lord (Gal 4:2) of all. Gal 4:2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father.
Gal 4:3 Even so ye, when ye were children (Gal 4:3) were in bondage (become servant) (Gal 4:3) under (of) (Gal 4:3) the elements (the rudiments) (Gal 4:3) of the world.
→ Although the heir is the lord (kyrios) of all (heavenly things), the heir of a child is the same as a servant who is under tutors and governors until the time appointed of the father.
→ You were servants of the rudiments of the world when you were children.

The covenants (testaments) – The freewoman by promise vs. The bondwoman in bondage

Gal 4:22 For it is written, that Abraham had two sons, the one by a bondmaid the other by (of) (Gal 4:22) a freewoman.
Gal 4:23 But the wife was of the bondwoman was born after the flesh, but he of the freewoman was by (of) (Gal 4:23) promise.
Gal 4:24 Which things are an allegory: for these are the two covenants (testaments) (Gal 4:24) – the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage (Gal 4:24) which is Agar.
Gal 4:25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children (Gal 4:25) Gal 4:26 But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all.
Gal 4:27 For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not, break forth and cry, thou that travailest not: for the desolate (Gal 4:27) hath many more children (Gal 4:27) than she which hath an husband. (Gal 4:28)
Now we, brethren, as Isaac was, are the children (Gal 4:28) of promise.
→ There are two covenants (testaments) for Abraham's two sons, one of whom was born in earthly Jerusalem after the flesh of a bondwoman (Ismael) and the other by promise of a freewoman in heavenly Jerusalem (Isaac).
(Video 7 – "The generations of Adam to Abraham + Woman" and video 24 – "You are the Holy Jerusalem")

The word of promise (Rom 9:9) For this is the word of promise. At this time will I come, and Sara shall have a son.) Is given to Israel. Who is Israel then?

Rom 9:6 Not as though the word of God hath taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel:
Rom 9:7 Neither, because they are the seed (Gal 4:28) of Abraham, are they all children (Gal 9:7) of God: but the children (Gal 9:7) of the promise are counted for the seed.
Rom 9:8 That is, They which are the children (Gal 9:8) of the flesh, these are not the children (Gal 9:8) of God: but the children (Gal 9:8) of the promise are counted for the seed.
Gal 3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds as of many; but as of one. And to thy seed, which is Christ (Gal 3:16).
(Luk 2:11 For unto you is born (born from) (Luk 2:11) a saviour, this day in the city of David (Luk 2:11) which is Christ the Lord.)
→ To the woman who have conceived Abraham's seed (the world) (Luk 2:11) of promise (Rom 9:9), which is the Son of man, submit yourselves unto your own man (husband) who is of the freewoman, born by promise.
→ Through the logos of promise you conceived, you woman, will bring forth Christ the Lord, which is the rena of God (Video 24 "The house of God (You are the Holy Jerusalem)" and video 16 "All nations (From the Jews to the Gentile nations) 6/10/7").

The woman should be subjected to her own man

1Co 11:7 For a man (Gal 4:28) indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God: but the woman is the glory of the man.
Eph 5:22 Wives, (Luk 2:11) submit yourselves unto your own husbands, (Gal 4:28) as unto the Lord, (Gal 4:28) who is the head of the church, and he is the saviour (Gal 4:28) of the body.
Eph 5:23 For the husband (Gal 4:28) is the image and glory of God, he is the head of the woman, even as Christ is the head of the church and the saviour of the body (Eph 5:23) Eph 5:30).
Eph 5:24 Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands (Gal 4:28) in every thing.
→ Because a man (husband) is the image and glory of God, he is the head of the woman, even as Christ is the head of the church and the saviour of the body (Eph 5:23) Eph 5:30).
→ As the church is subject unto Christ, so let the woman be to your own man in everything. In other words, as the church (those who conceived the rena and the logos of God) are subject unto Christ, the woman (those who conceived the logos of God) should be subject to her own man (the one who conceived the rena of God) in everything.

Spiritually, woman becomes a son

Gal 4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, (Gal 4:4) made under the law,
(Rom 1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed (Gal 4:4) of David according to the flesh.)
Gal 4:5 To redeem them that were under the law, but a son, and it is a son, then he is the heir of God through Christ.
Gal 4:7 Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then he is the heir of God through Christ.
→ But when the fulness of time came, God sent his Son Jesus Christ our Lord, made of the seed of David according to the flesh, and made under the law, to redeem those who were under the law, by adopting them.
→ Through adoption, God has sent the Spirit of His Son into your hearts, allowing you to cry, "Abba, Father, allowing you to cry Abba, Father. You are no longer a servant, but a son, the heir of God through Christ.
→ Spiritually, a woman becomes a son and must remain holy until the days are fulfilled (for details about how the woman becomes son and why the sons of Israel must remain holy until the days be fulfilled (Num 6:5) in order to become perfect in Christ Jesus, refer to "The Hair of the Head")

Man - Under grace

Mat 1:19 Then Joseph her husband, being a just (righteous) (Mat 1:19) man, (2Co 5:21) For he hath made him (Christ) to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteous of God in him (Christ).
→ A man (Gal 4:28) of Christ is one who is made righteousness of God in Christ (2Co 5:21) and thus has the seed of Christ and is holy (Gal 4:28) (Mat 6:20).

Eph 5:25 Husbands, (Gal 4:28) love your wives, (Gal 4:28) even as Christ also loved the church, and gave himself for it: Eph 5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, (Gal 4:28)

Eph 5:27 That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy (Gal 4:28) and without blemish.

→ Therefore, you man of Christ, love your woman (wife) who has the logos of God being under tutors and governors until the time appointed of the Father, even as Christ also loved the church and gave himself for it.
→ Christ will sanctify and cleanse the church with the washing of water by the word (the rena), (Gal 4:28) in order to present it to Himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, but be holy without blemish.

Men (Gal 4:28) to love their wives

Eph 5:28 So ought men (Gal 4:28) to love their wives (Gal 4:28) as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.

Eph 5:29 For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord (Gal 4:28) the church.

Rom 6:9 Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more, death hath no more dominion over him.
Rom 6:10 For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God. Rom 6:11 Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.

Rom 6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.
Rom 6:13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

Rom 6:14 For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.
→ Man under grace must love the woman who is under the law as he loves his own body as well as his own flesh, which he nourished and cherished in order to grow it into the rena of God (refer to "The Hair of the Head" for details).

→ Know that Christ was raised from the dead, so that death no longer has dominion over Him, and that Christ died once for sin and was raised from the dead to live for God. Likewise, you are dead to sin and alive to God through Jesus Christ our Lord.
→ Know that you are members of the body of Christ, and that your members as instruments of righteousness unto God.

→ Sin no longer has dominion over you because you are no longer under the law, but under grace. Therefore, those who are under the law, just as the Lord does for the church (man and woman),

→ We are members of the body of Christ, of his flesh, and of his bones (Eph 5:29)

(A great mystery) Christ & the Church 2/2

One flesh (Man cleaved unto his Woman) – The body of Christ or the church

Gen 2:24 Therefore shall a man⁶³⁷² leave his father and his mother, and shall cleave⁶³⁸² unto his wife, and they shall be one flesh. This is now **bone of my bones, and flesh of my flesh**, she shall be called **Woman**, because she was taken out of **Man**⁶³⁷².
 → In Gen 2:24, "man (husband)"⁶³⁷⁶ refers to the souls of the flesh, who is able to conceive life by faith to become righteous and holy, and the woman is to join the **body (bone and flesh)**, of **man in the flesh**.
 Eph 5:30 For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Eph 5:31 For this cause shall a man⁶³⁴⁴ leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Gal 4:26 But **Jerusalem** which is above is free, which is the mother of us all.
 → In Eph 5:31, "man"⁶³⁴⁴ refers to the man of flesh of bondwoman who has the logos of God through the Son of man, and thus he is to leave his father and mother to join into his freewoman (which is life in Christ) in order to join the **body (bone and flesh)** of the **Lord in the spirit**.

(A great mystery) Christ and the Church
 → A great mystery of Christ and the church
 → Refer to "The Hair of the Head (Explanation #2)" for details.

Woman → Man → Christ → God (1Co 11:3)
 • the head of Christ⁶³⁴⁴ is God⁶²³¹⁶
 • the head of every man (husband)⁶⁴³⁵ is Christ
 • the head of the woman⁶¹¹⁵ is the man (husband)⁶⁴³⁵

2Co 11:2 for I (Paul) have espoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ



2Pe 3:3 Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, **Where is the promise of his coming?** for since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.
 2Pe 3:5 For this they willingly are ignorant of, that by the word (the logos)⁶³⁴⁵⁶ of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in/by⁶¹²²³ the water.

1Co 11:4 Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head, forasmuch as he is the image and glory of God; but the woman is the glory of the man.
 → **Cover his head**
 → **Shames his head**

Thus, husbands, men under grace, must love your woman (wife) who has the logos of God under tutors and governors until the time appointed of the Father, even as Christ also loved the church and gave himself for it. (Eph 5:25).

Apostles of Christ (1Co 11:1)
 Follow & keep the tradition delivered by the apostles (1Co 11:2)
 1Co 11:1 Be ye followers of me, even as I also am of Christ.
 1Co 11:2 Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them to you.

The day of the Lord

Head
 The glory of the man (husband)⁶⁴³⁵
 • Pray or Prophecy (1Co 11:4)


Woman⁶¹¹⁵
 (gynē) ⁶¹¹⁵
 (1Co 11:3)

But the day of the Lord will come as a thief in the night; in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements (the rudiments)⁶³⁴⁷ shall melt with fervent heat. The ground also and the works that are therein shall be burned up. (2Pe 3:10)

Ought the woman to have power on her head because of the angels (1Co 11:10)
 Why every woman must cover her head?
 → Because woman is under the law, she is the glory of the man (husband)⁶⁴³⁵ (1Co 11:7).

Uncover her head
 → Shames her head
 → As if she were shaven (1Co 11:5)

1Co 11:6 For if the woman⁶¹¹⁵ be not covered, let her also be shorn; but if it be a shame for a woman⁶¹¹⁵ to be shorn or shaven, let her be covered.
 1Co 11:16 But if a woman have long hair, ⁶²³⁴⁴ it is a glory to her for her hair⁶²³⁴⁴ is given her for a covering.
 → In order for a woman's hair (the seeds of logos, under the law) to grow into the theme of God, it must be nourished until the fullness of time (video 31, "The Hair of the Head"). Therefore, The abundant logos in the law must therefore be covered up until the manifestation of the theme.



Job 42:5 (Job) have heard of thee (the LORD) by the hearing of the ear; but now mine eye seeth thee (the LORD).

The Word (Logos)⁶³⁴⁵⁶
Reserved unto fire
 The heavens and the earth, which are now by the same word (logos) are kept in store against the day of judgment and perdition of ungodly men (2Pe 3:7)

(Refer to "The prophecy of the scripture" for details)

But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head: for that is even all one as if she were shaven. (1Co 11:5)

1Co 11:6 For if the woman⁶¹¹⁵ be not covered, let her also be shorn; but if it be a shame for a woman⁶¹¹⁵ to be shorn or shaven, let her be covered.
 1Co 11:16 But if a woman have long hair, ⁶²³⁴⁴ it is a glory to her for her hair⁶²³⁴⁴ is given her for a covering.
 → In order for a woman's hair (the seeds of logos, under the law) to grow into the theme of God, it must be nourished until the fullness of time (video 31, "The Hair of the Head"). Therefore, The abundant logos in the law must therefore be covered up until the manifestation of the theme.

(प्रकाशित 21:8 ऐ) दूजी मौत

प्रकाशित 21:8 ऐलेकन डरपोक ते अविश्वासी ते घृणित।

ते कल्ल ते वेश्या, ते जादूगर ते मूर्तिपूजक, ऐ

ते सारे झूठे, उसी झील च अपना हिस्सा होग जेड़ी अग ते गंधक कन्ने जली जंदी ऐ।

प्रकाशित 21:8 ऐ बीउत डरपोक, अविश्वासी, घृणित, हत्यारे, वेश्या, जादूगर, मूर्तिपूजक ते सारे झूठे
उंदा हिस्सा होगझील च जेहड़ी अग ते गंधक कन्ने जली दी ऐ, जेहड़ी ऐदूजी मौत.

→स्मर्ना दे कलीसिया दे लोग⁸⁹⁵जो जीतने च असफल रेह, उंनेगी न्याय कीता जंदा ऐदूजी मौत होगा
में अपना हिस्सा अग दी झील.

(प्रकाशित 21:9 ऐ) 1मेमने दी पत्नी

प्रकाशित 21:9 ऐते सत्त सुर्गदूत च इक भरे कोल आया, जिंदे कोल सत्त कशितयां हे, जिंदे कोल सत्त आखरी विपत्तियें कन्ने भरोची दी ही।

ते मेरे कन्ने गल्लां करदे होई आख्या, “इत्थें आओ, मैं तुगी दुल्हन, मेमने दी, दस्सी देगा।”⁷²¹ घरे-आहली.¹¹³⁵

प्रकाशित 21:9 ऐ टीhen उंने सत्त (7) सुर्गदूतें च इक आया जिंदे कोल सत्त (7) शीशियां सत्त (7) आखरी विपत्तियें कन्ने भरोची दी ही
ते यूहन्ना कन् ने ग्लाय, “आओ, अऊं तुसेंगी दस् सेना ऐदुल्हन दी, ऐमेमने दी पत्नी.”

- पवित्र यरूशलेम -1मेमने दी पत्नी
- हूनै, पवित्र नगर दा, ऐनुवे यरूशलेम दा, या तुसीं (मेमने दी जनानी) बनी गेआमेमने दी पत्नीप्रवेश करना
पवित्रतम दा पवित्र, ऐपवित्र यरूशलेम गीजित्थे परमात्मा ते मेमने दा सिंहासन (प्रकाशितवाक्य 22:1).⁸⁹⁶

(प्रकाशितवाक्य 21:10-14 ऐ) पवित्र यरूशलेम (परमेसर दे तम्बू च पबितर दा पवित्र)

प्रकाशित 21:10 ऐते उन मिगी आत्मा कन्ने इक बड्डे ते उच्चे पहाड़ उप्पर लेई गया।

ते मिगी ओह महान नगर, पवित्र यरूशलेम दस्सेया।

परमेसरे थवां सुर्ग थवां उतरने आला,

प्रकाशित 21:10 ऐ इकन्द ऐने मिगी (यूहन्ना) आत्मा कन्ने इक बड्डे ते उच्चे पहाड़ उप्पर लेई गया।

ते उसी बड़ा शहर दस्सेया। पवित्र यरूशलेम गी, उतरदे होई²⁵⁹⁷ स्वर्ग तों बाहर निकल केईश्वर.

- पवित्र यरूशलेम
- ऐमेमने दी पत्नीइक बड्डे ते उच्चे पहाड़ उप्पर दिक्खेआ जंदा ऐ, पवित्र यरूशलेम गी, जो घरे दादा पवित्र
सबसे पवित्र. पवित्र यरूशलेम, नमें यरूशलेम दी तर्ज पर, स्वर्ग तों उतरदा हैईश्वर चभावना गी⁸⁹⁷
- नई यरूशलेमबनाम महान शहर बाबूल
- ऐटीओह महान शहर (वैटिकन शहर, रोमन कैथोलिक चर्च दी वेश्याएं दा शहर जित्थे दी मां
वेश्या या पोप बैठेएस) अपवित्र लोकें आसु ते (जो यूनाइटेड दी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट दे हन
राष्ट्रों) बाबूल ऐ (जित्थे मसीह दे विरोधी मंदिर विच बैठा है (पवित्र संत गी) परमातमा दा, अपने आप गी इस चाल्ली दस्सदे होई
ईश्वर, ऐरथिस २:४).
- परपरमातमा दा मंदिरलेईपवित्र संत गीसुर्ग च ऐ, तेमेमने दी पत्नियोंमें हैमहान शहरच

⁸⁹⁵“प्रकाशितवाक्य २:८-११) (२) स्मर्ना दी कलीसिया दे सुर्गदूत गी.”

⁸⁹⁶ मंदरे च बख-बख महिमाएं गी कियु यां लाया जंदा ऐ, एह समझने आसु ते “परमेसर दे लोक दे तम्बू च दाखल होडन
परमातमा, अलग-अलग महिमा लांदे होए,” ते “नीच संपत्ति दे शरीर तों महिमामंडित शरीर तक” तों “(प्रकाशितवाक्य 21:27 ऐ) में लिखे हुए
मेमने दी जिंदगी दी किताब, ऐ” फिर “[चित्र 21-2]” दे आरेख गी समझो।

⁸⁹⁷संदर्भ देना प्रकाशित 21:16 ऐए समझने आसु ते के पबितर यरूशलेम “सबने शा पबितर” कियु यां ऐ।

स्वर्ग, जो है **पवित्र यरूशलेम गी** (प्रकाशित 21:10 ऐ).

- तू, **ऐमेने दी जनानी**, **ऐदुलहन दी**, जिंदे दे नगर सिन्धोन दे पहाड़ उप्पर आएईश्वर (**ओह स्वर्गीय यरूशलेम दा**), ते पुज्जी गेदे **नपवित्र नगर दा**, **ऐनवे यरूशलेम दा** (**प्रकाशितवाक्य 21:2**), ते हो गया **मेमने दी पत्नी** (प्रकाशित 21:9 ऐ) **च पवित्र यरूशलेम गी** (प्रकाशितवाक्य 21:9-10).
- **मेमने दी पत्नी**, सुर्ग दे इक बड्डे ते उच्चे पहाड़ उप्पर ऐ, जेहड़ा **ऐमहान शहर** अपने पैतृक दा, **ऐपवित्र यरूशलेम**, जो स्वर्ग तों उतरदा **हेईश्वर** जो सिर्फ आत्मा च गै दिक्खेआ जाई सकदा ऐ⁸⁹⁸

- पवित्र यरूशलेम दा

प्रकाशित 21:11 ऐपरमात्मा दी महिमा ते उदी रोशनी⁵⁴⁵⁸ बड़ी कीमती पत्थर दे समान ही
स्फटिक दे समान साफ यास्पर पत्थर दे समान;

- ☞ **प्रकाशित 21:11 ऐ** (पवित्र यरूशलेम) होने दे नाते **परमात्मा दी महिमा: 1।**
ते उदी रोशनी बड़ी कीमती पत्थर दे समान ही, जिवे **इक जैस्पर पत्थर**, क्रिस्टल दे रूप च साफ।
 - **पवित्र यरूशलेम**
 - ऐ **पवित्र यरूशलेम** उसी परमात्मा दी महिमा ऐ, ते उदी रोशनी यास्पर दे समान कीमती पत्थर दे समान ऐ।
क्रिस्टल दे रूप च साफ।
 - ऐ **इक जैस्पर**: शुद्ध सोना जो शुद्ध कांच दे समान ऐ (**प्रकाशित 21:18 ऐ**)

प्रकाशितवाक्य 21:12 ऐ ते इक बड्डी ते उच्ची दीवार ही, ते बारह फाटक, ते फाटके च बारह सुर्गदूत हो
ते उंदे उप्पर लिखे दे नां, जेहड़े बच्चें दे बारां गोत्रें दे नां न⁵²⁰⁷ इस्त्राएल दा:
प्रकाशित 21:13 ऐ पूरब च त्रै फाटक; उत्तर च त्रै फाटक; दक्षिण च त्रै फाटक; ते पश्चिम च त्रै फाटका
प्रकाशितवाक्य 21:14 ऐ ते नगर दी दीवार दी बारां नीहू ही, ते उन्दे च मेम्ने दे बारां प्रेरितें दे नां हो।

- ☞ **प्रकाशितवाक्य 21:12 ऐ** इक **शहर** (पवित्र यरूशलेम) च इक बड्डी ते उच्ची दीवार ही जिसदे बारह (12) फाटक हो
ते दरवाजें च बारह (12) सुर्गदूत ते उंदे उप्पर नां लिखे दे हे
जेड़े इस्त्राएल दे पुत्रें दे बारां (12) गोत्रें दे नां ना
 - ☞ **प्रकाशित 21:13 ऐ** पूरब च त्रै (3) फाटक, उत्तर च त्रै (3) फाटक,
दक्षिण च त्रै (3) फाटक, ते पश्चिम च त्रै (3) फाटका
 - ☞ **प्रकाशितवाक्य 21:14 ऐ** इक **शहर** दी दीवार दी बारह (12) नीहू ही,
ते उंदे उप्पर मेम्ने दे बारां (12) प्रेरितें दे नां लिखे दे हे⁷²¹ ऐ
 - **महान शहर, पवित्र यरूशलेम**
 - 12 फाटक ते गेटें पर 12 स्वर्गदूत कन्ने इक बड्डी & उच्ची दीवार ऐ।
 - ऐ **इस्त्राएल** दे पुत्रें दे 12 गोत्रें दा नां लिखे दा ऐ।
३पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम क्रमशः ३ फाटका
- शहर दी दीवार पर 12 नीहू ऐ जिसदे उप्पर मेमने दे 12 प्रेरितें दे नां ना

(**प्रकाशितवाक्य 21:15-16 ऐ**) पवित्र यरूशलेम दा नाप (परमात्मा दे तम्बू दा पवित्रतम)

प्रकाशित 21:15 ऐ ते जेड़ा मेरे कन्ने गल्ल करदा हा, उदे कोल सोने दा खड़ा हा²⁵⁶³ ऐ
शहर ते ओस दे फाटक ते ओस दी दीवार गी नापने आस्ते।
प्रकाशित 21:16 ऐ ते नगर चार चौकोर ऐ, ते चौड़ाई जिन्ना बड्डा ऐ।
ते ओस ने नगर गी खड़ी कन्ने नापया, बारह हजार फरलांग (स्टेडियन)⁴⁷¹² ऐ।
लंबाई ते चौड़ाई (चौड़ाई)⁴¹¹⁴ ऐ ते इसदी ऊंचाई बराबर होंदी ऐ।

⁸⁹⁸वीडियो 24. “तुस पवित्र यरूशलेम ओ (3/3)”।”

- ☞ [प्रकासित 21:15](#) ऐ **इकंद** उस (स्वर्गदूत) दे कोल जेड़ा मरे कन्ने गल्ल करदा हा, उंदे कोल शैहर, उंदे फाटक ते उंदी दीवार गी नापने आस्ते सोने दा इक खढ़ हा।
- ☞ [प्रकासित 21:16](#) ऐ **इकंद** शहर चार चौकोर दे रूप च बिछाया गेदा ऐ; इसदी लंबाई उतनी गै बड्डी ऐ जितनी इसदी चौड़ाई।
ते उन उस नगर गी खड़ी कन्ने नापया: बारह हजार (**12 हजार दी**) **फरलांग दा**.⁸⁹⁹
इसदी लंबाई, चौड़ाई ते ऊंचाई बराबर होंदी ऐ।

→ सोने दी खढ़ कन्ने सुर्गदूत शैहर, फाटक ते दीवार गी नापदा ऐ।

- पवित्र यरूशलेम दे शहर दा आकार
- 1 फरलांग लगभग 185 मीटर ऐ: $12,000 * 185$ मीटर = लगभग 2,220 किलोमीटर (लंबाई, चौड़ाई, & ऊंचाई च)।
- लंबाई, चौड़ाई, ते ऊंचाई च 12,000 दा नाप उस आकार गी दस्सेआ जंदा ऐ जेहड़ा 12 कबीले दे सारे गी रक्खी सकदा ऐ
इस्त्राएल दे पुत्रों दा ($12,000 * 12$), जां **144,000 दी**.⁹⁰⁰
- मंदिर दा ओरेकल (**पवित्रतम दा पवित्र**)
- दे मुताबिक **१राजा ६:२०**, मंदर दे ओरेकल (तम्बू दा सबतू अंदरूनी कमरा) जमीन उप्पर ऐ
बिल्कुल उसी लंबाई, चौड़ाई, ते ऊंचाई इक सही घन दे रूप च, "**पवित्र स्थान दा पवित्र स्थान**" स्वर्ग चा
→ मंदिर दा वचन (पवित्र स्थान, **१राजा ६:१७-१९ ऐ**), जो घर च हत्थ लेटने कन्ने तैयार कीता गेदा हा
यहोवा दा (या परमात्मा दे तम्बू दा; **1राजा 6:19 ऐ**) जमीन पर, दी ऊंचाई च 10 हाथ छोटा ऐ
यहोवा दा घर (१राजा ६:३, ऐ १राजा ६:२०).

१राजा ६:३ ते ओह घर जेड़ा राजा सुलेमान बनाया हा **प्रभु गी**, ऐ
उदी लंबाई साठ हाथ ही।

ते उदी चौड़ाई बीस हाथ ते उचाई तीस हाथ (**30**) हत्थ.

१राजा ६:२० ते ओरेकल (पवित्र स्थान, मंदिर जां तम्बू दा सबतू अंदर दा कमरा)^{१६१६७९} ऐ

अग्रभाग च बीस (**20**) हाथ लंबाई च,

ते बीस (**20**) हाथ चौड़ाई च,

ते बीस (**20**) हाथ उदी ऊंचाई च:

ते उसी शुद्ध सोने कन्ने लपटाया; ते देवदार दी वेदी गी इस चाल्ली ढक दित्ता।

([प्रकासित 21:17 ऐ](#)) पवित्र यरूशलेम दी दीवार दा नाप

[प्रकासित 21:17 ऐ](#) ते उसदी दीवार नापया।

इक सौ चौवालीस हाथ, ऐ ^{४०८३} मनुख दे नाप दे अनुसार, ^{४४४} यानी सुर्गदूत दा।

- ☞ [प्रकासित 21:17 ऐ](#) टीमूर्गी अने उदी दीवार नापया। **144,000 हाथ दा** ⁹⁰¹ मनुख दे नाप दे मताबक, यानी सुर्गदूत दे नाप दे मताबक.

- दी दीवार दा नाप **144,000 हाथ दा** इक मनुख दा नाप ऐ (जेहड़ा इक सुर्गदूत दा नाप बी ऐ)।

([प्रकासित 7:4 ऐ](#) में उं लोकें दी गिनतरी सुनी ही जिंदे उप्पर मुहर लाए गेदे हे।

144,000 दी इस्त्राएल दे पुत्रों दे सारे गोत्रों च सील कर दित्ते गए।)

- 144,000 दे मुताबिक जिनेंगी सील कीता गेदा ऐ [प्रकासित 7:4 ऐ](#), पवित्र यरूशलेम दी दीवार दा इक (1) हाथ इस्त्राएल दे इक (1) मुहर लाए दे पुत्र दे बराबर ऐ।

⁸⁹⁹ फलॉग: लगभग 600 फुट (185 मीटर) दी जगह जां दूरी।

"जी4712 - स्टैंडियन - मजबूत दा ग्रीक कोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबल। अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4712/kjv/tr/0-1/ऐ>.

⁹⁰⁰ संदर्भ देना [प्रकासित 7:4-8 ऐ](#).

⁹⁰¹ हाथ : कोहनी दे जोड़ थमां बिचवली उंगली दे सिरे तकर दी दूरी दे बराबर लंबाई दा माप (यानी लगभग 18

इंच, (.5 मी.) पर इसदी सटीक लंबाई बक्ख-बक्ख ही ते विवादित ऐ)। "G4083 - pēchys - मजबूत दा ग्रीक शब्दकोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबल।

अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023। <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4083/kjv/tr/0-1/ऐ>.

- दू शब्दां च, मसीह दे वैहले फल, यानी 1,44,000, जेके परमेसरे दे घर च पबित्तर ते पबित्तर थाहर च रौं दे ना⁹⁰²हर इक परमात्मा दे मंदर दा इक खंभा होंदा ऐ, ते ओह कर्दे बी उसदे कोला बाहर नेई निकलग (प्रकासित 3:12 ऐ).

(प्रकाशितवाक्य 21:18-20 ऐ) शहर दी दीवार दे कीमती पत्थर

प्रकासित 21:18 ऐ ते ओस दी दीवार दा निर्माण यास्पर दी ही।^{जं2393 ँ}
 ते नगर शुद्ध हा^{जं2513 ँ} सुन्ना, साफ (शुद्ध) दी तरह^{जं2513 ँ} शीशा।
प्रकासित 21:19 ऐ ते नगर दी दीवार दी नीहू गी (सजने) कन्ने सजाया गेदा हा।^{जं2885 ँ}
 हर तरह दे कीमती पत्थरा
 पैहली नीव यास्पर ही,^{जं2393 ँ}
 दूआ नीलम;^{जं4552 ँ} तीसरा, इक चाल्सीडोनी;^{जं5472 ँ} चौथा, पन्ना, इक पन्ना;^{जं4665 ँ}
प्रकाशितवाक्य 21:20 ऐ पंजमां, सार्डोनिकस दा; छठा, सार्डियस दा; सतमां, क्राइसोलाइट दा; आठवां, बेरिल दा; नौवां, इक पुखराज;
 दसवां, इक क्राइसोप्रासस; ग्यारहवां, इक जैसिंथ; बारहवां, इक नीलमा

☞ प्रकासित 21:18 ऐ दीवार दी इमारत यास्पर दी ही, ते नगर शुद्ध सोने दी ही, जेड़ा शुद्ध कांच दे समान हा।

☞ प्रकासित 21:19 ऐ टीओह शहर र दी दीवार दी नीहूहर किस्म दे कीमती पत्थर कन्ने सजाए गेदे हे।

- दी 1 नीव: जैस्पर,⁹⁰³

- 2 नीव: नीलम,⁹⁰⁴

- दी 3 नीव: चाल्सीडोनी,⁹⁰⁵

- 4 वीं नीव: पन्ना।⁹⁰⁶

☞ प्रकाशितवाक्य 21:20 ऐ - ऐ5 वीं नीहू: सार्डोनिकस,⁹⁰⁷

- ऐ6 वीं नीव: सार्डियस,⁹⁰⁸

- ऐ7 वीं नीहू: क्राइसोलाइट,⁹⁰⁹

- ऐ8 वीं नीहू: बेरिल,⁹¹⁰

- ऐ9 वीं नीव: इक पुखराज,⁹¹¹

⁹⁰²वीडियो 9 थमां: आरेख दिक्खो "1. फसह दा दिना"

www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-फसह-फ्राम-ओटी-टू-एनटी/.

⁹⁰³जैस्पर: बक्ख-बक्ख रंग दा इक कीमती पत्थर (किजोकी कुसे बैंगनी, कुसे नीले, कुसे हरे, ते कुसे गी पीतल दा रंग)।

"जं2393 - iaspis - मजबूत दा ग्रीक शब्दकोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2393/kjv/tr/0-1/ऐ>.

⁹⁰⁴नीलम: इक कीमती पत्थर, शायद साढ़ी लैपिस लाजुली।

"जं4552 - नीलम - मजबूत दा ग्रीक शब्दकोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4552/kjv/tr/0-1/ऐ>

⁹⁰⁵चाल्सीडोनी: धुधले धूसर रंग दा इक कीमती पत्थर, जिसदे बाद नीले, पीले, जां बैंगनी रंग दे बादल होंदे ना

"G5472 - chalkēdōn - मजबूत दा ग्रीक शब्दकोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5472/kjv/tr/0-1/ऐ>

⁹⁰⁶पन्ना: इक पारदर्शी कीमती पत्थर जेहड़ा खासतौर उप्पर अपने हल्के हरे रंग आस्ते मशहूर ऐ।

"G4665 - smaragdōs - मजबूत दा ग्रीक कोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4665/kjv/tr/0-1/ऐ>

⁹⁰⁷सार्डोनिकस: इक कीमती पत्थर जिसगी कार्नेलियन (साई) दे लाल रंग ते गोमेद दे सफेद रंग कन्ने चिन्त कीता जंदा ऐ।

"जं4557 - सार्डोनिकस - स्ट्रॉन्ग दा ग्रीक कोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4557/kjv/tr/0-1/ऐ>

⁹⁰⁸सार्डियस: इक कीमती पत्थर जिसदे दो किस्म होंदे न, पैहले गी कार्नेलियन आखदे न (किजोकी मांस दा रंग होंदा ऐ) ते...

बाद वाला इक सरदा। "G4556 - sardīon - मजबूत दा ग्रीक कोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4556/kjv/tr/0-1/ऐ>

⁹⁰⁹क्राइसोलाइट: सुनहरे रंग दा इक कीमती पत्थर।

"जं5555 - क्राइसोलिथोस - स्ट्रॉन्ग दा ग्रीक कोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5555/kjv/tr/0-1/ऐ>

⁹¹⁰बेरिल: हल्के हरे रंग दा इक कीमती पत्थर। "G969 - bēryllos - स्ट्रॉन्ग दा ग्रीक कोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला एक्सेस कीता गेआ

25 अप्रैल, 2023 वीं।<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g969/kjv/tr/0-1/ऐ>

⁹¹¹पुखराज: इक हरे रंग दा पीला कीमती पत्थर (साडा क्राइसोलाइट)। "G5116 - topazion - मजबूत दा ग्रीक कोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला

- ऐ10वीं नींव: इक क्राइसोप्रास,⁹¹²
- ऐ11वीं नींव: इक जैसिथ⁹¹³
- ऐ12वीं नींव: इक नीलम⁹¹⁴

(प्रकासित 21:21 ऐ) 12 गेट & शुद्ध सोने दा शहर पर 12 मोती

प्रकासित 21:21 ऐते बारां फाटक बारां मोती हे;

हर केई फाटक इक मोती दे हे, ते शहर दी गली शुद्ध सोने दी ही, जिय्यां पारदर्शी शीशे दी ही।

प्रकासित 21:21 ऐ इकंद बारह (12) फाटक बारह (12) मोती हे: हर इक व्यक्तिगत फाटक मोती दा इक हा।

इकंद शहर दी गली शुद्ध सोने दी ही, पारदर्शी कांच दी तरह।

- पवित्र यरूशलेम
- ऐ12 गेटें च हर इक 1 मोती दा बने दा ऐ, कुल 12 मोती।

(प्रकाशितवाक्य 21:22 ऐ) प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान ते मेमना

प्रकाशितवाक्य 21:22 ऐते मैं उदे च कोई मंदिर नेई दिखया।

प्रभु दे वास्ते^{ऐ2962} ईश्वर^{ऐ2316} सर्वशक्तिमान जो^{ऐ3841} ते^{ऐ2532} मेमने दा (अर्नियन)^{ऐ721} इसके मंदिर हैं।

प्रकाशितवाक्य 21:22 ऐते मैं उदे च कोई मंदर नेई दिक् खेया, कीजे प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान ते मेमने दा इसके मंदिर हैं।

- परमात्मा दा मन्दिर
- ऐ प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान⁹¹⁵ ते मेमने दा मंदिर हैं।

(प्रकासित 21:23 ऐ) परमात्मा दी महिमा (परमात्मा दे मंदर विच)

प्रकासित 21:23 ऐते नगर गी उस च चमकने आस्तै सूरज दी ते ना चंद्रमा दी लोड़ ही।

लेई महिमा दा आहला ईश्वर किया हल्के^{ऐ5461} इसे, ते मेमने दा (अर्नियन दा)^{ऐ721} हे ज्योति (मोमबत्ती)^{ऐ3088} उसके।

प्रकासित 21:23 ऐ टीओह (पवित्र) शहर उस च चमकने आस्तै सूरज दी ते ना गै चंद्रमा दी लोड़ ही, कीजे महिमा दा आहला जाओघ इस च चमक, ते मेमने दा (अर्नियन दा)^{ऐ721} हे इसकी मोमबत्ती उसके।

- परमात्मा दा मन्दिर
- ऐ टीओह मेमना (अर्नियन दा)^{ऐ721} ऐ मोमबत्ती दा की महिमा से हल्की ईश्वर।
- ऐ मेमने दी पत्नी सुरा दे इक बड्डे ते उच्चे पहाड़ उपपर ऐ, जेहड़ा ऐ महान शहर अपने पैतृक दा, ऐ

अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023। <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5116/kjv/tr/0-1/ऐ>

⁹¹²क्राइसोप्रासस: हरे रंग दा पत्थर, सोने दे पत्थर दे कोल झुकदा ऐ, जिय्थुं दा इसदा नां ऐ; कीजे एह छाती च सुलेमान ऐ

शाली, जो नफ्ताली दा पत्थर ही। "जी5556 – क्राइसोप्रासोस – स्ट्रॉंग दा ग्रीक कोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2019।

2023 दी <https://www.bible.com/bible/5556/क्रेजेवी/टीआर/0-1/>

⁹¹³हयासिन्थ: इक फुल्ल दा नां, उसी रंग दे कीमती पत्थर दा बी, काले रंग दे कगार पर गहरे नीले रंग दा

"जी5192 - hyacinthos - मजबूत दा ग्रीक कोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5192/kjv/tr/0-1/ऐ>

⁹¹⁴नीलम: बैंगनी ते बैंगनी रंग दा इक कीमती पत्थर। "जी271 - एमेथिस्टोस - स्ट्रॉंग दा ग्रीक कोश (kjv)" नीले चिट्ठी


बाइबला अभिगमन तिथि 25 अप्रैल, 2023। <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g271/kjv/tr/0-1/ऐ>

⁹¹⁵"[चित्र 21-घ], " जां दिक्खो

वीडियो 44. "शास्त्र दी भविष्यवाणी (2 पतरस 1) 2/2।" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-द-लोगोस-द-नेमा-अतिम-दिन-2-पतरस-3-शास्त्र-दी-भविष्यवाणी-2-पतरस-1-3/

पवित्र यरूशलेम, ऐ⁹¹⁶कतांहप्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान (प्रभु ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह) तेमेमने दा (ओह परमात्मा दी महिमा कन्ने जलाए गेदे मोमबत्ती) होंदे नमदिर दा.⁹¹⁷

⁹¹⁶ मंदेरे च बख-बख महिमाएं गी किय् यां लाया जंदा ऐ, एह समझने आस् ते “परमेसर दे लोक दे तम्बू च दाखल होडन परमात्मा, अलग-अलग महिमा लांदि होए” ते “नीच संपत्ति दे शरीर तों महिमामंडित शरीर तक” तों “(प्रकाशितवाक्य 21:27 ऐ) में लिखे हुए मेमने दी जिंदगी दी किताब, ऐ” फिर “[चित्र 21-2]” दे ओरेख गी समझों।
⁹¹⁷ “[चित्र 21-ई],” जां वीडियो 24 गी दिखो, “तुस पवित्र यरूशलेम ओ (3/3)”
www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-प्रेरित-शिष्य-शक्ति-अधिकार-के-साथ-



(प्रकाशितवाक्य 21:24 ऐ) 2 धरती दे राजा & 3 उद्धारित राष्ट्रें

प्रकाशितवाक्य 21:24 ऐते राष्ट्रों दा^{#1484} जेड़े उध्दार पादे न, उदे चा उजाले च चलन^{#5457} इस दा:
ते धरती (जमीन) दे राजा^{#1093} उदी महिमा ते इज्जत उदे च लेई आओ।

☞ प्रकाशितवाक्य 21:24 ऐ इकएन डी राष्ट्रें गी उन्दे च जेड़े उद्धार पाए गेदे न, उदे च चली जांगन (रब दा) लोइसकी, ऐ ते धरती दे राजा लाओ उनके महिमा ते सनमान इस च।

2 धरती दे राजा

→ धरती दे राजा दा जिक्र करदे ने मूर्ख क्वारी जो उनके लाएगा महिमा ते इज्जतमें परमातमा दा मंदिरमें यरूशलेम च।⁹²⁰

3 उद्धारित राष्ट्रें

→ उद्धारित राष्ट्रें दा जिक्र ऐ बाकी कुआरियां जो जभीन नय 1000 वर्षों के फाद उद्धार शोगा, ते चलनगे से चमकदे परमात्मा दी रोशनी च मंदिर दा.

(प्रकाशितवाक्य 21:25-26 ऐ) 3 उद्धारित राष्ट्रें

प्रकाशितवाक्य 21:25 ऐते दिने च उदे फाटक बिल्कुल बंद नेई होंगन, कीजे उर्थे कोई रात नेई होगा।
प्रकाशित 21:26 ऐते उदे च जातिएं दी महिमा ते आदर लेई औंगन।

☞ प्रकाशितवाक्य 21:25 ऐते (पवित्र यरूशलेम दे फाटक दिन च बिल्कुल बंद नेई होंगन, कीजे उर्थे रात नेई होगा)

☞ प्रकाशित 21:26 ऐ इकंद ओह (उद्धृत राष्ट्र) अपने लेई आनगे महिमा ते इज्जत आहला राष्ट्रें गी उस (पवित्र नगर) च।

→ के फाटक पवित्रतम दा महान शहर दिन च बिल्कुल बंद नेई होग, इस करी अंदर कोई रात नेई होग ते ना गै न्हेरा परमातमा दा मंदिर स्वर्ग च जियां परमातमा दी रोशनी सारा दिन चमकेगा।

→ परमातमा दे तम्बू दे घर विच कोई रात नहीं (प्रकाशितवाक्य 22:14 ऐ), कतांह पवित्र यरूशलेम गी घर बैठा है (प्रकाशितवाक्य 21:2).⁹²¹

१ जो 1:5 ऐतां ए संदेश जेड़ा अस उदे बारे च सुनेया ऐ ते तुसें गी दस्सने आं, के ईश्वर ऐलो, ऐ^{#5457} ते उदे च कोई न्हेरा नेई ऐ।

(प्रकाशितवाक्य 21:27 ऐ) मेमने दी जिंदगी दी किताब च लिखे दे नां

प्रकाशितवाक्य 21:27 ऐते अशुद्ध करने आली कोई बी चीज इस च नेई जाई सकगा।
ना ते जेड़ा घृणित कम्म करदा ऐ ते ना झूठ बोलदा ऐ।
लेकन जेड़े मेमने दी जीवन दी किताब च लिखे दे ना।


☞ प्रकाशितवाक्य 21:27 ऐते इस च कोई अशुद्ध करने आला ते घृणित करने आला ते झूठा कोई बी नेई जाह्या।
पर जेके च लिखे दे मेमने दा जिंदगी की किताब.

→ सिर्फ उन ही जिन्हें दे नां लिखे होए हन मेमने दी जिंदगी की किताब में प्रवेश कर सकदा ऐ परमातमा दा मंदिर.

⁹²⁰ मंदरे च बख-बख महिमाएं गी किय यां लाया जंदा ऐ, एह समझने आस् ते "परमेसर दे लोक दे तम्बू च दाखल होइन परमातमा, अलग-अलग महिमा लांदि होए" ते "नीच संपत्ति दे शरीर तों महिमामंडित शरीर तक" तों "(प्रकाशितवाक्य 21:27 ऐ) में लिखे हुए मेमने दी जिंदगी की किताब, ऐ" फिर "[चित्र 21-2]" दे आरेख गी समझो।

⁹²¹ "[चित्र 21-2] सुर्ग च नमां तम्बू & परमेसरे दा मंदिर।"

[चित्र २१-१] परमेश्वर दे लोक परमेश्वर दे तम्बू च किय यां दाखल होडन⁹²²



- ऐनिम्न जागीर दे शरीर तों लई गौरवशाली शरीर तक

- एच+आई 1 फसल दी (144,000 दी) + जम्म् 2 वी फसल दी (महान कष्ट दे संत)
 → मुक्तिदाता जी, ऐप्रभु यीशु मसीह गी, ऐ कु'न ऐमेमने दा (अर्नियन)^{#721} (जामसीह), ऐ⁹²³साडी लो एस्टेट बॉडी बदल देगा, तां जे उदे समान बनाई जागौरवशाली तन.

फिलिपिन्स 3:20 ऐकी वे साडी गल्ल सुर्ग च ऐ; जित्थू दा वी असीं दूढदे हांमुक्तिदाता दा, ऐप्रभु यीशु मसीह गी: 1।
 फिलिप्पी 3:21 ऐसाडी नीच (नीच जागीर) कौन बदलेगा^{#5014} शरीर, तां जे ओस दे समान बनाई जा^{#4832} ओहदा
गौरवशाली तन, जिस कम्म दे अनुसार ओह सारे चीजें गी अपने अधीन करी सकदा ऐ।

- तुसें गी नाशवान चीजें कन्ने नेई छुड़ाया गेआतुहाडे पिता-पिता कोलां निकले दा, लेकन दे कीमती खून कन्ने मसीह, के रूप में इक मेमना (अम्मोस)^{#286} बिना दाग ते धब्बे दे, जां लोगो, जेहड़ा शुरू च पेश कीता गेदा हा ते कन्ने गै हाईश्वर, ते थाईश्वर. एहमेमना (अम्मोस)^{#286} चैह्ले गै निर्धारित कीता गेदा हा दुनिया दी नीह, ते बीच इक वाचाईश्वर (एलोहिम) ते अब्राहम दी पुष्टि कीती गेईश्वर^{#2316} च^{#1519} मसीह.⁹²⁴

यीशु, जो होमबलि दे रूप च चढ़ाया जंदा हाइक मेदक ('अथिल, उत्पत्ति 22:13 ऐ), ऐ^{व 352} आया दुनिया च जिवेइक मेमना^{#286} आहलाईश्वर (जहन्ना 1:29 ऐ) ते हो गया इक मेमना (अर्नियन)^{#721} (जामसीह, ऐ १पतरस १:१९) ते साढ़े आस्तै इनें अंत समें च प्रगट होई गेआ, जि'यां प्रभु ते मुक्तिदाता यीशु मसीह (ईश्वर) सर्वशक्तिमान जी (१पतरस १:२०).

उदे जरिए तुस विश्वास करदे ओईश्वर, जिन्ने उसी मरे दे बीचा जिंदा किता ते उदी महिमा दिती, तां जे तुंदा विश्वास ते उम्मीद ऐईश्वर.⁹²⁵

- डब्ल्यूमुर्गी मसीह, सादा जीवन, प्रकट होदा ऐ, ओह विजयी जिनेंगी बपतिस्मा लेता हामसीह इक एनडी लगा दी है मसीह (गलाती 3:27 ऐ), बी उंदे कन्ने प्रकट होंगे महिमा दी आत्मा दे जरिए जीवन च मसीह.

कुलुस्स 3:4 ऐकदू मसीह, जो साडा है जीवन, प्रगट होगे, तां तुस बी उदे कन्ने प्रगट होगे महिमा.

⁹²²“[चित्र 10-2] द 3 हार्वेस्ट्स एंड द 4 वॉच” थमां कैचर कीता गेदा ऐ।

⁹²³“सर्वशक्तिमान प्रभु, प्रकासित 1:8 ऐ & प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान, प्रकासित 4:8 ऐ”।

⁹²⁴“[प्रकाशितवाक्य 5:7-14 ऐ] पवित्र संत (जो मसीह विच यीशु दे नाल सोंदे हन) कूं परमेश्वर दे राजा ते याजक बणा डित्ता वेंदे.”

इक मेदक^{व 352} → इक मेमना (यीशु)^{#286} → इक मेमना (अर्नियन)^{#721} (जामसीह)⁹²⁴ (प्रभु ते उद्धारकर्ता यीशु मसीह) → सर्वशक्तिमान परमात्मा

⁹²⁵संदर्भ देना” [प्रकाशितवाक्य 6:1-2] 1 सील (एक सफेद घोड़ा) दा खुलना।”

- ऐपरमेसरे दे लोक परमेसरे दे तम्बू च दाखल होडन, ते बख-बख महिमा लेई औडन⁹²⁶

- 1 **144,000** दी (ज्ञानी कुआरियां, ऐप्रकासित 21:9 ऐ) पवित्र यरूशलेम दे महान शहर च न जित्थें परमात्मा दी महिमा उदे च चमकदी ऐ।
→ चप्रकाशितवाक्य 21, ऐदुल्हन दी (ज्ञानी कुंवारी) यरूशलेम दे रूप च चित्रित कीता गेदा ऐ (१ कुरिन्थियों ३:१६), स्वर्गीय पर बिछाया गेदा इक शहर यरूशलेम (या सियोन पहाड़) जो दी रोशनी पांदा हैईश्वर, च बदली जंदा ऐनवे यरूशलेम गी, ते फिर अंदर महान नगरी, पवित्र यरूशलेम गी, कतांहप्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमानतेमेमेने दामंदिर हैंइसकी (प्रकाशितवाक्य 21:22 ऐ).
- औय न शी गारी औय ना रात शोगी, इवलरए उन्शें कोई मोमबत्ती की जरूयत नशी शोगी औय ना सूज की रोशनी औय न चंद्रमा, क्योंकिमेमेने दाऐमोमबत्ती दाशहर दा, एसहिनिंगपरमातमा दी रोशनी.
- 2 धरती दे राजा (मूर्ख कुंवारी, ऐ प्रकाशितवाक्य 21:24 ऐ) ला देगा अपनेमहिमाते इज्जतपरमात्मा दे मंदिर च नमें यरूशलेम च।
→ मूर्ख कुंवारी ओह हन जिन्हां कोल कोई नहीं सीतेलउन्दे कन्ने जदु मनुख दा पुत्र आया हा, ते इस आस् ते ओह तैयार नेई हे, ओह 2 रेचर तगर जमीने उप्पर गै रेह।
- 3 उद्धारित राष्ट्रें (बाकी कुआरियां, ऐप्रकाशितवाक्य 21:24-26 ऐ) ओह हन जो जमीन उप्पर 1000 साल दे बाद बचाई लेंदे ना
→ उद्धारित राष्ट्रों विचों बाकी मेरे हुवे आणगेजीवन1000 साल खत्म होने दे बाद, ते होग उं'दापैहला जी उठना.⁹²⁷
→ उद्धारित राष्ट्रों चली जांगनपरमातमा दी रोशनी जेड़ा परमात्मा दे तम्बू च चमकदा ऐ, जित्थेंईश्वरसब दे नाल रहंदा है उसी दालोक, इस प्रकार पूरा करदेप्रभु दा वादा चइजकिएल 37:27 चतेर कुरिन्थियों ६:१६.⁹²⁸
- जब सारे केपरमातमा दे लोक परमात्मा दे तम्बू च दाखल होई गेदे न, इज 37:27 ऐ पूरा हो जावेगा:

“मेरा तम्बू बी उंदे कन्ने होग

(इकन्द में उंदे च रौंटा ते उंदे च चलना):

हां, ऐमैं उंदे परमातमा बनना, ऐ

तेओह मेरे लोक होंगन.”


⁹²⁶“[चित्र 21-2]” दा संदर्भ लैओ। मंदरे च बक्ख-बक्ख महिमाएं गी किस चाल्ली लाया जंदा ऐ, एह समझने आस्तै “परमेसरे दे लोक चाहडन बक्ख-बक्ख महिमाएं गी लेइये परमात्मा दे तम्बू च दाखल होओ,” ते “नीच जागीर दे शरीर थमां महिमामंडित शरीर तक” थमां

“[प्रकाशितवाक्य 21:27 ऐ] मेमेने दी जिंदगी दी किताब च लिखे दे, ऐ” फिर “[चित्र 21-2]” दे ओरेख गी समझो।

⁹²⁷“[प्रकाशितवाक्य 20:5-6] पैहला जी उठना (4वीं घड़ी दी 3 फसल)।”

⁹²⁸“[चित्र 21-च],” या वीडियो 48. “8. हनुक्का”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-दे-भोज-8-हनुक्का/.



(प्रकाशितवाक्य 22:1) परमात्मा दा ते मेमने दा सिंहासन (जीवन दे पानी दी इक शुद्ध नदी)

प्रकाशितवाक्य 22:1 ते उने मिगी जीवन दे पानी दी इक शुद्ध नदी दस्सी, जेहड़ी स्फटिक दे समान साफ ऐ।
परमात्मा दे ते मेमने दे सिंहासन थमां निकलदे ना ^{¶721} ऐ

☞ प्रकाशितवाक्य 22:1 इकंद उसने मिगी जीवन दे पानी दी इक शुद्ध नदी दस्सी, जेहड़ी क्रिस्टल दे समान साफ ऐ,
की गद्दी से बाहर निकलना ईश्वरते दीमेमने दा.

→ जीवन दे पानी दी इक शुद्ध नदी परमात्मा दे सिंहासन ते पवित्रतम पवित्र स्थान च निकलदी ऐ।

(प्रकाशितवाक्य 22:2) जीवन दा पेड़ (जीवन दे पानी दी शुद्ध नदी तों उगया)

प्रकाशितवाक्य 22:2 उदे गली दे बिच्च ते नदियें दे दोने पाससे जीवन दा पेड़ हा।
जेड़ी बारह किस्म दे फल पैदा करदी ही, ते हर महीने उसी फल देंदी ही।
ते बूटे दे पत्ते (ई) आसतै हे ^{¶1519} चंगाई (धरेलू सेवा) दा ^{¶2322} आहलाराष्ट्रें गी ^{¶1484} ऐ

☞ प्रकाशितवाक्य 22:2 मेंएन इसदी गली दे बिच्च (पवित्र नगर दा), ते नदिया दे दोनों पासे, थाजिदगी दा पेड़, ऐ
जिसने बारह (12) फल दे, हर बूटे हर महीने अपने फल देने आह्ले।
पेड़ दे पत्तियां राष्ट्रें दे घरे दी सेवा करने आह्ले हे।

→ शहर दी नदिया दे दोनों पासे जीवन दा पेड़ (जीवन दे पानी दी शुद्ध नदिया तों उगया) दा...

दो जैतून दे पेड़ (में दो गवाह जेक 4 दा) टीटोपी प्रभु द्वारा खिलाया गया ('*ādôn*') ^{¶113} सारी धरती दा, ऐ
कणक दे कानें दी शाखाएं थमां शुद्ध सोने दे तेल दा बाढ़ उंडेलदे होई, पत्तें गी सहन करदे होई
राष्ट्रां दे घर दी सेवा करन लई ⁹³⁰

(प्रकाशितवाक्य 22:3-4 ऐ) परमातमा दे सेवक परमातमा दा मुह (परमातमा दा दिन)

प्रकाशित 22:3 ऐते हुन कोई श्राप नेई होगा
लेकिन परमात्मा ते मेमने दा सिंहासन उदे च होग; ते उदे नौकरें गी ^{¶1401} उंदी सेवा करग: 1।
प्रकाशित 22:4 ऐते ओह उदा मुंह दिखग; ते उदा नां उंदे मत्थें उप्पर गै होगा।

☞ प्रकाशित 22:3 ऐ इकंद होर कोई श्राप नेई होग, पर परमातमा दा सिंहासन ते मेमने दा उस विच होवेगा,
ते उदे सेवक (परमात्मा दे सेवक) उंदी (परमात्मा) सेवा करंगना

☞ प्रकाशित 22:4 ऐते उदा मुंह दिखग, ते उदा नां उंदे मत्थे उप्पर रौहगा।

→ दे सिर ते इक नां लिखे दा ऐ प्रभु परमात्मा ⁹³¹ कि कोई जानदा हा कि ओ खुद दे सिवा (प्रकाशित 19:12 ऐ)

पर टीओह दा नौकर ईश्वर दे खेगारब दा चेहरा, ते रब दा उंदे मत्थे उप्पर नां होग.

प्रकाशित 7:3 ऐकहते हुए, "चोट ना देना जमीन, समुंदर, जां बूटे

जब तक साडे कोल सील कर दिया साडे नौकरें दे ईश्वर उनके मत्थे पर."

<परमातमा दा दिन>

* "[3] डैनियल दे 70 हफतें" थमां कैद कीता गेदा।

⁹³⁰ से कैद की गई प्रकाशित 11:3-4 ऐ.

⁹³¹ संदर्भ देना प्रकाशितवाक्य 19:11 ऐ.

Abomination (AOD)	The day of the Lord Jesus (Rev 14:12-13)	The day of the Lord Wrath of God (WOG)	Day of Christ	The day of God
			The Garden of Eden	
			1,000 years	∞
			On the ground	In heaven
Great Tribulation Daniel's 2nd half of 70th week			Heavenly Jerusalem	
Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)	Armageddon Mount Zion (Heb 12:22)	God's paradise (Rev 2:7)
				New Jerusalem
				Holy Jerusalem

- ऐपरमातमा दा दिन उस दिन दा संदर्भ दिंदा ऐ जेहड़ा ईश्वर अपने लोके (परमात्मा दे पुत्रे) च रौंहा ते चलग ते...
ईश्वर अपने लोके दा (२कुरिन्थियो ६:१६) में उंदे च रौंहा ते उंदे च चलना; ते में उन्दा होवांगा ईश्वर, ते ओह मेरे होनगे लोक.) चपरमात्मा दा तम्बू।

२पतरस ३:१२ दे आने दी तलाश च ते जल्दबाजी चपरमातमा दा दिन, ऐ
जिस च आकाश चालू होंदे नअग्गभंग हो जावेगा, ते तत्व(मूलभूत) ^{॥४७४७३} पिघल देगा
(होई जानातरल) ^{॥५०८०} उग्र गर्मी दे नाल?

2पतरस 3:13 ऐफिरी बी अस, उंदे मताबककौल, ढूढोनए आकाश(बहुवचन) ^{॥३७७२} र
तेइक नमी जमीन(एकवचन दा), ऐ ^{॥१०९३} जिस च निवास करदा ऐधरम. ^{॥१३४३} र

२पतरस ३:१४ इस आस् ते हे प्रियतम, तुस ऐसी चीजे दी प्रतीक्षा करदे ओ।

मेहनत करो कि तुस उदे शा शांति कन्ने, बेदाग त े निदोष पाओ ^{॥२९८}
(निदोषअंत तक, जां साढे दिन तकप्रभु यीशु मसीह, ऐ१कुरिन्थियो १:८)

२पतरस ३:१५ और हिसाब कि साडी धीरजनाथऐमोक्ष दे;
जिज्यां साढे लाडले भ्रा पौलुस ने बी उसी दिती गेदी बुद्धि दे मताबक तुसें गी लिखे दा ऐ।

(टीओह लोगोसमें बदल जाता हैरमा दा)

- के आने परपरमातमा दा दिन, आकाश पर घुल जांगनअग्ग(२पतरस ३:१२), ते दुनिया दे मूलभूत चीजां (लोगो दा, ऐगलाती 4:3) पिघल के तरल हो जावेगा
(रेमा दा, पानी दी शूद्ध नदी,
प्रकाशितवाक्य 22:1) उग्र गर्मी कन्ने. ⁹³²
- पर उदे वादे दे मताबक तुस इस कन् ने सिद्ध होई जागेपरमातमा दा रेमा नमें आकाश ते धरती च, जित्ये धर्म दा निवास ऐ ⁹³³

(प्रकाशितवाक्य 22:5 ऐ) परमातमा दे सेवक सदा राज करनगे

प्रकाशितवाक्य 22:5 ऐते उत्ये कोई रात नेई होग; ते उनेगी कोई मोमबत्ती दी लोड नेई ऐ, ^{॥३०८८} रना सूरज दी रोशनी;
की वे प्रभु परमातमा देदा ऐ ^{॥५४६१} रउन्हे रोशनी: 1। ^{॥५४६१} रते ओह सदा-सदा राज करडना।

☞ प्रकाशितवाक्य 22:5 ऐते उत्ये कोई रात नेई होग।
उनेगी ना गै मोमबत्ती दी लोड ऐ ते ना गै सूरज दी रोशनी दी लोड ऐ, कीजे...प्रभु परमात्माउन्हे रोशनी देदा ऐ.
इकनद ओह हमेशा युगांत राज करंगना।

→ प्रभु परमातमादे नौकरों को रोशनी देईश्वर(प्रकाशित 22:3 ऐ) पवित्र यरूशलेम च ते ओह हमेशा लेई राज करंगना।

(प्रकाशितवाक्य 22:6) लोगो (वफादार ते सच्चा)

प्रकाशितवाक्य 22:6 ते उन मिगी आखया, “ ए गल्लां (लोगोस) ^{॥३०५६} रवफादार ते सच्चे होंदे न:
ते पवित्र भविष्यवक्ताए दे प्रभु परमात्मा ने अपने सुर्गदूत भेजेया
अपने दासें गी दस्सन आस्ते (बहुवचन) ^{॥१४०१} रउनें गल्लें गी जेहिडियां थोह डी चिरे च गै करनी पौंदियां ना।

☞ प्रकाशितवाक्य 22:6 टीतां ओह (स्वर्गदूत) यूहन्ना गी ग् लाया, “एहलोगो दावफादार ते सच्चे होंदे न.”

⁹³²वीडियो 32. “(एक बड़दा रहस्य) मसीह & कलीसिया 1/2।”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-एक-महान-रहस्य-मसीह-चर्च-सब-चीज-परमात्मा-दी-हैं/

⁹³³नवे आकाश ते धरती दे वास्ते “(प्रकाशित 21:1 ऐ) इक नमां स्वर्ग ते इक नमी जमीन.”

ते **प्रभु परमात्मापवित्र भविष्यवक्ताओं** दा अपने सुर्गदूत भेजेया
उदे सेवके गी ओह गल् लां दस् सेने आस् ते जेके थोहड़े गै समें च गै करना पौना ऐ।

- ऐलोगो दा **परमात्मा दा रेमा**⁹³⁴

- ईश्वरदित्ता **यीशु मसीह दा प्रगटीकरण** यूहन्ना गी ते अपने सुर्गदूत गी अपने सेवक कोल भेजेया **जॉन ने दी** जिसने गवाही दी **लोगो दा आहला ईश्वर (जांयीशु मसीह)**, अपने सेवके गी ओह गल् लां दस् सेने आस् ते, जिनेंगी थोड़ी देर गै होना पौना ऐ **(परमात्मा दा रेमा)**.⁹³⁵

निष्कर्ष 23:20 ऐ “**दिखो, मैं तेरे अगो इक सुर्गदूत भेजदा हां**, तुगी रस्ते च रखना,
ते तुगी उस थाहर च लेई औना, जिसे मैं तैयार कित्ता ऐ।”

- **जीओडीके** स्वर्गदूत भेजा है **टीओह प्रभु परमात्मा (मसीह, ऐप्रकासित 4:8 ऐ)**⁹³⁶ **पवित्र भविष्यवक्ताओं** दा, तेरे सामने **तुझे दिखाने के लिये ओह प्रभु यीशु मसीह गी ऐपरमात्मा दा पुत्र**, ऐ ते तुसेंगी उनें गल् लें आस् ते रस् ते च गै रौहना ऐ, जेकी थोड़ी देर गै होनी ऐ। ते तुसें गी उस थाह र उप्पर लेई औना जेकी उनेंगी तैयार कीती ऐ।⁹³⁷

➔ इस खुलासे **दायीशु मसीह**, जेड़ा तुसें गी सुसमाचार दे द्वारा प्रचारित कीता गेदा ऐ **यीशु मसीह**, ऐ **ऐ “प्रभु दा रेमा,”** ते इन्हें **लोगो दानिष्ठा** कन्नै साकार होग.

(**प्रकाशितवाक्य 22:7 ऐ**) इस किताब दी भविष्यवाणी दे लोगो रखो (मैं जल्दी आ रेहा हां)

प्रकाशितवाक्य 22:7 ऐ दिखो, मैं जल्दी आना ऐ, धन्य ऐ ओह जेड़ा गल्लां (लोगोस) गी मनदा ऐ।⁹³⁰⁵⁶ इस किताब दी भविष्यवाणी दा।

☞ **प्रकाशितवाक्य 22:7 ऐ बीएहोल्ड, मैं जल्दी आ रेहा हां! बीकम** है जो रखदा है **लोगो दा** इस किताब दी भविष्यवाणी दा।

- तेरी रूहदे जरिए सच्चाई च शुद्ध होंदा ऐ **आत्मा गी**, ते तुस अविनाशी बीज दे नमें जन्मे दे ओ **परमात्मा दे लोगो** जो सदा जींदा ते टिकदा रेहंदा ऐ।

➔ **एहरेमा** आहला **प्रभु (फल दालोगो दा: दा फलधर्मी लोग+ दा फलभावना गी)**
तुसेंगी गंभीरता कन्नै करने च सक्षम बनांदा ऐ **हिरखइक दूए कन्ने इक शुद्ध दिल**.⁹³⁸

(**प्रकाशितवाक्य 22:8-9**) सुर्गदूत यूहन्ना दे साथी दास, भ्रा ते भविष्यवक्ता हे

प्रकाशितवाक्य 22:8 ते मैं यूहन्ना ए गल्लां दिखिये सुनी। ते जदुं मैं सुनी ते दिखया।

मैं उस सुर्गदूत दे पैरे दे सामने आराधना करने आस्ते डिग्गी गेआ, जिसने मिगी ए गल्लां दस्से।

प्रकाशितवाक्य 22:9 फिरी उन मिगी आख्या, “ दिखो तू ए नेई करो;

ते उनें लोके दे बारे च जेकियां गल्लां (लोगोस) गी मनदे ना।⁹³⁰⁵⁶ इस किताब दा: पूजा ईश्वर.

☞ **प्रकाशितवाक्य 22:8** हुन मैं, **जॉन ने दी**, इन्हें गल्लें गी दिक्खेआ ते सुनी। **इक** जदू मैं सुनेया ते दिक्खेआ,
मैं उस सुर्गदूत दे पैरे दे सामने पूजा करन लई डिग्गी पया जिन्हां ने मिगी ए गल्लां दस्सीयां।

⁹³⁴ से कैद की गई **प्रकाशित 1:1 ऐ**.

⁹³⁵ **प्रकाशितवाक्य 22:6**, “[चित्र 1-क]” जां वीडियो 15. “परमेसर दे लोगो दा सुसमाचार” दिक्खो। therhemaofthelord.com/द-गोस्मेल/15/ दा.

⁹³⁶ “(**प्रकाशितवाक्य 6:7-8 ऐ**) **4वीं महर (एक हरे घोड़ा: मौत & नरक दा खुलना)**.”

➔ **प्रभु परमात्मा (देऊ:30:20 दे)** तेरा है **जीवन** जिसदे कन्ने तुसें गी चिपकना पौना ऐ। एनटी च, **मसीह** है साडा **जीवन (कलस्स 3:4 ऐ)** कु'न ऐ **प्रभु (क्योरिओस)**⁹²⁹⁶² स्वर्ग तों, साडा इकलौतानाथ (निरपेक्ष) **दाईश्वर**⁹²³¹⁶ जो साडा है **प्रभु यीशु मसीह (जदे 1:4 ऐ)**.

टीइस करिए, चुनो **जीवन (मसीह)** उंदी आवाज गी मनदे होई ते उंदे कन्ने चिपकने कन्ने.

⁹³⁷ वीडियो 28. “आत्मा दा फला” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्मा-दा-फल/.

⁹³⁸ वीडियो 20. “(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवार।”

www.therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीक्ष्ण-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/.

- ☞ प्रकाशितवाक्य 22:9 टीthen उसने (स्वर्गदूत) ने मिगी आख्या,
 “ऐसा न करो। मैं तेरे साथी दास हां, ते तेरे भैन भविष्यवक्ताओं दा
 ते रखने आलें दालोगो दा इस किताब दा. पूजाईश्वर.”

→ साथी दास, भ्रा ते भविष्यवक्ता रखदे नलोगो दा प्रकाशितवाक्य दी किताब दाते इबादत करदेईश्वर.

- साथी नौकर, भ्राओ, ते भविष्यवक्ता
 → सुर्गदूत (यीशु दा, प्रकाशित 22:16 ऐ) जिसने यूहन्ना गी उंनें गल् लें दे बारे च दस् सेया, जिनेंगी थोड़ी देर च गै करना पौना ऐ, उदा गै हा
साथी दास, भाइयो, ऐ⁹³⁹ते नबी
 → नोट: साथी दास ते भ्रा “नबी” न, ते उंदे च इक यीशु दा सुर्गदूत हा
 जिने यूहन्ना गी आने आली गल्लें दे बारे च दस्सेआ।

(प्रकाशित 22:10 ऐ) इस किताब दी भविष्यवाणी दे लोगो दा म्हर खोलना

प्रकाशित 22:10 ऐते यूहन्ना गी आख्या, “लोगोस उप्पर मुहर नेई लाओ।³⁰⁵⁶ इस किताब दी भविष्यवाणी दा: कीजे समां नेडे गै ऐ।

- ☞ प्रकाशित 22:10 ऐते ओह (सुर्गदूत) यूहन्ना गी आख्या।
 “नहीं करो मोहरलोगो दा इस किताब दी भविष्यवाणी दा, लेई वक्त नेडे आ गया.”
- रोटी दा बीज दा मांस ऐमनुख दा पुत्र, जो था लोगो दा, हो जाना जीवन, तुसेंगी उंदा मांस खाने दी लोड ऐ (प्राप्त करना लोगो दा), जो कि आध्यात्मिक मांस दा, ते उसदा खून पीओ (प्राप्त करो रेमा दा) जो है आध्यात्मिक पेय दा.⁹⁴⁰
 - परमातमा दे लोगो जो जिंदा पत्थर च बदली गेआ ऐप्रभु दा अविनाशी शरीर, ते जिसदे कोल बड़ी तलवार ऐयीशु मसीहसादानाथ, जिसदे जरिए ईश्वर जिंदा करदा ऐपरमातमा दे लोगो तुझे मेंपरमातमा दा रेमा.
- ✦ यीशु मसीह (जिंदा रोटी जेड़ी सुर्ग थवां उतरी ही, ऐजह 6:51 ऐ), कुसी ईश्वर ऐसील कर दिया गी मनुख दा पुत्र अंत दे समें तक (जहन्ना 6:27 ऐ), ओह है जो जमीन तों (भ्रष्ट) शांति लैन लई दुनिया विच आया सी।

(प्रकाशित 22:11 ऐ) धर्मी (पवित्र) बनाम अधर्म (अपवित्र)

प्रकाशित 22:11 ऐ जो अन्याय करदा ऐ, जिंदा उसी बेईमानी कर दे जिंदा तां-बी: 2089 ते जेड़ा गंदा ऐ, ओह अजे बी गंदा रेहा
 ते जेका धर्मी ऐ, 1344 ओह अजे भी धर्मी होवे;

- ☞ प्रकाशित 22:11 ऐ जेड़ा अधर्म ऐ, ओह अधर्मी रेहना;
 ते जेड़ा गंदा ऐ, ओह गंदा रेहदा ऐ;
इकंद जेड़ा धर्मी ऐ, ओह धर्मी बने रौह;
 ते जेका पबित्तर ऐ, ओह पबित्तर रौहना ऐ।
- कीजे जे किश बी मनुख बांदा ऐ, उसी बी कट्टी लैग (गलाती 6:6-8 ऐ)
 → जेड़ा अपने शरीर च बांदा ऐ, ओह शरीर दी भ्रष्टाचार दी फसल कट्टी लैग
 → जो बांदा ऐ (लोगो दा) गी आत्मा गी आत्मा दी मर्जी फसल कटाई अनन्त जीवन (रेमा दा).
 - में सिखाया जाओ लोगो दा
गलाती 6:6 ऐ जेड़ा वचन विच सिखाया होवे (लोगो दा) 3056 ऐ
जेड़ा सिखांदा ऐ, उदे कन्ने गल्लबात करो सारी अच्छी गल्लां.

⁹³⁹ “प्रकाशित 6:11 ऐ.”

- साथी सेवक प्रभु च मसीह दे बफादार सेवक न (kyrios) 2962 इयाफ्रास दी तरह 1889 (कुलुस 1:7 ऐ, ऐकुलुस 4:7-12 ऐ, ऐ Phm 1:23 ऐ).

- भाइयो ओह गै हन, जिनेंगी भविष्यवाणी दी भावना मिली ऐ ते यीशु दी गवाही दिती गेदी ऐ।

⁹⁴⁰ वीडियो 26. “प्रभु दा फसह (नमां नियम)”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-द-लॉर्ड्स-पास-ओवर-द-नए-वसीयत/.

गलाती 6:7 ऐधोखा नेई देओ, ईश्वरमजाक नेई उड़ाया जंदा ऐ: की वे जे किश बी मनुख बोंदा ऐ, उसी बी कट्टी लैग.

गलाती 6:8 ऐकी वे जेड़ा अपने शरीर आस्ते बोंदा ऐ, ओह शरीर च नाश होने दी फसल कट्टग;

लेकन जो बोंदा ऐ आत्म ीं गी के होगा आत्मा गी फसल कटाई जीवन सनातन.

(प्रकाशितवाक्य 22:12-13 ऐ) प्रभु यीशु मसीह दा आना & उदा इनाम

प्रकाशितवाक्य 22:12 ऐ ते दिखो, मैं जल्दी आना ऐ; ते मेरा इनाम मेरे कन्ने ऐ के हर इक गी अपने कर्मों दे मताबक देना ऐ।

प्रकाशितवाक्य 22:13 ऐ मैं अल्फा ते ओमेगा हां, शुरू ते अंत, पैहला ते आखरी।

- ☞ प्रकाशितवाक्य 22:12 ऐ "और दिखो, मैं जल्दी आ रहा हां, ऐ
ते मेरा इनाम मेरे कन्ने ऐ, हर इक माहू गी अपने कर्मों दे मताबक देना।"
- ☞ प्रकाशितवाक्य 22:13 ऐ "मैं आं अल्फा ते ओमेगा, ऐशुरुआत दी ते अंत, ऐ पैहला ते आखरी."

→ यूहन्ना गवाही दिंदा ऐ परमात्मा दे लोगो, ऐ यीशु मसीह दा प्रगटीकरण, सात कलीसियाएं गी खुलासा कर दे कि प्रभु यीशु मसीह गी, दाऊद दी जड़ ते संतान, शरीर दे मताबक दाऊद दे वंश च बने दा ऐ।

→ एह प्रभु यीशु मसीह ऐ अल्फा ते ओमेगा, ऐशुरुआत दी ते अंत, ऐ पैहला ते आखरी, ऐ ते जल्दी आ जावेगा ते हर इक माहू गी उंदे कर्मों दे मताबक इनाम देओ⁹⁴¹

- † प्रभु जी उंनं गी प्रगट होग जेहडे उंदे प्रगट होने कन्ने प्यार करदे न उंनं गी देने आस्तै धर्म दा मुकूट उस दिन (२तीमती ४:८ ऐ). उसे दे खते हुए इक मुकूट महिमा दा धर्म दे रस्ते च पाया जंदा ऐ, रेमा दा विश्वास करने आलें गी प्रगट होग यीशु ऐ परमात्मा दा पुत्र.⁹⁴² प्रभु जी तुंदे दिलें गी पैहले पवित्रता च निर्दोष स्थापित करग ईश्वर सादा बापू साडे आने पर प्रभु यीशु मसीह अपने सारे पवित्र संत (१थुथु ३:१३), ते साडे नीच (निम्न जागीर) शरीर गी गौरवशाली शरीर च बदलो उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह, ऐ⁹⁴³ कु'न ऐ मेमना, मसीह (फिलिप्पी 3:21 ऐ).⁹⁴⁴

(प्रकाशितवाक्य 22:14 ऐ) परमात्मा दे तम्बू दे घर दे फाटक

प्रकाशितवाक्य 22:14 ऐ धन हेन जो हुंदे हुकमों कूं मनदे हेन कि हुंदे कूं अधिकार (अधिकार) होवे जिंदगी दे पेड़ गी, ते दरवाजे दे राहें शहर च दाखल होई सकदा ऐ।

- ☞ प्रकाशितवाक्य 22:14 ऐ बी उंदे कम्म करने आलें गी कम हुकम दे, तां जे उंनं गी अधिकार होऐ जिंदगी दा पेड़, ते के माध्यम से प्रवेश कर सकदा ऐ शहर च जाने दे फाटक.

- शहर च जाने दे फाटक

- ऐटीनली जेडे उंदे हुकमों गी पूरा करदे न, उंदे च दाखल होने दा अधिकार होग शहर च जाने दे फाटक, जित ऐयहोवा दे घर दे फाटक जां परमात्मा दे तम्बू दा घर (1Ch 9:23 ऐ).

1Ch 9:23 ऐ इस करिए उंदे ते उंदे बच्चें दी निगरानी ही यहोवा दे घर दे फाटक, ऐ अर्थात्, तम्बू दा घर, वाडों द्वारा

- † इसाएल आस् ते हुक म: (१) अपने परमात्मा कन्ने प्रेम करो, (२) अपने पड़ोसी कन्ने अपने आप कन्ने प्रेम करो।
व्यवस्था 6:4 ऐ हे इसाएल, सुनो प्रभु (यहवा) दा^{३०६८} सादा ईश्वर ('एलोहिमा')^{४३०} इक ऐनाथ (यहवा) दा: 1।^{३०६८}
व्यवस्था 6:5 ऐ ते तू प्रेम करगो प्रभु (यहवा) दा^{३०६८} तेरा ईश्वर ('एलोहिमा')^{४३०}
अपने सारे दिल कन्ने, ते सारी आत्मा कन्ने ते अपनी सारी ताकत कन्ने^{३९६६}

⁹⁴¹से कैद की गई प्रकाशित 1:18 ऐ, या वीडियो 28. "आत्मा दा फल।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्मा-दा-फल/.

⁹⁴²संदर्भ देना प्रकाशितवाक्य 6:2 विस्तार कन्ने जानने लेई।

⁹⁴³वीडियो 45. "6. प्रायश्चित करना।" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-प्रभु-दे-भोज-6-प्रायश्चित/.

⁹⁴⁴"सर्वशक्तिमान प्रभु, प्रकाशित 1:8 ऐ & प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान, प्रकाशित 4:8 ऐ।"

व्यवस्था 6:6 एते इह शबदां (जोरिमा दा), ऐ¹⁶⁹⁷जेडा में अज्ज तुगी हुकम देना ऐ, तेरे दिल च होगा।

(१) पैहली हुकम

मार्च 12:29 ऐयीशु ने उसी जवाब दिता, “सब आज्ञाएं च पैहली आज्ञा ए ऐ, हे इस्त्राएल, सुनो;

प्रभु जी (क्योरिओस)²⁹⁶² सादाईश्वर²³¹⁶ इक ऐनाथ (क्योरिओस)²⁹⁶² रं: 1।

12:30 मार्च गीते तू प्रेम करगे प्रभु (क्योरिओस)²⁹⁶² तेराईश्वर²³¹⁶ रं

अपने सारे मन कन्ने, ते अपने सारे प्राण कन्ने, ते सारे मन कन्ने ते अपनी सारी ताकत कन्ने।
ए पैहला हुकम ऐ।

→ इकप्रभु (यहोवा) इक प्रभु (kyrios) ऐ।

इस आस् ते “अपने परमेसरे कन् ने प्रेम करना” “इक प्रभु कन् ने प्रेम करना” ऐ जेका एह घोशणा करना ऐ

“अस (परमेसर दे पुतर) पिता परमेसरे दे प्रेम च (प्रभु यीशु मसीह दे द्वारः।) ओ”⁹⁴⁵

(२) दूआ हुकम

मार्च 12:31 दीते दूआ इस चाल्ली ऐ, अर्थात एह, तू अपने पड़ोसी कन्ने अपने आप कन्ने प्यार करो।

इन्दे कोला बड्डा कोई होर हुकम नेई ऐ।

(झं१५:१२ ऐ ए मेरा हुकम ऐ, कि तुस इक दुए कन्ने प्यार करदे ओ, ऐजिय्यां मैं तूदे कन्ने प्यार किता ऐ.) ऐ।

→ यीशुहुकम दे दिया तेरेगी हिरख इक दुए गी, जिवें उसने कीता है प्यार कीतातू।

• जिंदगी दा पेड़

प्रभु परमात्मा करुबें गी रखेया ते इक ज्वालामुखी तलवार अदन दे बाग दे पूरब च जिसले उने उस माहू गी कड्डी दिता हा, ते... ज्वालामुखी तलवार की रास्ता रखने के लिए हर तरफ मुड़ गया जिंदगी दा पेड़ (उत्पत्ति 3:24 ऐ)।

→ जिंदगी दा पेड़ च अदन दा बाग दी गली दे बिच्च नदियें दे दौनें बरखी ऐ ओह

पवित्र शहर, ऐजो के जन्नत के बीतय शैईश्वर।⁹⁴⁶

† इक तेजमनुख दे पुतर दे मुंह च दोधारी तलवार ज्वालामुखी तलवार है जो हर तरफ मुड़ गई कि राह बनाई रखे जिंदगी दा पेड़, जो छुपे दा मन्ना यारेमा दा प्रभु दा, जो दे दी जाएगी ओह परास्त करने वाले खाने दा।⁹⁴⁷

† मसीह साढ़े आस् ते बपतिस् मा लेने आस् ते मरी गया इक चशरीर इक करके रुह, चाहे अस यहूदी, यूनानी, बंधन, आजाद, नर, मादा, बर्बर, या सिथियन होचे, कीजे ईश्वर उनेगी (यहूदी, यूनानी ते गैर-यहूदी) अपने खून कन् ने खरीदी लेता ऐ। इस आस् ते, विश्व वासियें गी उनें लोके गी नाराज नेई करना चाईदा, जेके सुअगे थवां चिन् हन दी तलाश च न, ते ना गै उनें गी नाराज करना चाईदा जेके उप् पर थवां नेई उतरे दा (पृथ्वी, कुदरती ते शैतानी) नेई, ते ना गै परमेसरे दी कलीसिया गी।⁹⁴⁸

† इक मेशरीर = इक विचरुह = इक विचईश्वर

→ जिसदे नाल जुड़या होवे प्रभु दा शरीर, चाहे यहूदी होन या गैर-यहूदी, इक आत्मा कन्ने ऐ प्रभु।⁹⁴⁹

इक आत्मा च, साडे कोल पिता दी पहंच है, इक ईश्वर, सब दा पिता, जो है इक आत्मा।⁹⁵⁰

→ इस आस् ते सुसमाचार उप् पर विश्व वास च इक मन कन् ने इक आत् मा च खडोते दे रौओ। (पीएचएल१:२७ दा)।⁹⁵¹

⁹⁴⁵“प्रकाशितवाक्य ११:१०-१३ 2 नबी दा जी उठना”

⁹⁴⁶से केद की गई प्रकासित 2:7 ऐ, या वीडियो 20, “(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवार”

<https://therhemaofthelord.com/sword/20-एक-तीखी-म्यान-तलवार-दो-धारी-तलवार-2/>

⁹⁴⁷संदर्भ देना प्रकासित 1:16 ऐ & प्रकासित 2:17 ऐ, वीडियो 23, “रोटी, मन्ना, & छिपे दा मन्ना”, वीडियो 24, “परमेसर दा घर

(उत्पत्ति २८ दा)”, वीडियो 28, “आत्मा दा फल”), <https://therhemaofthelord.com/uncategorized/28-आत्मा-दा-फल/>

⁹⁴⁸वीडियो 16, “गैर-यहूदी, सारे जाति (सब गी परमेसरे दा उद्धार) 8/10” www.therhemaofthelord.com/द-सुसमाचार/16/ऐ।

⁹⁴⁹इफिसियों 4:4 ऐ, ऐ१ कुरिन्थियों ६:१७, ऐ१ कुरिन्थियों १२:१३.

⁹⁵⁰इफिसियों 2:18 ऐ, ऐ१४:२४ ऐ, ऐइफिसियों ४:६.

⁹⁵¹वीडियो 39. “मरे दे जी उठना” [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-संभावित-समय-अनुक्रम-सली-पर-चढ़ाने-पहले-और-अंतिम-आदम-मृतक-के-](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-संभावित-समय-अनुक्रम-सली-पर-चढ़ाने-पहले-और-अंतिम-आदम-मृतक-के-पुनरुत्थान/)

[प्रकाशित 22:15 ऐ](#) जो पवित्र शहर दे बाहर हन

[प्रकाशित 22:15 ऐ](#)कीजे बिना (बाहर) दे ¹⁸⁵⁴ने कते हैं, ²⁹⁶⁵ते जादूगर, वेश्या, ते कल्ल ते मूर्तिपूजका ते जेका प्यार करदा ऐ ते झूठ बोलदा ऐ।

☞ [प्रकाशित 22:15 ऐ](#) बीउत उन जो हैं [बाहरीन](#)

[कुत्ते दा](#), ते जादूगर ते वेश्या ते कल्ल ते मूर्तिपूजक, ते जेड़ा झूठ बोलना बड़ा पसंद करदा ऐ।

- ओहबाहरीमतलब जो हैं [बाहरीआहलापरमात्मा दे तम्बू दे घर दे फाटक](#) ([प्रकाशितवाक्य 22:14 ऐ](#))।
- [ऐकुत्ते दाबुरे कम्मे](#) ([फिलिपिन्स 3:2 ऐ](#)) जो आध्यात्मिक खजाने गी अपने पें हेठ रौंददे न, [ऐमती 7:6 ऐ](#)

[प्रकाशित 22:16 ऐ](#) द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार (प्रभु यीशु मसीह)

[प्रकाशित 22:16 ऐ](#)में यीशु ने अपने सुर्गदूत गी गवाही देने आस्ते भेजेया ऐ (गवाही देना) ³¹⁴⁰कलीसिया च ए गल्लां तुदे कोल ऐ।
मैं दाऊद दी जड़ ते संतान, ते उज्ज्वल ते सवेरे दा तारा आं।

☞ [प्रकाशित 22:16 ऐ](#) में, [ऐयीशु](#), मेरे दूत गी भेजे दा [ऐगवाही दे](#) कलीसिया च इन्हें गल्लें दा तुसैं गी।

[मैंदपैहर पैहलें जड़ दाते दाऊद दी संतान](#), ऐ [उज्ज्वल दीते मॉर्निंग स्टार](#)।

- के दूत देख के [प्रभु गी](#) (यहवा) ³⁰⁶⁸देख रहा है [प्रभु](#) ('*ādōnay*) [दा](#) ¹³⁶[ईश्वर](#) (*y^hōvā*) ³⁰⁶⁹ ([न्याय 6:22 ऐ](#)) कु'न ऐ [ईश्वर](#) ('एलोहिमा' ⁴³⁰, [ऐन्याय 16:28 ऐ](#))।⁹⁵²
- ऐपरमात्मा दी कृपा दा प्रबंध है कि [ईश्वर](#) दा रहस्य पौलुस गी दस्सी दिता [ऐमसीह](#), ऐ जेड़ी दूई पीढ़ियें च मनुखें दे पुत्तें गी नेई दस्सी गई ही, लेकन हुन ऐ [फाश](#) अपने गी [पवित्र प्रेरितों](#) ते नबीराहें [आत्मा गी](#) ([इफिसियों 3:2-5 ऐ](#))।
→ मतलब, [मसीह](#) नाम है [प्रभु गी](#) (यहोवा), जिसगी पीढ़ियें गी नेई पता हा मनुखें दे पुत्तर, जिंदे पिता अब्राहम, इसहाक ते याकूब ना
- [यीशु दी गवाही](#) ऐ [भविष्यवाणी दी भावना](#) ([प्रकाशितवाक्य 19:10](#)), ते यूहन्ना गवाही दिता ऐ [परमात्मा दे लोगो](#), [ऐयीशु मसीह दा प्रगटीकरण](#), सत् कलीसियाएं गी ते एह प्रगत किता [प्रभु यीशु मसीह गी](#), दाऊद दी जड़ ते संतान, दाऊद दे वंश थमां शरीर दे मताबक बनी दी ऐ, जिसदी पुष्टि कीती गई [ऐमसीह दी गवाही](#) तुहाडे विचा।⁹⁵³
- जेकर [गवाह दा](#) (गवाही) [देमसीह दा](#) तुहाडे विच पुष्टि हो गई है, तुसीं साडे आने दा इंतजार करदे होए किसे वी दान विच पिच्छे आ जांदे हो [प्रभु यीशु मसीह](#), जो तुसैंगी अंत च बी पुष्टि करग तां जे तुस सादे [प्रभु यीशु मसीह](#) ([१ कुरिन्थियों १:६-८](#))।
- [दाऊद दी जड़](#): 1 [रब दाबेटा](#), [ऐयीशु मसीह साहानाथ](#) ([रोम 15:12 ऐ](#))।⁹⁵⁴
- [यीशु उज्ज्वल है सुबह दा तारा](#)
- [ऐमॉर्निंग स्टार](#): [चयशायाह १४:१२ दा](#), सवेरे दा पुत्तर बाबुल दे राजा दा जिक्क करदा ऐ।⁹⁵⁵
[चयशायाह १४:१६-१७ ऐ](#), लोक ताकतवर बाबुल दे पतन कन्ने चौक गे, ते राजा दा मजाक उड़ांदे न बाबुल दा ते आखना।

“केह एह ओह मानू ऐ, जिसी धरती बनाई ऐ ⁷⁷⁶काँपना, जिसने राज्यें गी हिलाया;
जिस ने संसार गी जंगली बनाई दिता, ते ओदे शैहें गी नष्ट करी दिता; कि खोला ना दी

⁹⁵²से कैद की गई [प्रकाशित 4:8 ऐ](#)।

⁹⁵³वीडियो 43. “(आत्मा दे नेतृत्व च) परमात्मा दे पुत्तर” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-आत्मा-भगवान-दे-पुत्र-अगुवाई-दे/

⁹⁵⁴से कैद की गई [प्रकाशित 5:5 ऐ](#)।

⁹⁵⁵“[प्रकाशितवाक्य १८:१-२](#) बाबुल दा पतन महान.”

अपने कैदिएं दा घर?"

इस दुष्ट राजा दी अथाह गड्डे कोला बादलें दे उच्चे थाहरें च चढ़ने दी जड़,
है सबसे उच्चे या परमात्मा दे समान होना (एल्ल), ऐ⁴¹⁰आकाश ते धरती दा मालिक, जो हैमसीह, च
कसीईश्वरसब चीजें गी रखी दिता ऐ(१करिन्थियों १५:२७).⁹⁵⁶

(प्रकाशितवाक्य 22:17 ऐ) आओ जिन्दगी दा पानी मुफ्त च लेई जाओ

प्रकाशितवाक्य 22:17 ऐते आत्मा ते दुल्हन^{#3565} कहो, आओ. ते जेड़ा सुनदा ऐ, ओह आखन, "आओ"
ते जेड़ा प्यासा ऐ, ओह आओ। ते जेड़ा चाहन्दा ऐ, ओह जीवन दा पानी मुफ्त च लेई लौ

☞ प्रकाशितवाक्य 22:17 ऐ इकएन डीआत्मा गीतेदुल्हन दीआखो, "आओ."

ते जेड़ा सुनदा ऐ, ओह आखन, "आओ."

इकएन जो प्यास करदा ऐ,आओ.

ते जेड़ा चाहन्दा, लेन देजिंदगी दा पानीआजादी से.

→ दुल्हन दीऐमेमने दी पत्नी महान नगर च, ते ओह तुंदे कन्ने आत्मा कन्ने गल्ल करदी ऐ
पवित्र यरूशलेम गी(प्रकासित 21:9 ऐ). दुल्हन पबित्तर यरूशलेम च पानी पी करदी ऐ, ते इस चाल्ली ऐ
हर उस व्यक्ति गी सद्दे होई जेहड़ा जिंदा पानी दी इच्छा रखदा ऐ, उसी लेई लैनाजिंदगी दा पानी आजादी कन्ने, पर सिर्फ उंदे कन्ने
आतमक कान (धर्मी लोग), ऐप्रकासित 22:11 ऐ) उसी निमंत्रण सुनी सकगा

(प्रकाशितवाक्य 22:18 ऐ) इस कताब दी भविष्यवाणी दे लोगो च नेई जोड़ो

प्रकाशितवाक्य 22:18 ऐकीहके मैं हर इक गी गवाही दिंदा हां जेड़ा वचन (लोगोस) गी सुनदा ऐ।^{#3056}इस कताब दी भविष्यवाणी दा, ऐ
जेकर कोई जोड़े^{#2007} ने[#] इमें गल्लें गीईश्वरइस कताब च लिखे दे विपत्तियें गी उदे उप्पर जोड़गा।

☞ प्रकाशितवाक्य 22:18 ऐ चथा मैं हर इक सुनने आले गी गवाही दिंदा हांलोगो दाइस कताब दी भविष्यवाणी दा: 1।

मैंच कोई बी इमें गल्लें च जोड़दा ऐ,ईश्वरउस व्यक्ति च इस कताब च लिखी दी प्लेमें गी जोड़गा.

→प्रकाशितवाक्य दी कताब च विपत्तियां: सारें गी सत आखरी विपत्तियें कन्ने भरोचे दे सत शीशियें गी शामिल करिये
(प्रकासित 21:9 ऐ).

(प्रकाशितवाक्य 22:19 ऐ) इस कताब दी भविष्यवाणी दे लोगो तों ना हटाओ

प्रकाशितवाक्य 22:19 ऐते जेकर कोई लेई जा^{#851}शब्दां (लोगो) तों^{#3056}इस भविष्यवाणी दी कताब दा, ऐ
परमेसरे जीवन दी कताब ते पबित्तर नगर च अपना हिस्सा कड्डी लैगा
ते इस कताब च लिखी गेदी गल्लें थमां।

☞ प्रकाशितवाक्य 22:19 ऐ इकएन अगर कोई ले जावे तोलोगो दाइस भविष्यवाणी दी कताब दा, ऐ

ईश्वरउस व्यक्ति दा हिस्सा से छीन देगाजीवन दी कताबते सेपवित्र नगर दा, ऐ
ते इस कताब च लिखी गेदी गल्लें थमां।

→जिन्दां विच नहीं लिखे होए ओहनां दे नाजीवन दी कताब में डालेंगेअगग दी झील
(प्रकासित 20:15 ऐ).

⁹⁵⁶से केद की गईप्रकासित 2:28 ऐ.

(प्रकाशितवाक्य 22:20) प्रभु यीशु जल्दी आने आला ऐ

प्रकाशितवाक्य 22:20 जेड़ा गवाही दिंदा ऐ (गवाही देना) ³¹⁴⁰एह गल्ल आखदी ऐ जे “हां” ³⁴⁸³में जल्दी आ जांदा हां. आमीना
फिर भी (हां), ऐ ³⁴⁸³आओ प्रभु यीशु।

☞ प्रकाशितवाक्य 22:20 एचई जेड़ा इनें गल्लें दी गवाही दिंदा ऐ, ओह आखदा ऐ, “हां, मैं जल्दी आ रेहा हां.”
“आमीन. हां, ऐआओ, ऐप्रभु यीशु.”

→ जेड़ा इन्हें गल्लें दी गवाही दिंदा ऐ, ओह ऐ यीशु मसीहसादानाथ (रोम 15:12 ऐ) ते ओह जरूर करग
“जल्दी आओ”.

- प्रभु दे कन्ने रौहने आस्ते अपने तम्बू गी उतारने आस्ते तैयार रवो⁹⁵⁷

२कुरिन्थियों ५:६ इस आस् ते अस हमेशा भरोसा करदे रौंदे आं, ए जानदे होई के, जदुं अस शरीर च घरे च रौंदे आं।

असी गैरहाजिर हांप्रभु: 1।

२कुरिन्थियों ५:७ (किजोकी अस विश् वास कन् ने चलदे हन, ना के दिक् खीए।)

२कुरिन्थियों ५:८ अस भरोसेमंद आं, मैं आखना आं, ते शरीर थमां गैरहाजिर होने दे बजाय तैयार आं,
ते प्रभु दे कन्ने मौजूद रौहना।

२कुरिन्थियों ५:९ इस आस् ते अस मेहनत करदे आं के, चाहे ओ मौजूद होन जां गैरहाजिर, अस उदे कोला स्वीकार करी सकचे।

२कुरिन्थियों ५:१० कीहके असैं सारें गी मसीह दे न्याय आसन दे सामने पेश होना चाइदा;

तां जे हर इक गी कीते गेदे कम्में गी ग्रहण करी सकै

अपने सरीर में, उसी कित्ते दे मताबक, चाहे ओ भला होवे या बुरा।

२कुरिन्थियों ५:११ इस आस् ते प्रभु दे आतंक गी जानने दे बाद अस मनुखें गी मनाने आं; लेकन अस बन्नी गेदे आं

परमातमा दे सामने प्रगट हो जाओ; ते मेरा भरोसा ऐ के तुं दे जमीर च बी प्रगट होई गेदे ना।

- “जदुं असीं तन विच घर विच हां” च २कुरिन्थियों ५:६ दा अनुवाद इस चाल्ली कीता गेदा ऐ जे “जदुं तकर अस धरती दे घरे च न
(मांस)” इस करिए, २कुरिन्थियों ५:६ अनुवाद इस चाल्ली कीता जाई सकदा ऐ:

→ “जदुं तकर अस शरीर च रौंहे आं, तां अस विदेशें च रौंहे आं प्रभुजिघ्यां ओह सुर्ग च रौंदा ऐ.”

- मतलब जेकर तुस दिक्खने कन्ने नेई, विश्वास कन्ने चलदे ओ तां तुसंगी शरीर थमां गैरहाजिर होने आस्ते तैयार रौहना चाहिदा (या
अपने तम्बू गी छड्डने आस्ते) कन्ने रौहना प्रभुस्वर्ग चा

- प्रभु यीशु दा जी उठना

२थिस १:७ ऐते जेड़े परेशान ओ ते साड़े कन्ने आराम करो।

कदुं प्रभु यीशु गी होगा फाशसुर्ग थमां अपने पराक्रमी सुर्गदूतें कन्ने, ऐ

२थिस १:८ ऐच ज्वालामुखी आग जेड़े परमात्मा गी नेई जानदे, उं दे उप्पर बदला लैना, ऐ

ते जेके आज्ञा नेई मनदे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा सुसमाचार.

→ ओह प्रभु यीशु प्राप्त करदा ऐ पवित्र संत दी आत्माएं गी, जिहां ने अपना विश्वास रखेया ते उस विच दफन किता गया
कुम्हार दा खेतर, इस करी ओह शापित जमीन उप्पर परदेसी नेई रेहू।⁹⁵⁸

प्रभु यीशु सुर्ग थमां प्रगट होने आस्ते मतलब कि सच्चाई दे लोगो (तुहाडे दा सुसमाचार

मोक्ष दे) प्रकट करने के लरए ज्वालामुखी आँच भें जेगा रेमा दा साढ़े सुसमाचार दे जरिए प्रभु यीशु मसीह.

→ तुहाडे उप्पर विश्वास होना चाइदा प्रभु यीशु गी ते हिरखसभै पवित्र संत गी, ते प्रार्थना करो ईश्वर साडे दा

प्रभु यीशु मसीह, महिमा दा पिता, तुसैं गी ज्ञान ते प्रकटीकरण दी आत्मा देना

उसी दा ज्ञान. तां जे आशा गी जानने आस्ते तुं दी समझ दी अक्खीं च रोशन होन

उदे बुलावा दे, ते पवित्र संत च उदी वारिस दी महिमा दी दौलत ते अति

उदी शक्ति दी महानता साढ़े आस् ते, जेके उदी पराक्रमी शक्ति दे कम्में दे मताबक विश् वास करदे न,

⁹⁵⁷वीडियो 47. “7 दा तम्बू” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-प्रभु-दे-भोज-7-तम्बू/.

⁹⁵⁸वीडियो 37. “खून दा खेत (एक कब्जा)”।

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-खून-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हैं/.

जिस च उने कम्म कीता मसीह, कुसीईधरमेरे दे बीचा जिंदा कित्ता ते उसी अपने सज्जे हल्थ च रखेया सुर्गीय थां, न सिर्फ इस संसार च, बल्के आने आले संसार च बी (इफिसियों 1:17-21 ऐ).⁹⁵⁹

(प्रकाशितवाक्य 22:21 ऐ) साढ़े प्रभु यीशु मसीह दी कृपा

प्रकाशितवाक्य 22:21 ऐसाढ़े प्रभु यीशु मसीह दा अनुग्रह तुं दे सारें उप्पर होऐ। आमीना

☞ प्रकाशितवाक्य 22:21 ऐ टीओह कृपा साडी प्रभु यीशु मसीह तुहाडे सारे दे नाल रहो. आमीन.

- मौत जीत च निगल जांदी ऐ! (१ कुरिन्थियों १५:५४), ऐ
→ धन्यवाद होईधरजो सान् देदा है जीत दा साडे जरिए प्रभु यीशु मसीह, कु'न ऐपरमातमा दा पुत्र.⁹⁶⁰
→ एह लिखे गेदे न तां जे तुस इस गल्लै उप्पर विश्वास करो यीशु मसीह गी, ऐपरमातमा दा पुत्र; ते कि "विश्वास करदे" तुं दे कोल हो सकदा ऐ जीवन उं दे नां दे जरिए (जह 20:31 ऐ).

+ "मैं कन्नै सूली च चढ़ाया गेदा ऐ मसीह: 1।
फिरी बी मैं जींदा हां; फिरी बी मैं नेई, पर मसीहमेरे च जींदा ऐ: 1।
ते जिंदगी दाजिस च मैं हुन रौहामांस गी
मैं जींदा हां आस्था दा आहला परमातमा दा पुत्र, ऐ
कु'न प्यार कीतामें, ते दित्ता खुद हीमेरे वास्ते" (गलाती 2:20 ऐ).

+ "अगर कोई प्यार नहीं करदा प्रभु यीशु मसीह गी, उसी अनाथेमा होने दे (शाप दी).
मरनाथा (साढ़ानाथ आ गया है)!"⁹⁶¹ (१ कुरिन्थियों १६:२२).

→ "किरपा साडी प्रभु यीशु मसीह साथ होतू." (१ कुरिन्थियों १६:२३).

चरवाहे (मेम्ने) गी इक भेड़ें दी (तुंदी) प्रार्थना

† भजन संहिता 23 दी दुबारा व्याख्या⁹⁶²

"क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा ऐ ते मैं उंदी भेड़ें ऐं
प्रभु दे ज्ञान च बधने च मिगी कुसे दी कमी नेई ऐ

चारागाह च पूरी चाल्ली उगदी घास, जड़ी-बूटियां,
ते इक फलदार बूहटे जेहड़ा परमात्मा दे किस्म दे फल दिंदा ऐ
धरती दे सारे आत्माएं गी जीवन (लोगोस) देना,

ते मेरा चरवाहा मिगी आराम दे पानी दे कंडे घाह दे चारागाह च सुट्टी दिंदा ऐ ते...
हर हरी जड़ी-बूटी ते बूहटे दा फल दिंदा ऐ जेहड़ा सिर्फ भलाई पैदा करदा ऐ ते कोई बुराई नेई

⁹⁵⁹वीडियो 47. "7 दा तम्बू" www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-प्रभु-दे-भोज-7-तम्बू/

⁹⁶⁰"(प्रकाशित 1:1 ऐ-2) यीशु मसीह दा प्रगटीकरण."

⁹⁶¹मरनाथ: अरामी मूल दा (मतलब साढ़ा प्रभु आया ऐ)

"जी3134 - माना था - स्ट्रॉंग दा ग्रीक कोश (kjv)" नीले अक्षर बाइबला अभिगमन तिथि 13 सितंबर, 2023।

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3134/kjv/tr/0-1/ऐ>.

⁹⁶²वीडियो 27. "(मांस, आत्मा, ते आत्मा) भजन संहिता 23।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-खुन-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हैं/.

प्रभु मेरी आत्मा गी, जेड़ी अदन दे बाग च खोई गई ही, उसी पुनर्स्थापित करदा ऐ
मैं भलाई-बुरे दे ज्ञान दे बूटे दे फल गी खाइयै व्यवस्था दा फल खाइयै
ते प्रभु, मेरा चरवाहा, अपने नां आस्ते मिगी धर्म दे रस्ते च लेई जंदा ऐ।

भले ही धर्म दे रस्ते ते मौत दी छाया दी घाटी होवे।
मैं बुराई कोला नेई डरदा कीजे मेरा चरवाहा मेरे कन्ने ऐ।


अंजीर ते बेल दे फल खाइयै मिगी मजबूती मिली ऐ;
पर परमेश्वरे आत् मक चहान थवां आत् मक पेय दिंदा ऐ, ते...
रेमा च पानी दा धोना जेहड़ा मिगी पवित्र करदा ऐ ते साफ करदा ऐ।

प्रभु ने मिगी इक शक्तिशाली दुश्मन कोला बचाया जेड़ा मेरे कन्ने नफरत करदा हा।
उन्होंने मेरी विपत्ति दे दिन मिगी रोकया,
लेकिन मेरे चरवाहे दी छड़ी ते उदी लाठी मिगी दिलासा दिंदी ही।
प्रभु मेरे दुश्मनें दे सामने सुर्ग दे राज च इक मेज तैयार करदा ऐ।
ते मेरे सिर ते तेल दा अभिषेक करदा ऐ ते मेरा प्याला उफनदा ऐ।

उदी भलाई ते दया मेरे जीवन दे सारे दिन सुर्ग दे राज च मेरा पीछा करगा
ते मैं दिनें तकर प्रभु दे घरे च रौंहागा।
रेमा कन्ने भरोचे दे प्याले थमां पीना,
ते मैं आखरी दिन जिंदा होई जाह्य ते परमात्मा दे राज च दाखल होई जागा।⁹⁶³

⁹⁶³“[चित्र 22-क] मुक्ति दा सफर,” जां वीडियो 49, “मुक्ति दा सफर” दिखो।

www.thehemaofthelord.com/uncategorized/49-मुक्ति-द-सफर-प्रस्तुति-सार-1-से-48/.



यहूदी ते खतना

यहूदी व्यवस्था दे बारे च बड़ा घमंड करदे न, पर उंदे द्वारा गैर-यहूदी जातिएं च परमात्मा दी निंदा कीती जंदी ऐ, कीजे खतना तदू गै फायदेमंद होंदा ऐ जेकर व्यवस्था दा पालन कीता जा, ते व्यवस्था तोड़ने पर खतना नेई होई जंदा। पौलुस दे मताबक, इक यहूदी गी परिभाषित किता गेदा ऐ, जिसदा खतना दिल ते आत् मा च ऐ, जेका अंदरा दा ऐ, ते इस चाल्ली बाहरले रूप च शरीर ते अक्षर च नेई ऐ, जिसदी स्तुति मनुखें दी नेई, पर परमेसरे दी ऐ ([रोम 2:17-29 ऐ](#)).

इक यहूदी आस्ते इक गैरकानूनी गल्ल

यहूदियें दे दो किस्म दे न: यहूदी जेके यीशु च विश् वास करदे न (विश् वास करने आले यहूदियें, [इं8:31 ऐ](#)) ते यहूदियें गी जेके नेई करदे (अविश्वासी यहूदियें, [हेक 14:2 ऐ](#)).

- **विश्वासी यहूदियों गी:** इक आदमी [#435 ऐ](#) जेड़ा मसीह च परमात्मा दा धार्मिक बनी गेदा ऐ ते पवित्र ऐ ([मार्च 6:20 गी](#)).
दूजे शबदां विच, "इक आदमी [#435 ऐ](#) ओह इक यहूदी ऐ" मसीह च धर्मां ते पबित्तर यहूदी गी दस् सेया जंदा ऐ, जिसी लोगोस हासल किता ऐ विश्वास दे जरिए ([हेक 13:46 ऐ](#)).
- **अविश्वासी यहूदी:** सारे इस्राएल इस्राएल या परमेसरे दे लोकें दा नेई, पर सिर्फ ओह गै ऐ, जिंदे वंश इसहाक च ऐ ([रोम 9:6](#)).
इस आस् ते जेके यहूदियें परमेसरे दे लोगो गी नकारदे हे **Jave** अपने आप गी अनन्त जीवन दे अयोग्य ठहराया ([हेक 13:46 ऐ](#)).

खतना दे बारे च पौलुस दी कार्रवाई

पौलुस बरनबास ते तीतुस दे कन्ने यरूशलेम चली गया। तीतुस, ग्रीक होने दे बावजूद बी खतना नेई किता कीजे इक झूठा भ्रा उमेंगी गुलामी च लाने आस् ते मसीह यीशु च उंदी आजादी दी जासूसी करदा हा। उने अधीनता दे जरिए इक घंटे तकर बी जगह नेई दिती तां जे सुसमाचार दा नुत गैर-यहूदी जातियें कन्ने चलदा रौह्य ([हेक 21:21 ऐ](#), [ऐगला 2:1-5 च](#)).

यीशु यहूदियें कन् ने हन खुलेआम नेई चलदा रेया

यीशु ने लाजर गी, जेका चार दिनें थवां इक मांद च मरे दा हा, उसी बाहर औने आस् ते गू लाया ते उन् ने एह गै किता, जदुं उदी भैन मार्था ने कुत्ते उप् पर रखे दा पत्थर लेई गया। यीशु दे किन्ते गेदे मते सारे चिन्नें गी दिक् खीए मते सारे यहूदियें उंदे उप् पर विश् वास किता, पर प्रधान याजक ते फरीसियें गी इस गल् ला दी चिंता ही के सारे जाति (यहूदी ते गैर-यहूदी) उंदे उप् पर विश् वास करडन ते रोमी उंदी जगह ते उंदी कौम गी लेई लैन, जेकी **fHech** च ऐ गैर-यहूदी जाति जेड़े परमात्मा गी नेई जानदे ([इं११:३८-५३ दा](#)).

फिरी महायाजक कैफा ने आख्या, "साढ़े आस् ते ठीक ऐ के इक मनुख लोकें आस् ते मरना, ते सारी गैर-यहूदी जाति नाश नेई होई जा।" ते परमेसरे दे बिखरे दे बच् चे गी इक थाहर च इकट्टा करो। इस आस् ते यीशु हन खुलेआम यहूदियें च नेई चलदा रेहया ते अपने चेलें कन् ने गै रौहना लगी पेया ([इं११:54 ऐ](#)).

- पौलुस ते पतरस दी प्रेरितता (3/10)

प्रेरित: पतरस खतना करने आलें गी & पौलुस गैर-यहूदी लोकें गी

खतना गी पतरस दी प्रेरितता: 1।

- **पतरस ने दी** खतना दे सुसमाचार (साथी: याकूब, कफा ते यूहन्ना) गी सौंपी दिता गेदा हा।

पौलुस दी गैर-यहूदी लोकें गी प्रेरितता: 1।

- **पौलुस ने दी** खतना दे सुसमाचार दा जिम्मा सौंपेआ गेदा हा (सहकर्मी: बरनबास, [गाल२:७-९ च](#)).

यहूदियां दी परिभाषाएंते गैर-यहूदी

जेड़े यहूदियें गी हल्यें कन् ने शरीर च खतना किता गेदा हा, उमेंगी इसराइल दे पुत्र आखदे हे, जदुं के जेके शरीर च खतना नेई किन्ते गेदे हे, उमेंगी गैर-यहूदी (इस्राएल दे पुत्र नेई) दे रूप च गू लां दे हे, जेके शरीर च खतना किन्ते गेदे हे। दूजे शबदां च खतना जां खतना नेई होना शरीर दे मामलें कन्नै जूड़े दा ऐते आत्मा गी नेई.

यहूदियों की नज़र में, सेंटियागो आस् ते गैर-यहूदी लोकें कन् ने खाना गैरकानूनी हा, जेके शरीर च "खतना नेई किन्ते गेदे" हे:

- **यहूदियों ने:** जेड़े हल्यें कन्ने बने दे मांस च खतना किन्ते गेदे हे।
- **गैर-यहूदी लोकें गी:** जेड़े शरीर च खतना नेई हे (यहूदियों दे मताबक).

(पतरस गी खतना दे सुसमाचार दा जिम्मा सौंपेआ गेदा हा) यहूदी स्वभाव च गैर-यहूदी जातिएं (लोकें) दे पापी नेई न जिय्यां उंदे (इस्राएल दे पुत्र) शरीर च खतना किन्ते गेदे हे। मतलब पतरस गी उमें यहूदियें आस् ते खतना दे सुसमाचार सौंपेया गया हा, जेके शरीर च खतना किन्ते गेदे हे ([इफ 2:10 ऐ](#), [ऐगला 2:12-15 ऐ](#)).

→ आध्यात्मिक दृष्टिकोण कन्नै, **यहूदी ते गैर-यहूदी बी, जेके शरीर दे हे ते परमेसरे दी महिमा थवां नेई होई गेदे हे** ([रोम 3:23 ऐ](#)).

प्रेरित पौलुस ने

शाऊल प्रेरित पौलुस दा यहूदी नां ऐ, जेका इक फरीसी दे सारें शा संकीर्ण पंथ दा हा, पर गैर-यहूदियें, राजाएं ते इस्त्राएल दे पुत्रें गी अपना नां देने आस् ते अपने बर्तन दे रूप च प्रभु (क्योरिओस) दे चुने दा हा।

(पौलुस गी अखतना दे सुसमाचार दा जिम्मा सौंपेआ गोदा हा)। खतना नेई होने दा मतलब ऐ उमें लोकें गी जेहड़े शरीर च खतना नेई कीते गेदे न; इस आस् ते प्रेरित पौलुस गी गैर-यहूदी जातिएं दे सुसमाचार देना सौंपी गया, जेके इस्त्राएल दे पुत्र नेई हे (हेक ९:११-१५, ऐरोम 11:13 ऐ). पर, आत् मक नजरिये कन् ने उदी सेवा च खतना (यहूदी) ते खतना नेई (गैर-यहूदी) दवें शामिल न, जेके परमेसरे दी महिमा थवां घट्ट होई गेदे हन।

प्रेरित पतरस ने

किश विश्वास करने आले फरीसियें मनुखें ते भ्राए कन् ने खतना दी लोड ते मूसा दी व्यवस्था गी मनने दे बारे च गल् ल कित्ती, इस आस् ते पतरस खडोई गया ते ग् लाया के "परमेसर उसी मनुखें च चुनेया तांजे गैर-यहूदी जाति सुसमाचार दे लोगो गी सुनी लैन ते उंदे जरिए उदे उप् पर विश्वास करन मूह. ते परमात्मा जेड़ा दिलें गी जानदा ऐ, उने उन्हे गी पवित्र आत्मा देईये उन्हे गी गवाही दिता, जिय्यां उने साढे कन्ने दिता हा।" इस चाल्ली खतना ते मूसा दी व्यवस्था दा पालन करना परमेसरे गी परख करदा ऐ ते चेलें दे गले उप् पर जुआ लांदा ऐ। सारे जातियें गी प्रभु यीशु मसीह दे अनुग्रह कन्ने, यहूदियें ते गैर-यहूदी जातियें च भेद नेई कित्ता जाग (हेक 15:5-19 ऐ).

सैंटियागो ने फिर शेयर कीता कि शिमोन (लुका२:२५ दा)। ते में उदे खंडहरें गी फिरी बनाना ते उसी खड़ा करगा, तां जे मनुखें दे बचे दे लोक ^{जो444} ते सारे गैर-यहूदी जातियें गी प्रभु दी तलाश करना जिदे उप्पर मेरा नां पुकारेया गोदा ऐ, प्रभु आखदा ऐ, जेड़ा ए सब कम्म करदा ऐ।"

इस आस् ते मनुखें ते भ्राए गी गैर-यहूदी लोकें गी परमेसरे दे कश मुडने आस् ते परेशान नेई करना चाईदा, बल् कि उनें गी मूर्तियें, व्यभिचार ते गला घोटने ते खून दे गल् लें थवां परहेज करने आस् ते लिखना चाईदा (हेक 15:5-19 ऐ).

यीशु मसीह = परमात्मा दे tRut आस्ते खतना दा सेवक

यीशु मसीह खतना दा सेवक हाजेस ने गैर-यहूदी लोकें दे दिलें गी आत् मक रूप च खतना कित्ता तां जे उनें गी आत् मक पुत्र बनाया जाई सके इजराइल (जां आध्यात्मिक यहूदी), तां जे परमात्मा दा tRut पिताए कन्ने कीते गेदे वादे दी पुष्टि करी सके (रोम 15:8 ऐ).

पौलुस ते पतरस दी प्रेरितताकणक दा दाना दे रूप च

पौलुस ने दी अखतना दे सुसमाचार गी सौंपेआ गोदा हा गैर-यहूदी जातिएं (इस मामले च, यूनानी) आस् ते, उनें गी नीह रक्खी, जेका यीशु मसीह ऐ, ते यीशु मसीह उप् पर बीज (परमेसर दा लोगो) लाया, जिसी अपोलोस (इक विद्वान मसीही यहूदी) ने पानी दिता तांजे परमेसरे गी इसे बढ़ा देता। पौलुस गी उनें लोकें दी मदद करने दा कम्म सौंपेआ गोदा हा यरूशलेम च, ते यहूदिया दे सारे इलाकें च, ते फिरी गैर-यहूदियां गी पश्चाताप करने ते परमात्मा दे कोल मुडने ते पछतावे दे योग्य कम्मों गी करने (हेक 26:20 ऐ).

गैर-खतना दे सुसमाचार गी गैर-यहूदियें च इक यूनानी कौम थवां बोए जाने दे बा'द, जेके अपने पापें दा पछतावा करदे न, उनें गी अपनी जमीन च परमेसरे दा लोगो हासल होई सकदा हा। पतरस, फिर लोगो गी उंदे पापें दी माफी आस्ते यीशु मसीह दे नां कन्ने बपतिस्मा दे जरिए मरने च मदद करगा जी उठने च विश्वास करने कन्ने उनें गी पवित्र आत्मा दा वरदान मिलग जेहड़ा मते सारे फल पैदा करदा ऐ कीजे उंदे अंदर दा लोगो रेमा च बदली जाग (हेक 2:38 ऐ).

जेड़े लोग यीशु मसीह दे नां नाल मरन तों इन्कार करेदे हन या बपतिस्मा लौण तों इन्कार करदे हन, ओ ओ हेन जो अपनी आत्मा नाल प्यार करेदे हन, ते ओ अपनी आत्मा कू खो डेसेन किउंकि उन्हां कू न जीवन हे ते न ही जी उठन (झं१२:२०-२६ ते).⁹⁶⁹

- ऐयहूदी, यूनानी, & गैर-यहूदी (४/१०) दा

ग्रीक (मजबूत दा जी1672) हेलन (ग्रीक) या हेलस दा निवासी ऐ; विस्तार कन्ने इक ग्रीक बोलने आह्ला व्यक्ति, खासकरिये गैर-यहूदी: गैर-यहूदी, ग्रीक⁹⁷⁰

यहूदी ते यूनानी

यीशु ने ग् लाया के इक दुष्ट ते व्यभिचारी पीढ़ी (जेकरा विश्वास नेई ऐ) इक निशानी दी तलाश च ऐ, पर नबी योना दे चिन्ह दे अलावा कोई निशानी नेई ऐ। पर, यहूदी सुअर्ग थवां इक निशानी मंगदे हन, ते यूनानी उप् पर थवां नेई उतरने आली ज्ञान दी तलाश करदे हन, जेकी सांसारिक, कुदरती ते शैतानी ऐ। पर मसीह उनें लोकें आस् ते परमेसरे दी शक् ति ते ज्ञान ऐ, जेके परमेसरे ग् लाए गेदे हन, यहूदी ते यूनानी बी (यीशु इक यहूदी हा, पर यहूदी उसी अपने मसीहा दे रूप च नेई पछानदे हन; नतीजे च, ओह उनें गल् लें गी नेई समझदे जिनें गी उनें गी ग् लाया हा झं७:३३ दी-34 ऐ. इस आस् ते यहूदियें गी एह सोचना ऐ के यीशु ग्रीक (गैर-यहूदी जातियें) गी अग् गे (मत्ती 16:1-4 ऐ, ऐ१ कुरिन्थियों १:२३-२४).

⁹⁶⁹वीडियो 29. "प्रभु दा फसह) चले बनाम प्रेरित - घड़ी आई गई ऐ।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-प्रभु-फसह-शिष्य-बनाम-प्रेरित-घंटे-आदि-न/

& Video 41. "परमेसर दे स्वीकार करने आस् ते प्रभु च बधी जाओ।"

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-भगवान-दे-भगवान-चल-बढ़ना/.

⁹⁷⁰नीले अक्षर बाइबला "जी1672 - hellēn - मजबूत दा ग्रीक शब्दकोश (kjv)" अभिगमन तिथि 4 सितंबर, 2021।


<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g1672/kjv/tr/0-1/ss0/ऐ>.

पर्व च किश यूनानी आराधना करने आस् ते आए, ते यीशु गी दिक् खने आस् ते फिलिप्पुस दे कश आए। फिलिप्पुस ने फिरी अंद्रियास गी दस् सेया ते उनें गी दऊंनी यीशु गी इस बारे च दस् सेया (ग्रीक → चेले → यीशु)। फिरी यीशु ने आख्या, “ समय आ गया कि मनुख दे पुत्र दी महिमा (इं12:20-22 ते)।”

यहूदी, यूनानी, & गैर-यहूदी

यहूदिये ते यूनानिये दी बड़ी भीड़ उस वेले विश्वास किती, जदुं दोऐ प्रेरित (पौल ते बरनबास) यहूदिये दे आराधनालय च उंदे कन् ने गल् लां किती, मतलब के ओह आत् मा च दिले दा खतना किता गया हा, ते ओह सारे गै आत् मक यहूदी बनी गो। पर अविश्वासी यहूदिये गैर-यहूदी लोके गी उकसाया ते उंदे मनें गी भ्राएं दे खलाफ बुरा बनाई दिता। भ्रा ओह गै न जेहड़े इक साझा प्राकृतिक पूर्वज गी सांझा करदे न, इस करी इस संदर्भ च भ्राऽ गैर-यहूदी यूनानिये दा संदर्भ लेंदे न जेहड़े विश्वासी यूनानिये दा विरोध करदे हे।

पर प्रेरिते प्रभु च हिम्मत कन् ने गल् ल किता के ओह उंदे हत् थें कन् ने कित्ते गेदे चिन् नें ते चमत् कारे दे जरिये लोगो दी गवाही देई सकना उस वेले शैहर दी भीड़ यहूदिये दे पक्ष च रौहने आले ते प्रेरिते दे पक्ष च बंडूडी गई ही। फिरी गैर-यहूदी ते यहूदिये अपने शासके कन् ने दऊं प्रेरिते गी पत्थर मारने आस् ते हमला किता (हेक 14:1-5 ऐ)।



गैर-यहूदी जाति

यिषौ दाऊद दा पिता ऐ, ते यीशु मसीह, साढ़ा प्रभु, दाऊद दे वंश च पैदा होए (मत्ती 1:6, 6।यशायाह ११:१, ऐरोम 1:3 ऐ), जिंदे उपर गैर-यहूदी जाति अपना भरोसा रखडना इस आस् ते पौलुस गी परमेसरे दे सुसमाचार दी सेवा करने आस् ते परमेसरे दे सुसमाचार दी सेवा करने आस् ते सहेया गया हा, तांजे गैर-यहूदिये दे जातिएं गी पबित्तर आत् मा दे जरिये पबित्तर किता गेदा ऐ। इस आस् ते पौलुस ने किसे बी गल् लें गी ग् लाने दी हिम्मत नेई किती, जेकी मसीह ने उदे जरिये नेई किती ही। मनें च गैर-यहूदी उंदी आध्यात्मिक चीजे च हिस्सा लेंदे न, उंदा फर्ज बी ऐ जे ओह भौतिक चीजे च उंदी सेवा करन (रोम 15:12-27 ऐ)।

- ऐपरमात्मा दी इक राष्ट्र बनाम गैर-यहूदी राष्ट्र (५/१०) ऐ।

गैर-यहूदी¹⁴⁸⁴ (ἔθνος, एथनोस) ऐ।

गैर-यहूदी (मजबूत दाजी 1484 ऐ एथनोस, लोग) दा अनुवाद बकख-बकख बाइबल संस्करणे च ग्रीक, विधर्मी, जां राष्ट्र दे रूप च कीता गेदा ऐ; इसदा अनुवाद किस चाल्ली कीता जाना चाहिदा ?

→ गैर-यहूदी दा अनुवाद पुराने नियम च “जाति” दे रूप च कीता गेदा ऐ, “परमेसर अब्राहम गी मते सारे जातिये दा पिता बनाया ऐ”

(रोम 4:17 ऐ) अपने बीज (शुक्राणु) दे जरिए; इस आस् ते नमें नियम च बी इसी अनुवाद दा इस्तेमाल करना चाईदा।

अब्राहम = कई राष्ट्रां दा पिता (एक बड़ी कौम + मजबूत कौम)

इक बड्डी कौम: इस्माइल दा वंश शरीर दे संतान हन, इस तर्हा परमात्मा दे संतान नहीं, इस करके ओह सिर्फ इक वड्डी कौम बण गिआ।⁹⁷¹

इक बड्डी ते मजबूत कौम: इसहाक दा वंश वादे दे संतान, परमात्मा दे संतान (जेन 17:20 ऐ, ऐजेन 18:18 ऐ)।⁹⁷²

⁹⁷¹ इस बारे च विस्तार कन्ने जानने आस्ते इक वीडियो 7, “(आदम दी पीढ़ियां अब्राहम गी) + जनानी” दा संदर्भ लैओ जे इस्माइल दा वंश शरीर दे संतान कीऽ ऐ।

⁹⁷² इस बारे च विस्तार कन्ने जानने लैई इक वीडियो 20, “(एक तेज) म्यान, तलवार, & दोधारी तलवार” दा संदर्भ लैओ जे इस्माइल दे बीज गी किस चाल्ली इक बड्डी राष्ट्र बनाई दिता गेआ, ते किस चाल्ली अब्राहम (इसहाक च शुक्राणु) गी इक महान & मजबूत कौम।

God's one nation^{H1471} = Israel

→ One nation^{H1471} of God's people on earth is Israel (2Sa 7:23 or refer to "The sons of Israel" for details).

कौन कौम हैं (गैर-यहूदी)?

- इस्राएल गी छोड़िये धरती उप्पर बाकी गैर-इजराइली राष्ट्र इस आस् ते गैर-यहूदी राष्ट्र जां लोक ना

- गैर-यहूदी कौम (जो परमेश्वर गी नेई जानदे) इस्राएल दी कौम नेई हन ते इस चाल्ली उनेंगी इक मूर्ख कौम दे रूप च संदर्भित कीता जंदा ऐ जेकी व्यवस्था गी नेई जानदी, ते धार्मिकता दे पिच्छे नेई चलदी। इस आस् ते ओह परमेश्वर गी नेई, ना के शैतानें गी बलिदान दिंदे न, ते नतीजे च उनेंगी गूंगे मूर्तियें च लेई जंदा ऐ। उंदे विचार इस गल्लै उप्पर गै केंद्रित न जे केहू खाना, पीना ते केहू पहिना; अपने मन दी आडंबर च चलदे ना

- हालांकि गैर-यहूदी राष्ट्र कामुकता, वासना, संसारी शराब दी अतिरिक्तता, मस्ती, संसारी भोज, ते घृणित मूर्तिपूजा च गल्ल करने गी तैयार न, पर उंदे कोल व्यभिचार नेई करने दे किश मानक न जेह्दे कुरिनथियों दे मसीही करदे हे, जि'यां उंदे पिता दी घरेआली होने (१थ४:५ ऐ, ऐरोम 2:14 ऐ, ऐरोम 9:30 ऐ, ऐरोम 10:19 ऐ १कुरिनथियों १०:२०, ऐ मत्ती 6:31 ऐ, ऐइफिस 4:17 ऐ, ऐ१पीतर ४:३).

जिसने मनुख दे पुत्र गी मारी दिता?

यीशु इक यहूदी हा, ते उदी अपनी गै गैर-यहूदी कौम यहूदियें ते प्रधान याजकें कन् ने रचदी ही। यहूदियों ते इस्राएल दे लोकें मनुख दे पुत्र गी धोखा देई दिता ते उसी मौत दी सजा दिती। फिरी गैर-यहूदी जातिएं उसी धोखा दिता, जिनेंगी मजाक उड़ाया, कोड़े मारे ते सूली च चढ़ाया, पर ओह त्रीए दिन जिंदे होई गया। मनुख दे पुत्र गी न सिर्फ उदे अपने लोकें, यहूदियें ते इस्राइलियें कन् ने गी धोखा किता ते उसी मारी ओड़ेया, जेके इस्राइल दे सारे घरें गी शामिल करदे न, बल् कि गैर-यहूदी लोकें बी। पर, उसी यीशु, जिसे उनेंगी (तुसें) सूली च चढ़ाया ऐ, ओह प्रभु ते मसीह ही बा। यहूदियों ने प्रभु यीशु ते अपने गै भविष्यवक्ताएं गी मारी ओड़ेया ते पौलुस गी गैर-यहूदी जातियें कन्ने गल्ल करने थमां मना करी दिता, तां जे उंदे उद्धार नेई होई जा (इ१8:35 ऐ, ऐ मत्ती 20:19 ऐ, ऐहेक 4:27 ऐ, ऐ१थन २:१५-१६ ऐ)।

- ऐचयहूदियों कौ गैर-यहूदी जातिओं तक (6/10)

गैर-यहूदी जातिएं गी पवित्र आत्मा दा वरदान

कानून दे मताबक इक धरमी यहूदी आस् ते गैर-कानूनी हा के ओह संगत रोहना जां दूई गैर-यहूदी जाति च औना, पर परमेश्वर पतरस गी रेमा गी दस् सेया के ओह कुसे बी मानू गी अशुद्ध जां अशुद्ध नेई आखना चाईदाथमां परमेश्वर उनेंगी शुद्ध करी ओड़ेया हा (हेक 10:13-28 ऐ)।

लोगो दा प्रचार करदे होएँ रेमा दा

- (लोगो पर प्रचार करना) परमेश्वर इस्राएल दे पुत्रें गी लोगो भेजेया ते उनेंगी सिखाया के यीशु मसीह सारें दा प्रभु ऐ।
- (रेमा पर प्रचार करना) जेस मनुख दे पुत्र दे कन्ने मरे दे बीचा जीने दे बाद खाया ते पींदा हा"।

→ जेके बी लोगोस पांदा ऐ, उसी पापें दी माफी मिलग, ते पबित्तर आत् मा विश्वास करने आलें उप् पर पौग इस रेमा (हेक 10:36-44 ऐ)।

- (इस्राएल दे विश्वासी पुत्रां विचों खतना कितने)

- पतरस (जिस गी खतना दे सुसमाचार दा जिम्मा सौंपेआ गेदा हा) दे कन्ने आए दे लोक इस गी दिखदे होई हैरान होई गे पवित्र आत्मा दा वरदान "अनखतना" गैर-यहूदी जातिएं उप्पर उंडेलेआ जंदा ऐ, ते उनेंगी दूई भाशाएं च बोलदे सुनेआ जंदा ऐ ते परमात्मा गी बड़ाई करना।

पतरस ने गू लाया के गैर-यहूदी जातिएं गी पानी दे बपतिस् मा (लोगोस) गी कोई बी मना नेई करी सकदा कीजे उनेंगी, ... प्रेरितों, पवित्र आत्मा भी पाये (हेक 10:45-47 ऐ)।

परमेश्वर यहूदियें गी ईर्ष्या करने आस् ते गैर-यहूदी कौम दा इस्तेमाल करदा ऐ

इस्राएल दे अपराध दे जरिए, उद्धार उनें लोकें गी मुड़दा ऐ जेके परमेश्वर दे लोक (या गैर-यहूदियें) नेई हन, तांजे इस्राएल गी ईर्ष्या च भड़काया जा (रोम 10:19 ऐ, ऐरोम 11:11 ऐ)। गैर-यहूदी लोक जेड़े विश्वास करदे हे परमात्मा दे लोगो हासल परमात्मा दा रेमा (हेक 13:42 ऐ)। जतुं यहूदियें दिक् खेया के सारे नगर पौलुस दी गल्ल सुनने आस् ते आया ऐ परमात्मा दे लोगो, ओह ईर्ष्या कन् ने भरोई गेदे हे ते इस चाल्ली उदे खलाफ बोलदे हे ते निंदा करदे हे (हेक 13:42-46 ऐ)।

पौलुस गैर-यहूदी जातिएं गी मुडदा ऐ

हर सब्ब दे दिन पौलुस आराधनालय च यहूदियें ते यूनानी लोकें गी मनांदा हा। लेकिन जदुं यीशु ने यहूदियें गी गवाही दित्ती के यीशु मसीह ऐ, तां उंनंगी विरोध कित्ता ते निंदा कित्ती, इस आस् ते पौलुस ने अपने कपड़े गी हिलाया [#2440](#) अंते आखया।

→ "तुंदा खून तुं दे सिर उप्पर होऐ; मैं साफ ऐं, अऊं अऊं गैर-यहूदी जातियें च जांहागा" (हेक 18:4-6 ऐ)।

पौलुस गैर-यहूदी जातिएं दा प्रचारक, प्रेरित ते मालक ऐ। परमेसरे असेंगी उंनं लोकें गी बचाई लेता ऐ, जेके परमेसरे दी शक् ति दे मताबक सुसमाचार दे दुखें च शामिल हन, ते अनंत समें थवां पैहलें मसीह यीशु च असेंगी दिते गेदे पबित्तर सदे दे कन् ने असेंगी सदेआ ऐ।

ए हुन साढ़े उद्धारकर्ता यीशु मसीह दे प्रगट होने कन् ने प्रगट होदा ऐ, जिनेंगी सुसमाचार दे जरिये रोशनी देने आस् ते मौत गी खत्म करी ओड़ेया ऐ ते जीवन ते अविनाशी गी लेई आया ऐ, जिस च पौलुस गी गैर-यहूदी जातिएं दा प्रचारक, प्रेरित ते मालक नियुक्त कित्ता गेदा हा ([रतीमती १:८-११ ऐ](#))।

- प्रभु, प्रभु यीशु, & प्रभु यीशु मसीह (7/10)

प्रभु दे लोगो

कीजे यहूदियें परमेसरे दे लोगो दे खिलाफ गल् ल करदे हे ते निंदा करदे हे, इस आस् ते पौलुस ते बरनबास ने दिक् खेया के यहूदियें अपने आप गी अनंत जीवन दे काबिल नेई समझेया ऐ ते ग् लाया, "एह जरूरी हा [परमात्मा दे लोगो](#) पैहलें तुं दे कन्ने गल्ल कीती जानी चाहिदी ही" (हेक 13:46 ऐ)।

इस कन् ने उंनंगी गैर-यहूदी जातिएं दे कश मुडने दा पर्याप्त कारण मिलदा ऐ, जेका मूसा दी भविखवानी गी पूरा करदा ऐ।

→ "मैं तुहानू उन लोकं नाल ईर्ष्या करवांगा, ते इक मूर्ख कौम दे नाल मैं तुहानू गुस्सा करगा" (रोम 10:19 ऐ)।

[परमात्मा दे लोगो](#) पैहलें यहूदियें कन् ने गल् ल कीती गई ही, लेकिन गैर-यहूदी जातिएं गै महिमा करदे हे ते विश्वास करदे हे [प्रभु दे लोगो](#) ते यहूदियें गी ईर्ष्या करदे होई रेमा गी ग्रहण करी लेता (हेक 13:46-48 ऐ)।

सारे यूनानी लोगो दे खिलाफ, नाम, & यहूदी दा कानून

यहूदियें ने न्याय दी कुर्सी दे सामने पौलुस दे खिलाफ इक मन कन्ने बगावत कित्ती, ते ए दावा कित्ता के ओ मनुखें गी व्यवस्था दे उल्ट परमात्मा दी आराधना करने आस्ते मनांदा हा। पर, अचाई (गैलियो) दे डिप्टी ने उंनंगी फैसले दी सीट थमां कड्डी दित्ता कीजे उंनं सवाल लोगो, नां ते उंनं कानून दे हे। फिरी सारे यूनानी (गैर-यहूदी कौम) ने आराधनालय दे प्रधान शासक (सोस्टेनीस, पौलुस दे साथी) गी न्याय आसन दे सामने ([हेक 18:12-17 ऐ](#))।

लोगो दा प्रभु यीशु दा

आराधनालय च पौलुस परमेसरे दे राज दी गल् लें उप् पर विवाद करदा हा ते समझदा हा, पर ओह चेलें कन् ने गै चली गया, जदुं अविश्व वासी लोकें लोकें दे सामने इस गल् ला दी बुरी गल् लां ग् लां दे हे, ते ओह रोजाना तिरनुस दे किश स्कूल च विवाद करदा हा।

दो साल बाद एशिया दे यहूदियें ते यूनानी लोकें प्रभु यीशु दे लोगो गी सुनेया, ते परमेसरे पौलुस दे हत् थें कन् ने उंनंगी चंगा करने आस् ते खास शक्ति दा कम्म कित्ता, ते बमारियें ते बुरी आत् माएं उंनंगी छड्डी दित्ता ([हेक 19:8-12 ऐ](#))।

बुरी आत् मा यहूदियें दे जरिये प्रभु यीशु दे नां दी शक् ति गी नेई जानदी ऐ

बुरी आत् मा पौलुस दे आखे गेदे प्रभु यीशु दे नां दी शक् ति गी जानदी ही, पर उंनंगी भ्रार यहूदियें दी शक् ति गी नेई पता हा, जेके भूत भगाने आले हे ते यहूदी प्रधान याजक दे सत्त पुत्रा इस आस् ते, बुरी आत् मा आला मानू उंनं उप् पर उछलदा गया, उंनं उप् पर राज करी ओड़ेया ते उंनं उप् पर हावी होई गया, जिसदे कारण ओह नंगे ते घायल होईये घर थवां फरार होई गे।

→ इफिसुस दे सारे यहूदी ते यूनानी जदुं उंनंगी पता लगी गया तां डरदे हे, ते प्रभु यीशु दा नां गै हा

बढ़ाया, ते [परमात्मा दे लोगो](#) ताकतवर हो गया और हावी हो गया ([हेक 19:13-20 ऐ](#))।

साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे प्रति विश्वास

पौलुस कलीसिया दे प्राचीन गी बुलाया ते उंनंगी दस् सेया के ओह प्रभु दी सेवा कित्ती ही, जदुं के यहूदियें उदे खिलाफ साजिश रचदे हे, ते उन् ने सार्वजनिक तौर उप् पर प्राचीन गी घर-घर सिखाया हा, ते यहूदियें गी ते यूनानियें गी परमेसरे आस् ते पछतावा करने ते साढ़े उप् पर विश्वास करने दी गवाही दित्ती ही प्रभु यीशु मसीह। हालांकि पवित्र आत्मा ने पौलुस गी गवाही दित्ती के यरूशलेम च बंधन ते दुखें दा इंतजार ऐ, पर उंनंगी अपनी आत्मा गी अपने आपे च प्यारा नेई समझेआ तां जे ओह अपने रस्ते ते सेवा गी पूरा करी सकै, जेहड़ी उसी प्रभु यीशु कोला मिली ही तां जे ओह सुसमाचार दी गवाही देई सकै परमेसरे दी कृपा ते परमेसरे दे राज दा प्रचार ([हेक 20:17-24 ऐ](#))।

व्यवस्था दे बगैर परमात्मा दी धार्मिकता दा प्रकटीकरण

सारे पाप किते ते परमात्मा दी महिमा कोला घट्ट होई गे। पर यीशु मसीह उप् पर विश्वास करने कन् ने परमेसरे दी धार्मिकता हुन सारे विश्वास करने आलें गी व्यवस्था दे कर्म दे बगैर प्रगट होई जंदी ऐ, ते यहूदी यहूदी ते गैर-यहूदी जातियें गी बी मसीह यीशु च मुक् ति दे जरिये परमेसरे दी कृपा कन् ने मुफ्त च धार्मिक ठहराया जंदा ऐ। परमेसरे विश्वास दे जरिये खतना ते खतना नेई होने आलें गी धर्मी ठहराग; इस चाल्ती साढ़ा घमंड विश्वास दे नियम कन्ने ऐ, जेहड़ा व्यवस्था गी स्थापित करदा ऐ ([रोम 3:21-31 ऐ](#))।

- परमात्मा दा उद्धार सारें गी (8/10)

गैर-यहूदी जातिएं दा उद्धार होग

परमात्मा दा राजडबल्यूजिज्यां प्रधान याजकें ते फरीसियें (यहूदियों) कोला लेई लेता गोदा ऐ ते फल पैदा करने आली गैर-यहूदी जाति गी दिता गोदा ऐ ([मत्ती 21:43 ऐ](#)).

परमात्मा दा उद्धार

पौलुस ने परमेश्वर दे राज दी गवाही दित्ती ते मूसा ते नबियें दी व्यवस्था दे आधार उपर यहूदियें दे प्रधानें गी यीशु दे बारे च समझया, ते किश विश् वास किता, ते किश नेई किता ([हेक 28:17-24 ऐ](#)), जेड़ी यशायाह ने बोली ऐ,

→ “सुनदे गै तुस सुनगे, ते नेई समझगे; ते दिखदे गै तुस दिखगे, लेकन नेई समझगे। कीजे इस लोकें दा दिल स्थूल होई गोदा ऐ, ते उंदे कान सुनने च सुस्त न, ते उंदी अक्खी बंद होई गेदियां न; कहीं कहीं वे दिखे

उंदी अक्खी कनै, ते उंदे काने कनै सुनो, ते उंदे दिलै कनै समझो, ते उंदे च बदली जाहा, ते मैं ठीक करी लैना

उंनै. इस आसू ते तुसैं गी एह पता लाओ के परमेश्वर दा उद्धार गैर-यहूदियें गी भेजेया गोदा ऐ, ते ओह इस गल् ला गी सुनी लैन” ([हेक 28:25-28 ऐ](#)).

पौलुस ए जानदे होई के परमेश्वर दा उद्धार गैर-यहूदियें गी भेज् जेया ऐ, ते ओह उसी सुनी लैन, तां पौलुस भरोसे कन् ने परमेश्वर दे राज दा प्रचार करदा रेहया ते प्रभु यीशु मसीह दी गल् लें गी सिखांदा रेया ([हेक 28:23-30 ऐ](#)).

परमेश्वर पक्षपात नेई करदा, इस आसू ते धरमी विश् वास कन् ने जीना ऐ

अब्राहम ने परमेश्वर उप् पर विश् वास किता ते उसी धार्मिक ठहराया गया, इस आसू ते अब्राहम दे पुतर बी विश् वास दे हना। परमेश्वर गैर-यहूदी जाति गी विश् वास दे जरिये धरमी बनाग ते यहूदियें ते गैर-यहूदी लोकें दी सारी जातियें गी अब्राहम च आशीष दित्ती जाग।

जेड़ा बी व्यवस्था दी कताब च लिखे दा कम्म नेई करदा, उसी शाप दिता गोदा ऐ; उय्यां गै व्यवस्था दे कम्मों गी करने आलें शाप दे अधीन न, कीजे परमात्मा दे सामने व्यवस्था दे जरिए कोई धर्मी नेई ठहराया जंदा।

इस आसू ते “शापित ऐ हर इक गी जेका बूटे उप् पर लटकदा ऐ” ([गला 3:13 ऐ](#)) जरिया

→ **“जेहड़े भलाई-बुरे दे ज्ञान दे बूटे उपर लटकदे न, ओह कसै नियम दे अधीन न ते इस करी शापित होंदे न.”**

बीउतकीजे मसीह ने असेंगी व्यवस्था दे शाप थवां छुड़ाया ऐ (सादे आसू ते शाप बनीऐ), अब्राहम दा आशीष यीशु मसीह दे जरिये गैर-यहूदी जाति गी होई गोदा ऐ, ते अस विश् वास दे जरिये आत् मा दा वादा पाने आं।

इस चाल्ली धर्मी गी विश्वास कनै जीना चाहिदा ([गला 3:6-14 च](#)).

पेहे यहूदी, ते यूनानी दे बी

जेकर परमेश्वर दे सामने मनुखें दा कोई आदर नेई ऐ, तां पैहलें यहूदियें ते यूनानियें दा बी आदर कीं ऐ?

→ यहूदी स्वभाव नाल गैर-यहूदी जाति दे पापी नहीं हन ([गाल 2:15 ऐ](#))। इस तर्हा धर्म दा फल पैदा करन वाले बणनगे **परमात्मा दी धार्मिकता च मसीह**, जेड़ा परमात्मा दी शक्ति च प्रगट होग, जेके विश्वास करदे न ([रोम 2:9-11 ऐ](#), [ऐरोम 1:16 ऐ](#), ऐ [रोम 3:9 ऐ](#)).

आध्यात्मिक रूप च, सारे राष्ट्र (शरीर च खतना ते खतना नेई) गैर-यहूदी जाति हे जिय्यां मसीह यीशु दे पापियें गी बचाने आस्ते संसार च औने कोला पैहले ओ सारे पाप दे अधीन हे ([1ति 1:15 ऐ](#)), इस चाल्ली उंदे च कोई फर्क नेई ऐ; मतलब प्रभू सारेआं वास्ते इक ही है, इस करके जो कोई प्रभू दा नां पुकारदा है (kyrios)²⁹⁶² माल (परमात्मा दी चीजां) नाल वद्ध जावेगा उद्धार होवेगा ([रोम 10:12-13 ऐ](#)).

सारे इक शरीर च बपतिस्मा लेंदे न, मसीह दे शरीर च

मसीह सादे किन्ते मरे कि अस्सां हेक आत्मा दे नाल हेक शरीर एच बपतिस्मा धिन सगदे से, चाहे अस्सां यहूदी, यूनानी, दास, आजाद, नर, मादी, बर्बर, या सिथियाई होवे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हां कूं (यहूदी, यूनानी, ते गैर-यहूदी) कूं अपणेह खून नाल खरीदी हे.⁹⁷³ इस आसू ते, विश् वासियें गी सुअर्गे थवां कोई निशानी मंगने आलें गी नाराज नेई करना चाईदा, ते ना गै उंनै गी नाराज करना चाईदा जेके उप् पर थवां नेई उतरे दा (पृथ्वी, कुदरती ते शैतानी) नेई, ते ना गै परमेश्वर दी कलीसिया गी।

कीजे मसीह सारें च सारें शा ऐ, तां जेके इक गै आत् मा थवां पीदे हे, ओह मसीहा दे शरीर न, चाहे ओह शरीर च खतना जां खतना नेई किता जा। इस कारण पतरस ने ग् लाया के परमेश्वर पक्षपातपूर्ण नेई ऐ कीजे ओह हर गैर-यहूदी जाति गी स्वीकार करदा ऐ, जेका उंदे डरदा ऐ ते आत् मा ते त्रुत च धार्मिकता करदा ऐ ([इंठः२४ ऐ](#), [ऐ१कुरिन्थियों १०:३२](#), [ऐ१कुरिन्थियों १२:१३](#), [ऐ१कुरिन्थियों १२:२७](#), [ऐगला 3:28 ऐ](#), ऐ [क्लुसस 3:11 ऐ](#), ऐहेक [10:34 ऐ](#)).

⁹⁷³वीडियो 37. “तुस इक कीमत (इक सम्मान) कनै खरीदे गेदे ओ” विस्तार कनै।

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-खून-दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के-साथ-खरीदे-हैं/.

रहस्य दा

पौलुस तुसें गी सलाह दिदा ऐ के इस रहस्य कोला अनजान नेई रौओ जे इस्त्राएल दे किश हिस्से (इस्त्राएल दे पुत्तरे जां यहूदिये) थमां अंधता होग, जदू तकर गैर-यहूदी राष्ट्र (इस्त्राएल दे पुत्तरे नेई, गैर-यहूदी) दी पूर्णता परमात्मा दे राज्य च नेई और (मती 21:43 ऐ). सारे इस्त्राएल (आध्यात्मिक यहूदियों) गी सियोन कोला मुक्ति देने आले यीशु मसीह (१पे२:५-६ च, ऐरोम 11:25-26 ऐ).

धन्य ऐ जेड़ा प्रभु दे नां कन्ने आवै

यीशु यहूदिये (शास्त्रिये ते फरीसिये) गी पाखंडी, नाग ते सांपे दी इक पीढ़ी आखदा ऐ, कीजे ओह नबिये गी मारने आले दे पुत्तर हन, पर उनेंगी नबिये दी कबरे गी बनाया, ते धरमी लोके दी कन्न गी सजाया। यीशु उनेंगी ग् लांदा ऐ के यहूदी यीशु गी उस वेले तकर नेई दिक् खेडन, जदू तकर ओह नेई ग् लांदा हन, "धन्य ऐ ओह जेका प्रभु दे नां कन् ने औंदा ऐ", जिसदा मतलब ऐ के ओह यीशु गी नेई दिक् खी सकन, जदू तकर ओह साढ़े प्रभु दे ज्ञान च अनुग्रह च बधदे न ते...

उद्धारकर्ता यीशु मसीह गी ते प्रभु गी उंदा मुक् तिदाता दे रूप च स्वीकार करो. पर, इस बीच गैर-यहूदी जातिये दा उद्धार होग (मती 23:29-39 ऐ).

भक्ति दा रहस्य

सारे इस्त्राएल गी बचाने आस्ते, जेड़े शरीर दे हे ते परमात्मा दी महिमा कोला घट्ट हे, परमेसरे मनुख दे पुत्तर दे शरीर च प्रगट होए, परमेसरे दे पुत्तर दी आत् मा च धर्मी ठहराया गया, सुर्गदूते दे द्वारा दिक् खेया गया, गैर-यहूदी जातिये गी प्रचार किता गया. संसार ने उदे उप् पर विश् वास किता, ते उसी महिमा च लेई गया।

यीशु दे जमीन उप् पर लंबे समे तकर शिक्षा देने दे बा'द, यीशु दे इक चले (फिलिप) ने उसी (प्रभु) गी पिता गी दस् से देने आस् ते ग् लाया। यीशु ने ग् लाया के जिस चले ने मसीह गी दिक् खेया ऐ, उदे ने बी पिता गी दिक् खेया ऐ, कीजे परमेसरे मसीह च हा। इस आस् ते प्रभु च चेलें गी एह विश् वास करना चाईदा के मसीह पिता च ऐ, ते पिता मसीह च ऐ। ए ओ रेमा हे जो पिता, जो मसीह एच टिकदा हे, अपणेह पुत्र दे जरिए तुवाकुं (चले) नाल गाल करेदे (१तिमिथि ३:१६, ऐं१४:८-१० ऐ).

मसीह दा रहस्य& परमात्मा दी कृपा दा प्रबंध

परमेसरे दे अनुग्रह दा प्रबंध एह ऐ के परमेसरे पौलुस गी मसीहा दे गूढ गल् ल गी दस् सेया ऐ, जेका दुऐ पीढ़िये च मनुखे दे पुत्तरे गी नेई दस् सेया हा, पर हुन उदे पबितर प्रेरिते ते भविष्यवानी गी आत् मा दे जरिये प्रगट किता गेदा ऐ।

मनुख दे पुत्तरइस्त्राएल दे पुत्तरे जां यहूदिये गी जिनेंगी शरीर च हत्ये कन् ने खतना किता गेदा हा, उनेंगी संदर्भित करो।

- पौलुस गी दस् सेया गेदा प्रगटीकरण ए ऐ के "गैर-यहूदी जाति (यहूदी ते गैर-यहूदी, जेके शरीर दे हे ते आत् मक दृष्टिकोण कन् ने परमेसरे दी महिमा थवां कमजोर हे) गी साथी वारिस ते इक गै शरीर दे (मसीह दे) हना ते सुसमाचार दे द्वारा मसीह च उदे वादे दे हिस्सेदार (लोगोस) (जेहड़ा असंगी साझेदारी दे जरिए उद्धार च लेई जाह्य)"⁹⁷⁴(इफिस 3:1-8 ऐ).

में रहस्यगैर-यहूदी जाति प्रगट होई गे

उस रहस्य दा प्रकटीकरण जेड़ा संसार दे शुरु थवां गै छिपे दा ऐ, हुन यीशु मसीह दे प्रगट होने दे प्रचार दे मताबक विश् वास दी आज्ञा मनने दे जरिये परमेसरे दे पबितर संत लोके गी प्रगट होंदा ऐ।

संक्षेप च, गैर-यहूदी जातिये च रहस्य दी महिमा दी छिपी दी दौलत (शरीर च खतना ते खतना नेई) "तुं दे मसीह, महिम-ा दी आशा" ऐ व्यवस्था दाइस कारण, तुस गैर-यहूदी जाति परमेसरे दी दया आस् ते परमेसरे दे लोके कन् ने महिमा करदे ओतुस सारे परमेसरे दे लोके प्रभु दी स्तुति करो ते यीशु मसीह दे जरिये इकमात्र ज्ञानी परमेसरे दी महिमा करो, जिसदी महिमा हमेसा तकर हो।

आमीन (कलुस 1:26-27 ऐ, ऐरोम 16:26-27 ऐ, ऐरोम 15:9-10 ऐ).

इस्त्राएल दी इक पबित्र कौम

तुस (गैर-यहूदी कौम) परमेसरे दे लोक नेई हे, लेकन तुस हुन परमेसरे दे लोक (इस्त्राएल दे आत् मक रूप च खतना किन्ते गेदे पबितर लोक) ओ, जिनेंगी दया मिली ऐ।

तुस (गैर-यहूदी कौम जेके परमेसरे दे लोक बनी गेदे हन) इक चुनी दी पीढ़ी, इक शाही याजक, ते इक पबितर कौम जां इस्त्राएल दे इक विचित्र लोक ओ जेके न्हरे थवां परमेसरे दे अद्भुत रोशनी च सहे गेदे हे (१पीतर २:९-१०).

नमें यरूशलेम च इस्त्राएल दी कौम

नमें यरूशलेम दी गली दे बिच्च परमात्मा दे सिंहासन ते मेमने दे सिंहासन थमां इक शुद्ध नदिया निकलदी ऐ ते हर इक पाससे जीवन दा बूट्टा ऐ, जेहड़ा हर म्हीने बारह किस्म दे फल दिदा ऐ ते हर म्हीने उसी फल दिदा ऐ। ते जीवन दे बूटे दे पत्ते इस्त्राएल दे घरे च हे (अपोक 22:1-2 ऐ).

⁹⁷⁴वीडियो 31. "परमातमा दे कोल इक नासरी (सिर दे बाल)।"

- प्रभु दा वफादार ते ज्ञानी भंडारी बनो (१०/१०)

सारे गैर-यहूदी जातियें च उंदे नां कन् ने मसीहा दा प्रचार करो

मूसा दी व्यवस्था च लिखे गेदे लोगो, नबियें ते भजनें दे बारे च सारी गल्लां पूरी होनी चाहिदी। जेकर ओह तुंदी समझ गी खोलदा ऐ तां शास्त्र तुंदे आस्ते खुल्ली जांगन ([लुका २४:४४-४७](#) दा);

“मसीह गी दुख भोगना ते त्रीए दिन मरे दे लोकें चा जिंदा होना चाहिदा हा, ते यरूशलेम थमां शुरू करिये सारे गैर-यहूदी जातियें च उंदे नां कन्ने पछतावा ते पापें दी माफी दा प्रचार कीता जा” ([लुका 24:46-47](#) ऐ).

प्रचार करो दी(अंत समें) सारे गैर-यहूदी जातियें गी राज दा सुसमाचार

यीशु अपने चेलें गी ग् लांदा ऐ के मंदर दी इमारतें दा इक पत्थर जेका उंनंगी दिक् खेया ऐ, उसी नेई छड्डी दिता जाग, कीजे इमारत गी सुट्टी दिता जागा। यानी उदे सूली च चढ़ाने ते जी उठने दी घड़ी आने दे बाद इस संसार दे राजकुमार दा न्याय कीता जाग ([इंज 16:11](#) ऐ).

चेले हुन पहाडें च ते ना गै यरूशलेम च पिता दी भजन करदे हे, कीजे प्रभु गी सुअगें च लेई गेया हा ते इस चाल्ली ओह बेल दे फल नेई पींदे, पर परमसेरे दे राज च नमें सिरेआ पींदे हुन। कीजे यीशु ते उदे पिता इक गै हन, तां अस जेके यीशु मसीह दे जरिये महिमा दिती गेदे हे, ओह बी इक गै हन; इस आस् ते सच्चे उपासक आत् मा त्ने व्रुत च पिता दी भजन करदे न ([इंज २:३](#) दा).

यीशु ने अपने चेलें गी चेतावनी दिती के संसार दे अंत च धोखा नेई देओ। जदुं उदे आने दा निशान होंग, तां मते सारे उदे नां कन् ने औंदे हन ते ग् लांदे हन के, “मैं मसीह ऐं” ते लोकें गी लडाइयां ते लडाइयें दी अफवाहें गी सुनी लैना ऐ पर अंत अजें नेई ऐ। गैर-यहूदियां दी कौम इस्राएल दे कौम दे खलाफ उठी जाग, ते इस बुरे संसार दा राज सुअगें दे राज दे खलाफ उठी जाग ([2तिमथियस 4:18](#)) ते गोताखोरें दे थारें पर अकाल, महामारी ते भूचाल औंगन, जेहडे दुख दी शुरुआत ना

यीशु दे चले उदे नां दे आस् ते सारे अविश्वास दे गैर-यहूदी जातिएं कन् ने दुखी होने, मारे जाने ते नफरत करने आस् ते सौंपी दिते जाडना। संसार गी एह विश्वास करना चाईदा के परमसेरे यीशु गी भेज् जेया ऐ तांजे ओह मसीहा दे जरिये परमसेरे च इक गै होई सकना। दूजे शब्दां एच, अस्सां विश्वासियों कूं मसीह एच रहण नाल “परमेश्वर एच हेक” बणना चाहीदा हे ([मत्ती २४:३-१४](#) ऐ, [ऐमत्ती २८:१८](#) ऐ, [ऐंज 10:30](#) बजे, ऐ [इंज 17:22](#) ऐ).

जदुं सादा चरवाहा औंग, तां विश्वास आली ते बिना विश्वास दे कौम उंदे सामने कट्टे होई जाडन, ते ओह भेडें गी (वफादार कौम, परमसेरे दे पुत्तरे) गी बकरियें (अविश्वास आली जातियें, बुराई दे पुत्तरे) थवां बख करी ओइंग ([मत्ती 25:32](#) ऐ, [ऐलुका १८:८](#) ऐ).

*अधर्म दे सारे दासं गी (प्रभु दा वफादार ते ज्ञानी भंडारी बनो)

ईश्वरपैहे इस गल्ल दा खुलासा कीता **यीशु मसीह** अपने सेवक यूहन्ना गी ([अपोक 1:1](#) ऐ) अपने सेवकें गी उंनं गल् लें दा दस् सेने आस् ते जेके थोडे गै समें च होना ऐ, ते जेके धरमी दे सेवक बनने आस् ते हार मनदे हे, ओह पौलुस हे ([रोम 1:1](#) ऐ), यहूद ([जदे १:१](#) ऐ), तीतुस ([तीत 1:1](#) ऐ), सैंटियागो ([संत 1:1](#) ऐ), ते शमौन पतरस ([२पतरस १:१](#)), धर्मी दे सेवक प्रभु दे हन, इस करके ओह प्रभु दे वास्ते जींदे हन ते मरदे हन, ए जानदे होए कि मसीह जिंदे ते मरे होए दोनों ते प्रभु बनन वास्ते मर गया, जी उठया ते जिंदा होया ([अपोक 1:1](#) ऐ, [ऐरोम 6:16-17, 18](#), [रोम 14:7-9](#) ऐ).

तुस पाप दे सेवक हे, पर परमसेरे दा धनवाद ऐ के तुस पापें थवां मुक्त होई गेदे ओ, जदुं तुस उस उपदेश दे रूप गी दित थवां मनदे हे, जेका तुसंगी सौंपी दिता गेदा हा ते धार्मिकता दे सेवक बनी गो

तेरे जो बने **धर्म दे दास** जरूर **‘सारे भेडें गी पोशित करो, जिंदे उप्पर पवित्र आत्मा ने तुसं गी निरीक्षक बनाया ऐ, तां जे परमात्मा दी कलीसिया गी चराई सके, जेड़ी उने अपने खून कन्ने खरीदी ऐ’** ([हेक 20:28](#) ऐ).

पोषक झुंडमतलब हिस्सा लैना **“मसीह दे शरीर दा साझेदारी (१कुरिन्थियों १०:१६, ऐ १कुरिन्थियों ११:२४),”** जेका प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु दी याद च लोकें दे सामने किता ([हेक 27:35-37](#) ऐ).

बीई तैयार, ऐमनुख दा पुत्र एक छोटे नय आमेगा जो आनको उम्भीद नशीी शै; सो, **यीशु** तुझे कह रहा है,

→ **“प्रभु दा वफादार ते ज्ञानी भंडारी कौन ऐ, जिसदे लेई प्रभु अपने घरे दे भंडारी गी शासक बनाग उचित मौसम च उंनंगी मांस दा हिस्सा देओ?”** ([लुका १२:३६-४२](#) ऐ).

*अगर तुस पैहले रैचर गी छड्डी ओइदे ओ तां एह करो

यीशु ओह दरवाजा ऐ, जिसदे राहें कोई मसीह च दाखल होई सकदा ऐ

तुसें गी मनुखें दे समान होना चाहिदा जेहडे अपने रब दे ब्याह थमां वापस औने दा इंतजार करदे न तां जे ओह फौरन दरवाजा खोली लैन जिसलै ओह आवै ते खटखटांदा ऐ ([लुका12:36 ऐ](#), [ऐअपोक 3:20 च](#)).

सुनने वाले मर्दप्रभुभेड़ें हैं, ते भेड़ें दा दरवाजा ऐयीशु(या परमात्मा दे लोगो), ते दरवाजे च दाखल होने आली भेड़ें ([मसीह](#)) बचाई लैगन कीजे ओह अंदर-बाह र जाइयै चारागाह पाडन जित्थें उनेंगी भरपूर जीवन मिलग ([परमात्मा दा रेमा](#)).⁹⁷⁵तो, प्रभू दी आवाज सुनो ते दरवाजा खोलो तां जे...[मसीह](#)प्रवेश कर देगा (अपने दिल विच) ते तुहाडे नाल सप करो, ते तुसीं उस नाल सप करोगे, जो तुहाडे विच लोगो नू रेमा विच बदल देगा।⁹⁷⁶

ओह फिरी चोर दे रूप च जरूर औग, इस करी अपना कपडा (खून च डुबकी जाए दे कपडे =...[लोगो दापरमात्मा दा, अपोक 19:13 ऐ](#)) दे आने तकप्रभुतेउद्धारकर्ता यीशु मसीह([अपोक 16:15 ऐ](#)).

→“धन्य हे जो प्रभु दे नाम नाल आन्दा हे” ([मत्ती 23:39 ऐ](#)), तां प्रभु दा इंतजार करो, [परइस बीच](#), [न लेओ “जानवर दा निशान” पर “मरने गी तैयार होओ”](#) उदे नां आस्ते ते अनन्त स्वर्ग च दाखल होओ.

प्रभू ने तुहाडे वास्ते फिर आण दा वादा कित्ता सी, इस करके उन्हा दे वापस आण वास्ते तैयार रहो।

⁹⁷⁵वीडियो 27. “मांस, आत्मा, ते आत्मा”

www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-खून दा-क्षेत्र-एक-कब्जा-तुस-एक-कीमत-एक-सम्मान-के साथ-खरीदे है/.

⁹⁷⁶वीडियो 30. “कम्यूनियन दा” www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-द-कम्यूनियन/ ऐ.

बीग्रंथसूची

नीले अक्षर बाइबल। स्ट्रॉंग दा ग्रीक कोश (kjv)|www.bluetterbible.org पर ऐ.

मदद मंत्रालयें दा हल्था द मैसेज फॉर अमेरिका।<https://www.handofhelp.com/>विजन 1.पीएचपी पर ऐ.

गीत, क्लेयर एचसी। प्रभु दा रेमा (वीडियो #1 तों #49 तक)|www.therhemaofthelord.com पर ऐ.

संयुक्त राष्ट्र ने दी। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2015. (2016)। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट चा
<https://doi.org/10.18356/6cd11401-en> पर ऐ.

मानवीय मामलें दे समन्वय आस्तै संयुक्त राष्ट्र दा दफतर - कब्जा कीता गेदा फिलीस्तीनी इलाका | 700 तों वी वद्ध रोड
पश्चिमी तट दे अंदर फिलीस्तीनी आंदोलन गी नियंत्रित करने आह्लियां बाधाएं. 8 अक्टूबर, 2018 दी।
<https://www.ochaopt.org/content/700-ओवर-सड़क-बाधा-नियंत्रण-फिलिस्तीनी-आन्दोलन-पश्चिम-बैंक-भीतर#:~:text=पश्चिम%20बैंक%20बाधा%20प्रकार,%2C%20पृथ्वी%20दीवारें%20सी%20आदि>).

मानवीय मामलें दे समन्वय आस्तै संयुक्त राष्ट्र दा दफतर। अप्रैल 2004 दी अपडेट रिपोर्ट। इजराइल दे जुदाई दा इम्पेच
प्रभावित पश्चिमी तट दे समुदायें पर बाधा - फिलीस्तीन दा सवाल. 12 मार्च, 2019 दी।
<https://www.un.org/unispal/dस्तावेज/ऑटो-इंसर्ट-199846/> दा.

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (nd), क्षेत्रीय समूहीकरण - एसडीजी संकेतका।
<https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/क्षेत्रीय-समूह/> दा.

विकिपीडिया। इजरायली पश्चिमी तट दी बाधा। 29 जुलाई, 2023 दी।https://en.wikipedia.org/wiki/इजराइली_वेस्ट_बैंक_बैरियर.